

स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा

संस्थापित

भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला

संस्कृत ग्रन्थाङ्क २०

इस ग्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोंकी सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित होंगे।

ग्रन्थमाला सम्पादक
डॉ. हीरालाल जैन,
एम० ए०, डी० लिट्०
डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये,
एम० ए०, डी० लिट्०



प्रकाशक
अयोध्याप्रसाद गोयलीय
मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ
दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी

मुद्रक—बाबूलाल जैन फागुल्ल, सन्मति मुद्रणालय, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी

स्थापनाव्द
फाल्गुन कृष्ण ६
वीर नि० २४७०

सर्वाधिकार सुरक्षित

विक्रम सं० २०००
१८ फरवरी सन् १९४४



स्वर्गीय मूर्तिदेवी. मातंग्वरी माहू शालिग्राम जैन

JÑĀNAPĪTHA MŪRTIDEVĪ JAIN GRANTHAMĀLĀ
SAMSKRIT GRANTHA NO. 20

PADMAPURĀṆA

-Vol. I

OF

RAVISENACĀRYA

WITH

HINDĪ TRANSLATION



Editor

Pandit, PANNĀLĀL JAIN Sahityacharya

Published by

BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA KĀSHĪ

First Edition }
1100 Copies }

SHRAVANA VIRA SAMVAT 2484
VIKRANA SAMVAT 2014
JULY 1958

{ Price
{ Rs. 10/-

BHARĀTĪYA JÑĀNAPĪTHA Kāshi

FOUNDED BY

SĀHU SHĀNTI PRASĀD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRĪ MŪRTI DEVĪ

**BHĀRĀTĪYA JÑĀNAPĪTHA MŪRTI DEVĪ
JAIN GRANTHAMĀLĀ**

SAMSKRIT GRANTHA NO. 20

IN THIS GRANTHAMĀLĀ CRITICALLY EDITED JAIN ĀGAMIC PHILOSOPHICAL,
PAURĀNIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRĀKRIT, SAMSKRIT, APABHRANSHA, HINDI,
KANNADA AND TAMIL ETC, WILL BE PUBLISHED IN
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS STUDIES OF COMPETENT
SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE WILL ALSO BE PUBLISHED

General Editors

Dr Hiralal Jain M A , D Litt
Dr. A. N. Upadhye M. A , D. Litt.

Publisher

Ayodhya Prasad Goyal
Secy , Bharatiya Jnanapitha
Durgakund Road, Varanasi



Founded in
Phalguna Krishna 9.
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved

Vikrama Samva 2000
18 Febr. 1944.

सम्पादकीय

रामकथा भारतीय साहित्यका सबसे अधिक प्राचीन, व्यापक, आदरणीय और रोचक विषय रहा है। यदि हम प्राचीन संस्कृत प्राकृत साहित्यको इस दृष्टिसे मापें तो सम्भवतः आवेसे अधिक साहित्य किसी न किसी रूपमें इसी कथासे सम्बद्ध, उद्भूत या प्रेरित पाया जायगा। वैदिक परम्परामें वाल्मीकिकृत रामायण प्राचीनतम काव्य माना जाता है। उस परम्पराका उत्कृष्टतम महाकाव्य कालिदासकृत 'रघुवश' है जिसका विषय वही राम-कथा है। और महाकवि भवभूतिके दो उत्कृष्ट नाटक 'महावीर चरित' और 'उत्तर-राम-चरित' भी पूर्णतः रामकथा विषयक ही हैं। बौद्ध-परम्परामें यद्यपि इस कथाका उतना विस्तार हुआ नहीं पाया जाता, तथापि पार्श्व-साहित्यके सुप्रसिद्ध 'जातक' नामक विभाग की 'दसरथ जातक' में यह कथा वर्णित है। और उसमें भगवान् बुद्धका ही जन्मान्तर राम पण्डितके रूपमें माना गया है। यह कथा संनिप्त है और बहुत अंशमें अपने ढंगकी विलक्षण भी है। इसकी सबसे बड़ी विलक्षणता है राम और सीता दोनोंको भाई बहिन मानना व दोनोंका वनवाससे लौटनेके पश्चात् विवाह होना। जिस वंशमें भगवान् बुद्ध उत्पन्न हुए थे, उस शाक्य-वंशमें भाई-बहिनके विवाह होनेकी प्रथाके उल्लेख मिलते हैं। मिश्र आदि सेमेटिक जातियोंमें भी इस कथाका बहुत प्रचार रहा है। जैन पुराणोंके अनुसार भोगभूमियोंमें सहोदर भाई-बहिनके विवाहकी स्थिर प्रणाली रही है।

जैन परम्परामें रामको त्रेपठ शलाकापुरूपोंमें वासुदेवके रूपमें गिना गया है और उनके जीवन चरित्र सम्वन्धी बड़े-बड़े पुराण भी रचे गये हैं। रामका एक नाम पद्म भी था और जैन पुराणोंमें उनका यही नाम अधिक ग्रहण किया गया है।

राम कथा सम्वन्धी सबसे प्राचीन जैन पुराण संस्कृतमें रविपेण कृत पद्मपुराण, प्राकृतमें विमलसूरि कृत पउम-चरिय और अपभ्रंशमें स्वयभूकृत 'पउम-चरिउ' हैं। यह चरित्र जिनसेन गुणभद्रकृत संस्कृत महापुराणमें, पुष्पदन्त कृत अपभ्रंश महापुराणमें और हेमचन्द्र कृत संस्कृत त्रिपट्टि शलाका पुरुष चरितमें भी पाया जाता है। कथा की समता विषमता को दृष्टिसे इस साहित्यको हम दो श्रेणियोंमें विभाजित कर सकते हैं। एक श्रेणीमें है विमलसूरि, रविपेण, स्वयभू और हेमचन्द्रकी रचनाएँ और दूसरी श्रेणीमें गुणभद्र और पुष्पदन्तकी रचनाएँ। इस दूसरी श्रेणीकी रचनाओं की प्रथमसे सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि वे रामके पिता दशरथको बनारसके राजा मानकर चलते हैं तथा सीताको रावणकी रानी मन्डोदरीके गर्भसे उत्पन्न बतलाते हैं। यह मान्यता-भेद क्यों उत्पन्न हुआ यह एक अध्ययनका विषय है।

रामकथा विषयक जो दो सबसे प्राचीन और महान् रचनाएँ संस्कृतमें रविपेणाचार्य कृत पद्मपुराण और प्राकृतमें विमलसूरि कृत पउमचरिय—हैं, उनके विषयमें अनेक चिन्तनीय बातें उत्पन्न होती हैं। दोनोंका कथानक सर्वथा एक ही है। यही नहीं, दोनोंको परस्पर मिलाकर देखनेसे इसमें किसीको कोई सन्देह नहीं रहता कि वे एक दूसरेके भापात्मक रूपान्तर मात्र हैं। किसने किसका अनुवाद किया है, यह उनके रचनाकाल क्रमसे जाना जा सकता था। किन्तु इस विषयमें एक कठिनाई उठ खड़ी हुई है। रविपेणने अपनी रचना वि० सं० ७३३ में समाप्त की

थी। इसका ग्रन्थमे ही उल्लेख है और उसपर किसीको कोई सन्देह नहीं है। किन्तु विमलसूरिने अपनी कृतिकी समाप्तिका जो काल—वि० सं० ६० सूचित किया है उसे डॉ० विण्टर्नीजने तो स्वीकार किया है, किन्तु अन्य बहुतसे विद्वान् उसे माननेको तैयार नहीं हैं। जर्मन विद्वान् डॉ० हर्मन जैकोवी, जिन्होंने इस ग्रन्थका सर्व प्रथम सम्पादन किया, ने अपना यह सन्देह प्रकट किया कि इस ग्रन्थमे प्राकृत भाषाका जो स्वरूप प्रकट हुआ है और उसमे कहीं कहीं जिन विशेष शब्दोंका प्रयोग किया गया है, उससे यह रचना विक्रमकी प्रथम शताब्दीकी नहीं किन्तु उसकी तीसरी चौथी शताब्दीकी प्रतीत होती है। डॉ० बुलनरके मतानुसार तो यह ग्रन्थ अपनी कुछ शब्दरचनासे अपभ्रंश कालका संकेत करता है। पं० केशवलाल ध्रुवने इस ग्रन्थमे प्रयुक्त विभिन्न छन्दोंका अध्ययन किया है जिससे उनका मत भी डॉ० बुलनरके मतकी ओर झुकता है। तात्पर्य यह कि प्राकृत पउमचरियके रचनाकालके सम्बन्धमे सन्देह और विवाद है। निश्चित केवल इतना ही है कि उद्योतन सूरिने अपनी जिस कुवलयमाला नामक कृतिको शक संवत् ७०० = वि० सं० ८३५ मे समाप्त किया था, उसमें रविपेणकी रचनाका भी उल्लेख है और पउमचरियका भी। अतएव निश्चित इतना ही कहा जा सकता है कि पउमचरिय वि० सं० ८३५ से पूर्वकी रचना है।

इस काल-सूचनासे पद्मपुराण और पउमचरियकी रचनाका पूर्वापरत्व अनिर्णीत रह जाता है। अतएव यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि किसने किसका अनुवाद किया। इसका कुछ विचार पं० नाथूरामजी प्रेमीने अपने एक लेखमे किया था जो 'पद्मचरित और पउमचरिय' शीर्षकसे सन् १९४२ मे अनेकान्त, वर्ष ५, किरण १-२ मे और तत्पश्चात् उनके 'जैन साहित्य और इतिहास' [प्रथम संस्करण १९४२, द्वि० सं० १९५६] के अन्तर्गत प्रकाशित है। प्रेमीजी ने उक्त विषयक जो अनेक महत्त्वपूर्ण बातें बतलाई हैं उनका उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थके सम्पादकने अपनी प्रस्तावनामे किया है। किन्तु जो महत्त्वपूर्ण चर्चा प्रेमीजीने अपने लेखमे उक्त दोनों ग्रन्थोंके पूर्वापरत्वके सम्बन्धमे कुछ प्रकाश डालनेवाली की है, उसको यहाँ सर्वथा भुला दिया गया है। संक्षेपमे, प्रेमीजीने तीन बातें बतलाई हैं। एक तो यह कि प्राकृतसे संस्कृतमे अनुवादके तो प्राचीन जैन साहित्यमे बहुत उदाहरण मिलते हैं, किन्तु संस्कृतसे इतने बड़े पैमानेपर प्राकृतमे अनुवादके कोई उदाहरण नहीं मिलते। दूसरे वर्णनमे पउमचरियमें संक्षेप और पद्मपुराणमे विस्तार पाया जाता है। और तीसरे 'माहण' [ब्राह्मण] की उत्पत्तिके सम्बन्धकी जो कथा रविपेणके पद्मपुराण [४, १२२] मे पाई जाती है, उससे उसके प्राकृत स्रोतका ही अनुमान होता है, क्योंकि माहण शब्द प्राकृतका है और उसीकी एक व्युत्पत्ति प्राकृत उक्ति 'माहण' मत भारोसे सार्थक बैठ सकती है जैसा कि प्राकृत पउमचरियमे पाया जाता है। संस्कृतमे 'माहण' शब्दको कहीं स्वीकार नहीं किया गया और न रविपेणके सम्प्रदाय व परम्परामे इस शब्दका कोई प्रयोग पाया जाता। इसके विपरीत प्राकृत जैन आगम ग्रन्थोमे इस शब्दका बहुत अधिक प्रयोग पाया जाता है। इससे हमें यही मानना पड़ता है कि रविपेणाचार्यने इसे पउमचरियके आधारसे जैसाका तैसा संस्कृतमे रख दिया है। यह विषय दृष्टिके ओझल करने योग्य नहीं किन्तु विशेष ध्यान देकर और अधिक अध्ययन करने योग्य है।

दोनों ग्रन्थोंके परस्पर तुलनात्मक अध्ययनकी एक दिशा यह भी है, कि जब रविपेणकी कृति सोलहो आने दिग्म्बर परम्पराकी है, तब विमलसूरिके पउमचरियकी साम्प्रदायिक व्यवस्था क्या है। कुछ विद्वानोंने इस दृष्टिसे पउमचरियका अध्ययन किया है। परिणामतः ग्रन्थमे कुछ बातें ऐसी हैं जो दिग्म्बर परम्पराके अनुकूल हैं, कुछ श्वेताम्बर परम्पराके और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो दोनोंके प्रतिकूल होकर सम्भवतः किसी तीसरी ही परम्पराकी ओर संकेत करती हैं। इनका उल्लेख प्रस्तावनामे आ गया है।

उनके अतिरिक्त जो नई बातें हमारी दृष्टिमें आई हैं वे निम्न प्रकार हैं —

१. पञ्च-चरिय २, २२ में भगवान् महावीरको त्रिशलादेवीकी कृष्णसे आये कहा गया है। यथा—

दस्स य बहुगुणकलिया भज्जा तिसह्जात्ति रुव-संपन्ना ।

तीण्ण गम्भम्मि जिणो आयाओ चरिम समयम्मि ॥ २, २२

यह बात दिग्म्बर परम्पराके पूर्णतः अनुकूल है, किन्तु श्वेताम्बर परम्परासे आशिक रूपसे ही मिलती है, क्योंकि वहाँ भगवान्के देवानन्दार्की कृष्णमें आनेका भी उल्लेख है।

२. पञ्च-चरिय २, ३६-३७ में भगवान् महावीरके केवलज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात् उपदेश करते हुए विहारकर विपुलाचल पर्वतपर आनेकी बात कही गई है। यथा —

एव मो मुणि-व्रमहो अट्ट-महा-पाडिहेर-परिचरिओ ।

विहरइ जिणिंठ-भाणू बोहिन्तो भविय-कमलाड ॥

अडसय-विद्दइ सहिओ गण-गणहरमयल-मव-परियरिओ ।

विहरन्तो निचय पत्तो विडल-गिरिड महावीरो ॥ २, ३६-३७

यह बात श्वेताम्बर मान्यताके अनुकूल पड़ती है और दिग्म्बर मान्यताके प्रतिकूल, क्योंकि, यहाँ यह माना गया है कि केवलज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात् भगवान् छयामठ दिन तक मौन पूर्वक विहार करते हुए ही विपुलाचल पर्वतपर आये थे और यहीं उनको सर्वप्रथम उपदेश हुआ था।

पञ्च-चरिय ३, ६२ में ऋषभ भगवान्के जन्मसे पूर्व उनकी माता मरुदेवीके स्वप्नोंका उल्लेख है। यहाँ स्वप्नोंकी गणना प्रेमीजीने तथा प्रस्तुत ग्रन्थके सम्पादकने पन्द्रह लगाकर उसे श्वेताम्बर दिग्म्बर दोनों मान्यताओंसे पृथक् कहा है। किन्तु यथार्थतः ऐसी बात नहीं है। जिन भगवान्की माताके स्वप्नोंका प्रसंग ग्रंथमें एक स्थानपर और आता है जहाँ तीर्थङ्कर मुनि सुव्रतनाथके जन्मका वर्णन है। राम उन्हींके तीर्थकालमें हुए माने गये हैं। यह स्वप्नोंका उल्लेख निम्न प्रकार है:—

अह सा सुहं पसुत्ता रयणीण्ण पच्छिमम्मि जामम्मि ।

पेच्छइ चट्टम्म सुमिणे पसत्थ-जोगेण कल्लाणी ॥ २१, १२

गय-वसह-सीह-अभियेयदाम-ससि-विणयरं ऋय कुमं ।

पटमवर-सागर-विमाण-भवण-रयणुच्चय-मिहि च ॥ २१, १३

यहाँ ग्रन्थकारने स्वयं कह दिया है कि माताको चौदह स्वप्न हुए थे जो उन्होंने गिना भी दिये हैं। इनमें और मरुदेवीके स्वप्नोंमें यदि कोई भेद है तो केवल इतना ही कि यहाँ जो अभियेक दाम कहा गया है वही वहाँ 'वरसिरि-दाम' रूपसे उल्लिखित है। इसे पूर्वोक्त विद्वानोंने लक्ष्मी और पुष्पमाला ऐसा पृथक् दो स्वप्न मानकर स्वप्नोंकी संख्या पन्द्रह निकाली है। किन्तु मुनिसुव्रतनाथके जन्म समयके स्वप्नोंके उल्लेखसे सुस्पष्ट हो जाता है कि 'वरश्रीदाम' और 'अभियेकदाम' एक ही शोभायुक्त या अभियेक योग्य पुष्पमालाका वाची होकर स्वप्नोंकी संख्या को चौदह ही सिद्ध करता है। पञ्च-चरिय २१, १३ में स्वप्नोंकी गिनानेवाली गाथा ठीक वही है जो 'छठे श्रुतांग गायाधम्मकहाओ' (१, १) में भी पाई जाती है। इन स्वप्नोंका जब हम पद्मपुराण (३, १२४-१३६) में उल्लिखित स्वप्नोंसे मिलान करते हैं तब स्वप्नोंका क्रम ठीक वही होते हुए जो संख्या व नामोंमें भेद उत्पन्न करने वाले स्थल हैं वे एक तो वही 'वरश्रीदाम' वाला जहाँ श्रीलक्ष्मी और पुष्पमालाएँ ऐसे दो स्वप्न हो गये हैं। दूसरे जहाँ 'भयं' (ध्वज) का उल्लेख है वहाँ 'मत्त्यं' (मछली) का पाया जाना भ्रा (मछली) और भय (ध्वज) के

पाठभेद या भ्रान्तिको सूचित करता है। एवं सागर और विमानके बीच 'सिंहासन' अधिक आया है। हमें प्रतीत होता है कि न्वर्णोंके नामों और संख्याका भेद ऐसा ही तो न हो जैसा न्वर्णों की १२ और १६ की संख्याको किसी समय सम्प्रदाय भेद सूचक माना जाता था, किन्तु तिलोपपण्णत्तिमें दोनोंका उल्लेख साथ-साथ मिल जानेसे अब वह सम्प्रदाय भेदका सूचक नहीं माना जाता। इस विषयपर विचार किये जानेकी आवश्यकता है।

पलमचरियके कर्ताके सम्प्रदायके सन्वन्धमें प्रेमीजीकी यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इस कथानकका अनुसरण करनेवाले अपभ्रंज कवि न्वयंभूको एक प्राचीन टिप्पणकारने यापुर्लीय (यापनीय) संबका कहा है। आश्चर्य नहीं जो विमलसूरि उसी परम्पराके हों। यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि यापनीय सम्प्रदायका प्रायः पूर्णतः विलीनीकरण दिगन्वर सम्प्रदायमें हुआ है और यह बात शिलालेखोंसे प्रमाणित है।

पद्मपुराणका यह संस्करण अनुवाद सहित तैयार करनेमें पं० पन्नालालजी साहित्याचार्यने जो परिश्रम किया है वह प्रशंसनीय है। इधर जिस तीव्र गतिसे यह प्राचीन साहित्य बड़े सुन्दर ढंगसे जानपीठ द्वारा प्रकाशित हो रहा है, उसके लिए जानपीठकी अध्यक्षता श्रीमती रमारानीजी का हम विशेष रूपसे अभिनन्दन करते हैं। जानपीठके मन्त्री व सञ्चालक आदि कार्यकर्ताओंको भी हम उनकी तत्परताके लिए हृदयसे धन्यवाद देते हैं।

हीरालाल जैन

आ० ने० उपाध्ये

ग्रन्थमाला सम्पादन

प्रस्तावना

पद्मचरितका सम्पादन निम्नाङ्कित प्रतियोंके आधारपर किया गया है—

[१] 'क' प्रतिका परिचय—

यह प्रति दिगम्बर जैन सरस्वती भंडार धर्मपुरा, देहली की है। श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीके सत्प्रयत्नसे प्राप्त हुई है। इसमें १२×६ इञ्चकी साईजके २४६ पत्र हैं। प्रारम्भमें प्रतिपत्रमे १५-१६ पंक्तियां और प्रतिपङ्क्तिमे ४० तक अक्षर हैं पर बादमे प्रतिपत्रमे २४ पंक्तियां और प्रतिपंक्तिमे ५७-५८ तक अक्षर हैं। अधिकांश श्लोकोके अङ्क लाल स्याहीमें दिये गये है पर पीछेके हिस्सेमें सिर्फ काली स्याहीका ही उपयोग किया गया है। इस पुस्तककी लिपि पौषवदी ७ बुधवार संवत् १७७५ को भुसावर निवासी श्री मानसिंहके पुत्र सुखानन्दने पूर्ण की है। पुस्तकके लिपिकर्ता संस्कृत भाषाके ज्ञाता नहीं जान पड़ते हैं इसलिए भाषाकी बहुत कुछ अशुद्धियाँ लिपी करनेमे हुई हैं। इस पुस्तकके अन्तमे निम्न लेख पाया जाता है—

‘इति श्रीपद्मपुराणसंपूर्ण भवतः । लिख्यतं सुखानन्द मानसिंहसुत वासी सुयान भुसावरके मोत्र वैनाढा लिपि लिखी सुग्राने मधि संवत् सत्रैसै पचहत्तर मिति पौषवदी सप्तमी बुधवार शुभ कल्याण ददातु । जाइसी पुस्तक दृष्टा ताइसी लिखित मया । जादि शुद्धमशुद्ध वा मम दोषो न दीयते ॥१॥ सज्जनस्य गुण ग्राह्य दोषतित्त गुणार्णवम् । अयं शुद्ध कृत तस्य मौञ्जसौख्यप्रदायकम् ॥२॥ जो कोई पढ़ै सुनै त्याहनै म्हारौ श्री जिनाय नमः । सज्जन ऐही वानतो साधर्मा सों प्यार । देव धर्म गुरु परखेकें सेवो मन वच सार ॥ देव धरम गुरु जो लखें ते नर उत्तम जान । सरधा रुचि परतीति सौ सो जिय सम्यक् वान ॥ देव धरम सू परखिये सो है सम्यकवान । दर्शन गुण ग्रह भादि ही ज्ञान अग रुचि मान ॥ चारित अधिकारी कहो मोच रूप त्रय मान । सज्जन सो सज्जन कहै एहू सार तव जान ॥ निश्चै अरु व्यवहार नय रत्नत्रय मन खान । अप्पा दसन नानमय चारितगुन अप्पान । अप्पा अप्पा जोइये ज्यों पावै नियनि शुभमस्तु । इस प्रतिका साङ्केतिक नाम ‘क’ है ।

[२] 'ख' प्रतिका परिचय—

यह प्रति श्री दि० जैन सरस्वती भवन पंचायती मन्दिर मसजिद खजूर देहलीकी है। श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीके सौजन्यसे प्राप्त हुई है। इसमे ११×५ इञ्चकी साईजके ५१० पत्र हैं। प्रतिपत्रमे १४ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्तिमे ४०-४१ तक अक्षर हैं। पुस्तकके अन्तमें प्रति लिपि संवत् तथा लिपिकर्ताका कुछ भी उल्लेख नहीं है। इस प्रतिके बीच-बीचमें कितने ही पत्र जीर्ण हो जानेके कारण अन्य लेखकके द्वारा फिरसे लिखाकर मिलाये गये हैं। प्राचीन लिपि प्रायः शुद्ध है पर जो नवीन पत्र मिलाये गये हैं उनमें अशुद्धियाँ अधिक रह गई है। इस प्रतिके प्रारम्भमें १-२ श्लोकोकी संस्कृत टीका भी दी गई है। इस प्रतिका सांकेतिक नाम ‘ख’ है।

[३] 'ज' प्रतिका परिचय—

यह प्रति श्री अतिशय क्षेत्र महावीर जी की है। श्रीमान् पं० चैनसुखदासजीके सौजन्यसे प्राप्त हुई है। इसमें १२×५ साईजके ५५४ पत्र हैं। प्रतिके कागजकी ओर दृष्टि देनेसे पता चलता है कि यह प्रति बहुत प्राचीन है परन्तु अन्तमें लिपिका संवत् और लिपिकारका कोई

परिचय उपलब्ध नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि इस प्रतिके अन्तका एक पत्र गुम हो गया है अन्यथा उसमें लिपि संवत् वगैरहका उल्लेख मिल जाता। पुस्तककी जीर्णताके कारण प्रारम्भमें ४४ पत्र नये लिखकर लगाये गये हैं। इन ४४ पत्रोंमें प्रतिपत्रमें १३ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्तिमें ४० से ४५ तक अक्षर हैं। प्राचीन पत्रोंमें १२ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्तिमें ३५ से ३८ तक अक्षर हैं। अधिकांश लिपि शुद्ध की गई है। इस प्रतिमें भी 'ख' प्रतिके समान प्रारम्भके १-२ श्लोकोंकी संस्कृत टीका दी गई है। इस प्रतिका सांकेतिक नाम 'ज' है।

[४] 'व' प्रतिका परिचय—

यह पुस्तक पं० धन्नालाल ऋषभचन्द्र रामचन्द्र बम्बईकी है। इस पुस्तकमें १३×६ इञ्चकी साईजके २६५ पत्र हैं। प्रतिपत्रमें १६ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्तिमें ५५ से ६० तक अक्षर हैं। लिपिके संवत् और लिपिकारका उल्लेख अप्राप्त है। पर जान पड़ता है कि लिपिकर्ता संस्कृत भाषाका जानकार था इसलिए लिपि सम्बन्धी अशुद्धियाँ नहीं केवरावर हैं। प्रायः सब पाठ शुद्ध अङ्कित किये गये हैं। बीच-बीचमें कठिन स्थलोंपर टिप्पण भी दिये गये हैं। इस संस्करणके संपादनमें इस पुस्तकसे अधिक सहायता प्राप्त हुई है। इसका सांकेतिक नाम 'व' है।

[५] टिप्पण प्रतिका परिचय—

यह प्रति श्री दि० जैन सरस्वती भण्डार धर्मपुरा दिल्लीकी है। श्री पं० परमानन्दजीके सौजन्यसे प्राप्त हुई है। यह टिप्पणकी प्रति है। इसमें १०×५ इञ्चकी साईजके ५८ पत्र हैं। बहुत ही संक्षेपमें पद्मचरितके कठिन स्थलोंपर टिप्पण दिये गये हैं। इस पुस्तककी लिपि पौष वदी ५ रविवार संवत् १८६४ को पूर्ण हुई है। लश्करमें लिखी गई है। किसने लिखी? इसका उल्लेख नहीं है। इसकी रचनाके विषयमें अन्तमें लिखा है—

'लाट वागड़ श्री प्रवचन सेन पण्डितान् पद्मचरितं समाकर्ण्य बलात्कारण श्रीनन्दाचार्य सत्त्व-शिष्येण श्रीचन्द्रमुनिना श्रीमद्विक्रमादित्यसम्बत्सरे सप्ताशीत्यधिकसहस्र (परिमित) श्रीमद्दारायां श्रीमतो राज्ये भोजदेवस्य पद्मचरिते'।

अर्थात् राजा भोजके राज्यकालमें संवत् १०८७ में धारानगरीमें श्रीनन्दी आचार्यके शिष्य श्रीचन्द्र मुनिने इस टिप्पणकी रचना की है। लिपिकर्ताकी असावधानीसे लिपि सम्बन्धी अशुद्धियाँ बहुत हैं।

[६] 'म' प्रतिका परिचय—

यह प्रति श्री दानवीर सेठ माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बईसे श्रीसाहित्यरत्न पण्डित द्रवारीलालजी न्यायतीर्थ (स्वामी 'सत्यभक्त' वरधा) के द्वारा सम्पादित होकर तीन भागोंमें विक्रम संवत् १६८५ में प्रकाशित हुई है। इसका संपादन उक्त पण्डितजीने किन प्रतियोंके आधारपर किया यह पता नहीं चला पर अशुद्धियाँ अधिक रह गई हैं। इसका सांकेतिक नाम 'म' है।

इन प्रतियोंके पाठभेद लेने तथा मिलान करनेपर भी जहाँ कहीं सन्देह दूर नहीं हुआ तो मूडविद्रीमें स्थित ताड़ पत्रीय प्रतिसे पं० के० भुजवली शास्त्री द्वारा उसका मिलान करवाया है। इस तरह यह संस्करण अनेक हस्तलिखित प्रतियोंसे मिलान कर सम्पादित किया गया है।

संस्कृत साहित्य सागर—

संस्कृत साहित्य अगाध सागरके समान विशाल है। जिस प्रकार सागरके भीतर अनेक रत्न विद्यमान रहते हैं उसी प्रकार संस्कृत साहित्य-सागरके भीतर भी पुराण, काव्य, न्याय, धर्म, व्याकरण, नाटक, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि अनेक रत्न विद्यमान हैं। प्राचीन संस्कृतमें ऐसा आपको विषय नहीं मिलेगा जिस पर किसीने कुछ न लिखा हो। अजैन संस्कृत साहित्य तो विशालतम है ही परन्तु जैन संस्कृत साहित्य भी उसके अनुपातमें अल्पपरिमाण होने पर भी उच्चकोटिका है। जैन साहित्यकी प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें वस्तु स्वरूपका जो वर्णन किया गया है वह हृदयस्पर्शी है, वस्तुके तथ्यांशको प्रतिपादित करनेवाला है और प्राणिमात्रका कल्याण कारक है।

रामकथा साहित्य—

मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र इतने अधिक लोकप्रिय पुरुष हुए हैं कि उनका वर्णन न केवल भारतवर्षके साहित्यमें हुआ है अपितु भारतवर्षके बाहर भी सम्मानके साथ उनका निरूपण हुआ है और न केवल जैन साहित्यमें ही उनका वर्णन आता है किन्तु वैदिक और बौद्ध साहित्यमें भी साङ्गोपाङ्ग वर्णन आता है। संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश आदि प्राचीन भाषाओं एवं भारतकी प्रान्तीय विभिन्न भाषाओंमें इसके ऊपर उच्चकोटिके ग्रन्थ लिखे गये हैं। न केवल पुराण अपितु काव्य-महाकाव्य और नाटक-उपनाटक आदि भी इसके ऊपर अच्छी संख्यामें लिखे गये हैं। जिस किसी लेखकने रामकथाका आश्रय लिया है उसके नीरस वचनोंमें भी राम-कथाने जान डाल दी है। इसका उदाहरण भट्टि काव्य विद्यमान है।

रामकथा की विभिन्न धाराएँ—

हिन्दू बौद्ध और जैन—इन तीनों ही धर्मावलम्बियोंमें यह कथा अपने-अपने ढंगसे लिखी गई है और तीनों ही धर्मावलम्बी रामको अपना आदर्श-महापुरुष मानते हैं। अभी तक अधिकांश विद्वानोंका मत यह है कि रामकथाका सर्वप्रथम आधार वाल्मीकि रामायण है। उसके बाद यह कथा महाभारत, ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, अग्निपुराण, वायुपुराण आदि सभी पुराणोंमें थोड़े बहुत हेर-फेरके साथ संचेपमें लिपिबद्ध की गई है। इसके सिवाय अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, अद्भुतरामायण नामसे भी कई रामायण ग्रन्थ लिखे गये। इन्हींके आधारपर तिव्वती तथा खोतानी रामायण, हिन्देशियाकी प्राचीनतम रचना 'रामायण काकाविन', जावाका आधुनिक 'सेरत राम' तथा हिन्दचीन, श्याम, ब्रह्मदेश एवं सिंहल आदि देशोंकी राम कथाएँ भी लिखी गई हैं। वाल्मीकि रामायणकी रामकथा सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसलिए उसे अंकित करना अनुपयुक्त है। हाँ, अद्भुत रामायणमें सीताकी उत्पत्तिकी जो कथा लिखी है वह निगली है अतः उसे यहाँ दे रहा हूँ। उसमें लिखा है कि ढण्डकारण्यमें गृत्समद नामके एक ऋषि थे। उनकी स्त्रीने उनसे प्रार्थना की कि हमारे गर्भसे साक्षात् लक्ष्मी उत्पन्न हो। स्त्री की प्रार्थना सुनकर ऋषि प्रतिदिन एक घड़ेमें दूधको आमन्त्रित कर रखने लगे। इसी समय वहाँ एक दिन रावण आ पहुँचा, उसने ऋषिपर विजय प्राप्त करनेके लिए उनके शरीरपर अपने बाणोंकी नीके चुभा-चुभाकर शरीरका बूँद-बूँद रक्त निकाला और उसी घड़ेमें भर दिया। रावण, उस घड़ेको साथ ही ले गया और ले जाकर उसने मन्दोदरीको यह जताकर दे दिया कि 'यह रक्त विषसे भी तीव्र है।' कुछ समय बाद मन्दोदरीको यह अनुभव हुआ कि हमारा पति मुझपर सच्चा प्रेम नहीं करता है इसलिए जीवनसे निराश हो उसने वह रक्त पी लिया। परन्तु उसके योगसे वह मरी तो नहीं किन्तु गर्भवती हो गई। पतिकी अनुपस्थितिमें गर्भधारण हो जानेसे मन्दोदरी

भयभीत हुई और वह उसे छिपानेका प्रयत्न करने लगी। निदान, एक दिन वह विमान द्वारा कुरुक्षेत्र जाकर उस गर्भको जमीनमें गाड़ आई। उसके बाद हल जोतते समय वह गर्भजात कन्या राजा जनकको मिली और उन्होंने उसका पालन-पोषण किया। यही सीता है। वस्तुतः अद्भुत रामायण की यह कथा अद्भुत ही है। सीता जन्मके विषयमें और भी विभिन्न प्रकारकी कथाएँ प्रचलित हैं उनका उल्लेख अलग प्रकरणमें करूँगा। बौद्धोंके यहाँ पालीभाषामय 'जातकट्टवण्णना' के दशरथजातकमें रामकथाका संक्षेप इस प्रकार है—

दशरथ महाराज वाराणसीमें धर्मपूर्वक राज्य करते थे। इनकी ज्येष्ठा महिषीके तीन संतान थी—दो पुत्र [रामपंडित और लक्ष्मण] और एक पुत्री [सीता देवी]। इस महिषीके मरनेके पश्चात् राजाने एक दूसरीको ज्येष्ठा महिषीके पद पर नियुक्त किया। उसके भी एक पुत्र [भरत कुमार] उत्पन्न हुआ। राजाने उसी अवसर पर उसको एक वर दिया। जब भरत की अवस्था सात वर्ष की थी, तब रानीने अपने पुत्रके लिए राज्य माँगा। राजाने स्पष्ट इनकार कर दिया। लेकिन जब रानी अन्य दिनोंमें भी पुनः पुनः इसके लिए अनुरोध करने लगीं तब राजाने उसके पड़्यन्त्रोंके भयसे अपने दोनों पुत्रोंको बुलाकर कहा—'यहाँ रहनेसे तुम्हारे अनिष्ट होनेकी संभावना है इसलिए किसी अन्य राज्य या वनमें जाकर रहो और मेरे मरनेके बाद लौटकर राज्यपर अधिकार प्राप्त करो।' उसी समय राजाने ज्योतिपियोंको बुलाकर उनसे अपनी मृत्युकी अवधि पूछी। बारह वर्षका उत्तर पाकर उन्होंने कहा—'हे पुत्रो! बारह वर्षके बाद आकर छत्रको उठाना।' पिताकी वन्दना कर दोनों भाई चलने वाले थे कि सीता देवी भी पितासे विदा लेकर उनके साथ हो लीं। तीनोंके साथ-साथ बहुतसे अन्य लोग भी चल दिये। उनको लौटाकर तीनों हिमालय पहुँच गये और वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगे। नौ वर्षके बाद दशरथ पुत्रशोकके कारण मर जाते हैं। रानी भरतको राजा बनानेमें असफल होती है क्योंकि अमान्य और भरत भी इसका विरोध करने लगे। तब भरत चतुरङ्गिणी सेना लेकर रामको ले आनेके उद्देश्यसे वनको चले जाते हैं। उस समय राम अकेले ही हैं। भरत उनसे पिताके देहान्तका सारा वृत्तान्त कहकर रोने लगते हैं परन्तु राम पण्डित न तो शोक करते हैं और न रोते हैं।

संध्या समय लक्ष्मण और सीता लौटते हैं। पिताका देहान्त सुनकर दोनों अत्यन्त शोक करते हैं इस पर राम पण्डित उनको धैर्य देनेके लिए अनित्यताका धर्मोपदेश सुनाते हैं। उसे सुनकर सब शोकरहित हो जाते हैं। बादमें भरतके बहुत अनुरोध करने पर भी रामपण्डित यह कहकर वनमें रहनेका निश्चय प्रकट करते हैं—'मेरे पिताने मुझे बारह वर्षकी अवधिके अन्तमें राज्य करनेका आदेश दिया है अतः अभी लौटकर मैं उनकी आज्ञाका पालन न कर सकूँगा। मैं तीन वर्ष बाद लौट आऊँगा।

जब भरत भी शासनाधिकार अस्वीकार करते हैं तब रामपण्डित अपनी तिण्णपादुका—
तृणपादुका देकर कहते हैं 'मेरे आने तक ये शासन करेंगी'। तृणपादुकाओंको लेकर भरत लक्ष्मण, सीता तथा अन्य लोगोंके साथ वाराणसी लौटते हैं। अमात्य इन पादुकाओंके सामने राजकार्य करते हैं। अन्याय होते ही वे पादुकाएँ एक दूसरे पर आघात करती थीं और ठीक निर्णय होने पर शान्त होती थीं।

तीन वर्ष व्यतीत होने पर रामपण्डित लौटकर अपनी बहिन सीता से विवाह करते हैं। सोलह सहस्र वर्ष तक राज्य करनेके बाद वे स्वर्ग चले जाते हैं। जातकके अन्तमें महात्मा बुद्ध जातक का सामंजस्य इस प्रकार बैठते हैं—उस समय महाराज शुद्धोदन महाराज दशरथ थे। महामाया [बुद्धकी माता] रामकी माता, यशोधरा [राहुलकी माता] सीता, आनन्द भरत थे और मैं राम पण्डित था।

इसी प्रकार 'अनामक जातकम्' में भी किसी पात्रका उल्लेख न कर सिर्फ रामके जीवनवृत्तसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा कही गई है। इस जातकमें विशेषता यह है कि रामको विमाताके कारण पिता द्वारा वनवास नहीं दिया जाता है। वे अपने मामाके आक्रमणकी तैयारियाँ सुनकर स्वयं राज्य छोड़ देते हैं।

इसी प्रकार चीनी तिपिटकके अन्तर्गत ह्सा-पौ-त्सग-किंग नामक १२१ अवदानोंका संग्रह है। यह संग्रह ४७२ ई० में चीनी भाषामें अनूदित हुआ था। इसमें एक 'दशरथकथानम्' भी मिलता है। इसमें भी रामकथाका उल्लेख किया गया है, विशेषता यह है कि इसमें सीता या किसी अन्य राजकुमारीका उल्लेख नहीं हुआ है। दशरथकी चार रानियोंका वर्णन आता है उनमें प्रधान महिषीके राम, दूसरी रानीके रामन [रोमण-लक्ष्मण] तीसरी रानीके भरत और चौथीसे शत्रुघ्न उत्पन्न हुए थे। लेख विस्तारके भयसे 'अनामक जातकम्' और 'दशरथकथानम्' की कथावस्तु नहीं दे रहा है।

इस तरह हम हिन्दू और बौद्ध साहित्यमें रामकथाके तीन रूप देखते हैं एक वाल्मीकि रामायणका, दूसरा अद्भुत रामायणका और तीसरा बौद्ध जातक का।

जैन रामकथाके दो रूप—

इन्हीं तरह जैन साहित्यमें भी रामकथाको दो धाराएँ उपलब्ध हैं—एक विमलसूरि के 'पद्मचरित्र' और रविपेगके 'पद्मचरित' की तथा दूसरी गुणभद्रके 'उत्तर पुराण' की।

श्वेताम्बर परम्परामें तीर्थंकर आदि शलाका पुरुषोंके जीवन सम्बन्धी कुछ तथ्याश स्वानाग सूत्र में मिलते हैं जिसे आधार मानकर श्वेताम्बर आचार्य हेमचन्द्र आदिने त्रिपिट महापुगण आदिकी रचनाएँ की हैं। दिगम्बर परम्परामें तीर्थंकर आदिके चरित्रोंका प्राचीन संकलन नामावलीके रूपमें हमें प्राकृत भाषाके तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थमें मिलता है। इसी ग्रन्थमें ६ नागयण, ६ प्रति नारायण, ६ वलभद्र तथा ११ रुद्रोंके जीवनके प्रमुख तथ्य भी संगृहीत हैं। इन्हींके आधार तथा अपनी गुरुप रम्परामें अनुश्रुत कथानकोंके बलपर विभिन्न पुराणकारोंने अनेक पुराणोंकी रचनाएँ की हैं। विमलसूरिने 'पद्मचरित्र' के उपोद्घातमें लिखा है कि 'मैं, जो नामावली में निबद्ध हूँ तथा आचार्य परम्परामें आगत हूँ ऐसा समस्त पद्मचरित आनुपूर्वीके अनुसार संक्षेपसे कहता हूँ'। उनके इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि उन्होंने नामावलीको मुख्याधार मान कर 'पद्मचरित्र' की रचना की है। तिलोयपण्णत्तमें जो नामावलीके रूपमें तीर्थंकर आदि शलाका पुरुषोंका चरित्र अंकित किया गया है—उसको उत्तरवर्ती पुराणकारोंने भी अपने-अपने ग्रन्थोंमें स्थान दिया है। रविपेगने पद्मचरितके वीसवें पर्वमें उस भवको आत्मसात् किया है। इस ग्रन्थके अन्तमें जो ग्रन्थ निर्माणके विषयमें उल्लेख किया है उससे यह वीर निर्वाण सं० ५३० विक्रम संवत् ६० में रचा गया सिद्ध है, पर डा० हर्मन जैकोबी, डा० क्रीथ, डा० वुल्नर आदि पाश्चात्य विशेषज्ञ इमकी भाषाशैली तथा शब्दोंके प्रयोग पर दृष्टि डालते हुए इसे ईसाकी तीसरी चौथी शताब्दीका रचा हुआ मानते हैं। इसके उपरान्त आचार्य रविपेगने वीर निर्वाण संवत् १२०४ और विक्रम संवत् ७३४ में संस्कृत पद्मचरितकी रचना की है। इन दोनों ग्रन्थोंमें प्रतिपादित कथाकी धारा निम्नाङ्कित छह विभागोंमें विभक्त की जा सकती है—

१. तीसरी शताब्दी ई०में 'अनामक जातकम्'का काग-संग-हुंड द्वारा चीनी भाषामें अनुवाद हुआ था। यद्यपि मूल भारतीय पाठ अप्राप्य है परन्तु चीनी अनुवाद 'लियेऊलु-मी किंग' नामक पुस्तकमें सुरक्षित है। [देवो चीनी तिपिटकका तैशो मस्करण न १५२]

२. नामावल्यि णिवद्धं आवरिय परम्पगगम सच्चं ।
वोच्छामि पद्मचरिय अहाणुपुच्चि समासेण ॥८॥

—'पद्मचरित्र' उद्देश १

[१] विद्याधर काण्ड—राक्षस तथा वानर वंशका वर्णन [२] राम और सीताका जन्म तथा विवाह [३] वनभ्रमण [४] सीताहरण और खोज [५] युद्ध [६] उत्तर चरित । इनका संचिप्त कथासार इस प्रकार है—

[१] विद्याधरकाण्ड—

प्रथम ही राजा श्रेणिक भगवान् महावीरके प्रथम गणधर गौतम स्वामीसे रामकथाका यथार्थ रूप जाननेकी इच्छा प्रकट करता है इसके उत्तरमे गौतम स्वामी राम कथा सुनाते हैं । प्रारम्भमे विद्याधर लोक, राक्षस वंश, वानर वंश और रावणकी वंशावलीका वर्णन दिया गया है—

राक्षस वंशके राजा रत्नश्रवा तथा केकसीके चार सन्तान है—रावण, कुम्भकर्ण, चन्द्रनखा और विभीषण । जब रत्नश्रवाने पहले पहल अपने पुत्र रावणको देखा था तब शिशु जो हार पहने हुए था उसमे उसे रावणके दश शिर दिखे इसीलिए उसका दशानन या दशग्रीव नाम रक्खा गया । अपने मौसेरे भाईका विभव देखकर रावण आदि भाई विद्याएँ सिद्ध करनेके लिए जाते हैं और रावण अनेक विद्याएँ प्राप्तकर लौटता है । इसके बाद रावण मन्दोदरी तथा ६००० अन्य कन्याओंके साथ विवाह करता है और दिग्विजयमे बहुतसे राजाओंको परास्त करता है । इस वर्णनमे इन्द्र, यम, वरुण आदि देवता न होकर साधारण विद्याधर राजा हैं । इस विजय यात्रामे रावण नलकूबरकी स्त्रीका प्रेमप्रस्ताव ठुकराकर अपने आपको बहुत ऊँचा उठाता है और केवलीका उपदेश सुनकर प्रतिज्ञा करता है कि मैं उस पर नारीका उपभोग नहीं करूँगा जो मुझे स्वयं नहीं चाहेगी । रावण इन्द्रका अहंकार चूर करता है । वालिका अहंकार रावणके आक्रमणसे वैराग्य रूपमें परिणत हो जाता है जिससे वालि विरक्त हो कर दैगन्वरी दीक्षा धारण करता है और सुग्रीवको राजा बनाता है । हनुमान्को यथार्थ उत्पत्ति तथा उसकी वालचेष्टाएँ सबको चकित कर देती हैं । हनुमान् रावणकी ओरसे वरुणके विरुद्ध युद्ध करके चन्द्रनखाकी पुत्री अनंगकुसुमाके साथ विवाह करता है । खरदूषण रावणकी बहिन चन्द्रनखासे विवाह करता है । आगे चलकर दोनोसे शम्बूक कुमारकी उत्पत्ति होती है ।

[२] राम और सीताका जन्म तथा विवाह—

इस प्रकरणमे जनक तथा दशरथकी वंशावलीके बाद प्रारम्भमे दशरथकी तीन पत्नियोंका उल्लेख है १—कौशल्या, २—सुमित्रा और ३—सुप्रभा । एक दिन रावणको किसीसे विदित हुआ कि मेरी मृत्यु राजा जनक और दशरथकी सन्तानोंके द्वारा होगी । तब रावणने अपने भाई विभीषणको इन दोनोंकी हत्या करनेके लिए भेजा । पर विभीषणके आनेके पहले ही नारद इन दोनो राजाओंको सचेत कर जाते हैं जिससे ये अपने महलोमे अपने शरीरके अनुरूप पुतले छोड़कर बाहर निकल जाते हैं । विभीषण पुतलोंको ही सचमुचका राजा समझ मारकर तथा शिरकी लवण समुद्रमे फेंक हमेशाके लिए निश्चिन्त हो जाता है । परदेश-भ्रमणके समय राजा दशरथ केकयीके स्वयंवरमे पहुँचते हैं । केकयी दशरथके गलेमे माला डालती है । इसपर अन्य राजा विगड उठते हैं । फलस्वरूप उनके साथ दशरथका युद्ध होता है । केकयी वीरांगना थी इसलिए स्वयं दशरथका रथ चलाती है । राजा दशरथ अपने पराक्रम और उसकी चातुरीसे युद्धमे विजयी होते हैं तथा अयोध्यामे वापिस आकर राज्य करने लगते हैं । केकयीकी चतुराई से रीझकर दशरथने उसे मनचाहा वर माँगनेको कहा और उसने वरको राज्यभंडारमें सुरक्षित करा दिया । केकयी समेत राजा दशरथकी चार रानियाँ हो जाती हैं, उनसे उनके चार पुत्र उत्पन्न हुए । कौशल्यासे राम, इन्हींका दूसरा नाम पद्म था, सुमित्रासे लक्ष्मण, केकयीसे भरत और सुप्रभासे शत्रुघ्न ।

राजा जनककी विदेहा रानीके एक पुत्री सीता तथा एक पुत्र भामण्डल उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही प्रसूतिगृहसे एक पूर्वभवका वैरी भामण्डलका अपहरण कर लेता है। अपहरणके बाद भामण्डल एक विद्याधरको प्राप्त होता है। उसीके यहाँ उसका लालन-पालन होता है। नारदकी कृपासे सीताका चित्रपट देखकर भामण्डलका उसके प्रति अनुराग बढ़ता है। छलसे जनकको विद्याधर लोकमें बुलाया जाता है। भामण्डलके पिताके आग्रह करनेपर भी जनक उसके लिए पुत्री देना स्वीकृत नहीं करता है क्योंकि वह पहले राजा दशरथके पुत्र रामको देना स्वीकृत कर चुका था। निदान, विद्याधरने शर्त रखी कि यदि राम यह वज्रावर्त धनुष चढ़ा देगे तो सीता उन्हें प्राप्त होगी अन्यथा हम अपने पुत्रके लिए बलात् छीन लेंगे। विवश होकर जनकने यह शर्त स्वीकृत कर ली। स्वयंवर हुआ और रामने उक्त धनुष चढ़ा दिया। सीताके साथ रामका विवाह हुआ। दशरथ विरक्त हो रामको राज्य देने लगे। तब केकयीने राज्य-भंडारसे सुरक्षित वर मांगकर भरतको राज्य देनेकी इच्छा की। यह सुनकर राम-लक्ष्मण सीताके साथ दक्षिण दिशाकी ओर चले गये। बीचमें कितने ही त्रस्त राजाओंका उद्धार किया। केकयी और भरत वनमें जाकर रामसे वापिस चलनेका अनुरोध करते हैं पर सब व्यर्थ होता है।

[३] वन-भ्रमण—

इसमें राम-लक्ष्मणके अनेक युद्धोंका वर्णन है। कहीं वज्रकर्णको सिंहोदरके चन्द्रसे वचाते हैं तो बालखिल्यको म्लेच्छ राजाके कारागृहसे उन्मुक्त करते हैं, कभी नर्तकीका रूप धरकर भरतके विरोधमें खड़े हुए राजा अतिवीर्यका मान-मर्दन करते हैं। इसी बीचमें लक्ष्मण जगह-जगह राजकन्याओंके साथ विवाह करते हैं। दण्डक वनमें वास करते हैं, मुनियोंको आहार दान देते हैं तथा जटाशुसे सम्पर्क प्राप्त करते हैं।

[४] सीताहरण और खोज—

चन्द्रनखा तथा खरदूषणका पुत्र शम्बूक सूर्यहास खड्गकी सिद्धिके लिए बारह वर्ष तक वाँसके भिड़ेमें बैठकर तपस्या करता है। उसकी साधना स्वरूप उसे खड्ग प्रकट हुआ। लक्ष्मण संयोग वश वहाँ पहुँचते हैं और शम्बूकके पहले ही उस खड्गको हाथमें लेकर उसकी परीक्षा करनेके लिए उसी वंशके भिड़े पर चलाते हैं जिसमें शम्बूक बैठा था, फलतः शम्बूक मर जाता है। जब चन्द्रनखा भोजन देनेके लिए उसके पास आई तब उसकी मृत्यु देखकर बहुत विलाप करती है। निदान वह राम लक्ष्मणको देख उनपर मोहित होकर प्रेम-प्रस्ताव रखती है पर जब उसे सफलता नहीं मिलती है तब वापिस लौट पतिके पास जाकर पुत्रके मरनेका समाचार सुनाती है। खरदूषणके साथ लक्ष्मणका युद्ध होता है, खरदूषणके आह्वानपर रावण भी सहायता के लिए आता है। बीचमें रावण सीताको देख मोहित होता है और उसे अपहरण करनेका उपाय सोचता है। वह विद्यावलसे जान लेता है कि लक्ष्मणने रामको सहायतार्थ बुलानेके लिए सिंहनादका संकेत बनाया है। अतः रावण प्रपञ्चपूर्ण सिंहनादसे रामको लक्ष्मणके पास भेज देता है और सीताको अकेली देख हर ले जाता है।

सीता हरणके बाद राम बहुत दुःखी होते हैं। सुग्रीवके साथ उनकी मित्रता होती है। एक साहसगति नामका विद्याधर सुग्रीवका मायासय रूप बनाकर सुग्रीवकी पत्नी तथा राज्यपर अधिकार करना चाहता है। राम उसे मारते हैं, जिससे सुग्रीव अपनी पत्नी तथा राज्य पाकर रामका भक्त हो जाता है। सुग्रीवकी आज्ञासे विद्याधर सीताकी खोज करते हैं। रत्नजटी विद्याधरने बताया कि सीताका हरण रावणने किया है। उस समय रावण बड़ा बलवान् था इसलिए सुग्रीव आदि विद्याधर उससे युद्ध करनेके लिए पीछे हटते हैं पर उन्हें अनन्तवीर्य

केवलीके वचन बाद आते हैं कि जो कोई शिलाको उठायेगा उसीके हाथसे रावणका मरण होगा। लक्ष्मणने कोटिशिला उठाकर अपनी परीक्षा दी। सुग्रीव आदिको विश्वास हो गया। तब सबके सब वानरवंशी विद्याधर रावणके विरुद्ध रामके पक्षमें खड़े हो जाते हैं। हनुमान् रामका संवाद लेकर सीताके पास जाते हैं और सीताका सन्देश लाकर रामके पास आते हैं।

[५] युद्ध—

सुग्रीव आदि विद्याधरोकी सहायतासे समस्त सेना आकाश मार्गसे लङ्का पहुँचती है। रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करता है। हनुमान् आदि उसकी विद्यासिद्धिमें बाधा डालनेका प्रयत्न करते हैं पर रावण अपनी दृढ़तासे विचलित नहीं होता है और विद्यासिद्ध करके ही उठता है। विभीषणसे रावणका संघर्ष होता है फलतः विभीषण रावणका साथ छोड़ रामसे आ मिलता है। राम विभीषणको लंकाका राजा बनानेका संकल्प करते हैं। दोनों ओरसे घमासान युद्ध होता है। लक्ष्मणको शक्ति लगती है पर विशल्याके स्नान-जलसे वह ठीक हो जाता है। विशल्याके साथ लक्ष्मणका अनुराग दृढ़ होता है। अन्तमें रावण लक्ष्मणपर चक्र चलाता है पर वह प्रदक्षिणा देकर लक्ष्मणके हाथमें आ जाता है और लक्ष्मण उसी चक्रसे रावणका काम समाप्त करता है। लक्ष्मण प्रतिनारायणका वध कर नारायणके रूपमें प्रकट होता है।

[६] उत्तरचरित—

अयोध्यामें राम-लक्ष्मण लौटकर राज्य करने लगते हैं। भरत विरक्त हो दीक्षा ले लेता है। राम लोकापव्रानसे त्रस्त होकर गर्भवती सीताको वनमें छोड़वा देने हैं। सीता राजा वज्र-जंघके आश्रयमें रहती है वहीं उसके लवण और अंकुश नामक दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। बड़े होनेपर लवण और अंकुश राम-लक्ष्मणसे युद्ध करते हैं। अन्तमें नारदके निवेदनपर पिता पुत्रोंमें मिलाप होता है। हनुमान्, सुग्रीव, विभीषणादिके कहनेपर राम सीताको बुलाते हैं, सीता अग्निपरीक्षा देती है और उसके बाद आर्यिका हो जाती है तथा तपकर सोलहवें स्वर्गमें प्रतीन्द्र होती है। किसी दिन दो देव नारायण तथा बलभद्रका स्नेह परखनेके लिए आते हैं वे मूठ-मूठ ही लक्ष्मणसे कहते हैं कि रामका देहान्त हो गया। उनकी बात सुनते ही लक्ष्मणकी मृत्यु हो जाती है। भाईके स्नेहसे विवश हो राम छह मास तक लक्ष्मणका शव लिये फिरते हैं। अन्तमें कृतान्तवक्त्र सेनापतिका जीव जो देव हुआ था, उसकी चेष्टासे वस्तु स्थिति समझ लक्ष्मणकी अन्त्येष्टि करते हैं और विरक्त हो तपश्चर्या कर मोक्ष प्राप्त करते हैं।

इस धारा-कथानकका जैन समाजमें भारी प्रचार है। हेमचन्द्राचार्य कृत जैनरामायण, जो त्रिपष्टि शलाका पुरुष चरितका एक अंश है, इसी धाराके अनुरूप विकसित है। जिनदास कृत रामपुराण, पद्मदेव विजय गणिकृत रामचरित तथा कथाकोषोमें आगत रामकथाएँ इसी धारा में प्रवाहित हुई हैं। स्वयंभू देवकृत अपभ्रंश भाषाका पद्मचरित तथा नागचन्द्रकृत कर्नाटक पद्मरामायण इसीके अनुकूल हैं।

दूसरी धारा गुणभद्राचार्यकृत उत्तर पुराण की है गुणभद्र जिनसेनाचार्यके शिष्य थे। जिनसेनके 'कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामातृकं पुरोश्चरितम्' इस उल्लेखसे यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने आदिपुराणकी रचना कवि परमेश्वरके गद्यात्मक वागर्थ संग्रह पुराणके आधार पर की है। जिनसेन आदिपुराणकी रचना पूर्ण करनेके पूर्व ही दिवंगत हो गये, अतः अवशिष्ट आदिपुराण तथा उत्तरपुराणकी रचना उनके प्रबुद्ध शिष्य गुणभद्रने की है। बहुत कुछ संभव है कि गुणभद्रने भी उत्तरपुराणकी रचना करते समय कवि परमेश्वरके 'वागर्थसंग्रहपुराण' को ही

आधारभूत माना हो पर आजकल वह रचना अप्राप्य है। इसलिए रामकथाको इस द्वितीय धारा के उपोद्घातकके रूपमें सर्वप्रथम गुणभद्रका ही नाम आता है। उत्तरपुराणके ६७ वें तथा ६६ वे पर्वमें ११६७ श्लोकोमें आठवे बलभद्र तथा नारायणके रूपमें राम तथा लक्ष्मणका वर्णन किया गया है। यह वर्णन 'पउमचरिउ' और 'पद्मचरित'के वर्णनसे भिन्न है। इसमें खास बात यह है कि सीताको जनककी पुत्री न मान कर रावण-मन्दोदरीकी पुत्री माना है। सीता-जन्मकी चर्चा आगे चलकर पृथक् स्तम्भमें करेंगे। उससे स्पष्ट होगा कि 'सीता रावणकी पुत्री थी' यह न केवल गुणभद्रका मत था किन्तु तिल्वती रामायण तथा अन्य ग्रन्थोंमें भी वैसा ही उल्लेख है। अतः संभवतः रामकथाका यह दूसरा रूप गुणभद्रके समयमें पर्याप्त प्रचार पा चुका होगा और उन्हें अपनी गुरु-परम्परासे यही मत प्राप्त हुआ होगा। इसलिए आचार्य परम्पराके अनुसार उन्होंने इसीका उल्लेख किया है। पद्मचरितकी प्रथमधाराको पढ़नेके बाद यद्यपि इस धाराको पढ़नेमें कुछ अटपटा-सा लगता है पर यह धारा सर्वथा निर्मूल नहीं मालूम होती। अपभ्रंश भाषाके महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्तने, कर्णाटक भाषाके त्रिपट्टि शलाका पुरुष पुराणमें चामुण्डराय ने और पुण्यालव कथासारमें नागराजने गुणभद्रकी धारामें ही अवगाहनकर अपने काव्य लिखे हैं।

उत्तरपुराणका सचित्र कथानक इस प्रकार है—

वाराणसीके राजा दशरथके चार पुत्र उत्पन्न होते हैं—राम सुबालाके गर्भसे, लक्ष्मण कैकेयी के गर्भसे और बादमें जब दशरथ अपनी राजधानी साकेतमें स्थापित करते हैं तब भरत और शत्रुघ्न भी किसी रानीके गर्भसे उत्पन्न होते हैं। यहाँ भरत और शत्रुघ्नकी माताका नाम नहीं दिया गया है। दशानन विनमि विद्याधरवंशके पुलस्त्यका पुत्र है। किसी दिन वह अमितवेगकी पुत्री मणिमतिको तपस्या करते देखता है और उस पर आसक्त होकर उसकी साधनामें विघ्न डालनेका प्रयत्न करता है। मणिमति निदान करती है कि मैं 'उसकी पुत्री होकर उसे मारूंगी'। मृत्युके बाद वह रावणकी रानी मन्दोदरीके गर्भमें आती है। उसके जन्मके बाद ज्योतिषी रावणसे कहते हैं कि यह पुत्री आपका नाश करेगी। अतः रावणने भयभीत होकर मारीचको आज्ञा दी कि वह उसे कहीं छोड़ दे। कन्याको एक मंजूपामें रखकर मारीच उसे मिथिला देशमें गाड़ आता है। हलकी नोकसे उलझ जानेके कारण वह मंजूपा दिखायी पड़ती है और लोगोंके द्वारा जनकके पास पहुँचाई जाती है। जनक मंजूपाको खोलकर कन्याको देखते हैं और उसका सीता नाम रखकर उसे पुत्रीकी तरह पालते हैं। बहुत समय बाद जनक अपने यज्ञकी रक्षाके लिए राम और लक्ष्मणको बुलाते हैं। यज्ञके समाप्त होने पर राम और सीताका विवाह होता है, इसके बाद राम सात अन्य कुमारियोंसे विवाह करते हैं और लक्ष्मण पृथ्वी देवी आदि १६ राजकन्याओंसे। दोनों दशरथकी आज्ञा लेकर वाराणसीमें रहने लगते हैं।

नारद से सीताके सौन्दर्यका वर्णन सुनकर रावण उसे हर लानेका संकल्प करता है। सीताका मन जाचनेके लिए शूर्पणखा भेजी जाती है लेकिन सीताका सतीत्व देख वह रावणसे यह कहकर लौटती है कि सीताका मन चलायमान करना असंभव है। जब राम और सीता वाराणसीके निकट चित्रकूट वाटिकामें विहार करते हैं तब मारीच स्वर्णमृगका रूप धारण कर

१. रविपेणने यद्यपि लक्ष्मणको लिखा है सुमित्राका पुत्र, परन्तु बीच-बीचमें जब कभी उन्हें केकयी सूनुके रूपमें उल्लिखित किया है, उदाहरणके लिए एक श्लोक यह है—

इत्युक्तो रावणो वाणो सुवाणोः कैकयीसुतम्। प्रावृपेण्यघनाकारो गिरिकल्प निरुद्धवान् ॥६४॥ पर्व ७४

कैकयीनन्दन. कृतः माहेन्द्रमल्लमुत्सृष्ट चकार गगनासनम् ॥१००॥ पर्व ४

ग्रन्थकी छानवीन करने पर पता चला है कि रविपेणने भरतकी माताका नाम 'केकयी' लिखा और लक्ष्मणकी माताको 'सुमित्रा' और 'कैकयी' इन दो नामोंसे उल्लिखित किया है।

रामको दूर ले जाता है। इतनेमें रावण रामका रूप धारण करके सीतासे कहता है कि मैंने स्वर्णभृत महल भेजा है और उनको पालकी पर चढ़नेकी आज्ञा देता है। यह पालकी वास्तवमें पुष्पक विमान है, जो सीताको लंका ले जाता है। रावण सीताका स्पर्श नहीं करता है क्योंकि पति-व्रताके स्पर्शसे उसकी आकाशगामिनी विद्या नष्ट हो जाती।

दशरथको स्वप्नद्वारा मालूम हुआ कि रावणने सीताका हरण किया है और वह रामके पास यह समाचार भेजते हैं। इतनेमें सुग्रीव और हनुमान् वालीके विरुद्ध सहायता मागनेके लिए पहुँचते हैं। हनुमान लंका जाते हैं और सीताको सान्त्वना देकर लौटते हैं [लंकादहनका कोई उल्लेख नहीं मिलता] इसके बाद लक्ष्मण द्वारा वालिका वध होता है और सुग्रीव अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है। अब वानरोकी सेना रामकी सेनाके साथ लंकाकी ओर प्रस्थान करती है। युद्धके विस्तृत वर्णनके अन्तमें लक्ष्मण चक्रसे रावणका शिर काटते हैं। इसके बाद लक्ष्मण दिग्विजय करके और अर्धचक्रवर्ती [नारायण] बन कर अयोध्या लौटते हैं। लक्ष्मणकी सोलह हजार और रामकी आठ हजार रानियों हैं। सीताके आठ पुत्र होते हैं [सीता त्यागका उल्लेख नहीं मिलता]। लक्ष्मण एक असाध्य रोगसे मरकर रावण वधके कारण नरक जाते हैं। राम, लक्ष्मणके पुत्र पृथ्वीसुन्दरको राज्य पद पर और सीताके पुत्र अजितजयको युवराज पदपर अभिषिक्त करके दीक्षा लेते हैं और मुक्ति पाते हैं। सीता भी अनेक रानियोंके साथ दीक्षा लेती है और अच्युत स्वर्गमें जाती है।

उत्तरपुराणकी यह रामकथा श्वेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित नहीं है। आचार्य हेमचन्द्रके त्रिपट्टिशलाकापुरूपचरितमें जो रामकथा है, वह पूर्णतः 'पद्मचरिय' या पद्मचरितकी कथाके अनुरूप है। ऐसा जान पड़ता है कि हेमचन्द्राचार्यके सामने 'पद्मचरिय' और 'पद्मचरित' दोनों ही ग्रन्थ विद्यमान थे। गुणभद्राचार्य हेमचन्द्राचार्यसे पूर्ववर्ती हैं अतः इनके समक्ष भी 'पद्मचरिय' और 'पद्मचरित' रहा अवश्य होगा पर उन्होंने इसे अपनी कथामें क्यों नहीं अपनाया यह एक रहस्यपूर्ण बात मालूम होती है।

'पद्मचरित' और 'पद्मचरिय' की रामकथा अधिकांश वाल्मीकि रामायणके आधारपर चलती है क्योंकि दोनों ही ग्रन्थोंमें राजा श्रेणिकने गौतमस्वामीसे रामकी यथार्थ कथा कहनेकी जो प्रेरणा की है उससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि उस समय लोकमें एक रामकथा प्रचलित थी जिसमें रावण कुम्भकर्ण आदिको मांसभक्षी राक्षस, तथा सुग्रीव हनुमान् आदिको वानर व्रताया गया था। इसके सिवाय इतिहासवेत्ताओंने वाल्मीकि रामायणका समय भी ईसवीय पूर्व वतलाया है, तब उसका 'पद्मचरिय' और 'पद्मचरित' के कर्ताके सामने रहना शक्य ही है। उत्तरपुराणकी धारामें सीताजन्मका जो वर्णन मिलता है वह विष्णुपुराणके ढंगका है। दशरथ वनारसके राजा थे यह बात बौद्धजातकसे मिलती-जुलती है। उत्तरपुराणके समान बौद्धजातकमें सीता त्याग तथा लवकुश जन्म आदि नहीं हैं। कहनेका सारांश यह है कि भारतवर्षमें रामकथाकी जो तीन धाराएँ प्रचलित हैं वे जैन सम्प्रदायमें भी प्राचीनकालसे चली आ रही हैं।

सीताजन्मके विविध कथन—

इन धाराओंमें सीता जन्मको लेकर पर्याप्त विभिन्नता आई है, इसलिए उन विभिन्नताओंका इस स्तम्भमें सङ्कलन कर लेना उपयुक्त प्रतीत होता है—

सीता जन्मके विषयमें निम्नाङ्कित मान्यताएँ उपलब्ध हैं—

[१] सीता जनककी पुत्री है—

इसका उल्लेख 'महाभारत' तथा 'हरिवंश' की रामकथा, 'पद्मचरिय' तथा 'पद्मचरित' और आदिरामायण में मिलता है।

[२] सीता पृथिवीकी पुत्री है—

इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण तथा उसके आधारसे लिखी गई अन्य रामकथाओंमें पाया जाता है। वाल्मीकि रामायणके उत्तरीय पाठमें जनक तथा मेनकाकी मानसी पुत्री भी बतलाया है पर पृथिवीसे मानवीको उत्पत्ति एकदम असंगत प्रतीत होती है।

[३] सीता रावणकी पुत्री है—

इसका उल्लेख उत्तरपुराण, विष्णुपुराण, महाभागवतपुराण, काश्मीरीरामायण, तिब्बती तथा खोतानोरामायणमें मिलता है।

[४] सीता कमलसे उत्पन्न हुई है—

इसका उल्लेख दशावतार चरितमें पाया जाता है।

[५] सीता ऋषिके रक्तका सम्बन्ध पानेवाली मन्दोदरी के गर्भसे उत्पन्न हुई—

इसका उल्लेख अद्भुतरामायणमें है, इसकी विस्तृत कथा पहले दी जा चुकी है।

[६] सीता अग्निसे उत्पन्न हुई है—

यह आनन्दरामायणमें लिखा है।

[७] सीता दशरथकी पुत्री है—

यह दशरथ जातक, जावाके रामकेलिंग, मलयके सेरीराम, तथा हिकायत महाराज रावण में लिखा है।

इनमें दशरथजातककी कथा पहले दी जा चुकी है। अन्य कथाएँ लेख विस्तारके भयसे नहीं दे रहा हूँ।

पद्मचरित और आचार्य रविषेण—

संस्कृत पद्मचरित, दिगम्बर कथा साहित्यमें बहुत प्राचीन ग्रन्थ है। ग्रन्थके कथानायक आठवे बलभद्र पद्म (राम) तथा आठवे नारायण लक्ष्मण हैं। दोनों ही व्यक्ति जन-जनके श्रद्धा-भाजन हैं, इसलिए उनके विषयमें कविने जो भी लिखा है वह कविकी अन्तर्वाणीके रूपमें उसकी मानस-हिमकन्दरासे निःसृत मानो मन्दाकिनी ही है। प्रसन्न पाकर आचार्य रविषेणने विद्या-धरलोक, अञ्जना-पवनञ्जय, हनुमान् तथा सुकोशल आदिका जो चरित्र-चित्रण किया है, उससे ग्रन्थकी रोचकता इतनी अधिक बढ़ गई है, कि ग्रन्थको एक बार पढ़ना शुरू कर बीचमें छोड़नेकी इच्छा ही नहीं होती।

इसके रचयिता आचार्य रविषेण हैं, इन्होंने अपने किसी संघ या गणगच्छका कोई उल्लेख नहीं किया है और न स्थानादिकी ही चर्चा की है परन्तु सेनान्त नामसे अनुमान होता है कि संभवतः सेन संघके हों। इनकी गुरुपरम्पराके पूरे नाम इन्द्रसेन, दिवाकरसेन, अर्हत्सेन और लक्ष्मणसेन होंगे, ऐसा जान जड़ता है। अपनी गुरुपरम्पराका उल्लेख इन्होंने इसी पद्मचरितके १२३ वे पर्वके १६७ वे श्लोकके उत्तरार्धमें इस प्रकार किया है—

‘आसीदिन्द्रगुरोर्दिवाकरयति. शिष्योऽस्य चार्हन्मुनि—

स्तस्माल्लक्ष्मणसेनसन्मुनिरद्र. शिष्यो रविस्तु स्मृतम्’ ॥

अर्थात् इन्द्रगुरुके दिवाकर यति, दिवाकर यतिके अर्हन्मुनि, अर्हन्मुनिके लक्ष्मणसेन और लक्ष्मणसेनके रविषेण शिष्य थे।

ये सब किस प्रान्तके थे ? इनके माता-पिता आदि कौन थे ? तथा इनका गार्हस्थ्य जीवन कैसा रहा ? इन सबका पता नहीं है । पद्मचरितकी रचना कब पूर्ण हुई ? इसका उल्लेख इन्होंने १२३ वें पर्वके १८१ वें श्लोकमें इस प्रकार किया है ।

‘द्विशताभ्यधिके समा सहस्रे समतीतेऽर्द्धचतुर्थवर्षयुक्ते ।

जिनभास्करवर्द्धमानसिद्धे चरित पद्ममुनेरिदं निबद्धम् ॥१८१॥

अर्थात् जिनसूर्य—भगवान् महावीरके निर्वाण होनेके १२०३ वर्ष ६ माह बीत जानेपर पद्ममुनिका यह चरित निबद्ध किया गया । इस प्रकार इसकी रचना ७३४ विक्रम संवत्में पूर्ण हुई । इनके उत्तरवर्ती उद्योतनसूरिने अपनी कुचलयमालामे—जो वि० सं० ८३५ की रचना है वरांगचरितके कर्ता जटिलमुनि तथा पद्मचरितके कर्ता रविपेगका स्मरण किया है ।^१ इसी प्रकार हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेनने भी वि० सं० ८४० की रचना—हरिवंश पुराणमें रविपेगका अच्छी तरह स्मरण किया है^२ ।

पद्मचरितका आधार—

पद्मचरित के आधारकी चर्चा करते हुए स्वयं रविपेणने प्रथम पर्वके ४१-४२ वें श्लोकमें इस प्रकार चर्चा की है—

वर्द्धमानजिनेन्द्रोक्तः सोऽयमर्थो गणेश्वरम् ।

इन्द्रभूति परिप्राप्तः सुधर्म धारिणोभवम् ॥४१॥

प्रभवं व्रमत. कीर्तिं ततोऽनुत्तरवाग्मिनम् ।

लिखितं तस्य संप्राप्य रवेर्यत्तोऽयमुद्धतः ॥४२॥

अर्थात् श्रीवर्द्धमान जिनेन्द्रके द्वारा कहा हुआ यह अर्थ इन्द्रभूति नामक गौतमगणधरको प्राप्त हुआ, फिर धारणीके पुत्र सुधर्माचार्यको प्राप्त हुआ, फिर प्रभवको प्राप्त हुआ फिर अनुत्तर-वाग्मी अर्थात् श्रेष्ठ वक्ता कीर्तिधर आचार्यको प्राप्त हुआ । तदनन्तर उनका लिखा प्राप्तकर यह रविपेणाचार्यका प्रयत्न प्रकट हुआ है ।^३

१. जेहि कए रमणिज्जे वरग पठमाणचरिय विस्थारे ।

कहव ण सलाहणिज्जे ते कइणो जडियरविसेणे ॥४१॥

२. कृतपद्मोद्योद्योता प्रत्यह परिवर्तिता ।

मूर्ति. काव्यभवा लोके रवेरिव रवे प्रिया ॥४२॥

३. प्रथम पर्वके ४१-४२ वें श्लोकका अनुवाद करते समय १२३ वे पर्वके १६७ वें श्लोकमें आगत उत्तरवाग्मीपदकी सार्थकताके लिये (ततोऽनुत्तरवाग्मिनम्) ‘तत. अनु उत्तरवाग्मिनम्’ इस पाठकी कल्पना की गई थी, पर सब प्रतियोंमें ‘ततोऽनुत्तरवाग्मिनम्’ यही पाठ है इसलिए ‘अनुत्तरवाग्मिनम्’को कीर्तिका विशेषण मान लेना उचित जान पड़ता है । ‘अनुत्तरवाग्मिनम्’का अर्थ श्रेष्ठ वक्ता होता है । १२३ पर्वके १६७ वें श्लोकमें उत्तरवाग्मी इस विशेषणसे कीर्तिधरका उल्लेख समझना चाहिए क्योंकि वहाँ कीर्तिका अलगसे उल्लेख नहीं है । स्वयम्भू कविने भी अपने अपभ्रंश ‘पद्मचरित’में ‘कितिहरेण अणुत्तरवाग्’ इस उल्लेखसे ‘अणुत्तरवाग्’को कीर्तिधरका विशेषण ही माना है । इस सशोधनके अनुसार पाठक प्रथम पर्वके ४१-४२ वें श्लोकका अनुवाद ठीक कर लें । माननीय डा० ए० एन० उपाध्यायने इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया अतः उनका आभारी हूँ ।

ग्रन्थान्तमें १२३ पर्वके १६६ वे श्लोकमें भी इन्होंने इसी प्रकार उल्लेख किया है—

“निर्दिष्ट सकलैर्नतेन भुवनैः श्रीवर्द्धमानेन यत्

तत्त्व वासवभूतिना निगदित जम्बो. प्रशिष्यस्य च ।

शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटित पद्मस्य वृत्त मुनेः

श्रेय. साधुसमाधिवृद्धिकरण सर्वोत्तम मङ्गलम्” ॥१६६॥

अर्थात् समस्त संसारके द्वारा नमस्कृत श्रीवर्द्धमान जिनेन्द्रने पद्ममुनिका जो चरित कहा था वही इन्द्रभूति—गौतम गणधरने सुधर्मा और जम्बू स्वामीके लिए कहा । वही आगे चलकर उनके शिष्य उत्तरवाग्मी श्रेष्ठवक्ता श्रीकीर्तिधर मुनिके द्वारा प्रकट हुआ । पद्ममुनिका यह चरित कल्याण तथा साधु समाधिकी वृद्धिका कारण है और सर्वोत्तम मङ्गल स्वरूप है । यहाँ आचार्य कीर्तिधरका उनके उत्तरवाग्मी विशेषणसे उल्लेख समझना चाहिए ।

स्वयंभू कविने अपभ्रंश भाषाके ‘पउम चरिउ’ की रचना रविषेणके पद्मचरितके आधारपर की है और पद्मचरितमें रविषेणने ग्रन्थ परम्पराका आधार बतलाते हुए जो प्रथम पर्वमें ४१-४२ श्लोक लिखे हैं उन्हें ही सामने रखकर स्वयंभू कविने भी निम्नाङ्कित पद्य लिखे हैं ।

बहुमाण-मुह-कुहरविणिग्गय । रामकहाणए एह कमागय ।

...

पच्छड इदभूइ आयरिए । पुणु वम्मगेग गुणालकरिए ।

पुणु पहवे ससाराराए । कित्तिहरेण अणुत्तरवाए ।

पुणु रविषेणायरियपसाए । बुद्धिए अवगाहिय कइराए ।

अर्थात् यह रामकथारूपी सरिता वर्द्धमान जिनेन्द्रके मुखरूपी कन्दरासे अवतीर्ण हुई है तदनन्तर इन्द्रभूति आचार्यको, फिर गुणालकृत सुधर्माचार्यको, फिर प्रभवको, फिर अनुत्तरवाग्मी श्रेष्ठवक्ता कीर्तिधरको प्राप्त हुई है । तदनन्तर रविषेणाचार्यके प्रसादसे उसी रामकथा-सरितामें अवगाहन कर

इस प्रकार स्वयंभू द्वारा समर्थित रविषेणके उल्लेखसे जान पड़ता है कि उनके पद्मचरित का आधार आचार्य कीर्तिधर मुनिके द्वारा संदृढ रामकथा है । पर यह कीर्तिधर कौन हैं ? इनका आचार्य परम्परामें उल्लेख देखनेमें नहीं आया । तथा इनकी रामकथा कहाँ गई ? इसका कुछ पता नहीं चलता । हो सकता है कि कवि परमेश्वरके ‘वागर्थसंग्रहपुराण’ के समान लुप्त हो गई हो ।

पउमचरिय और पद्मचरित—

उधर जब रविषेणके द्वारा प्रतिपादित अपने पद्मचरितका आधार कीर्तिधर मुनिके द्वारा प्रतिपादित रामकथाको जानते हैं और इधर जब विमलसूरिके उस प्राकृत ‘पउमचरिय’ को जिसकी कथावस्तु प्रतिपादन शैली, उद्देश अथवा पर्वोंके समानान्त नाम एवं कितने ही स्थलोपर पद्योका अर्थ साम्य भी देखते हैं तब कुछ द्विविधा-सी उत्पन्न होती है । पउमचरियमें विमलसूरिने ग्रन्थ निर्माणका जो समय दिया है उससे वह विक्रम संवत् ६० का ग्रन्थ सूचित होता है और रविषेणका पद्मचरित उससे ६७४ वर्ष पीछेका प्रकट होता है । यदि रविषेण पउमचरियको सामने रखकर अपने पद्मचरितमें उसका पल्लवन करते हैं तो फिर एक जैनाचार्यको इस विषयमें उनका कृतज्ञ होकर उनका नामोल्लेख अवश्य करना चाहिए था पर नामोल्लेख उन्होंने दूसरेका ही किया है यह एक विचारणीय बात है ।

‘पउमचरिय’ का निर्माण समय वही है जिसका कि विमलसूरिने उल्लेख किया है इसपर विश्वास करनेको जी नहीं चाहता । अनेकान्त वर्ष ५ किरण १०-११ में श्री पं० परमा-

नन्दजी शास्त्री सरस्वाका 'पद्मचरियका अन्तः परीक्षण' शीर्षक एक महत्त्वपूर्ण लेख छपा था। शास्त्रीजीकी आज्ञा लेकर उन्हींके शब्दोंमें मैं यहाँ वह लेख दे रहा हूँ जिससे पाठकोको विचारार्थ उचित सामग्री सुलभ हो जायगी।

पद्मचरिय का अन्तःपरीक्षण—

'पद्मचरिय' प्राकृत भाषाका एक चरित ग्रन्थ है, जिनमे रामचन्द्रकी कथाका अच्छा चित्रण किया गया है। इस ग्रन्थके कर्ता विमलसूरि है। ग्रन्थकर्ताने प्रस्तुत ग्रन्थमे अपना कोई विशेष परिचय न देकर सिर्फ यही सूचित किया है कि—'स्वसमय और परसमयके सद्भावको ग्रहण करनेवाले 'राहू' आचार्यके शिष्य विजय थे, उन विजयके शिष्य नाइल-कुल-नन्दिकर मुक्त 'विमल' द्वारा यह ग्रन्थ रचा गया है'। यद्यपि रामकी कथाके सम्बन्धमे विभिन्न कवियों द्वारा अनेक कथाग्रन्थ रचे गये हैं परन्तु उनमे जो उपलब्ध है वे सब पद्मचरियकी रचनासे अर्वाचीन कहे जाते हैं। क्योंकि इस ग्रन्थमें ग्रन्थका रचनाकाल वीर निर्वाणसे ५३० वर्ष बाद अर्थात् विक्रम संवत् ६० सूचित किया है। ग्रन्थकारने इस ग्रन्थमें उसी रामकथा को प्राकृतभाषामे सूत्रो सहित गाथाबद्ध किया बतलाया है जिसे प्राचीनकालमे भगवान् महावीरने कहा था, जो वादको उनके प्रमुख गणधर इन्द्रभूति द्वारा धर्माशयसे शिष्योंके प्रति कही गई और जो साधु-परम्परासे सकल लोकमें उस समय तक स्थित रही।

रचना काल

विद्वानोमे इस ग्रन्थके रचनाकालके सम्बन्धमे भारी मतभेद पाया जाता है। डा० विण्टर-नीज आदि कुछ विद्वान् तो ग्रन्थमे निर्दिष्ट समयको ठीक मानते हैं। किन्तु पाश्चात्य विद्वान् डा० हर्मन जैकोबी वगैरह इसकी रचना शैली भाषा साहित्यादि परसे इसका रचनाकाल ईसवीय तीसरी चौथी शताब्दी मानते हैं^३। कुछ विद्वान् डा० कीथ आदि इसमे 'दीनार' और ज्यौतिषशास्त्र सम्बन्धी कुछ ग्रीक भाषाके शब्दोंके पाये जानेके कारण इसे ईसवीयसे ३०० वर्ष या उसके भी बादका बतलाते हैं^४ और छन्दशास्त्रके विशेषज्ञ श्री दीवान बहादुर केशवलाल ध्रुव उक्त रचना कालपर भारी सन्देह व्यक्त करते हुए इसे बहुत

१. राहू नामायरिभो ससमय परसमय गहिय सब्भावो ।
विजयो य तस्स सीसो नाइलकुल वस नन्दियरो ॥११७॥
सीसेण तस्स रइय राहवचरिय तु सूरि विमलेण ।

—पद्मचरिय, उद्देश १०३

२. पचेव य वाससया दुसमाए तीस वरिस सजुत्ता ।
वीरे सिद्धिसुपगए तभो निबद्ध इम चरिय ॥१०३॥

एय वीरजिणेण रामचरिय सिद्धं महत्थ पुरा,

पच्छाखण्डलभूइणा उ कहियं सीसास धम्मासय ।

भूभो साहुपरपराए सयल लोए टिए पायड

एत्ताहे विमलेण सुत्तमहिय गाहानिबद्ध कय ॥१०२॥

—पद्मचरिय, उद्देश १०३

३ देखो, 'इन्साइक्लोपीडिया आफ ग्लिजार्न एण्ड एथिक्स' भाग ७ पृष्ठ ४३७ और 'मोडर्न रिव्यू' दिसम्बर सन् १९१४ ।

४. देखो, कीथका संस्कृत साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ३४, ५६ ।

वाङ्मय की रचना बतलाते हैं। आपने अपने लेखमें प्रकट किया है कि—इस ग्रन्थके प्रत्येक उद्देशके अन्तमें गाहिणी, शरभ, आदि छन्दोंका, गीतमें यमक और सर्गान्तमें विमल शब्दका प्रयोग भी इसकी अर्वाचीनताका ही द्योतक है। इनके सिवाय, और भी कितने ही विद्वान् इसके रचनाकाल पर संदिग्ध हैं—ग्रन्थमें निर्दिष्ट समयको ठीक माननेमें हिचकिचाते हैं, और इस तरह इसका रचनाकाल अवतक सन्देहकी कोटिमें ही पड़ा हुआ है। ऐसी स्थितिमें ग्रन्थोल्लिखित समयको सहसा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

ग्रन्थके समय-सम्बन्धमें विद्वानोंके उपलब्ध मंतोंका परिशीलन करते हुए, मैंने ग्रन्थके अन्तः साहित्यका जो परिचय किया है उस परसे मैं इस नतीजेको पहुँचा हूँ कि ग्रन्थका उक्त रचनाकाल ठीक नहीं है—वह जरूर किसी भूल अथवा लेखक-उपलेखककी गलतीका परिणाम है। और वह भी हो सकता है कि शककालकी तरह गौर निर्वाणके वर्षोंकी संख्याका तत्कालीन गलत प्रचार ही इसका कारण हो, परन्तु कुछ भी हो, ग्रन्थके अन्त-परीक्षणसे भुक्त उक्त समयके ठीक न होनेके जो दूसरे विशेष कारण मालूम हुए हैं वे निम्न तीन भागोंमें विभक्त हैं।—

- (१) दिगम्बर-श्वेताम्बरके सम्प्रदाय भेदसे पहले पञ्चमचरियका न रचा जाना।
 - (२) ग्रन्थमें दिगम्बराचार्य कुन्दुकुन्दकी मान्यताका अपनाना जाना।
 - (३) उभाम्बान्तिके तत्त्वार्थसूत्रोंका बहुत कुछ अनुसरण किया जाना।
- अब मैं इन तीनों प्रकारके कारणोंका क्रमशः स्पष्टीकरण करके बतलाता हूँ।

(१) जैनोंमें दिगम्बर-श्वेताम्बरका सम्प्रदाय भेद दिगम्बरोंकी मान्यतानुसार विक्रम संवत् १३६ में और श्वेताम्बरोंकी मान्यतानुसार संवत् १३६ में हुआ है। इस भेदसे पहलेके साहित्यमें जैनमाधुर्गोंके लिए 'दिगम्बर'—'श्वेताम्बर' शब्दोंका स्पष्ट प्रयोग कहीं भी नहीं देखा जाता। ऐसी स्थिति होते हुए यदि हम ग्रन्थमें किसी जैनसाधुके लिए श्वेताम्बर (सियंवर) शब्दका स्पष्ट प्रयोग पाया जाता है तो वह इस बातको सूचित करता है कि यह ग्रन्थ वि० संवत् १३६ से पहलेका बना हुआ नहीं है जिस वक्त तक दिगम्बर श्वेताम्बरके सम्प्रदाय भेदकी कल्पना रूढ़ नहीं हुई थी। ग्रन्थके २२ वे उद्देशमें एक स्थलपर ऐसा प्रयोग स्पष्ट है। यथा—

पेच्छद्द परिभमंतो दाहिणदेसे सियंवर पणओ ।

तस्म मगासे धम्मं सुणिऊण तओ समादत्तो ॥७८॥

अह मणह सुणिवरिंदो णिसुण सुधम्मं जिणेहि परिकहिय ।

जेदो य समणधम्मो सावयधम्मो य अणुजेदो ॥७९॥

इसमें राजच्युत सौदास राजाको दक्षिण देशमें भ्रमण करते हुए जिस जैन मुनिका दर्शन हुआ था और जिसके पाससे उसने श्रावकके व्रत लिये थे उसे श्वेताम्बर मुनि लिखा गया है। अतः यह ग्रन्थ वि० संवत् १३६ से पहलेकी रचना नहीं हो सकता।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि श्वेताम्बरीय विद्वान् मुनि कल्याण-विजयजी तो अपनी 'श्रमण भगवान् महावीर' पुस्तकमें यहाँ तक लिखते हैं कि—विक्रमकी सातवीं शताब्दीसे पहले दिगम्बर श्वेताम्बर दोनों स्थविर परम्पराओंमें एक दूसरेको दिगम्बर श्वेताम्बर कहनेका प्रारम्भ नहीं हुआ था। जैसा कि उनके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

“इसी समय (विक्रमकी सातवीं शताब्दीके प्रारम्भसे दशवींके अन्ततक) से एक दूसरे को दिगम्बर-श्वेताम्बर कहनेका भी प्रारम्भ हुआ” ॥ पृष्ठ ३०७

मुनि कल्याणविजयजीका यह अनुसंधान यदि ठीक है तो पद्मचरियका रचनाकाल विक्रम संवत् १३६ से ही नहीं किन्तु विक्रमकी सातवीं शताब्दीसे भी पहलेका नहीं हो सकता। इस ग्रन्थका सबसे प्राचीन उल्लेख भी अभी तक 'कुवलयमाला' नामके ग्रन्थमें ही उपलब्ध हुआ है जो शक संवत् ७०० अर्थात् विक्रम संवत् ८३५का बना हुआ है।

(२) श्री कुन्दकुन्द दिगम्बर सम्प्रदायके प्रधान आचार्य हैं। आपने चारित्तपाहुडमें सागार धर्मका वर्णन करते हुए सल्लेखनाको चतुर्थ शिष्याव्रत बतलाया है। आपसे पूर्वके और किसी भी ग्रन्थमें इस मान्यताका उल्लेख नहीं है और इसीलिए यह खास आपकी मान्यता समझी जाती है। आपको इस मान्यताको 'पद्मचरिय' के कर्ता विमलसूरिने अपनाया है। श्वेताम्बरीय आगम सूत्रोंमें इस मान्यताका कहीं भी उल्लेख नहीं है। मुख्तार साहबको प्राप्त हुए मुनिश्री पुण्यविजयजीके पत्रके निम्न वाक्यसे भी ऐसा ही प्रकट है :—'श्वेताम्बर आगमोंमें कहीं भी बारह व्रतोंमें सल्लेखनाका समावेश शिक्षाव्रतके रूपमें नहीं किया गया है'। चारित्त पाहुडके इस सागार धर्मवाले पद्योंका और भी कितना ही सादृश्य इस पद्मचरियमें पाया जाता है, जैसा कि नोचेकी तुलना परसे प्रकट है—

पचेवणुव्वयाइ गुणव्वयाइ हवति तह तिणिण ।
 भिक्खावय चत्तारि य सजमचरण च सायार ॥२३॥
 थूले तसकायवहे थूले मौसे अदत्तथूले य ।
 परिहारो परमहिला परिग्गहारभ परिमाण ॥२४॥
 दिसविदिसमाणपढम अणत्थदण्डस्स वज्जण विट्ठिय ।
 भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिणिण ॥२५॥
 सामाइय च पढम विदिय च तहेव पोसह भणिय ।
 तइय च अतिहिपुज्ज चउत्थ सल्लेहणा अते ॥२६॥

—चारित्तपाहुड

पच य अणुव्वयाइ तिण्णेव गुणव्वयाइ भणियाइ ।
 भिक्खावयाणि एत्तो चत्तारि जिणोवहट्टाणि ॥११२॥
 थूलयर पाणिवह मृसावाय अदत्तदाण च ।
 परजुवईण निवर्त्ता सतोपवय च पचमयं ॥११३॥
 दिसिविदिसाण य नियमो अणत्थदण्डस्स वज्जण चेव ।
 उवभोगपरीमाण तिण्णेव गुणव्वया एए ॥११४॥
 सामाइय च उववास-पोसहो अतिहितविभागो य ।
 अते समाहिसरण भिक्खासुवयाइ चत्तारि ॥११५॥

—पद्मचरिय उ० १४

इसके सिवाय, आचार्य कुन्दकुन्दके प्रवचनसारकी निम्न गाथा भी पद्मचरियमें कुछ शब्दपरिवर्तनके साथ उपलब्ध होती है—

ज अण्णाणी कम्म खवेदि भवसयसहस्सकोडीहि ।
 त णाणी तिहिगुत्तो खवेदी उस्सासमेत्तेण ॥३८॥

—प्रवचनसार अ० ३

ज अज्जाणतपस्सी खवेइ भवसयसहस्सकोडीहि ।
 कम्म त तिहिगुत्तो खवेइ णाणी मुहुत्तेण ॥१७७॥

—पद्मचरिय उ० १०२

ऐसी स्थितिमें पउमचरियकी रचना कुन्दकुन्दसे पहले की नहीं हो सकती। कुन्दकुन्दका समय प्रायः विक्रमकी पहली शताब्दीका उत्तरार्ध और दूसरी शताब्दीका पूर्वार्ध पाया जाता है— तीसरी शताब्दीके बादका तो वह किसी तरह भी नहीं कहा जा सकता। ऐसी हालतमें पउमचरियके निर्मागका जो समय वि० सं० ६० बतलाया जाता है वह संगत मालूम नहीं होता। मुनि कल्याणविजयजीने तो कुन्दकुन्दका समय वि० की छठी शताब्दी बतलाया है। उन्हें अपनी इस धारणाके अनुसार या तो पउमचरियको विक्रमकी छठी शताब्दीके बादका ग्रन्थ बतलाना होगा या वि० संवत् ६० से पहलेके बने हुए किसी श्वेताम्बर ग्रन्थमें सल्लेखना (समाधिमरण) को चतुर्थ शिक्षाव्रतके रूपमें विहित दिखलाना होगा और नहीं तो कुन्दकुन्दका समय विक्रम संवत् ६० से पूर्वका मानना होगा।

[३] उमास्वाति विरचित तत्त्वार्थ सूत्रके सूत्रोंकी पउमचरियके कतिपय स्थलोके साथ तुलना करनेसे दोनोमें भारी शब्द साम्य और कथनक्रमकी शैलीका अच्छा पता चलता है। और यह शब्द साम्यादिक श्वेताम्बरीय भाष्यमान्य पाठके साथ उतना सम्बन्ध नहीं रखता जितना कि दिगम्बरीय सूत्रपाठके साथ रखता हुआ जान पड़ता है। इतना ही नहीं, किन्तु जिन सूत्रोंको भाष्यमान्य पाठमें स्थान नहीं दिया गया है और जिनके विषयमें भाष्यके टीकाकार हरिभद्र और सिद्धसेन गणी अपनी भाष्य वृत्तिमें यहाँ तक सूचित करते हैं कि यहाँपर कुछ दूसरे विद्वान् बहुतसे नये सूत्र अपने आप बनाकर विस्तारके लिये रखते हैं उनमेंसे कितने ही सूत्रोंका गाथावद्ध कथन भी दिगम्बरीय परम्परा संमत सूत्रपाठके अनुसार इसमें पाया जाता है। यहाँपर पाठकोकी जानकारीके लिए तत्त्वार्थसूत्रोंकी और पउमचरियकी गाथाओंकी कुछ तुलना नीचे दी जाती है—

उपयोगो लक्षणम् ॥८॥ स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ॥९॥

—तत्त्वार्थसूत्र अ० २

जावाण उवओमो नाण तह दसण जिनक्खारं ।
नाण अट्टवियप्प चउव्विहं दसण भणिय ॥९६॥

—पउमचरिय उद्देस १०२

पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥

—तत्त्वार्थसूत्र अ० २

पुढवि जलजलण मारुय वणस्सई चेव थावरा एए ।
कायाएक्काय पुणो हवइ तओ पचभेयजुओ ॥९३॥

—पउमचरिय उद्देस १०२

जराजुजाण्डजपोतानां गर्भः ॥३३॥ देवनारकाणामुपपादः ॥३४॥ शोषाणां सम्मूर्च्छनम् ॥३५॥

—तत्त्वार्थसूत्र अ० २

अण्डाउय पोयाउय जराउया गढमजा इमे भणिया ।
सुरनारयउववाया इमे य समुच्छिमा जीवा ॥९७॥

—पउमचरिय उ० १०२

१. देखो, अनेकान्त वर्ष २ किरण १ प्रथम लेख, 'श्रीकुन्दकुन्द और यतिवृषममें पूर्ववर्ती कौन' ? तथा प्रवचनसारकी प्रो० ए० एन० उपाध्यायकी अग्रेजी प्रस्तावना। २. अग्रे पुनर्विद्वान्सोऽति ब्रह्मिन् स्वय विरच्यास्मिन् प्रस्तावे सूत्राण्यधीयते विस्तारदर्शनाभिप्रायेण—सिद्धसेन गणी, तत्त्वा० भा० टी० ३, ११ पृष्ठ २६१।

औदारिक-वैक्रियिकाहारकतैजसकर्मणानि शरीराणि ॥३६॥ परं परं सूक्ष्मम् ॥३७॥

—तत्त्वार्थसूत्र अ० २

ओरालिय विडम्बं आहारं तेजस कम्मइयं ।

सुहुमं परंपराए गुणेहिं सपज्जइ सररीरं ॥३६८॥

—पडमचरिय उ० १०२

रत्नशर्कराबालुकापङ्कधूमतमोमहातमःप्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः ॥१॥

तत्त्वार्थ० अ० ३

रयणप्पभायसक्करवालुयपंकप्पभा य धूमपभा ।

एत्तो तमा तमतमा सत्तमिया हवइ अइ घोरा ॥६६॥

—पडमचरिय उ० १०२

तासु त्रिंशत्पञ्चविंशति-पञ्चदशदशत्रिपञ्चोन्नैकनरकशतसहस्राणि पञ्च चैव यथाक्रमम् ॥२॥

—तत्त्वार्थ० अ० ३

तीसा य पन्नवीसा पणरस दस चैव होंति नरकाऊ ।

त्तिण्णेकं पंचूणं पंचेव अणुत्तरा नरया ॥३६॥

—पडमचरिय उ० २

तेष्वेकत्रिसप्तदश-सप्तदशद्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपमसत्त्वानां परा स्थितिः ॥६॥

—तत्त्वार्थ० अ० ३

एवक च तिणिण सत्त य दस सत्तरस तहेव द्वावीसा ।

तेत्तीस उचहिनामा भाऊ स्यणप्पभादासुं ॥८३॥

—पडमचरिय उ० १०२

जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥७॥

द्विद्विर्विष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो बलयाकृतयः ॥८॥

—तत्त्वार्थ० अ० ३

जम्बूद्वीपार्द्ध्या दीवा लवणाद्दया य सलिलनिही ।

पुगन्तरिया ते पुण दुगुणा दुगुणा असंखेज्जा ॥१०१॥

—पडमचरिय उ० १०२

तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः ॥६॥

—तत्त्वार्थ० अ० ३

तस्स वि हवइ मज्जे नाहगिरी मन्दरो सयसहस्सं ।

सव्वपमाणेणत्तो वित्थिण्णो दससहस्साइ ॥१०३॥

—पडमचरिय उ० १०२

भरत हेमवत्तहरिविदेहरग्यकहैरण्यवतैरावतवर्पाः क्षेत्राणि ॥

—तत्त्वार्थ० अ० ३

भारतं हेमवय पुण हरिवासं तह महाविदेहं च ।

रम्मय हेरण्यवयं उत्तरओ हवइ पुरवयं ॥१०६॥

—पडमचरिय उ० १०२

तद्विभानिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निपथनीलरुविमशिखरिणो वर्षधरपर्वताः ॥

—तत्त्वार्थ० अ० ३

हिमवो य महाहिमवो निसढो नीलो य रूपि सिंहरी य ।
एणुहि विहत्ताह सत्तेव हवति वासाई ॥१०५॥

—पठमचरिय उ० १०२

गङ्गासिन्धुरोहिद्रोहितास्या हरिद्धरिकान्ता सीतोदा नारी नर-
कान्तासुवर्णरूप्यकूला रक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥

—तत्त्वार्थ० अ० ३

गगा य पढम सरिया सिन्धू पुण रोहिया मुण्येव्वा ।
तह चैव रोहियसा हरि नदो चैव हरिकता ॥१०७॥
सीया विय सीओया नारी य तहेव होह नरकता ।
रूप्य सुवण्णकूला रत्ता रत्तावई भणिया ॥१०८॥

—पठमचरिय उ० १०२

भरतैरावतयोवृद्धिहासौ पट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम् ॥२७॥
ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥२८॥

—तत्त्वार्थ० अ० ३

भरहेरवए सु तहा हाणी बुद्धी सेसेसु य होइ खेत्तेसु ॥४१॥

—पठमचरिय उ० ३

भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरुत्तरकुरुभ्यः ॥३७॥

—तत्त्वार्थ० अ० ३

पचसु पंचसु पचसु भरहेरवएसु तह विदेहेसु ।
भणिया कम्मभूमी तीस पुणभोगभूमीओ ॥१११॥
हेमवय हरिवास उत्तरकुरु तह य देवकुरु ।
रम्मय हेरणवय एवाओ भोगभूमीओ ॥११२॥

—पठमचरिय अ० १०२

भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितो दधिद्वीपद्विकुमाराः ॥१०॥

—तत्त्वार्थ० अ० ४

असुरा नागसुवण्णा दीवसमुहा दिसाकुमारा य ।
वायगिगिदिज्जुथणिया भवणणिवासी दसवियप्पा ॥३२॥

—पठमचरिय उ० ७५

व्यन्तराः किन्नरकिम्पुरुपमहोरगगन्धर्वयक्षराक्षसभूतपिशाचाः ॥१०॥

—तत्त्वार्थ० अ० ४

किन्नरकिंपुरिसमहोरगा य गन्धर्व रक्खसा जक्खा ।
भूया य पिसाया वि य अट्टविहा वाणमन्तरिया ॥३२॥

—पठमचरिय उ० ७५

सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्च ॥१२॥

—तत्त्वार्थ० अ० ४

चन्तरसूराण उवरिं पंचविहा जोइसा तओ देवा ।
चन्दा सूरा य गहा नक्खत्ता तारया नेया ॥१४॥

—पठमचरिय उ० १०२

ईर्याभापैपणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥५॥

—तत्त्वार्थ० अ० ६

इरिया भासा तह एसणा य आयाणमेव निक्खेवो ।
उच्चाराई समिह पचमिया होइ नायब्बा ॥७१॥

—पउमचरिय उ० १४

अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायकलेशा बाह्य तपः ॥१३॥
प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥२०॥

—तत्त्वार्थ० अ० ६

अणसण भूणोइरिया वित्तीसखेव काय परिपीडा ।
रसपरिचागो य तहा विवित्तसयणासण चेव ॥७४॥
पायच्छित्तं त्रिणभो वेयावच्चं तहेव सज्झाओ ।
क्काण चिय उस्सग्गो तवो य अबभत्तरो एसो ॥७५॥

—पउमचरिय उ० १४

इस तुलना परसे स्पष्ट है कि पउमचरियकी बहुत सी गाथाएँ तत्त्वार्थ सूत्रके सूत्रोंपरसे बनाई गई हैं। ग्रन्थके अन्तमें ग्रन्थकारने 'एत्ताहे विमलेण सुत्त सहियं गाहानिवद्धं कयं' इस वाक्यके द्वारा ऐसी सूचना भी की है कि उसने सूत्रोंको गाथानिबद्ध किया है। ऐसी हालतमें इस ग्रन्थका तत्त्वार्थ सूत्रके बाद बनना असंदिग्ध है। तत्त्वार्थ सूत्रके कर्ता आचार्य उमास्वाति श्री कुन्दकुन्दाचार्यके भी वाद हुए हैं—वे कुन्दकुन्दकी वंशपरम्परामें हुए हैं जैसा कि श्रवणवेल गोलादिके अनेक शिलालेखो आदि परसे प्रकट है।^१ और इसलिए पउमचरियमें उसकी रचनाका जो समय दिया है वह और भी अधिक आपत्तिके योग्य हो जाता है और जरूर ही किसी भूल तथा गलतीका परिणाम जान पड़ता है।

ग्रन्थकी कुछ खास बातें—

पउमचरियके अन्तःपरीक्षण परसे कुछ बातें ऐसी मालूम होती हैं जो खास तौरपर दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यतादिसे सम्बन्ध रखती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनका श्वेताम्बर सम्प्रदायकी मान्यतादिसे विशेष सम्बन्ध है और कुछ ऐसी भी हैं जो दोनोंकी मान्यताओसे कुछ भिन्न प्रकारकी जान पड़ती हैं। यहाँ मैं उन सबको विद्वानोंके विचारार्थ दे देना चाहता हूँ, जिससे उन्हें इस बातका निर्णय करनेमें मदद मिले कि यह ग्रन्थ वास्तवमें कौनसे सम्प्रदाय विशेष का है; क्योंकि अभी तक यह पूरे तौरपर निर्णय नहीं हो सका है कि इस ग्रन्थके कर्ता दिगम्बर श्वेताम्बर अथवा यापनीय आदि कौनसे सम्प्रदायके आचार्य थे। कुछ विद्वान् इस ग्रन्थको श्वेताम्बर, कुछ दिगम्बर और कुछ यापनीय सबका बतलाते हैं।

[क] दिगम्बर सम्प्रदाय सम्बन्धी—

[१] ग्रन्थके प्रथम उद्देशमें कथावतार वर्णनकी एक गाथा निम्न प्रकारसे पाई जाती है—

वीरस्स पवरठाण विपुलगिरिमत्थए मणभिरामे ।

तह इदभूइ कहिय सेणिय रण्णस्स नीसेस ॥३४॥

इसमें बतलाया है कि जब वीर भगवान्का समवसरण विपुलाचल पर्वतपर स्थित था तब वहाँ इन्द्रभूति नामक गौतम गणधरने यह सब रामचरित राजा श्रेणिकसे कहा है। कथा-

१. देखो, श्रवणवेलगोलके शिलालेख नं० ४०, १०५, १०८

वतारकी यह पद्धति खास तौरपर दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती है।^१ दिगम्बर सम्प्रदायके प्रायः सभी ग्रन्थ, जिनमें कथाके अवतारका प्रसङ्ग दिया हुआ है—विपुलाचल पर्वतपर चीर भगवान्का समवसरण आने और उसमें इन्द्रभूति-गौतम द्वारा राजा श्रेणिकको—उसके प्रश्नपर कथाके कहे जानेका उल्लेख करते हैं; जब कि श्वेताम्बरीय कथाग्रन्थोंकी पद्धति इससे भिन्न है—वे सुधर्म स्वामी द्वारा जम्बू स्वामीके प्रति कथाके अवतारका प्रसङ्ग बतलाते हैं, जैसा कि संघदास गणीकी वसुदेवहिण्डीके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

“तत्थ ताव सुहम्मसामिणा जंवूनामस्स पढमाणुयोगे तिस्थयरचक्कवट्टि-दशारवंशपरु-वणगयं वसुदेवचरियं कहियं त्ति तस्सेव त्ति ।”

श्वेताम्बरीके यहाँ मूल आगम ग्रन्थोंकी रचना भी सुधर्मा स्वामीके द्वारा हुई बतलाई जाती है जब कि दिगम्बर परम्परामें उनकी रचनाका सम्बन्ध गौतम गणधर-इन्द्रभूतिके साथ निर्दिष्ट है।

[२] ग्रन्थके द्वितीय उद्देशमें शिक्षाव्रतोंका वर्णन करते हुए समाधिभरण नामक सल्लेखना व्रतको चतुर्थ शिक्षाव्रत बतलाया है। यथा—

सामाइय च उपवासपोसहो अतिहि सविभागो य ।

अते समाहिमरण सिक्खा सुवयाइं चत्तारि ॥११५॥

समाधिभरण रूप सल्लेखना व्रतको शिक्षाव्रतोंमें परिगणित करनेकी यह मान्यता दिगम्बर सम्प्रदायकी है—आचार्य कुण्डकुण्डके चारित पाहुडमें, जिनसेनके आदि पुराणमें, शिवकोटिकी रत्नमालामें, देवसेनके भावसग्रहमें और वसुनन्दीके श्रावकाचार जैसे ग्रन्थोंमें इसका स्पष्ट विधान पाया जाता है^३। जयसिंहनन्दीके वराग चरितमें भी यह उल्लिखित है। श्वेताम्बरीय आगम सूत्रोंमें इसको कहीं भी शिक्षाव्रतोंके रूपमें वर्णित नहीं किया है, जैसा कि मुख्तार श्री जुगलकिशोरको लिखे गये मुनि श्री पुण्यविजयजीके एक पत्रके निम्न वाक्यसे भी प्रकट है—

‘श्वेताम्बर आगममें कहीं भी १२ व्रतोंमें सल्लेखनाका समावेश शिक्षाव्रतके रूपमें नहीं किया गया है’।

अतः यह मान्यता खासतौरपर दिगम्बर सम्प्रदायके साथ सम्बन्ध रखती है।

[ख] श्वेताम्बर सम्प्रदाय सम्बन्धी—

(१) इस ग्रन्थके दूसरे उद्देश्यकी २२ वीं गाथामें तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धके बीस कारण बतलाये हैं^३। यद्यपि इनके नाम ग्रन्थमें कहीं भी प्रकट नहीं किये, फिर भी २० कारणोंकी यह मान्यता श्वेताम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती है क्योंकि उनके ज्ञाता धर्मकथादि ग्रन्थोंमें २० कारण गिनाये हैं। दिगम्बर सम्प्रदायके षट्खण्डादि ग्रन्थोंमें सर्वत्र १६ कारण ही बतलाये गये हैं।

१. इस बातको श्वेताम्बरीय ऐतिहासिक विद्वान् श्री मोहनलाल दलीचन्द्रजी देसाई, एडवोकेट वम्बईने भी ‘कुमारपालना समयनु एक अपभ्रंश काव्य’ नामक अपने लेखमें स्वीकार किया है और इसे भी ‘प्रद्युम्न चरित’ नामक उक्त काव्य ग्रन्थके कर्ताको दिगम्बर बतलानेमें एक हेतु दिया है। देखो, ‘जैनाचार्य श्री आत्मानन्द-जन्म शताब्दी-स्मारक ग्रन्थ’ गुजराती लेख पृष्ठ २६०।

२. देखो, मुख्तार श्री जुगलकिशोर विरचित ‘जैनाचार्योंका शासन भेद’ नामक पुस्तकका ‘गुणव्रत और शिक्षाव्रत’ प्रकरण।

३. ‘बीस जिण कारणाहं भावेओ’।

[२] ग्रन्थमें चतुर्थ उद्देशकी ५८ वीं गाथामें भरत चक्रवर्तीकी ६४ हजार रानियोंका उल्लेख है^१। रानियोंकी यह संख्या भी श्वेताम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती है। दिगम्बर सम्प्रदायमें ६६ हजार रानियोंका उल्लेख है।

[३] ग्रन्थके ७३ वें उद्देशकी ३४ वीं गाथामें रावणकी मृत्यु ज्येष्ठ कृष्ण एकादशीको लिखी है^२। यह मान्यता श्वेताम्बर सम्प्रदाय सम्मत जान पड़ती है, क्योंकि हेमचन्द्र आचार्यने भी अपने 'त्रिपष्टिशालाकापुरुषचरित्रम्' में इस तिथिका उल्लेख किया है^३। यह भी हो सकता है कि हेमचन्द्राचार्यने अपने ग्रन्थमें इस ग्रन्थका अनुसरण किया हो। कुछ भी हो, दिगम्बर सम्प्रदायमें इस तिथिका कोई उल्लेख नहीं है और न वाल्मीकि रामायणमें ही यह उपलब्ध होती है।

[४] ग्रन्थके २२ वें उद्देश (पूर्वोद्धृत गाथा नं० ७७-७८) में मांसभक्षी राजा सौदास को दक्षिण देशमें भ्रमण करते हुए जिनमुनि महाराजका धर्मोपदेश मिला उन्हें श्वेताम्बर लिखा है।

इन बातोंके अतिरिक्त १२ कल्पों (स्वर्गों) की भी एक मान्यताका इस ग्रन्थमें उल्लेख है, जिसे कुछ विद्वानोंने श्वेताम्बर मान्यता बतलाया है; परन्तु दिगम्बर, सम्प्रदायके तिलोपपण्णत्ति और वरांगचरित्र जैसे पुराने ग्रन्थोंमें भी १२ स्वर्गोंका उल्लेख है। दिगम्बर सम्प्रदायको इन्द्रो और उनके अधिकृत प्रदेशोंकी अपेक्षा १२ और १६ स्वर्गोंकी दोनो मान्यताएँ इष्ट हैं जिसका स्पष्टीकरण त्रिलोकसारकी तीन गाथाओं नं० ४५२, ४५३, ४५४ से भले प्रकार हो जाता है^४।

[५] इस ग्रन्थके १०२ वें उद्देशमें कल्पों तथा नवग्रैव्यकोके अनन्तर आदित्यादि अनुदिशोंका उल्लेख निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

कप्पाण पुण उचरिं नवगेवेज्जाइं मणभिरामाहं ।

ताण वि अणुहिसाइं पुरेओ आइब्ब पमुहाइं ॥१४५॥

अनुदिशोंकी यह मान्यता भी खास तौरपर दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती है— दिगम्बर सम्प्रदायके षट्खण्डागम, धवला, तिलोपपण्णत्ती, लोकविभाग और त्रिलोकसार जैसे सभी ग्रन्थोंमें अनुदिशोंका विधान है जब कि श्वेताम्बरीय आगमोंमें इनका कहीं भी उल्लेख नहीं है। उपाध्याय मुनि श्रीआत्मारामजीने 'तत्त्वार्थसूत्र जैनागम समन्वय' नामक जो ग्रन्थ हिन्दी अनुवादादिके साथ प्रकाशित किया है उसमें पृष्ठ ११६ पर यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'आगम ग्रन्थोंमें नव अनुदिशोंका अस्तित्व नहीं माना है'।

[४] इस ग्रन्थके द्वितीय उद्देशमें वीर भगवान्के जन्मादिकका कथन करते हुए उनके विवाहित होनेका कोई उल्लेख नहीं किया, प्रत्युत इसमें यह साफ लिखा है कि जब वे बालभाव

१. 'चउसट्टि सहस्साइ जुवईण परमरूवधारीण' ।

२. 'जेट्टस्स बहुलपक्खे दिवसस्स चउत्थभागग्गि ।
एगारिसिए दिवसे रावणमरणं वियाणाहि ॥'

३. तदा च ज्येष्ठकृष्णैकादश्यामहश्च पश्चिमे ।
यामे मृतो दशग्रीवश्चतुर्थं नरक ययौ ॥

—त्रिपष्टि० पु० च० ७-३७६

४. देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण ११-१२ पृष्ठ ६२४ ।

को छोड़कर तीस वर्षके हो गये तब वैराग्य [संवेग] को प्राप्त करके उन्होंने दीक्षा [प्रव्रज्या] ले ली ।

इसके सिवाय बीसवें उद्देशमें उनकी गणना वासुपूज्य, मल्लि अरिष्टनेमि और पार्श्वके साथ उन कुमार श्रमणोंमें—बालब्रह्मचारी जैन तीर्थङ्करोंमें की है जो भोग न भोगकर कुमार कालमें ही घरसे निकलकर दीक्षित हुए हैं । वीर प्रभुके विवाहित न होनेकी यह मान्यता भी खास तौरपर दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती है, क्योंकि दिगम्बर ग्रन्थोंमें कहीं भी उनके विवाहका विधान नहीं है—सर्वत्र एक स्वरसे उन्हें अविवाहित घोषित किया है, जब कि श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें आमतौरपर उन्हें विवाहित बतलाया है । कल्पसूत्रमें उनकी भार्या, पुत्री तथा दोहती तकके नामोंका उल्लेख है । यह दूसरी बात है कि आवश्यक निर्युक्ति [गाथा नं० २२१-२२२] में भी जिसका निर्माण काल छठी शताब्दीसे पूर्वका नहीं है । वीर भगवान्को कुमारश्रमणोंमें परिगणित किया है परन्तु यह एक प्रकारसे दिगम्बर मान्यताका ही स्वीकार जान पड़ता है ।

[५] इस ग्रन्थसे ८३ वें उद्देशमें राजा भरतकी दीक्षाका वर्णन करते हुए एक गाथा निम्न प्रकारसे दी है—

अणुमण्णओ गुरूण भरहो काऊण तत्थऽल्लकार ।

निस्सेससगरहिओ लुचह धीरो णिपयकेसे ॥५॥

इसमें वस्तुतः वल्ल तथा अलंकारोंका त्याग करके भरत महाराजके सम्पूर्ण परिग्रहसे रहित होने और केशलोच करनेका उल्लेख है, परन्तु 'काऊण तत्थऽलंकार' के स्थानपर यहाँ 'काऊण तत्थअलङ्कार' ऐसा जो पाठ दिया है वह किसी गलती अथवा परिवर्तनका परिणाम जान पड़ता है, अन्यथा अलङ्कार धारण करके—शृङ्गार—करके निःशेष संगसे रहित होनेकी बात असंगत जान पड़ती है । साथ ही 'तत्थ' शब्द और भी निरर्थक जान पड़ता है । अतः यह उल्लेख अपने मूलमें दिगम्बर मान्यताकी ओर संकेतको लिये हुए है ।

[६] कुछ भिन्न प्रकारकी—

[१] इस ग्रन्थमें भगवान् ऋषभदेवकी माता मरुदेवीको आने वाले स्वप्नोंकी संख्या १५ गिनाई है, जब कि श्वेताम्बर सम्प्रदायमें वह १४ और दिगम्बर सम्प्रदायमें १६ बतलाई गई है । इसमें दिगम्बर मान्यतानुसार 'सिंहासन' नामके एक स्वप्नकी कमी है और श्वेताम्बर मान्यतानुसार 'विमान' और 'भवन' दोनोंमेंसे कोई एक होना चाहिए ।

[२] ग्रन्थके १०५ वे उद्देशके निम्न पद्यमें महाभारत और रामायणका अन्तरकाल ६४००० वर्ष बतलाया है । यथा—

चउसट्ठि सहस्साह वरिसाण अन्तरं समक्खाय ।

तित्थयरे हि महायस भारतरामायणाणत्तु ॥१६॥

इस अन्तरकालका समर्थन दोनों परम्पराओंमें किसीसे भी नहीं होता, स्वयं ग्रन्थकार द्वारा वर्णित तीर्थङ्करोंके अन्तरकालसे भी विरुद्ध पड़ता है, क्योंकि रामायणकी उत्पत्ति २० वें

१. उम्मुक्क बालभावो तीसइवरिसो जिणो जाओ ॥२८॥

अह अन्नया कयाई सवेगदरो जिणो मुणियदोसो ।

लोगंतिथ परिक्किण्णो पब्बज्जमुवागओ वीरो ॥२९॥

२. मल्ली अरिट्ठणेमी पासो वीरो य वासुपुज्जो य ॥५७॥

एए कुमारसीहा गोहाओ निग्गया जिणवरिंदा ।

सेसा वि हु रायाणो पुहई भोत्तूण णिक्खत्ता ॥५८॥

तीर्थङ्कर मुनि सुव्रतके कालमें हुई है और महाभारतकी उत्पत्ति २० वें तीर्थङ्कर नेमिनाथके समयमें हुई है और दोनों तीर्थङ्करोका अन्तरकाल ग्रन्थकारने स्वयं २० वे मे ११ लाख व्रतलाया है, यथा—
 छत्रेव समसहस्रा वीसहस्रं अन्तरं समुद्दिष्ट ।

पञ्चैव हवद् लक्ष्मा जिणतर एग वीमडमं ॥८१॥

[३] दूसरे उद्देशकी निम्न गाथामे भगवान् महावीरको अष्टकर्मके विनाशसे केवल ज्ञानकी उत्पत्ति वतलाई है जैसा कि उसके निम्न पद्यसे प्रकट है—

अह अष्ट कर्म रहियस्स तस्स माणोवजोगजुत्तस्स ।

सयलजगज्जोयकर केवलणणं समुप्पण्णं ॥३०॥

यह कथन दोनो ही सम्प्रदायसे वाधित है, क्योंकि दोनो ही सम्प्रदायोंमें चार घातिया कर्मके विनाशसे केवल ज्ञानोत्पत्ति मानी है, अष्टकर्मके विनाशसे तो मोक्ष होता है ।

आशा है विद्वल्लन इन सब वातोपर विचार करके ग्रन्थके निर्माण समय और ग्रन्थकारके सम्बन्धमें विशेष निर्णय करनेमें प्रवृत्त होंगे ।

पद्मचरितके मुख्य कथा पात्र—

यद्यपि पद्मचरितके मुख्य नायक आठवें बलभद्र पद्म (राम) हैं । तथापि उनके संपर्कसे इसमें अनेक पात्रोंका सुन्दर चरित्र-चित्रण हुआ है जो मानवको मानवताकी प्राप्तिके लिए अत्यन्त सहायक हैं । इस स्तम्भमें मैं निम्नांकित १० पात्रोंका संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ—

[१] रावण—

इन्द्र विद्याधरसे हार कर माली अलङ्कारपुर (पाताल लंका) में रहने लगता है वहाँ उसके रत्नश्रवा नामका पुत्र होता है, तरुण होनेपर रत्नश्रवाका केकसीके साथ विवाह होता है । यहाँ रत्नश्रवा और केकसीका युगल रावणके जन्मदाता हैं । रावण वाल्य अवस्थासे ही शूर वीर था । कुम्भकर्ण तथा विभीषण इसके अनुज थे और चन्द्रनखा इसकी लघु बहिन थी । एक दिन केकसी की गोदमें रावण बैठा था उसी समय आकाशसे वैश्रवण विद्याधरकी सवारी निकलती है, उसके ठाट-वाटको देखकर रावण माँसे पूछता है कि माँ ! यह कौन प्रभावशाली पुरुष जा रहा है । माँ उसका परिचय देती हुई कहती है कि यह तेरी मौसीका लड़का है, बड़ा प्रतापी है, इसने तेरे चाचाके भाईको मारकर लंका छीन ली है और हम लोगोको इस पाताललङ्कामें विपत्तिके दिन काटना पड़ रहा है । पिछले वैभवका दृश्य केकसीकी दृष्टिके सामने मूमने लगता है और वर्तमान दशाका चिन्तन करते-करते उसके नेत्रोंसे आँसू टुलकने लगते हैं । माताकी दीन दशा देख रावण और कुम्भकर्ण उसे सान्त्वना देते हैं । रावण विद्याएँ सिद्ध करनेके लिए सधन अटवीमें जाता है । जम्बू द्वीपका अनावृत यज्ञ उसकी कठिन परीक्षा लेता है । तरह-तरहके उपसर्ग—उपद्रव एवं भयंकर दृश्य उपस्थित करता है । कभी उसकी माता और पिताकी दुर्दशाके दृश्य सामने उपस्थित कर उसकी दृढ़ताको कम करना चाहता है, तो कभी सिंह, व्याघ्र, सर्प आदिके भयावह रूप प्रदर्शित कर उसे भीत बनाना चाहता है पर धन्य रे रावण ! वह सब उपद्रव सहन कर रख मात्र भी अपने लक्ष्यसे विचलित नहीं होता है और अनेको विद्याएँ सिद्ध कर वापिस लौटता है । सुन्दर तो था ही इसलिए अनेक राजकुमारियोंके साथ उसका सम्बन्ध होता है । मन्दोदरी जैसी पवित्र और विचारशीला कन्याके साथ उसका पाणिग्रहण होता है । अनन्तवीर्य केवलीके पास रावण प्रतिज्ञा लेता है कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे हाथ नहीं लगाऊँगा । रावणका विवेक उस समय पाठकको वरवश आकृष्ट कर लेता है जब वह नलकूबरकी स्त्रीका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा देता है और उसे सुन्दर शिक्षा देता है । राजा मरुत्वके हिंसापूर्ण यज्ञमें नारदकी दुर्दशाका समाचार सुनते ही रावण उसकी रक्षाके लिए दौड़ पड़ता है

और उसका पाखण्डपूर्ण यज्ञ नष्ट कर सद्धर्मकी प्रभावना करता है। वरुणके युद्धमें कुम्भकर्ण वरुणके नगरमें प्रजाकी बहू-बेटियोंको बन्दी बनाकर रावणके सामने उपस्थित करता है, तब रावण कुम्भकर्णको जो फटकार लगाता है वह बड़ी मार्मिक है। वह कहता है भले आदमी। वरुणके साथ तेरी लड़ाई थी तूने निरपराध नागरिकोंकी स्त्रियोंको इस तरह संकटमें क्यों डाला ? क्यों तूने उनका अपमान किया ? तू यदि अपनी कुशल चाहता है तो सम्मानके साथ इन्हे इनके घर वापिस कर। अनेक राजाओंको दिग्विजयमें परास्त कर रावण इन्द्रको बन्दी बनाता है। उसके निवास-स्थानपर दूसरे दिन इन्द्रका पिता आता है। उसके साथ रावण कितनी नम्रतासे प्रस्तुत होता है मानो विनयका अवतार ही हो। आचार्य रविषेणने उस समय उसकी विनय प्रदर्शितकर जो उसे ऊँचा उठाया है वह हृदयको गद्गद कर देती है। इस तरह हम देखते हैं कि रावण अहंकारी प्रतिद्वन्द्वी विद्याधरोका उन्मूलन कर भरतक्षेत्रके दक्षिण दिक्स्थित तीनखण्डों एवं विजयार्ध पर्वतपर अपना शासन स्थापित करता है। यह राक्षस नहीं था राक्षसवंशी था। वाल्मीकिने इसे राक्षस घोषित कर वस्तुस्थितिका अपलाप किया है।

‘भवितव्यता वलीयसी’ के सिद्धान्तानुसार रावण रामकी स्त्री सीताको देख उसपर मोहित होता है और छलसे उसका हरण करता है। लकाकी अशोक वाटिकामें सीताको रखता है सब प्रकारसे अनुनय विनय करता है पर केवलीके समक्ष ली प्रतिज्ञापर उस समय भी दृढ़ रहता है और सीताकी इच्छाके विरुद्ध उसके शरीरपर अंगुली भी नहीं लगाता है। पापका उदय आनेसे रावणकी विवेक शक्ति लुप्त हो जाती है, वह मानके मदमें मत्त हो मन्दोदरीके कान्तासंमित उपदेशको ठुकराता है और विभीषण जैसे नीतिज्ञ तथा धर्मज्ञ भाईका तिरस्कारकर उसे लंकासे बाहर जानेके लिए विवश करता है। राम तथा विद्याधरोकी सेना लंकाको चारों ओरसे घेर लेती है। रावण शान्तिनाथके मन्दिरमें बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करता है। लक्ष्मणकी प्रेरणासे अनेक विद्याधर लंकामें उपद्रव करते हैं पर रावण पर्वतकी तरह स्थिर रहकर बहुरूपिणी विद्या सिद्धकर उठता है। अन्तमें उसका पुण्य उसका साथ नहीं देता है। हाथका सुदर्शनचक्र लक्ष्मणके पास पहुँच जाता है और लक्ष्मणके द्वारा उसकी मृत्यु होती है। रावणके मरते ही रामके जीवनका प्रथमाध्याय समाप्त हो जाता है।

[२] मन्दोदरी—

विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीपर असुरसंगीत नामक नगरीमें राजा मय रहता है। उसकी स्त्रीका नाम हेमवती है। मन्दोदरी उन्हींकी पुत्री है। जब मन्त्रियोंके साथ सलाहकर राजा मय रावणके साथ मन्दोदरीका विवाह करना निश्चित करता है उस समय रावण भीम वनमें ठहरा था। मय मन्दोदरीको साथ ले रावणसे मिलनेके लिए जाता है। मन्दोदरीकी रूप माधुरी रावणका मन मोहित कर लेती है। विधिपूर्वक दोनोंका विवाह होता है। मन्दोदरी अपनी गुणगरिमाके कारण रावणकी पट्टरानी बनती है। हम देखते हैं कि मन्दोदरी बड़ी प्रतिभाशालिनी विवेकवती स्त्री है। वह रावणको समय-समयपर अनेक हितावह उपदेश देकर सुमार्गपर लाती रही है। जिस प्रकार उफनते दूधमें पानीकी एक अंजलि छोड़ दी जाती है तो उफान शान्त हो जाता है, उसी प्रकार मन्दोदरीके उपदेशने कितनी ही जगह रावणका उफान शान्त किया है। रावण लंकासे बाहर गया था इतनेमें खरदूषण रावणकी बहिन चन्द्रनखाको हर ले जाता है। लंकामें वापिस आनेपर रावण जब यह समाचार सुनता है तब उसका क्रोध उबल पड़ता है और वह खरदूषणपर चढ़ाई करनेके लिए उद्यत होता है। उस समय मन्दोदरीका कोमल कान्त उपदेश रावणके क्रोधको क्षणभरमें शान्त कर देता है। आचार्य रविषेणका वह चित्रण मन्दोदरीकी दीर्घदर्शिता और सद्बिचारकताको कितना अधिक निखार देता है यह पाठक इस प्रकरणको

पढ़ स्वयं देखें। रावण सीताको हरकर लंकामें वापिस पहुँचता है उस समय भी मन्दोदरी कितने ढंगसे कुपथगामी पतिको सुपथपर लानेका प्रयत्न करती है यह आश्चर्यमें डाल देनेवाली बात है। इन्द्रजित् और मेघवाहन इसके पुत्र हैं। रावण वधके बाद जब इसके दोनो पुत्र अनन्तवीर्य महामुनिके पास दीक्षा लेते हैं तब यह अधिक दुःखी होती है परन्तु शशिकान्ता नामकी आर्या अपने शान्तिपूर्ण वचनोसे उसे प्रकृतिस्थ कर देती है जिससे वह अनेक स्त्रियोंके साथ आर्थिका हो जाती है। अब तीनखण्डके अधिपति रावणकी पट्टरानीके शरीरपर केवल एक शुक्ल साड़ी ही सुशोभित होती है। अन्तमे तपश्चरणकर स्वर्ग जाती है।

[३] राजा दशरथ—

राजा दशरथ अयोध्याके राजा अनरण्यके पुत्र हैं, स्वभावके सरल, शरीरके सुन्दर तथा साहसके अवतार हैं। इनकी चार रानियाँ कोशल्या (अपराजिता), केकया, सुमित्रा और सुप्रथासे राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न ये चार पुत्र उत्पन्न होते हैं। मित्र वत्सलताके मानो सागर ही हैं। राजा जनकके ऊपर म्लेच्छोका आक्रमण होता है। मित्रका समाचार पाते ही राजा दशरथ पूरी तैयारीके साथ जनककी सहायताके लिए दौड़ पड़ते हैं और म्लेच्छ नष्ट-भ्रष्ट होकर उनके देशसे भाग जाते हैं। राजा दशरथके इस सहयोग एवं मित्रवात्सल्यसे प्रेरित हो राजा जनक अपनी पुत्री सीताको दशरथ-सुत रामके लिये देना निश्चित कर लेते हैं। नारदीय लीलाके कारण यद्यपि जनकको इस विषयमें विद्याधरोके साथ काफी संघर्ष उठाना पड़ता है तथापि भवितव्यताके अनुसार सब कार्य ठीक हो जाता है। राम वज्रावर्त धनुषको चढ़ाकर सीताके साथ विवाह करते हैं। केकयाकी रणकलासे राजा दशरथ उसपर अधिक प्रसन्न होते हैं, उसके लिए इच्छित वर देते हैं। कारण पाकर उन्हें वैराग्य आता है। रामको राज्य देनेका अवसर आता है। केकयाकी विद्रोहात्मक भावना उमड़ती है और वह अपने पुत्र भरतको राज्य देनेकी बात सामने रखती है। दशरथ मनचाहा वर देनेके लिए वचनबद्ध होनेसे केकयाकी बात मान लेते हैं। राम, लक्ष्मण और सीताके साथ वनको चले जाते हैं। राम लक्ष्मणकी माताओं के विलाप एवं प्रजाजनोकी कटुक आलोचनाएँ राजा दशरथको अपने इस सत्यसे विमुख नहीं कर पाती हैं। रामके चले जानेपर वे दीक्षा लेकर आत्मकल्याण करते हैं। इस प्रकरणमें वाल्मीकिने राजा दशरथका केकयाके प्रति कामासक्ति आदिका वर्णनकर उनकी पर्याप्त भर्त्सना की है पर रविषेणने रामपिताके चित्रणमें ऐसी कोई बात नहीं आने दी कि जिससे वे गौरवके शिखरसे नीचे गिर सके।

[४] कैकया—

केकया निखिल कला पारंगत नारी है। आचार्य रविषेणने इसकी कलाओंका वर्णन करने के लिए एक पूरा-का-पूरा पर्व समाप्त किया है। इसके पुत्रका नाम भरत है मनोविज्ञानकी यह पूर्ण पण्डिता है। मिथिलामें जब राम और लक्ष्मणका शान-शौकतके साथ विवाह होता है तब इसे भरतकी मनोदशाका भान होता है जिससे यह राजा दशरथसे एकान्तमें कहती है कि जनकके भाई जनककी पुत्रीके साथ भरतके विवाहका आयोजन करो। केकयाकी आज्ञानुसार राजा दशरथ वैसा ही करते हैं। यद्यपि अवसर पाकर केकयाके हृदयमें विमाताकी ईर्ष्या जागृत होती है पर वह पीछे चलकर बहुत पछताती है। भरत तथा अनेक सामन्तोंको साथ लेकर वह वनमें स्थित राम-लक्ष्मणको लौटानेके लिए स्वयं जाती है। बहुत अनुनय-विनय करती है पर राम टससे मस नहो होते हैं प्रत्युत समझा-बुझाकर भरतका ही पुनः राज्याभिषेक करते हैं केकया अपनी करनीपर पश्चात्ताप करती हुई वापिस आ जाती है।

[५] राजा जनक—

मिथिलाके राजा जनक, सीताके पिता हैं। बहुत ही विवेकी और स्वाभिमानकी रत्ना करनेवाले हैं। नारदीय लोलाके कारण सीताका चित्रपट देख भामण्डल विद्याधर जो इन्हींका जन्महृत पुत्र था, सीतापर मोहित हो गया था। एक विद्याधर मायामय अश्वका रूप रख जनकको विद्याधर लोकमें हर ले जाता है। जनक, विद्याधरकी सभामें प्रविष्ट होते हैं, विद्याधर कहते हैं तुम अपनी पुत्री सीताका भामण्डलके साथ विवाह कर दो पर जनक साहसके साथ कहते हैं कि हम तो सीता दशरथके पुत्र रामके लिए देना निश्चित कर चुके हैं। इस प्रकरणमें विद्याधर भूमि गोचरियोंकी निन्दा और विद्याधरोंकी प्रशंसा करते हैं। जिसे सुनकर जनकका आत्मतेज प्रकट होता है और विद्याधरोंकी भरी सभामें डॉट लगाते हैं कि यदि विद्याधरोंको आकाशमें चलनेका धमण्ड है तो आकाशमें कौआ भी चलता है। विद्याधर यदि उत्तम हैं तो उनमें तीर्थङ्कर जन्म क्यों नहीं लेते ? आचार्य रविपेगकी कलमके तात्कालिक उद्गार बहुत ही कौतुकावह हैं। अन्तमें वञ्चवर्त धनुष चढ़ानेकी शर्त स्वीकृत कर जनक मिथिला वापिस आते हैं, न्ययवर होता है गम धनुष चढ़ा देते हैं और सीताके साथ उनका विवाह होता है। विद्याधर सुहर्का खाकर वापिस जाते हैं। भामण्डलका विद्याधर पिताकी इस चुपीपर रोप आता है, वह स्वय ही सीताहरणकी बात सोच सेनाके साथ आता है लेकिन जाति स्मरण होनेसे उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। मुनिके मुखसे भवान्तर सुनता है। अयोध्यामें रहिन सीताके साथ भामण्डलका मिलाप होता है। राजा दशरथ जनकको बुलाते हैं। चिरकालके विछुड़े जन्महृत पुत्रके सम्मेलनसे राजा जनक और रानी विदेहाकी जो आनन्द उत्पन्न होता है उसका कौन वर्णन कर सकता है ? फिर भी उस समय आचार्य रविपेगने वात्सल्य रसकी जो धारा बहाई है वह तो हृदयको एकदम गद्गद कर देनेवाली है। तदनन्तर राजा जनक मिथिलाका राज्य जनकको दे भामण्डलके साथ विजयार्थ चले जाते हैं।

[६] राम—

राम, राजा दशरथकी अपराजिता [कौशल्या] रानीके सुयोग्य पुत्र हैं। यही इस ग्रन्थके कथानायक हैं। प्रकृत्या सरल एवं शूरी हैं। राजा दशरथ विरक्त होकर दीक्षा लेनेकी तैयारी कर रहे हैं पर भरत उनमें पहले ही विरक्त हो दीक्षा लेना चाहते हैं, पिता दशरथ उन्हें समझाते हैं और गम भी। गम जिस समता और वात्सल्यसे भरतको समझाते हैं वह उनकी महत्ताके अनुरूप हैं। जिस किसी तरह भरत शान्त हो जाते हैं।

रामके राज्याभिषेककी तैयारी होती है। केकया अपने पुत्र भरतको राज्य दिलाना चाहती है। दशरथ वचनवद्ध होनेसे विवश हो जाते हैं। जब रामको पता चलता है तब वे वहीं ही समतासे वनके लिए गया हो जाते हैं। 'राज्यके अधिकारी पिता हैं, हमें उनकी आज्ञा पालन करनी चाहिए' यह विचार कर गमके हृदयमें कुछ भी उथल-पुथल नहीं होती है। यद्यपि लक्ष्मणके हृदयमें क्रान्तिके कण उत्पन्न होते हैं कि पिताजी एक स्त्रीके वश हो अन्याय करने जा रहे हैं पर गमकी शान्ति देख चुप रह जाते हैं। अभिषेकके लिए जब राम बुलाये जाते हैं तब उनके मुखपर प्रसन्नताके चिह्न प्रकट नहीं होते और जब वन जानेका आदेश पाते हैं तब विपाद की रेखा नहीं खिंचती।

राम, सीता और लक्ष्मणके साथ वनको जाते हैं पर रामके हृदयमें भरतके प्रति रंचमात्र भी त्रिद्वेष पैदा नहीं होता। राजा अमितवीर्य, भरतके विरुद्ध अभियान करता है, जब रामको इस बातका पता चलता है तब वे गुप्तरूपसे भरतकी रक्षा करनेका प्रयत्न करते हैं। उस समय वे लक्ष्मण, सीता तथा लक्ष्मणके सालोंके सामने एक लम्बा व्याख्यान देकर प्रकट करते हैं कि जो

रात्रिमें मेघके समान लुपकर दूसरोंका भला करते हैं उनके समान कोई नहीं है। फलस्वरूप वे नर्तकीके रूपमें अमितवीर्यकी सभामें जाकर उसे प्रथम अपनी कलासे मोहित करते हैं और फिर परास्त। कपिल ब्राह्मणकी यज्ञशालामें थके-मादे राम विश्राम करना चाहते हैं पर ब्राह्मण इतनी उग्रतासे पेश आता है कि वे सीधे वनके लिए रवाना हो जाते हैं, यद्यपि लक्ष्मण रोपमें आकर कपिलको पछाड़ना चाहते हैं पर रामकी गंभीरतामें कोई न्यूनता दृष्टिगोचर नहीं होती। वे लक्ष्मणको बड़े सुन्दर ढगसे समझाते हैं। यक्षनिर्मित रामनगरीमें रामका रहना और उनके द्वारा उसी कपिल ब्राह्मणका उद्धार होना सुदामा चरितकी स्मृति दिलाता है। सीताके हरणके बाद यद्यपि रामसे कुछ विह्वलता आती है फिर भी वे बहुत संभले हुए दृष्टिगोचर होते हैं। राम रावण युद्धके समय जब कुछ लोग रामसे आज्ञा चाहते हैं कि रावणकी बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करनेमें बाधा दी जाय तब राम इस कृत्यको घृणित काम समझ कर मना करते हैं। युद्धमें विजय होती है। राम कहते हैं कि भाई! रावणसे वैर तो मरणान्त ही था अब वैर किस बातका? ऐसा कहकर वे उसका अन्तिम संस्कार करते हैं, विभीषण मन्दोदरी आदि सभीको समझाते हैं। 'ईदृशी भवितव्यता' कहकर वे सबको शान्त करते हैं। अयोध्या वापिस आनेपर राज्यभार संभालते हैं। लोकापवादके भयसे सीताका परित्याग होता है। राम पुटपाककी तरह भीतर ही भीतर दुःखी रहते हैं पर बाह्यमें सब काम यथावत् चलते रहते हैं। इत तरह हम देखते हैं कि राम स्वयं कष्ट उठाकर भी लोकमर्यादाकी रक्षा करना चाहते हैं इसलिए वे लोकमें मर्यादा-पुरुषोत्तमके नामसे प्रसिद्ध होते हैं। अग्निपरीक्षाके लिए सीताको आदेश देते हैं पर जब गगन-चुम्बी ज्वालाओंकी राशि देखते हैं तब करुणाकुल हो लक्ष्मणसे कहते हैं लक्ष्मण! कहीं सीता जल न जाय? लक्ष्मणके मरणके बाद तो छह माह तक उनका स्नेह उन्हें मानो पागल ही बना देता है। अनन्तर वे सचेत हो दीक्षा धारण करते हैं। इस बीचमें सीता तपश्चरण कर अच्युत स्वर्गमें उत्पन्न हो चुकती है। वह उन्हें चञ्चलचित्त करनेके लिए बहुत प्रयत्न करती है पर सब बेकार है। आखिर केवलज्ञान प्राप्तकर मोक्ष पदके उपभोक्ता होते हैं। वास्तवमें रामके जीवनकी प्रत्येक घटनाएँ और उनकी प्रत्येक प्रवृत्तियाँ मानव मात्रको ऊँचा उठाने वाली हैं, यही तो कारण है कि आज इतना भारी अन्तराल बीत जानेपर भी राम जन-जनके श्रद्धाभाजन बने हुए हैं।

[७] सीता—

जनकनन्दिनी सीता रामकी आदर्श पत्नी हैं। राम गम्भीरताके समुद्र हैं तो सीता दया की सरिता हैं। सीता अपने शीलके लिए प्रसिद्ध हैं। राजा अमितवीर्यके विरुद्ध जब सीता, लक्ष्मण तथा उनके सालोको उत्तेजित देखती है तब सीता जो गम्भीर प्रवचन करती है आखिर राम उसका समर्थन ही करते हैं और लक्ष्मणसे कहते हैं कि सीताने जो कहा है वह हृदयहारी है, दूरदर्शितासे भरा है, और विचारणीय है। वज्रकर्णके शत्रु सिंहोदरको लक्ष्मण कस कर बाँध लाते हैं और सीता तथा रामके सामने डाल देते हैं। उसकी दशा देख नाराकी कोमलता वचनद्वारसे फूट पड़ती है जिसे देख सिंहोदर पानी-पानी हो जाता है।

दण्डक वनमें कर्णरवा नदीके किनारे सीता भोजन बनाती है चारण ऋद्धिधारी मुनियों को आते देख उसकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहता है, वह रामको मुनियोंके दर्शन कराती है और भक्तिसे पड़गाइकर आहार देती है। चन्द्रनखाका प्रपञ्च सीता हरणका कारण बनता है। रावण झलसे सीताका हरण करता है। रावणकी अशोकवाटिकामें सीताके सामने तरह-तरहके प्रलोभन आते हैं पर उन सबको वह ठुकरा देती है। 'जब तक रामका सन्देश न मिलेगा तब तक आहार पानीका त्याग है' ऐसा नियम लेकर वह देवीकी भक्ति बैठ जाती है। हनूमान्, रामका सन्देश लेकर पहुँचते हैं। उसकी प्रसन्नताका पारावार नहीं रहता। युद्ध होता है, रावण

मारा जाता है, सीताका रामसे मिलाप होता है, अयोध्यामे वापिस आनेपर कुछ समय बाद सीता गर्भवती होती है। लोकापवादके भयसे राम उसे बीहड़ अटवीमे छुड़वा देते हैं, फिर भी रामके प्रतिकूल उसके मुखसे एक शब्द भी नहीं निकलता है। वह यही कहती है कि मेरे भाग्य का दोष है। लक्ष्मणके हाथ सन्देश भेजती है कि जिस प्रकार लोगोके कहनेसे आपने मेरा त्याग किया है उस प्रकार लोकोत्तर धर्मका त्याग नहीं कर देना। सम्यग्दृष्टि पुरुष बाह्यनिमित्तोसे न जूझकर अपने अन्तरङ्ग निमित्तसे जूझते हैं। इसी कारण सीताने इस भारी अपमानके समय भी अपना ही दोष देखा, रामका नहीं। छोड़कर लक्ष्मण वापिस चले आते हैं। गर्भवती स्त्री अकेली, निर्जन वनमे क्या करेगी? यह भी रामने नहीं विचारा। सीताका विलाप सुन बज्र-जंघ राजा वहाँ पहुँचता है, सीताको बहिनके रूपमें घर ले जाता है और वहीं सीता युगलपुत्रों को जन्म देती है। पुत्रोंका लालन-पालन बड़े प्यारसे होता है। शूर-वीर पिताके शूर-वीर ही पुत्र थे। पितासे युद्ध कर तथा उन्हें परास्त कर अपना परिचय देते हैं, नारदके द्वारा राम-लक्ष्मणको पुत्रोंका पता चलता है, यह पिता और पुत्रोंका मिलन हृदयको गद्गद कर देता है। सीताकी अग्नि-परीक्षा होती है। सतीके शीलसे अग्नि-कुण्ड जल-कुण्ड हो जाता है। इस देवकृत अतिशयसे सीताके शीलकी महिमा सर्वत्र फैल जाती है। राम कहते हैं कि प्रिये! घर चलो, पर सीता कहती है कि मैं घर देख चुकी, अब तो वन देखूंगी और वनमे जाकर आर्यिका हो जाती है, सीताकी निःशल्य आत्मा तपके प्रभावसे अच्युत स्वर्गमे प्रतीन्द्र हुई। इस तरह हम सीताको आदर्श नारीके रूपमे पाते हैं।

[८] लक्ष्मण—

लक्ष्मण राजा दशरथकी सुमित्रा रानीके पुत्र हैं। रामके साथ इनका नैसर्गिक प्रेम है, उनके प्रेमके पीछे हम लक्ष्मणको अपना समस्त सुख न्यौछावर करते हुए पाते हैं। रामको वन-वासके लिए उद्यत देख, लक्ष्मण उनके पीछे हो लेते हैं। यद्यपि पहले पिताके प्रति उन्हें कुछ रोष उत्पन्न होता है, पर बादमे यह सोचकर संतोष कर लेते हैं कि 'न्याय अन्याय बड़े भाई समझते हैं, मेरा कर्तव्य तो इनके साथ जाना है।' वनवासमे लक्ष्मण राम तथा सीताकी सुख-सुविधाका पूरा ख्याल रखते हैं। आहारादिकी व्यवस्था यही जुटाते हैं। शूरवीरताके तो मानो अवतार हो है। भयका अंश भी इनके हृदयमे नहीं दिखता है। रामके अनन्य आज्ञाकारी हैं। वनवासमे यदि कही किसी राजाके यहाँ विवाह आदिकी चर्चा आती है तो आप साफ कह देते हैं कि हमारे बड़े भाईसे पूछो। लंकामे युद्धके समय जब इन्हें शक्ति लगती है तब राम बड़े दुःखी हो जाते हैं, करुण-विलाप करते हैं, पर विशल्याके स्नान जलसे उनकी व्यथा दूर हो जाती है। रावणका चक्र इनके हाथमे आता है और उसीसे ये रावणका नाश करते हैं। दिग्विजयके द्वारा भरतके तीनखण्डोमे अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। रामके इतने अनुरागी हैं कि उनके मरण का सूठा समाचार पाकर ही शरीर छोड़ देते हैं। प्रकृतिमे यद्यपि उग्रता है पर गाम्भीर्यके सागर बड़े भाईके समक्ष छोटे भाईकी यह उग्रता शोभास्पद ही दीखती है।

[९] भरत—

भरत राजा दशरथकी केकया रानीके सुत हैं। माताकी छल-छुद्रतासे कोसो दूर हैं। इन्हे राजा बनानेके लिए केकयाने सब कुछ किया पर इन्होंने राजा बनना स्वीकृत नहीं किया। गृहवाससे सदा उदास दृष्टिगत होते हैं। रामके वनवासके समय दृढतासे राज्यका पालन करते हैं। लोकव्यवहार और मर्यादाके रक्षक हैं। रामके वनवाससे आनेके बाद विरक्त हो प्रव्रज्या ले लेते हैं।

[१०] हनुमान्—

रामके कथानकमें हनुमान्का सयोग मणिकाञ्चन संयोग है। वाल्मीकिने हनुमान्का जो वर्णन किया है वह असंगत तथा महापुरुषका अवर्णवाद है, ये वानर वशके शिरोमणि तद्वच-मोक्षगामी विद्याधर हैं, इनका साक्षात् वानरके रूपमें वर्णन करना अविचारित रम्य है। इनके पिताका नाम पवनञ्जय और माताका नाम अञ्जना है। अञ्जनाने २२ वर्ष तक पतिके विप्रलम्भमें जो लम्बा कष्ट सहा है और उसके बाद सास केतुमतीके कटुक व्यवहारसे वनमें जा दुःख भोगे हैं उन्हें पढ़कर कोई भी सहृदय व्यक्ति आँसू बहाये बिना नहीं रह सकता। अञ्जनाके चरित्र-चित्रणमें आचार्य रविषेणने करुण रसकी जो धारा बहाई है उससे प्रकृत ग्रन्थका पर्याप्त गौरव बढ़ा है। सीताहरणके बादसे हनुमान् रामके सम्पर्कमें आते हैं और रामको अयोध्या वापिस भेज देने तक बड़ी तत्परतासे उनकी सेवा करते हैं। हनुमान् चरमशरीरी महापुरुष हैं।

[११] विभीषण—

विभीषण रावणके छोटे भाई हैं। धर्मज्ञता और नीतिज्ञताके मानो अवतार ही हैं। 'रावणका मरण दशरथ और जनककी संतानोंसे होगा' किसी निमित्तज्ञानीसे ऐसा जानकर आप दशरथ तथा जनकका नाश करनेके लिए भारतमें आते हैं पर नारदकी कृपासे दशरथ और जनकको पहलेसे ही यह समाचार मालूम हो जाता है, इसलिए वे अपने महलोंमें अपने ही जैसे पुतले स्थापितकर बाहर निकल जाते हैं। विभीषण उन पुतलोंको सचमुचके दशरथ और जनक समझ तलवारसे उनके सिर काटकर संतोष कर लेते हैं पर जब उनकी अन्तरात्मामें विवेक जागृत होता है तब वे अपने इस कुकृत्यसे बहुत पछताते हैं। रावण सीताको हरकर लंका ले जाता है तब विभीषण उसे शक्तिभर समझाते हैं। अन्तमें जब नहीं समझता है और उलटा विभीषणका तिरस्कार करता है तब उसे छोड़ रामसे आ मिलते हैं, राम उनकी नैतिकतासे बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार हम एक मॉके उदरसे उत्पन्न रावण और विभीषणको अन्धकार और प्रकाशके समान विभिन्न रूपमें पाते हैं।

पद्मचरितका साहित्यिक रूप—

पद्मचरितकी भाषा प्रसादगुणसे ओत-प्रोत तथा अत्यन्त मनोहारिणी है। माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे प्रकाशित पद्मचरितको देखनेके बाद पहले मेरे मनमें धारणा जम गई थी कि इसमें वाल्मीकि रामायणके समान भाषा सम्बन्धी शिथिलता अधिक है पर जब हस्तलिखित प्रतियोंसे मिलान करने पर शुद्ध पाठ सामने आये तब हमारी उक्त धारणा उन्मूलित हो गई। वन, नदी, सेना, युद्ध आदिका वर्णन करते हुए कविने बहुत ही कमाल किया है। चित्रकूट पर्वत, गङ्गा नदी तथा वसन्त आदि ऋतुओंका वर्णन आचार्य रविषेणने जिस खूबीसे किया है वैसे तो हम महाकाव्यमें भी नहीं देखते हैं। प्रस्तावना लेख लम्बा हुआ जा रहा है नहीं तो मैं वे सब अवतरण उद्धृतकर पाठकोंके सामने रखता जिनमें कविकी लेखनीने कमाल किया है। विमल सूरिके 'पउमचरिय' को पढ़नेके बाद जब हम रविषेणके पद्मचरितको पढ़ते हैं तब स्पष्ट जान पड़ता है कि इन्होंने अपनी रचनाको कितनी सरस और काव्यके अनुकूल बनाया है।

यह अनुवाद और आभार प्रदर्शन—

महापुराणके प्रस्तावना लेखमें मैंने लिखा था कि दिगम्बर जैन सम्प्रदायमें महापुराण, पद्मपुराण और हरिवंशपुराण ये तीनों ही पुराण साहित्यके शिरोमणि हैं। महापुराणका सानुवाद सम्पादनकर प्रसन्नताका अनुभव करते हुए मैंने शेष दो पुराणोंके सम्पादन तथा प्रका-

शनकी ओर समाजका ध्यान आकर्षित किया था। प्रसन्नताकी बात है कि भारतीय ज्ञानपीठके संचालकोको मेरी वह बात पसन्द पड़ गई जिससे उन्होंने ज्ञानपीठसे इन दोनों पुगणोका भी प्रकाशन स्वीकृत कर लिया। जैन सिद्धान्तके मर्मज्ञ, सहृदय शिरोमणि पं० फूलचन्द्रजीने भी ज्ञानपीठके संचालकोका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। इसलिए मैं इन सब महानुभावोका अत्यन्त आभारी हूँ। ग्रन्थका सम्पादन हस्तलिखित प्रतियोके बिना नहीं हो सकता, इसलिए मैंने अपने सहाध्यायी मित्र पं० परमानन्दजी देहलीको हस्तलिखित प्रतियोके लिए लिखा, तो वे देहलीके भाण्डारोसे दो मूल प्रतियाँ एक श्रीचन्द्रके टिप्पणकी प्रति तथा अपनी निजी लाइब्रेरीसे 'पउमचरिय' लेकर स्वयं सागर आकर दे गये। शेष दो प्रतियाँ भी बम्बई तथा जयपुरसे प्राप्त हुईं इसलिए मैं इन साधन सामग्रीके जुटानेवाले महानुभावोका अत्यन्त आभारी हूँ। चार हस्तलिखित और एक मुद्रित प्रतिके आधारपर मैंने पाठ भेद लिये हैं। अबकी बार पाठ भेद लेनेमें अकेले ही श्रम करना पड़ा, इसलिए समय और शक्ति पर्याप्त लगानी पड़ी। प्रारम्भसे लेकर २८ पर्व तक तो मूल श्लोकोकी पाण्डुलिपि मैंने स्वयं तैयार की परन्तु 'ब' प्रतिके अधिकारियोका सख्त तकाजा जल्दी भेजनेका होनेसे उसके बाद माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे मुद्रित मूल प्रति पर ही अन्य पुस्तकोके पाठ भेद अङ्कित करने पड़े। ग्रन्थ सम्पादन, साहित्यिक सेवाका अनुष्ठान है। विद्वान् इसे सुविधानुसार ही कर पाते हैं और फिर मुझ जैसे व्यक्तिको जिसे अन्यान्य अनेक कार्योंमें निरन्तर उलझा रहना पड़ता है, कुछ समय ज्यादा लग जाता है इस बीचमे प्रतियोके अधिकारियोकी ओरसे बार-बार जल्दी भेजनेका तकाजा अखरने लगता है। सरस्वती भवनकी आलमारियोंमें रखे रहनेकी अपेक्षा यदि उनकी प्रतिका किसी ग्रन्थके निर्माणमे उपयोग हो रहा है तो मैं इसे उत्तम ही समझता हूँ। अस्तु, जो प्रति जितने समयके लिए प्राप्त हुई उसका मैंने पूर्ण उपयोग किया है और मैं उन प्रतियोके प्रेषको तथा संरक्षकोके प्रति अत्यन्त आभार प्रकट करता हूँ। पद्मचरितका ग्यारहवों पर्व दार्शनिक विचारोंसे भरा है, इसके तीन चार श्लोकोका भाव हमारी समझमें नहीं आया जिसे पं० फूलचन्द्रजीने मिलाया है इसलिए मैं इनका आभारी हूँ।

प्रस्तावना लिखनेमे इतिहासज्ञताकी आवश्यकता है और इस विषयमें मैं अपने आपको विलकुल अनभिज्ञ समझता हूँ। प्रस्तावनामे जो कुछ लिखा गया है वह श्रद्धेय विद्वान् श्री नाथूरामजी प्रेमी, बम्बई, मित्रवर पं० परमानन्दजी शास्त्री और डा० रेवरेड फादर कामिल बुल्के एम० जे०, एम० ए०, डी० फिल्ड अध्यक्ष हिन्दी विभाग, सन्न जेनियर कालेज रॉची, के द्वारा लिखित रामकथाके आधारसे लिखा गया है और कितनी जगह तो हमने उनके ही शब्द आत्मसात् कर लिये हैं इसलिए मैं इन विद्वानोंके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। कविवर दौलतरामजी कृत हिन्दी अनुवादका प्रचार जैन समाजमे घर-घर है शायद ही ऐसा कोई दि० जैन मन्दिर हो जहाँ पद्मपुराणकी इस टीकाका सद्भाव न हो। यद्यपि वह टीका अविकल नहीं है सिर्फ कथाका भाव लेकर लिखी गई है पर तो भी अनुवादमें तथा कथा सम्बन्ध जोड़नेमें उससे पर्याप्त सहायता मिली है। अतः मैं स्व० कविवर दौलतरामजीके प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता हूँ। मैं अत्यन्त अल्पज्ञानी लुद्ध मानव हूँ इसलिए मुझसे सम्पादन तथा अनुवाद में त्रुटियोंका रह जाना सब तरह संभव है अतः मैं इसके लिए विद्वानोसे क्षमा प्रार्थी हूँ।

सागर
फाल्गुन शुक्ला ३ वीर निर्वाण २२८४

}

विनीत—
पन्नालाल जैन

विषयानुक्रमणिका

प्रथम पर्व

विषय	पृष्ठ
मङ्गलाचारण	१
ग्रन्थकर्तृप्रतिज्ञा, सत्कथा प्रशंसा	२
सज्जनप्रशंसा, दुर्जननिन्दा	४
ग्रन्थका अवतरण	४
ग्रन्थमें निरूप्यमाण विषयोंका सूत्ररूपसे संकलन	४

द्वितीय पर्व

जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें मगध देश है उसके राजगृह नगरमें राजाश्रेणिक राज्य करता है। उसके राज्यका वर्णन। राजगृहके समीप भगवान् महावीरका आगमन। महावीरका माहात्म्यवर्णन, समवरणकी रचना आदि	१०
राजा श्रेणिकका वन्दनार्थ जाना, भगवान् महावीरकी दिव्यध्वनि खिरना आदि	२१
मगधराज श्रेणिकका नगरमें प्रवेश, रात्रिका वर्णन, शय्यापर पड़े-पड़े राजा श्रेणिकका रामकथामें प्रचलित मिथ्या मान्यताओंका चिन्तन	२६

तृतीय पर्व

प्रातःकाल होनेपर राजा श्रेणिकका समवसरणमें पुनः जाना और गौतमस्वामीसे रामकथा श्रवणकी इच्छा प्रकट करना और गौतमस्वामीके द्वारा रामकथा कहनेका आश्वासन	३१
गौतमस्वामी द्वारा क्षेत्र, काल तथा चौदह कुलकरोका वर्णन	३३
चौदहवें कुलकर नाभिराय और उनकी स्त्री मरुदेवीका वर्णन। देवियोंके द्वारा मरुदेवीकी सेवाका वर्णन। मरुदेवीका स्वप्न वर्णन। भगवान् ऋषभदेवका गर्भारोहण	३७
जन्म कल्याणक तथा टीक्षा कल्याणका वर्णन	४३
भगवान् आदिनाथको ध्यानारूढ रहनेके समय नमि विनमिका आना, धरणेन्द्रके द्वारा उन्हें विजयार्थकी उत्तर-दक्षिण श्रेणियोंका राज्य दिया जाना	५३

चतुर्थ पर्व

भगवान् ऋषभदेवका राजा सोमप्रभ और श्रेयान्तके आहार होना। केवलज्ञानकी उत्पत्ति तथा समवसरणकी रचना, दिव्यध्वनिका वर्णन	५७
भरत ब्राह्मणकी वर्णन, भरतके द्वारा ब्राह्मण वर्णकी सृष्टि	६१

पञ्चम पर्व

चार महावंश—१ इक्ष्वाकुवंश, २ ऋषिवंश अथवा चन्द्रवंश, ३ विद्याधरोका वंश तथा हरिवंश के नामोल्लेख पूर्वक इनका सक्षिप्त वर्णन। विद्याधर वंशके अन्तर्गत विद्युद्दृढ़ और सजयन्त मुनिका वर्णन	६७
अजितनाथ भगवान्का वर्णन	७१
सगर चक्रवर्तीका वर्णन, पूर्णवन, सुलोचन, सहस्रनयन, तथा मेघवाहन आदिका वर्णन	७२
मेघवाहन और सहस्रनयनके पूर्वजन्म सम्बन्धी वैरका वर्णन	७५
राक्षसोंके इन्द्र भीम और सुभीमके द्वारा मेघवाहनके लिए राक्षस द्वीपकी प्राप्ति तथा राक्षसवंशके विस्तारका वर्णन	७७

षष्ठ पर्व

वानर वशका विस्तृत वर्णन

६७

सप्तम पर्व

रथनूपुरनगरमें राजा सहस्रारके यहाँ इन्द्र विद्याधरका जन्म तथा उसके प्रभाव, प्रताप आदिका वर्णन

३६

लकाके राजा मालीका इन्द्रके विरुद्ध अभियान तथा युद्धका वर्णन, मालीका मारा जाना लोकपालोंकी उत्पत्ति तथा वैश्रवणका लकामें निवास

१४१

१४६

इन्द्रसे हारकर सुमाली अलकारपुरमें रहना, उसके रत्नश्रवा नामका पुत्र होना, उसकी कैकसी नामक स्त्रीसे दशानन, कुम्भकर्ण, चन्द्रनखा और विभीषणको उत्पत्तिका वर्णन

१४८

वैश्रवणकी गगन-यात्रा देख दशानन आदिका विद्यार्थे सिद्ध करना, अनावृत यज्ञके द्वारा उपद्रव होना पर अविचलित रहकर उन्हें अनेक विद्याओंका सिद्ध हो जाना

१५५

रान्धस वशमें दशाननका प्रभाव फैलना

१६३

अष्टम पर्व

असुर सगीतनगरमें राजा मय और उसकी पुत्री मन्टोदरीका वर्णन । मन्टोदरीका दशाननके साथ विवाह

१६८

मैध्रव पर्वत पर बनी वापिकामें छह हजार कन्याओंके साथ रावणकी जल-क्रीडा तथा उनके साथ उसके विवाहका वर्णन

१७४

कुम्भकर्ण तथा विभीषणके विवाहका वर्णन

१७८

कुम्भकर्णके द्वारा वैश्रवणके नगरोंका विध्वंस, वैश्रवण द्वारा सुमालीसे कुम्भकर्णकी शिकायत दशाननके द्वारा वैश्रवणके दूतको करारा उत्तर तथा दोनो ओर घमासान युद्ध और वैश्रवणका पराजय । वैश्रवणका दीक्षा लेना

१७६

१८०

वैश्रवणके पुण्यक विमान पर आरूढ हो रावणकी सपरिवार दक्षिण दिशाकी विजययात्रा

१८६

सुमाली द्वारा हरिपेण चक्रवर्तीका वर्णन

१८७

रावणके द्वारा त्रिलोकमण्डन हाथीका वश करना

१९७

रावण द्वारा यमलोकपालका विजय और लका नगरीमें प्रवेश

१९६

नवम पर्व

बालि, सुग्रीव, नल, नील आदिकी उत्पत्तिका वर्णन

२०७

खरदूपणके द्वारा रावणकी बहिन चन्द्रनखाका हरण, विराविकका जन्म

२०८

बालिका दशाननके साथ सघर्ष, बालिका दीक्षाग्रहण, सुग्रीव द्वारा अपनी बहिनका दशाननके साथ विवाह

२१०

बालिके प्रभावसे कैलास पर्वतपर दशाननका विमान रुकना । रावण द्वारा कैलाशको उठाना, बालि द्वारा उसकी रक्षा, रावण द्वारा जिनेन्द्र स्तुति तथा नागराजके द्वारा अमोघ विजया शक्तिका दान

२१५

दशम पर्व

सुग्रीवका सुताराके साथ विवाह, उससे अङ्ग और अङ्गद नामक पुत्रोंका जन्म । सुताराको प्राप्त करने की इच्छासे साहसगति विद्याधरका हिमवत् पर्वतकी दुर्गम गुहामें विद्या सिद्ध करना रावणका दिग्विजयके लिए निकलना

२२४

२२५

इन्द्र विद्याधरपर आक्रमणके लिए जाना, बीचमें खरदूषणके साथ मिलाप होना, रावणकी विशाल सेनाका वर्णन, मार्गमें नर्मदाका दृश्य	२२६
माहिष्मतीके राजा सहस्ररश्मिका नर्मदामें जलक्रीडाका वर्णन, दशाननकी पूजामें वाधा, सहस्ररश्मिके साथ दशाननका युद्ध, सहस्ररश्मिका पकडा जाना, तदनन्तर उसके पिता शतवाहु मुनिगजके उपदेशसे छोडा जाना, सहस्ररश्मि और अयोध्याके राजा अनरण्यका दीक्षा लेना	२२६

एकादश पर्व

रावणका उत्तर दिशाकी ओर बढ़ना, बीचमें राजपुरके अहकारी राजाके प्रति उसका रोष, प्रकरण पाकर यज्ञका प्रारम्भक इतिहास बतलाते हुए अयोध्याके क्षीरकदम्बक गुरु, स्वस्तिमती नामक उनकी स्त्री, राजा वसु तथा नारदपर्वतका 'अज्ञैर्यष्टकम्' शब्दके अर्थको लेकर विवाद । वसु द्वारा मिथ्या निर्याय तथा उसका पतन	२३८
राजपुर नगरमें दशाननका पहुँचना राजा मरुत्वानके यज्ञका वर्णन, नारदकी उत्पत्तिका कथन नारदका राजा मरुत्वानकी यज्ञशालामें पहुँचना और उसके पुरोहितके साथ लम्बा शास्त्रार्थ करना, ब्राह्मणोंका परास्त होकर नारदको पीटना, रावणको दूतके द्वारा इस काण्डका पता चलना, रावणके द्वारा नारदकी रक्षा तथा ब्राह्मणोंका दमन और मरुत्वानके यज्ञका विध्वंस	२४५
राजा मरुत्वानका क्षमा याचना कर अपनी कनकप्रभा कन्या रावणके लिये देना । रावणका अनेक देशोंमें भ्रमण	२४६
	२६२

द्वादश पर्व

रावणकी कृतचित्रा कन्या का मथुराके राजा हरिवाहनके पुत्र मधुके साथ विवाह होना	२६६
मधुको चमरेन्द्रसे शूल रत्न प्राप्त होना	२७०
नलकूबरके साथ रावणका युद्ध, उसकी स्त्री उपगम्भाका रावणके प्रति अनुराग आदिका वर्णन	२७३
रावणका विजयार्धपर पहुँचना, इन्द्रका अपने पिता सहस्रारसे सलाह पूछना, सहस्रारकी उचित सलाह, इन्द्रका पिताको उत्तर	२७६
युद्धके लिए इन्द्रकी तैयारी तथा घनघोर युद्ध और रावणके द्वारा इन्द्रकी पराजय	२८१

त्रयोदश पर्व

इन्द्रके पिता सहस्रारका रावणकी सभामें उपस्थित होकर इन्द्रको बन्धनसे छुडाना, रावणका सहस्रारके प्रति नम्रता प्रदर्शन आदि	२६७
इन्द्र जिनालयमें बैठा था, वहाँ निर्वाण सगम मुनिराजका आना, उनसे इन्द्रका पूर्व भव वृत्तान्त पूछना, दीक्षा लेना तथा निर्वाण प्राप्त करना	२६६

चतुर्दश पर्व

रावणका परिकरके साथ मुमेरुसे लौटना, मार्गमें सुवर्णगिरि पर्वतपर अनन्तत्रल मुनिराजको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ जान वहाँ पहुँचना । उनके मुखसे धर्मका विस्तारके साथ वर्णन जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे बलात् नहीं चाहूँगा इस प्रकार रावणका प्रतिज्ञा ग्रहण	३०६
	३३१

पञ्चदश पर्व

हनुमान् कथा—उसके अन्तर्गत आदित्यपुरमें राजा प्रह्लाद और उनकी स्त्री केतुमतीके पवनञ्जय पुत्रका होना । दन्ती गिरि (दूसरा नाम महेन्द्रगिरि) पर राजा महेन्द्रका वर्णन । उसकी हृदयवेगा रानीसे अज्ञानकी उत्पत्ति, पवनञ्जय और अज्ञानाके विवाहका विस्तृत वर्णन,	
---	--

उसके अन्तर्गत मिश्रकेशी दूतीके वकवादके कारण पवनजयका अज्ञानके प्रति विद्वेष उत्पन्न होना ।

३३४

षोडश पर्व

अज्ञानकी विरहदशाका वर्णन

३५१

रावणका वरुणके साथ युद्ध तथा पवनजयका उसमें जाना

३५३

मार्गमें मानस सरोवर पर चक्रवाके बिना तडपती हुई चक्रवीको देख पवनजयको अज्ञानकी दशाका स्मरण होना, तथा छिपकर उसके पास आना; प्रहसित भिन्नके द्वारा अज्ञानको पवनजयके आनेका समाचार, पवनजयका क्षमा याचन

३५८

सभोग शृङ्गारका वर्णन

३६४

सप्तदश पर्व

अज्ञानका गर्भके निरु प्रकट होनेपर केतुमती के द्वारा उसे कलकित कर घरसे निकालना ।

उसका पिताके घर पर जाना, कञ्चुकी द्वारा उसके गर्भका समाचार पा उसे आशय नहीं देना ।

फलतः अज्ञान अपनी वसन्तमालिनीका सखीके साथ वनमें जाकर एक पर्वतके समीप पहुँचना—

३७०

गुफामें मुनिराजके दर्शन और उनके द्वारा अज्ञान तथा हनूमानके पूर्वभवोंका वर्णन, मुनिराजका सान्त्वना देकर अन्यत्र जाना और उस गुफामें सखीके साथ अज्ञानका रहना, राविके समय सिंहका आगमन, गन्धर्व द्वारा उनकी रक्षा । गन्धर्व द्वारा संगीत

३७८

अज्ञानके पुन जन्म, प्रतिसूर्य विद्याधरका आना, परस्परका परिचय, ज्योतिषीके द्वारा हनूमान्के शुभाशुभ ग्रहोंका विचार । विमानमें बैठकर सबका प्रतिसूर्यके साथ जाना, हनूमानका नीचे गिरना, पत्थरका चूर चूर होना आदि ।

३६२

अष्टादश पर्व

वरुणके युद्धसे लौटकर पवनजयका घर आना पर वहाँ अज्ञानको न देख उसकी खोजमें घरसे निकल जाना । पवनजयका भूतरव नामक वनमें मरनेका निश्चय । अनन्तर विद्याधरों द्वारा उनकी रोज और अज्ञानसे मिलापका वर्णन

४०१

एकोनविंशतितम पर्व

वरुणके विरुद्ध होनेपर रावणका सब राजाओंको बुलाना । हनूमान् का जाना, रावणके द्वारा हनूमान्की बहुत प्रशंसा, हनूमान् आदिका वरुणके साथ युद्ध और वरुणकी पराजय, वरुणका पकड़ा जाना, कुम्भकर्ण द्वारा वरुणके नगरकी स्त्रियोंका पकड़ा जाना तथा रावणको पता चलनेपर उसके द्वारा कुम्भकर्णको फटकार आदि

४११

रावणका वरुणको समझाना, हनूमान्के लिए चन्द्रनखाकी पुत्रीका देना, तथा रावणके साम्राज्यका वर्णन

४१७

विंशतितम पर्व

चौबीस तीर्थङ्गरो तथा अन्य शलाका पुरुषोंका वर्णन

४२४

एकविंशतितम पर्व

भगवान् मुनिसुव्रतनाथ तथा उनके वशका वर्णन

४४४

इक्ष्वाकु वशके प्रारम्भका वर्णन, उसी अन्तर्गत राजा वज्रबाहु तथा उदयसुन्दरके सराग तथा विराग दशाका वर्णन—तथा राजा कीर्तिधरका वर्णन, सुकोशलका जन्म और कीर्तिधरका दीक्षा लेना

४४८

द्वाविंशतितम पर्व

कीर्तिधर मुनिका उनकी स्त्री द्वारा नगरसे निकाला जाना, धायके रोदनसे सुकोशलको यथार्थ बात-
का पता चलना, सुकोशलका दीक्षा लेना, माताका भ्रमकर व्याघ्री होना और वर्षायोगमें
स्थित सुकोशलका भक्षण करना, कीर्तिधर मुनिके द्वारा व्याघ्रीका सन्निधन तथा उसकी
सद्गति आदिका वर्णन, कीर्तिधर मुनिका निर्वाण गमन ७५८

४५०

राजा हिरण्यगर्भ, नहुष तथा सौदास आदिका वर्णन । राजा सौदासको नरमास' खानेकी आदत
पडना आदि तदनन्तर इसी वंशमें राजा अनरण्यके दशरथकी उत्पत्तिका वर्णन

४६५

त्रयोविंशतितम पर्व

नारद द्वारा राजा दशरथ और राजा जनकको रावणके दुर्विचार सुनाकर सचेत रहनेका वर्णन ।
राजा जनक और दशरथका घरसे बाहर निकलकर समय काटना और विभीषण द्वारा इनके
पुतलोंका शिर काटना आदि

४७२

चतुर्विंशतितम पर्व

केकयाकी कलाओंका विस्तृत वर्णन और स्वयंवरमें दशरथको बरा जाना
दशरथका अन्य राजाओंके साथ युद्ध, केकयाके सहयोगसे दशरथकी जीत । प्रसन्न होकर राजा
दशरथका केकयाके लिए वरदान

४७८

४८५

पञ्चविंशतितम पर्व

राजा दशरथके राम आदि चार पुत्रोंकी उत्पत्तिका वर्णन

४८९



श्रीमद्रविषेणाचार्यकृतम्

पद्मचरितापरनामधेयं

पद्मपुराणम्

प्रथमं पर्व

सिद्धं सम्पूर्णभक्त्यर्थं सिद्धे' कारणमुत्तमम् । प्रशस्तदर्शनज्ञानचारित्रप्रतिपादिनम् ॥१॥
सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्टपादपद्माशुकेशरम् । प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलम् ॥२॥
प्रथम चावसर्पिण्यामृपभ जिनपुद्गवम् । योगिन सर्वविद्याना विधातार स्वयम्भुवम् ॥३॥
अजित विजिताशेषवाह्यशारीरशात्रवम् । शम्भव श भवत्यस्मादित्यभिख्यामुपागतम् ॥४॥
अभिनन्दितनिशेषभुवन चाभिनन्दनम् । सुमतिं सुमति नाथ मतान्तरनिरासिनम् ॥५॥
उद्यदकंकरालीढपद्माकरसमप्रभम् । पद्मप्रभ सुपार्श्वं च सुपार्श्वं सर्ववेदिनम् ॥६॥
शरत्मकलचन्द्राम पर चन्द्रप्रभ प्रभुम् । पुष्पदन्त च सङ्कुलकुन्दपुष्पप्रभद्विजम् ॥७॥
शीतल शीतलध्यानदायिन परमेष्ठिनम् । श्रेयास भव्यसत्त्वाना श्रेयास धर्मदेशिनम् ॥८॥

चिदानन्द चैतन्य के गुण अनन्त उर धार ।

भाषा पद्मपुराण की भाषा श्रुति अनुसार ॥ १ ॥ —दौलतरामजी

जो स्वयं कृतकृत्य हैं, जिनके प्रसादसे भव्यजीवोंके मनोरथ पूर्ण होते हैं, जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका प्रतिपादन करनेवाले हैं, जिनके चरणकमलोंकी किरणरूपी केशर इन्द्रोंके मुकुटोंसे आश्लिष्ट हो रही है तथा जो तीनों लोकोंमें मङ्गलस्वरूप हैं ऐसे महावीर भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१-२॥ जो योगी थे, समस्त विद्याओंके विधाता और स्वयम्भू थे ऐसे अवसर्पिणी कालके प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभजिनेन्द्रको नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ जिन्होंने समस्त अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर लीं ऐसे अजितनाथ भगवान्को तथा जिनसे शम् अर्थात् सुख प्राप्त होता है ऐसे सार्थक नामको धारण करनेवाले शम्भवनाथ भगवान्को नमस्कार करता हूँ ॥४॥ समस्त संसारको आनन्दित करनेवाले अभिनन्दन भगवान्को एवं सम्यग्ज्ञानके धारक और अन्य मतमतान्तरोंका निराकरण करनेवाले सुमतिनाथ जिनेन्द्रको नमस्कार करता हूँ ॥५॥ उदित होते हुए सूर्यकी किरणोंसे व्याप्त कमलोंके समूहके समान कान्तिको धारण करनेवाले पद्मप्रभ भगवान्को तथा जिनकी पसली अत्यन्त सुन्दर थीं ऐसे सर्वज्ञ सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रको नमस्कार करता हूँ ॥ ६ ॥ जिनके शरीरकी प्रभा शरद्ऋतुके पूर्ण चन्द्रमाके समान थीं ऐसे अत्यन्त श्रेष्ठ चन्द्रप्रभ स्वामीको और जिनके दाँत फूले हुए कुन्द पुष्पके समान कान्तिके धारक थे ऐसे पुष्पदन्त भगवान्को नमस्कार करता हूँ ॥७॥ जो शीतल अर्थात् शान्तिदायक ध्यानके देनेवाले थे ऐसे शीतलनाथ जिनेन्द्रको तथा जो कल्याण रूप थे एवं भव्यजीवोंको धर्मका उपदेश देते थे ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान्को नमस्कार करता हूँ ॥८॥

वासुपूज्यं सतामीशं^१ वसुपूज्यं जितद्विपम् । विमलं जन्ममूलानां मलानामतिदूरगम् ॥६॥
 अनन्तं द्रव्यतं ज्ञानमनन्तं कान्तदर्शनम् । धर्मं धर्मध्रुवाधारं शान्तिं शान्तिजिताहितम् ॥१०॥
 कुन्धुप्रभृतिसत्त्वानां कुन्धुं हितनिरूपितम् । अशेषकलेशनिर्मोक्षपूर्वसौख्यारणादरम् ॥११॥
 संसारस्य निहन्तारं मल्लं मल्लि मलोद्भक्तम् । नमिं च प्रणताशेषं सुरासुरगुरुं विभुम् ॥१२॥
 अरिष्टनेमिमन्यूनारिष्टनेमिं महाद्युतिम् । पार्श्वं नागेन्द्रसंसक्तपरिपार्श्वं विशां पतिम् ॥१३॥
 सुद्यतं सुद्यतानां च देशकं दोषदारिणम् । यस्य तीर्थं समुत्पन्नं पद्मस्य चरितं शुभम् ॥१४॥
 अन्यानपि महाभागान् सुनोन् गणधरादिकान् । प्रणम्य मनसा वाचा कायेन च पुनः पुनः ॥१५॥
 पद्मस्य चरितं वक्ष्ये पद्मालिङ्गितवक्षसः । प्रफुल्लपद्मवक्त्रस्य^२ पुरुषुण्यस्य धीमतः ॥१६॥
 अनन्तगुणगेहस्य तस्योदारविचेष्टिनः । गदितुं चरितं शक्तः केवलं श्रुतकेवली ॥१७॥
 यादृशोऽपि वदत्येव चरितं यस्य यत्पुमान् । तच्चरितं क्रमायातं परमं देशदेशनात् ॥१८॥
 मत्तवारणसंक्षुण्णे व्रजन्ति हरिणाः पथि । प्रविशन्ति भटा युद्धं महाभटपुरस्सराः ॥१९॥
 भास्वता भासितानर्थान् सुखेनालोकते जनः । सूचीमुखविनिर्भिन्नं मणिं विशति सूत्रकम् ॥२०॥

जो सज्जनोंके स्वामी थे एवं कुबेरके द्वारा पूज्य थे ऐसे वासुपूज्य भगवान्को और संसारके मूल-कारण मिथ्यादर्शन आदि मलोंसे बहुत दूर रहनेवाले श्रीविमलनाथ भगवान्को नमस्कार करता हूँ ॥६॥ जो अत्यन्त ज्ञानको धारण करते थे तथा जिनका दर्शन अत्यन्त सुन्दर था ऐसे अनन्त-नाथ जिनेन्द्रको, धर्मके स्थायी आधार धर्मनाथ स्वामीको और शान्तिके द्वारा ही शत्रुओंको जीतनेवाले शान्तिनाथ तीर्थङ्करको नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ जिन्होंने कुन्धु आदि समस्त प्राणियों के लिए हितका निरूपण किया था ऐसे कुन्धुनाथ भगवान्को और समस्त दुःखोंसे मुक्ति पाकर जिन्होंने अनन्तसुख प्राप्त किया था ऐसे अरनाथ जिनेन्द्रको नमस्कार करता हूँ ॥११॥ जो संसारको नष्ट करनेके लिए अद्वितीय मल्ल थे ऐसे मल्लरहित मल्लिनाथ भगवान्को और जिन्हें समस्त लोग प्रणाम करते थे तथा सुर-असुर सभीके गुरु थे ऐसे नमिनाथ स्वामीको नमस्कार करता हूँ ॥१२॥ जो बहुत भारी अरिष्ट अर्थात् दुःखसमूहको नष्ट करनेके लिए नेमि अर्थात् चक्रधाराके समान थे साथ ही अतिशय कान्तिके धारक थे ऐसे अरिष्टनेमि नामक बाईसवें तीर्थङ्करको तथा जिनके समीपमें धरणेन्द्र आकर बैठे थे साथ ही जो समस्त प्रजाके स्वामी थे ऐसे पार्श्व-नाथ भगवान्को नमस्कार करता हूँ ॥१३॥ जो उत्तम व्रतोंका उपदेश देनेवाले थे, जिन्होंने लुधा, नृपा आदि दोष नष्ट कर दिये थे और जिनके तीर्थमें पद्म अर्थात् कथानायक रामचन्द्रजीका शुभचरित उत्पन्न हुआ था ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान्को नमस्कार करता हूँ ॥१४॥ इनके सिवाय महाभाग्यशाली गणधरों आदिको लेकर अन्यान्य मुनिराजोंको मन, वचन, कायसे बार-बार प्रणाम करता हूँ ॥१५॥ इस प्रकार प्रणामकर मैं उन रामचन्द्रजीका चरित्र कहूँगा जिनका कि वक्षःस्थल पद्मा अर्थात् लक्ष्मी अथवा पद्म नामक चिह्नसे आलिङ्गित था, जिनका मुख प्रफुल्लित कमलके समान था, जो विशाल पुण्यके धारक थे, बुद्धिमान् थे, अनन्त गुणोंके गृहस्वरूप थे और उदार-उत्कृष्ट चेष्टाओंके धारक थे । उनका चरित्र कहनेमें यद्यपि श्रुतकेवली ही समर्थ हैं तो भी आचार्य-परम्पराके उपदेशसे आये हुए उस उत्कृष्ट चरित्रको मरे जैसे लुद्र पुरुष भी कर रहे हैं सो उसका कारण स्पष्ट ही है ॥१६-१८॥ मदीन्मत्त हाथियोंके द्वारा संचरित मार्गमें हरिण भी चले जाते हैं तथा जिनके आगे वड़े-वड़े योद्धा चल रहे हैं ऐसे साधारण योद्धा भी युद्धमें प्रवेश करते ही हैं ॥१९॥ सूर्यके द्वारा

१. वसुना कुबेरेण पूज्यं वसुपूज्यं 'वसुर्मयूखाग्निधनाधिपेयु' इति कोषः । २. गुरुपुण्यस्य. म० पुंसः पुण्यस्य ।

बुधपङ्क्तिप्रमायात चरित रामगोचरम् । भक्त्या प्रणोदिता बुद्धिः प्रष्टु मम समुद्यता ॥२१॥
 विशिष्टचिन्तयायात यच्च श्रेयः क्षणान्महत् । तेनैव रक्षिता याता चारुता मम भारती ॥२२॥
 व्यक्ताकारादिवर्णा वाग् लम्बिता या न सत्कथाम् । सा तस्य निष्फला जन्तो पापादानाय केवलम् ॥२३॥
 वृद्धिं व्रजति विज्ञान यशश्चरति निर्मलम् । प्रयाति दुरित दूर महापुरुषकीर्तनात् ॥२४॥
 अल्पकालमिदं जन्तो शरीर रोगनिर्भरम् । यशस्तु सत्कथाजन्म यावच्चन्द्रार्कतारकम् ॥२५॥
 तस्मात्सर्वप्रयत्नेन पुरुषेणात्मवेदिना । शरीरं स्थास्तु कर्तव्य महापुरुषकीर्तनम् ॥२६॥
 लोकद्वयफल तेन लब्ध भवति जन्तुना । यो विधत्ते कथा रम्यां सज्जनानन्ददायिनीम् ॥२७॥
 सत्कथाश्रवणौ यौ च श्रवणौ तौ भतौ मम । अन्यौ विदूषकस्येव श्रवणाकारधारिणौ ॥२८॥
 सञ्चेष्टावर्णना वर्णा घूर्णन्ते यत्र मूर्धनि । अय मूर्द्धाजन्यमूर्द्धा तु नालिकेरकरङ्कवत् ॥२९॥
 सत्कीर्तनसुधास्वादसक्त च रसन स्मृतम् । अन्यच्च दुर्वचोधार कृपाणदुहितु फलम् ॥३०॥
 श्रेष्ठावोष्ठौ च तावेव यौ सुकीर्तनवर्तिनौ । न शम्बूकास्यसभुक्तजलौकापृष्ठसन्निभौ ॥३१॥
 दन्तास्त एव ये शान्तकथासङ्गमरञ्जिताः । शेषाः सश्लेष्मनिर्वाणद्वारवन्धाय केवलम् ॥३२॥
 मुखं श्रेयःपरिप्राप्तेर्मुखं मुख्यकथारतम् । अन्यन्तु मलसम्पूर्णं दन्तकीटाकुल विलम् ॥३३॥

प्रकाशित पदार्थोको साधारण मनुष्य सुखपूर्वक देख लेते हैं और सुईके अग्रभागसे विदारे हुए मणिमे सूत अनायास ही प्रवेश कर लेता है ॥२०॥ रामचन्द्रजीका जो चरित्र विद्वानोकी परम्परा से चला आ रहा है उसे पूछनेके लिए मेरी बुद्धि भक्तिसे प्रेरित होकर ही उद्यत हुई है ॥२१॥ विशिष्ट पुरुषोके चिन्तवनसे तत्काल जो महान् पुण्य प्राप्त होता है उसीके द्वारा रक्षित होकर मेरी वाणी सुन्दरताको प्राप्त हुई है ॥२२॥ जिस पुरुषकी वाणीमे अकार आदि अक्षर जो व्यक्त है पर जो सत्पुरुषोकी कथाको प्राप्त नहीं कराई गई है उसकी वह वाणी निष्फल है और केवल पाप-संचयका ही कारण है ॥२३॥ महापुरुषोका कीर्तन करनेसे विज्ञान वृद्धिको प्राप्त होता है, निर्मल यश फैलता है और पाप दूर चला जाता है ॥२४॥ जीवोका यह शरीर रोगोसे भरा हुआ है तथा अल्प काल तक ही ठहरनेवाला है परन्तु सत्पुरुषोकी कथासे जो यश उत्पन्न होता है वह जवतक सूर्य, चन्द्रमा और तारे रहेंगे तबतक रहता है ॥२५॥ इसलिए आत्मज्ञानी पुरुषको सब प्रकारका प्रयत्नकर महापुरुषोके कीर्तनसे अपना शरीर स्थायी बनाना चाहिए अर्थात् यश प्राप्त करना चाहिए ॥२६॥ जो मनुष्य सज्जनोको आनन्द देनेवाली मनोहारिणी कथा करता है वह दोनो लोकोका फल प्राप्त कर लेता है ॥२७॥ मनुष्यके जो कान सत्पुरुषोकी कथाका श्रवण करते हैं मैं उन्हें ही कान मानता हूँ वाकी तो विदूषकके कानोके समान केवल कानोका आकार ही धारण करते हैं ॥२८॥ सत्पुरुषोकी चेष्टाको वर्णन करनेवाले वर्ण-अक्षर जिस मस्तकमे घूमते हैं वही वास्तवमे मस्तक है वाकी तो नारियलके करङ्क—कड़े आवरणके समान हैं ॥२९॥ जो जिह्वा सत्पुरुषोके कीर्तन रूपी अमृतका आस्वाद लेनेमे लीन है मैं उन्हें ही जिह्वा मानता हूँ वाकी तो दुर्वचनोको कहनेवाली छुरीका मानो फलक ही है ॥३०॥ श्रेष्ठ ओठ वे ही हैं जो कि सत्पुरुषो का कीर्तन करनेमे लगे रहते हैं वाकी तो शम्बूक नामक जन्तुके मुखसे भुक्त जोकके पृष्ठके समान ही हैं ॥३१॥ दाँत वही हैं जो कि शान्त पुरुषोकी कथाके समागमसे सदा रञ्जित रहते हैं—उसीमे लगे रहते हैं वाकी तो कफ निकलनेके द्वारको रोकनेवाले मानो आवरण ही हैं ॥३२॥ मुख वही है जो कल्याणकी प्राप्तिका प्रमुख कारण है और श्रेष्ठ पुरुषोकी कथा कहनेमे सदा अनुरक्त रहता है वाकी तो मलसे भरा एवं दन्तरूपी कीड़ोंसे व्याप्त मानो गड्ढा ही है ॥३३॥

वदित्वा योऽथवा श्रोता श्रेयसा वचसां नरः । पुमान् स एव शेषस्तु शिल्पिकल्पितकायवन् ॥३४॥
 गुणदोषसमाहारे गुणान् गृह्णन्ति साधवः । क्षीरवारिसमाहारे हसः क्षीरमिवाखिलम् ॥३५॥
 गुणदोषसमाहारे दोषान् गृह्णन्त्यसाधवः । मुक्ताफलानि सत्यज्य काका मांसमिव द्विपात् ॥३६॥
 अदोषामपि दोषाक्ता पश्यन्ति रचना खलाः । रविमूर्तिमिवोल्कास्तमालदलकालिकाम् ॥३७॥
 सरो-जलागमद्वारजालकानीव दुर्जनाः । धारयन्ति सदा दोषान् गुणवन्धनवर्जिताः ॥३८॥
 स्वभावमिति सचिन्त्य सज्जनस्येतरस्य च । प्रवर्तन्ते कथाबन्धे स्वार्थमुद्दिश्य साधवः ॥३९॥
 सत्कथाश्रवणाद् यच्च सुख सपद्यते नृणाम् । कृतिनां स्वार्थं एवासौ पुण्योपार्जनकारणम् ॥४०॥
 वद्धमानजिनेन्द्रोक्त सोऽयमर्थो गणेश्वरम् । इन्द्रभूति परिप्राप्तः सुधर्म धारणीभवम् ॥४१॥
 प्रभव क्रमत कीर्तिं ततोऽनु(न्)त्तरवाग्मिनम् । लिखितं तस्य सप्राप्य रवेर्यत्नोऽयमुद्गतः ॥४२॥
 स्थितिर्वशसमुत्पत्तिं प्रस्थान सयुग ततः । लवणाङ्कुशसभूतिर्भवोक्तिः परिनिर्वृतिः ॥४३॥
 भवान्तरभवैर्भूरिप्रकारैश्चारुपर्वभिः । युक्ता सप्त पुराणोऽस्मिन्नधिकारा इमे स्मृताः ॥४४॥
 पद्मचेष्टितसम्बन्धकारण तावदेव च । त्रैशलादिगतं वक्ष्ये सूत्र सक्षेपि तद्यथा ॥४५॥
 वीरस्य समवस्थान कुशाग्रगिरिमूर्द्धनि । श्रेणिकस्य परिप्रश्नमिन्द्रभूतेर्महात्मनः ॥४६॥
 तत्र प्रश्ने युगे यत्तामुत्पत्ति कुलकारिणाम् । भीतीश्च जगतो दुःखकारणाकस्मिकेक्षणात् ॥४७॥

जो मनुष्य कल्याणकारी वचनोको कहता है अथवा सुनता है वास्तवमे वही मनुष्य है बाकी तो शिल्पकारके द्वारा बनाये हुए मनुष्यके पुतलेके समान हैं ॥३४॥ जिस प्रकार दूध और पानीके समूहमे से हंस समस्त दूधको ग्रहण कर लेता है उसी प्रकार सत्पुरुष गुण और दोषोंके समूहमे से गुणोंको ही ग्रहण करते हैं ॥३५॥ और जिस प्रकार काक हाथियोंके गण्डस्थलसे मुक्ता फलोंको छोड़कर केवल मांस ही ग्रहण करते हैं उसी प्रकार दुर्जन गुण और दोषोंके समूहमेसे केवल दोषोंको ही ग्रहण करते हैं ॥३६॥ जिस प्रकार उलूक पक्षी सूर्यकी मूर्तिको तमालपत्रके समान काली-काली ही देखते हैं उसी प्रकार दुष्ट पुरुष निर्दोष रचनाको भी दोषयुक्त ही देखते हैं ॥३७॥ जिस प्रकार किसी सरोवरमे जल आनेके द्वारपर लगी हुई जाली जलको तो नहीं रोकती किन्तु कूड़ा-ककटको रोक लेती है उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य गुणोंको तो नहीं रोक पाते किन्तु कूड़ा-ककट के समान दोषोंको ही रोककर धारण करते हैं ॥३८॥ सज्जन और दुर्जनका ऐसा स्वभाव ही है यह विचारकर सत्पुरुष स्वार्थ—आत्मप्रयोजनको लेकर ही कथाकी रचना करनेमे प्रवृत्त होते हैं ॥३९॥ उत्तम कथाके सुननेसे मनुष्योंको जो सुख उत्पन्न होता है वहाँ बुद्धिमान् मनुष्योंका स्वार्थ—आत्मप्रयोजन कहलाता है तथा यही पुण्योपार्जनका कारण होता है ॥४०॥ श्री वर्धमान जिनेन्द्रके द्वारा कहा हुआ यह अर्थ इन्द्रभूति नामक गौतम गणधरको प्राप्त हुआ । फिर धारिणिके पुत्र सुधर्माचार्यको प्राप्त हुआ । फिर प्रभवको प्राप्त हुआ, फिर कीर्तिधर आचार्यको प्राप्त हुआ । उनके अनन्तर उत्तरवाग्मी मुनिको प्राप्त हुआ । तदनन्तर उनका लिखा प्राप्तकर यह रविपेणाचार्यका प्रयत्न प्रकट हुआ है ॥ ४१-४२ ॥ इस पुराणमे निम्नलिखित सात अधिकार हैं—(१) लोकस्थिति, (२) वंशोकी उत्पत्ति, (३) वनके लिए प्रस्थान, (४) युद्ध, (५) लवणाङ्कुशकी उत्पत्ति, (६) भवान्तर निरूपण और (७) रामचन्द्रजीका निर्वाण । ये सातों ही अधिकार अनेक प्रकारके सुन्दर-सुन्दर पर्वोंसे सहित है ॥४३-४४॥ रामचन्द्रजीकी कथाका सम्बन्ध बतलानेके लिए भगवान् महावीर स्वामीकी भी संक्षिप्त कथा कहूँगा जो इस प्रकार है ।

एक बार कुशाग्र पर्वत—विपुलाचलके शिखरपर भगवान् महावीर स्वामी समवसरण सहित आकर विराजमान हुए । जिसमें राजा श्रेणिकने जाकर इन्द्रभूति गणधरसे प्रश्न किया । उस

१. दोषोक्ता म० । २. चारयन्ति क० । ३. स्वर्थ क० । ४. ग्रन्थान्तेऽपि १२३तमपर्वणः १६६ तमश्लोके ग्रन्थकर्त्रा ग्रन्थानुपूर्वीमुद्दिश्य निम्नाङ्कितः श्लोको दत्तः—“निर्दिष्ट सकलैर्नतेन भुवनैः श्रीवर्द्धमानेन यत्तत्त्व वासवभूतिना निगदित जम्बोः प्रशिष्यस्य च । शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटित पद्मस्य वृत्त मुनेः श्रेयः साधुसमाधिवृद्धिकरण सर्वोत्तम मङ्गलम् ॥” ५. धारिणी म० । ६. तावदत्र ख०, म० । ७. यत्ना म० । ८. कुलकारिणीम् म० ।

ऋषभस्य ममुत्पत्तिमभिपेक्ष नगाधिपे । उपदेण च विविध लोकाभ्यानिचिनाग्नम् ॥४८॥
 श्रामण्यं केवलोत्पत्तिमैश्वर्यं विष्टपातिगम् । सर्वामराधिपायानं निर्वाणमुन्वसगमम् ॥४९॥
 प्रधानं चाहुवलिनो भरतेन सम महन । ममुदभवं द्विजातीनां कुर्ताधिकृणस्य च ॥५०॥
 इक्ष्वाकुप्रभृतीनां च त्रशाना गुणकीर्तनम् । विद्याधरममुद्गूति विद्युद्दंष्ट्रममुद्भवम् ॥५१॥
 उपसर्गं जयन्तस्य केवलज्ञानतपत्रम् । नागराजस्य सद्योभ विद्याहरणतर्जने ॥५२॥
 अजितस्यावतरण पूर्णाम्बुदमुनामुन्वम् । विद्याधरकुमारस्य शरणं प्रतिमश्रयम् ॥५३॥
 रत्नोनाथपरिप्राप्ति रत्नोद्दीपसमाश्रयम् । सगरस्य ममुद्गूति दुःखदीक्षणनिर्वृत्ता ॥५४॥
 अतिक्रान्तमहारत्नो जन्मनः परिकीर्तनम् । शाप्तामृगध्वजानां च प्रज्ञसिमतिविस्तरान् ॥५५॥
 तडिक्लेशस्य चरितमृदधेरमरम्य च । किष्किन्धान्ध्रगोत्पात्र श्रीमालादेवरागम् ॥५६॥
 वधाद् विजयसिंहस्य क्रोधं चागन्निवेगजम् । अन्ध्रकान्तमरिप्राप्ति पुरम्यं विनिवेशनम् ॥५७॥
 किष्किन्धपुरविन्याम मधुपर्वतमूढानि । सुकेशानन्दनाडीनां लङ्काप्राप्तिनिरूपणम् ॥५८॥
 निर्वातवधहेतुं च मालिनः सपट पराम् । दक्षिणे विजयार्थस्य भागे च रथनूपुरे ॥५९॥
 पुरे जननमिन्द्रस्य सर्वविद्यामृतां विभोः । मालिनः पद्मतावाप्ति जन्म वैश्रवणस्य च ॥६०॥

प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने सर्वप्रथम युगोका वर्णन किया । फिर कुलकरोकी उत्पत्तिका वर्णन हुआ । अकस्मात् दुःखके कारण देखनेसे जगत्के जीवोको भय उत्पन्न हुआ इसका वर्णन किया ॥४५-४७॥ भगवान् ऋषभदेवकी उत्पत्ति, मुसेरु पर्वतपर उनका अभिषेक और लोककी पीड़ाको नष्ट करनेवाला उनका विविध प्रकारका उपदेश बताया गया ॥ ४८ ॥ भगवान् ऋषभदेवने दीक्षा धारण की, उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, उनका लोकोत्तर ऐश्वर्य प्रकट हुआ, सब इन्द्रोका आगमन हुआ और भगवान्को मोक्ष-सुखका समागम हुआ ॥ ४९ ॥ भरतके साथ चाहुवलीका बहुत भारी युद्ध हुआ, ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति और मिथ्याधर्मको फैलानेवाले कुर्तारिथोंका आविर्भाव हुआ ॥ ५० ॥ इक्ष्वाकु आदि वंशोकी उत्पत्ति, उनकी प्रशंसाका निरूपण, विद्याधरोकी उत्पत्ति तथा उनके वंशमें विद्युद्दंष्ट्र विद्याधरके द्वारा संजयन्त मुनिको उपसर्ग हुआ । मुनिराज उपसर्ग सह केवलज्ञानी होकर निर्वाणको प्राप्त हुए । इस घटनासे धरणेन्द्रका विद्युद्दंष्ट्रके प्रति बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ जिससे उसने उसकी विद्याएँ छीन लीं तथा उसे बहुत भारी तर्जना दी ॥५१-५२॥ तदनन्तर श्री अजितनाथ भगवान्का जन्म, पूर्णमेघ विद्याधर और उसकी पुत्रीके सुखका वर्णन, विद्याधर कुमारका भगवान् अजितनाथकी शरणमें आना, राक्षस द्वीपके स्वामी व्यन्तर देवका आना तथा प्रसन्न होकर पूर्णमेघके लिए राक्षस द्वीपका देना, सगर चक्रवर्तीका उत्पन्न होना, पुत्रोका मरण मुन उसके दुःखसे उन्होंने दीक्षाधारण की तथा निर्वाण प्राप्त किया ॥५३-५४॥ पूर्णमेघके वंशमें महारत्नका जन्म तथा वानरवंशी विद्याधरोको उत्पत्तिका विस्तारसे वर्णन ॥५५॥ विद्युत्केश विद्याधरका चरित्र, तदनन्तर उद्धिविक्रम और अमरविक्रम विद्याधरका कथन, वानर-वंशियोमें किष्किन्ध और अन्धक नामक विद्याधरोका जन्म लेना, श्रीमाला विद्याधरोका संगम होना ॥५६॥ विजयसिंहके वधसे अशनिवेगको क्रोध उत्पन्न होना, अन्धकका मारा जाना और वानरवंशियोका मधुपर्वतके शिखरपर किष्किन्धपुर नामक नगर बसाकर उसमें निवास करना । सुकेशीके पुत्र आदिको लङ्काकी प्राप्ति होना ॥५७-५८॥ निर्वात विद्याधरके वधसे मालीको बहुत भारी सम्पदाका प्राप्त होना, विजयार्थ पर्वतके दक्षिणभाग सम्बन्धी रथनूपुर नगरमें समस्त विद्याधरोके अधिपति इन्द्रनामक विद्याधरका जन्म लेना, मालीका मारा जाना और वैश्रवणका उत्पन्न होना ॥५९-६०॥ सुमालीके पुत्र रत्नश्रवाका

१. सर्वने म० । २. निर्वृतिम् म० । ३. विस्तगम् म० । ४. पुरसुन्दरवेशनम् म० ।

पुष्पान्तकममावेश तनयस्य सुमालिनः । कैकस्या सह संयोग चारुस्वप्नावलोकनम् ॥६१॥
 दशाननस्य प्रजनिं विद्याना समुपासनम् । अनावृतस्य सत्तोभमागम च सुमालिनः ॥६२॥
 मन्दोदर्या परिप्राप्तिं कन्यकानां निरीक्षणम् । चेष्टितैर्भानुकर्णस्य कोप वैश्रवणोद्भवम् ॥६३॥
 यक्षराक्षससंग्रामं धनदस्य तपस्यनम् । लङ्कागम दशास्यस्य प्रश्न[प्रत्न]चैत्यावलोकनम् ॥६४॥
 श्रीमतो हरिपेणस्य माहात्म्य पापनाशनम् । त्रिजगद्भूषणासिख्यैर्द्विरदेन्द्रविलोकनम् ॥६५॥
 यमस्थानच्युतिं चार्करजं किष्किन्धसगमम् । चोरण कैकसेय्याश्च खरालङ्कारसश्रयम् ॥६६॥
 अनुराधामहादुःख चन्द्रोदरवियोगत । विराधितपुरभ्रंश सुग्रीवश्रीसमागमम् ॥६७॥
 वाले प्रव्रजन क्षोभमष्टापदमहीभृत । सुग्रीवस्य सुताराया लाभ साहसगामिनः ॥६८॥
 सताप विजयार्द्धाद्रिगमन रावणस्य च । ॥६९॥
 अनरण्यसहस्रांशुवैराग्य यज्ञनाशनम् । मधुपूर्वभवाख्यातमुपरम्भाभिभाषणम् ॥७०॥
 विद्यालाभ महेन्द्रस्य राज्यलक्ष्मीपरिचयम् । दशास्यमेरुगमन पुनश्च विनिवर्तनम् ॥७१॥
 अनन्तवीर्यकैवल्य दशास्यनियमक्रियाम् । हनूमतः समुत्पत्ति कपिकेतोर्महात्मनः ॥७२॥
 अष्टापदे महेन्द्रेण प्रह्लादस्याभिभाषणम् । वायोः कोप प्रसाद च तज्जायाप्रजनोत्सवने ॥७३॥
 द्विगम्बरेण कथन हनूमत्पूर्वजन्मनः । सूर्तिं हनूरुहप्राप्तिं प्रतिसूर्येण कारिताम् ॥७४॥

पुष्पान्तक नामक नगर वसाना, कैकसीके साथ उसका संयोग होना, और कैकसीका शुभ स्वप्नोका देखना ॥६१॥ रावणका उत्पन्न होना और विद्याओका साधन करना, अनावृत नामक देवको क्षोभ होना तथा सुमालीका आगमन होना ॥६२॥ रावणको मन्दोदरीकी प्राप्ति होना, साथ ही अन्य अनेक कन्याओका अवलोकन होना और भानुकर्णकी चेष्टाओसे वैश्रवणका कुपित होना ॥६३॥ यक्ष और राक्षस नामक विद्याधरोका संग्राम, वैश्रवणका तप धारण करना, रावणका लङ्कामे आना और श्रेष्ठ चैत्यालयोंका अवलोकन करना ॥६४॥ पापोंको नष्ट करनेवाला हरिपेण चक्रवर्तीका माहात्म्य, त्रिलोकमण्डन हाथीका अवलोकन ॥६५॥ यमनामक लोकपालको अपने स्थानसे च्युत करना तथा वानरवंशी राजा सूर्यरजको किष्किन्धापुरका संगम करना । तदनन्तर रावणकी वहिन शूर्पणखाको खर-दूपण द्वारा हर ले जाना और उसीके साथ विवाह देना और खर-दूपणका पाताल लङ्का जाना ॥६६॥ चन्द्रोदरका युद्धमें मारा जाना और उसके वियोगसे उसकी रानी अनुराधाको बहुत दुःख उठाना, चन्द्रोदरके पुत्र विराधितका नगरसे भ्रष्ट होना तथा सुग्रीवको राज्यलक्ष्मीकी प्राप्ति होना ॥६७॥ वालिका दीक्षा लेना, रावणका कैलासपर्वतको उठाना, सुग्रीवको सुताराकी प्राप्ति होना, सुताराकी प्राप्ति न होनेसे साहसगति विद्याधरको सन्तापका होना तथा रावणका विजयार्ध पर्वतपर जाना ॥६८-६९॥ राजा अनरण्य और सहस्ररश्मिका विरक्त होना, रावणके द्वारा यज्ञका नाश हुआ उसका वर्णन, मधुके पूर्वभवोका व्याख्यान और रावणकी पुत्री उपरम्भाका मधुके साथ अभिभाषण ॥७०॥ रावणको विद्याका लाभ होना, इन्द्रकी राज्य-लक्ष्मीका क्षय होना, रावणका सुमेरु पर्वतपर जाना और वहाँसे वापिस लौटना ॥७१॥ अनन्तवीर्य मुनिको केवलज्ञान उत्पन्न होना, रावणका उनके समक्ष यह नियम ग्रहण करना कि 'जो परस्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे नहीं चाँहूँगा, तदनन्तर वानरवंशी महात्मा हनुमान्के जन्मका वर्णन ॥७२॥ कैलास पर्वतपर अञ्जनाके पिता राजा महेन्द्रका पवनञ्जयके पिता राजा प्रह्लादसे यह भाषण होना कि हमारी पुत्रीका तुम्हारे पुत्रसे सम्बन्ध हो, पवनञ्जयके साथ अञ्जनाका विवाह, पवनञ्जयका कुपित होना । तदनन्तर चक्रवा-चक्रवीका वियोग देख प्रसन्न होना, अञ्जनाके गर्भ रहना और सासु द्वारा उसका घरसे निकाला जाना ॥७३॥ मुनिराजके

१. प्रजन म० । २. सिख्य म० । ३. चारण म० । ४. कैकसेयाश्च म० । ५. चन्द्रोदय म० ।
 ६. जन्यनाशनम् क० । ७. नियमग्रहम् म० । ८. सजाया ख० । ९. 'सूतिस्तनूरुहप्राप्तिं प्रतिसूर्येण कारिताम्' म० ।

भूताटवीं प्रविष्टस्य वायो रिमविलोकनेम् । विद्याधरसमायोगमक्षनादर्शनोत्सवम् ॥७५॥
 वायुपुत्रसहायत्व दारुणं परम रणम् । रावणस्य महाराज्य जैनमुत्सेधमन्तरम् ॥७६॥
 रामकेशवतच्छत्रुपट्खण्डपरिचेष्टितम्^१ । दशस्यन्दनसभूतिं कैकय्या वरसम्पदम् ॥७७॥
 पद्मलक्ष्मणशत्रुघ्नभरताना समुद्भवम् । सीतोत्पत्तिं प्रभाचक्रं^२ हृति तन्मातृशोचनम् ॥७८॥
 नारदालिखितां सीता दृष्ट्वा भ्रातृविभूढताम् । स्वयंवराय वृत्तान्त चापरत्नस्य चोद्भवम् ॥७९॥
 सर्वभूतशरण्यस्य दशस्यन्दनत्रीक्षणम् । भाचक्रान्यभवज्ञान विदेहायाश्च दर्शनम् ॥८०॥
 कैकय्या वरतो राज्यप्रापण भरतस्य च । वैदेहीपद्मसौमित्रिगमन दक्षिणाशया ॥८१॥
 चेष्टित वज्रकर्णस्य लाभ कल्याणयोषित । रुद्रभूतिवशीकार बालिखिल्यविमोचनम् ॥८२॥
 निकारमरुणग्रामे रामपुर्या निवेशनम् । सगम वनमालाया अतिवीर्यसमुन्नतिम् ॥८३॥
 प्राप्ति च जितपद्माया. कौलदेशविभूषणम् । चरित कारण रामचैत्याना वशपर्वते ॥८४॥
 जटायुनियमप्राप्तिं पात्रदानफलोदयम् । महानागरथारोह शम्भूकं विनिपातनम् ॥८५॥
 कैकसेय्याश्च वृत्तान्तं खरदूषणविग्रहम् । सीताहरणशोक च शोक रामस्य दुर्धरम् ॥८६॥
 विराधितस्यागमन खरदूषणपञ्चताम् । विद्याना रत्नजटिनश्छेद सुग्रीवसगमम् ॥८७॥

द्वारा हनुमान्के पूर्व जन्मका कथन होना, गुफामें हनुमान्का जन्म होना और अञ्जनाके मामा प्रातिसूर्यके द्वारा अञ्जना तथा हनुमान्को हनुरूह द्वीपमें ले जाना ॥७४॥ तदनन्तर पवनञ्जयका भूताटवीमें प्रवेश, वहाँ उसका हाथी देख प्रतिसूर्य विद्याधरका आगमन और अञ्जनाको देखनेका पवनञ्जयको बहुत भारी हर्ष हुआ इसका वर्णन ॥७५॥ हनुमान्के द्वारा रावणको सहायताकी प्राप्ति तथा वरुणके साथ अत्यन्त भयंकर युद्ध होना । रावणके महान् राज्यका वर्णन तथा तीर्थङ्करोकी ऊँचाई और अन्तराल आदिका निरूपण ॥७६॥ बलभद्र, नारायण और उनके शत्रु प्रतिनारायण आदिकी छह खण्डोमें होने वाली चेष्टाओंका वर्णन, राजा दशरथकी उत्पत्ति और कैकयीको वरदान देनेका कथन ॥७७॥ राजा दशरथके राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरतका जन्म होना, राजा जनकके सीताकी उत्पत्ति और भामण्डलके हरणसे उसकी माताको शोक उत्पन्न होना ॥७८॥ नारदके द्वारा चित्रमें लिखी सीताको देख भाई भामण्डलको मोह उत्पन्न होना, सीताके स्वयंवरका वृत्तान्त और स्वयंवरमें धनुषरत्नका प्रकट होना ॥७९॥ सर्वभूत-शरण्य नामक मुनिराजके पास राजा दशरथका दीक्षा लेना, सीताको देखकर भामण्डलको अन्य भवोंका ज्ञान होना ॥८०॥ कैकयीके वरदानके कारण भरतको राज्य मिलना और सीता, राम तथा लक्ष्मणका दक्षिण दिशाकी ओर जाना ॥८१॥ वज्रकर्णका चरित्र, लक्ष्मणको कल्याणमाला स्त्रीका लाभ होना, रुद्रभूतिको वशमे करना और बालिखिल्यको लुडाना ॥८२॥ अरुण ग्राममें श्रीरामका आना, वहाँ देवोंके द्वारा बसाई हुई रामपुरी नगरमें रहना, लक्ष्मणका वनमालाके साथ समागम होना और अतिवीर्यकी उन्नतिका वर्णन ॥८३॥ तदनन्तर लक्ष्मणको जितपद्माकी प्राप्ति होना, कुलभूषण और देवभूषण मुनिका चरित्र, श्रीरामने वंशस्थल पर्वतपर जिनमन्दिर वनवाये उनका वर्णन ॥८४॥ जटायु पक्षीको व्रतप्राप्ति, पात्रदानके फलकी महिमा, बड़े-बड़े हाथियोंसे जुते रथपर रामलक्ष्मण आदिका आरूढ होना, तथा शम्भूकका मारा जाना ॥८५॥ शूर्पणखाका वृत्तान्त, खर दूषणके साथ श्रीरामके युद्धका वर्णन, सीताके वियोगसे रामको बहुत भारी शोकका होना ॥८६॥ विराधित नामक विद्याधरका आगमन, खरदूषणका मरण, रावणके द्वारा रत्नजटी विद्याधरकी विद्याओंका छेदा जाना तथा सुग्रीवका रामके साथ समागम

१ विलोकने म० । २. परिवेष्टितम् म० । ३ दूत (१) म० । ४. वज्रकरणस्य म० । ५. रामपुर्याभि-
 वेशनम् म० । ६. राम म० । ७. शङ्ककविनिपातनम् म० ।

निधनं साहस्यगते सीतोदन्त विहायसा । यानं विभीषणायानं त्रियासिं हरिपद्मयो ॥८८॥
 इन्द्रजितकुम्भकर्णाद्वस्वरपद्मगवन्धनम् । सौमित्रशक्तिनिर्भेदविशल्याशल्यताकृतिम् ॥८९॥
 रावणस्य प्रवेजं च जिनेश्वरगृहे स्तुतिम् । लङ्काभिमवनं प्रातिहार्यं देवैः प्रकल्पितम् ॥९०॥
 चक्रोत्पत्तिं च सौमित्रे कैक्येयस्य हिंसनम् । विलापं तस्य नारीणां केवल्यागमनं ततः ॥९१॥
 दीक्षामिन्द्रजिदादीनां सीतया सह संगमम् । नारदस्य च सम्प्राप्तिमयोध्याया निवेशनम् ॥९२॥
 पूर्वजन्मानुचरितं गजस्य भरतस्य च । तत्रात्रज्यं महाराज्यं सीरचक्रप्रहारिणो^१ ॥९३॥
 लाभं मनोरमायाश्च लक्ष्म्यालिङ्गितवचम । संयुगे मरणप्राप्तिं सुमधोर्लवणस्य च ॥९४॥
 मथुरायां लदेशायामुपसर्गविनाशनम् । सप्तर्षिसंश्रयात् सीतानिर्वासपरिदेवने ॥९५॥
 वज्रजङ्घपरित्राण लवणाङ्कुशसम्भवम् । अन्यराज्यपराभूतिं पित्रा सह महाहवम् ॥९६॥
 सर्वभूषणकैवल्यसंप्राप्तवमरागमम् । प्रातिहार्यञ्च वैदेह्या विभीषणभवान्तरम् ॥९७॥
 तप कृतान्तवक्रस्य^२ परिचोभं स्वयंवरे । श्रमणत्व कुमाराणां प्रभामण्डलदुर्मृतिम्^३ ॥९८॥
 दीक्षा पवनपुत्रस्य नारायणपरासुताम् । रामान्मजनप.प्राप्तिं पद्मशोकं च दाहणम् ॥९९॥
 पूर्वसदेवजनिताद् बोधान्निर्ग्रन्थताश्रयम् । केवलज्ञानसम्प्राप्तिं निर्वाणपदसङ्गतिम् ॥१००॥

होना ॥८८॥ सुग्रीवके निमित्त रामने साहसगतिको मारा, रत्नजटाने सीताका सब वृत्तान्त रामसे कहा, रामने आकाशमार्गसे लङ्कापर चढ़ाई की, विभीषण रामसे आकर मिला और राम तथा लक्ष्मणको सिंहवाहिनी गरुड़वाहिनी विद्याओंकी प्राप्ति हुई ॥८८॥ इन्द्रजित्, कुम्भकर्ण और मेघनादका नागपाशसे बाँधा जाना, लक्ष्मणको शक्ति लगना और विशल्याके द्वारा शल्यरहित होना ॥८९॥ बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करनेके लिए रावणका शान्तिनाथ भगवान्के मन्दिरमें प्रवेश कर स्तुति करना, रामके कटकके विद्याधरकुमारोका लङ्कापर आक्रमण करना, देवोंके प्रभावसे विद्याधर कुमारोका पीछे कटकमें वापिस आना ॥९०॥ लक्ष्मणको चक्ररत्नकी प्राप्ति होना. रावणका मारा जाना, उसकी स्त्रियोंका विलाप करना तथा केवलीका आगमन ॥९१॥ इन्द्रजित् आदिका दीक्षा लेना, गमका सीताके साथ समागम होना, नारदका आना और श्रीरामका अयोध्यामें वापिस आकर प्रवेश करना ॥९२॥ भरत और त्रिलोकमण्डन हाथीके पूर्वभवका वर्णन, भरतका वैराग्य, राम तथा लक्ष्मणके राज्यका विस्तार ॥९३॥ जिसका वक्षःस्थल राजलक्ष्मीसे आलिङ्गित हो रहा था ऐसे लक्ष्मणके लिए मनोरमाकी प्राप्ति होना, युद्धमें मधु और लवणका मारा जाना ॥९४॥ अनेक देशोंके साथ मथुरा नगरमें धरणेन्द्रके कोपसे मरीरोगका उपसर्ग और सप्तर्षियोंके प्रभावसे उसका दूर होना, सीताको घरसे निकालना तथा उसके विलापका वर्णन ॥९५॥ राजा वज्रजङ्घके द्वारा सीताकी रक्षा होना, लवणाङ्कुशका जन्म लेना, वड़े होनेपर लवणाङ्कुशके द्वारा अन्य राजाओंका पराभव होकर वज्रजङ्घके राज्यका विस्तार किया जाना और अन्तमें उनका अपने पिता रामचन्द्रजीके साथ युद्ध होना ॥९६॥ सर्वभूषण मुनिराजको केवलज्ञान प्राप्त होनेके उपलक्ष्यमें देवोंका आना, अग्निपरीक्षा द्वारा सीताका अपवाद दूर होना, विभीषणके भवान्तरोका निरूपण ॥९७॥ कृतान्तवक्र सेनापतिका तप लेना, स्वयंवरमें राम और लक्ष्मणके पुत्रोंमें चोभ होना, लक्ष्मणके पुत्रोंका दीक्षा धारण करना, और विद्युत्पातसे भामण्डलका दुर्मरण होना ॥९८॥ हनुमान्का दीक्षा लेना, लक्ष्मणका मरण होना, रामके पुत्रोंका तप धारण करना, और भाईके वियोगसे रामको बहुत भारी शोकका उत्पन्न होना ॥९९॥ पूर्वभवके मित्र देवके द्वारा उत्पादित प्रतिबोधसे रामका दीक्षा लेना, केवल-

१. जिनशान्तिगृह शुभम् म० । २. सौमित्र. [?] । ३. तत्रात्रज्या म० । ४. प्रहारिणः म० । ५. पगनूति. म० । ६. वक्रस्य म० । ७. दुर्मृतिम् म० ।

एतत्सर्वं समाधाय मनः शृणुत सज्जनाः । सिद्धास्पदपरिप्राप्तेः सोपानमभिसौख्यदम् ॥१०१॥

शार्दूलचिक्रीडितम्

पद्मादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन्नृणा कुर्वता दूरं भावभरानतेन मनसा मोद^१ पर विभ्रताम् ।
पापं याति भिद्रां सहस्रगणनैः खण्डैश्चिर सञ्चितं नि शेष चरित तु चन्द्रधवलं किं शृण्वतामुच्यते ॥१०२॥
पुतत्तैः कृतमुत्तमं परिहृत तैश्चेदमेनस्कर कर्मात्यन्तविवेकचित्तचतुराः सन्त प्रशस्ता जनाः ।
सेवन् चरितं पुराणपुरुरामेवितं शक्तित^३ सन्मार्गं प्रकटीकृते हि रविणा कश्चाद्दृष्टि स्वलेत् ॥१०३॥

इत्याप रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते सूत्रविधान नाम प्रथमं पर्व ।



ज्ञान प्राप्त होना और निर्वाणपदकी प्राप्ति करना ॥१००॥ हे सत्पुरुषो ! रामचन्द्रका यह चरित्र मोक्षपद रूपी मन्दिरकी प्राप्तिके लिए सीढ़ीके समान है तथा सुखदायक है इसलिए इस सब चरित्रको तुम मन स्थिरकर सुनो ॥१०१॥

जो मनुष्य श्रीराम आदि श्रेष्ठ मुनियोंका ध्यान करते हैं और उनके प्रति अतिशय भक्ति-भावसे नभ्रीभूत हृदयसे प्रमोदकी धारणा करते हैं उनका चिरसंचित पाप-कर्म हजार दूक होकर नाशको प्राप्त होता है फिर जो उनके चन्द्रमाके समान उज्ज्वल समस्त चरित्रको सुनते हैं उनका तो कहना ही क्या है ? ॥ १०२ ॥ आचार्य रविपेण कहते हैं कि इस तरह यह चरित्र उन्हीं इन्द्रभूति गणधरके द्वारा किया हुआ है और पाप उत्पन्न करनेवाला यह अशुभ कर्म उन्हींके द्वारा नष्ट किया गया है, इसलिए हे विवेकशाली चतुर पुरुषो, प्राचीन पुरुषोंके द्वारा सेवित इस परम पवित्रकी तुम सब शक्तिके अनुसार सेवा करो—इसका पठन-पाठन करो क्योंकि जब सूर्यके द्वारा समीचीन मार्ग प्रकट कर दिया जाता है तब ऐसा कौन भली दृष्टिका धारक होगा जो स्वलित होगा—चूककर नीचे गिरेगा ॥ १०३ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्यनिर्मित पद्म-चरितमें वर्णनीय विषयोंका सक्षेपमं निरूपण करनेवाला प्रथम पर्व पूर्ण हुआ ।

१. मोक्ष म० । २. एतच्चैः म० । ३. सर्वतः म० । ४. सन्मार्गप्रकटीकृते म० ।

द्वितीयं पर्व

अथ जम्बूमति द्वीपे क्षेत्रे भरतनामनि । मगधाभिख्यया ख्यातो विपयोऽस्ति समुज्ज्वल ॥१॥
 निवास पूर्णपुण्याना वासवावाससन्निभः । व्यवहारैरसकीर्णैः कृतलोकव्यवस्थिति ॥२॥
 क्षेत्राणि दधते यस्मिन्नुत्खातान् लाङ्गलाननै । स्थलाब्जमूलसघातान् महीसारगुणानिव ॥३॥
 क्षीरसेकादिवोद्भूतैर्मन्दानिलचलहलैः । पुण्ड्रेक्षुचाटसन्तानैर्व्याप्तानन्तरभूजल ॥४॥
 अपूर्वपर्वताकारैर्विभक्तैः खलधामभिः । सस्यकूटैः सुविन्यस्तैः सीमान्ता यस्य सङ्कटाः ॥५॥
 उद्धाटकघटीसिक्तैर्यत्र जीरकजूटकैः । नितान्तहरितैरूर्वी जटालेव विराजते ॥६॥
 उर्वरायां वरीयोभि य शालेयैरलङ्कृतः । मुद्गकोशीपुटैर्यस्मिन्नुद्देशा^१ कपिलत्विषः ॥७॥
 तापस्फुटितकोशीकै राजमापैर्निरन्तरा^२ । उद्देशा यस्य किर्मीरा निक्षेत्रियतृणोद्गमाः ॥८॥
 अधिष्ठितः स्थलीपृष्ठैः श्रेष्ठगोधूमधामभिः । प्रशस्यैरन्यसस्यैश्च युक्तं प्रत्यूहवर्जितैः ॥९॥
 महामहिपपृष्ठस्थगायद्गोपालपालितैः । कीटातिलम्पटोद्ग्रीववलाकानुगर्ताध्वभिः ॥१०॥
 विवर्णसूत्रसम्बद्धघण्टारटितहारिभिः । चरन्निरजरत्रासात् पीतक्षीरोदवत् पयः ॥११॥

अथानन्तर—जम्बू द्वीपके भरत क्षेत्रमे मगध नामसे प्रसिद्ध एक अत्यन्त उज्ज्वल देश है ॥ १ ॥ वह देश पूर्ण पुण्यके धारक मनुष्योंका निवासस्थान है, इन्द्रकी नगरीके समान जान पड़ता है और उदारतापूर्ण व्यवहारसे लोगोकी सब व्यवस्था करता है ॥ २ ॥ जिस देशके खेत हलांके अग्रभागसे विदारण किये हुए स्थल-कमलोकी जड़ोंके समूहको इस प्रकार धारण करते हैं मानो पृथिवीके श्रेष्ठ गुणोको ही धारण कर रहे हो ॥ ३ ॥ जो दूधके सिञ्चनसे ही मानो उत्पन्न हुए थे और मन्द-मन्द वायुसे जिनके पत्ते हिल रहे थे ऐसे पौडों और ईखोंके वनोके समूहसे जिस देशका निकटवर्ती भूमिभाग सदा व्याप्त रहता है ॥ ४ ॥ जिस देशके सीमावर्ती प्रदेश खलिहानोमे जुड़ी-जुड़ी लगी हुई अपूर्व पर्वतोके समान बड़ी-बड़ी धान्यकी राशियोसे सदा व्याप्त रहते हैं ॥ ५ ॥ जिस देशकी पृथिवी रँहटकी घड़ियोसे सींचे गये अत्यन्त हरे-भरे जीरो और धनोके समूहसे ऐसी जान पड़ती है मानो उसने जटाएँ ही धारण कर रखी हो ॥ ६ ॥ जहाँकी भूमि अत्यन्त उपजाऊ है जो धानके श्रेष्ठ खेतोसे अलङ्कृत है और जिसके भू-भाग मूँग और मौठकी फलियोसे पीले-पीले हो रहे हैं ॥ ७ ॥ गर्मीके कारण जिनकी फली चटक गई थी ऐसे रोसा अथवा वर्वटीके बीजांसे वहाँके भू-भाग निरन्तर व्याप्त होकर चित्र-विचित्र दिख रहे है और ऐसे जान पड़ते हैं कि वहाँ तृणके अंकुर उत्पन्न ही नहीं होंगे ॥ ८ ॥ जो देश उत्तमोत्तम गेहूँओकी उत्पत्तिके स्थानभूत खेतोसे सहित है तथा विघ्न-रहित अन्य अनेक प्रकारके उत्तमोत्तम अनाजोंसे परिपूर्ण है ॥ ९ ॥ बड़े-बड़े भैंसांकी पीठपर बैठे गाते हुए ग्वाले जिनकी रक्षा कर रहे है, शरीरके भिन्न-भिन्न भागोमे लगे हुए कीड़ोंके लोभसे ऊपरको गर्दन उठाकर चलनेवाले बगले मार्गमे जिनके पीछे लग रहे हैं, रंग-विरंगे सूत्रोमे बँधे हुए घंटाओके शब्दसे जो बहुत मनोहर जान पडती है, जिनके स्तनोसे दूध भर रहा है और उससे जो ऐसी जान पड़ती है मानो पहले पिये हुए क्षीरोदकको अजीर्णके भयसे छोड़ती रहती है, मधुर रससे सम्पन्न तथा इतने कोमल कि मुँहकी भाप मात्रसे टूट जावे ऐसे सर्वत्र व्याप्त तृणोके द्वारा जो अत्यन्त तृप्तिको प्राप्त थी ऐसी गायोंके द्वारा उस देशके वन सफेद-सफेद हो रहे

१. -नुद्देशान् म० । २. कपिलत्विषा म० । ३. यत्र म० । ४. अधिष्ठिते म० । ५. स्थलीपृष्ठ म० । ६. अन्यशस्यैः म० । ७. युक्तप्रत्यूह म०, क० । ८. गतःवनिः म० ।

सुस्वावरससगपन्नैर्वाष्पच्छेद्यैरनन्तरैः । तृणैस्त्वितिं परिप्राप्तैर्गोधनैः सितकञ्चभू ॥१२॥
 सारीकृतसमुद्देशः कृष्णसारैर्विसारिभिः । सहस्रसख्यैर्गीर्वाणस्वामिनो लोचनैरिव ॥१३॥
 केतकीधूलिधवला यस्य देशाः समुन्नताः । गङ्गापुलिनसकाशा विभान्ति जनसेविताः ॥१४॥
 शाककन्दलत्राटेन श्यामलश्रीधरः क्वचिन् । वनपालकृतास्वाटैर्नालिवेरैर्विराजितः ॥१५॥
 कोटिभिः शुक्कचञ्चूना तथा शाखासृगाननैः । सदिग्धकुसुमैर्युक्तः पृथुभिर्वाडिमीवनैः ॥१६॥
 वरस[वन]पालीकराष्ट्रमातुलिङ्गीफलाम्भसा । लिप्ताः कुङ्कुमपुष्पाणा प्रकरैरूपशोभिताः ॥१७॥
 फलस्वाद्यपयःपानसुखससुसमागंगा । वनदेवीप्रपाकारा द्राक्षाणा यत्र मण्डपाः ॥१८॥
 विलुप्यमानैः पथिकैः पिण्डखजू रपादपै । कपिभिश्च कृताच्छोटैर्मौचानां निचित फलैः ॥१९॥
 तुङ्गाजुनवनकीर्णतटदेशैर्महोदरैः । गोकुलाकलितोदरस्वरवत्कूलधारिभिः ॥२०॥
 विस्फुरच्छफरीनालैर्विक्रमस्रोचनैरिव । हसद्भिरिव शुक्लाना पङ्कजानां कदम्बकैः ॥२१॥
 तुङ्गैस्तरङ्गमघातेर्नर्तनप्रसृतैरिव । गायद्भिरिव ससक्तेहंसाना मधुरस्वनैः ॥२२॥
 सामोदजनसघातैः समासेवितसत्तटैः । सरोभिः सारसार्कीर्णैर्वनरन्ध्रेषु भूषितः ॥२३॥ [कलापकम्]
 सक्तीडनैर्वपुष्मद्भिराविकोष्कतार्णकैः । कृतमवाधसर्वाशो हितपालकपालितैः ॥२४॥
 दिवाकररथाग्वानां लोभनार्थमिवोचितैः । पृष्टैः कुङ्कुमपङ्केन चलत्प्रोथपुटैर्मुखैः ॥२५॥

हैं ॥ १०-१२ ॥ जो इन्द्रके नंत्रोंके समान जान पड़ते हैं ऐसे इधर-उधर चौकडियों भरनेवाले हजारो श्याम हरिणसे उस देशके भू-भाग चित्र-विचित्र हो रहे हैं ॥ १३ ॥ जिस देशके ऊँचे-ऊँचे प्रदेश केतकीकी धूलिसे सफेद-सफेद हो रहे हैं और ऐसे जान पड़ते हैं मानो मनुष्योंके द्वारा सेवित गङ्गाके पुलिन ही हो ॥ १४ ॥ जो देश कहीं तो शाकके खेतोसे हरी-भरी शोभाको धारण करता है और कहीं वनपालोसे आस्वादित नारियलोसे सुशोभित है ॥ १५ ॥ जिनके फूल तोताओकी चोंचोंके अग्रभाग तथा वानरोंके मुखोका संशय उत्पन्न करनेवाले हैं ऐसे अनारके बगीचोंसे वह देश युक्त है ॥ १६ ॥ जो वनपालियोंके हाथसे मर्दित विजौराके फलोंके रससे लिप्त हैं, केशरके फूलोंके समूहसे शोभित हैं, तथा फल खाकर और पानी पीकर जिनमें पथिक जन सुखसे सो रहे हैं ऐसे दाखोंके मण्डप उस देशमें जगह-जगह इस प्रकार छाये हुए हैं मानो वनदेवीके प्याऊके स्थान ही हो ॥ १७-१८ ॥ जिन्हें पथिक जन तोड़-तोड़कर खा रहे हैं ऐसे पिण्ड खजूरके वृक्षोंसे तथा वानरोंके द्वारा तोड़कर गिराये हुए केलाके फलोंसे वह देश व्याप्त है ॥ १९ ॥ जिनके किनारे ऊँचे-ऊँचे अर्जुन वृक्षोंके वनोंसे व्याप्त हैं, जो गायोंके समूहके द्वारा किये हुए उत्कट शब्दसे युक्त कूलोंको धारण कर रहे हैं, जो उछलती हुई मछलियोंके द्वारा नेत्र खोले हुएके समान और फूले हुए सफेद कमलोंके समूहसे हँसते हुएके समान जान पड़ते हैं, ऊँची-ऊँची लहरोंके समूहसे जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो नृत्यके लिए ही तैयार खड़े हो, उपस्थित हंसोंकी मधुर ध्वनिसे जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो गान ही कर रहे हो, जिनके उत्तमोत्तम तटोंपर हर्षसे भरे मनुष्योंके कुण्डके कुण्ड बैठे हुए हैं और जो कमलोंसे व्याप्त है ऐसे सरोवरोंसे वह देश प्रत्येक वन-खण्डोंमें सुशोभित है ॥ २०-२३ ॥ हितकारी पालक जिनकी रक्षा कर रहे हैं ऐसे खेलते हुए सुन्दर शरीरके धारक भेड, ऊँट तथा गायोंके बछड़ोंसे उस देशकी समस्त दिशाओंमें भीड़ लगी रहती है ॥ २४ ॥ सूर्यके रथके घोड़ोंको लुभानेके लिए ही मानो जिनके पीठके प्रदेश केशरकी पङ्कसे लिप्त है और जो चञ्चल अग्रभागवाले मुखोंसे वायुका

१. सकाशो म० । २. जिनसेविताः म० । ३. कृताचोटैः म० । ४. कलितादार म० । ५. ससक्तः म० । ससक्त क० । ६. सामोदजनसघातसमासितसत्तटैः म० । (१) ७. सर्वाशा म० । ८. पालकैः म० । ९. -मिवोचितैः म० ।

उदरस्थकिशोराणां जवायेव प्रभञ्जनम् । स्वच्छन्दमापिबन्तीनां बडवानां गणैश्चितः ॥२६॥ [युग्मम्]
 चरद्भिर्हंसरुघातैर्धनैर्जनगुणैरिव । रवेणाकृष्टचेतोभिरत्यन्तधवल. क्वचित् ॥२७॥
 संगीतस्वनसयुक्तैर्मयूररवमिश्रितैः । यस्मिन्मु र्जननिर्घोषैर्मुखर गगन सदा ॥२८॥
 शरन्निगाकरश्वेतवृत्तैर्मुक्ताफलोपमैः । आनन्ददानचतुरैर्गुणवद्भिः प्रसाधितः ३ ॥२९॥
 तर्पिताध्वगसघातैः फलैर्वरतरूपमैः । महाकुटुम्बिभिर्नित्य प्राप्तोऽभिगमनीयताम् ॥३०॥
 सारङ्गभृगसद्गन्धमृगारोमभिरावृतैः । हिमवत्पाददेशीयैः कृतस्थैर्यो महत्तरैः ॥३१॥
 हता कुदृष्टयो यस्मिन् जिनप्रवचनाक्षनैः । पापकञ्च च निर्दग्ध महासुनितपोऽग्निभिः ॥३२॥
 तत्रास्ति सर्वतः कान्त नाम्ना राजगृह पुरम् । कुसुमामोदसुभग भुवनस्यैव ३ यौवनम् ॥३३॥
 महिषीणां सहस्रैर्यकुङ्कुमाञ्चितविग्रहैः । धर्मान्त.पुरनिर्भास धत्ते मानसकर्षणम् ॥३४॥
 मरुदुद्धूतचमरैर्वालव्यजनशोभितैः । प्रान्तैरमरराजस्य च्छायां यदवलम्बते ॥३५॥

स्वच्छन्दता पूर्वक इसलिए पान कर रही हैं मानो अपने उदरमें स्थित वचचोको गतिके वेगकी शिक्षा ही देने चाहती हो ऐसी घोड़ियोंके समूहसे वह देश व्याप्त हो ॥२५-२६॥ जो मनुष्योंके बहुत भारी गुणोंके समूहके समान जान पड़ते हैं तथा जो अपने शब्दसे लोगोंका चित्त आकर्षित करते हैं ऐसे चलते-फिरते हंसोंके झुण्डोंसे वह देश कहीं-कहीं अत्यधिक सफेद हो रहा है ॥ २७ ॥ संगीतके शब्दोंसे युक्त तथा मयूरोंके शब्दसे मिश्रित मृदङ्गोंकी मनोहर आवाजसे उस देशका आकाश सदा शब्दायमान रहता है ॥ २८ ॥ जो शरद् ऋतुके चन्द्रमाके समान श्वेतवृत्त अर्थात् निर्मल चरित्रके धारक हैं (पद्ममे श्वेतवर्ण गोलाकार हैं), मुक्ताफलके समान हैं, तथा आनन्दके देनेमे चतुर हैं ऐसे गुणी मनुष्योंसे वह देश सदा सुशोभित रहता है ॥ २९ ॥ जिन्होंने आहार आदि की व्यवस्थासे पथिकोंके समूहको सन्तुष्ट किया है तथा जो फलोंके द्वारा श्रेष्ठ वृत्तोंके समान जान पड़ते हैं ऐसे बड़े-बड़े गृहस्थोंके कारण उस देशमे लोगोंका सदा आवागमन होता रहता है ॥ ३० ॥ कस्तूरी आदि सुगन्धित द्रव्य तथा भौतिक-भौतिके वस्त्रोंसे वेष्टित होनेके कारण जो हिमालयके प्रत्यन्त पर्वतों (शाखा) के समान जान पड़ते हैं ऐसे बड़े-बड़े लोग उस देशमे निवास करते हैं ॥ ३१ ॥ उस देशमे मिथ्यात्वरूपी दृष्टिके विकार जैनवचनरूपी अज्ञानके द्वारा दूर होते रहते हैं और पापरूपी वन महा-मुनियोंकी तपरूपी अग्निसे भस्म होता रहता है ॥ ३२ ॥

उस मगध देशमे सब ओरसे सुन्दर तथा फूलोंकी सुगन्धिसे मनोहर राजगृह नामका नगर है जो ऐसा जान पड़ता है मानो संसारका यौवन ही हो ॥३३॥ वह राजगृह नगर धर्म अर्थात् यमराजके अन्तःपुरके समान सदा मनको अपनी ओर खींचता रहता है क्योंकि जिस प्रकार यमराजका अन्तःपुर केशरसे युक्त शरीरको धारण करनेवाली हजारों महिषियों अर्थात् भैंसोंसे युक्त होता है उसी प्रकार वह राजगृह नगर भी केशरसे लिप्त शरीरको धारण करनेवाली हजारों महिषियों अर्थात् रानियोंसे सुशोभित है । भावार्थ—महिषी नाम भैंसका है और जिसका राज्याभिषेक किया गया ऐसी रानीका भी है । लोकमे यमराज महिषवाहन नामसे प्रसिद्ध है इसलिए उसके अन्तःपुरमे महिषोंकी स्त्रियों—महिषियोंका रहना उचित ही है और राजगृह नगरमें राजाकी रानियोंका सद्भाव युक्तियुक्त ही है ॥३४॥ उस नगरके प्रदेश जहाँ-तहाँ वालव्यजन अर्थात् छोटे-छोटे पङ्क्तियोंसे सुशोभित थे और जहाँ-तहाँ उनमें मरुत् अर्थात् वायुके द्वारा चमर कम्पित हो रहे थे इसलिए वह नगर इन्द्रकी शोभाको प्राप्त हो रहा था क्योंकि इन्द्रके समीपवर्ती प्रदेश भी वालव्यजनोंसे सुशोभित होते हैं और उनमे मरुत् अर्थात् देवोंके

सतापमपरिप्राप्तैः कृतमीश्वरमार्गणैः । मनुजैर्यत्करोतीव त्रिपुरस्य जिगीषुताम् ॥३६॥
 सुधारससमासङ्गपाण्डुरागारपट्टकिभिः । टङ्ककल्पितशीताशुशीलाभिरिव कल्पितम् ॥३७॥
 मदिरामत्तवनिताभूषणस्वनसम्भृतम् । कुबेरनगरस्यैव द्वितीय सन्निवेशनम् ॥३८॥
 तपोवन मुनिश्रेष्ठैर्वेश्याभिः काममन्दिरम् । लासकैर्नृत्तभवन शत्रुभिर्यमपत्तनम् ॥३९॥
 शस्त्रिभिर्वीरनिलयोऽभिलापमणिरथिभिः । विद्यार्थिभिर्गुरो, सन्न वन्दिभिर्धूर्तपत्तनम् ॥४०॥
 गन्धर्वनगर गीतशास्त्रकौशलकोविदैः । विज्ञानग्रहणोद्युक्तैर्मन्दिर विश्वकर्मणः ॥४१॥
 साधुना सगमः सद्भिर्भूमिलाभस्य वाणिजैः । पञ्जर शरणप्राप्तैर्वज्रदारुविनिर्मितम् ॥४२॥
 वार्तिकैरसुरच्छिद्र विदग्धैर्विंदिमण्डली । परिणामो मनोज्ञस्य कर्मणो मार्गवर्तिभिः ॥४३॥
 चारणैरुत्सवावासः कामुकैरप्सर पुरम् । सिद्धलोकश्च विदितं यत्सदा सुखिभिर्जनैः ॥४४॥
 यत्र मातङ्गगामिन्यः शीलवत्यश्च योषितः । श्यामाश्च पद्मरागिण्यो गौर्यश्च विभवाश्रयाः ॥४५॥
 चन्द्रकान्तशरीराश्च शिरीपसुकुमारिकाः । भुजङ्गानामगम्याश्च कञ्जुकावृत्तविग्रहाः ॥४६॥

द्वारा चमर कम्पित होते रहते हैं ॥३५॥ वह नगर, मानो त्रिपुर नगरको जीतना ही चाहता है क्योंकि जिस प्रकार त्रिपुर नगरके निवासी मनुष्य ईश्वरमार्गणैः अर्थात् महादेवके वाणोंके द्वारा किये हुए सतापको प्राप्त हैं उस प्रकार उस नगरके मनुष्य ईश्वरमार्गणैः अर्थात् धनिक-वर्गकी याचनासे प्राप्त संतापको प्राप्त नहीं थे—सभी सुखसे सम्पन्न हैं ॥३६॥ वह नगर चूनासे पुते सफेद महलोकी पंक्तिसे लसा जान पड़ता है मानो टोंकियोंसे गढ़े चन्द्रकान्त मणियोंसे ही बनाया गया हो ॥३७॥ वह नगर मदिराके नशामे मस्त स्त्रियोंके आभूषणोंकी झनकारसे सदा भरा रहता है इसलिए ऐसा जान पड़ता है मानो कुबेरकी नगरी अर्थात् अलकापुरीका द्वितीय प्रति-विम्ब ही हो ॥३८॥ उस नगरको श्रेष्ठ मुनियोंने तपोवन समझा था, वेश्याओंने कामका मन्दिर माना था, नृत्यकारोंने नृत्य भवन समझा था और शत्रुओंने यमराजका नगर माना था ॥३९॥ शास्त्रधारियोंने वीरोंका घर समझा था, याचकोंने चिन्तामणि, विद्यार्थियोंने गुरुका भवन और वन्दीजनोंने धूर्तोंका नगर माना था ॥४०॥ संगीत शास्त्रके पारगामी विद्वानोंने उस नगरको गन्धर्वका नगर और विज्ञानके ग्रहण करनेमें तत्पर मनुष्योंने विश्वकर्माका भवन समझा था ॥४१॥ सज्जनोंने सत्समागमका स्थान माना था, व्यापारियोंने लाभकी भूमि और शरणागत मनुष्योंने वज्रमय लकड़ीसे निर्मित—सुरक्षित पञ्जर समझा था ॥४२॥ समाचार प्रेषक उसे असुरोंके विल जैसा रहस्य पूर्ण स्थान मानते थे, चतुर जन उसे विटमण्डली—विटोंका जमघट समझते थे, और समीचीन मार्गमें चलनेवाले मनुष्य उसे किसी मनोज्ञ—उत्कृष्ट कर्मका सुफल मानते थे ॥४३॥ चारण लोग उसे उत्सवोंका निवास, कार्मीजन अप्सराओंका नगर और सुखी-जन सिद्धोंका लोक मानते थे ॥४४॥ उस नगरकी स्त्रियाँ यद्यपि मातङ्गगामिनी थीं अर्थात् चाण्डालों के साथ गमन करनेवाली थीं फिर भी शीलवती कहलाती थीं (पक्षमें हाथियोंके समान सुन्दर चालवाली थीं तथा शीलवती अर्थात् पातिव्रत्य धर्मसे सुशोभित थीं ।) श्यामा अर्थात् श्यामवर्ण वाली होकर भी पद्मरागिण्यः अर्थात् पद्मराग मणि-जैसी लाल क्रान्तिसे सम्पन्न थीं (पक्षमें श्यामा अर्थात् नवयौवनसे युक्त होकर पद्मरागिण्यः अर्थात् कमलमें अनुराग रखनेवाली थीं अथवा पद्मराग मणियोंसे युक्त थीं) । साथ ही गौरी अर्थात् पार्वती होकर भी विभवाश्रया अर्थात् महादेवके आश्रयसे रहित थीं (पक्षमें गौर्यः अर्थात् गौर वर्ण होकर विभवाश्रयाः अर्थात् सम्पदाओंसे सम्पन्न थीं) ॥४५॥ उन स्त्रियोंके शरीर चन्द्रकान्त मणियोंसे निर्मित थे फिर भी वे शिरीपके समान सुकुमार थीं

महालावण्ययुक्ताश्च मधुराभासतत्पराः । प्रसन्नोज्ज्वलवक्त्राश्च प्रमादरहितेहिता ॥४७॥
 कलत्रस्य पृथोर्लक्ष्मी दधतेऽथ च दुर्विधा. । मनोज्ञा नितरां मध्ये सुवृत्ताश्चार्थिता गता. ॥४८॥
 लोकान्तपर्वताकारं यत्र प्राकारमण्डलम् । समुद्रोदरनिर्भासपरिखाकृतवेष्टनम् ॥४९॥
 आसीत्तत्र पुरे राजा श्रेणिको नाम विश्रुतः । देवेन्द्र इव विश्राण. सर्ववर्णधरं धनुः ॥५०॥
 कल्याणप्रकृतित्वेन यश्च पर्वतराजवत् । समुद्र इव मर्यादालघनत्रस्तचेतसा ॥५१॥
 कलाना ग्रहणे चन्द्रो लोकष्टया धरामयः । टिकाकर. प्रतापेन कुबेरो धनसम्पदा ॥५२॥
 शौर्यरक्षितलोकोऽपि नयानुगतमानस. । लक्ष्म्यापि कृतसम्बन्धो न गर्वग्रहदूषितः ॥ ५३ ॥
 जितजेयोऽपि नो शस्त्रव्यायामेषु परामुख. । विधुरेष्वप्यसंभ्रान्त' प्रणतेष्वपि पूजकः ॥५४॥
 रत्नद्विभूद् यस्य मलमुक्तेषु साधुषु । पृथिवीभेदविज्ञान पापाणशकलेषु तु ॥५५॥

(पक्षमे उनके शरीर चन्द्रमाके समान कान्त—सुन्दर थे और वे शिरीपके फूलके समान कोमल शरीरवाली थीं । वे स्त्रियों यद्यपि भुजङ्गो अर्थात् सर्पोंके अगम्य थीं फिर भी उनके शरीर कञ्चुक अर्थात् कौंचलियोंसे युक्त थे (पक्षमे भुजङ्गो अर्थात् विटपुरुषोंके अगम्य थीं और उनके शरीर कञ्चुक अर्थात् चोलियोंसे सुशोभित थे) ॥४६॥ वे स्त्रियों यद्यपि महालावण्य अर्थात् बहुत भारी खारापनसे युक्त थीं फिर भी मधुराभास-तत्परा अर्थात् मिष्ट भाषण करनेमे तत्पर थीं (पक्षमे महालावण्य अर्थात् बहुत भारी सौन्दर्यसे युक्त थीं और प्रिय वचन बोलनेमे तत्पर थीं) । उनके मुख प्रसन्न तथा उज्ज्वल थे और उनकी चेष्टाएँ प्रमादसे रहित थीं ॥४७॥ वे स्त्रियों अत्यन्त सुन्दर थीं, स्थूल नितम्बोंकी शोभा धारण करती थीं, उनका मध्यभाग अत्यन्त मनोहर था, वे सदाचारसे युक्त थीं और उत्तम भविष्यसे सम्पन्न थीं । (इस श्लोकमे भी ऊपरके श्लोकोंके समान विरोधाभास अलङ्कार है जो इस प्रकार घटित होता है—वहाँ की स्त्रियों दुर्विधा अर्थात् दरिद्र होकर भी कलत्र अर्थात् स्त्रीसम्बन्धी भारी लक्ष्मी सम्पदाको धारण करती थीं और सुवृत्त अर्थात् गोलाकार होकर भी आयतिं गता अर्थात् लम्बाईको प्राप्त थीं । (इस विरोधाभासका परिहार अर्थमें किया गया है) ॥४८॥ उस राजगृह नगरका जो कोट था वह (मनुष्य) लोकके अन्तमे स्थित मानुषोत्तर पर्वतके समान जान पड़ता था तथा समुद्रके समान गंभीर परिखा उसे चारों ओरसे घेरे हुई थी ॥४९॥

उस राजगृह नगरमे श्रेणिक नामका प्रसिद्ध राजा रहता था जो कि इन्द्रके समान सर्व-वर्णधर अर्थात् ब्राह्मणादि समस्त वर्णोंकी व्यवस्था करनेवाले (पक्षमे लाल-पीले आदि समस्त रङ्गोंको धारण करनेवाले) धनुषको धारण करता था ॥५०॥ वह राजा कल्याणप्रकृति था अर्थात् कल्याणकारी स्वभावको धारण करनेवाला था (पक्षमे सुवर्णमय था) इसलिए सुमेरु-पर्वतके समान जान पड़ता था और उसका चित्त मर्यादाके उल्लङ्घनसे सदा भयभीत रहता था अतः वह समुद्रके समान प्रतीत होता था ॥५१॥ राजा श्रेणिक कलाओंके ग्रहण करनेमे चन्द्रमा था, लोकको धारण करनेमे पृथिवीरूप था, प्रतापसे सूर्य था और धन-सम्पत्तिसे कुबेर था ॥५२॥ वह अपनी शूरवीरतासे समस्त लोकोंकी रक्षा करता था फिर भी उसका मन सदा नीतिसे भरा रहता था और लक्ष्मीके साथ उसका सम्बन्ध था तो भी अहंकाररूपी ग्रहसे वह कभी दूषित नहीं होता था ॥५३॥ उसने यद्यपि जीतने योग्य शत्रुओंको जीत लिया था तो भी वह शस्त्र-विषयक व्यायामसे विमुख नहीं रहता था । वह आपत्तिके समय भी कभी व्यग्र नहीं होता था और जो मनुष्य उसके समक्ष नम्रीभूत होते थे उनका वह सम्मान करता था ॥५४॥ वह दोषरहित सज्जनोंको ही रत्न समझता था, पापाणके टुकड़ोंको तो केवल पृथ्वीका एक

१. मधुरालाप म० । २. चतुर्विधाः म० । ३. विश्राणः । ४. इति क० । ५. तयानु-म० । नवानु-क० । ६. रत्नभूति-म० ।

क्रियासु दानयुक्तासु महासाधनदर्शनम् । बृहत्कीटपरिज्ञानं मदोक्तगजेषु तु ॥५६॥
 सर्वस्याग्नेरे प्रीतिर्यशस्यत्यन्तमुन्नता । जरत्तृणसमा बुद्धिर्जीविते तु विनग्बरे ॥५७॥
 प्रसाधनमतिः प्रासकरास्वाशासु सन्ततम् । आत्मीयासु तु भार्यासु विबोधश्चार्यपुत्रकः ॥५८॥
 गुणावनमिते चापे प्रतिपत्ति सहायजा । न पिण्डमात्रसन्तुष्टे भृत्यवर्गोऽपचारिणि ॥५९॥
 वातोऽपि नाहरत्किञ्चिद्यत्र रक्षति मेदिनीम् । प्रावर्तन्त न हिंसाया क्रूरा. पशुगणा अपि ॥६०॥
 वृषघातीनि नो यस्य चरितानि हरेरिव । नैश्वर्यचेष्टित दक्षवर्गतापि पिनाकिवत् ॥६१॥
 गोत्रनाशकरी चेष्टा नामराधिपतेरिव । नातिदण्डग्रहप्रीतिर्दक्षिणाशाविभोरिव ॥६२॥
 वरुणस्येव न द्रव्यं निस्त्रिशग्राहरक्षितम् । नि.फला सन्निधिप्राप्तिर्नोत्तराशापतेरिव ॥६३॥
 बुद्धस्येव न निर्मुक्तमर्थवादेन दर्शनम् । न श्रीर्वहुलदोषोपघातिनी शीतगोरिव ॥६४॥
 त्यागस्य नार्थिनो यस्य पर्याप्तिं समुपागता । प्रज्ञायाश्च न शास्त्राणि कवित्वस्य न भारती ॥६५॥

विशेष परिणमन ही मानता था ॥५५॥ जिनमे दान दिया जाता था, ऐसी क्रियाओंको—धार्मिक अनुष्ठानोंको ही वह कार्यकी सिद्धिका श्रेष्ठ साधन समझता था । मदसे उत्कट हाथियोंको तो वह दीर्घकाय क्रीड़ा ही मानता था ॥५६॥ सबके आगे चलनेवाले यशमे ही वह बहुत भारी प्रेम करता था । नश्वर जीवनको तो वह जीर्ण तृणके समान तुच्छ मानता था ॥५७॥ वह आर्यपुत्र कर प्रदान करनेवालों दिशाओंको ही सदा अपना अलङ्कार समझता था । स्त्रियोंसे तो सदा विमुख रहता था ॥५८॥ गुण अर्थात् डोरोसे भुके धनुषको ही वह अपना सहायक समझता था । भोजनसे सन्तुष्ट होनेवाले अपकारी सेवकोंके समूहको वह कभी भी सहायक नहीं मानता था ॥५९॥ उसके राज्यमे वायु भी किसीका कुछ हरण नहीं करती थी फिर दूसरोकी तो बात ही क्या थी । इसी प्रकार दुष्ट पशुओंके समूह भी हिंसामे प्रवृत्त नहीं होते थे फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या थी ॥६०॥ हरि अर्थात् विष्णुकी चेष्टाएँ तो वृषघाती अर्थात् वृषासुरको नष्ट करनेवाली थीं पर उसकी चेष्टाएँ वृषघाती अर्थात् धर्मका घात करनेवाली नहीं थीं । इसी प्रकार महादेवजीका वैभव दक्षवर्गतापि अर्थात् राजा दक्षके परिवारको सन्ताप पहुँचानेवाला था परन्तु उसका वैभव दक्षवर्गतापि अर्थात् चतुर मनुष्योंके समूहको सन्ताप पहुँचानेवाला नहीं था ॥६१॥ जिस प्रकार इन्द्रकी चेष्टा गोत्रनाशकरी अर्थात् पर्वतोंका नाश करनेवाली थी उस प्रकार उसकी चेष्टा गोत्रनाशकारी अर्थात् वंशका नाश करनेवाली नहीं थी और जिस प्रकार दक्षिणदिशाके अधिपति-यमराजके अतिदण्डग्रहप्रीति अर्थात् दण्डधारण करनेमे अधिक प्रीति रहती है उस प्रकार उसके अतिदण्डग्रहप्रीति अर्थात् बहुत भारी सजा देनेमे प्रीति नहीं रहती थी ॥६२॥ जिस प्रकार वरुणका द्रव्य मगरमच्छ आदि दुष्ट जलचरोसे रहित होता है उस प्रकार उसका द्रव्य दुष्ट मनुष्योंसे रक्षित नहीं था अर्थात् उसका सब उपभोग कर सकते थे और जिस प्रकार कुवेरकी सन्निधि अर्थात् उत्तमनिधिका पाना निष्फल है उस प्रकार उसको सन्निधि अर्थात् सज्जनरूपी निधिका पाना निष्फल नहीं था ॥६३॥ जिस प्रकार बुद्धका दर्शन अर्थात् अर्थवाद-वास्तविकवादसे रहित होता है उस प्रकार उसका दर्शन अर्थात् साक्षात्कार अर्थवाद-धनप्राप्तिसे रहित नहीं होता था और जिस प्रकार चन्द्रमाकी भी बहुलदोषोपघातिनी अर्थात् कृष्णपक्षकी रात्रिसे उपहत-नष्ट हो जाती है उस प्रकार उसकी भी बहुलदोषोपघातिनी अर्थात् बहुत भारी दोषोंसे नष्ट होनेवाली नहीं थी ॥६४॥ याचकगण उसके त्यागगुणकी पूर्णताको प्राप्त नहीं हो सके थे अर्थात् वह जितना त्याग-दान करना चाहता था उतने याचक नहीं मिलते थे । शास्त्र उसकी बुद्धिकी पूर्णताको प्राप्त नहीं थे, अर्थात् उसकी बुद्धि बहुत भारी थी और शास्त्र अल्प थे । इसी प्रकार सरम्बती उसकी कवित्व शक्तिकी पूर्णताको प्राप्त नहीं थी अर्थात् वह जितनी कविता कर सकता

साहस्रानि महिम्नो न नोन्साहस्य च चेष्टितम् । दिगाननानि नो क्रीनेर्न मस्थ्या गुणम्पदः ॥६६॥
 चित्तानि नानुगास्य जनस्याखिलनूतले । कला न कुशलन्वन् न प्रतापस्य शत्रवः ॥६७॥
 कथमन्मद्विर्वैस्त्रैय शय्यन्ते गतिनुं गुणाः । यस्येन्द्रसदसि ज्ञातं सम्यग्दर्शनमुत्तमम् ॥६८॥
 उद्धतेषु सता तेन वज्रदण्डेन शत्रुषु । तपोधनममृष्टेषु नमता वेतसायितम् ॥६९॥
 रक्षिता ब्राह्मदण्डेन सकला तस्य नेत्रिणा । पुरस्य स्थितिमात्रं तु प्राकारपत्नित्रादिकम् ॥७०॥
 तपन्तां चेलनानाम्नां शीलाम्बुविभूषणा । सम्यग्दर्शनमंशुद्धा श्रावकाचारवेदिनी ॥७१॥
 एकदा तु पुरस्यास्य स्नीपं जिनसत्तमः । श्रीमान् प्राक्षो महावीरः सुरासुरनतक्रमः ॥७२॥
 नातुरदुदरे यस्य दिक्कुमारीविशोधिते । ज्ञानत्रयममेतस्य सुखसाम्पत् सुनेन्द्रजम् ॥७३॥
 जन्मनोर्वाङ्मुखस्ताच्च यम्य शक्रनिदेशतः । अपृग्यत पितुः मग्न धनदो ग्लवृष्टिभिः ॥७४॥
 जननाभियवे यस्य नगराजस्य सृष्टानि । चक्रे महोत्सवो देवैर्गण्डलन्मन्वितैः ॥७५॥
 पादाङ्गुष्ठेन यो मेरुमनायासेन क्रम्यन् । लेभे नाम महावीर इति नाकालयात्रिपात ॥७६॥
 असृतेन निषिञ्चेन यस्याङ्गुष्ठेऽमरेणिना । वृत्तिरामाच्छरीरस्य बालस्यावालकर्मणः ॥७७॥

था उतनी सरस्वती नहीं थी—उतना शब्द-भण्डार नहीं था ॥६५॥ साहसपूर्ण कार्य उसकी महिमाका अन्त नहीं पा सके थे; चेष्टाएँ उसके उत्साहकी सीमा नहीं प्राप्त कर सकी थीं, दिशाओंके अन्त उसकी क्रांतिका अवसान नहीं पा सके थे और संख्या उनकी गुणरूप सम्पदाकी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकी थी अर्थात् उसकी गुणरूप सम्पदा संरक्षाले रहित थी—अपरिमित थी ॥६६॥ समस्त प्रथिवीतलपर मनुष्योंके चित्त उसके अनुगागकी सीमा नहीं पा सके थे, कला चतुर्गई उसकी कुशलनाकी अवधि नहीं प्राप्त कर सकी थीं और शत्रु उसके प्रताप-तेजकी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सके थे ॥६७॥ इन्द्रकी सभामें जिसके उत्तम सम्यग्दर्शनकी चर्चा होती थी उस राजा श्रेणिकके गुण हमारे जैसे तुच्छ शक्तिके धारक पुरुषोंके द्वारा कैसे कहे जा सकते हैं ॥६८॥ वह राजा, उद्धट शत्रुओंपर तो वज्रदण्डके समान कठोर व्यवहार करता था और तपस्वी धनसे ससृष्ट शुगी मनुष्योंको नमस्कार करता हुआ उनके साथ वेतके समान आचरण करता था ॥६९॥ उसने अपने भुजदण्डसे ही समस्त प्रथिवीकी रक्षा की थी—नगरके चारों ओर जो कोट तथा परित्ता आदिक बन्तुएँ थीं वह केवल शोभाके लिए ही थीं ॥७०॥

राजा श्रेणिककी पत्नीका नाम चेलना था । वह शीलरूपी ब्रह्मामृषीसे सहित थी । सम्यग्दर्शनसे शुद्ध थी तथा श्रावकाचारकी जाननेवाली थी ॥७१॥ किसी एक समय, अनन्त चतुष्टय रूपी लक्ष्मीसे सम्पन्न तथा सुर और असुर जिनके चरणोंको नमस्कार करते थे ऐसे महावीर जिनेंद्र उस राजगृह नगरके समीप आये ॥७२॥ वे महावीर जिनेंद्र, जोकि दिक्कुमारियों के द्वारा शुद्ध किये हुए माताके उदरे भी मर्ति, श्रुत तथा अवधि इन तीन ब्रह्मोंसे सहित थे तथा जिन्हें उस गर्भवामके समय भी इन्द्रके समान सुख प्राप्त था ॥७३॥ जिनके जन्म लेनेके पहले और पीढ़े भी इन्द्रके आदेशसे कुबेरने उनके पिताका घर रत्नोंकी वृष्टिसे भर दिया था ॥७४॥ जिनके जन्माभिषेकके समय देवाने इन्द्रके साथ मिलकर सुमेरु पर्वतके शिखरपर बहुत सारी उत्सव किया था ॥७५॥ जिन्होंने अपने पैरके अंगूठासे अनायास ही सुमेरु पर्वतको क्रन्धितकर इन्द्रसे 'महावीर' ऐसा नाम प्राप्त किया था ॥७६॥ बालक होनेपर भी अवालकोचित कार्य करनेवाले जिग महावीर जिनेंद्रके शरीर की वृत्ति इन्द्रके द्वारा

१. कर्ति-म० । २. शत्रवः म० । ३. -नन्मद्विचेतस्य म० । ४. न मता चेतसायति (१) म० ।
 ५. एष श्रेणिकः '७०' उक्तके नास्ति ।

सुत्रामप्रहितैर्यस्य कान्तैः सुरकुमारकैः । कुमारचेष्टितैरचारविनीतैरनुसेवितम् ॥७८॥
 आनन्द. परमा वृद्धि येन सार्धमुपागत. । पित्रोर्वन्धुसमूहस्य त्रयस्य भुवनस्य च ॥७९॥
 यत्र जाते पितुः सर्वे नृपाश्चिरविरोधिनः । महाप्रभावसम्पन्ना जाता प्रणतमस्तका. ॥८०॥
 रथैर्मत्तगजेन्द्रैश्च वायुवेगैश्च वाजिभिः । प्राश्रुतद्रव्यसयुक्तैः क्रमेलककुलैस्तथा ॥८१॥
 उत्सृष्टचामरच्छत्रवाहनादिपरिच्छदैः । काञ्चनैः प्रतिसामन्तै राजेन्द्रालोकनोत्सवम् ॥८२॥
 नानादेशसमायातैर्महत्तरगणैस्तथा । पितुर्यस्यानुभावेन चुत्तोभ भवनाजिरम् ॥८३॥
 अल्पकर्मकलङ्कत्वाद्यस्य भोगेषु हारिषु । चित्त न सङ्गमायातं पयःस्त्रिव सरोरुहम् ॥८४॥
 विद्युद्विलसिताकारा ज्ञात्वा यः सर्वसपदम् । प्रवव्राज स्वयंबुद्ध. कृतलौकान्तिकागमः ॥८५॥
 सम्यग्दर्शनसम्बोधचारित्रन्नितय प्रभुः । यः समाराध्य चिच्छेद घातिकर्मचतुष्टयम् ॥८६॥
 सप्राप्य केवलज्ञान लोकालोकाववलोककम् । धर्मतीर्थं कृत येन लोकार्थं कृतिना सता ॥८७॥
 अवाप्तप्रापणीयस्य कृतनिष्ठात्मकर्मण. । भास्करस्येव यस्याभूत् परकृत्याय चेष्टितम् ॥८८॥
 मलस्वेदविनिर्मुक्त चौरसप्रभशोणितम् । स्वाकारगन्धसघात शक्त्या युक्तमनन्तया ॥८९॥
 चारुलक्षणसम्पूर्णं हितसमितं भाषणम् । अप्रमेयगुणांगार यो बभार पर वपुः ॥९०॥
 यस्मिन् विहरणप्राप्ते योजनानां शतद्वये । दुर्भिक्षपरपीडानामीतीनां च न सम्भवः ॥९१॥

अंगूठेमे सीचे हुए अमृतसे होती थी ॥७७॥ बालको जैसी चेष्टा करनेवाले, मनोहर विनयके धारक, इन्द्रके द्वारा भेजे हुए सुन्दर देवकुमार सदा जिनकी सेवा किया करते थे ॥७८॥ जिनके साथ ही साथ माता-पिताका, वन्धु-समूहका और तीनों लोकोंका आनन्द परम वृद्धिको प्राप्त हुआ था ॥७९॥ जिनके उत्पन्न होते ही पिताके चिरविरोधी प्रभावशाली समस्त राजा उनके प्रति नतमस्तक हो गये थे ॥८०॥ जिनके पिताके भवनका आँगन रथोंमे, मदनोत्त हाथियोंसे, वायुके समान वेगशाली घोड़ोंसे, उपहारके अनेक द्रव्योंसे युक्त अँटोंके समूहसे, छत्र, चमर, वाहन आदि विभूतिका त्यागकर राजाधिराज महाराजके दर्शनकी इच्छा करनेवाले अनेक मण्डलेश्वर राजाओंसे तथा नाना देशोंसे आये हुए अन्य अनेक बड़े-बड़े लोगोंसे सदा चोभको प्राप्त होता रहता था ॥८१-८३॥ जिस प्रकार कमल जलमे आसक्तिको प्राप्त नहीं होता—उससे निर्लिप्त ही रहता है उसी प्रकार जिनका चित्त कर्मरूपी कलङ्ककी मन्दतासे मनोहारी विषयोंमे आसक्तिको प्राप्त नहीं हुआ था—उससे निर्लिप्त ही रहता था ॥८४॥ जो स्वयंबुद्ध भगवान् समस्त सम्पदाको विजलीकी चमकके समान क्षणभङ्गर जानकर विरक्त हुए और जिनके दीक्षाकल्याणकमे लोकान्तिक देवोंका आगमन हुआ था ॥८५॥ जिन्होंने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनोंकी आराधनाकर चार घातिया कर्मोंका विनाश किया था ॥८६॥ जिन्होंने लोक और अलोकको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान प्राप्तकर लोक-कल्याणके लिए धर्मतीर्थका प्रवर्तन किया था, तथा स्वयं कृतकृत्य हुए थे ॥८७॥ जो प्राप्त करने योग्य समस्त पदार्थ प्राप्त कर चुके थे और करने योग्य समस्त कार्य समाप्त कर चुके थे इसीलिए जिनकी समस्त चेष्टाएँ सूर्यके समान केवल परोपकारके लिए ही होती थीं ॥८८॥ जो जन्मसे ही ऐसे उत्कृष्ट शरीरको धारण करते थे, जो कि मल तथा पसीनासे रहित था, दूधके समान सफेद जिसमें रुधिर था, जो उत्तम संस्थान, उत्तम गन्ध और उत्तम संहननसे सहित था, अनन्त बलसे युक्त था, सुन्दर-सुन्दर लक्षणोंसे पूर्ण था, हित मित वचन बोलनेवाला था और अपरिमित गुणोंका भण्डार था ॥८९-९०॥ जिनके विहार करते समय दो सौ योजन तक दुर्भिक्ष आदि दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाले कार्य तथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि ईतियोंका होना सम्भव नहीं

१. सुत्रामा—म० । २. -रिव म० । ३. उद्गृष्ट म० । ४. -मायातैः म० । ५. मता म० । ६. सध म० । ७. सम्मत म० । ८. गुणाधार म० ।

विद्यानां यः समस्तानां परमेश्वरतां गतः । विशुद्धस्फटिकच्छायां छार्यामाप न यद्वपुः ॥६२॥
 पद्मस्पन्दविनिर्मुक्ते प्रशान्ते यस्य लोचने । समा नखा महानीलस्निग्धच्छायाश्च मूर्द्धजा ॥६३॥
 मैत्री समस्तविषया विहारानुगवायुता । विहृतिश्च प्रभोर्यस्य भुवनानन्दकारणम् ॥६४॥
 सर्वर्तुफलपुष्पाणि धारयन्ति महीरुहाः । यस्मिन्नासन्नमायाते धरणी दर्पणायते ॥६५॥
 सुगन्धिमरुतो यस्य योजनान्तरभूतलम् । कुर्वते पासुपापाणकण्टकादिभिरुज्जितम् ॥६६॥
 विद्युन्मालाकृताभिर्यस्तदेव स्तनितामरैः । सुगन्धिसलिलैः सिक्तं सोत्साहैर्यस्य सादरैः ॥६७॥
 अप्रमेयमृदुत्वानि यस्य पद्मानि गच्छतः । धरण्यामुपजायन्ते यस्य व्योमविहारिणः ॥६८॥
 अत्यन्तफल्गुसम्पत्तिनम्रशाल्यादिभूषिता । धरणी जायते यस्मिन् समेते सत्यकारणम् ॥६९॥
 शरत्सरःसमाकार जायते विमल नमः । धूमकादिविनिर्मुक्ता दिशस्तु सुखदर्शनाः ॥१००॥
 स्फुरितारसहस्रेण प्रभामण्डलचारुणा । यत्पुरो धर्मचक्रेण स्थीयते जितभानुना ॥१०१॥
 अवस्थान चक्रारासौ विपुले विपुलाह्वये । नानानिर्भरनिस्त्यन्दमधुरारावहारिणि ॥१०२॥
 पुष्पोपशोभितोद्देशे लतालिङ्गितपादपे । अधित्यकासु विस्त्रब्धनिर्वैरव्यालसेविते ॥१०३॥
 नमतीव सदायानर्घूणितोदारपादपैः । हसतीव समुत्सर्पन्निर्भरामलर्णाकरैः ॥१०४॥

था ॥६१॥ जो समस्त विद्याओकी परमेश्वरताको प्राप्त थे, स्फटिकके समान निर्मल कान्तिवाला जिनका शरीर छायाको प्राप्त नहीं होता था अर्थात् जिनके शरीरकी परछाई नहीं पड़ती थी ॥६२॥ जिनके नेत्र टिसकारसे रहित अत्यन्त शान्त थे, जिनके नख और महानील मणिके समान स्निग्ध कान्तिको धारण करनेवाले बाल सदा समान थे अर्थात् वृद्धिसे रहित थे ॥६३॥ समस्त जीवोमे मैत्रीभाव रहता था, विहारके अनुकूल मन्द-मन्द वायु चलती थी, जिनका विहार समस्त संसारके आनन्दका कारण था ॥६४॥ वृक्ष सब ऋतुओंके फल-फूल धारण करते थे और जिनके पास आते ही पृथिवी दर्पणके समान आचरण करने लगती थी ॥६५॥ जिनके एक योजनके अन्तरालमे वर्तमान भूमिको सुगन्धित पवन सदा धूलि, पापाण और कण्टक आदिसे रहित करती रहती थी ॥६६॥ विजलीकी मालासे जिनकी शोभा बढ़ रही है ऐसे स्तनितकुमार—मेघ कुमार जातिके देव बड़े उत्साह और आदरके साथ उस योजनान्तरालवर्ती भूमिको सुगन्धित जलसे सींचते रहते थे ॥६७॥ जो आकाशमे विहार करते थे और विहार करते समय जिनके चरणोंके तले देव लोग अत्यन्त कोमल कमलोंकी रचना करते थे ॥६८॥ जिनके समीप आनेपर पृथिवी बहुत भारी फलोंके भारसे नम्रीभूत धान आदिके पौधोंसे विभूषित हो उठती थी तथा सब प्रकारका अन्न उसमे उत्पन्न हो जाता था ॥६९॥ आकाश शब्द ऋतुके तालावके समान निर्मल हो जाता था और दिशाएँ धूमक आदि दोषोंसे रहित होकर बड़ी सुन्दर मालूम होने लगती थी ॥१००॥ जिसमें हजार आरे देदीप्यमान हैं, जो कान्तिके समूहसे जगमगा रहा है और जिसने सूर्यको जीत लिया है ऐसा धर्मचक्र जिनके आगे स्थित रहता था ॥१०१॥

ऊपर कही हुई विशेषताओंसे सहित भगवान् वर्धमान जिनेन्द्र राजगृहके समीपवर्ती उस विशाल विपुलाचलपर अवस्थित हुए जो कि नाना निर्भरोंके मधुर शब्दसे मनोहर था, जिसका प्रत्येक स्थान फूलोंसे सुशोभित था, जिसके वृक्ष लताओंसे आलिङ्गित थे, सिंह, व्याघ्र आदि दुष्ट जीव वररहित होकर निश्चिन्ततासे जिसकी अधित्यकाओ (उपरितनभागों) पर बैठे थे, वायुसे हिलते हुए वृक्षोंसे जो ऐसा जान पड़ता था मानो नमस्कार ही कर रहा हो, ऊपर उछलते हुए भ्रनोके

१. मयनयद्वपुः म० । २. मभा क०, ख० । ३. विभूतिश्च म० । ४. यत्र म० । ५. कण्टकादिभि-
 र्जितम् म० । ६. सत क०, ख० । ७. तस्मिन् म० । ८. जिनभानुना म० । ९. यातर्घूणितादरपादपैः म० ।
 १०. निर्भरा-म० ।

कृजितैः पश्चिसघानां जल्पतीव मनोहरम् । भ्रमराणां निनादेन गायतीव मदश्रिताम् ॥१०५॥
 आलिङ्गतीव सर्वाशा. 'समीरेण सुगन्धिना । नानाधातुप्रभाजालमण्डितोत्तङ्गशृङ्गके ॥१०६॥
 गुहामुखसुखासीनं दृष्टाननमृगाधिपे । घनपादपखण्डाध स्थितयूथपतिद्विपे ॥१०७॥
 महिम्ना सर्वमाकाश सङ्घाथेव व्यवस्थिते । पर्वतेऽष्टापदे रम्ये भगवानिव नाभिज. ॥१०८॥
 तत्रास्य जगती जाता योजन परिमाणत. । नाम्ना समवपूर्वेण सरणेन प्रकीर्तिता ॥१०९॥
 आसनाभिमुखे तत्र जिने जितभवद्विपि । चुत्तोभ त्रिदशेन्द्रस्य मृगेन्द्रैरूढमासनम् ॥११०॥
 प्रभावात् कस्य मे कम्प सिंहासनमिदं गतम् । इत्यालोक्य विबुद्धोऽसौ ज्ञानेनावधिना ततः ॥१११॥
 आज्ञापयर्दनुध्यातक्षणायतं कृताञ्जलिम् । सेनापतिं यथा देवाः क्रियन्तामिति वेदिन. ॥११२॥
 जिनेन्द्रो भगवान् वीर स्थितो विपुलभूधरे । तद्वन्दनाय युष्माभि. समेतैर्गम्यतामिति ॥११३॥
 तत. शारदजीमूतमहानिचयसनिभम् । जाम्बूनदतटाघात पिङ्गकोटिमहारदम् ॥११४॥
 सुवर्णकचया युक्त कैलासमिव जङ्गमम् । सरिता रजसाब्जानां पिञ्जरीकृततोयया ॥११५॥
 मदान्धमधुपश्रेणीश्रितगण्डविराजितम् । धूलीकदम्बसवादि सौरभैर्व्याप्तविष्टपम् ॥११६॥
 कर्णतालसमासक्तसमीपालच्यशङ्खकम् । वमन्तमिव पद्माना वनान्यरुणतालुना ॥११७॥

निर्मल छींटोसे जो ऐसा जान पड़ता था मानो हँस ही रहा हो, पक्षियोंके कलरवसे ऐसा जान पड़ता था मानो मधुर भाषण ही कर रहा हो, मदनमत्त भ्रमरों की गुञ्जारसे ऐसा जान पड़ता था मानो गा ही रहा हो, सुगन्धित पवनसे जो ऐसा जान पड़ता था मानो आलिङ्गन ही कर रहा हो । जिसके ऊँचे-ऊँचे शिखर नाना धातुओंकी कान्तिके समूहसे सुशोभित थे, जिसकी गुफाओंके अग्रभागमे सुखसे बैठे हुए सिंहोंके मुख दिख रहे थे, जिसकी सघन वृक्षावलीके नीचे गजराज बैठे थे और जो अपनी महिमासे समस्त आकाशको आच्छादित कर स्थित था । जिस प्रकार अत्यन्त रमणीय कैलासपर्वतपर भगवान् वृषभदेव विराजमान हुए थे उसी प्रकार उक्त विपुलाचलपर भगवान् वर्धमान जिनेन्द्र विराजमान हुए ॥१०२-१०८॥ उस विपुलाचलपर एक योजन विस्तारवाली भूमि समवसरणके नामसे प्रसिद्ध थी ॥१०९॥ संसाररूपी शत्रुको जीतनेवाले वर्धमान जिनेन्द्र जब उस समवसरण भूमिमे सिंहासनारूढ हुए तब इन्द्रका आसन कम्पायमान हुआ ॥११०॥ इन्द्रने उसी समय विचार किया कि मेरा यह सिंहासन किसके प्रभावसे कम्पायमान हुआ है । विचार करते ही उसे अवधिज्ञानसे सब समाचार विदित हो गया ॥१११॥ इन्द्रने सेनापतिका स्मरण किया और सेनापति तत्काल ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया । इन्द्रने उसे आदेश दिया कि सब देवोंको यह समाचार मालूम कराओ कि भगवान् वर्धमान जिनेन्द्र विपुलाचलपर विराजमान हैं इसलिए आप सब लोग एकत्रित होकर उनकी वन्दनाके लिए चलिए ॥११२-११३॥ तदनन्तर इन्द्र स्वयं उस ऐरावत हाथीपर आरूढ़ होकर चला जो कि शरद्वृक्षके मेघोंके किसी बड़े समूहके समान जान पड़ता था, सुवर्णमय तटोंके आघातसे जिसकी खीसोंका अग्रभाग पीला-पीला हो रहा था, जो सुवर्णकी मालाओंसे युक्त था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो कमलों की परागसे जिसका जल पीला हो रहा है ऐसी नदीसे परिवृत कैलास गिरि ही हो । जो मदान्ध भ्रमरोंकी पंक्तिसे युक्त गण्डस्थलोंसे सुशोभित था, कदम्बके फूलोंकी परागसे मिलती-जुलती सुगन्धिसे जिसने समस्त संसारको व्याप्त कर लिया था, जिसके कानोंके समीप शङ्ख नामक आभरण दिखाई दे रहे थे, जो अपने लाल तालुसे कमलोंके वनको उगलता हुआ-सा जान पड़ता था, जो दर्पके कारण ऐसा जान पड़ता था मानो

१. समीरेणसुगन्धिना म० । २. -सीनं दृष्टानन- म० । ३. त्रिवधोऽसौ म० । ४. दनुजात म० ।
 ५. युक्तः क० । ६. सरितारसजाब्जाना पिञ्जरान्त ततो यथा—म० । (१) ७. सौरभ्य म० ।

दलन्तमिव दपेण श्वसन्तमिव शौर्यतः । मदान्मूर्च्छामिवायान्तं गुह्यन्तमिव योवनात् ॥११८॥
 स्निग्ध नखप्रदेशेषु परुष रोमगोचरे । सच्छिष्यं विनयावाप्तौ परम गुरुमानने ॥११९॥
 मृदुमूर्च्छानमत्यन्तदृढ परिचयग्रहे । दीर्घमायुषि ह्रस्वत्व दधत्तं स्कन्धबन्धने ॥१२०॥
 दरिद्रमुदरे नित्य प्रवृत्त दानवर्त्मनि । नारद कलहप्रीतौ गरुड नोगनाशने ॥१२१॥
 प्रदोषमिव राजन्त चारुनक्षत्रमालया । महाघण्टाकृताराव रक्तचामरमण्डितम् ॥१२२॥
 सिन्दूरारुणितोत्तुङ्गकुम्भकूटमनोहरम् । ^३पैरावत्त ^४समारुह्य प्रावर्तत सुराधिपः ॥१२३॥
 प्राप्तश्च सहितो देवैरारुढनिजवाहनैः । जिनेन्द्रदर्शनोत्साहोत्फुल्लाननसरोरुहैः ॥१२४॥
 कमलायुधमुख्याश्च नभश्चरजनाधिपाः । संप्राप्ताः सहपत्नीका नानालकारधारिणः ॥१२५॥
 ततस्तुष्टाव देवेन्द्रो वचसाश्चर्यमीयुषा । गुणैरवितथैर्दिव्यैरत्यन्तविमलैरिति ॥१२६॥
 त्वया नाथ जगत्सुप्त महामोहनिशागतम् । ज्ञानभास्करविम्बेन बोधित पुरुतेजसा ॥१२७॥
 नमस्ते वीतरागाय सर्वज्ञाय महात्मने । यांताय दुर्गम कूल ससारोदन्वतः परम् ॥१२८॥
 भवता सार्थवाहेन भव्यचेतनवाणिजाः । यास्यन्ति वितनुस्थान दोषचारैरलुण्ठिताः ॥१२९॥
 प्रवर्तितस्त्वया पन्था विमलः सिद्धगामिनाम् । कर्मजाल च निर्दग्ध ज्वलितध्यानबहिना ॥१३०॥

सौंस ही ले रहा हो, मदसे ऐसा प्रतीत होता था मानो मूर्च्छाको ही प्राप्त हो रहा हो और यौवनसे ऐसा विदित होता था मानो मोहित ही हो रहा हो । जिसके नखोंके प्रदेश चिकने और शरीरके रोम कठोर थे, विनयके ग्रहण करनेमें जो समीचीन शिष्यके समान जान पड़ता था, जो मुखमें परम गुरु था अर्थात् जिसका मुख बहुत विस्तृत था, जिसका मस्तक क्रोमल था, जो परिचयके ग्रहण करनेमें अत्यन्त दृढ था, जो आयुमें दीर्घता और स्कन्धमें ह्रस्वता धारण करता था अर्थात् जिसकी आयु विशाल थी और गर्दन छोटी थी, जो उदरमें दरिद्र था अर्थात् जिसका पेट कृश था, जो दानके मार्गमें सदा प्रवृत्त रहता था अर्थात् जिसके गण्डस्थलोसे सदा मद भरता रहता था, जो कलहसम्बन्धी प्रेमके धारण करनेमें नारद था अर्थात् नारदके समान कलहप्रेमी था, जो नागोका नाश करनेके लिए गरुड था, जो सुन्दर नक्षत्रमाला (सत्ताईस दानोवाली माला पक्षमें नक्षत्रोंके समूह) से प्रदोष—रात्रिके प्रारम्भके समान जान पड़ता था, जो बड़े-बड़े घण्टाओंका शब्द कर रहा था, जो लालरङ्गके चमरोसे विभूषित था और जो सिन्दूरके द्वारा लाल लाल दिखनेवाले उन्नत गण्डस्थलोके अग्रभागसे मनोहर था ॥११४-१२३॥ जिनेन्द्र भगवान्के दर्शन सम्बन्धी उत्साहसे जिनके मुखकमल विकसित हो रहे थे ऐसे समस्त देव अपने अपने वाहनोपर सवार होकर इन्द्रके साथ आ मिले ॥१२४॥ देवोंके सिवाय नाना अलंकारोंको धारण करनेवाले कमलायुध आदि विद्याधरोंके राजा भी अपनी अपनी पत्नियोंके साथ आकर एकत्रित हो गये ॥१२५॥

तदनन्तर भगवान्के वास्तविक, दिव्य तथा अत्यन्त निर्मल गुणोंके द्वारा आश्चर्यको प्राप्त हुए वचनोंसे इन्द्रने निम्नप्रकार स्तुति की ॥१२६॥ हे नाथ ! महामोह रूपी निशाके बीच सोते हुए इस समस्त जगत्को आपने अपने विशाल तेजके धारक ज्ञानरूपी सूर्यके विम्बसे जगाया है ॥१२७॥ हे भगवन् ! आप वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, महात्मा हो, और संसाररूपी समुद्रके दुर्गम अन्तिम तटको प्राप्त हुए हो अतः आपको नमस्कार हो ॥१२८॥ आप उत्तम सार्थवाह हो भव्य जीव रूपी व्यापारी आपके साथ निर्वाण धामको प्राप्त करेंगे और मार्गमें दोषरूपी चोर उन्हें नहीं छूट सकेंगे ॥१२९॥ आपने मोक्षाभिलाषियोंको निर्मल मोक्षका मार्ग

१. रामगोचरे म० । २. नागशासने म० । ३. पारावत म० । ४. समासाद्य म० । ५. -त्साह-
 फुल्ला—क०, म० । ६. सुप्ते म० । ७. यतोऽद्य म० ।

निर्वन्धूनामनाथानां दुःखाग्निपरिवर्तिनाम् । बन्धुर्नाथश्च जगतां जातोऽसि परमोदयः ॥१३१॥
 कथं कुर्यात्तव स्तोत्रं यस्यान्तपरिवर्जिताः । उपमानेन निर्मुक्ता गुण केवलिगोचरा ॥१३२॥
 इति स्तुतिं प्रयुज्यासौ विधाय च नमस्कृतम् । मूर्द्धजानुकराम्भोजमुकुलप्राप्तभूतल ॥१३३॥
 विस्मय प्राप्तवान् दृष्ट्वा स्थान तंजिनपुङ्गवम् । इति यस्य समासेन कथ्यते रूपवर्णनम् ॥१३४॥
 इन्द्रस्य पुरुपैरस्य प्राकारत्रितय कृतम् । नानावर्णमहारत्नसुवर्णमयमुत्तमम् ॥१३५॥
 प्रधानाशामुखैस्तुङ्गैर्महावार्पासमन्वितैः । चतुर्भिर्गोपुरैर्युक्तं रत्नच्छायापटावृतैः ॥१३६॥
 आवृतं तेन तत्स्थानमष्टमङ्गलकाचितम् । वचसां गोचरातीतामदधत् कामपि श्रियम् ॥१३७॥
 तत्र स्फटिकभित्तयुग्मा विभागा द्वादशाभवन् । प्रादक्षिण्यपथत्यक्तप्रदेशसमवस्थिताः ॥१३८॥
 तस्थुरेकत्र निर्गन्था गणनाथैरारधिष्ठिताः । अन्यत्र सेन्द्रपत्नीका कल्पवासिसुराङ्गना ॥१३९॥
 अपरत्रार्थिकासघो गणपालीसमन्वितः । द्योतिषा योपितोऽन्यत्र वैयन्तर्योऽपरत्र च ॥१४०॥
 एकत्र भावनस्त्रीणामन्यत्र द्योतिषा गणः । व्यन्तराणां गणोऽन्यत्र 'सहोऽन्यत्र च भावन' ॥१४१॥
 कल्पवासिन एकस्मिन्नपरत्र च मानुषाः । वैरानुभावनिर्मुक्तास्तिर्यन्चोऽन्यत्र सुस्थिताः ॥१४२॥
 ततो मगधराजोऽपि निश्चक्राम महाबल । सपत्त्सुरसघातजातविस्मयमानसः ॥१४३॥

दिखाया है और ध्यानरूपी देदीप्यमान अग्निके द्वारा कर्मोंके समूहको भस्म किया है ॥१३०॥
 जिनका कोई बन्धु नहीं और जिनका कोई नाथ नहीं ऐसे दुःख रूपी अग्निमें वर्तमान संसारके
 जीवोंके आप ही बन्धु हो, आप ही नाथ हो, तथा आप ही परम अभ्युदयके धारक हो ॥१३१॥
 हे भगवन् ! हम आपके गुणोंका स्तवन कैसे कर सकते हैं जब कि वे अनन्त हैं, उपमासे रहित
 हैं तथा केवलज्ञानियोंके विषय हैं ॥१३२॥ इस प्रकार स्तुतिकर इन्द्रने भगवान्को नमस्कार
 किया । नमस्कार करते समय उसने भस्तक, घुटने तथा दोनों हस्त रूपी कमलोंके कुड्मलोसे
 पृथिवीतलका स्पर्श किया था ॥१३३॥ वह इन्द्र भगवान्का समवसरण देखकर आश्चर्यको प्राप्त
 हुआ था इसलिए यहाँ संक्षेपसे उसका वर्णन किया जाता है ॥१३४॥

इन्द्रके आज्ञाकारी पुरुषोंने सर्वप्रथम समवसरणके तीन कोटोंकी रचना की थी जो अनेक
 वर्णके बड़े-बड़े रत्नों तथा सुवर्णसे निर्मित थे ॥१३५॥ उन कोटोंकी चारों दिशाओंमें चार गोपुर
 द्वार थे जो बहुत ही ऊँचे थे, बड़ी-बड़ी बावड़ियोंसे सुशोभित थे, तथा रत्नोंकी कान्तिरूपी
 परदासे आवृत थे ॥१३६॥ गोपुरोंका वह स्थान अष्टमङ्गल द्रव्योंसे युक्त था तथा वचनोंके
 अगोचर कोई अद्भुत शोभा धारण कर रहा था ॥१३७॥ उस समवसरणमें स्फटिककी दीवालोंसे
 बारह कोठे बने हुए थे जो प्रदक्षिणा रूपसे स्थित थे ॥१३८॥ उन कोठोंमेंसे प्रथम कोठेमें
 गणधरोसे सुशोभित मुनिराज बैठे थे, दूसरेमें इन्द्राणियोंके साथ-साथ कल्पवासी देवोंकी
 देवाङ्गनाएँ थीं, तीसरेमें गणिनियोंसे सहित आर्यिकाओंका समूह बैठा था, चौथेमें ज्योतिषी
 देवोंकी देवाङ्गनाएँ थीं, पाँचवेंमें व्यन्तर देवोंकी अंगनाएँ बैठी थीं, छठवेंमें भवनवासी
 देवोंकी अंगनाएँ बैठी थीं, सातवेंमें ज्योतिषी देव थे, आठवेंमें व्यन्तर देव थे, नौवेंमें
 भवनवासी देव थे, दशवेंमें कल्पवासी देव थे, ग्यारहवेंमें मनुष्य थे, और बारहवेंमें
 वैरभावसे रहित तिर्यञ्च सुखसे बैठे थे ॥ १३९-१४२ ॥ तदनन्तर सब ओरसे आने वाले
 देवोंके समूहसे जिसके मनमें आश्चर्य उत्पन्न हो रहा था ऐसा महाबलवान् अथवा बहुत

१. कुर्यात्तव म० । २. परिस्तुति ख० । ३. तज्जैन—म० । ४. पटैर्वृतैः म० । ५. कान्वितम् म० ।
 ६. अन्यत्रासन् सपत्नीकाः क०, ख० । ७. ज्योतिषा म० । ८. ज्योतिषा म० । ९. गणो म० ।
 १०. वैरानुभव -म० ।

दूरादेव हि सत्यज्य वाहनादिपरिच्छदम् । स्तुतिपूर्वं जिनं त्वा स्वदेशे समुपाविशत् ॥१४४॥
 अक्रूरो वारिषेणोऽथ कुमारोऽभयपूर्वकः । विजयावहनामा च तथाऽन्ये नृपसूनवः ॥१४५॥
 स्तुतिं कृत्वा प्रणेमुस्ते मस्तकन्यस्तपाणयः । उपविष्टा यथादेश दधाना विनय परम् ॥१४६॥
 वैदूर्यविटपस्याधो मृदुपल्लवशोभिः । पुष्पस्तवकभाजालव्यासाशस्य विलासिनः ॥१४७॥
 कल्पपादपरम्यस्य जनशोकापहारिणः । हरिद्वनपलाशस्य नानारत्नगिरेरिव ॥१४८॥
 अशोकपादपस्याधो निविष्टः सिंहविष्टरे । नानारत्नसमुद्योतजनितेन्द्रशरासने ॥१४९॥
 दिव्याशुकपरिच्छन्नमृदुस्पर्शमनोहरे । अमरेन्द्रशिरोरत्नप्रभोत्सर्पविघातिनि ॥१५०॥
 त्रिलोकेश्वरताचिह्नच्छत्रत्रितयराजिते । सुरपुष्पसमाकीर्णे भूमिमण्डलवर्तिनि ॥१५१॥
 यत्ताराजकरासक्तचलच्चामरचारुणि । दुन्दुभिध्वनितोद्भूतप्रशान्तप्रतिशब्दके ॥१५२॥
 गतित्रयगतप्राणिभापारूपनिवृत्तया । घनाघनघनध्वानधीरनिर्घोषया गिरा ॥१५३॥
 परभूतरविद्योत्तप्रभामण्डलमध्यगः । लोकायैत्यवदद् धर्मं पृष्टो गणभृता जिनः ॥१५४॥
 सत्तैका प्रथम तत्त्वं जीवाजीवौ ततः परम् । सिद्धाः ससारवन्तश्च जीवास्तु द्विविधाः स्मृताः ॥१५५॥

बड़ी सेनाका नायक राजा श्रेणिक भी अपने नगरसे बाहर निकला ॥१४३॥ उसने वाहन आदि राजाओके उपकरणोका दूरसे ही त्याग कर दिया, फिर समवसरणमें प्रवेश कर स्तुतिपूर्वक जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर अपना स्थान ग्रहण किया ॥ १४४ ॥ दयालु वारिषेण, अभयकुमार, विजयावह तथा अन्य राजकुमारोने भी हाथ जोड़कर मस्तकसे लगाये, स्तुति पढ़कर भगवान्को नमस्कार किया । तदनन्तर बहुत भारी विनयको धारण करते हुए वे सब अपने योग्य स्थानोपर बैठ गये ॥ १४५-१४६ ॥ भगवान् वर्धमान समवसरणमे जिस अशोक वृक्षके नीचे सिंहासनपर विराजमान थे उसकी शाखाएँ वैदूर्य (नील) मणिकी थीं, वह कोमल पल्लवोसे शोभायमान था, फूलोके गुच्छोकी कान्तिसे उसने समस्त दिशाएँ व्याप्त कर ली थी, वह अत्यन्त सुशोभित था, कल्पवृक्षके समान रमणीय था, मनुष्योंके शोकको हरनेवाला था, उसके पत्ते हरे रङ्गवाले तथा सघन थे, और वह नाना प्रकारके रत्नोसे निर्मित पर्वतके समान जान पड़ता था । उनका वह सिंहासन भी नाना रत्नोके प्रकाशसे इन्द्रधनुषको उत्पन्न कर रहा था । दिव्य वस्त्रसे आच्छादित था, कोमल स्पर्शसे मनोहारी था, इन्द्रके शिरपर लगे हुए रत्नोकी कान्तिके विस्तारको रोकनेवाला था, तीन लोककी ईश्वरताके चिह्न स्वरूप तीन छत्रोसे सुशोभित था, देवोके द्वारा वरसाये हुए फूलोसे व्याप्त था, भूमिमण्डलपर वर्तमान था, यत्ताराजके हाथोसे स्थित चञ्चल चमरोसे सुशोभित था, और दुन्दुभिवाजोके शब्दोकी शान्तिपूर्ण प्रनिध्वनि उससे निकल रही थी ॥ १४७-१५२ ॥ भगवान्की जो दिव्यध्वनि खिर रही थी वह तीन गति सम्बन्धी जीवोकी भाषा रूप परिणमन कर रही थी तथा मेघोकी सान्द्र गर्जनाके समान उसकी बुलन्द आवाज थी ॥ १५३ ॥ वहाँ सूर्यके प्रकाशको तिरस्कृत करनेवाले प्रभामण्डलके मध्यमे भगवान् विराजमान थे । गणधरके द्वारा प्रश्न किये जानेपर उन्होने लोगोके लिए निम्नप्रकारसे धर्मका उपदेश दिया था ॥ १५४ ॥

उन्होने कहा था कि सबसे पहले एक सत्ता ही तत्त्व है, उसके बाद जीव और अजीवके भेदसे तत्त्व दो प्रकारका है । उनमे भी जीवके सिद्ध और संसारीके भेदसे दो भेद माने गये हैं ॥१५५॥ इनके सिवाय जीवोके भव्य और अभव्य इस प्रकार दो भेद और भी हैं । जिस

१. विजयावहनामा च तथाऽन्यनृपसूनवः म० । २. प्रणामं च म० । ३. जनितेन्द्रायुधोद्गमे म० ।
 ४. परिच्छन्ने म० । ५. सर्पि म० । ६. जीवाश्च म० ।

पाक्यापाक्यतया मापसस्यवत्प्रविभागतः । सेत्स्यन्तो गदिता भव्या अभव्यास्तु ततोऽन्यथा ॥१५६॥
 भव्याभव्यद्वयेनात्र जीवार्थः परिकीर्तितः । धर्माधर्मादिभिर्भेदैर्द्वितीयो भिद्यते पुनः ॥१५७॥
 जिनदेशिततत्त्वानां श्रद्धाश्रद्धानमेतयोः । लक्षण तत्प्रभेदाश्च पुनरेकेन्द्रियादयः ॥१५८॥
 गत्या कायैस्तथा योगैर्वैदेल्लेश्याकपायतः । ज्ञानदर्शनचारित्र्यैर्गुणश्रेण्यधिरोहणैः ॥१५९॥
 निसर्गशास्त्रसम्यक्त्वैर्नामादिन्यासभेदतः । सदाद्यष्टानुयोगैश्च भिद्यते चेतनः पुनः ॥१६०॥
 तत्र ससारिजीवानां केवल दुःखत्रेदिनाम् । सुख सञ्जावमूढानां तत्रैव विपयोद्भवे ॥१६१॥
 चक्षुषः पुटसक्रोचो यावन्मात्रेण जायते । तावन्तमपि नो काल नारकाणां सुखासनम् ॥१६२॥
 दमनैस्ताडनैर्दोहैर्वाहादिभिरुपद्रवैः । तिरश्चां सतत दुःख तथा शीतातपादिभि ॥१६३॥
 प्रियाणां विप्रयोगेन तथानिष्टसमागमात् । ईप्सितानामलाभाच्च दुःख मानुषगोचरम् ॥१६४॥
 यथोत्कृष्टसुराणां च द्रव्या भोग महागुणम् । च्यवनाच्च पर दुःख देवानामुपजायते ॥१६५॥
 धनदुःखावबद्धेषु चतुर्गतिगतेष्विति । कर्मभूमि समासाद्य धर्मोपार्जनमुत्तमम् ॥१६६॥
 मनुष्यभावमासाद्य सुकृत ये न कुर्वते । तेषां करतलप्राप्तममृत नाशमागतम् ॥१६७॥
 ससारैः पर्यटन्नेप बहुयोनिसमाकुले । मनुष्यभावमायाति चिरेणात्यन्तदुःखतः १६८॥

प्रकार उड़द आदि अनाजमे कुछ तो ऐसे होते हैं जो पक जाते हैं—सीम जाते हैं और कुछ, ऐसे होते हैं कि जो प्रयत्न करनेपर भी नहीं पकते हैं—नहीं सीमते हैं। उसी प्रकार जीवोंमें भी कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो-कर्म नष्ट कर सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रयत्न करनेपर भी सिद्ध अवस्थाको प्राप्त नहीं हो सकते। जो सिद्ध हो सकते हैं वे भव्य कहलाते हैं और जो सिद्ध नहीं हो सकते हैं वे अभव्य कहलाते हैं। इस तरह भव्य और अभव्यकी अपेक्षा जीव दो तरहके हैं और अजीव तत्त्वके धर्म अधर्म आकाश काल तथा पुद्गलके भेदसे पाँच भेद हैं ॥१५६-१५७॥ जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए तत्त्वोका श्रद्धान होना भव्योका लक्षण है और उनका श्रद्धान नहीं होना अभव्योका लक्षण है। एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय ये भव्य तथा अभव्य जीवोके उत्तर भेद हैं ॥१५८॥ गति, क्राय, योग, वेद, लेश्या, कपाय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, गुणस्थान, निसर्गज एवं अधिगमज, सम्यग्दर्शन, नामादि निक्षेप और सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव तथा अल्प बहुत्व इन आठ अनुयोगोके द्वारा जीव-तत्त्वके अनेक भेद होते हैं ॥१५९-१६०॥ सिद्ध और ससारी इन दो प्रकारके जीवोंमें संसारी जीव केवल दुःखका ही अनुभव करते रहते हैं। पञ्चेन्द्रियोके विपयोसे जो सुख होता है उन्हें संसारी जीव भ्रमवश सुख मान लेते हैं ॥१६१॥ जितनी देरमें नेत्रका पलक भ्रमता है उतनी देरके लिए भी नारकियोको सुख नहीं होता ॥१६२॥ दमन, ताडन, दोहन, वाहन आदि उपद्रवोसे तथा शीत घाम वर्षा आदिके कारण तिर्यञ्चोको निरन्तर दुःख होता रहता है ॥१६३॥ प्रियजनोके वियोगसे, अनिष्ट वस्तुओंके समागमसे तथा इच्छित पदार्थोंके न मिलनेसे मनुष्य गतिमें भारी दुःख है ॥१६४॥ अपनेसे उत्कृष्ट देवोंके बहुत भारी भोगोको देखकर तथा वहाँसे च्युत होनेके कारण देवोंको दुःख उत्पन्न होता है ॥१६५॥ इस प्रकार जब चारो गतियोके जीव बहुत अधिक दुःखसे पीड़ित हैं तब कर्मभूमि पाकर धर्मका उपार्जन करना उत्तम है ॥१६६॥ जो मनुष्य भव पाकर भी धर्म नहीं करते हैं मानो उनकी हथेलीपर आया अमृत नष्ट हो जाता है ॥१६७॥ अनेक योनियोसे भरे इस संसारमें परिभ्रमण

१. पाक्यापाक्यतया मापसस्यवत्प्रविभागतः । भव्याभव्यद्वयेनात्र जीवार्थः परिकीर्तितः ॥१५६॥
 धर्माधर्मादिभिर्भेदैर्द्वितीयो भिद्यते पुनः । सेत्स्यन्तो गदिता भव्या अभव्यास्तु ततोऽन्यथा ॥१५७॥ म० ।
 २. भावानां क० । ३. दैह ल० । ४. तत्र दुःखावबद्धेषु म० । ५. मानुष्यभावे ल० । ६. ससारं पर्यटन्
 जन्तुर्वह्योनिसमाकुलम् म० ।

तत्र लब्धेषु पापेषु शबरादिषु जायते । आर्यदेशेषु सप्राप्ते दुःकुलेषूपजायते ॥१६६॥
 लब्धेषु सुकुले काणकुण्डादितनुसभवः । सपूर्णकायबन्धेषु दुर्लभा^३ हीनरोगता ॥१७०॥
 एव सर्वमपि प्राप्य प्रशस्तानां समागमम् । दुर्लभो धर्मसवेगो विपयास्वादलोभतः ॥१७१॥
 ततः केचिद् भृतिं कृत्वा जठरस्यापि पूरणम् । कुर्वतेऽत्यन्तदुःखेन दूरतो विभवोद्भवः ॥१७२॥
 रक्तकर्मवीभत्सशस्त्रसपातभीषणम् । केचिद् विशन्ति संग्राम जिह्वाकामवशीकृताः ॥१७३॥
 समस्तजन्तुसबाध कृत्वाऽन्ये भूमिकर्षणम् । कुटुम्बभरण क्लेशात् कुर्वते^५ नृपपीडिताः ॥१७४॥
 एव यद्यत्प्रकुर्वन्ति कर्म सौख्याभिलाषिणः । तत्र तत्र प्रपद्यन्ते जन्तवो दुःखमुत्तमम् ॥१७५॥
 अवाप्यापि धन क्लेशान्चोराग्निजलराजतः । पालयन् परम दुःखमवाप्नोत्याकुलः सदा ॥१७६॥
 सप्राप्त रक्षित द्रव्य भुञ्जानस्यापि नो शमः । प्रतिवासरसवृद्धगर्द्वाग्निर्परिवर्तनात् ॥१७७॥
 प्राप्नोति धर्मसवेग कथञ्चित् पूर्वकर्मतः । ससारपदवामेव नीयतेऽन्यैर्दुरात्मभिः ॥१७८॥
 अन्यैस्ते नाशिताः सन्तो नाशयन्त्यपरान् जनान् । धर्मसामान्यशब्देन सेवमानाः परस्पराम् ॥१७९॥
 कथ चेतोविशुद्धिः स्यात् परिग्रहवतां सताम् । चेतोविशुद्धिमूर्त्ता च तेषां धर्म स्थितिः कुतः ॥१८०॥

करता हुआ यह जीव बहुत समयके बाद बड़े दुःखसे मनुष्य भवको प्राप्त होता है ॥१६८॥ उस मनुष्य भवमें यह जीव अधिकांश लोभी तथा पाप करनेवाले शबर आदि नीच पुरुषों में ही जन्म लेता है । यदि कदाचित् आर्य देश प्राप्त होता है तो वहाँ भी नीच कुलमें ही उत्पन्न होता है ॥१६९॥ यदि भाग्य वश उच्च कुल भी मिलता है तो काना लूला आदि शरीर प्राप्त होता है । यदि कदाचित् शरीरकी पूर्णता होती है तो नीरोगताका होना अत्यन्त दुर्लभ रहता है ॥१७०॥ इस तरह यदि कदाचित् समस्त उत्तम वस्तुओंका समागम भी हो जाता है तो विपयोंके आस्वादाका लोभ रहनेसे धर्मानुराग दुर्लभ ही रहा आता है ॥१७१॥ इस संसारमें कितने ही लोग ऐसे हैं जो दूसरोंकी नौकरीकर बहुत भारी कष्टसे पेट भर पाते हैं उन्हें वैभवकी प्राप्ति होना तो दूर रहा ॥१७२॥ कितने ही लोग जिह्वा और काम इन्द्रियके वशीभूत होकर ऐसे संग्राम में प्रवेश करते हैं जो कि रक्तकी कीचड़से घृणित तथा शस्त्रोंकी वर्षासे भयंकर होता है ॥१७३॥ कितने ही लोग अनेक जीवोंको बाधा पहुँचानेवाली भूमि जोतनेकी आजीविका कर बड़े क्लेशसे अपने कुटुम्बका पालन करते हैं और उतनेपर भी राजाओंकी ओरसे निरन्तर पीड़ित रहते हैं ॥१७४॥ इस तरह सुखकी इच्छा रखनेवाले जीव जो कार्य करते हैं वे उसी में बहुत भारी दुःखको प्राप्त करते हैं ॥१७५॥ यदि किसी तरह कष्टसे धन मिल भी जाता है तो चोर, अग्नि, जल और राजासे उसकी रक्षा करता हुआ यह प्राणी बहुत दुःख पाता है और उससे सदा व्याकुल रहता है ॥१७६॥ यदि प्राप्त हुआ धन सुरक्षित भी रहता है तो उसे भोगते हुए इस प्राणीको कभी शान्ति नहीं होती क्योंकि उसकी लालसा रूपी अग्नि प्रति दिन बढ़ती रहती है ॥१७७॥ यदि किसी तरह पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके उदयसे धर्म भावनाको प्राप्त होता भी है तो अन्य दुष्टजनो के द्वारा पुनः उसी संसारके मार्गमें ला दिया जाता है ॥१७८॥ अन्य पुरुषोंके द्वारा नष्ट हुए सत्पुरुष अन्य लोगोंको भी नष्ट कर देते हैं—पथ भ्रष्ट कर देते हैं और धर्मसामान्यकी अपेक्षा केवल रुढिका ही पालन करते हैं ॥१७९॥ परिग्रही मनुष्योंके चित्तमें विशुद्धता कैसे हो सकती है और जिसमें चित्तकी विशुद्धता ही मूल कारण है ऐसी धर्मकी स्थिति उन परिग्रही मनुष्योंमें

१. लब्धेषु म० । २. हि निरोगता ख०, म० । ३. दुर्लभं क० । ४. अनन्त म० । ५. कुर्वन्ति म० । ६. गर्भाग्नि म० । ७. परंपरम् क० । परस्परम् म० । ८. मूलाच्च म० ।

यावत्परिग्रहासक्तिस्तावत्प्राणिनिपीडनम् । हिंसातः समृतेर्मूलं दुःखं ससारसङ्गम् ॥१८१॥
 परिग्रहपरिव्रज्याद् द्वेषो रागश्च जायते । रागद्वेषौ च ससारं दुःखस्योत्तमकारणम् ॥१८२॥
 लब्धापि दर्शनं सम्यक् प्रशमादर्शनावृते । चारित्रं न प्रपद्यन्ते चारित्रावरणावृताः ॥१८३॥
 चारित्रमपि सप्राप्ताः कुर्वन्तः परमं तपः । परीपहे पुनर्भङ्गं नीयन्ते दुःखविक्रमैः ॥१८४॥
 अणुव्रतानि सेवन्ते केचिद् भङ्गमुपागताः । केचिद्दर्शनमात्रेण भवन्ति परितोषिणः ॥१८५॥
 केचिद् गम्भीरससाररूपहस्तावलम्बनम् । सम्यादर्शनमुत्सृज्य मिथ्यादृष्टिमुपासते ॥१८६॥
 मिथ्यादर्शनसयुक्तास्ते पुनर्भवसकटे । भ्राम्यन्ति सततं जीवा दुःखाग्निपरिवर्तिनः ॥१८७॥
 केचित्तु पुण्यकर्मणाश्चारित्रमवलम्बितम् । निर्वहन्ति महाशूरा यावत्प्राणविवर्जनम् ॥१८८॥
 ते समाधि समासाद्य कृत्वा देहविसर्जनम् । वासुदेवादिनां यान्ति निदानकृतदोषतः ॥१८९॥
 ते पुनः परपीडाया रताः निर्दयचेतसः । नरकेषु महादुःखं प्राप्नुवन्ति सुदुस्तरम् ॥१९०॥
 केचित्तु सुतपः कृत्वा यान्ति गीर्वाणनाथताम् । अपरे बलदेवत्वमन्येऽनुत्तरवासिताम् ॥१९१॥
 केचित्प्राप्य महासत्त्वा जिनकर्माणि षोडश । तीर्थकृत्वा प्रपद्यन्ते त्रैलोक्यज्ञोभकारणम् ॥१९२॥
 केचिन्निरन्तरायेण त्रितयाराधने रताः । द्वित्रैर्भवेर्विसुच्यन्ते कर्माष्टककलङ्कतः ॥१९३॥
 सप्राप्ताः परमं स्थानं मुक्तानामुपमोज्ज्वलितम् । अनन्तं निःप्रतिद्वन्द्वं लभन्ते सुखमुत्तमम् ॥१९४॥

कर्हासे हो सकर्ता है ॥१८०॥ जब तक परिग्रहमें आसक्ति है तब तक प्राणियोंकी हिंसा होना निश्चित है । हिंसा ही संसारका मूल कारण है और दुःखको ही संसार कहते हैं ॥१८१॥ परिग्रहके सम्बन्धसे राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं तथा राग और द्वेष ही संसार सम्बन्धी दुःखके प्रबल कारण हैं ॥१८२॥ दर्शनमोह कर्मका उपशम होनेसे कितने ही प्राणी यद्यपि सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तथापि चारित्र मोहके आवरणसे आवृत रहनेके कारण वे सम्यक् चारित्रको प्राप्त नहीं कर सकते ॥१८३॥ कितने ही लोग सम्यक् चारित्रको पाकर श्रेष्ठ तप भी करते हैं परन्तु दुःखदायी परिपहोंके निमित्तसे भ्रष्ट हो जाते हैं ॥१८४॥ परिपहोंके निमित्तसे भ्रष्ट हुए कितने ही लोग अणुव्रतोंका सेवन करते हैं और कितने ही केवल सम्यग्दर्शनसे सन्तुष्ट रह जाते हैं अर्थात् किसी प्रकारका व्रत नहीं पालते हैं ॥१८५॥ कितने ही लोग संसार रूपी गहरे कुण्ठसे हस्तावलम्बन देकर, निकालनेवाले सम्यग्दर्शनको छोड़कर फिरसे मिथ्यादर्शनकी सेवा करने लगते हैं ॥१८६॥ तथा ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव निरन्तर दुःख रूपी अग्निके बीच रहते हुए संकटपूर्ण संसारमें भ्रमण करते रहते हैं ॥१८७॥ कितने ही ऐसे महाशूरवीर पुण्यात्मा जीव हैं जो ग्रहण किये हुए चारित्रको जीवन पर्यन्त धारण करते हैं ॥१८८॥ और समाधिपूर्वक शरीर त्यागकर निदानके दोषसे नारायण आदि पदको प्राप्त होते हैं ॥१८९॥ जो नारायण होते हैं वे दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेमें तत्पर रहते हैं तथा उनका चित्त निर्दय रहता है इसलिए वे मरकर नियमसे नरकोंमें भारी दुःख भोगते हैं ॥१९०॥ कितने ही लोग सुतप करके इन्द्र पदको प्राप्त होते हैं । कितने ही बलदेव पदवी पाते हैं और कितने ही अनुत्तर विमानोमें निवास प्राप्त करते हैं ॥१९१॥ कितने ही महाधैर्यवान् मनुष्य षोडश कारण भावनाओंका चिन्तन कर तीनों लोकोंमें ज्ञोभ उत्पन्न करनेवाले तीर्थकर पद प्राप्त करते हैं ॥१९२॥ और कितने ही लोग निरन्तराय रूपसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक् चारित्रकी आराधनामें तत्पर रहते हुए दो तीन भवमें ही अष्ट कर्म रूप कलंकसे मुक्त हो जाते हैं ॥१९३॥ वे फिर मुक्त जीवोंके उत्कृष्ट एवं निरुपम स्थानको पाकर अनन्त काल तक निर्वाह उत्तम सुखका उपभोग करते हैं ॥१९४॥

१. निपीडना क० । २. हिंसा च म० । ३. ससारदुःखस्योत्पत्तिकारणम् म० । ४. नीयते म० ।
 ५. दुरतिक्रमेः म० । ६. विसर्जनम् म० । ७. मन्ये उत्तरवासिताम् म० ।

ततस्ते निर्गत धर्मं जिनवक्त्रारविन्दतः । श्रुत्वा हर्षं परं जग्मुस्तिर्यक्त्रिदशमानवाः ॥१६५॥
 अणुवतानि संप्राप्ताः केचित् केचिन्निरम्बरम् । तपश्चरितुमारब्धाः संसारोद्विग्नमानसाः ॥१६६॥
 सम्यग्दर्शनमायाताः केचित् केचित्त्रगन्धितः । विरतिं जगृहुः पापसमुपार्जनकर्मणः ॥१६७॥
 श्रुत्वा धर्मं जिनं स्तुत्वा प्रणम्य च यथाविधि । धर्मसुस्थितचित्तास्ते याताः स्थानं यथायथम् ॥१६८॥
 श्रेणिकोऽपि महाराजो राजमानो नृपश्रिया । वर्णश्रवणहृष्टात्मा प्रविवेश निजं पुरम् ॥१६९॥
 अथ तीर्थं करोडारतेजोमण्डलदर्शनात् । विलम्बं इव तिमगाशुरं विधमैच्छन्निपेवितुम् ॥२००॥
 अस्ताचलसर्मापस्यैः सरोरुहरुचामिव । मर्णाणां किरणैश्छन्नो जगामात्यन्तशोणताम् ॥२०१॥
 अमन्दायन्त किरणा नित्यमस्यानुयायिनः । कस्य वा तेजसो वृद्धिः स्वामिन्यापद्रमागते ॥२०२॥
 ततो विलोचनैः साखैरीक्षितः कोकयोपिताम् । अदर्शनं ययौ मन्दं कृपयेव विगोचनः ॥२०३॥
 धर्मश्रवणतो मुक्तो यो राग प्राणिना गणैः । मन्ध्याच्छलेन तेनैव ककुभा चक्रमाश्रितम् ॥२०४॥
 उपकारे प्रवृत्तोऽप्यमस्मास्वप्रार्थित परम् । इतीव चक्षुर्लोकस्य मित्रेणैव सम गतम् ॥२०५॥
 ब्रजतो दिननाथस्य राग प्रलयगामिनम् । संकुचन्त्यरविन्दानि कवलैरिव गृहते ॥२०६॥
 सर्माकृतततोत्तुङ्ग निरूपणविवर्जितम् । तमः प्रकटतामार दुर्जनस्येव चेष्टितम् ॥२०७॥

इस प्रकार जितेन्द्र भगवान्के मुखारविन्दसे निकले हुए धर्मको सुनकर मनुष्य तिर्यञ्च तथा देव तीनों गतिके जीव परम हर्षको प्राप्त हुए ॥१६५॥ धर्मोपदेश सुनकर कितने ही लोगोंने अणुवत धारण किये और ससारसे भयभीत चित्त होकर कितने ही लोगोंने दिगम्बर दीक्षा धारण की ॥१६६॥ कितने ही लोगोंने केवल सम्यग्दर्शन ही धारण किया और कितने ही लोगोंने अपनी शक्तिके अनुसार पाप कार्योंका त्याग किया ॥१६७॥ इस तरह धर्म श्रवणकर सबने श्रीवर्धमान जितेन्द्रको स्तुतिकर उन्हें विधिपूर्वक नमस्कार किया और तदनन्तर धर्मसे चित्त लगाते हुए सब यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥१६८॥ धर्म श्रवण करनेसे जिसकी आत्मा हर्षित हो रही थी ऐसे महाराज श्रेणिकने भी राजलक्ष्मीसे सुशोभित होते हुए अपने नगरमें प्रवेश किया ॥१६९॥

तदनन्तर सूर्यने पश्चिम समुद्रमें अवगाहन करनेकी इच्छा की सो ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्के उत्कृष्ट तेज पुञ्जको देखकर वह इतना अधिक लज्जित हो गया था कि समुद्रमें डूबकर आत्मघात ही करना चाहता था ॥२००॥ सन्ध्याके समय सूर्य अस्ताचलके सर्माप पंचकर अत्यन्त लालिमाको धारण करने लगा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो पद्मराग मणियोंकी किरणोंसे आच्छादित हो कर ही लालिमा धारण करने लगा था ॥२०१॥ निरन्तर सूर्यका अनुगमन करने वाली किरणें भी मन्द पड़ गईं सो ठीक ही है क्योंकि स्वामीके विपत्तिग्रस्त रहते हुए किसके तेजकी वृद्धि हो सकती है ? अर्थात् किसीके नहीं ॥२०२॥ तदनन्तर चक्रवियोंने अश्रु भरे नेत्रोंसे सूर्यको ओर देखा इसलिए उनपर दया करनेके कारण ही मानो वह धीरे-धीरे अदृश्य हुआ था ॥२०३॥ धर्म श्रवण करनेसे प्राणियोंने जो राग छोड़ा था सन्ध्याके छलसे मानो उसीने दिशाओंके मण्डलको आच्छादित कर लिया था ॥२०४॥ जिस प्रकार मित्र विना प्रार्थना किये ही लोगोके उपकार करनेमें प्रवृत्त होता है उसी प्रकार सूर्य भी विना प्रार्थना किये ही हम लोगोके उपकार करनेमें प्रवृत्त रहता है इसलिए सूर्यका अन्त हो रहा है मानो मित्र ही अस्त हो रहा है ॥२०५॥ उस समय कमल संकुचित हो रहे थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो अस्तंगामी सूर्यके प्रलयोन्मुख राग (लालिमा) को ग्रास बना-बनाकर ग्रहण ही कर रहे थे ॥२०६॥ जिसने चिन्तार और ऊँचाईको एक रूपमें परिणत कर दिया था, तथा जिसका निरूपण नहीं किया जा

१. कर्मतः म० । २. तमैच्छन्नि -म० । ३. सर्मापस्यसरोरुह म० । ४. मित्रेणैव सुमङ्गलम् ख० ।
 ५. ततः म० ।

विदधे सान्ध्यसुद्योत सकल बहलं तम । पटलं धूमसम्बन्धि प्रशाम्यन्तमिवानलम् ॥२०८॥
 चम्पकचारकाकारप्रदीपप्रकरोऽगमत् । कम्पितो मन्द्रवातेन यामिनीकर्णपूरताम् ॥२०९॥
 वृषा रसेन पद्मानां धूतपद्मा मृणालकैः । कृत्वा कण्ठयन निद्रा राजहसा' सिपेविरे ॥२१०॥
 धम्मिल्लमल्लिकावन्धग्राही सायन्तनो मरुत् । वातु प्रववृते मन्द निशानि श्वाससनिभः ॥२११॥
 उच्चकेसरकोटीनां संकटेपु कटम्बकैः । कुण्डेशयकुटीरेषु शिरये पद्पदसहतिः ॥२१२॥
 नितान्तविमलैश्चक्रे रम्य तारागणैर्नभः । त्रैलोक्य जिननाथस्य सुभाषितचयैरिव ॥२१३॥
 तमोऽथ विमलैर्भिन्नं शशाङ्ककिरणाङ्कुरैः । एकान्तवादिनां वाक्य नयैरिव जिनोदितैः ॥२१४॥
 उज्जगाम च शीताशुलोकनेत्राभिनन्दित । वपुर्विभ्रत् कृताम्कैप ध्वान्तकोपादिवारुणम् ॥२१५॥
 चन्द्रालोके ततो लोकैः करग्राह्यत्वमागते । आरेभे तमसा खिन्न' क्षीरोदाङ्क इवासितुम् ॥२१६॥
 आमृष्टानि करैरिन्द्रोर्वहन्यामोऽमुत्तमम् । सहसातोव यातानि कुमुदानि विकासिताम् ॥२१७॥
 इति स्पष्टे समुद्भूते प्रदोषे जनसौख्यदे । प्रवृत्तजम्पतिप्रीतिप्रवृद्धसमदोत्सवे ॥२१८॥
 तरङ्गभङ्गुराकारगङ्गापुलिनसन्निभे । रत्नछायापरिष्वक्तनिःशेषमैत्रनोदरे ॥२१९॥

सकता था ऐसा अन्धकार प्रकटताको प्राप्त हुआ । जिस प्रकार दुर्जनकी चेष्टा उच्च और नीचको एक समान करती है तथा विषमताके कारण उसका निरूपण करना कठिन होता है उसी प्रकार वह अन्धकार भी ऊँचे नीचे प्रदेशोंको एक समान कर रहा था और विषमताके कारण उसका निरूपण करना भी कठिन था ॥२०७॥ जिस प्रकार धूमका पटल बुझती हुई अग्निको आच्छादित कर लेता है उसी प्रकार बढ़ते हुए समस्त अन्धकारने सन्ध्यासम्बन्धी अरुणप्रकाशको आच्छादित कर लिया था ॥२०८॥ चम्पाकी कलियोंके आकारको धारण करनेवाला दीपकोका समूह वायुके मन्द-मन्द झोंकेसे हिलता हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि रूपी स्त्रीके कर्णफूलोंका समूह ही हो ॥२०९॥ जो कमलोंका रस पीकर वृष हो रहे थे तथा मृणालके द्वारा खुजलीकर अपने पङ्क फड़फड़ा रहे थे ऐसे राजहंस पक्षी निद्राका सेवन करने लगे ॥२१०॥ जो स्त्रियोंको चोटियोंमे गुथी मालतीकी मालाओंको हरण कर रही थी ऐसी सन्ध्या समयकी वायु रात्रि रूपी स्त्रीके श्वासोच्छ्वासके समान धीरे-धीरे बहने लगी ॥२११॥ ऊँची उठी हुई केशरकी कणिकाओंके समूहसे जिनकी संकीर्णता बढ़ रही थी ऐसी कमलकी कोटरोंमे भ्रमरोंके समूह सोने लगे ॥२१२॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्के अत्यन्त निर्मल उपदेशोंके समूहसे तीनों लोक रमणीय हो जाते हैं उसी प्रकार अत्यन्त उज्ज्वल ताराओंके समूहसे आकाश रमणीय हो गया था ॥२१३॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए नयसे एकान्तवादियोंके वचन खण्ड-खण्ड हो जाते हैं उसी प्रकार चन्द्रमाकी निर्मल किरणोंके प्रादुर्भावसे अन्धकार खण्ड-खण्ड हो गया था ॥२१४॥ तदनन्तर लोगोंके नेत्रोंने जिसका अभिनन्दन किया था और जो अन्धकारके ऊपर क्रोध धारण करनेके कारण ही मानो कुछ-कुछ कौपते हुए लाल शरीरको धारण कर रहा था ऐसे चन्द्रमाका उदय हुआ ॥२१५॥ जब चन्द्रमाकी उज्ज्वल चोंढनी सब ओर फैल गई तब यह संसार ऐसा जान पड़ने लगा मानो अन्धकारसे खिन्न होकर क्षीरोदमुद्रकी गोदमें ही बैठनेकी तैयारी कर रहा हो ॥२१६॥ सहसा कुमुद फूल उठे सो वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चन्द्रमाकी किरणोंका स्पर्श पाकर ही बहुत भारी आमोद—हर्ष (पक्षमे गन्ध) को धारण कर रहे थे ॥२१७॥ इस प्रकार स्त्री-पुरुषोंकी प्रीतिसे जिसमे अनेक समद—उत्सवोंकी वृद्धि हो रही थी और जो जन समुदायको सुख देने वाला था ऐसा प्रदोष काल जब स्पष्ट रूपसे प्रकट हो चुका तब राजकार्य निपटाकर जिनेन्द्र भगवान्की कथा करता हुआ श्रेणिक राजा उस शय्यापर सुखसे सो गया जो कि तरङ्गोंके

१. विदधे ख०, म० । २. चम्पकः कारिकाकार-म० । ३. कम्प-म० । ४. लोककप्राह्यत्व म० ।
 ५. मदनात्सवे म० । ६. भुवनोदरे म० ।

गवाक्षमुखनिर्यातकुसुमोत्तमसौरभे । पार्श्वस्थ वारवनिताकलगीतमनोरभे ॥२२०॥
 ज्वलन्नातिसर्मापस्थस्फटिकच्छन्नदीपके । अप्रमत्तशिरोरक्षिगणकल्पितरक्षणे ॥२२१॥
 प्रमूनप्रकरावाप्तमण्डनचमातलस्थिते । उपधाङ्गसुविन्यस्तसुकुमारोपधानके ॥२२२॥
 जिनेशपादपूताशाकृतमस्तकधामनि । प्रतिपादकविन्यस्ततनुविस्तीर्णपट्टके ॥२२३॥
 विधाय भूभुजः कृत्य कृतजैनेन्द्रसकथः । शयनीये सुख शिश्ये कुशाग्रनगराधिपः ॥२२४॥
 जिनेन्द्रमेव चापश्यत् स्वप्नोऽपि च पुनः पुनः । पर्यपृच्छच्च सदेह पपाठ च जिर्नोदितम् ॥२२५॥
 ततो मदकलेभेन्द्रनिद्राविद्रावकारिणा । गेहकक्षातिगम्भीरगुहागोचरगामिना ॥२२६॥
 महाजलदसघातधीरघोषणैहारिणा । प्रभाततूर्यवादेन विबुद्धो मगधाधिपः ॥२२७॥
 अचिन्तयच्च वीरेण भापित धर्महेतुकम् । चक्रवर्त्यादिवीराणां सभव प्रणिधानतः ॥२२८॥
 अथास्य चरिते पद्मसम्बन्धिनि गत मनः । संदेह इव चेत्यासीद्रक्षःसु प्लवगेषु च ॥२२९॥
 कथ जिनेन्द्रधर्मेण जाताः सन्तो नरोत्तमाः । महाकुलीना विद्याद्योतितमानसाः ॥२३०॥
 श्रूयन्ते लौकिके ग्रन्थे राक्षसा रावणादयः । वसाशोणितमांसादिपानभक्षणकारिणः ॥२३१॥
 रावणस्य किल भ्राता कुम्भकर्णो महाबलः । घोरनिद्रापरीतः पण्मासान् शेते निरन्तरम् ॥२३२॥
 मत्तैरपि गजैस्तस्य क्रियते मर्दनं यदि । तप्ततैलकटाहैश्च पूर्येते श्रवणौ यदि ॥२३३॥
 भेरीशङ्खनिनादोऽपि^१ सुमहानपि जन्यते । तथापि किल नायाति कालेऽपूर्णे विबुद्धताम् ॥२३४॥
 क्षुत्तृष्णाव्याकुलश्रासौ विबुद्धः सन्महोदरः । भक्षयत्यग्रतो दृष्ट्वा हस्त्यादीनपि दुर्द्धरः ॥२३५॥

कारण क्षत-विक्षत हुए गङ्गाके पुलिनके समान जान पड़ती थी । जड़े हुए रत्नों की कान्तिसे जिसने महलके समस्त मध्यभागको आलिङ्गित कर दिया था, जिसके फूलों की उत्तम सुगन्धि, झरोखों से बाहर निकल रही थी, पासमें बैठी वेश्याओं के मधुरगानसे जो मनोहर थी, जिसके पास ही स्फटिकमणिनिर्मित आवरणसे आच्छादित दीपक जल रहा था, अंगरक्षक लोग प्रमाद छोड़कर जिसकी रक्षा कर रहे थे, जो फूलों के समूहसे सुशोभित पृथिवीतलपर विछी हुई थी, जिसपर कोमल तकिया रखा हुआ था, जिनेन्द्र भगवान् के चरण कमलों से पवित्र दिशाकी ओर जिसका शिरहाना था, तथा जिसके प्रत्येक पायेपर सूक्ष्म किन्तु विस्तृत पट्ट विछे हुए थे ॥२१८-२२४॥ राजा श्रेणिक स्वप्नमें भी वार-वार जिनेन्द्र भगवान् के दर्शन करता था, वार-वार उन्हींसे संशयकी बात पूछता था और उन्हींके द्वारा कथित तत्त्वका पाठ करता था ॥२२५॥

तदनन्तर—मदोन्मत्त गजराजकी निन्द्राको दूर करनेवाले, महलकी कक्षाओं रूपी गुफाओं में गूँजनेवाले एवं बड़े-बड़े मेघों की गम्भीर गर्जनाको हरनेवाले प्रातःकालीन तुरहीके शब्द सुनकर राजा श्रेणिक जागृत हुआ ॥ २२६-२२७ ॥ जागते ही उसने भगवान् महावीरके द्वारा भापित, चक्रवर्ती आदि वीर पुरुषों के धर्मवर्धक चरितका एकाग्रचित्तसे चिन्तन किया ॥ २२८ ॥ अथानन्तर उसका चित्त बलभद्र पदके धारक रामचन्द्रजीके चरितकी ओर गया और उसे राक्षसों तथा वानरों के विषयमें संदेह-सा होने लगा ॥ २२९ ॥ वह विचारने लगा कि अहो ! जो जिनधर्मके प्रभावसे उत्तम मनुष्य थे, उच्चकुलमें उत्पन्न थे, विद्वान् थे और विद्याओं के द्वारा जिनके मन प्रकाशमान थे ऐसे रावण आदिक लौकिक ग्रन्थों में चर्चा, रुधिर तथा मांस आदिका पान एवं भक्षण करनेवाले राक्षस सुने जाते हैं ॥ २३०-१३१ ॥ रावणका भाई कुम्भकर्ण महाबलवान् था और घोर निद्रासे युक्त हो कर छह माह तक निरन्तर सोता रहता था ॥२३२॥ यदि मन्दोन्मत्त हाथियों के द्वारा भी उसका मर्दन किया जाय, तपे हुए तैलके कड़ाहों से उसके कान भरे जावें और भेरी तथा शङ्खोंका बहुत भारी शब्द किया जाय तो भी समय पूर्ण न होने पर वह जागृत नहीं होता था ॥ २३३-२३४ ॥ बहुत बड़े पेटको

१. पूताशा क० । २. निद्रा म० । ३. घोषानुहारिणा म० । ४. सवन्ध म० । ५. विवादेऽपि म० ।

तिर्यग्भिर्मानुषैर्द्वेषे कृत्वा वृक्षं ततः पुनः । स्वपितृव्येव विमुक्तान्यनिशेषपुरुषस्थितिः ॥२३६॥
 अहो कुकविभिर्मुखैर्विद्याधरकुमारकैः । अम्भ्रास्यानमिदं नीतो दुःकृतग्रन्थकन्थकैः ॥२३७॥
 एवविधं किल ग्रन्थं रामायणमुदाहृतम् । शृण्वता सकलं पापं क्षयमायाति तत्क्षणात् ॥२३८॥
 तापत्यजनचित्तस्य सोऽयमग्निममागमः । शीतापनोदकामस्य तुषारानिलसङ्गमः ॥२३९॥
 हेयङ्गवीनकाङ्क्षस्य तद्विदं जलमन्धनम् । सिकतापीडनं तैलमवाप्तुमभिवान्धत ॥२४०॥
 महापुरुषचारित्रकृदोपविभात्रिषु । पापैरधर्मशास्त्रेषु धर्मशास्त्रमतिः कृता ॥२४१॥
 अमराणां किलाधीणो रावणेन पराजितः । आकर्णाकृष्टनिर्मुक्तैर्वाणैर्मर्मत्रिवारिभिः ॥२४२॥
 देवानामधिपः क्वामौ वराकं क्वैव मानुषः । तस्य चिन्तितमात्रेण यायात् यो भस्मराशिताम् ॥२४३॥
 ऐरावतो गजो यस्य यस्य वज्रं महायुधम् । समेरुवारिधिं क्षोणीं योऽनायासात् समुद्धरेत् ॥२४४॥
 सोऽयं मानुषमात्रेण विद्याभाजःश्लेषगतिना । आनीयते कथं भङ्गं प्रभुः स्वर्गनिवासिनाम् ॥२४५॥
 वन्द्यगृहगृहीतोऽस्मीं प्रभुणा रक्षमां किल । लङ्काया निवमन् कारागृहे नित्यं सुसयत ॥२४६॥
 मृगं, सिंहवधं, मोऽयं शिलानां पेपणं तिलैः । बधो गण्डूपदेनाहेर्गजेन्द्रगसनं शुना ॥२४७॥

धारण करनेवाला वह कुम्भकर्ण जब जागता था तब भूख और प्याससे इतना व्याकुल हो उठता था कि सामने हार्थी आदि जो भी दिखते थे उन्हें खा जाता था । इस प्रकार वह बहुत ही दुर्बर था ॥२३५॥ तिर्यञ्च मनुष्य और देवोंके द्वारा वह वृष्णिकर पुनः सो जाता था उस समय उसके पास अन्य कोई भी पुरुष नहीं ठहर सकता था ॥२३६॥ अहो ! कितने आश्चर्य की बात है कि पापवर्धक खोटे ग्रन्थोंकी रचना करनेवाले मुख कुकवियोंने उस विद्याधर कुमारका कंसा वीभत्स चरित्र चित्रण किया है ॥२३७॥ जिसमें यह सब चरित्र-चित्रण किया गया है वह ग्रन्थ रामायणके नामसे प्रसिद्ध है और जिसके विषयमें यह प्रसिद्धि है कि वह मुननेवाले मनुष्योंके समस्त पाप तत्क्षणमें नष्ट कर देता है ॥२३८॥ सो जिसका चित्त तापका त्याग करनेके लिए उत्सुक है उसके लिए यह रामायण मानो अग्निका समागम है और जो शीत दूर करनेकी इच्छा करता है उसके लिए मानो हिममिश्रित शीतल वायुका समागम है ॥२३९॥ घीकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यका जिस प्रकार पानीका विलोचना व्यर्थ है और तेल प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यका वालूका पेलना निःसार है उसी प्रकार पाप त्यागकी इच्छा करनेवाले मनुष्यका रामायणका आश्रय लेना व्यर्थ है ॥२४०॥ जो महापुरुषोंके चारित्र्यमें दोष प्रकट करते हैं ऐसे अधर्म शास्त्रोंमें भी पापी पुरुषोंने धर्मशास्त्रकी कल्पना कर रक्खी है ॥२४१॥ रामायणमें यह भी लिखा है कि रावणने कान तक खींचकर छोड़े हुए वाणोंसे देवोंके अधिपति इन्द्रको भी पराजित कर दिया था ॥२४२॥ अहो ! कहीं तो देवोंका स्वामी इन्द्र और कहीं वह तुच्छ मनुष्य जो कि इन्द्रकी चिन्तामात्रसे भस्मकी राशि हो सकता है ? ॥२४३॥ जिसके ऐरावत हार्थी था और वज्र जैसा महान् शस्त्र था तथा जो सुमेरु पर्वत और समुद्रोंसे सुशोभित पृथिवीको अनायास ही उठा सकता था ॥२४४॥ ऐसा इन्द्र अल्प शक्ति के धारक विद्याधरके द्वारा जो कि एक साधारण मनुष्य ही था कैसे पराजित हो सकता था ॥२४५॥ उसमें यह भी लिखा है कि राजसंके राजा रावणने इन्द्रको अपने वन्दीगृहमें पकड़कर रक्खा था और उसने वन्धनसे बद्ध होकर लङ्काके वन्दी गृहमें चिरकाल तक निवास किया था ॥२४६॥ सो ऐसा कहना मृगोंके द्वारा सिंहका बध होना, तिलोंके द्वारा शिलाओंका पीसा जाना, पनिया साँपके द्वारा नागका मारा जाना और कुत्ताके द्वारा गजराजका दमन होनेके समान है

१. कुमारकैः क० । २. कच्छकैः म० । ३. तापश्च जन (?) म० । ४. कामस्य म० ।
 ५. पीलन ख० । ६. सोऽहं म० ।

व्रतप्राप्तेन रामेण सौवर्णो रुराहतः । सुर्यावस्याप्रजं स्व्यर्थं जनकेन समस्तथा ॥२४८॥
 अश्रद्धेयमिदं सर्वं वियुक्तमुपपत्तिभिः । भगवन्तं गणार्धाजं ज्वोऽहं पृष्टास्मि गौतमम् ॥२४९॥
 एव चिन्तयतस्तस्य महाराजस्य धीमतः । वन्दिमिस्त्वर्यनादान्ते जयगन्धो महान् कृत ॥२५०॥
 कुलपुत्रेण चासन्नस्त्रामिनो बोधर्मायुषा । निसर्गेणैव पठितं श्लोकोऽयं जरठायुषः ॥२५१॥
 प्रष्टव्या गुरवो निच्यमर्थं ज्ञातमपि स्वयम् । स तैर्निश्चयमानीतो वदति परमं सुखम् ॥२५२॥
 एतदानन्दर्यैश्चाह निमित्तं मगधाधिपः । शयनीयात् समुत्तस्थौ स्वर्ष्मिभिः कृतमङ्गलः ॥२५३॥

मालिनीच्छन्दः

अथ कुसुमपदान्तं सुप्तनिष्कान्तमृद्ग-प्रहितमधुगवादात्यन्तरम्यैकदेशात् ।
 जडपवनविद्युताकम्पितापाण्डुदीपान् निरगमद्वर्णाशः श्रीमतो वासगेहात् ॥२५४॥
 रदनगिखरदृष्टस्पष्टविम्बौष्टृष्ट-प्रतिहतजयनादं श्रीसमानधूर्तानाम् ।
 वरसुकुलनिवद्रव्यकपद्माकराणां श्रवणपथमनैर्पीच्छेय वाराङ्गनानाम् ॥२५५॥
 अतिशयशुभचिन्तासङ्गनिष्कम्पभावान्नगपतिरुपनीताशंपतत्कालमाव ।
 धवलकमलभासो वासगेहादपेतो रविरिव शरदभ्रान्द्वारवृन्दाडभासीत् ॥२५६॥
 इत्यार्षे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते श्रेणिकचिन्तामिधानं नाम द्वितीयं पर्व ॥२॥



॥२४८॥ व्रतके धारक रामचन्द्रजीने सुवर्ण मृगको मारा था, और स्त्रीके पीछे सुर्यावके वड़े भाई वालीको जो कि उसके पिताके समान था, मारा था ॥२४८॥ यह सब कथानक युक्तियोंसे रहित होनेके कारण श्रद्धान करनेके योग्य नहीं है । यह सब कथा मैं कल भगवान् गौतम गणधरसे पूछूंगा ॥२४९॥ इस प्रकार बुद्धिमान महाराज श्रेणिक चिन्ता कर रहे थे कि तुम्हीका शब्द बन्द होते ही बन्दीजनोंने जोरसे जयघोष किया ॥२५०॥ उसी समय महाराज श्रेणिकके समीपवर्ती चिरजीवी कुलपुत्रने जागकर स्वभाववश निम्न श्लोक पढ़ा कि जिस पदार्थको स्वयं जानते हैं उस पदार्थको भी गुरुजनोंसे नित्य ही पूछना चाहिए क्योंकि उनके द्वारा निश्चयको प्राप्त कराया हुआ पदार्थ परम सुख प्रदान करता है ॥२५१-२५२॥ इस सुन्दर निमित्तसे जो आनन्दको प्राप्त थे तथा अपनी स्त्रियोंने जिनका मङ्गलाचार किया था ऐसे महाराज श्रेणिक शय्यासे उठे ॥२५३॥

तदनन्तर—पुष्परूपी पटके भीतर सोकर बाहर निकले हुए भ्रमरोकी मधुर गुञ्जारसे जिसका एक भाग बहुत ही रमणीय था, जिसके भीतर जलते हुए निष्प्रभ दीपक प्राप्त कालकी शीत वायुके झोंकेसे हिल रहे थे और जो बहुत ही शोभासम्पन्न था ऐसे निवासगृहसे राजा श्रेणिक बाहर निकले ॥२५४॥ बाहर निकलते ही उन्होंने लक्ष्मीके समान कान्तिवाली तथा कर्कड्मलोके द्वारा कमलोंकी शोभाको प्रकट करनेवाली वागाङ्गनाओंके नुकीले दाँतोंसे दृष्ट श्रेष्ठ विम्बसे निर्गत जयनादको सुना ॥२५५॥ इस प्रकार अत्यन्त शुभ ध्यानके प्रभावसे निश्चलताको प्राप्त हुए शुभ भावसे जिन्हें तत्कालके उपयोगी समस्त शुभ भावोंकी प्राप्ति हुई थी ऐसे महाराज श्रेणिक सफेद कमलके समान कान्तिवाले निवासगृहसे बाहर निकलकर शरद् ऋतुके मेघोंके समूहसे बाहर निकले हुए सूर्यके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२५६॥

इस प्रकार आर्ष नामने प्रसिद्ध रविपेणाचार्यविरचित पद्म-चरितमें महागज श्रेणिककी चिन्ताको प्रकट करनेवाला दूसरा पर्व पूर्ण हुआ ॥२॥



तृतीयं पर्व

आस्थानमण्डपेऽयामां कृतानेयतनुस्थितिः । सर्वालङ्कारसम्पन्नो निविष्टो भद्रविष्टरे ॥१॥
 सामन्तैश्च प्रतीहारद्वन्द्वरैरुपागतैः । केयूरकोटिर्मन्वदृपटितप्रवराशुकैः ॥२॥
 पलद्भ्रमरसगीतमौलिमालाव्रतसकैः । कटकशुचयच्छन्नकराग्रस्पृष्टभूतलैः ॥३॥
 ललत्प्रालम्बतरुप्रभापटलसारितैः । प्रणत सदगुणग्रामसमावर्जितमानसैः ॥४॥
 ततस्त्वैरनुयातोऽम्बावारुद्धवरवाहनैः । पृष्ठाहितकुथागोभा भद्रामारुह्य वासिताम् ॥५॥
 गृहीतमण्डलाग्रेण वद्धसायकधेनुना । प्रकोष्ठे दधता वामे कटक हेमनिर्मितम् ॥६॥
 दूरमुडुङ्गीयमानेन वायुमार्गं मुहुर्मुहुः । मृगाणामिव यथेन नभस्वदनुगामिना ॥७॥
 याहि याहि पुरोमार्गाद्वसर्पं व्रज व्रज । चञ्च किं स्तम्भितोऽस्मीति पाडातेन कृतम्बनिः ॥८॥
 निश्चक्राम पुरो राजा वन्दिनः पठतोऽग्रतः । आकर्णयन् समाधानन्यस्तचित्त सुभाषितम् ॥९॥
 प्राप्तश्च तमसीं देवं यस्मिन्मुनिमिरावृतः । सर्वश्रुतजलस्नाननिर्मलीकृतचेतन ॥१०॥
 शुद्धध्यानसमाविष्टस्तत्त्वाख्यानपरायण । उपविष्टः सुखस्पर्शं लब्धयुत्पन्ने मयूरके ॥११॥
 कान्त्या तारापत्रेऽनुज्यो र्गन्ध्या भास्करसन्निभः । अशोकपल्लवच्छायपाणिपादोऽम्बुजेक्षणः ॥१२॥

अथानन्तर दूसरे दिन शरीर सम्बन्धी समस्त क्रियाशोको पूर्ण कर सर्व आभरणोंसे सुशोभित महाराज श्रेणिक सभामण्डपमें आकर उत्तम सिंहासनपर विराजमान हुए ॥१॥ उसी समय द्वारपालोंने जिन्हें प्रवेश कराया था ऐसे आये हुए सामन्तोंने उन्हें नमस्कार किया । नमस्कार करते समय उन सामन्तोंके श्रेष्ठ वस्त्र, वाजूवन्दोंके अग्रभागके संघर्षणसे फट रहे थे, जिनपर भ्रमर गुञ्जार कर रहे थे ऐसी मुकुटमें लगी हुई श्रेष्ठ मालाएँ नीचे पड़ रही थीं, बलयकी किरणोंके समूहसे आच्छादिन पाणितलसे वे पृथिवीतलका स्पर्श कर रहे थे, हिलती हुई मालाके मध्यमणि सम्बन्धी प्रभाके समूहसे व्याप्त थे, और महाराजके उत्तमोत्तम गुणोंके समूहसे उनके मन महाराजकी ओर आसक्त हो रहे थे ॥२-४॥ तदनन्तर श्रेष्ठ वाहनोंपर आरूढ़ हुए उन्हीं सब सामन्तोंसे अनुगत महाराज श्रेणिक, पीठपर पड़ी मूलसे सुशोभित उत्तम हथियानपर सवार होकर श्रीवर्धमान जिनैन्द्रके समवसरणकी ओर चले ॥५॥ जिन्होंने अपने हाथमें तलवार ले रखी थी, कमरमें छुरी बाँध रखी थी, जो बायें हाथमें सुवर्ण निर्मित कड़ा पहने हुए थे, वार-वार आकाशमें दूर तक छलांग भर रहे थे और इसीलिए जो वायुके पीछे चलनेवाले वातप्रभा मृगोंके भुण्डके समान जान पड़ते थे तथा जो 'चलो चलो, मार्ग छोड़ो, हटो आगे क्यों खड़े हो गये' इस प्रकारके शब्दोंका उच्चारण कर रहे थे ऐसे भृत्योंका समूह उनके आगे कोलाहल करता जाता था ॥६-८॥ आगे-आगे वन्दीजन सुभाषित पढ़ रहे थे सो महाराज उन्हें चित्त स्थिर कर श्रवण करतें जाते थे । इस प्रकार नगरसे निकलकर राजा श्रेणिक उस स्थानपर पहुँचे जहाँ गौतम गणधर विराजमान थे । गौतम स्वामी अनेक मुनियोंसे घिरे हुए थे, समस्त शास्त्र रूपी जलमें स्नान करनेसे उत्तकी चेतना निर्मल हो गई थी, शुद्ध ध्यानसे सहित थे, तत्त्वोंके व्याख्यानमें तत्पर थे, मुखकर स्पर्शसे सहित एवं लक्ष्मियोंके कारण प्राप्त हुए मयूराकार आसनपर विराजमान थे, कान्तिसे चन्द्रमाके समान थे, दीप्तिसे सूर्यके सदृश थे, उनके हाथ और पैर अशोकके पल्लवोंके

१. कटकशुचयैश्छन्नकराग्रस्पृष्ट- म० । २. हेमनिर्मिते म० । ३. तर्पसर्प म० । ४. पाठतो क० ।
 ५. मयूरके म० अथ 'महासने' इति पाठः मुष्टु प्रतिभाति । ६. पादाम्बुजेक्षणः ल०, पद्माम्बुजेक्षणः क० ।

प्रशान्तेन शरीरेण भुवनं शमयन्निव । पतिर्गणस्य साधूनां गौतमाख्योऽवतिष्ठते ॥१३॥
 दूरादेवावतीर्णश्च करेणोश्चरणायनः । प्रमोदोत्फुल्लनयनो दुर्दौके विनयानतः ॥१४॥
 ततस्त त्रिपरीत्यासौ प्रणम्य च कृताञ्जलिः । दत्ताशीर्गणनाथेन धरायां समुपाविशत् ॥१५॥
 अथ दन्तप्रभाजालधवलीकृतभूतल । पर्यपृच्छद्विदं राजा कुशलप्रश्नपूर्वकम् ॥१६॥
 भगवन् पद्मचरितं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । उत्पादितान्यथैवास्मिन् प्रसिद्धिः कुमतानुगैः ॥१७॥
 राक्षसो हि सै लङ्केशो विद्यावान् मानवोऽपि वा । तिर्यग्भिः परिभूतोऽमौ कथं क्षुद्रकवानरैः ॥१८॥
 अत्तिं चात्यन्तदुर्गन्धं कथं मानुषविग्रहम् । कथं वा रामदेवेन वालिशिच्छ्रेण नाशितः ॥१९॥
 गत्वा वा देवनिलयं भङ्गं त्वोपवनमुत्तमम् । वन्दीगृहं कथं नीतो रावणेनामराधिप ॥२०॥
 सर्वशास्त्रार्थकुशलो रोगवर्जितविग्रहः । शेते च स कथं मासान् पदेतस्य वरोऽनुजः ॥२१॥
 कथं चात्यन्तगुरुभिः पर्वतैरलमुन्नतः । सेतुः शाखामृगैर्वद्धो यः सुरैरपि दुर्घटः ॥२२॥
 प्रसीद भगवन्नेतत्सर्वं कथयितुं मम । उत्तारयन् बहून् भव्यान् सशयोदारकर्दमान् ॥२३॥
 एवमुक्तो गणेशः स निर्गतैर्दशनांशुभिः । चालयन्निव निःशेषं कुसुमैर्मलिनं जगत् ॥२४॥
 लताभवनमध्यस्थान्तर्धरगद्विपः । गम्भीराम्भोदनिर्घोर्षधीरयोदाहरद् गिरा ॥२५॥
 शृण्वायुष्मन् महीपाल देवानांप्रिय यत्नतः । मम वाक्यं जिनेन्द्रोक्तं तत्त्वशसनतत्परम् ॥२६॥
 रावणो राक्षसो नैव न चापि मनुजाशनः । अलीकमेव तत्सर्वं यद्वदन्ति कुवाटिनः ॥२७॥

समान लाल-लाल थे, उनके नेत्र कमलोके समान थे, अपने शान्त शरीरसे संसारको शान्त कर रहे थे, और मुनियोंके अधिपति थे ॥६-१३॥ राजा श्रेणिक दूरसे ही हस्तिनीसे नीचे उतरकर पैदल चलने लगे, उनके नेत्र हर्षसे फूल गये, और उनका शरीर विनयसे झुक गया । वहाँ जाकर उन्होंने तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर गणधर स्वामीका आशीर्वाद प्राप्त कर वे पृथ्वीपर ही बैठ गये ॥१०-१५॥

तदनन्तर—दौतोकी प्रभासे पृथ्वी-तलको सफेद करते हुए राजा श्रेणिकने कुशल-प्रश्न पूछनेके बाद गणधर महाराजसे यह पूछा ॥१६॥ उन्होंने कहा कि हे भगवन् ! मैं रामचन्द्रजीका वास्तविक चरित्र सुनना चाहता हूँ क्योंकि कुधर्मके अनुगामी लोगोंने उनके विषयमें अन्य प्रकारकी ही प्रसिद्धि उत्पन्न कर दी है ॥१७॥ लङ्काका स्वामी रावण, राक्षस वंशी विद्याधर मनुष्य होकर भी तिर्यञ्चगतिके लुद्र वानरोंके द्वारा किस प्रकार पराजित हुआ ॥१८॥ वह, अत्यन्त दुर्गन्धित मनुष्य शरीरका भक्षण कैसे करता होगा ? रामचन्द्रजीने कपटसे वालिको कैसे मारा होगा ? देवोंके नगरमें जाकर तथा उसके उत्तम उपवनको नष्टकर रावण इन्द्रको वन्दीगृहमें किस प्रकार लाया होगा ? उसका छोटा भाई कुम्भकर्ण तो समस्त शास्त्रोंके अर्थ जाननेमें कुशल था तथा नीरोग शरीरका धारक था फिर छह माह तक किस प्रकार सोता रहता होगा ? जो देवोंके द्वारा भी अशक्य था ऐसा बहुत ऊँचा पुल भारी-भारी पर्वतोंके द्वारा वानरोंने कैसे बनाया होगा ? ॥१९-२२॥ हे भगवन् ! मेरे लिए यह सब कहनेके अर्थ प्रसन्न हूँजिये और संशयरूपी भारी कीचड़से अनेक भव्य जीवाँका उद्धार कीजिये ॥२३॥

इस प्रकार राजा श्रेणिकके पूछनेपर गौतम गणधर, अपने दौतोकी किरणोंसे समस्त मलिन संसारको धोकर फूलोंसे सजाते हुए और मेघ गर्जनाके समान गम्भीर वाणीके द्वारा लतागृहोंके मध्यमें स्थित मयूरोको नृत्य कराते हुए कहने लगे ॥२४-२५॥ कि हे आयुष्मन् ! हे देवोंके प्रिय ! भूपाल ! तू यत्नपूर्वक मेरे वचन सुन । मेरे वचन जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा उपदिष्ट हैं, तथा पदार्थका सत्यस्वरूप प्रकट करनेमें तत्पर हैं ॥२६॥ रावण राक्षस नहीं था और न

१. चरिते ख० । २. राक्षसोऽपि हि म० । ३. सुलङ्केशो क० । ४. अतिचात्यन्त म० । ५. भङ्क्त्वा पवन म० । ६. उत्तरय-म० । ७. गणेशस्य म० । ८. निर्घोष म० ।

न विना पीठबन्धेन विधातु सन्न शक्यते । कथाप्रस्तावहीन च वचन छिन्नमूलकम् ॥२८॥
 यतः शृणु ततस्तावक्षेत्रकालोपवर्णनम् । महतां पुरुषाणां च चरित पापनाशनम् ॥२९॥
 अनन्तालोकनभसो मध्ये लोकस्त्रिधा स्थितः । तालोदूखलसकाशो^१ वलयैस्त्रिभिरावृत ॥३०॥
 तिर्यग्लोकस्य मध्येऽस्मिन् सख्यातिक्रममागतै । वेष्टितो बलयाकारैर्द्वीपैरम्भोधिमिस्तथा ॥३१॥
 कुलालचक्रसस्थानो जम्बूद्वीपोऽयमुत्तमः । लवणाम्भोधिमध्यस्थः सर्वतो लचयोजनः ॥३२॥
 तस्य मध्ये महामेरुमूले^२ वज्रमयोऽक्षयः । ततो जाम्बूनदमयो मणिरत्नमयस्ततः ॥३३॥
 सध्यानुरक्तमेघौघसदृशोऽनुत्तमः । कलाग्रमात्रविवरास्पष्टसौधर्मभौमिकः^३ ॥३४॥
 योजनानां सहस्राणि नवतिर्नव चोच्छ्रितः । सहस्रमवगाढश्च स्थितो वज्रमय चितौ ॥३५॥
 विपुल शिखरे चैक धरण्यां दशसगुणम् । राजते तिर्यगाकाश मातु दण्ड इवोच्छ्रितः ॥३६॥
 द्वौ च तत्र कुरुद्वीपे^४ क्षेत्रैः सप्तभिरन्विते^५ । पट् क्षेत्राणा विभक्तारो^६ राजन्ते कुलपर्वता ॥३७॥
 द्वौ महापाटपौ ज्ञेयो विद्याधरपुरीशतम् । अधिकं दशभिस्तत्र विजयार्द्धे^७ ष्वथैकश^८ ॥३८॥

मनुष्योको ही खाता था । मिथ्यावादी लोग जो कहते हैं सो सब मिथ्या ही कहते हैं ॥२७॥ जिस प्रकार नीचके विना भवन नहीं बनाया जा सकता है उसी प्रकार कथाके प्रस्तावके विना कोई वचन नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि इस तरहके वचन निर्मूल होते हैं और निर्मूल होनेके कारण उनमें प्रामाणिकता नहीं आती है ॥२८॥ इसलिए सबसे पहले तुम क्षेत्र और कालका वर्णन सुनो । तदनन्तर पापोको नष्ट करनेवाला महापुरुषोंका चरित्र सुनो ॥२९॥

अनन्त अलोकाकाशके मध्यमें तीन वातवलयोंसे वेष्टित तीन लोक स्थित हैं । अनन्त अलोकाकाशके बीचमें यह उन्नताकार लोक ऐसा जान पड़ता है मानो किसी उदूरखलके बीच बड़ा भारी तालका वृक्ष खड़ा किया गया हो ॥३०॥ इस लोकका मध्यभाग जो कि तिर्यग्लोकके नामसे प्रसिद्ध है चूड़ीके आकारवाले असंख्यात द्वीप और समुद्रोंसे वेष्टित है ॥३१॥ कुम्भकारके चक्रके समान यह जम्बूद्वीप है । यह जम्बूद्वीप सब द्वीपोंमें उत्तम है, लवणसमुद्रके मध्यमें स्थित है और सब ओरसे एक लाख योजन विस्तार वाला है ॥३२॥ इस जम्बू द्वीपके मध्यमें सुमेरु पर्वत है । यह पर्वत कभी नष्ट नहीं होता, इसका मूल भाग वज्र अर्थात् हीरोका बना है और ऊपरका भाग सुवर्ण तथा मणियों एवं रत्नोंसे निर्मित है ॥३३॥ इसकी ऊँची चोटी संध्याके कारण लाल-लाल दिखनेवाले मेघोंके समूहके समान जान पड़ती है । सौधर्म स्वर्गकी भूमि और इस पर्वतके शिखरमें केवल बालके अग्रभाग बराबर ही अन्तर रह जाता है ॥३४॥ यह निन्यानवे हजार योजन ऊपर उठा है और एक हजार योजन नीचे पृथिवीमें प्रविष्ट है । पृथिवीके भीतर यह पर्वत वज्रमय है ॥३५॥ यह पर्वत पृथिवीपर दश हजार योजन और शिखरपर एक हजार योजन चौड़ा है और ऐसा जान पड़ता है मानो मध्यम लोकके आकाशको नापनेके लिए एक दण्ड ही खड़ा किया गया है ॥३६॥ यह जम्बूद्वीप भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत इन सात क्षेत्रोंसे सहित है । तथा इसीके विदेह क्षेत्रमें देवकुरु और उत्तरकुरु नामसे प्रसिद्ध दो कुरु प्रदेश भी हैं । इन सात क्षेत्रोंका विभाग करनेवाले छह कुलाचल भी इसी जम्बूद्वीपमें सुशोभित हैं ॥३७॥ जम्बू और शाल्मली ये दो महावृक्ष हैं । जम्बूद्वीपमें चौंतीस विजयार्ध पर्वत हैं और प्रत्येक विजयार्ध पर्वतपर एक सौ दश एक सौ दश विद्याधरोंकी

१. वन च क० । २. तालोदूखल ख० । ३. वलिभिस्त्रिभि -म० । ४. हीरकमयः । ५. भूमिकः म० । भौमिक विमानमिति यावत् । ६. विपुलः म०, क० । ७. सगतम् म० । ८. मानदण्ड म० । ९. द्वीपौ क०, ख० । १०. -न्वितौ क०, ख० । ११. राजते क०, ख० । १२. -ष्वनैकशः म० ।

त्रिंशच्चतसृभिर्युक्ता राजधान्यः प्रकीर्तिताः । चतुर्दश महानद्यो जम्बूद्वीपे जिनालयः ॥३६॥
 पद्म भोगक्षितयः प्रोक्ता अष्टौ जिनगृहाणि च । अष्टपट्टिर्गुहामान भवनाना च तत्समृत्तम् ॥४०॥
 सिंहासनानि चत्वारि त्रिंशच्च गदितानि तु । विजयार्द्धनगौ द्वौ च राजतौ परिकीर्तितौ ॥४१॥
 वक्षारगिरियुक्तेषु समस्तेषु नगेषु ३ तु । भवनानि जिनेन्द्राणां राजन्ते रत्नराशिभिः ॥४२॥
 जम्बूभरतसञ्ज्ञाया चोण्यां दक्षिणयाशया । सुमहान् राक्षसो द्वीपो जिनविम्बसमन्वितः ॥४३॥
 महाविदेहवर्षस्य जगत्यां पश्चिमाशया । विशालः किन्नरद्वीपो जिनविम्बोज्ज्वलः शुभः ॥४४॥
 तथैरावतवर्षस्य क्षित्यामुत्तरया दिशा । गन्धर्वो नामतो द्वीपः ३ सच्चैत्यालयभूपितः ॥४५॥
 मेरोः पूर्वविदेहस्य जगत्यां पूर्वाशया । रराज धरणद्वीपो जिनायतनसकुलः ॥४६॥
 भरतैरावतक्षेत्रे वृद्धिहानिसमन्विते । शेषास्तु भूमयः प्रोक्तास्तुल्यकालव्यवस्थिताः ॥४७॥
 जम्बूद्वीपस्य भवने सुरोऽनावृतशब्दितः । शतैः किल्बिषकाख्यानामास्ते बहुभिरावृतः ॥४८॥
 ४ अस्मिंश्च भरतक्षेत्र पुरोत्तरकुरूपमम् । कल्पपादपसर्कीर्णं सुपमायां विराजते ॥४९॥
 तरुणादित्यसकाशा गन्धूतित्रयमुच्छ्रिता । सर्वलक्षणसपूर्णाः प्रजा यत्र विरेजिरे ॥५०॥
 युग्ममुत्पद्यते तत्र पत्यानां त्रयमायुषा । प्रेमबन्धनवद्धञ्च म्रियते युगल समम् ॥५१॥

नगरियाँ हैं ॥३६॥ जम्बूद्वीपमे बत्तीस विदेह, एक भरत और एक ऐरावत ऐसे चौतीस क्षेत्र हैं और एक-एक क्षेत्रमे एक-एक राजधानी है इस तरह चौतीस राजधानियाँ हैं, चौदह महानदियाँ हैं, जम्बूद्वीपके ऊपर अकृत्रिम जिनालय है ॥३६॥ हैमवत, हरिवर्ष, रम्यक, हैरण्यवत, देवकुरु और उत्तरकुरु इस प्रकार छह भोगभूमियाँ हैं । मेरु, गजदन्त, कुलाचल, वक्षारगिरि, विजयार्ध, जम्बूद्वीप और शाल्मलीद्वीप, इन सात स्थानोंपर अकृत्रिम तथा सर्वत्र कृत्रिम इस प्रकार आठ जिन मन्दिर हैं । बत्तीस विदेह क्षेत्रके तथा भरत और ऐरावतके एक-एक इस प्रकार कुल चौतीस विजयार्ध पर्वत हैं । उनमें प्रत्येकमें दो-दो गुफाएँ हैं इस तरह अड़सठ गुफाएँ हैं । और इतने ही भवनोंकी संख्या है ॥४०॥ बत्तीस विदेह क्षेत्र तथा एक भरत और एक ऐरावत इन चौतीस स्थानोंमे एक साथ तीर्थकर भगवान् हो सकते हैं इसलिए समवसरणमें भगवान्के चौतीस सिंहासन है । विदेहके सिवाय भरत और ऐरावत क्षेत्रमे रजतमय दो विजयार्ध पर्वत कहे गये हैं ॥४१॥ वक्षारगिरियोंसे युक्त समस्त पर्वतोंपर जिनेन्द्र भगवान्के मन्दिर हैं जो कि रत्नोंकी राशिसे सुशोभित हो रहे हैं ॥४२॥ जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रकी दक्षिण दिशामे जिन प्रतिमाओंसे सुशोभित एक बड़ा भारी राक्षस नामका द्वीप है ॥४३॥ महाविदेह क्षेत्रकी पश्चिम दिशामे जिन-विम्बोंसे देदीप्यमान किन्नरद्वीप नामका एक विशाल शुभद्वीप है ॥४४॥ ऐरावत क्षेत्रकी उत्तर दिशामे गन्धर्व नामका द्वीप है जो कि उत्तमोत्तम चैत्यालयांसे विभूषित है ॥४५॥ मेरु पर्वतसे पूर्वकी ओर जो विदेह क्षेत्र है उसकी पूर्व दिशामे धरणद्वीप सुशोभित हो रहा है । यह धरण द्वीप भी जिन-मन्दिरोंसे व्याप्त है ॥४६॥ भरत और ऐरावत ये दोनों क्षेत्र वृद्धि और हानिसे सहित है । अन्य क्षेत्रोंकी भूमियाँ व्यवस्थित हैं अर्थात् उनमें कालचक्रका परिवर्तन नहीं होता ॥४७॥ जम्बूद्वीपके ऊपर जो भवन है उसमे अनावृत नामका देव रहता है । यह देव किल्बिष जातिके अनेक शत देवोंसे आवृत रहता है ॥४८॥ इस भरत क्षेत्रमे जब पहले सुषमा नामका पहला काल था तब वह उत्तरकुरुके समान कल्पवृक्षोंसे व्याप्त था अर्थात् यहाँ उत्तम भोगभूमिकी रचना थी ॥४९॥ उस समय यहाँके लोग मध्याह्नके सूर्यके समान देदीप्यमान, दो कोश ऊँचे और सर्वलक्षणोंसे पूर्ण सुशोभित होते थे ॥५०॥ यहाँ स्त्री-पुरुषका जोड़ा साथ-ही-साथ उत्पन्न होता था, तीन

१. जम्बूद्वीपको क० । 'विजयार्द्धनगाश्चापि राजताः परिकीर्तिताः' इत्यपि पाठ. टिप्पणपुस्तके सकलित. ।

२. च म० । ३. सच्चैत्यालय म०, क० । ४. 'अस्मिंश्च भरतक्षेत्र पुरोत्तरकुरूपमाम् । कल्पाना पादपाः कीर्णं सुषमाया विराजिरे ॥' क० ।

कान्चनेन चिता भूमी रत्नैश्च मणिभिस्तथा । कालानुभावंतश्चित्रैः सर्वकर्मफलप्रदा ॥५२॥
 चतुरङ्गुलमानैश्च चित्रैर्गन्धेन चारुभि । विमलातिमृदुस्पर्शैस्तृणैश्छन्ना विराजिता ॥५३॥
 सर्वर्तुफलपुष्पैश्च तरवो रेजुरुज्ज्वला । स्वतन्त्राश्च सुखेनास्थुर्गोमहिष्याविकादयः ॥५४॥
 कल्पवृक्षसमुत्पन्न भक्षयन्तो यथैप्सितम् । अन्न सिंहादयः सौम्या हिंसां तत्र न चक्रिरे ॥५५॥
 पद्मादिजलजच्छन्नाः सौवर्णमणिशोभनाः । सम्पूर्णा रेजिरे वाप्यो मधुक्षीरघृतादिभि ॥५६॥
 गिरयोऽत्यन्तमुत्तुङ्गाः पञ्चवर्णसमुज्ज्वलाः । नानारत्नकरंछन्नाः सर्वप्राणिसुखावहाः ॥५७॥
 नद्यो निर्जन्तुका रम्याः क्षीरसर्पिर्मधूदकाः । अत्यन्तसुरसास्वादा रत्नोद्योतितरोधसः ॥५८॥
 नातिशीत न चात्युष्ण तीव्रमारुतवर्जितम् । सर्वप्रतिभयैर्मुक्त नित्योद्भूतसमुत्सवम् ॥५९॥
 उद्योतिद्गुंमप्रभाजालच्छन्नेन्दुरविमण्डलम् । सर्वेन्द्रियसुखास्वादप्रदकल्पमहातरु ॥६०॥
 प्रासादास्तत्र वृक्षेषु विपुलोद्यानभूमयः । शयनासनमद्येष्टस्वादुपानाशनानि च ॥६१॥
 वस्त्रानुलेपनादीनि तूर्यशब्दा मनोहराः । आमोदिनस्तथा गन्धाः सर्वं चान्यत्तरुद्रवम् ॥६२॥
 दशभेदेषु तेष्वेवं कल्पवृक्षेषु चारुषु । रेमिरे तत्र युग्मानि सुरलोक इवानिशम् ॥६३॥
 एव प्रोक्ते गणेशेन पुन श्रेणिकभूपतिः । भोगभूमौ समुत्पत्तेः कारण परिपृष्टवान् ॥६४॥
 कथितं च गणेशेन तत्रत्ये प्रगुणा जनाः । साधुदानसमायुक्ता भवन्त्येते सुमानुषा ॥६५॥

पत्यकी उनकी आयु होती थी और प्रेम बन्धनबद्ध रहते हुए साथ-ही-साथ उनकी मृत्यु होती थी ॥५१॥ यहाँकी भूमि सुवर्ण तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे खचित थी और कालके प्रभावसे सबके लिए मनोवाञ्छित फल प्रदान करनेवाली थी ॥५२॥ सुगन्धित, निर्मल तथा कोमल स्पर्शवाली, चतुरङ्गुल प्रमाण घाससे वहाँ की भूमि सदा सुशोभित रहती थी ॥५३॥ वृक्ष सब ऋतुओके फल और फूलोसे सुशोभित रहते थे तथा गाय, भैंस, भेड़ आदि जानवर स्वतन्त्रतापूर्वक सुखसे निवास करते थे ॥५४॥ वहाँके सिंह आदि जन्तु कल्पवृक्षोसे उत्पन्न हुए मनवाञ्छित अन्नको खाते हुए सदा सौम्य—शान्त रहते थे । कभी किसी जीवकी हिंसा नहीं करते थे ॥५५॥ वहाँ की वापिकाएँ पद्म आदि कमलोसे आच्छादित, सुवर्ण और मणियोंसे सुशोभित तथा मधु, क्षीर एवं घृत आदिसे भरी हुई अत्यधिक शोभायमान रहती थीं ॥५६॥ वहाँके पर्वत अत्यन्त ऊँचे थे, पाँच प्रकारके वर्णोंसे उज्ज्वल थे, नाना प्रकारके रत्नोंकी कान्तिसे व्याप्त थे तथा सर्वप्राणियोंको सुख उपजाने वाले थे ॥५७॥ वहाँ की नदियाँ मगरमच्छादि जन्तुओसे रहित थी, सुन्दर थी, उनका जल दूध, घी और मधुके समान था, उनका आस्वाद अत्यन्त सुरस था और उनके किनारे रत्नोंसे देदीप्यमान थे ॥५८॥ वहाँ न तो अधिक शीत पड़ती थी न अधिक गर्मी होती थी, न तीव्र वायु चलती थी । वह सब प्रकारके भयोंसे रहित था और वहाँ निरन्तर नये-नये उत्सव होते रहते थे ॥५९॥ वहाँ ज्योतिरङ्ग जातिके वृक्षोंकी कान्तिके समूहसे सूर्य और चन्द्रमाके मण्डल छिपे रहते थे—दिखाई नहीं पड़ते थे तथा सर्वेन्द्रियोंको सुखास्वादके देनेवाले कल्पवृक्ष सुशोभित रहते थे ॥६०॥ वहाँ बड़े-बड़े वाग-बगीचे और विस्तृत भूभागसे सहित महल, शयन, आसन, मद्य, इष्ट और मधुर पेय, भोजन, वस्त्र, अनुलेपन, तुरहीके मनोहर शब्द और दूर तक फैलनेवाली सुन्दर गन्ध तथा इनके सिवाय और भी अनेक प्रकारकी सामग्री कल्पवृक्षोसे प्राप्त होती थी ॥६१॥ इस प्रकार वहाँके दम्पती, दश प्रकारके सुन्दर कल्पवृक्षोंके नीचे देवदम्पतीके समान रात-दिन क्रीडा करते रहते थे ॥६२-६३॥ इस तरह गणधर भगवान्के कह चुकनेपर राजा श्रेणिकने उनसे भोगभूमिसे उपजनेका कारण पूछा ॥६४॥ उत्तरमें गणधर भगवान् कहने लगे कि जो सरलचित्तके धारी मनुष्य मुनियोंके लिए आहार आदि दान देते हैं । वे ही इन

१. कार्य—ख० । २. विराजते म० । ३. रोधसः म० । ४. रत्नाकरच्छन्नाः म० । ५. ज्योतिःक्रम म० । ६. तरु. म० । ७. न्मेष्वेव म० । ८. वान्यतरोद्भवम् ख० । ९. तत्र ये म० ।

ये पुनः कुत्सिते दानं ददते भोगतृष्णया । तेषु हस्त्यादितां गत्वा भुञ्जते दानजं फलम् ॥६६॥
 नितान्तं मृदुनि क्षेत्रे दूर कृष्णे हलाननैः । चिसं बीज यथानन्तगुण सस्य प्रयच्छति ॥६७॥
 यथा चेक्षुषु निक्षिप्तं माधुर्यं वारि गच्छति । पीत च धेनुभिस्तोयं क्षीरत्वेन विवर्तते ॥६८॥
 एवं साधो तपोऽगारे व्रतालंकृतविग्रहे । सर्वग्रन्थविनिर्मुक्ते दत्तं दानं महाफलम् ॥६९॥
 खिले गत यथा क्षेत्रे बीजमल्पफल भवेत् । निम्बेषु च तथा चिसं कटुत्वं वारि गच्छति ॥७०॥
 यथा च पद्मगै पीतं क्षीरं सजायते विषम् । कुपात्रेषु तथा दत्तं दानं कुफलदं भवेत् ॥७१॥
 एव दानस्य सदृशो धरेन्द्र फलसंभवः । यद्यदाधीयते वस्तु दर्पणे तस्य दर्शनम् ॥७२॥
 यथा शुक्लञ्च कृष्णञ्च पद्मद्वयमनन्तरम् । उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योरेवं क्रमसमुद्भव ॥७३॥
 अर्थं कालान्यतो हानिं तेषु यातेष्वनुक्रमात् । कल्पपादपखण्डेषु शृणु कौलकरां स्थितिम् ॥७४॥
 प्रतिश्रुतिरिति ज्ञेयं आद्यं कुलकरो महान् । श्रुत्वा तस्य वचं सर्वाः प्रजा सौस्थित्यमागताः ॥७५॥
 जन्मत्रयमतीतं यो जानाति स्म निज विभुः । शुभचेष्टासमुद्युक्तो व्यवस्थानां प्रदेशकः ॥७६॥
 ततो वर्षसहस्राणामतिक्रान्तासु कोटिषु । ब्रह्मिणु स मनुः प्राप्तो जन्म सन्मतिसङ्गितः ॥७७॥
 ततः क्षेमं करो जातः क्षेमधृत्तदनन्तरम् । अभूत् सीमंकरस्तस्मात् सीमधृत्त ततः परम् ॥७८॥
 चक्षुष्मानपरस्तस्मात्तं गत्वा सभयाः प्रजाः । अपृच्छन्नाथ कारेतौ दृश्येते गगनार्णवे ॥७९॥
 ततो जगाद् चक्षुष्मान् विदेहे यच्छ्रुतं जिनात् । युक्तो जन्मान्तरस्मृत्या यथाकालपरिच्छये ॥८०॥

भोगभूमियोंमें उत्तम मनुष्य होते हैं ॥६५॥ तथा जो भोगोकी तृष्णासे कुपात्रके लिए दान देते हैं वे भी हस्ती आदिकी पर्याय प्राप्रकर दानका फल भोगते हैं ॥६६॥ जिस प्रकार हलकी नोकसे दूर तक जुते और अत्यन्त कोमल क्षेत्रमें बोया हुआ बीज अनन्तगुणा धान्य प्रदान करता है अथवा जिस प्रकार ईखोंमें दिया हुआ पानी मधुरताको प्राप्त होता है और गायोंके द्वारा पिया हुआ पानी दूध रूपमें परिणत हो जाता है उसी प्रकार तपके भण्डार और व्रतोसे अलंकृत शरीरके धारक सर्वपरिग्रह रहित मुनिके लिए दिया हुआ दान महाफलको देनेवाला होता है ॥६७-६९॥ जिस प्रकार ऊपर क्षेत्रमें बोया हुआ बीज अल्पफल देता है अथवा नीमके वृक्षोंमें दिया हुआ पानी जिस प्रकार कड़वा हो जाता है और साँपोंके द्वारा पिया हुआ पानी जिस प्रकार विष रूपमें परिणत हो जाता है उसी प्रकार कुपात्रोंमें दिया हुआ दान कुफलको देनेवाला होता है ॥७०-७१॥ गौतमस्वामी कहते हैं कि हे राजन् ! जो जैसा दान देता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है । दर्पणके सामने जो-जो वस्तु रखी जाती है वही-वही दिखाई देती है ॥७२॥

जिस प्रकार शुक्ल और कृष्णके भेदसे दो पद्म एकके बाद एक प्रकट होते हैं उसी प्रकार उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये दो काल क्रमसे प्रकट होते हैं ॥७३॥ अथानन्तर तृतीय कालका अन्त होनेके कारण जब क्रमसे कल्पवृक्षोंका समूह नष्ट होने लगा तब चौदह कुलकर उत्पन्न हुए उस समयकी व्यवस्था कहता हूँ सो हे श्रेणिक ! सुन ॥७४॥ सबसे पहले प्रतिश्रुति नामके प्रथम कुलकर हुए । उनके वचन सुनकर प्रजा आनन्दको प्राप्त हुई ॥७५॥ वे अपने तीन जन्म पहलेकी बात जानते थे, शुभचेष्टाओंके चलानेमें तत्पर रहते थे और सब प्रकारकी व्यवस्थाओंका निर्देश करने वाले थे ॥७६॥ उनके बाद अनेक करोड़ हजार वर्ष बीतने पर सन्मति नामके द्वितीय कुलकर उत्पन्न हुए ॥७७॥ उनके बाद क्षेमंकर, फिर क्षेमन्धर, तत्पश्चात् सीमंकर और उनके पीछे सीमन्धर नामके कुलकर उत्पन्न हुए ॥७८॥ उनके बाद चक्षुष्मान् कुलकर हुए । उनके समय प्रजा सूर्य चन्द्रमाको देखकर भयभीत हो उनसे पूछने लगी कि हे स्वामिन ! आकाशरूपी समुद्रमें ये दो पदार्थ क्या दिख रहे हैं ? ॥७९॥ प्रजाका प्रश्न सुनकर चक्षुष्मान्को अपने पूर्वजन्मका स्मरण

१. भुञ्जन्ते म० । २. निवर्तते म० । ३. खले म० । ४. अथो ख० । ५. कालान्तरोत्पत्त्या म० । ६. क्षेमधृत् म० ।

क्षीणेषु घृतिवृक्षेषु समुद्भूतप्रभाविमौ । चन्द्रादित्याविति ख्यातौ ज्योतिर्देवौ स्फुटौ स्थितौ ॥८१॥
 ज्योतिषा भावनाः कल्पा व्यन्तराश्च चतुर्विधा । देवा भवन्ति योग्येन कर्मणा जन्तवो भवे ॥८२॥
 तत्राय चन्द्रमाः शीतस्तीव्रगुस्त्येप भास्करः । एतौ कालस्वभावेन दृश्येते गर्गनामरौ ॥८३॥
 भानावस्तगते तीव्रे कान्तिर्भवति शीतगोः । व्योम्नि नक्षत्रचक्र च प्रकटत्व प्रपद्यते ॥८४॥
 स्वभावमिति कालस्य ज्ञात्वा त्यजत भीतताम् । इत्युक्ता भयमत्यस्य प्रजा याता यथागतम् ॥८५॥
 चक्षुष्मति ततोऽर्जिते यशस्वीति समुद्गतः । विज्ञेयो विपुलस्तस्मादभिचन्द्रः परस्ततः ॥८६॥
 चन्द्राभश्च परस्तस्मान्मरुदेवस्तदुत्तरः । ततः प्रसेनजिजातो नाभिरन्यस्ततोऽभवत् ॥८७॥
 एते पितृसमाः प्रोक्ताः प्रजाना कुलकारिणः । शुभैः कर्मभिरुपनाश्चतुर्दश समा धिया ॥८८॥
 अथ कल्पद्रुमो नाभेरस्य क्षेत्रस्य मध्यगः । स्थितः प्रासादरूपेण विभात्यत्यन्तमुन्नतः ॥८९॥
 मुक्तादामचित्तो हेमरत्नकल्पितभित्तिकः । चित्तौ स एक एवासीद् वाप्युद्यानविभूषितः ॥९०॥
 गृहीतहृदया तस्य बभूव वनितोत्तमा । प्रचलत्तारका भार्या रोहिणीव कलावत ॥९१॥
 गङ्गैव वाहिनीशस्य महाभूभृत्कुलोद्भवा । हसीव राजहसस्य मानसानुगमक्षमा ॥९२॥

हो आया। उस समय उन्होंने विदेह क्षेत्रमें भी जिनेन्द्रदेवके मुखसे जो कुछ श्रवण किया था वह सब स्मरणमें आ गया। उन्होंने कहा कि तृतीय कालका क्षय होना निकट है इसलिए ज्योतिरङ्ग जातिके कल्प वृक्षोकी कान्ति मन्द पड़ गई है और चन्द्रमा तथा सूर्यकी कान्ति प्रकट हो रही है। ये चन्द्रमा और सूर्य नामसे प्रसिद्ध दो ज्योतिषी देव आकाशमें प्रकट दिख रहे हैं ॥८०-८१॥ ज्योतिषी, भवनवासी, व्यन्तर और कल्पवासीके भेदसे देव चार प्रकारके होते हैं। संसारके प्राणी अपने अपने कर्मोंकी योग्यताके अनुसार इनमें जन्म ग्रहण करते हैं ॥८२॥ इनमें जो शीत किरणों वाला है वह चन्द्रमा है और जो उष्ण किरणोंका धारक है वह सूर्य है। कालके स्वभावसे ये दोनों आकाशगामी देव दिखाई देने लगे हैं ॥८३॥ जब सूर्य अस्त हो जाता है तब चन्द्रमाकी कान्ति बढ़ जाती है। सूर्य और चन्द्रमाके सिवाय आकाशमें यह नक्षत्रोंका समूह भी प्रकट हो रहा है ॥८४॥ यह सब कालका स्वभाव है ऐसा जानकर आपलोग भयको छोड़ें। चक्षुष्मान् कुलकरने जब प्रजासे यह कहा तब वह भय छोड़कर पहलेके समान सुखसे रहने लगी ॥८५॥ जब चक्षुष्मान् कुलकर स्वर्गगामी हो गये तो उनके बाद यशस्वी नामक कुलकर उत्पन्न हुए। उनके बाद विपुल, उनके पीछे अभिचन्द्र, उनके पश्चात् चन्द्राभ, उनके अनन्तर मरुदेव, उनके बाद प्रसेनजित् और उनके पीछे नाभिनामक कुलकर उत्पन्न हुए। इन कुलकरोंमें नाभिराज अन्तिम कुलकर थे ॥८६-८७॥ ये चौदह कुलकर प्रजाके पिताके समान कहे गये हैं, पुण्य कर्मके उदयसे इनकी उत्पत्ति होती है और बुद्धिकी अपेक्षा सब समान होते हैं ॥८८॥

अथानन्तर चौदहवें कुलकर नाभिराजके समयमें सब कल्प वृक्ष नष्ट हो गये। केवल इन्हींके क्षेत्रके मध्यमें स्थित एक कल्प वृक्ष रह गया जो प्रासाद अर्थात् भवनके रूपमें स्थित था और अत्यन्त ऊँचा था ॥८९॥ उनका वह प्रासाद मोतियोंकी मालाओंसे व्याप्त था, सुवर्ण और रत्नोंसे उसकी दीवाले बनी थीं, वापी और बगीचासे सुशोभित था तथा पृथिवीपर एक-अद्वितीय ही था ॥९०॥ नाभिराजके हृदयको हरनेवाली मरुदेवी नामकी उत्तम रानी थी। जिस प्रकार चन्द्रमाकी भार्या रोहिणी प्रचलत्तारका अर्थात् चञ्चल तारा रूप होती है उसी प्रकार मरुदेवी भी प्रचलत्तारका थी अर्थात् उसकी आँखोंकी पुतली चञ्चल थी ॥९१॥ जिस प्रकार समुद्रकी स्त्री गङ्गा महाभूभृत्कुलोद्भवा है अर्थात् हिमगिरि नामक उच्च पर्वतके कुलमें उत्पन्न

१. तत्रार्य ख०। २. तीव्रगुरेव म०। ३. गगनामरैः ख०। ४. भीतिताम् म०। ५. इत्युक्तास्त समाभ्यर्च्य म०। ६. समाधिय. म०। ७. नाभिरस्य क०।

अरुन्धतीव नाथस्य नित्यं पाष्वांनुवर्तिनी । हसीव गमने वाचि परपुष्टवधूसमा ॥६३॥
 चक्राह्वेव पतिप्रीतावित्यादिसमुदाहनम् । या प्रति प्रतिपद्येत सर्वं हीनोपमानताम् ॥६४॥
 पूजिता सर्वलोकस्य मरुदेवीति विश्रुता । यथा त्रिलोकवन्द्यस्य धर्मस्य श्रुतदेवता ॥६५॥
 ऊष्माभावेन या चन्द्रकलाभिरिव निर्मिता । दर्पणश्रीजिर्गापेव प्रतिपाणिगृहीतिपु ॥६६॥
 निर्मितात्मस्वरूपेव परचित्तप्रतीतिपु । सिद्धजीवस्वभावेव त्रिलोकन्यासकर्मणि ॥६७॥
 पुण्यवृत्तितया जैन्या श्रुत्येव परिकल्पिता । अमृतान्मेव नृप्यत्सु भृत्येषु वसुवृष्टिवत् ॥६८॥
 सखीपु निर्वृतेस्तुल्या विलासान्मदिरात्मिका । रूपस्य परमावस्था रतेरिव तनुस्थितिः ॥६९॥
 मण्डन मुण्डमालाया यस्याश्वश्रुरभूद् वरम् । असितोत्पलदामानि केवलं भारमात्रकम् ॥१००॥
 अलकभ्रमरा एव भूषा भालान्तयोः सदा । दलानि तु तमालस्य पुनरुत्तानि केवलम् ॥१०१॥
 प्राणेशसकथा एव सुभग कर्णभूषणम् । डम्बरो रत्नक्नककुण्डलादिपरित्रहः ॥१०२॥
 कपोलावेव सतत स्फुटालोकस्य कारणम् । रत्नप्रभाप्रदीपास्तु विभवायैव केवलम् ॥१०३॥

हुई है उसी प्रकार मरुदेवी भी महाभूत्कुलोद्भूता अर्थात् उत्कृष्ट राजवंशमे उत्पन्न हुई थी और राजहसकी स्त्री जिस प्रकार मानसानुगमक्षमा अर्थात् मानस सरोवरकी ओर गमन करनेमें समर्थ रहती है उसी प्रकार मरुदेवी भी मानसानुगमक्षमा अर्थात् नाभिराजके मनके अनुकूल प्रवृत्ति करनेमें समर्थ थी ॥६२॥ जिस प्रकार अरुन्धती सदा अपने पतिके पास रहती थी उसी प्रकार मरुदेवी भी निरन्तर पतिके पास रहती थी । वह गमन करनेसे हंसीके समान थी और मधुर वचन बोलनेमें कोयलके अनुरूप थी ॥६३॥ वह पतिके साथ प्रेम करनेमें चक्रीके समान थी इत्यादि जो कहा जाता है वह सब मरुदेवीके प्रति हीनोपमा दोषको प्राप्त होता है ॥६४॥ जिस प्रकार तीनों लोकोके द्वारा वन्दनीय धर्मकी भार्या श्रुतदेवताके नामसे प्रसिद्ध है उसी प्रकार नाभिराजकी वह भार्या मरुदेवी नामसे प्रसिद्ध थी तथा समस्त लोकोके द्वारा पूजनीय थी ॥६५॥ उसमें रत्न मात्र भी ऊष्मा अर्थात् क्रोध या अहंकारकी गर्मी नहीं थी इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो चन्द्रमाकी कलाओंसे ही उसका निर्माण हुआ हो । उसे प्रत्येक मनुष्य अपने हाथमें लेना चाहता था—स्वीकृत करना चाहता था इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो दर्पणकी शोभाको जीतना चाहती हो ॥६६॥ वह दूसरेके मनोगत भावको समझने वाली थी इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो आत्मासे ही उसके स्वरूपकी रचना हुई हो । उसके कार्य तीनों लोकोंमें व्याप्त थे इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो मुक्त जीवके समान ही उसका स्वभाव था ॥६७॥ उसकी प्रवृत्ति पुण्य रूप थी इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनवाणीसे ही उसकी रचना हुई हो । वह वृष्णासे भरे भृत्योंके लिए धनवृष्टिके समान थी इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो अमृत स्वरूप ही हो ॥६८॥ सखियोंको सन्तोष उपजानेवाली थी इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो निर्वृति अर्थात् मुक्तिके समान ही हो । उसका शरीर हाव-भाव-विलाससे सहित था इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो मदिरा स्वरूप ही हो । वह सौन्दर्यकी परम काष्ठाको प्राप्त थी अर्थात् अत्यन्त सुन्दरी थी इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो रतिकी प्रतिमा ही हो ॥६९॥ उसके मस्तकको अलंकृत करनेके लिए उसके नेत्र ही पर्याप्त थे, नील कमलोकी सालाएँ तो केवल भार म्बरूप ही थीं ॥१००॥ भ्रमरके समान काले केश ही उसके ललाटेके दोनों भागोंके आभूषण थे, तमालपुष्पकी कलिकाएँ तो केवल भार मात्र थीं ॥१०१॥ प्राणवल्लभकी कथा-वार्ता सुनना ही उसके कानोंका आभूषण था, रत्न तथा सुवर्णके कुण्डल आदिका धारण करना आडम्बर मात्र था ॥१०२॥ उसके दोनों कपोल ही निरन्तर स्पष्ट प्रकाशके कारण

हामा एव च सङ्गन्धाः पटवासाः सितन्विपः । कर्पूरपांशवः कान्तिव्याघातायैव केवलम् ॥१०३॥
 वाप्येव मथुरा वीणा वाद्यश्रुतिकुतूहलम् । कृत तु परिवर्गेण तन्त्रीनिकरताडनम् ॥१०५॥
 कान्तिरेवायरोद्भूता रागोऽङ्गस्य समुज्ज्वल । निर्गुणः कौङ्कुमः पङ्को लावण्यस्य कलङ्कनम् ॥१०६॥
 परिहासप्रहाराय भुजात्रेव सुकोमलौ । प्रयोजनमतीतानि मृणालशकलानि तु ॥१०७॥
 यौवनोष्णसमुद्भूता मण्डन स्वेदत्रिन्दवः । कुचयोर्हारभारस्तु वृथैव परिकल्पित ॥१०८॥
 शिलातलत्रिणाला च श्रोणी विस्मयकारणम् । 'निमित्तेन विना जाता भवने मणिवेदिका ॥१०९॥
 भूपण भ्रमरा एव निलीना कमलाशया । पादयोरैन्द्रनीले च नूपुरे निःप्रयोजने ॥११०॥
 तस्या नाभिसमेताया भोग कल्पतरुद्भवम् । भुज्जानाया दुराख्यान ग्रन्थकोटिशतैरपि ॥१११॥
 इन्द्राज्ञापरितुष्टाभिर्द्विकुमारीभिरादरात् । कस्मिंश्चित्समये प्रौढे परिचर्या प्रवर्तिता ॥११२॥
 नन्दाज्ञापय जीवेति कृतशब्दाः ससभ्रमम् । प्रतीयुः शासन तस्या लक्ष्मीश्रीधृतिकीर्तयः ॥११३॥
 स्तुवन्ति काश्चित्तत्काले तां गुणैर्हृदयगमैः । काश्चित्परमविज्ञाना उपगायन्ति वीणया ॥११४॥
 अत्यन्तमद्भुत काश्चिद्गायन्ति श्रवणामृतम् । पादयोर्लोटेन काश्चित्कुर्वते मृदुपाणिका ॥११५॥
 ताम्बूलदायिनी काचित्काचिदासनदायिनी । मण्डलाग्ररूपा काचित् सतत पालनोद्यता ॥११६॥
 काश्चिदभ्यन्तरद्वारे बाह्यद्वारे तथा परा । गृहीतकुन्तसोवर्णवेत्रदण्डासिहेतय ॥११७॥

थे, रत्नमय दीपकोकी प्रभा केवल वैभव वतलानेके लिए ही थी ॥१०३॥ उसकी मन्द मुसकान ही उत्तम गन्धसे युक्त सुगन्धित चूर्ण थी, कपूरकी सफेद रज केवल कान्तिको नष्ट करने वाली थी ॥१०४॥ उसकी वाणी ही मधुर वीणा थी, परिकरके द्वारा किया हुआ जो वाजा सुननेका कौतूहल था वह मात्र तारोके समूहको ताडन करना था ॥१०५॥ उसके अधरोष्ठसे प्रकट हुई कान्ति ही उसके शरीरका देदीप्यमान अङ्गराग था । कुङ्कुम आदिका लेप गुणरहित तथा सौन्दर्यको कलङ्कित करनेवाला था ॥१०६॥ उसकी कोमल भुजाएँ ही परिहासके समय पतिपर प्रहार करनेके लिए पर्याप्त थीं, मृणालके टुकड़े निष्प्रयोजन थे ॥१०७॥ यौवनकी गरमीसे उत्पन्न हुई पसीनेकी वूँटें ही उसके दोनो स्तनोका आभूषण थीं, उनपर हारका बोझ तो व्यर्थ ही डाला गया था ॥१०८॥ शिलातलके समान विशाल उसकी नितम्बस्थली ही आश्चर्यका कारण थी, महलके भीतर जो मणियोंकी वेदी बनाई गई थी वह विना कारण ही बनाई गई थी ॥१०९॥ कमल समझकर बैठे हुए भ्रमर ही उसके दोनो चरणोंके आभूषण थे, उनमें जो इन्द्रनील मणिके नूपुर पहिनाये गये थे वे व्यर्थ थे ॥११०॥ नाभिराजके साथ, कल्पवृक्षसे उत्पन्न हुए भोगोको भोगनेवाली मरुदेवीके पुण्यवैभवका वर्णन करना करोड़ों ग्रन्थोंके द्वारा भी अशक्य है ॥१११॥

जब भगवान् ऋषभदेवके गर्भावतारका समय प्राप्त हुआ तब इन्द्रकी आज्ञासे सन्तुष्ट हुई द्विकुमारी देवियों वड़े आदरसे मरुदेवीकी सेवा करने लगीं ॥११२॥ 'वृद्धिको प्राप्त होओ, 'आज्ञा देओ' 'चिरकाल तक जीवित रहो' अत्यादि शब्दोंको सम्भ्रमके साथ उच्चारण करनेवाली लक्ष्मी श्री धृति और कीर्ति आदि देवियों उसकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करने लगीं ॥११३॥ उस समय कितनी ही देवियों हृदयहारी गुणोंके द्वारा उसकी स्तुति करती थीं, और उत्कृष्ट विज्ञानसे सम्पन्न कितनी ही देवियों वीणा बजाकर उसका गुणगान करती थी ॥११४॥ कोई कानोके लिए अमृतके समान आनन्द देनेवाला आश्चर्यकारक उत्तम गान गाती थीं और कोमल हाथोंवाली कितनी ही देवियों उसके पैर पलोटती थीं ॥११५॥ कोई पान देती थीं, और कोई आसन देती थी और कोई तलवार हाथमें लेकर सदा रक्षा करनेमें तत्पर रहती थी ॥११६॥ कोई महलके भीतर ही द्वारपर और कोई महलके बाहरी द्वारपर भाला, सुवर्णकी छड़ी, दण्ड और तलवार आदि हथि-

चामरग्राहिणी काचिन्काचिच्छत्रस्य धारिका । आनेत्री वाससां काचिद् भूयणानां ततः परा ॥११८॥
 गयनीयविधौ काचित् सक्ता सन्मार्जने परा । पुष्पप्रकरणे काचिन्काचिद्गन्धानुलेपने ॥११९॥
 पानाशनविधौ काचित् कान्दिडाह्वानकर्मणि । एत्र कर्तव्यतां तस्याः सर्वाः कुर्वन्ति देवताः ॥१२०॥
 चिन्ताया अपि न क्लेशं प्रपेदे नृपवल्लभा । अन्यदा शयनीये स्वे सुप्ता सान्यन्तकोमले ॥१२१॥
 पट्टांशुकपरिच्छन्ने प्रान्तयो नोपधानके । तस्या मध्ये सुखं लब्धा स्वपुण्यपरिपाकतः ॥१२२॥
 गृहीतामलग्नामिदंैवामिः पर्युपामिता । अद्रानीत् पौडश स्वप्नानिति श्रेयोविधायिनः ॥१२३॥
 कटच्युतदानाम्बुगन्धसंभ्रष्टपद्मम् । वाणं चन्द्रधवल मन्द्रगर्जितकारणम् ॥१२४॥
 वृषभ दुन्दुभिस्त्रन्वं दधत् कंजुदं शुभम् । नदन्तं शरदम्भोदसघाताकारधारिणम् ॥१२५॥
 गीतांशुकिरणश्वेतकेशरालीविराजितम् । शशिरेखासदृशद्राद्वन्द्वयुक्त मृगाधिपम् ॥१२६॥
 सिच्यमानां श्रियं नागं कुम्भैः सौवर्णराजितैः । उत्फुल्लपुण्डरीकस्य स्थितामुपरि निश्चलाम् ॥१२७॥
 पुत्रागमालतीकुन्दचम्पकाद्रिप्रकल्पिते । नितान्तं दामनी दीर्घे सौरभाकृष्टपद्मे ॥१२८॥
 उदयाचलमूर्द्धस्थं प्रध्वस्ततिमिरोद्भवम् । विश्रब्धदर्शनं भानुं मुक्तं मेघाद्युपद्रवैः ॥१२९॥
 बन्धुं कुमुदखण्डानां मण्डनं रात्रियोपित । धवलीकृतसर्वांगं किरणस्तारकापत्तिम् ॥१३०॥
 अन्योन्यप्रेमसम्बन्धं प्रस्फुरद्विमले जले । त्रिद्युहण्डममाकार मीनयोर्युगलं शुभम् ॥१३१॥

चार लेकर पहरा देती थी ॥११७॥ कोई चमर ढोलती थी, कोई बस्त्र लाकर देती थी और कोई
 आभूषण लाकर उपस्थित करती थी ॥११८॥ कोई शय्या विछानेके कार्यमें लगी थी, कोई बुहा-
 रनेके कार्यमें तत्पर थी, कोई पुष्प विखेरनेमें लीन थी और कोई सुगन्धित द्रव्यका लेप लगानेमें
 व्यस्त थी ॥११९॥ कोई भोजन-पानके कार्यमें व्यग्र थी और कोई बुलाने आदिके कार्यमें लीन
 थी । इस प्रकार समस्त देवियों उसका कार्य करती थीं ॥१२०॥ इस प्रकार नाभिराजकी प्रिय-
 वल्लभा महदेवीको किसी बातकी चिन्ताका क्लेश नहीं उठाना पड़ता था अर्थात् विना चिन्ता
 किये ही समस्त कार्य सम्पन्न हो जाते थे । एक दिन वह चीनवस्त्रसे आच्छादित तथा जिसके
 दोनों ओर तकिया रखे हुए थे, ऐसी अत्यन्त कोमल शय्यापर सो रही थी और उसके बीच
 अपने पुण्यकर्मके उदयसे सुखका अनुभव कर रही थी ॥१२१-१२२॥ निर्मल शस्त्र लेकर देवियों
 उसकी सेवा कर रही थीं उसी समय उसने कल्याण करनेवाले निम्नलिखित सोलह स्वप्न देखे
 ॥१२३॥ पहले स्वप्नमें गणस्थलसे च्युत मद्जलकी गन्धसे जिसपर भ्रमर लगा रहे थे ऐसा तथा
 चन्द्रमाके समान सफेद और गम्भीर गर्जना करनेवाला हार्थी देखा ॥१२४॥ दूसरे स्वप्नमें ऐसा
 बँल देखा जिसका कि स्कन्ध दुन्दुभिनामक वाजेके समान था, जो शुभ कान्दीलको धारण कर
 रहा था, शब्द कर रहा था और शरद्भ्रतुके मेघ समूहके समान आकारको धारण करनेवाला
 था ॥१२५॥ तीसरे स्वप्नमें चन्द्रमाकी किरणोंके समान धवल सटाओंके समूहसे सुशोभित एवं
 चन्द्रमाकी रेखाके समान दोनों दाँड़ोंसे युक्त सिंहको देखा ॥१२६॥ चौथे स्वप्नमें हाथी, सुवर्ण
 तथा चोँदीके कलशोंसे जिसका अभिषेक कर रहे थे, तथा जो फूले हुए कमलपर निश्चल बैठी हुई
 थी ऐसी लक्ष्मी देखी ॥१२७॥ पाँचवें स्वप्नमें पुन्नाग, मालती, कुन्द तथा चम्पा आदिके फूलोंसे
 निर्मित और अपनी सुगन्धिसे भ्रमरोंको आकृष्ट करनेवाली दो बहुत बड़ी मालाएँ देखीं ॥१२८॥
 छठवें स्वप्नमें उदयाचलके मस्तकपर स्थित, अन्धकारके समूहको नष्ट करनेवाला, एवं मेघ आदिके
 उण्डवोंसे रहित, निर्भय दर्शनको देनेवाला सूर्य देखा ॥१२९॥ सातवें स्वप्नमें ऐसा चन्द्रमा
 देखा कि जो कुमुदोंके समूहका बन्धु था—उन्हें विकसित करनेवाला था, रात्रिरूपी स्त्रीका मानों
 आभूषण था, किरणोंके द्वारा समस्त दिशाओंको सफेद करनेवाला था और ताराओंका पति
 था ॥१३०॥ आठवें स्वप्नमें जो परस्परके प्रेमसे सम्बद्ध थे, निर्मल जलमें तैर रहे थे, विजलीके

१. शयने च स्वे क० । २. म पुस्तके अनयोः श्लोकयोः क्रमभेदोऽस्ति । ३. क्लृमम् म० ।

हारोपशोभितग्रीवं पुष्पमालापरिष्कृतम् । मणिभिः कलशं पूर्णं पञ्चवर्णं समुज्ज्वलम् ॥१३२॥
 पञ्चेन्द्रीवरसङ्घं विमलाम्बुमहासरं । नानापद्मिगणाकीर्णं चारुसोपानमण्डितम् ॥१३३॥
 चलन्मीनमहानक्रजनि तोत्तङ्गवीचिकम् । मेघपक्तिसमासक्तं नभस्तुल्यं नदीपतिम् ॥१३४॥
 माटोपहरिभिर्युक्तं नानारत्नसमुज्ज्वलम् । चामीकरमयं चारुं विष्टरं दूरमुन्नतम् ॥१३५॥
 सुमेरुशिखराकारं सुमानं रत्नराजितम् । विमानं बुद्धुदादर्शं चामरादिविभूषणम् ॥१३६॥
 कल्पद्रुमगृहाकारं भावनं बहुभूमिकम् । मुक्तादामकृतच्छायं रत्नाशुपटलावृतम् ॥१३७॥
 पञ्चवर्णमहारत्नरागिमत्यन्तमुन्नतम् । अन्योऽन्यकिरणोद्योतजनितेन्द्रशरासनम् ॥१३८॥
 ज्वालाजटालमनलं धूमसम्भववर्जितम् । प्रदक्षिणकृतावर्तमनिन्धनसमुद्भवम् ॥१३९॥
 अनन्तरं च स्वप्नानां दर्शनाच्चारुदर्शना । सा प्रबोधं समायाता जयमङ्गलनिस्वनैः ॥१४०॥
 त्वद्वक्त्रकान्तिसम्भूतत्रयैव निशाकरं । एष सम्प्रति सञ्जातः क्षायया परिवर्जितः ॥१४१॥
 अयं भाति सहस्राशुरुद्रयाचलमस्तके । कलशो मङ्गलार्थं च सिन्दूरेणैव गुण्ठितः ॥१४२॥
 सम्प्रति त्वत्सितेनैव तिमिरं यास्यति क्षयम् । इतीव स्वस्य वैयर्थ्यात् प्रदीपाः पाण्डुतां गता ॥१४३॥
 कुलमेतच्छकुन्तानां कलकोलाहलाकुलम् । मङ्गलं ते करोतीव निजनीडसुखस्थितम् ॥१४४॥
 अमीं प्रभातवातेन जडमन्देन सगताः । निद्रागेषाद्विवेदानीं घूर्णन्ते गृहपादपाः ॥१४५॥

दण्डके समान जिनका आकार था ऐसे मीनोका शुभ जोड़ा देखा ॥१३१॥ नौवें स्वप्नमें जिसकी ग्रीवा हारसे सुशोभित थी, जो फूलोंकी मालाओंसे सुसज्जित था और जो पञ्चवर्णके मणियोंसे भरा हुआ था, ऐसा उज्ज्वल कलश देखा ॥१३२॥ दशवें स्वप्नमें कमलो और नील कमलोंसे आच्छादित, निर्मल जलसे युक्त, नाना पद्मियोंसे व्याप्त तथा सुन्दर सीढ़ियोंसे सुशोभित विशाल सरोवर देखा ॥१३३॥ ग्यारहवें स्वप्नमें, चलते हुए मीन और वड़े-वड़े नक्रोंसे जिनमें ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही थीं, जो मेघोंसे युक्त था तथा आकाशके समान जान पड़ता था ऐसा सागर देखा ॥१३४॥ बारहवें स्वप्नमें वड़े-वड़े सिंहोंसे युक्त, अनेक प्रकारके रत्नोंसे उज्ज्वल, सुवर्णनिर्मित, बहुत ऊँचा सुन्दर सिंहासन देखा ॥१३५॥ तेरहवें स्वप्नमें ऐसा विमान देखा कि जिसका आकार सुमेरु पर्वतकी शिखरके समान था, जिसका विस्तार बहुत था, जो रत्नोंसे सुशोभित था तथा गोले दर्पण और चमर आदिसे विभूषित था ॥१३६॥ चौदहवें स्वप्नमें ऐसा भवन देखा कि जिसका आकार कल्पवृक्षनिर्मित प्रासादके समान था, जिसके अनेक खण्ड थे, मोतियोंकी मालाओंसे जिसकी शोभा बढ़ रही थी और जो रत्नोंकी किरणोंके समूहसे आवृत था ॥१३७॥ पन्द्रहवें स्वप्नमें, परस्पर की किरणोंके प्रकाशसे इन्द्रधनुषको उत्पन्न करने वाली, अत्यन्त ऊँची पाँच प्रकारके रत्नोंकी राशि देखी ॥१३८॥ और सोलहवें स्वप्नमें ज्वालाओंसे व्याप्त, धूमसे रहित, दक्षिण दिशाकी ओर आवर्त ग्रहण करने वाली एवं ईन्धनमें रहित अग्नि देखी ॥१३९॥ स्वप्न देखनेके बाद ही सुन्दराङ्गी मरुदेवी वन्दीजनोकी मङ्गलमय जय-जयध्वनिसे जाग उठी ॥१४०॥ उस समय वन्दीजन कह रहे थे कि हे देवि ! यह चन्द्रमा तुम्हारे मुखकी कान्तिसे उत्पन्न हुई लज्जाके कारण ही इस समय क्षायया अर्थान् कान्तिसे रहित हो गया है ॥१४१॥ उदयाचलके शिखर पर यह सूर्य ऐसा जान पड़ता है मानो मङ्गलके लिए सिन्दूरसे अनुरजित कलश ही हो ॥१४२॥ इस समय तुम्हारी मुसकानसे ही अन्धकार नष्ट हो जावेगा इसलिए दीपक मानो अपने आपकी व्यर्थताका अनुभव करते हुए ही ही निष्प्रभ हो गये हैं ॥१४३॥ यह पद्मियोंका समूह अपने घोंसलोंमें सुखसे ठहरकर जो मनोहर कोलाहल कर रहा है सो ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारा मङ्गल ही कर रहा है ॥१४४॥ ये घर के वृक्ष प्रातःकालकी शीतल और मन्द वायुसे संगत हो कर ऐसे जान पड़ते हैं मानो अवशिष्ट

१. बुद्धुदादर्शं म० । २. सिन्दूरेणैव म० । ३. त्वत्सितेनैव म० । ४. सुखस्थितम् म० ।

एपापि गृहवाप्यन्ते भानुविम्बावलोकनात् । हृष्टाह्वयति जीवेश चक्रवाकी कलस्वनम् ॥१४६॥
 त्वद्गतिप्रेक्षणैते कृतोत्कण्ठा इवाधुना । कुर्वन्ति कृजित हसा निद्रानिर्वासकारणम् ॥१४७॥
 उल्लिख्यमानकसोत्थनिःस्वनप्रतिमो महान् । अल सारसचक्राणां क्रेङ्कारोऽयं विराजते ॥१४८॥
 निशान्त इत्ययं स्पष्टो जातो निर्मलचेष्टिते । देवि मुञ्चाधुना निद्रामिति वन्दिकृतस्तवा ॥१४९॥
 अमुञ्चच्छयनीयञ्च समुद्धूततरङ्गकम् । सुमनोभि समाकीर्णं साभ्रतारं नभसमम् ॥१५०॥
 वासगेहाच्च निःक्रान्ता प्रत्यान्मकृतकर्मिका । ययौ नाभिसमीपं सा दिनश्रीरिव भास्करम् ॥१५१॥
 भद्रासननिविष्टाय तस्मै खर्वासनस्थिता । कराभ्यां कुङ्कुमल कृत्वा क्रमात् स्वप्नान्यवेदयत् ॥१५२॥
 इति चिन्ताप्रमोदेन परायत्तीकृतः पतिः । जगाद त्वधि सभूतस्त्रैलोक्यस्य गुरुः शुभे ॥१५३॥
 इत्युक्त्वा सा पर हर्षं जगाम कमलेक्षणा । मूर्तिरिन्दोरिवोदारा दधती कान्तिसहतीः ॥१५४॥
 सभविष्यति पण्मासाजिने शक्राज्ञयामुचत् । रत्नवृष्टिं धनाधीशो मासान्पञ्चदशादतः ॥१५५॥
 तस्मिन् गर्भस्थिते यस्माज्जाता वृष्टिर्हिरण्यमी । हिरण्यगर्भनाम्नासौ स्तुतस्तस्मात् सुरेश्वरैः ॥१५६॥
 ज्ञानैर्जिनस्त्रिभिर्युक्तः कुबौ तस्याश्चचाल न । माभूत् सचलनादस्याः पीडेति कृतमानसः ॥१५७॥
 यथा दर्पणसक्रान्तछायामात्रेण पावकः । आघाता न विकारस्य तथा तस्या बभूव सः ॥१५८॥

निद्राके कारण ही मूढ रहे है ॥१४५॥ घरकी बावड़ीके समीप जो यह चकवी खड़ी है वह सूर्यका विम्ब देख कर हर्षित होती हुई मधुर शब्दोंसे अपने प्राणवल्लभको बुला रही है ॥१४६॥ ये हंस तुम्हारी सुन्दर चालको देखनेके लिए उत्कण्ठित हो रहे है इसीलिए मानो इससमय निद्रा दूर करनेके लिए मनोहर शब्द कर रहे हैं ॥१४७॥ जिसकी तुलना उकेरे जाने वाले कांसेसे उत्पन्न शब्दके साथ ठीक बैठती है ऐसे यह सारस पक्षियोंका क्रेङ्कार शब्द अत्यधिक सुशोभित हो रहा है ॥१४८॥ हे निर्मल चेष्टाकी धारक देवि ! अब स्पष्ट ही प्रातःकाल हो गया है इसलिए इससमय निद्राको छोड़ो । इसतरह वन्दीजन जिसकी स्तुति कर रहे थे ऐसी मरुदेवीने, जिसपर चहरकी सिकुड़नसे मानो लहरे उठ रही थीं तथा जो फूलोंसे व्याप्त होनेके कारण मेघ और नक्षत्रोंसे युक्त आकाशके सामन जान पड़ती थी, ऐसी शय्या छोड़ दी ॥१४९-१५०॥ निवासगृहसे निकल कर जिसने समस्त कार्य सम्पन्न किये थे ऐसी मरुदेवी नाभिराजके पास इस तरह पहुँची जिस तरह कि दिनकी लक्ष्मी सूर्यके पास पहुँचती है ॥१५१॥ वहाँ जाकर वह नीचे आसन पर बैठी और उत्तम सिंहासन पर आरूढ हृदयवल्लभके लिए हाथ जोड़कर क्रमसे स्वप्न निवेदित करने लगी ॥१५२॥ इस प्रकार रानीके स्वप्न सुन कर हर्षसे विवश हुए नाभिराजने कहा कि हे देवि ! तुम्हारे गर्भमे त्रिलोकीनाथने अवतार ग्रहण किया है ॥१५३॥ नाभिराजके इतना कहते ही कमललोचना मरुदेवी परम हर्षको प्राप्त हुई और चन्द्रमाकी उत्कृष्ट मूर्तिके समान कान्तिके समूहको धारण करने लगी ॥१५४॥ जिनेन्द्र भगवान्के गर्भस्थ होनेमे जब छह माह बाकी थे तभीसे इन्द्रकी आज्ञानुसार कुवेरने बड़े आदरके साथ रत्नवृष्टि करना प्रारम्भ कर दिया था ॥१५५॥ चूंकि भगवान्के गर्भस्थित रहते हुए यह पृथिवी सुवर्णमयी हो गई थी इसलिए इन्द्रने 'हिरण्यगर्भ' इस नामसे उनकी स्तुति की थी ॥१५६॥ भगवान्, गर्भमे भी मति श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोंसे युक्त थे तथा हमारे हलन चलनसे माताको कष्ट न हो इस अभिप्रायसे वे गर्भमे चल-विचल नहीं होते थे ॥१५७॥ जिस प्रकार दर्पणमे अग्निकी छाया पड़नेसे कोई विकार नहीं होता है उसी प्रकार भगवान्के गर्भमे स्थित रहते हुए भी माता मरुदेवीके शरीरमे कुछ भी विकार नहीं हुआ था ॥१५८॥

१ एषा त्वद्गृहवाप्यन्ते म० । २. कलस्वनैः म० । ३. भ्रकारोऽयं म० । ४. विराजितः म० ।
 ५. ज्योतिर्निर्मल म० । ६. तारा म० । ७. कर्मका क० । ८. स्वप्नान्यवेदयत् म० । ९. सहितम् क० ।
 १०. पद्मास्ये जिने क० । ११. मासात्पञ्च दशादितः म० ।

निश्चक्राम ततो गर्भात् पूर्णं काले जिनोत्तम । मलस्पर्शविनिर्मुक्तः स्फोटिकादिव सन्नतः ॥१५६॥
 ततो महोत्सवश्चक्रे नाभिना सुतजन्मनि । समानन्दितनिःशेषजनो युक्त्या यथोक्त्या ॥१६०॥
 त्रैलोक्यं शोभमायातमैन्द्र कम्पितमासनम् । सुरासुराश्च सजाताः किंकिमेतदितिस्त्वना ॥१६१॥
 अनाध्मातस्ततः शङ्खो दध्वान भवनश्रिताम् । व्यन्तराधिपगोहेषु रराट पटहः स्वयम् ॥१६२॥
 ज्योतिषा निलये जातमकस्मात् सिंहवृहितम् । कल्पाधिपगृहे स्पष्ट घण्टारत्न रैराण च ॥१६३॥
 एवविधशुभोत्पातैर्जाततीर्थकरोद्भवा । प्रचलद्भिः किरीटैश्च प्रयुक्तावधयस्ततः ॥१६४॥
 प्रातिष्ठन्त महोत्साहा इन्द्रा नाभीयमालयम् । वारणेन्द्रसमारूढाः कृतमण्डनविग्रहा ॥१६५॥
 ततः कन्दर्पिणः क्वेचित् सुरा नृत्यं प्रचक्रिरे । चक्रुरास्फोटन क्वेचिद् वलानां केचिदुन्नतम् ॥१६६॥
 क्वेचित् केसरिणो नाद सुसुच्युर्वासविष्टपम् । विकुर्वन्ति बहून् वेपान् केचित् केचिज्जगुर्वरम् ॥१६७॥
 उत्पतद्भिः पतद्भिश्च ततो देवैरिदं जगत् । महारावसमापूर्णं स्थानभ्रशमिवागतम् ॥१६८॥
 ततः साकेतनगर धनटेन विनिर्मितम् । विजयाद्दंनगाकारप्राकारेण समावृतम् ॥१६९॥
 पातालोदरगम्भीरपरिखाकृतवेष्टनम् । तुङ्गगोपुरकूटाग्रदूरनष्टान्तरिक्षकम् ॥१७०॥
 नानारत्नकरोद्योतपटप्रावृतसद्यकम् । इन्द्राः क्षणेन सप्राप्तुर्महाभूतिसमन्विताः ॥१७१॥
 पुर प्रदक्षिणीकृत्य त्रिः शक्रः सहितोऽभरैः । प्रविष्टः प्रसवागारात् पौलोम्यानां ययजिनम् ॥१७२॥

जब समय पूर्ण हो चुका तब भगवान् मलका स्पर्श किये बिना ही गर्भसे इस प्रकार बाहर निकले जिस प्रकार कि किसी स्फटिकमणि निर्मित घरसे बाहर निकले हो ॥१५६॥

तदनन्तर—नाभिराजने पुत्र जन्मका यथोक्त महोत्सव किया जिससे समस्त लोग हर्षित हो गये ॥१६०॥ तीन लोक क्षोभको प्राप्त हो गये, इन्द्रका आसन कम्पित हो गया और समस्त सुर तथा असुर 'क्या है ?' यह शब्द करने लगे ॥१६१॥ उसी समय भवनवासी देवोंके भवनोमे बिना वजाये ही शङ्ख वजने लगे, व्यन्तरोंके भवनोमे अपने आप ही भेरियोंके शब्द होने लगे, ज्योतिषी देवोंके घरमें अकस्मात् सिंहोंकी गर्जना होने लगी और कल्पवासी देवोंके घरोंमे अपने-अपने घण्टा शब्द करने लगे ॥१६२-१६३॥ इस प्रकारके शुभ उत्पातोसे तथा मुकुटोंके नम्रीभूत होनेसे इन्द्राने अवधिज्ञानका उपयोग किया और उसके द्वारा उन्हें तीर्थकरके जन्मका समाचार विदित हो गया ॥१६४॥ तदनन्तर जो बहुत भारी उत्साहसे भरे हुए थे तथा जिनके शरीर आभूषणोंसे जगमगा रहे थे ऐसे इन्द्रने गजराज—ऐरावत हाथीपर आरूढ़ होकर नाभिराजके घरकी ओर प्रस्थान किया ॥१६५॥ उस समय कामसे युक्त कितने ही देव नृत्य कर रहे थे, कितने ही तालियों वजा रहे थे, कितने ही अपनी सेनाको उन्नत बना रहे थे, कितने ही समस्त लोकमें फैलनेवाला सिंहनाद कर रहे थे, कितने ही विक्रियासे अनेक वेप बना रहे थे, और कितने ही उत्कृष्ट गाना गा रहे थे ॥१६६-१६७॥ उस समय बहुत भारी शब्दोंसे भरा हुआ यह संसार ऊपर जानेवाले और नीचे आनेवाले देवोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो स्वकीय स्थानसे भ्रष्ट ही हो गया हो ॥१६८॥ तदनन्तर कुचेरने अयोध्या नगरीकी रचना की । वह अयोध्यानगरी विजयार्ध पर्वतके समान आकारवाले विशाल कोटसे घिरी हुई थी ॥१६९॥ पाताल तक गहरी परिखा उसे चारों ओरसे घेरे हुए थी और ऊँचे-ऊँचे गोपुरोंके शिखरोंके अग्रभागसे वहाँका आकाश दूर तक विदीर्ण हो रहा था ॥१७०॥ महाविभूतिसे युक्त इन्द्र क्षणभरमे नाभिराजके उस घर जा पहुँचे जो कि नाना रत्नोंकी किरणोंके प्रकाशरूपी वल्लसे आवृत था ॥१७१॥ इन्द्रने पहले देवोंके साथ-साथ नगरकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं । फिर नाभिराजके घरमें प्रवेश किया और तदनन्तर

१. स्फटिकादिव म० । २. व्यन्तराधिपतेर्गंहे म० । ३. रराव च ख० । ४. नृत ख०, म० । ५. ब्रलान ख०, म० । ६. नादान् म० । ७. विष्टपान् म० । ८. वराम् म० । ९. नापयजिनम् म० ।

जिनमानुस्ततः कृत्वा मायाबालं प्रणामिनी । बालमानीय गक्रत्य गर्वा चक्रे वरद्वये ॥१७२॥
 रूपं पश्यन् जिनस्यासौ महन्नयनोऽपि सन् । तृप्तिमिन्द्रो न संप्राप त्रैलोक्यातिगयस्यितम् ॥१७३॥
 ततस्तमद्भमारोप्य समारुह्य गजगधिपम् । गृहानचामरच्छत्रो भक्त्या परमया स्वयम् ॥१७४॥
 अवाप मेरुगिन्नरं सर्वैर्देवैः ममन्वितः । वैदूर्यादिमहारत्नमरीचिनिचयोञ्जलम् ॥१७५॥
 पाण्डुकन्वलमज्ञायां गिलायां सिंहविष्टरे । ततो जिन सुरेशेन स्थापितं पृष्ठवर्तिना ॥१७६॥
 ततः समाहता^१ मेरुः क्षुब्धसागरनिःस्वना । मृदङ्गशङ्खगन्धर्वसाट्टहासाः कृता सुरैः ॥१७७॥
 यन्त्रकिन्नरगन्धर्वाः मह तुम्बुरुनारदाः । विश्वावसुममायुक्ताः कुर्वाणा मूर्च्छना^२ वैरा ॥१७८॥
 गायन्ति मह पर्नीभिर्मनःश्रोत्रहरं तदा । वीणावादनमारब्धा^३ कर्तुं लक्ष्मीञ्च सादरा ॥१७९॥
 हावभावसमेताञ्च नृत्यन्त्यप्सरसो वरम् । अङ्गहारं यथावस्तु कुर्वाणा कृतभूषणा ॥१८०॥
 एवं तत्र महातोषे जनितेऽमरमत्तमैः । अभिषेकाय देवेन्द्रो जग्राह कलशं शुभम् ॥१८१॥
 ततः श्रीगार्गवाभ्योनि पूर्णैः कुम्भैर्महोदरैः । चामीकरमयैः पद्मच्छत्रवक्त्रैः सपल्लवैः १८२॥
 अभिषेकं जितेन्द्रस्य चकार त्रिदशाधिपः । कृत्वा वैक्रियमामर्त्यादान्मानं बहुविधहम् ॥१८३॥
 यमो वैश्रवण सोमो वरुणोऽन्ये च नाकिनः । जैष्यशक्रादयः सर्वे चक्रुर्मक्त्याभिषेचनम् ॥१८४॥
 इन्द्राणीप्रसुता देव्यः सद्गन्धैरनुलेपनैः । चक्रुस्त्वर्तनं मन्या करैः पल्लवकोमलैः ॥१८५॥

इन्द्राणीके द्वारा प्रसूतिका-गृहसे जिन-बालकको बुलवाया ॥१७२॥ इन्द्राणीने प्रसूतिका-गृहमे जाकर पहले जिन माताको नमस्कार किया । फिर माताके पास मायामर्या बालक रखकर जिन-बालकको उठा लिया और बाहर लाकर इन्द्रके हाथसे सौंप दिया ॥१७३॥ यद्यपि इन्द्र हजार नंत्रोंका धारक था तथापि तीनों लोकमें अतिशयपूर्ण भगवान्का रूप देखकर वह तृप्तिको प्राप्त नहीं हुआ था ॥१७४॥ तदनन्तर—सौधर्मेन्द्र भगवान्को गोदमे बैठाकर ऐरावत हाथीपर आहूत हुआ और श्रेष्ठ भक्तिसे सहित अन्य देवोंने चमर तथा छत्र आदि स्वयं ही ग्रहण किये ॥१७५॥ इस प्रकार इन्द्र समस्त देवोंके साथ चलकर वैदूर्य आदि महारत्नोंकी कान्तिके समूहसे उज्वल नुमेरु पर्यन्तके शिखरपर पहुँचा ॥१७६॥ वहाँ पाण्डुकन्वल नामकी शिलापर जो अकृत्रिम सिंहासन स्थित है उसपर इन्द्रने जिन-बालकको विराजमान कर दिया और न्वयं उनके पीछे खड़ा हो गया ॥१७७॥ उसी समय देवोंने क्षुभित समुद्रके समान शब्द करनेवाली भेरियाँ बजाइ, मृदङ्ग और शङ्खके जोरदार शब्द किये ॥१७८॥ यन्त्र, किन्नर, गन्धर्व, तुम्बुरु, नारद और विश्वावसु उच्छ्रम करके हुए अपनी अपनी पत्नियोंके साथ मन और कानोंको हरण करने वाले मुन्दर गीत गाने लगे । लक्ष्मी भी बड़े आदरके साथ वीणा बजाने लगी ॥१७९-१८०॥ हाव-भावसे भरी एवं आभूषणोंसे सुशोभित अप्सराएँ यथायोग्य अङ्गहार करती हुई उच्छ्रम नृत्य करने लगी ॥१८१॥ इस प्रकार जब वहाँ उत्तमोत्तम देवोंके द्वारा गायन-वादन और नृत्य हो रहा था तब सौधर्मेन्द्रने अभिषेक करने के लिए शुभ कलश हाथसे लिया ॥१८२॥ तदनन्तर जो नीरसागरके जलसे भरे थे, जिनकी अवगाहना बहुत भारी थी, जो सुवर्ण निर्मित थे, जिनके मुख कमलोंसे आच्छादित थे तथा लाल-लाल पल्लव जिनकी शोभा बढ़ा रहे थे, ऐसे एक हजार आठ कलशोंके द्वारा इन्द्रने विक्रियाके प्रभावसे अपने अनेक रूप बनाकर जिन-बालकका अभिषेक किया ॥१८३-१८४॥ यम, वैश्रवण, सोम, वरुण आदि अन्य देवोंने और साथ ही शेष वचे समस्त इन्द्रोंने भक्तिपूर्वक जिन-बालकका अभिषेक किया ॥१८५॥ इन्द्राणी आदि देवियोंने पल्लवोंके समान कोमल हाथोंके द्वारा समीचीन गन्वसे युक्त अनुलेपनसे भगवान्को

महोद्भ्रमिव त नाथ कुम्भैर्जलधरैरिव । अभिपिच्य समारब्धाः कर्तुमस्य विभूषणम् ॥१८७॥
 चन्द्रादित्यसमे तस्य कर्णयो कुण्डले कृते । तत्क्षणं सुरनाथेन वज्रसूर्वाविभिन्नयोः ॥१८८॥
 पद्मरागमणिः शुद्धश्चूडायां विनिवेशितः । जटालमिव सपन्न शिरो यस्य मरीचिभिः ॥१८९॥
 अर्द्धचन्द्राकृतिन्यस्ता चन्दनेन ललाटिका । बाहुमूले कृते जात्यहेमकेयूरमण्डिते ॥१९०॥
 नक्षत्रस्थूलमुक्ताभिः कल्पितेन मयूखिना । हारेण भूपित वच श्रीवत्सकृतभूषणम् ॥१९१॥
 हरिन्मणिसरोजश्रीरत्नस्थूलमरीचिभिः । सजातपल्लवेनेव प्रालम्बेन विराजितः ॥१९२॥
 लक्षणाभरणश्रेष्ठौ प्रकोष्ठौ दधतुः श्रियम् । मणिवन्धनचारुभ्या कटकाभ्या सुसहर्ता ॥१९३॥
 पट्टाशुकोपरिन्यस्तकटिसूत्रेण राजितम् । नितम्बफलक सध्यादाम्नेवावनिभृत्तटम् ॥१९४॥
 सर्वाङ्गुलीषु विन्यस्त मुद्रिकाभूषण वरम् । नानारत्नपरिष्वक्तचामीकरविनिर्मितम् ॥१९५॥
 भक्त्या कृतमिदं देवैः सर्वमण्डनयोजनम् । त्रैलोक्यमण्डनस्यास्य कुतोऽन्यमण्डन परम् ॥१९६॥
 चन्दनेन समालम्ब्य रोचना स्थासका कृता । रेजुस्ते स्फटिकक्षोण्या कनकाम्बुद्रमा इव ॥१९७॥
 उत्तरीय च विन्यस्तमशुक कृतपुष्पकम् । अत्यन्तनिर्मल रेजे सतारमिव तन्नमः ॥१९८॥
 पारिजातकसन्तानकुसुमैः परिकल्पितम् । पट्टपद्मालीपरिष्वक्त पिनङ्गु स्थूलशेखरम् ॥१९९॥
 तिलकेन भ्रुवोर्मध्यं सङ्घनेन विभूषितम् । तिलकत्व त्रिलोकस्य विभ्रतश्चारुचेष्टिनं ॥२००॥

उद्घर्तन किया ॥१८६॥ जिस प्रकार मेघोके द्वारा किसी पर्वतका अभिषेक होता है उसी प्रकार विशाल कलशोके द्वारा भगवान्का अभिषेक कर देव उन्हें आभूषण पहिनानेके लिए तत्पर हुए ॥१८७॥ इन्द्रने तत्काल ही वज्रकी सूचीसे विभिन्न किये हुए उनके कानोमें चन्द्रमा और सूर्यके समान कुण्डल पहिनाये ॥१८८॥ चोटीके स्थानपर ऐसा निर्मल पद्मरागमणि पहिनाया कि जिसकी किरणोंसे भगवान्का शिर जटाओसे युक्तके समान जान पड़ने लगा ॥१८९॥ भालपर चन्दनके द्वारा अर्धचन्द्राकार ललाटिका बनाई । भुजाओके मूलभाग उत्तम सुवर्णनिर्मित केयूरोसे अलंकृत किये ॥१९०॥ श्रीवत्स चिह्नसे सुशोभित वक्षःस्थलको नक्षत्रोंके समान स्थूल मुक्ताफलोसे निर्मित एवं किरणोंसे प्रकाशमान हारसे अलंकृत किया ॥१९१॥ हरितमणि और पद्मराग मणियों की बड़ी मोटी किरणोंसे जिसमें मानो पल्लव ही निकल रहे थे ऐसी बड़ी मालासे उन्हें अलंकृत किया था ॥१९२॥ लक्ष्णरूपी आभरणोंसे श्रेष्ठ उनकी दोनों भरी कलाइयों रत्नखचित सुन्दर कड़ोसे बहुत भारी शोभाको धारण कर रही थीं ॥१९३॥ रेशमी वस्त्रके ऊपर पहिनाई हुई करधनी से सुशोभित उनका नितम्बस्थल ऐसा जान पड़ता था मानो सन्ध्याकी लाल-लाल रेखासे सुशोभित किसी पर्वतका तट ही हो ॥१९४॥ उनकी समस्त अङ्गुलियोंमें नाना रत्नोंसे खचित सुवर्णमय अङ्गुठियों पहिनाई गई थी ॥१९५॥ देवोंने भगवान्के लिए जो सब प्रकारके आभूषण पहिनाये थे वे भक्तिवश ही पहिनाये थे वैसे भगवान् स्वयं तीन लोकके आभरण थे अन्य पदार्थ उनकी क्या शोभा बढ़ाते ? ॥१९६॥ उनके शरीरपर चन्दनका लेप लगाकर जो रोचनके पीले-पीले बिन्दु रखे गये थे, वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो स्फटिककी भूमिपर सुवर्ण कमल ही रखे गये हों ॥१९७॥ जिसपर कसीदासे अनेक फूल बनाये गये थे ऐसा उत्तरीय वस्त्र उनके शरीरपर पहिनाया गया था और वह ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओसे सुशोभित निर्मल आकाश ही हो ॥१९८॥ पारिजात और सन्तान नामक कल्पवृक्षोंके फूलोंसे जिसकी रचना हुई थी, तथा जिसपर भ्रमरोके समूह लग रहे थे ऐसा बड़ा सेहरा उनके शिरपर बँधा गया था ॥१९९॥ चूँकि सुन्दर चेष्टाओको धारण करनेवाले भगवान् तीन लोकके तिलक थे इसलिए उनकी दोनों भौंहोंका

ततस्त भूपित सन्तं त्रिलोकस्य विभूषणम् । तुष्टास्तुष्टुवुरित्यं ते देवा शक्रपुरस्तरा. ॥२०१॥
 नष्टधर्मे जगत्यस्मिन्नज्ञानतमसावृते । भ्राम्यता भव्यसत्त्वानामुदितस्त्वं दिवाकर ॥२०२॥
 किरणैर्जिनचन्द्रस्य विमलैस्तव वाट्मयै । प्रबोध यास्यतीदानी भव्यसत्त्वकुमुद्वती ॥२०३॥
 भव्यानां तत्त्वदृष्टयर्थं केवलानलसभव । ज्वलितस्त्व प्रदीपोऽसि स्वयमेव जगद्गृहे ॥२०४॥
 पापशत्रुनिघाताय जातस्त्वं शितसायकः । कर्ता भवाऽवीटाह त्वमेव ध्यानवह्निना ॥२०५॥
 दुष्टेन्द्रियमहानागदमनाय त्वमुद्रत । वैनतेयो महावायु सदेहवत्सपदाम् ॥२०६॥
 धर्माश्रुविन्दुमप्राग्निनृपिता भव्यचातका । उन्मुखास्त्वामुदीक्षन्ते नाथामृतमहायनम् ॥२०७॥
 नमस्ते त्रिजगद्गीतनितान्तामलकर्तये । नमस्ते गुणपुष्पाय तरवे कामदायिने ॥२०८॥
 कर्मकाष्ठकुठाराय तीक्ष्णधाराय ते नमः । नमस्ते मोहतुङ्गाद्रिभङ्गवज्रात्मने सदा ॥२०९॥
 विध्मापकाय दुःखाग्नेर्नमस्ते सलिलात्मने । रजःसङ्गविहीनाय नमस्ते गगनात्मने ॥२१०॥
 इति स्तुत्वा विधानेन प्रणम्य च पुन पुन । तमारोप्य गज जग्मुरयोध्याभिमुखा सुराः ॥२११॥
 मानुरङ्गे तत कृत्वा शक्रः शच्या जिनाभकम् । विधाय परमानन्दं स्वस्थान ससुरोऽगामत् ॥२१२॥
 ततस्तमम्बरैर्द्विव्यैरलङ्कारैश्च भूपितम् । दिग्धं च परमामोदघ्राणहार्यानुलेपनैः ॥२१३॥

मध्यभाग सुगन्धित तिलकसे अलंकृत किया गया था ॥२००॥ इस प्रकार तीन लोकके आभरण स्वरूप भगवान् जब नाना अलङ्कारोसे अलंकृत हो गये तब इन्द्र आदि देव उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥२०१॥

हे भगवन् ! धर्मरहित तथा अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित इस संसारमें भ्रमण करनेवाले लोगोंके लिए आप सूर्यके समान उदित हुए हो ॥२०२॥ हे जिनराज ! आप चन्द्रमाके समान हो सो आपके उपदेशरूपी निर्मल किरणोंके द्वारा अब भव्य जीवरूपी कुमुदिनी अवश्य ही विकासको प्राप्त होगी ॥२०३॥ हे नाथ ! आप इस संसाररूपी घरमें 'भव्य जीवोंको जीव-अजीव आदि तत्त्वोंका ठीक-ठीक दर्शन हो' इस उद्देश्यसे स्वयं ही जलते हुए वह महान् दीपक हो कि जिसकी उत्पत्ति केवलज्ञानरूपी अग्निसे होती है ॥२०४॥ पापरूपी शत्रुओंको नष्ट करनेके लिए आप तीक्ष्ण वाण हैं । तथा आप ही ध्यानरूपी अग्निके द्वारा संसाररूपी अटवीका दाह करेगे ॥२०५॥ हे प्रभो ! आप दुष्ट इन्द्रिय रूप नागोंका दमन करनेके लिए गरुड़के समान उदित हुए हो, तथा आप ही सन्देहरूपी मेघोंको उड़ानेके लिए प्रचण्ड वायुके समान हो ॥२०६॥ हे नाथ ! आप अमृत प्रदान करनेके लिए महामेघ हो इसलिए धर्मरूपी जलकी बूँदोंकी प्राप्तिके लिए तृपा-तुर भव्य जीवरूपी चातक ऊपरकी ओर मुखकर आपको देख रहे हैं ॥२०७॥ हे स्वामिन् ! आपकी अत्यन्त निर्मल कीर्ति तीनों लोकोंके द्वारा गाई जाती है इसलिए आपको नमस्कार हो । हे नाथ ! आप गुणरूपी फूलोंसे सुशोभित तथा मनोवाञ्छित फल प्रदान करनेवाले वृक्ष स्वरूप हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥२०८॥ आप कर्मरूपी काष्ठको विदारण करनेके लिए तीक्ष्ण धारवाली कुठारके समान हैं अतः आपको नमस्कार हो । इसी प्रकार आप मोहरूपी उन्नत पर्वतको भेदनेके लिए वज्रस्वरूप हो इसलिए आपको नमस्कार हो ॥२०९॥ आप दुःखरूपी अग्निको बुझानेके लिए जलस्वरूप रजके सङ्गमसे रहित आकाश स्वरूप हो अतः आपको नमस्कार हो ॥२१०॥

इस तरह देवोंने विधि-पूर्वक भगवान्की स्तुति की, बार-बार प्रणाम किया और तदनन्तर उन्हें ऐरावत हाथीपर सवारकर अयोध्याकी ओर प्रयाण किया ॥२११॥ अयोध्या आकर इन्द्रने जिन-बालकको इन्द्राणीके हाथसे माताकी गोदमें विराजमान करा दिया, आनन्द नामका उत्कृष्ट नाटक किया और तदनन्तर वह अन्य देवोंके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥२१२॥ अथानन्तर

तुष्टा सवीच्य तनयमङ्गस्थं जननी तदा । निजच्छायापरिप्वङ्गपिञ्जरीकृतदिद् मुखम् ॥२१४॥
 आलिङ्गन्ती मृदुस्पर्शं कोतुकन्यासमानसा । दुरास्थानपरावस्थमवतीर्णा सुखार्णवम् ॥२१५॥
 अङ्गप्राप्तेन सा तेन रराज प्रमदोत्तमा । नवोदितेन पूर्वाशा विम्बेन सवितुर्यथा ॥२१६॥
 नाभिश्च तत्सुत दृष्ट्वा दिव्यालङ्कारधारिणम् । त्रैलोक्यैश्वर्यसयुक्त मेने स्व परमद्युतिम् ॥२१७॥
 सुतगात्रसमासङ्गसजातसुखसम्पद । मीलिताक्षत्रिभागस्य मनोऽस्य द्रवता गतम् ॥२१८॥
 सुरेन्द्रपूजया प्राप्त. प्रधानत्व जिज्ञो यत. । ततस्तमृपभाभिस्था निन्यतु. पितरौ सुतम् ॥२१९॥
 तयोरन्योन्यसवदं प्रेम यद् वृद्धिमागतम् । तज्जातमधुना बाले पूर्ववच्च तयोरपि ॥२२०॥
 कराङ्गुष्ठे ततो न्यस्तममृत वज्रपाणिना । पिबन् क्रमेण सप्राप देहस्योपचयं जिन ॥२२१॥
 तत. कुमारैर्युक्तो वयस्यैरिन्द्रनोदितैः । अनवद्यां चकारासौ क्रीडा पित्रोः सुखावहाम् ॥२२२॥
 आसन शयन यात्र भोजन वसनानि च । चारणादिकमन्यच्च सकल तस्य शक्यम् ॥२२३॥
 कर्तव्यमैव कालेन परा वृद्धिमवाप स' । मेरुभित्तिसमाकार विभ्रद्वचः समुन्नतम् ॥२२४॥
 आशास्तम्येरमालानस्तम्भसस्थानता गतौ । बाहू तस्य समस्तस्य जगत. कल्पपादपौ ॥२२५॥
 ऊरुदण्डद्वय दध्रे स्वकान्तिकृतचर्चनम् । त्रैलोक्यगृहघृण्यर्थं स्तम्भद्वयसमुच्छ्रितम् ॥२२६॥

दिव्य वस्त्रों और अलंकारोंसे अलंकृत, तथा उत्कृष्ट सुगन्धिके कारण नासिकाको हरण करनेवाले विलेपनसे लिप्त एव अपनी कान्तिके सम्पर्कसे दिशाओंके अग्रभागको पीला करनेवाले अङ्गस्थ पुत्रको देखकर उस समय माता मरुदेवी बहुत ही संतुष्ट हो रही थीं ॥२१३-२१४॥ जिसका हृदय कोतुकसे भर रहा था ऐसी मरुदेवी कोमल स्पर्शवाले पुत्रका आलिङ्गन करती हुई वर्णनातीत सुख रूपी सागरमें-जा उतरी थी ॥२१५॥ वह उत्तम नारी मरुदेवी गोदमें स्थित जिन-बालकसे इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जिस प्रकार कि नवीन उदित सूर्यके विम्बसे पूर्व दिशा सुशोभित होती है ॥२१६॥ नाभिराजने दिव्य अलंकारोंको धारण करनेवाले एवं उत्कृष्ट कान्तिके युक्त उस पुत्रको देखकर अपने आपको तीन लोकके ऐश्वर्यसे युक्त माना था ॥२१७॥ पुत्रके शरीरके सम्बन्धसे जिन्हें सुख रूप सम्पदा उत्पन्न हुई है तथा उस सुखका आस्वाद करते समय जिनके नेत्रका तृतीय भाग निमीलित हो रहा है ऐसा नाभिराजका मन उस पुत्रको देखकर द्रवीभूत हो गया था ॥२१८॥ चूँकि वे जिनेन्द्र इन्द्रके द्वारा की हुई पूजासे प्रधानताको प्राप्त हुए थे इसलिए माता-पिताने उनका 'ऋषभ' यह नाम रक्खा ॥२१९॥ माता पिताका जो परस्पर सम्बन्धी प्रेम वृद्धिको प्राप्त हुआ था वह उस समय बालक ऋषभदेवसे केन्द्रित हो गया था ॥२२०॥ इन्द्रने भगवान्के हाथके अंगूठेमें जो अमृत निक्षिप्त किया था उसका पान करते हुए वे क्रमशः शरीर सम्बन्धी वृद्धिको प्राप्त हुए थे ॥२२१॥ तदनन्तर, इन्द्रके द्वारा अनुमोदित समान अवस्थावाले देव-कुमारोंसे युक्त होकर भगवान् माता-पिताको सुख पहुँचानेवाली निर्दोष क्रीडा करने लगे ॥२२२॥ आसन, शयन, वाहन, भोजन, वस्त्र तथा चारण आदिक जितना भी उनका परिकर था वह सब उन्हें इन्द्रसे प्राप्त होता था ॥२२३॥ वे थोड़े ही समयमें परम वृद्धिको प्राप्त हो गये । उनका वक्षःस्थल मेरु पर्वतकी भित्तिके समान चौड़ा और उन्नत हो गया ॥२२४॥ समस्त संसारके लिए कल्पवृक्षके समान जो उनकी भुजाएँ थीं, वे आशा रूपी दिग्गजोंको बाँधनेके लिए खम्भोंका आकार धारण कर रही थीं ॥२२५॥ उनके दोनों ऊरु-दण्ड अपनी निजकी कान्तिके द्वारा किये हुए लेपनको धारण कर रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो तीन लोक रूपी घरको धारण करनेके लिए दो खम्भे ही खड़े किये गये हों ॥२२६॥ उनके

द्वयं बभार तद्वक्त्रमन्योन्यस्य विरोधकम् । कान्त्या जितनिशानाथ दीप्त्या च जितभास्करम् ॥२२७॥
 करौ तस्यारुणच्छाद्यौ पल्लवादपि कोमलौ । धूर्त्वीकारे समस्तानां भ्रूभृतामथ च क्षमौ ॥२२८॥
 निविड, केशसघात स्निग्धोऽन्यन्त बभूव च । नीलाञ्जनशिलाकारो मूर्ध्नि हेमगिरेरिव ॥२२९॥
 धर्मात्मनापि लोकस्य तेन सर्वस्य लोचने । उपमानमर्तातेन हते रूपेण शम्भुना ॥२३०॥
 तस्मिन् काले प्रनष्टेषु कल्पवृक्षेष्वगोपत । अकृष्टपच्यसस्येन मही सर्वा विराजते ॥२३१॥
 वाणिज्यव्यवहारेण शिल्पैश्च रहिता प्रजा । अभावाद् धर्मसज्ञायाः पाखण्डैश्च विवर्जिता ॥२३२॥
 आसीदित्थुरसस्तासामाहार, पड्रसान्वित । स्वयं छिन्नच्युत कान्तिवीर्यादिकरणक्षमः ॥२३३॥
 सोऽपि कालानुभावेन स्वयं गलति नो यदा । यन्त्रनिष्पीडनज्ञश्च न लोकोऽनुपदेशतः ॥२३४॥
 पश्यन्त्योऽपि तदा सस्य तत्संस्कारविधौ जडा । सुधासतापिताः सत्यैः प्रजा व्याकुलता गताः ॥२३५॥
 ततः शरणमीयुस्ता नाभि सघातमागताः । ऊचुश्चेति वचः, स्तुत्वा प्रणम्य च महार्तयः ॥२३६॥
 नाथ याता समस्तास्ते प्रक्षय कल्पपादपा । क्षुधा सतापितानस्मास्त्रायस्व शरणागतान् ॥२३७॥
 भूमिज फलसपन्न किमप्येतच्च दृश्यते । विधिमस्य न जानीमः संस्कारे भक्षणोचितम् ॥२३८॥
 स्वच्छन्दचारिणामेतद्रोकुलानां स्तनान्तरात् । चरद्भक्षयमभक्षय किं कथं चेति वद प्रभो ॥२३९॥

मुखने कान्तिसे चन्द्रमाको जीत लिया था और तेजने सूर्यको परास्त कर दिया था इस तरह वह परस्परके विरोधी दो पदार्थों—चन्द्रमा और सूर्यको धारण कर रहा था ॥२२७॥ यद्यपि लाल-लाल कान्तिके धारक उनके दोनों हाथ पल्लवसे भी अधिक कोमल थे तथापि वे समस्त पर्वतोको चूर्ण करनेमें (पक्षमें समस्त राजाओका पराजय करनेमें) समर्थ थे ॥२२८॥ उनके केशोका समूह अत्यन्त सघन तथा सचिक्कण था और ऐसा जान पड़ता था मानो मेरु पर्वतके शिखरपर नीलाञ्जनकी शिला ही रक्खी हो ॥२२९॥ यद्यपि वे भगवान् धर्मात्मा थे—हरण आदिको अधर्म मानते थे तथापि उन्होंने अपने अनुपम रूपसे समस्त लोगोके नेत्र हरण कर लिये थे । भावार्थ—भगवान्का रूप सर्वजननयनाभिराम था ॥२३०॥ उस समय कल्पवृक्ष पूर्णरूपसे नष्ट हो चुके थे इसलिए समस्त पृथिवी अकृष्टपच्य अर्थात् बिना जांते, बिना बोये ही अपने आप उत्पन्न होनेवाली धान्यसे सुशोभित हो रही थी ॥२३१॥ उस समयकी प्रजा वाणिज्य—लेन देनका व्यवहार तथा शिल्पसे रहित थी और धर्मका तो नाम भी नहीं था इसलिए पाखण्डसे भी रहित थी ॥२३२॥ जो छह रसोसे सहित था, स्वयं ही कटकर शाखासे झड़ने लगता था और बल, वीर्य आदिके करनेमें समर्थ था ऐसा इत्थुरस ही उस समयकी प्रजाका आहार था ॥२३३॥ पहले तो वह इत्थुरस अपने आप निकलता था पर कालके प्रभावसे अब उसका स्वयं निकलना बन्द हो गया और लोग बिना कुछ वताये यन्त्रोके द्वारा ईखको पेलनेकी विधि जानते नहीं थे ॥२३४॥ इसी प्रकार सामने खड़ी हुई धानको लोग देख रहे थे पर उसके संस्कारकी विधि नहीं जानते थे इसलिए भूखसे पीड़ित होकर अत्यन्त व्याकुल हो उठे ॥२३५॥ तदनन्तर बहुत भारी पीड़ासे युक्त वे लोग इकट्ठे होकर नाभिराजकी शरणमें पहुँचे और स्तुति तथा प्रणामकर निम्नलिखित वचन कहने लगे ॥२३६॥ हे नाथ ! जिनसे हमारा भरण-पोषण होता था वे कल्पवृक्ष अब सबके सब नष्ट हो गये हैं इसलिए भूखसे संतप्त होकर आपकी शरणमें आये हुए हम सब लोगोकी आप रक्षा कीजिए ॥२३७॥ पृथिवीपर उत्पन्न हुई यह कोई वस्तु फलोसे युक्त दिखाई दे रही है, यह वस्तु संस्कार किये जानेपर खानेके योग्य हो सकती है पर हम लोग इसकी विधि नहीं जानते हैं ॥२३८॥ स्वच्छन्द विचरनेवाली गायोके स्तनोके भीतरसे यह कुछ पदार्थ निकल रहा है सो

व्याघ्रमिहादयः पूर्वं क्रीडास्वालङ्घनोचिताः । अधुना त्रासयन्त्येते प्रजा कलहतत्परा ॥२४०॥
मनोहराणि दिव्यानि स्थलानि जलजानि च । दृश्यन्ते न तु जानीम सुखमेभिर्यथा भवेत् ॥२४१॥
अत संस्करणोपायमेतेषां वद देव न । यत् सुखेन जीवामस्वप्नसाधेन रक्षिताः ॥२४२॥
पुत्रमुक्तं प्रजाभिः स नाभिः कारुण्यसगत । जगात् वचनं धीरो वृत्तेर्दुर्गनकारणम् ॥२४३॥
उत्पत्तिममये यस्य रत्नवृष्टिरभूच्चिरम् । आगमश्च सुरेन्द्राणा लोकचोभनकारणम् ॥२४४॥
महातिथयसपन्नं तमुपेत्य सम वयम् । ऋषभं परिपृच्छामः कारणं जीवनप्रदम् ॥२४५॥
तस्य देवस्य लोकेऽस्मिन् महगो नास्ति मानवः । सर्वेषां तमसामन्ते तस्यान्मा संप्रतिष्ठितः ॥२४६॥
इत्युक्तास्तेन ताः साकं नाभेयस्यान्तिकं गताः । दृष्ट्वा च पितरं देवो विधिं चक्रे यथोचितम् ॥२४७॥
उपविष्टस्ततो नाभिर्नाभेयश्च यथामनम् । अथैनं स्तोतुमारब्धाः प्रजा प्रणतिपूर्वकम् ॥२४८॥
लोकं सर्वमतिक्रम्य तेजसा ज्वलितं वपुः । सर्वलक्षणसपूर्णं तवैतन्नाथं शोभते ॥२४९॥
गुणैस्तव जगत्सर्वं व्याप्तमत्यन्तनिर्मलं । प्रह्लादकरणोद्युक्तैः शशाङ्ककिरणैरिव ॥२५०॥
वयं प्रभु समायाताः पितरं तव कार्पिणः । गुणान् ज्ञानसमुद्भूतान् स चैव तव भाषते ॥२५१॥
स त्वं कौऽपि महासत्त्वो महात्मातिगयान्वित । एवविधोऽपि यं गन्वा निश्चयार्थं निषेवते ॥२५२॥
स त्वमेवविधो भूत्वा रक्ष न क्षुत्पीडितान् । उपायस्योपदेगेन मिहादिभयतस्तथा ॥२५३॥

वह भक्ष्य है या अभक्ष्य है ? हे स्वामिन् ! यह बतलाइये ॥२३६॥ ये सिंह व्याघ्र आदि जन्तु पहले क्रीडाओंके समय आलिङ्गन करने योग्य होते थे पर अब ये कलहमें तत्पर होकर प्रजाको भयभीत करने लगे हैं ॥२४०॥ और ये आकाश, स्थल तथा जलमें उत्पन्न हुए कितने ही महा-मनोहर पदार्थ दिख रहे हैं सो इनसे हमें सुख किस तरह होगा यह हम नहीं जानते हैं ॥२४१॥ इसलिए हे देव ! हम लोगोंको इनके संस्कार करनेका उपाय बतलाइये जिससे कि प्रसादसे सुरक्षित होकर हम लोग सुखसे जीवित रह सकें ॥२४२॥ प्रजाके ऐसा कहनेपर नाभिराजाका हृदय दयासे भर गया और वे आजीविकाके उपाय दिखलानेके लिए धीरताके साथ निम्न प्रकार वचन कहने लगे ॥२४३॥ जिनको उत्पत्तिके समय चिर काल तक रत्न-वृष्टि हुई थी और लोकमें चांभ उत्पन्न करनेवाला देवोंका आगमन हुआ था ॥२४४॥ महान् अतिशयोक्तीसे सम्पन्न ऋषभदेवके पास चलकर हम लोग उनसे आजीविकाके कारण पूछें ॥२४५॥ इस संसारमें उनके समान कोई मनुष्य नहीं है । उनकी आत्मा सर्व प्रकारके अज्ञानरूपी अन्धकारोंसे परे है ॥२४६॥ नाभिराजाने जब प्रजासे उक्त वचन कहे तो वह उन्हींको साथ लेकर ऋषभनाथ भगवान्के पास गई । भगवान्ने पिताको देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया ॥२४७॥ तदनन्तर नाभिराजा और भगवान् ऋषभदेव जब अपने-अपने योग्य आसनोपर आरूढ़ हो गये तब प्रजाके लोग नमस्कार कर भगवान्की इस प्रकार स्तुति करनेके लिए तत्पर हुए ॥२४८॥ हे नाथ ! समस्त लक्षणांसे भरा हुआ आपका यह शरीर तेजके द्वारा समस्त जगत्को आक्रान्त कर देदीग्यमान हो रहा है ॥२४९॥ चन्द्रमाकी किरणोंके समान आनन्द उत्पन्न करनेवाले आपके अत्यन्त निर्मल गुणोंसे समस्त संसार व्याप्त हो रहा है ॥२५०॥ हम लोग कार्य लेकर आपके पिताके पास आये थे परन्तु ये ज्ञानसे उत्पन्न हुए आपके गुणोंका वखान करते हैं ॥२५१॥ जब कि ऐसे विद्वान् महाराज नाभिराज भी आपके पास आकर पदार्थका निश्चय कर देते हैं तब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आप अतिशयोक्तीसे सुशोभित, धैर्यको धारण करनेवाले कोई अनुपम महात्मा हैं ॥२५२॥ इसलिए आप, भूखसे पीडित हुए हम लोगोंकी रक्षा कीजिये तथा सिंह आदि दुष्ट जन्तुओंसे जो भय हो रहा है उसका भी उपाय बतलाइये ॥२५३॥

१. मन्नाभि. क०, म० । २. स्तेन साकं ते म० । ३. तत्र म० ।

ततः कृपासमासक्तहृदयो नाभिनन्दनः । शशास चरणप्राप्ता बद्धाक्षलिपुटाः प्रजाः ॥२५४॥
 शिल्पानां शतमुद्दिष्टं नगराणां च कल्पनम् । ग्रामादिसन्निवेशाश्च तथा देशमादिकारणम् ॥२५५॥
 चतत्राणे नियुक्ता ये तेन नाथेन मानवाः । क्षत्रिया इति ते लोके प्रसिद्धिं गुणतो गता ॥२५६॥
 वाणिज्यकृपिगोरक्षाप्रभृतौ ये निवेशिताः । व्यापारे वैश्यशब्देन ते लोके परिकीर्तिताः ॥२५७॥
 ये तु श्रुताद् द्रुतिं प्राप्ता नीचकर्मविधायिनः । अद्रसज्ञामवापुस्ते भेदेः प्रेष्यादिभिस्तथा ॥२५८॥
 युग तेन कृतं यस्मादित्यमेतत्सुखावहम् । तस्मात्कृतयुगं प्रोक्तं प्रजाभिः प्राप्तसपदम् ॥२५९॥
 नाभेयस्य सुनन्दाऽभून्नन्दा च वनिताद्वयम् । भरतादय उत्पन्नास्तयोः पुत्रा महर्जासः ॥२६०॥
 शतेन तस्य पुत्राणां गुणसम्बन्धचारुणा । अभूदलंकृता क्षोणी नित्यप्राप्तसमुत्सवा ॥२६१॥
 तस्यानुपममैश्वर्यं भुञ्जानस्य जगद्गुरोः । प्रयातुं सुमहान् कालो नाभेयस्यामितत्विषः ॥२६२॥
 अथ नीलाञ्जनाख्याया नृत्यन्यां सुरयोपिति । इयं तस्य समुत्पन्ना बुद्धिवैराग्यकारणम् ॥२६३॥
 अहो जना विडम्ब्यन्ते परितोपणचेष्टितैः । उन्मत्तचरिताकारैः स्ववपुःखेदकारणैः ॥२६४॥
 अत्र कश्चित् परार्थीनो लोके भृत्यत्वमागतः । आज्ञां ददाति कश्चित् तस्मै गर्वस्खलद्वचाः ॥२६५॥
 एवं धिगस्तु ससारं यस्मिन्नुत्पाद्यते परैः । दुःखमेव सुखाभिख्या नीतं समूढमानसैः ॥२६६॥
 तस्मादिदं परित्यज्य कृत्रिमं क्षयवत्सुखम् । सिद्धिसौख्यसमावाप्यैः करोम्याशु विचेष्टितम् ॥२६७॥
 यावदेव मनस्तस्य प्रवृत्तं शुभचिन्तने । तावत्कालान्तिकैर्देवैरिदमागत्य भाषितम् ॥२६८॥

तदनन्तर—जिनका हृदय दयासे युक्त था ऐसे भगवान् वृषभदेव हाथ जोड़कर चरणोमे पड़ी हुई प्रजाको उपदेश देने लगे ॥२५४॥ उन्होंने प्रजाको सैकड़ों प्रकारकी शिल्पकलाओका उपदेश दिया । नगरोंका विभाग, ग्राम आदिका बसाना, और मकान आदिके बनानेकी कला प्रजाको सिखाई ॥२५५॥ भगवान्ने जिन पुरुषोंको विपत्तिग्रस्त मनुष्योंकी रक्षा करनेमें नियुक्त किया था वे अपने गुणोंके कारण लोकमें 'क्षत्रिय' इस नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुए ॥२५६॥ वाणिज्य, खेती, गोरक्षा आदिके व्यापारमें जो लगाये गये थे वे लोकमें वैश्य कहलाये ॥२५७॥ जो नीच कार्य करते थे तथा शास्त्रसे दूर भागते थे उन्हें शूद्र संज्ञा प्राप्त हुई । इनके प्रेष्य दास आदि अनेक भेद थे ॥२५८॥ इस प्रकार सुखको प्राप्त करानेवाला वह युग भगवान् ऋषभदेवके द्वारा किया गया था तथा उसमें सब प्रकारकी सम्पदाएँ सुलभ थीं इसलिए प्रजा उसे कृतयुग कहने लगी थी ॥२५९॥ भगवान् ऋषभदेवके सुनन्दा और नन्दा नामकी दो स्त्रियाँ थीं । उनसे उनके भरत आदि महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥२६०॥ भरत आदि सौ भाई थे तथा गुणोंके सम्बन्धसे अत्यन्त सुन्दर थे इसलिए यह पृथ्वी उनसे अलंकृत हुई थी तथा निरन्तर ही अनेक उत्सव प्राप्त करती रहती थी ॥२६१॥ अपरिमित कान्तिको धारण करनेवाले जगद्गुरु भगवान् ऋषभदेवको अनुपम ऐश्वर्यका उपभोग करते हुए जब बहुत भारी काल व्यतीत हो गया ॥२६२॥ तब एक दिन नीलाञ्जना नामक देवीके नृत्य करते समय उन्हें वैराग्यको उत्पत्तिमें कारणभूत निम्न प्रकारकी बुद्धि उत्पन्न हुई ॥२६३॥ वे विचारने लगे कि अहो ! संसारके ये प्राणी दूसरोंको सन्तुष्ट करनेवाले कार्योसे विडम्बना प्राप्त कर रहे हैं । प्राणियोंके ये कार्य पागलोंकी चेष्टाके समान हैं तथा अपने शरीरको खेद उत्पन्न करनेके लिए कारणस्वरूप हैं ॥२६४॥ ससारकी विचित्रता देखो, यहाँ कोई तो परार्थीन होकर दासवृत्तिको प्राप्त होता है और कोई गर्वसे स्खलित वचन होता हुआ उसे आज्ञा प्रदान करता है ॥२६५॥ इस संसारको धिक्कार हो कि जिसमें मोही जीव दुःखको ही, सुख समझकर, उत्पन्न करते हैं ॥२६६॥ इसलिए मैं तो इस विनाशीक तथा कृत्रिम सुखको छोड़कर सिद्ध जीवोंका सुख प्राप्त करनेके लिए शीघ्र ही प्रयत्न करता हूँ ॥२६७॥ इस

१. शरण प्राप्ता क० । २. क्षत्रियाणे म० । ३. श्रुता ख० । श्रुत्वा हृति म० । ४. प्राप्तसम्मदम् म० । ५. नीलाञ्जना- म०, ख० । ६. परितोपक म० । ७. सिद्धि ख० ।

साधु नाथावबुद्धं ते त्रैलोक्यं हितकारणम् । त्रिच्छिन्नस्य महाकालो मोक्षमार्गस्य वर्तते ॥२६६॥
 पुते विपरिवर्तन्ते भवदुःखमहागर्भे । उपदेशस्य द्वातारमन्तरेणासुधारिणः ॥२७०॥
 ब्रजन्तु साम्प्रतं जीवा देशितेन पर्या त्वया । युक्तमवयमौख्येन लोकाग्नेऽस्थितं पदम् ॥२७१॥
 इति तस्य प्रबुद्धस्य स्वयमेव महात्मन । सुरैरुदाहृता वाच प्रयाता पुनरुक्तताम् ॥२७२॥
 इति निष्क्रमणे तेन चिन्तिते तदनन्तरम् । आगता पूर्ववद्देवाः पुरन्दरपुरस्सरा ॥२७३॥
 आगन्त्य च सुरैः सर्वैः स्तुत प्रणतिपूर्वकम् । चिन्तितं साधु नाथेति भाषितं च पुनः पुनः ॥२७४॥
 ततो रत्नप्रभाजालजटिलीकृतटिड्मुक्ताम् । चन्द्रांशुनिकराकारप्रचलच्चारुवामगाम् ॥२७५॥
 पूर्णचन्द्रनिभादर्शकृतगोमां सबुद्बुदाम् । अर्द्धचन्द्रकसंयुक्तामंशुकध्वजभूषिताम् ॥२७६॥
 दिव्यस्वग्निं कृतामोदां मुकाहारविराजिताम् । सुदर्शनां विमानामां किङ्किणीमि कृतस्वनाम् ॥२७७॥
 सुरनाथापितस्क्रन्धां देवशिल्पिविनिर्मिताम् । आरुह्य शिविकां नाथो निर्जंगाम निजालयात् ॥२७८॥
 ततः शब्देन त्र्यागां नृत्यतां च दिवौकसाम् । त्रिलोकविवरापूरश्चक्रे प्रतिनिनादिना ॥२७९॥
 ततोऽन्यन्नमहान्भूत्या भक्त्या देवैः समन्वितः । तिलकाह्वयमुद्यान संग्राप जिनपुङ्गव ॥२८०॥
 प्रजाग इति देगोऽर्ष्वा प्रजाभ्योऽस्मिन् गतो यत । प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः ॥२८१॥
 आपृच्छन्नं ततः कृत्वा पित्रोर्वन्दुजनस्य च । नमः सिद्धेभ्य इत्युक्त्वा श्रामण्यं प्रत्यपद्यत ॥२८२॥

तरह यहाँ भगवान्का चित्त शुभ विचारमे लगा हुआ था कि वहाँ उसी समय लौकान्तिक देवाने आकर निम्नप्रकार निवेदन करना प्रारम्भ कर दिया ॥२६६॥ वे कहने लगे कि हे नाथ ! आपने जो तीन लोकके जीवोंका हित करनेका विचार किया है सो बहुत ही उत्तम बात है । इस समय मोक्षका मार्ग बन्द हुए बहुत समय हो गया है ॥२६६॥ ये प्राणी उपदेश-द्वाताके विना संसाररूपी महासागरमें गोता लगा रहे हैं ॥२७०॥ इस समय प्राणी आपके द्वारा बतलाये हुए मार्गसे चलकर अविनाशी सुखसे युक्त तथा लोकके अग्रभागमे स्थित मुक्त जीवोंके पदको प्राप्त हों ॥२७१॥ इस प्रकार देवोंके द्वारा कहे हुए वचन स्वयन्बुद्ध भगवान् आदिनाथके समक्ष पुनरुक्तताको प्राप्त हुए थे ॥२७२॥ ज्योंही भगवान्ने गृहत्यागका निश्चय किया त्योंही इन्द्र आदि देव पहलेकी भाँति आ पहुँचे ॥२७३॥ आकर समस्त देवाने नमस्कारपूर्वक भगवान्की स्तुति की और 'हे नाथ ! आपने बहुत अच्छा विचार किया है' यह शब्द बार-बार कहे ॥२७४॥

तदनन्तर जिसने रत्नोंकी कान्तिके समूहसे दिशाओंके अग्रभागको व्याप्त कर रक्खा था, जिसके दोनों ओर चन्द्रमाकी किरणोंके समूहके समान सुन्दर चमर ढोले जा रहे थे, पूर्ण चन्द्रमाके समान दर्पणसे जिसकी शोभा बट रही थी, जो बुद्बुदके आकार मणिमय गोलकोसे सहित थी, अर्द्धचन्द्राकारसे सहित थी, पताकाओंके बल्लसे सुशोभित थी, दिव्य मालाओंसे सुगन्धित थी, मोतियोंके हारसे विराजमान थी, देखनेमे बहुत सुन्दर थी, विमानके समान जान पड़ती थी, जिसमें लगी हुई छोटी-छोटी घंटियों रन-भुन शब्द कर रही थीं, और इन्द्रने जिसपर अपना कन्वा लगा रक्खा था ऐसी देव रूपी शिल्पियोंके द्वारा निर्मित पालकोपर सवार होकर भगवान् अपने घरसे बाहर निकले ॥२७५-२७८॥ तदनन्तर वजते हुए बाजों और नृत्य करते हुए देवोंके प्रतिध्वनि पूर्ण शब्दसे तीनों लोकोंका अन्तराल भर गया ॥२७६॥ बहुत भारी वैभव और भक्तिसे युक्त देवोंके साथ भगवान् तिलक नामक उद्यानमे पहुँचे ॥२८०॥ भगवान् वृषभदेव प्रजा अर्थान् जन समूहसे दूर हो उस तिलक नामक उद्यानमे पहुँचे थे इसलिए इस स्थानका नाम 'प्रजाग' प्रसिद्ध हो गया अथवा भगवान्ने उस स्थानपर बहुत भारी याग अर्थात् त्याग किया था, इसलिए उसका नाम 'प्रयाग' भी प्रसिद्ध हुआ ॥२८१॥ वहाँ पहुँचकर भगवान्ने माता पिता तथा बन्धुजनोंसे दीक्षा लेनेकी आज्ञा ली और फिर 'नमः सिद्धेभ्यः'—सिद्धोंके लिए

अलंकारैः सम त्यक्त्वा वसनानि महामुनिः । चकारासौ परित्यागं केशानां पञ्चमुष्टिभिः ॥२८३॥
 ततो रत्नपुटे केशान् प्रतिपद्य सुराधिपः । चिक्षेप मस्तके कृत्वा क्षीराकूपारवारिणि ॥२८४॥
 महिमानं ततः कृत्वा जिनदीक्षानिमित्तकम् । यथा यातं सुरा जग्मुर्मनुष्याश्च विचेतसः ॥२८५॥
 सहस्राणि च चत्वारि नृपाणां स्वामिभक्तितः । तदाकृतमजानन्ति प्रपिपन्नानि नम्रताम् ॥२८६॥
 ततो वर्षार्द्धमात्रं स कायोत्सर्गेण निश्चलः । धराधरेन्द्रवत्तस्थौ कृतेन्द्रियसमस्थितिः ॥२८७॥
 वातोद्भूता जटास्तस्य रेजुराकुलमूर्त्तयः । धूमाल्य इव सद्धानवह्निसैक्तस्य कर्मणः ॥२८८॥
 ततः पडपि नो यावन्मासा गच्छन्ति भूभृताम् । भग्नस्तावदसौ सङ्घः परीपहमहाभटैः ॥२८९॥
 केचिन्नपतिता भूमौ दुःखानिलसमाहताः । केचित् सरसवीर्यत्वादुपविष्टा महीतले ॥२९०॥
 कायोत्सर्गं परित्यज्य गताः केचित् फलाशनम् । सतसमूर्त्तयः केचित् प्रविष्टाः शीतल जलम् ॥२९१॥
 केचिन्नागा इवोद्भृता विशुगिरिगह्वरम् । परावृत्त्य मनः केचित् प्रारब्धा जिनमीक्षितुम् ॥२९२॥
 मानी तत्र मरीचिस्तु दधत्कापायवाससी । परिव्राडासन चक्रे वल्किभिः प्रत्यवस्थितः ॥२९३॥
 ततः फलादिकं तेषां नम्ररूपेण गृह्णताम् । विचेरुर्गने वाचोऽदर्शनानां सुधाभुजाम् ॥२९४॥
 अनेन नम्ररूपेण न वर्तत इदं नृपाः । समाचरितुमत्यर्थं दुःखहेतुरयं हि वः ॥२९५॥
 ततः परिदधुः केचित् पत्राप्यन्ये तु वल्कलम् । चर्माणि केचिदन्ये तु वासः प्रथममुज्जितम् ॥२९६॥

नमस्कार ही यह कह दीक्षा धारण कर ली ॥२८३॥ महामुनि वृषभदेवने सब अलंकारोंके साथ ही साथ वस्त्रोंका भी त्याग कर दिया और पञ्चमुष्टियोंके द्वारा केश उखाड़कर फेंक दिये ॥२८३॥ इन्द्रने उन केशोंको रत्नमयी पिटारेमें रख लिया और तदनन्तर मस्तकपर रखकर उन्हें क्षीर-सागरमें क्षेप आया ॥२८४॥ समस्त देव दीक्षाकल्याणक सम्बन्धी उत्सवकर जिस प्रकार आये थे उसी प्रकार चले गये, साथ ही मनुष्य भी अपना हृदय हराकर यथास्थान चले गये ॥२८५॥ उस समय चार हजार राजाओंने जो कि भगवान्के अभिप्रायको नहीं समझ सके थे केवल स्वामि-भक्तिसे प्रेरित होकर नम्र अवस्थाको प्राप्त हुए थे ॥२८६॥ तदनन्तर इन्द्रियोंकी समान अवस्था धारण करनेवाले भगवान् वृषभदेव छहमाह तक कायोत्सर्गसे सुमेरु पर्वतके समान निश्चय खड़े रहे ॥२८७॥ हवासे उड़ी हुई उनकी अस्त-व्यस्त जटाएँ ऐसी जान पड़ती थीं मानां समीचीन ध्यान रूपी अग्निसे जलते हुए कर्मके धूमकी पंक्तियों ही हो ॥२८८॥ तदनन्तर छह माह भी नहीं हो पाये थे कि साथ-साथ दीक्षा लेनेवाले राजाओंका समूह परीपहरूपी महा योद्धाओंके द्वारा परास्त हो गया ॥२८९॥ उनमेंसे कितने ही राजा दुःख रूपी वायुसे ताड़ित होकर पृथिवी पर गिर गये और कितने ही कुछ सबल शक्तिके धारक होनेसे पृथिवीपर बैठ गये ॥२९०॥ कितने ही भूखसे पीड़ित हो कायोत्सर्ग छोड़कर फल खाने लगे । कितने ही संतप्त शरीर होनेके कारण शीतल जलमें जा घुसे ॥२९१॥ कितने ही चारित्रिका बन्धन तोड़ उन्मत्त हाथियोंकी तरह पहाड़ोंकी गुफाओंमें घुसने लगे और कितने ही फिरसे मनको लौटाकर जिनेन्द्रदेवके दर्शन करनेके लिए उद्यत हुए ॥२९२॥ उन सब राजाओंमें भरतका पुत्र मरीचि बहुत अहकारी था इसलिए वह गेरुआ वस्त्र धारणकर परिव्राजक बन गया तथा वल्कलोको धारण करनेवाले कितने ही लोग उसके साथ हो गये ॥२९३॥ वे राजा लोग नम्ररूप में ही फलादिक ग्रहण करनेके लिए जब उद्यत हुए तब अदृश्य देवताओंके निम्नांकित वचन आकाशमें प्रकट हुए । हे राजाओ ! तुम लोग नम्रवेषमें रहकर यह कार्य न करो क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यन्त दुःखका कारण होगा ॥२९४-२९५॥ देवताओंके वचन सुनकर कितने ही लोगोंने वृक्षोंके पत्ते

१. रत्नपुटे म०, क० । २. क्षीराकूपार-म० । ३. शक्तस्य म०, ख०, शक्तिस्य (१) म० ।
 ४. इवोद्भृता म० । ५. परिव्राट् शासन म० ।

लज्जिताः स्वेन रूपेण केचित्तु कुशचीवरम् ।^१ प्राप्तामीभिस्ततस्तृप्तिः फलैः शीतजलेन च ॥२६७॥
 सभूय ते ततो भग्ना दुर्दशाचारवर्तिनः । विश्रब्धाः कर्तुमारब्धा दूरं गत्वा प्रधारणम् ॥२६८॥
 तेषां केनचिद्विद्युक्तास्ततो भूपेन ते नृपा ।^३ एतेन कथितं किञ्चित्कस्मैचिद्भवतामिति ॥२६९॥
 नैतेन कथितं किञ्चिदस्मभ्यमिति ते ध्रुवम् । ततोऽन्येनोदितं वाक्यमिति भोगाभिलाषिणा ॥३००॥
 उत्तिष्ठत निजान् देशान् ब्रजामोऽत्र स्थितेन किम् । प्राप्नुमः पुत्रदारादिवक्त्रालोकनजं सुखम् ॥३०१॥
 अपरेणेति तत्रोक्तं ब्रजामो विह्वला वयम् । नहि किञ्चिदकर्तव्यं विद्यतेऽस्माकमास्ति ॥३०२॥
 नाथेन तु विनायातात्त्रिरीक्ष्य भरतो रूपा । मारयिष्यति नोऽवश्यं देशान् वापहरिष्यति ॥३०३॥
 नाभेयो वा पुनर्यस्मिन् काले राज्यं प्रपत्स्यते । तदास्य दर्शयिष्यामो निस्त्रयाः कथमाननम् ॥३०४॥
 तस्मादत्रैव तिष्ठामो भक्त्यन्तः फलादिकम् । सेवामस्यैव कुर्वाणा आभ्यन्तः सुखमिच्छया ॥३०५॥
 प्रतिमास्थस्य तस्याथ नमिश्च विनमिस्तथा । तस्थतुः पादयोर्नत्वा भोगयाचनतत्परौ ॥३०६॥
 याचमानौ विदित्वा तावदासनस्य प्रकम्पनात् । आयातो धरणो नाम्ना नागराजस्वरान्वित ॥३०७॥
 विकृत्य जिनरूपं स ताभ्यां विद्ये वरे ददौ । प्राप्य विद्ये वरे यातौ विजयाद्द्वन्द्वे चणात् ॥३०८॥
 योजनानि दशारुहं तत्र विद्याभृदालया । नानादेशपुराकीर्णाभोगैर्भोगिच्छितेः^५ समाः ॥३०९॥

पहिन लिये, कितने ही लोगोंने वृद्धोंके बल्कल धारण कर लिये, कितने ही लोगोंने चमड़ेसे शरीर आच्छादित कर लिया और कितने ही लोगोंने पहले छोड़े हुए बख ही फिरसे ग्रहण कर लिये ॥२६६॥ अपने नग्न वेपसे लज्जित होकर कितने ही लोगोंने कुशाओका बख धारण किया । इस प्रकार पत्र आदि धारण करनेके बाद वे सब फलो तथा शीतल जलसे तृप्तिको प्राप्त हुए ॥२६७॥ तदनन्तर जिनकी बुरी हालत हो रही थी ऐसे भ्रष्ट हुए सब राजा लोग एकत्रित हो दूर जाकर निशङ्क भावसे परस्परसे सलाह करने लगे ॥२६८॥ उनमेंसे किसी राजाने अन्य राजाओको सम्बोधित करते हुए कहा कि आप लोगोमेंसे किसीसे भगवान्ने कुछ कहा था ॥२६९॥ इसके उत्तरमें अन्य राजाओने कहा कि इन्होंने हम लोगोमेंसे किसीसे कुछ भी नहीं कहा है । यह सुनकर भोगोकी अभिलाषा रखनेवाले किसी राजाने कहा कि तो फिर यहाँ रुकनेसे क्या लाभ है ? उठिए, हम लोग अपने-अपने देश चलें और पुत्र तथा स्त्री आदिका मुख देखनेसे उत्पन्न हुआ सुख प्राप्त करें ॥३००-३०१॥ उन्हींमेंसे किसीने कहा कि चूँकि हम लोग दुःखी हैं अतः चलनेके लिए तैयार हैं । इस समय ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे दुःखके कारण हम कर न सके परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि हम लोगोको स्वामीके विना अकेला ही वापिस आया देखकर भरत मारेगा और अवश्य ही हम लोगोके देश छीन लेगा ॥३०२-३०३॥ अथवा भगवान् ऋषभदेव जब फिरसे राज्य प्राप्त करेंगे—वनवास छोड़कर पुनः राज्य करने लगेंगे तब हम लोग निर्लज्ज होकर इन्हें मुख कैसे दिखावेगे ? ॥३०४॥ इसलिए हम लोग फलादिका भक्षण करते हुए यहीं पर रहें और इच्छानुसार सुखपूर्वक भ्रमण करते हुए इन्हींकी सेवा करते रहें ॥३०५॥

अथानन्तर—भगवान् ऋषभदेव प्रतिमायोगसे विराजमान थे कि भोगोकी याचना करनेमें तत्पर नमि और विनमि उनके चरणोमें नमस्कार कर वहीं पर खड़े हो गये ॥३०६॥ उसी समय आसनके कम्पायमान होनेसे नागकुमारोके अधिपति धरणेन्द्रने यह जान लिया कि नमि और विनमि भगवान्से याचना कर रहे हैं । यह जानते ही वह शीघ्रतासे वहाँ आ पहुँचा ॥३०७॥ धरणेन्द्रने विक्रियासे भगवान्का रूप धरकर नमि और विनमिके लिए दो उत्कृष्ट विद्याएँ दीं । उन विद्याओको पाकर वे दोनों उसी समय विजयाद्द्वं पर्वतपर चले गये ॥३०८॥ समान भूमि-

१. प्राप्यामीभिः म० । २. कृत्वा म० । ३. भगवता । ४. तस्थतुः म० । ५. याच्यमानौ म०, क० ।

उपर्यथ समारूह्य योजनानि पुनर्दश । गन्धर्वकिन्नरादीनां नगराणि सहस्रशः ॥३१०॥
 अतोऽपि समतिक्रम्य पद्मयोजनमन्तरम् । अर्हद्भवनसङ्घो भाति नन्दीश्वराद्रिवत् ॥३११॥
 भवनेष्वर्हता तेषु स्वाध्यायगतचेतसः । मुनयश्चारणा नित्य तिष्ठन्ति परमौजसः ॥३१२॥
 दक्षिणे विजयार्द्धस्य भागे पञ्चाशदाहिताः । रथनूपुरसध्याभ्रप्रभृतीनां पुरां ततः ॥३१३॥
 उत्तरेण तथा पट्टिर्नगराणां निवेशिता । आकाशवह्नभादीनि यानि नामानि विभ्रति ॥३१४॥
 देशग्रामसमाकीर्णं [मटम्ब्राकारसकुलम् । खेटकर्वटाटोप तत्रैकैक पुरोत्तमम् ॥३१५॥
 उदारगोपुराट्टाल हेमप्राकारतोरणम् । वाप्युद्यानसमाकीर्णं] स्वर्गभोगोत्सवप्रदम् ॥३१६॥
 अकृष्टसर्वसस्याह्य सर्वपुष्पफलद्रुमम् । सर्वौषधिसमाकीर्णं सर्वकामप्रसाधनम् ॥३१७॥
 भोगभूमिसम शशवद् राजते यत्र भूतलम् । मधुचीरघृतादीनि वहन्ते तत्र निर्भराः ॥३१८॥
 सरासि पद्मयुक्तागि हसादिकलितानि च । मणिकाञ्चनसोपानां स्वच्छमिष्टमधूदका ॥३१९॥
 सरोरुहरजश्छा विरेजुस्तत्र दीर्घिकाः । सवत्सकामधेनूनां सम्पूर्णन्दुसमत्विपाम् ॥३२०॥
 सुवर्णखुरशृङ्गाणां सघाः शालासु तत्र च । ['नेत्रानन्दकरीणां च वसन्ति यत्र धेनवः] ॥३२१॥
 यासा वचश्च मूत्र च शुभगन्ध तु रुक्नवत् । कान्तिवीर्यप्रद तासां पयः केनोपमीयते ॥३२२॥
 नीलनीरजवर्णानां तथा पद्मसमत्विपाम् । महिषीणां सपुत्राणां सर्वासामत्र पङ्क्तयः ॥३२३॥

तलसे दश योजन ऊपर चलकर विजयार्ध पर्वतपर विद्याधरोके निवास स्थान बने हुए है । उनके वे निवास-स्थान नाना देश और नगरोसे व्याप्त हैं तथा भोगोसे भोगभूमिके समान जान पड़ते हैं ॥३०६॥ विद्याधरोके निवास-स्थानसे दश योजन ऊपर चलकर गन्धर्व और किन्नर देवोंके हजारो नगर बसे हुए हैं ॥३१०॥ वहाँ से पाँच योजन और ऊपर चलकर वह पर्वत अर्हन्त भगवान्के मन्दिरोसे आच्छादित है तथा नन्दीश्वर द्वीपके पर्वतके समान जान पड़ता है ॥३११॥ अर्हन्त भगवान्के उन मन्दिरोसे स्वाध्यायके प्रेमी, चारणश्रद्धिके धारक परम तेजस्वी मुनिराज निरन्तर विद्यमान रहते हैं ॥३१२॥ उस विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीपर रथनूपुर तथा सध्याभ्रको आदि लेकर पचास नगरियाँ हैं और उत्तर श्रेणीपर गगनवल्लभ आदि साठ नगरियाँ हैं ॥३१३-३१४॥ ये प्रत्येक नगरियाँ एकसे एक बढ़कर हैं, नाना देशों और गावोंसे व्याप्त हैं, मटम्बोसे संकीर्ण है, खेट और कर्वटोके विस्तरसे युक्त हैं ॥३१५॥ बड़े-बड़े गोपुरो और अट्टालिकाओंसे विभूषित है, सुवर्णमय कोटो और तोरणोंसे अलंकृत हैं, वापिकाओ और वगीचोसे व्याप्त है, स्वर्ग सम्बन्धी भोगोंका उत्सव प्रदान करनेवाली हैं, बिना जोते ही उत्पन्न होनेवाली सर्व प्रकारके फलोंके वृक्षोंसे सहित हैं, सर्व प्रकारकी औषधियोंसे आकीर्ण हैं, और सबके मनोरथोंको सिद्ध करनेवाली है ॥३१६-३१७॥ उनका पृथिवीतल हमेशा भोगभूमिके समान सुशोभित रहता है, वहाँके निर्भर सदा मधु, दूध, घी आदि रसोंको बहाते हैं, वहाँके सरोवर कमलोसे युक्त तथा हंस आदि पक्षियोंसे विभूषित है । वहाँकी वापिकाओंकी सीढियाँ मणियों तथा सुवर्णसे निर्मित हैं, उनमें मधुके समान स्वच्छ और मीठा पानी भरा रहता है, तथा वे स्वयं कमलोंकी परागसे आच्छादित रहती हैं । वहाँकी शालाओमें वृद्धोंसे सुशोभित उन कामधेनुओंके भुण्डके भुण्ड बंधे रहते हैं जिनकी कि कान्ति पूर्ण चन्द्रमाके समान है, जिनके खुर और सींग सुवर्णके समान पीले हैं तथा जो नेत्रोंको आनन्द देनेवाली है ॥३१८-३२१॥ वहाँ वे गाये रहती हैं जिनका कि गोवर और मूत्र भी सुगन्धिसे युक्त है तथा रसायनके समान कान्ति और वीर्यको देनेवाला है, फिर उनके दूधकी तो उपमा ही किससे दी जा सकती है ? ॥३२२॥ उन नगरियोंमें नील कमलके समान श्यामल तथा कमलके समान

१ कोष्ठान्तर्गत. पाठः क० ख० पुस्तकयोर्नास्ति । २. कोष्ठान्तर्गतः पाठ. क० ख० पुस्तकयोर्नास्ति ।

३. सुगन्ध तु सरुक्नवत् म० ।

धान्याना पर्वताकारा' पर्यौघा क्षयवर्जिता । वाप्युद्यानपरिचिता' प्रासादाश्च महाप्रभाः ॥३२४॥
 रेणुकण्टकनिर्मुक्ता रथ्यामार्गाः सुखावहाः । महामरुकृतच्छाया प्रपाः सर्वरसान्विताः ॥३२५॥
 मासाश्च चतुरस्तत्र श्रोत्रानन्दकरध्वनि' । देशे काले च पर्जन्य' कुरुतेऽमृतवर्षणम् ॥३२६॥
 हिमानिलविनिर्मुक्तो हेमन्त' सुखभागिनाम् । यथेप्सितपरिप्राप्तवाससां साधु वर्तते ॥३२७॥
 मृदुतापो निदाघेऽपि शङ्कावानिव भास्कर । नानारत्नप्रभाक्रान्तो बोधकः पद्मसपदाम् ॥३२८॥
 ऋतवोऽन्येऽपि चेतःस्थवस्तुसंप्रापणोचिता । नीहारादिविनिर्मुक्ताः शोभन्ते निर्मला दिश ॥३२९॥
 न कश्चिदेकदेशेऽपि तस्मिन्नस्ति सुखो न य । रमन्ते सतत सर्वा भोगभूमिष्विव प्रजा ॥३३०॥
 योपितः सुकुमाराङ्गाः सर्वाभरणभूषिताः । इङ्गितज्ञानकुशला' कीर्तिश्रीहीधृतिप्रभाः ॥३३१॥
 काचित्कमलगर्भाभा काचिद्विन्दीवरप्रभा । काचिच्छिरीपसकाशा काचिद्विद्युत्समधृतिः ॥३३२॥
 नन्दनस्येव वातेन निर्मितास्ताः सुगन्धत्' । वसन्तादिव सभूताश्चारुपुष्पविभूषणात् ॥३३३॥
 चन्द्रकान्तिविनिर्माणशरीरा इव चापरा । कुर्वन्ति सतत रामा निजज्योत्स्नासरस्तराम् ॥३३४॥
 त्रिवर्णनेत्रशोभिन्वो गत्या हसवधूसमाः । पीनस्तन्य' कृशोदर्य' सुरस्त्रीसमविभ्रमाः ॥३३५॥

लाल कान्तिको धारण करनेवाली भैसांकी पंक्तियों अपने बछड़ोके साथ सदा विचरती रहती हैं ॥३२३॥ वहाँ पर्वतों के समान अनाजकी राशियाँ हैं, वहाँकी खत्तियों (अनाज रखनेकी खोडियों) का कभी क्षय नहीं होता, चापिकाओ और वगीचोसे घिरे हुए वहाँके महल बहुत भारी कान्तिको धारण करनेवाले हैं ॥३२४॥ वहाँके मार्ग धूलि और कण्टकसे रहित, सुख उपजानेवाले हैं । जिनपर बड़े-बड़े वृत्तोंकी छाया हो रही है तथा जो सर्वप्रकारके रसोंसे सहित हैं ऐसी वहाँकी प्याऊँ है ॥३२५॥ जिनकी मधुर आवाज कानोंको आनन्दित करती है ऐसे मेघ वहाँ चार मास तक योग्य देश तथा योग्य कालमें अमृतके समान मधुर जलकी वर्षा करते हैं ॥३२६॥ वहाँकी हेमन्त ऋतु हिममिश्रित शीतल वायुसे रहित होती है तथा इच्छानुसार वस्त्र प्राप्त करनेवाले सुखके उपभोगी मनुष्योंके लिए आनन्ददायी होती है ॥३२७॥ वहाँ ग्रीष्म ऋतुमें भी सूर्य मानो शङ्कित होकर ही मन्द तेजका धारक रहता है और नाना रत्नोंकी प्रभासे युक्त होकर कमलोंको विकसित करता है ॥३२८॥ वहाँ की अन्य ऋतुएँ भी मनोवाञ्छित वस्तुओंको प्राप्त करनेवाली हैं तथा वहाँकी निर्मल दिशाएँ नोहार (कुहरा) आदिसे रहित होकर अत्यन्त सुशोभित रहती हैं ॥३२९॥ वहाँ ऐसा एक भी स्थान नहीं है जो कि सुखसे युक्त न हो । वहाँकी प्रजा सदा भोगभूमिके समान क्रीड़ा करती रहती है ॥३३०॥ वहाँकी स्त्रियों अत्यन्त कोमल शरीरको धारण करनेवाली हैं, सब प्रकारके आभूषणोंसे सुशोभित हैं, अभिप्रायके जाननेमें कुशल हैं, कीर्ति, लक्ष्मी, लज्जा, धैर्य और प्रभाको धारण करनेवाली हैं ॥३३१॥ कोई स्त्री कमलके भीतरी भागके समान कान्तिवाली है, कोई नील कमलके समान श्यामल प्रभाकी धारक है, कोई शिरीषके फूलके समान कोमल तथा हरित वर्णकी है और कोई विजलीके समान पीली कान्तिसे सुशोभित है ॥३३२॥ वे स्त्रियों सुगन्धिसे तो ऐसी जान पड़ती हैं मानो नन्दन वनकी वायुसे ही रची गई हो और मनोहर फूलोंके आभरण धारण करनेके कारण ऐसी प्रतिभासित होती हैं मानो वसन्त ऋतुसे ही उत्पन्न हुई हो ॥३३३॥ जिनके शरीर चन्द्रमाकी कान्तिसे बने हुए के समान जान पड़ते थे ऐसी कितनी ही स्त्रियों अपनी प्रभा रूपी चोंदनीसे निरन्तर सरोवर भरती रहती थीं ॥३३४॥ वे स्त्रियों लाल काले और सफेद इस तरह तीन रङ्गोंको धारण करनेवाले नेत्रोंसे सुशोभित रहती हैं, उनकी चाल हंसियोंके समान है, उनके स्तन अत्यन्त स्थूल हैं, उदर कृश है, और उनके हाव-भाव-विलास देवाङ्गनाओंके समान

नराश्चन्द्रमुखा शूरा. सिंहोरस्का महाभुजा' । आकाशगमने शक्ता' सुलक्षणगुणक्रियाः ॥३३६॥
न्यायवर्तनसत्पुष्टा स्वर्गवासिसमप्रभा । विचरन्ति सनारीका यथेष्टं कामरूपिण ॥३३७॥

शालिनीच्छन्दः

श्रेण्योरेवं रम्ययोस्तन्नितान्त विद्याजायासपरिप्वक्तचित्ताः ।
इष्टान् भोगान् भुञ्जते भूमिदेवा धर्मासक्तानन्तरायेण मुक्ताः ॥३३८॥
एवरूपा धर्मलाभेन सर्वे संप्राप्यन्ते प्राणिना भोगलाभाः ।
तस्मात्कर्तुं धर्ममेक यतध्व भित्वा ध्वान्त खे रवेस्तुल्यचेष्टा ॥३३९॥

इत्यार्षे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते विद्याधरलोकाभिधानं नाम तृतीयं पर्व ॥३॥



हैं ॥३३५॥ वहाँके मनुष्य भी चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाले है, शूर वीर है, सिंहके समान चौड़े वक्ष स्थलसे युक्त हैं, लम्बी भुजाओसे विभूषित हैं, आकाशमे चलनेमे समर्थ हैं, उत्तम लक्षण, गुण और क्रियाओसे सहित हैं ॥३३६॥ न्यायपूर्वक प्रवृत्ति करनेसे सदा सन्तुष्ट रहते हैं, देवोंके समान प्रभाके धारक हैं, कामके समान सुन्दर हैं और इच्छानुसार स्त्रियो सहित जहाँ तहाँ घूमते हैं ॥३३७॥ इस प्रकार जिनका चित्त विद्या रूपी स्त्रियोमे आसक्त रहता है ऐसे भूमि-निवासी देव अर्थात् विद्याधर, अन्तराय रहित हो विजयार्थ पर्वतकी दोनों मनोहर श्रेणियोमे धर्मके फल स्वरूप प्राप्त हुए मनोवाञ्छित भोगोंको भोगते रहते हैं ॥३३८॥ इस प्रकार के समस्त भोग प्राणियोको धर्मके द्वारा ही प्राप्त होते हैं इसलिए हे भव्य जीवो ! जिस प्रकार आकाशमे सूर्य अन्धकारको नष्ट करता है, उसी प्रकार तुम लोग भी अपने अन्तरङ्ग सम्बन्धी अज्ञानान्धकारको नष्टकर एक धर्मको ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करो ॥३३९॥

इस प्रकार आर्पणामसे प्रसिद्ध तथा रविपेणाचार्यके द्वारा कहे हुए पद्मचरितमें विद्याधर लोकका वर्णन करनेवाला तीसरा पर्व समाप्त हुआ ॥३॥



चतुर्थ पर्व

अथासौ भगवान् ध्यानी शतकुम्भप्रभः प्रभु । हिताय जगते कर्तुं दानधर्मं समुद्यतः ॥१॥
निःशेषद्रोपनिर्मुक्तो मौनमाश्रित्य नैष्ठिकम् । सहस्र्य प्रतिमा धीरो वभ्राम धरणीतलम् ॥२॥
ददृशुस्त प्रजा देव भ्राम्यन्त तुङ्गविग्रहम् । देहप्रभापरिच्छेद्य द्वितीयमिव भास्करम् ॥३॥
यत्र यत्र पदन्यासमकरोत् स जिनेश्वरः । तस्मिन् त्रिकचपद्मानि भवन्तीव महीतले ॥४॥
मेरुकूटसमाकारभासुरार्सं समाहित । स रेजे भगवान् दीर्घजटाजालहृताशुमान् ॥५॥
अन्यत्रा हास्तिनपुरं विहरन् स समागतः । अविशच्च दिनस्याह्ने गते मेरुरिव श्रिया ॥६॥
मध्याह्नरविसकाश दृष्ट्वा त पुरुपोत्तमम् । सर्वे नराश्च नार्यश्च मुमुक्षुर्हरतिविस्मयात् ॥७॥
नानावर्णानि वस्त्राणि रत्नानि विविधानि च । हस्त्यश्वरथयानानि तस्मै दौकितवान् जनः ॥८॥
मुग्धाः पूर्णेन्दुवदनाः कन्यास्तामरसेक्षणाः । उपनिन्युर्नरा केचिद् विनीताकारधारिणः ॥९॥
तस्मै न रुचिताः सत्यं स्वस्याप्यप्रियता गताः । कन्यास्ता निरलकारा ध्यायन्त्यस्त व्यवस्थिता ॥१०॥
अथ प्रासादगिरिरे स्थितः श्रेयान् महीपतिः । दृष्ट्वैन स्निग्धया दृष्ट्या पूर्वजन्म समस्मरन् ॥११॥

अथानन्तर सुवर्णके समान प्रभाके धारक ध्यानी भगवान् ऋषभदेव प्रभु जगत्के कल्याणके निमित्त दान धर्मकी प्रवृत्ति करनेके लिए उद्यत हुए ॥१॥ धीर वीर भगवान्ने छह माहके बाद प्रतिमा योग समाप्तकर पृथिवी तलपर भ्रमण करना प्रारम्भ किया । भगवान् समस्त दीपोसे रहित थे और मौन धारण कर ही विहार करते थे ॥२॥ जिनका शरीर बहुत ही ऊँचा था तथा जो अपने शरीरकी प्रभासे आस पासके भूमण्डलको आलोकित कर रहे थे ऐसे भ्रमण करनेवाले भगवान्के दर्शनकर प्रजा यह समझती थी मानो दूसरा सूर्य ही भ्रमण कर रहा है ॥३॥ वे जिन-राज पृथिवीतल पर जहाँ-जहाँ चरण रखते थे वहाँ ऐसा जान पड़ता था मानो कमल ही खिल उठे हो ॥४॥ उनके कन्धे मेरुपर्वतके शिखरके समान ऊँचे तथा देदीप्यमान थे, उनपर बड़ी-बड़ी जटाएँ किरणोंकी भाँति सुशोभित हो रही थीं और भगवान् स्वयं बड़ी सावधानीसे —ईर्यासमित्तसे नीचे देखते हुए विहार करते थे ॥५॥ जो शोभासे मेरु पर्वतके समान जान पड़ते थे ऐसे भगवान् ऋषभदेव किसी दिन विहार करते-करते मध्याह्नके समय हस्तिनापुर नगरमें प्रविष्ट हुए ॥६॥ मध्याह्नके सूर्यके समान देदीप्यमान उन पुरुपोत्तमके दर्शनकर हस्तिना-पुरके समस्त स्त्री-पुरुष बड़े आश्चर्यसे मोहको प्राप्त हो गये अर्थात् किसीको यह ध्यान नहीं रहा कि यह आहारकी वेला है इसलिए भगवान्को आहार देना चाहिए ॥७॥ वहाँके लोग नाना वर्णोंके वस्त्र, अनेक प्रकारके रत्न और हाथी, घोड़े, रथ तथा अन्य प्रकारके वाहन ला लाकर उन्हें समर्पित करने लगे ॥८॥ विनीत वेपको धारण करनेवाले कितने ही लोग पूर्णचन्द्रमाके समान मुख वाली तथा कमलोके समान नेत्रोंसे सुशोभित सुन्दर-सुन्दर कन्याएँ उनके पास ले आये ॥९॥ जब वे पतिव्रता कन्याएँ भगवान्के लिए रुचिकर नहीं हुईं तब वे निराश होकर स्वयं अपने आपसे ही द्वेष करने लगीं और आभूषण दूर फेक भगवान्का ध्यान करती हुईं खड़ी रह गईं ॥१०॥

अथानन्तर—महलके शिखरपर खड़े हुए राजा श्रेयांसने उन्हें स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखा और

१. शतकौम्भप्रभः म०, क० । २. जगाम म० । ३. परिच्छिन्न ख० । ४. भासुराशः म० ।

उन्धाय च नृसिंहोऽसौ सान्तःपुरसुहृज्जन^१ । कृताञ्जलिपुटं स्तोत्रव्यगोष्ठपुटपङ्कजः ॥१२॥
 तस्य प्रदक्षिणां कुर्वन् रराज स नराधिप । मेरोर्नितम्बमण्डल्यां भ्राम्यन्निव दिवाकरः ॥१३॥
 तत कुन्तलभारेण प्रमृज्य चरणद्वयम् । तस्यानन्दाश्रुभिः पूर्वं क्षालितं तेन भ्रूभृता ॥१४॥
 रत्नपात्रेण दत्त्वा र्घं कृततत्पदमार्जनं । शुचौ देगे स्थितायास्मै विधिना परमेण सः ॥१५॥
 रसमिक्षोः समादाय कलशस्थं सुशीतलम् । चकार परम श्राद्ध तद्गुणाकृष्टमानसः ॥१६॥
 तत प्रमुदितैर्देवैः साधुशब्दौघमिश्रितः । नभोगैर्दुन्दुभिध्वानश्चक्रे दिक्चक्रपूरणः ॥१७॥
 पुष्पाणां पञ्चवर्णानां वृष्टीश्च प्रमथाधिपाः । अहो दानमहो दानमित्युक्त्वा ववृषुर्मुदा ॥१८॥
 अनिलोऽरिमुखस्पर्शो दिशः सुरभयन् ववौ । पूरयन्ती नभोभाग वसुधारा पपात च ॥१९॥
 सप्राप्तः सुरसन्मानं त्रिजगद्विस्मयप्रदम् । पूजितो भरतस्यापि श्रेयान् प्रीतिसमुत्कटम् ॥२०॥
 अथ प्रवर्तनं कृत्वा पाणिपात्रव्रतस्य सः । शुभध्यानं समोविष्टो भूयोऽपि विजितेन्द्रियः ॥२१॥
 ततस्तस्य सितध्यानाद् गते मोहे परिक्षयम् । उत्पन्नं केवलज्ञानं लोकालोकावलोकनम् ॥२२॥
 तेनैवं तच्च संजातं तेजसो मण्डलं महत् । कालं (लस्य) विकिरद्भेदं रात्रिवासरसंभवम् ॥२३॥
 तद्देशे विपुलस्कन्धो रत्नपुष्पैरलंकृतः । अशोकपादपोऽभूच्च त्रिलसद्भक्तपल्लवः ॥२४॥

देखते ही उसे पूर्वजन्मका स्मरण हो आया ॥११॥ राजा श्रेयास महलसे नीचे उतरकर अन्तः-
 पुर तथा अन्य मित्रजनोके साथ उनके पास आया और हाथ जोड़कर स्तुति पाठ करता हुआ
 प्रदक्षिणा देने लगा । भगवानकी प्रदक्षिणा देता हुआ राजा श्रेयास ऐसा सुशोभित हो रहा था
 मानो मेरुके मध्य भागकी प्रदक्षिणा देता हुआ सूर्य ही हो ॥१२-१३॥ सर्वप्रथम राजाने अपने
 केशोसे भगवान्के चरणोका मार्जनकर आनन्दके आँसुओसे उनका प्रक्षालन किया ॥१४॥ रत्न-
 मयी पात्रसे अर्घ देकर उनके चरण धोये, पवित्र स्थानमे उन्हें विराजमान किया और तदनन्तर
 उनके गुणोसे आकृष्ट चित्त हो, कलशमें रक्खा हुआ इलुका शीतल जल लेकर विधि पूर्वक श्रेष्ठ
 पारणा कराई—आहार दिया ॥१५-१६॥ उसी समय आकाशमें चलनेवाले देवोने प्रसन्न होकर
 साधु-साधु, धन्य-धन्य शब्दोके समूहसे मिला एवं दिग्मण्डलको मुखरित करनेवाला दुन्दुभि
 वाजोका भारी शब्द किया ॥१७॥ प्रमथ जातिके देवोके अधिपतियोने 'अहो दानं अहो दानं'
 कहकर हर्षके साथ पाँच रत्नके फूल वरसाये ॥१८॥ अत्यन्त सुखकर स्पर्शसे सहित, दिशाओको
 सुगन्धित करनेवाली वायु वहने लगी और आकाशको व्याप्त करती हुई रत्नोकी धारा वरसने
 लगी ॥१९॥ इस प्रकार उधर राजा श्रेयांस तीनों जगत्को आश्चर्यमे डालनेवाले देवकृत सन्मान
 को प्राप्त हुआ और इधर सम्राट् भरतने भी बहुत भारी प्रीतिके साथ उसकी पूजा की ॥२०॥

अथानन्तर इन्द्रियोको जीतनेवाले भगवान् ऋषभदेव, दिग्म्बरमुनियोका व्रत कैसा है ?
 उन्हें किस प्रकार आहार दिया जाता है ? इसकी प्रवृत्ति चलाकर फिरसे शुभ ध्यानमे लीन हो
 गये ॥२१॥ तदनन्तर शुक्ल ध्यानके प्रभावसे मोहनीय कर्मका क्षय हो जानेपर उन्हें लोक और
 अलोकको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥२२॥ केवलज्ञानके साथ ही बहुत
 भारी भामण्डल उत्पन्न हुआ । उनका वह भामण्डल रात्रि और दिनके कारण होनेवाले कालके
 भेदको दूर कर रहा था अर्थात् उसके प्रकाशके कारण वहाँ रात दिनका विभाग नहीं रह पाता
 था ॥२३॥ जहाँ भगवान्को केवलज्ञान हुआ था वहीं एक अशोक वृक्ष प्रकट हो गया । उस
 अशोक वृक्षका स्कन्ध बहुत मोटा था, वह रत्नमयी फूलोसे अलंकृत था तथा उसके लाल-लाल

१. पुरः म० । पुटस्तोत्र क० । २. कृतं तत्पदमर्चनम् ख० । ३. नभोवैः म० । ४. च सम म० ।
 ५. विक्रमद्रवत—म० ।

प्रकीर्णां सुमनोवृष्टिरामोदाकृष्टपट्पदा । नभस्यैरमरैर्नानारूपसभवागमिनी ॥२५॥
 महादुन्दुभयो नेदुः क्षुब्धसागरनिस्वना । अदृष्टविग्रहैर्देवैराहता करपल्लवैः ॥२६॥
 यत्तौ पद्मपलाशात्तौ सर्वालङ्कारभूषितौ । चालयाद्भक्तुः स्वैर चामरे चन्द्रहासिनी ॥२७॥
 मेरुमस्तकसकाशमुकुटभूमियोषितः । सिंहासनसमुत्पन्नकराहतट्टिवाकरम् ॥२८॥
 त्रिलोकविभुताचिह्नमुक्ताजालकभूषितम् । छत्रत्रयसमुद्भूततस्येव विमलयश ॥२९॥
 सिंहासनस्थितस्यास्य सरणं समवान्वितम् । प्राप्तस्य गदितुशोभाकेवलीकेवलप्रभुः ॥३०॥
 ततस्तमवधिज्ञानाद्भवगम्यसुराधिपाः । वन्दितुसपदिप्राप्ता परिवारसमन्विता ॥३१॥
 ख्यातो वृषभसेनोऽस्य सजातो गणभृत्ततः । अन्ये च श्रमणा जाता महावैराग्ययोगिनः ॥३२॥
 यथास्थानततस्तेषु सरणे समवान्विते । यत्यादिषु निविष्टेषु गणेशेन प्रचोदित ॥३३॥
 छादयन्ती स्वनादेन देवदुन्दुभिर्निस्वनम् । जगाद भगवान् वाच तत्त्वार्थपरिशसिनीम् ॥३४॥
 अस्मिन्निभुवने कृत्स्ने जीवानां हितमिच्छताम् । शरणपरमो धर्मस्तस्माच्च परमसुखम् ॥३५॥
 सुखार्थं चेष्टितं सर्वं तच्च धर्मनिमित्तकम् । एव ज्ञात्वा जना यत्नात् कुरुष्व धर्मसंग्रहम् ॥३६॥
 वृष्टिर्विना कुतो मेघे क्व सस्य वीजवर्जितम् । जीवानां च विना धर्मात् सुखमुत्पद्यते कुत ॥३७॥
 गन्तुकामो यथा पद्भूमौ क्व वक्तु समुद्यत । अन्धो दर्शनकामश्च तथा धर्माद्यते सुखम् ॥३८॥

पल्लव बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे ॥२४॥ आकाशमे स्थित देवोने सुगन्धिसे भ्रमरोको आकर्षित करनेवाली एव नाना आकारमे पड़नेवाली फूलोकी वर्षा की ॥२५॥ जिनके शब्द, चोभको प्राप्त हुए समुद्रके शब्दके समान भारी थे ऐसे बड़े-बड़े दुन्दुभि बाजे, अदृश्य शरीरके धारक देवोके द्वारा करपल्लवोसे ताडित होकर विशाल शब्द करने लगे ॥२६॥ जिनके नेत्र कमलकी कलिकाओके समान थे तथा जो सर्व प्रकारके आभूषणोसे सुशोभित थे ऐसे दोनो ओर खड़े हुए दो यक्ष, चन्द्रमाकी हँसी उडानेवाले—सफेद चमर इच्छानुसार चलाने लगे ॥२७॥ जो मेरुके शिखरके समान ऊँचा था, पृथिवी रूपी स्त्रीका मानो मुकुट ही था, और अपनी किरणोसे सूर्यको तिरस्कृत कर रहा था ऐसा सिंहासन उत्पन्न हुआ ॥२८॥ जो तीन लोककी प्रभुताका चिह्न स्वरूप था, मोतियोकी लड़ियोसे विभूषित था और भगवान्के निर्मल यशके समान जान पड़ता था ऐसा छत्रत्रय उत्पन्न हुआ ॥२९॥ आचार्य रविषेण कहते हैं कि समवसरणके बीच सिंहासनपर विराजमान हुए भगवान्की शोभाका वर्णन करनेके लिए मात्र केवलज्ञानी ही समर्थ हैं, हमारे जैसे तुच्छ पुरुष उस शोभाका वर्णन कैसे कर सकते हैं ॥३०॥

तदनन्तर अवधिज्ञानके द्वारा, भगवान्को केवलज्ञान उत्पन्न होनेका समाचार जानकर सब इन्द्र अपने-अपने परिवारोंके साथ वन्दना करनेके लिए शीघ्र ही वहाँ आये ॥३१॥ सर्व प्रथम वृषभसेन नामक मुनिराज इनके प्रसिद्ध गणधर हुए थे । उनके बाद महावैराग्यको धारण करनेवाले अन्य-अन्य मुनिराज भी गणधर होते रहे थे ॥३२॥ उस समवसरणमे जब मुनि, श्रावक तथा देव आदि सब लोग यथास्थान अपने-अपने कोठोमे बैठ गये तब गणधरने भगवान्से उपदेश देनेकी प्रेरणा की ॥३३॥ भगवान् अपने शब्दसे देव-दुन्दुभियोके शब्दको तिरोहित करते एव तत्त्वार्थको सूचित करनेवाली निम्नाङ्कित वाणी कहने लगे ॥३४॥ उन्होंने कहा कि इस त्रिलोकात्मक समस्त संसारमे हित चाहनेवाले लोगोको एक धर्म ही परम शरण है, उसीसे उत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है ॥३५॥ प्राणियोकी समस्त चेष्टाएँ सुखके लिए हैं और सुख धर्मके निमित्तसे होता है, ऐसा जानकर हे भव्य जन ! तुम सब धर्मका संग्रह करो ॥३६॥ विना मेघोके वृष्टि कैसे हो सकती है और विना बीजके अनाज कैसे उत्पन्न हो सकता है । इसी तरह विना धर्मको जीवोके सुख कैसे उत्पन्न हो सकता है ? ॥३७॥ जिस प्रकार

परमाणो. परं स्वर्हर्षं न चान्यद्ब्रह्मसो महत् । धर्मादन्यश्च लोकेऽस्मिन् सुहृन्नास्ति शरीरिणाम् ॥३६॥
 मनुष्यभोगः स्वर्गश्च सिद्धसौख्यं च धर्मतः । प्राप्यते यत्तदन्येन व्यापारेण कृतेन किम् ॥४०॥
 बहिःसान्निर्मलं धर्मं सेवन्ते ये विपश्चितः । तेषामेवोर्ध्वगमनं यान्ति तिर्यगथोऽन्यथा ॥४१॥
 यद्यप्यूर्ध्वं तप शक्त्या ब्रजेयुः परलिङ्गिनः । तथापि किङ्करा भूत्वा ते देवान् समुपासते ॥४२॥
 देवदुर्गतिदुःखानि प्राप्य कर्मवशात्ततः । स्वर्गच्युता. पुनस्तिर्यग्योनिमायान्ति दुःखिनः ॥४३॥
 सन्यग्दर्शनमन्वयाः स्वभ्यस्तजिनशासनाः । त्रिवं गत्वा च्युता बोधिं प्राप्य यान्ति परं शिवम् ॥४४॥
 सागराणां यतानां च धर्मोऽसौ द्विविधः स्मृतः । तृतीयं ये तु मन्यन्ते दग्धास्ते मोहवह्निना ॥४५॥
 अणुव्रतानि पञ्च स्युस्त्रिप्रकारं गुणव्रतम् । शिवाव्रतानि चचारि धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् ॥४६॥
 सर्वारम्भपरित्यागं कृत्वा देहेऽपि नि स्पृहा । कालधर्मेण संयुक्ता गतिं ते यान्ति शोभनाम् ॥४७॥
 महाव्रतानि पञ्च स्युस्तथा समितयो मताः । गुप्तयस्त्रिंशत् उद्दिष्टा धर्मोऽयं व्योमवासताम् ॥४८॥
 धर्मेणानेन संयुक्ताः शुभध्यानपरायणाः । यान्ति नाकं च मोक्षं च हित्वा पूतिकलेवरम् ॥४९॥
 येऽपि जातस्वरूपाणां परमब्रह्मचारिणाम् । स्तुतिं कुर्वन्ति भावेन तेऽपि धर्ममवाप्नुयुः ॥५०॥
 तेन धर्मप्रभावेण कृपातिं न ब्रजन्ति ते । लभन्ते बोधिलामं च मुच्यन्ते येन क्लिप्तिपात् ॥५१॥
 इत्यादि देवदेवेन भाषितं धर्ममुत्तमम् । श्रुत्वा देवा मनुष्याश्च परंमामोदमांगता ॥५२॥

पंगु मनुष्य चलनेकी इच्छा करे, गूंगा मनुष्य बोलनेकी इच्छा करे, और अन्धा मनुष्य देखने की इच्छा करे उसी प्रकार धर्मके विना सुख प्राप्त करना है ॥३६॥ जिस प्रकार इस संसारमें परमाणुसे छोटी कोई चीज नहीं है और आकाशसे बड़ी कोई वस्तु नहीं है उसी प्रकार प्राणियोंका धर्मसे बड़ा कोई मित्र नहीं है ॥३६॥ जब धर्मसे ही मनुष्य सम्वन्धी भोग, स्वर्ग और मुक्त जीवोंको सुख प्राप्त हो जाता है तब दूसरा कार्य करनेसे क्या लाभ है ? ॥४०॥ जो विद्वज्जन अहिंसासे निर्मल धर्मकी सेवा करते हैं उन्हींका ऊर्ध्वगमन होता है अन्य जीव तो तिर्यग्लोक अथवा अधोलोकमें ही जाते हैं ॥४१॥ यद्यपि अन्यलिङ्गी—हंस परमहंस—परिव्राजक आदि भी तपश्चरणकी शक्तिसे ऊपर जा सकते हैं—स्वर्गमें उत्पन्न हो सकते हैं तथापि वे वहाँ किङ्कर होकर अन्य देवोंको उपासना करते हैं ॥४२॥ वे वहाँ देव होकर भी कर्मके बश दुर्गति के दुःख पाकर स्वर्गसे च्युत होते हैं और दुःखी होते हुए तिर्यञ्च योनि प्राप्त करते हैं ॥४३॥ जो सन्यग्दर्शनसे सन्पन्न हैं तथा जिन्होंने जिनशासनका अच्छी तरह अभ्यास किया है वे स्वर्ग जाते हैं और वहाँसे च्युत होनेपर रत्नत्रयको पाकर उत्कृष्ट मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥४४॥ वह धर्म गृहस्थों और मुनियोंके भेदसे दो प्रकारका है । इन दो के सिवाय जो तीसरे प्रकारका धर्म मानते हैं वे मोहरूपी अग्निसे जले हुए हैं ॥४५॥ पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिवाव्रत, यह गृहस्थोंका धर्म है ॥४६॥ जो गृहस्थ अन्त समय सब प्रकारके आरम्भका त्याग कर शरीरमें भी निस्पृह हो जाते हैं तथा समता भावसे मरण करते हैं वे उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं ॥४७॥ पाँच महाव्रत, पाँच समितियों और तीन गुप्तियों यह मुनियोंका धर्म है ॥४८॥ जो मनुष्य मुनि धर्मसे युक्त होकर शुभ ध्यानमें तत्पर रहते हैं वे इस दुर्गन्धिपूर्ण वीभत्स शरीरको छोड़कर स्वर्ग अथवा मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥४९॥ जो मनुष्य उत्कृष्ट ब्रह्मचारी दिगम्बर मुनियोंकी भावपूर्वक स्तुति करते हैं वे भी धर्मको प्राप्त हो सकते हैं ॥५०॥ वे उस धर्मके प्रभावसे कुगतियोंमें नहीं जाते किन्तु उस रत्नत्रयरूपी धर्मको प्राप्त कर लेते हैं जिसके कि प्रभावसे पापबन्धनसे मुक्त हो जाते हैं ॥५१॥ इस प्रकार देवाधिदेव भगवान् वृषभ-देवके द्वारा कहे हुए उत्तम धर्मको सुनकर देव और मनुष्य सभी परम हर्षको प्राप्त हुए ॥५२॥

१. शरीरिणः म० । २. गृहमेधिनाम् म० । ३. शोभताम् म० । ४. देवमनुष्याश्च म० । ५. परमं मोक्ष- न० ।

केचित् सम्यग्मति भेजुर्गृहिधर्ममथापरे । अनगारव्रत केचित् स्वशक्तेरनुगामिन ॥५३॥
 ततः समुद्यता गन्तु जिन नत्वा सुरासुरा । स्तुत्वा च निजधामानि गता धर्मविभूषिता ॥५४॥
 य य देश स सर्वज्ञः प्रयाति गतियोगतः । योजनानां शत तत्र जायते स्वर्गविभ्रमम् ॥५५॥
 स भ्रमन् बहुदेशेषु भव्यराशीनुपागतान् । रत्नत्रितयदानेन ससारा हुदतीरत् ॥५६॥
 तस्यासीद् गणपालानामर्शातिश्रुतुरुत्तरा । सहस्राणि च तावन्ति साधूना सुतपोभृताम् ॥५७॥
 अत्यन्तशुद्धचिन्तास्ते रविचन्द्रसमप्रभा । एभिः परिवृत सर्वा जिनो विहरते महीम् ॥५८॥
 चक्रवर्तिश्रिय तावत्प्राप्तो भरतभूपतिः । यस्य क्षेत्रमिदं नाम्ना जगत्प्रकर्तां गतम् ॥५९॥
 ऋषभस्य शत पुत्रास्तेजस्कान्तिसमन्विताः । श्रमणव्रतमास्थाय सप्राप्ता परम पदम् ॥६०॥
 तन्मध्ये भरतश्चक्री बभूव प्रथमो भुवि । विनीतानगरे रस्ये साधुलोकनिपेविते ॥६१॥
 अक्षया निधयस्तस्य नवत्नादिसमृताः । आकराणां सहस्राणि नवतिर्नवसयुता ॥६२॥
 त्रय सुरभिकोटीना हलकोटिस्तथोदिताः । चतुर्भिरधिकाशीतिलक्षाणां वरदन्तिनाम् ॥६३॥
 कोट्यश्चाष्टौ दशोद्दिष्टा वाजिनां वातरहसाम् । द्वात्रिंशच्च सहस्राणि पार्थिवाना महौजसाम् ॥६४॥
 तावन्त्येव सहस्राणि देशानां पुरसपदाम् । चतुर्दश च रत्नानि रक्षितानि सदा सुरैः ॥६५॥
 पुरन्ध्रीणां सहस्राणि नवतिः पट्टभिरन्विताः । ऐश्वर्यं तस्य नि शेष गदितु नैव शक्यते ॥६६॥
 पौदनाख्ये पुरे तस्य स्थितो बाहुबली नृपः । प्रतिकूलो महासत्त्वस्तुत्योत्पादकमानर्तः ॥६७॥
 तस्य युद्धाय सप्राप्तो भरतश्चक्रवर्तिः । सैन्येन चतुरङ्गेण द्वादशन् धरणीतलम् ॥६८॥

कितने ही लोगोंने सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानको धारण किया। कितने ही लोगोंने गृहस्थ धर्म अगीकार किया और अपनी शक्तिका अनुसरण करनेवाले कितने ही लोगोंने मुनिव्रत स्वीकार किया ॥५३॥ तदनन्तर जानेके लिए उद्यत हुए सुर और असुरोंने जिनेन्द्र देवको नमस्कार किया, उनकी म्नुति की और फिर धर्मसे विभूषित होकर सब लोग अपने-अपने स्थानोपर चले गये ॥५४॥ भगवान्का गमन इच्छा वश नहीं होता था फिर भी वे जिस-जिस देशमें पहुँचते थे वहाँ सौ योजन तकका क्षेत्र स्वर्गके समान हो जाता था ॥५५॥ इस प्रकार अनेक देशोमें भ्रमण करते हुए जिनेन्द्र भगवान्ने शरणागत भव्य जीवोंको रत्नत्रयका दान देकर संसार-सागरसे पार किया था ॥५६॥ भगवान्के चौरासी गणधर थे और चौरासी हजार उत्तम तपस्वी साधु थे ॥५७॥ वे सब साधु अत्यन्त निर्मल हृदयके धारक थे तथा सूर्य और चन्द्रमाके समान प्रभासे संयुक्त थे। इन सबसे परिवृत होकर भगवान्ने समस्त पृथिवीपर विहार किया था ॥५८॥ भगवान् ऋषभ देवका पुत्र राजा भरत चक्रवर्तीकी लक्ष्मीको प्राप्त हुआ था और उसीके नामसे यह क्षेत्र संसारमें भरत क्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥५९॥ भगवान् ऋषभदेवके सौ पुत्र थे जो एकसे एक बढ़कर तेज और कान्तिसे सहित थे तथा जो अन्तमें श्रमणपद—मुनिपद धारणकर परमपद—निर्वाणधामको प्राप्त हुए थे ॥६०॥ उन सौ पुत्रोंके बीच भरत चक्रवर्ती प्रथम पुत्र था जो कि सज्जनोके समूहसे सेवित अयोध्या नामकी सुन्दर नगरीमें रहता था ॥६१॥ उसके पास नव रत्नोंसे भरी हुई अक्षय नौ निधियाँ थीं, निन्यानवे हजार खाने थी, तीन करोड़ गाँ थी, एक करोड़ हल थे, चौरासी लाख उत्तम हाथी थे, वायुके समान वेगवाले अठारह करोड़ घोड़े थे, बत्तीस हजार महाप्रतापी राजा थे, नगरोसे सुशोभित बत्तीस हजार ही देश थे, देव लोग सदा जिनकी रक्षा किया करते थे ऐसे चौदह रत्न थे, और छियानवे हजार 'स्त्रियों थी। इस प्रकार उसके समस्त ऐश्वर्यका वर्णन करना अशक्य है—कठिन कार्य है ॥६२-६६॥ पौदनपुर नगरमें भरतका सौतेला भाई राजा बाहुबली रहता था। वह अत्यन्त शक्तिशाली था तथा 'मैं और भरत एक ही पिताके दो पुत्र हैं' इस अहंकारसे सदा भरतके विरुद्ध रहता था ॥६७॥ चक्ररत्नके

तयोर्गजघटाटोपसघट्टरवसंकुलम् । संजातं प्रथमं युद्धं बहुसत्त्वक्षयावहम् ॥६६॥
 अथोवाच विहस्यैवं भरत वाहुविक्रमा । किं वराकेन लोकेन निहतेनामुनावयो ॥७०॥
 यद्वि निःस्पन्दया दृष्टया भवताहं पराजित । ततो निर्जित एवास्मि दृष्टियुद्धे प्रवर्त्यताम् ॥७१॥
 दृष्टियुद्धे ततो भग्नस्तथा वाहुरणाद्रिपु । वधार्थं भरतो भ्रातुश्चक्ररत्नं विसृष्टवान् ॥७२॥
 तत्तस्यान्त्यशरीरत्वात्क्षमं विनिपातने । तस्यैव पुनरायातं सर्मापं विफलक्रियम् ॥७३॥
 ततो भ्रात्रा समं वैरमवदुध्य महामना । सप्राप्तो भोगवैराग्यं परमं भुजविक्रमा ॥७४॥
 संत्यज्य स ततो भोगान् भूत्वा निर्वस्त्रभूषणः । वर्षं प्रतिमया तस्थौ मेरुवन्निःप्रकम्पकः ॥७५॥
 वल्मीकविवरोद्यातैरत्युग्रैः स महोरगैः । श्यामार्दीना च वल्लीभिः वेष्टितः प्राप केवलम् ॥७६॥
 तत् शिवपदं प्रापद्वायुप कर्मणः क्षये । प्रथमं सोऽवमर्षिण्यां मुक्तिमार्गं व्यगोधयत् ॥७७॥
 भरतस्त्वकरोद् राज्यं कण्टकैः परिवर्जितम् । पद्भिर्भागैर्विभक्तायां सर्वस्यां भरतजितौ ॥७८॥
 विद्याधरपुराकारा ग्रामा सर्वसुखावहा । देवलोकप्रकाराश्च पुर परमसंपद ॥७९॥
 देवा इव जनास्तेषु रेजुः कृतयुगे सदा । मनोविषयसंप्राप्तविचित्राम्बरभूषणा ॥८०॥
 देशा भोगभुवा तुल्या लोकपालोपमा नृपा । अप्सर सदृशो नार्यो मदनवासाभूमयः ॥८१॥
 एवमेकातपत्राया पृथिव्यां भरतोऽधिपः । आखण्डल इव स्वर्गे भुङ्क्ते कर्मफल शुभम् ॥८२॥

अहंकारसे चकनाचूर भरत अपनी चतुरङ्ग सेनाके द्वारा पृथिवीतलको आच्छादित करता हुआ उसके साथ युद्ध करनेके लिए पोद्दनपुर गया ॥६६॥ वहाँ उन दोनोंमे हाथियोंके समूहकी टक्करसे उत्पन्न हुए शब्दसे व्याप्त प्रथम युद्ध हुआ । उस युद्धमे अनेक प्राणी मारे गये ॥६६॥ यह देख भुजाओंके बलसे सुशोभित वाहुवलीने हँसकर भरतसे कहा कि इस तरह निरपराध दीन प्राणियोंके वधसे हमारा और आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ॥७०॥ यदि आपने मुझे निश्चल दृष्टिसे पराजित कर दिया तो मैं अपने आपको पराजित समझ लूँगा अतः दृष्टि युद्धमे ही प्रवृत्त होना चाहिए ॥७१॥ वाहुवलीके कहे अनुसार दोनोंका दृष्टि युद्ध हुआ और उसमे भरत हार गया । तदनन्तर जल-युद्ध और वाहु-युद्ध भी हुए उनमे भी भरत हार गया । अन्तमे भरतने भाईका वध करनेके लिए चक्ररत्न चलाया ॥७२॥ परन्तु वाहुवली चरमशरीरी थे अतः वह चक्ररत्न उनका वध करनेमे असमर्थ रहा और निष्फल हो लौटकर भरतके समीप वापिस आ गया ॥७३॥ तदनन्तर भाईके साथ वैरका मूल कारण जानकर उदारचेता वाहुवली भोगोसे अत्यन्त विरक्त हो गये ॥७४॥ उन्होंने उसी समय समस्त भोगोका त्यागकर वस्त्राभूषण उतारकर फेंक दिये और एक वर्ष तक मेरु पर्वतके समान निष्प्रकम्प खड़े रहकर प्रतिमा योग धारण किया ॥७५॥ उनके पास अनेक वामिर्याँ लग गईं जिनके विलोसे निकले हुए बड़े-बड़े साँपो और श्यामा आदिकी लताओंने उन्हें वेष्टित कर लिया । इस दशामें उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया ॥७६॥ तदनन्तर आयु कर्मका क्षय होनेपर उन्होंने मोक्ष पद प्राप्त किया और इस अवसर्पिणी कालमे सर्व प्रथम उन्होंने मोक्ष मार्ग विशुद्ध किया—निष्कण्टक वनाया ॥७७॥ भरत चक्रवर्तिनि छह भागोसे विभक्त भरत क्षेत्रकी समस्त भूमिपर अपना निष्कण्टक राज्य किया ॥७८॥ उनके राज्यमे भरत क्षेत्रके समस्त गाँव विद्याधरोके नगरोंके समान सर्व सुखोसे सम्पन्न थे, समस्त नगर देवलोकके समान उत्कृष्ट सम्पदाओंसे युक्त थे ॥७९॥ और उनमे रहनेवाले मनुष्य, उस कृत युगमे देवोंके समान सदा सुशोभित होते थे । उस समयके मनुष्योंको मनमे इच्छा होते ही तरह-तरहके वस्त्राभूषण प्राप्त होते रहते थे ॥८०॥ वहाँके देश भोगभूमियोंके समान थे, राजा लोकपालोके तुल्य थे और स्त्रियों अप्सराओंके समान कामकी निवासभूमि थीं ॥८१॥ इस तरह

रक्षितं यस्य यक्षाणां सहस्रेण प्रयत्नतः । सर्वेन्द्रियसुखं रत्नं सुमहास्त्रं व्यैराजत ॥८३॥
 पञ्च पुत्रशतान्यस्य यैरिदं भरताह्वयम् । क्षेत्रं विभागतो भुक्तं पित्रा वृत्तमकण्टकम् ॥८४॥
 अथैव कथितं तेन गौतमेन महात्मना । श्रेणिकं पुनरप्याह वाक्यमेतत्कुतूहली ॥८५॥
 वर्णत्रयस्य भगवन्सभवो मे त्वयोदितः । उत्पत्तिं सूत्रकण्ठानां ज्ञातुमिच्छामि साग्रतम् ॥८६॥
 प्राणिघातादिकं कृत्वा कर्म साधुशुगुप्सितम् । परं वहन्त्यसौ गर्वं धर्मप्राप्तिनिमित्तकम् ॥८७॥
 तद्रेपां विपरीतानामुत्पत्तिं वक्तुमर्हसि । कथं चैषा गृहस्थानां भक्तो लोकं प्रवर्तते ॥८८॥
 एव पृष्टो गणेशोऽसाविदं वचनमब्रवीत् । कृपाङ्गनापरिष्वक्तहृदयो हतमत्सरः ॥८९॥
 श्रेणिकं श्रूयतामेया यथाजातसमुद्भवः । विपरीतप्रवृत्तीनां मोहावष्टब्धचेतसाम् ॥९०॥
 साकेतनगरासन्ने प्रदेशे प्रथमो जिनः । आसाङ्गकोऽन्यदा देवतिर्यग्मानववेष्टितः ॥९१॥
 ज्ञात्वा तं भरतस्तुष्टो ग्राहयित्वा सुसंस्कृतम् । अन्नं जगाम यत्यर्थं बहुभेदप्रकल्पितम् ॥९२॥
 प्रणम्य च जिर्णं भक्त्या समस्तंश्च दिगम्बरान् । भूमौ करद्वयं कृत्वा वाणीमेतामभापत ॥९३॥
 प्रसादं भगवन्तो मे कर्तुं महर्था याचिताः । प्रतीच्छतं मया भिक्षां शोभनामुपपादिताम् ॥९४॥
 इत्युक्ते भगवानाह भरतेय न कल्पते । साधूनामीदृशी भिक्षा या तदुद्देशसंस्कृता ॥९५॥

जिस प्रकार इन्द्र स्वर्गमें अपने शुभकर्मका फल भोगता है उसी प्रकार भरत चक्रवर्ती भी एक छत्र पृथिवीपर अपने शुभकर्मका फल भोगता था ॥८२॥ एक हजार यज्ञ प्रयत्नपूर्वक जिसकी रक्षा करते थे ऐसा समस्त इन्द्रियोको सुख देनेवाला उसका सुमद्रा नामका स्त्रीरत्न अतिशय शोभायमान था ॥८३॥ भरत चक्रवर्तीके पाँच सौ पुत्र थे जो पिताके द्वारा विभाग कर दिये हुए निष्कण्टक भरत क्षेत्रका उपभोग करते थे ॥८४॥ इस प्रकार महात्मा गौतम गणधरने भगवान् ऋषभदेव तथा उनके पुत्र और पौत्रोका वर्णन किया जिसे सुनकर कुतूहलसे भरे हुए राजा श्रेणिकने फिरसे यह कहा ॥८५॥

हे भगवन् ! आपने मेरे लिए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीन वर्णोंकी उत्पत्ति तो कही अब मैं इस समय ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति और जानना चाहता हूँ ॥८६॥ ये लोग धर्म प्राप्तिके निमित्त, सज्जनोंके द्वारा निन्दित प्राणिहिसा आदि कार्य कर बहुत भारी गर्वको धारण करते हैं ॥८७॥ इसलिए आप इन विपरीत प्रवृत्ति करनेवालोंकी उत्पत्ति कहनेके योग्य है । साथ ही यह भी बतलाइये कि इन गृहस्थ ब्राह्मणोंके लोग भक्त कैसे हो जाते हैं ? ॥८८॥ इस प्रकार दयारूपी स्त्री जिनके हृदयका आलिङ्गन कर रही थी तथा मत्सर भावको जिन्होंने नष्ट कर दिया था ऐसे गौतम गणधरने राजा श्रेणिकके पूछनेपर निम्नाङ्कित वचन कहे ॥८९॥ हे श्रेणिक ! जिनका हृदय मोहसे आक्रान्त है और इसीलिए जो विपरीत प्रवृत्ति कर रहे हैं ऐसे इन ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति जिस प्रकार हुई वह मैं कहता हूँ तू सुन ॥९०॥

एक बार अयोध्या नगरीके समीपवर्ती प्रदेशमें देव, मनुष्य तथा तिर्यञ्चोंसे वेष्टित भगवान् ऋषभदेव आकर विराजमान हुए । उन्हें आया जानकर राजा भरत बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और मुनियोंके उद्देश्यसे वनवाया हुआ नाना प्रकारका उत्तमोत्तम भोजन नौकरोसे लिवाकर भगवान्के पास पहुँचा । वहाँ जाकर उसने भक्तिपूर्वक भगवान् ऋषभदेवको तथा अन्य समस्त मुनियोंको नमस्कार किया और पृथ्वीपर दोनों हाथ टेककर यह वचन कहे ॥९१-९३॥ हे भगवन् ! मैं याचना करता हूँ कि आप लोग मुझपर प्रसन्न हूजिये और मेरे द्वारा तैयार कराई हुई यह उत्तमोत्तम भिक्षा ग्रहण कीजिए । ॥९४॥ भरतके ऐसा कहनेपर भगवान्ने कहा कि हे भरत ! जो भिक्षा मुनियोंके उद्देश्यसे तैयार की जाती है वह उनके योग्य नहीं है—मुनिजन उद्दिष्ट

पुने हि तृष्णया मुक्ता निर्जितेन्द्रियशत्रवः । विधायापि बहून् मासानुपवासं महागुणा ॥६६॥
 भिक्षां परगृहे लब्धा निर्दोषा मौनमास्थिता । भुञ्जते प्राणधृत्यर्थं प्राणा धर्मस्य हेतव ॥६७॥
 धर्मं चरन्ति मोक्षार्थं यत्र पीडा न विद्यते । कथंचिदपि सत्त्वानां सर्वेषां सुखमिच्छताम् ॥६८॥
 श्रुत्वा तद्वचनं सन्नाडचिन्तयद्दिदं चिरम् । अहो वत महाकष्टं जैनेश्वरमिदं व्रतम् ॥६९॥
 तिष्ठन्ति मुनयो यत्र स्वस्मिन् देहेऽपि निःस्पृहाः । जातरूपधरा धीराः 'सर्वभूतदयापरा. ॥१००॥
 इदानीं भोजयाम्येतान् सागारव्रतमाश्रितान् । लक्षणं हेमसूत्रेण कृत्वैतेन महान्धसा ॥१०१॥
 प्रकाममन्यदप्येभ्यो दानं यच्छामि भक्तितः । कनीयान् मुनिधर्मस्य धर्मोऽर्माभिः समाश्रितः ॥१०२॥
 सम्यग्दृष्टिजनं सर्वं ततोऽसौ धरणीतले । न्यमन्त्रयन् महावेगैः पुरुषैः स्वस्य सम्मतैः ॥१०३॥
 महान् कलकलो जातः सर्वस्यामवनौ ततः । भो भो नरा महादानं भरतः कर्तुं मुद्यतः ॥१०४॥
 उत्तिष्ठतांश्च गच्छामो वस्त्ररत्नादिकं धनम् । आनयामो नरा ह्येते प्रेषितास्तेन सादराः ॥१०५॥
 उक्तमन्यैरिदं तत्र पूजयत्येष सम्मतान् । सम्यग्दृष्टिजनान् राजा गमनं तत्र नो वृथा ॥१०६॥
 ततः सम्यग्दृशो याता हर्षं परममागता । समं पुत्रैः कलत्रैश्च पुरुषा विनयस्थिताः ॥१०७॥
 मिथ्यादृशोऽपि सप्राप्ता मायया वसुतृष्णया । भवनं राजराजस्य शक्रप्रासादसन्निभम् ॥१०८॥
 अङ्गणोत्सयवत्रीहिमुद्मापाङ्कुरादिभिः । उच्चित्य लक्षणैः सर्वान् सम्यग्दशनसंस्कृतान् ॥१०९॥

भोजन ग्रहण नहीं करते ॥६५॥ ये मुनि तृष्णासे रहित हैं, इन्होंने इन्द्रियरूपी शत्रुओंको जीत लिया है, तथा महान् गुणोंके धारक हैं। ये एक-दो नहीं अनेक महीनोंके उपवास करनेके बाद भी श्रावकोंके घर ही भोजनके लिए जाते हैं और वहाँ प्राप्त हुई निर्दोष भिक्षाको मौनसे खड़े रहकर ग्रहण करते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति रसास्वादके लिए न होकर केवल प्राणोंकी रक्षाके लिए ही होती है क्योंकि प्राण धर्मके कारण हैं ॥६६-६७॥ ये मुनि मोक्ष-प्राप्तिके लिए उस धर्मका आचरण कर रहे हैं जिसमें कि सुखकी इच्छा रखनेवाले समस्त प्राणियोंको किसी भी प्रकारकी पीडा नहीं दी जाती है ॥६८॥ भगवान्के उक्त वचन सुनकर सम्राट् भरत चिरकाल तक यह विचार करता रहा और कहता रहा कि अहो! जिनेन्द्र भगवान्का यह व्रत महान् कष्टसे भरा है। इस व्रतके पालन करनेवाले मुनि अपने शरीरमें निःस्पृह रहते हैं, दिग्मन्त्र होते हैं, धीरवीर तथा समस्त प्राणियोंपर दया करनेमें तत्पर रहते हैं ॥६९-१००॥ इस समय जो यह महान् भोजन-सामग्री तैयार की गई है इससे गृहस्थका व्रत धारण करनेवाले पुरुषोंको भोजन कराता हूँ तथा इन गृहस्थोंको सुवर्णसूत्रसे चिह्नित करता हूँ ॥१०१॥ भोजनके सिवाय अन्य आवश्यक वस्तुएँ भी इनके लिए भक्तिपूर्वक अच्छी मात्रामें देता हूँ क्योंकि इन लोगोंने जो धर्म धारण किया है वह मुनि धर्मका छोटा भाई ही तो है ॥१०२॥

तदनन्तर—सम्राट् भरतने महावेगशाली अपने इष्ट पुरुषोंको भेजकर पृथिवीतलपर विद्यमान समस्त सम्यग्दृष्टिजनोंको निमन्त्रित किया ॥१०३॥ इस कार्यसे समस्त पृथिवीपर बड़ा कोलाहल मच गया। लोग कहने लगे कि अहो! मनुष्यजन हो! सम्राट् भरत बहुत भारी दान करनेके लिए उद्यत हुआ है ॥१०४॥ इसलिए उठो, शीघ्र चले, वस्त्र रत्न आदिक धन लावे, देखो ये आदरसे भरे सेवक जन उसने भेजे हैं ॥१०५॥ यह सुनकर उन्हीं लोगोंमेंसे कोई कहने लगे कि यह भरत अपने इष्ट सम्यग्दृष्टिजनोंका ही सत्कार करता है इसलिए हम लोगोंका वहाँ जाना वृथा है ॥१०६॥ यह सुनकर जो सम्यग्दृष्टि पुरुष थे वे परम हर्षको प्राप्त हो स्त्री पुत्रादिकों के साथ भरतके पास गये और विनयसे खड़े हो गये ॥१०७॥ जो मिथ्यादृष्टि थे वे भी धनकी तृष्णासे मायामयी सम्यग्दृष्टि वनकर इन्द्रभवनकी तुलना करनेवाले सम्राट् भरतके भवनमें पहुँचे ॥१०८॥ सम्राट् भरतने भवनके आँगनमें बोये हुए जौ, धान, मूँग, उड़द आदिके अंकुरोंसे

अलक्षयत् सरस्वतेन सूत्रचिह्नेन चारुणा । चामीकरमयेनासौ प्रावेशयदथो गृहम् ॥११०॥
 मिथ्यादृशोऽपि तृष्णातीश्रित्तया व्याकुलीकृता । जल्पन्तो दीनवाक्यानि प्रविष्टा दुःखसागरम् ॥१११॥
 ततो यथेप्सितं दानं श्रावकैभ्यो ददौ नृपः । पूजितानां च चिन्तेय तेषां जाता दुरात्मनाम् ॥११२॥
 वयं केऽपि महापूता जगते हितकारिणः । पूजिता यन्नरेन्द्रेण श्रद्धयाऽन्यन्तच्छ्रया ॥११३॥
 ततस्ते तेन गर्वेण समस्ते धरणीतले । प्रवृत्ता याचितु लोकं दृष्ट्वा द्रव्यसमन्वितम् ॥११४॥
 ततो मतिसमुद्रेण भरताय निवेदितम् । यथाद्येति मया जैने वचनं सदसि श्रुतम् ॥११५॥
 वर्द्धमानजिनस्यान्ते भविष्यन्ति कलौ युगे । एते ये भवता सृष्टा पाखण्डिनो महोद्धता ॥११६॥
 प्राणिनो मारयिष्यन्ति धर्मबुद्ध्या विमोहिताः । महाकपायसयुक्ताः सदा पापक्रियोद्यता ॥११७॥
 कुग्रन्थं वेदसज्ञं च हिंसाभाषणतत्परम् । वक्ष्यन्ति कर्तुंनिर्मुक्तं मोहयन्तोऽखिला प्रजाः ॥११८॥
 महारम्भेषु ससक्ताः प्रतिग्रहपरायणाः । करिष्यन्ति सदा निन्दां जिनभाषितशासने ॥११९॥
 निर्ग्रन्थमग्रतो दृष्ट्वा क्रोधं यास्पन्ति पापिनः । उपद्रवाय लोकस्य विपवृत्ताङ्गं रा इव ॥१२०॥
 तच्छ्रुत्वा भरतः क्रुद्धः तान् सर्वान् हन्तुमुद्यतः । त्रासितास्ते ततस्तेन नामैव शरणं गता ॥१२१॥
 यस्मान्मा हननं पुत्रं कार्पीरिति निवारितम् । ऋपभेण ततो याता 'माहन' इति ते श्रुतिम् ॥१२२॥
 रक्षितास्ते यतस्तेन जिनेन शरणागताः । त्रातारमिन्द्रमित्युच्चैस्ततस्तं विबुधा जगुः ॥१२३॥

समस्त सम्यग्दृष्टि पुरुषोंकी छोट अलग कर ली तथा उन्हें जिसमे रत्न पियोया गया था ऐसे सुवर्णमय सुन्दर सूत्रके चिह्नसे चिह्नितकर भवनके भीतर प्रविष्ट करा लिया ॥१०६-११०॥ तृष्णासे पीड़ित मिथ्यादृष्टि लोग भी चिन्तासे व्याकुल हो दीन वचन कहते हुए दुःखरूपी सागरमे प्रविष्ट हुए ॥१११॥ तदनन्तर—राजा भरतने उन श्रावकोंके लिए इच्छानुसार दान दिया । भरतके द्वारा सन्मान पाकर उनके हृदयमे दुर्भावना उत्पन्न हुई और वे इस प्रकार विचार करने लगे ॥११२॥ कि हम लोग वास्तवमें महापवित्र तथा जगत्का हित करनेवाले कोई अनुपम पुरुष हैं इसीलिए तो राजाधिराज भरतने बड़ी श्रद्धाके साथ हमलोगोंकी पूजा की है ॥११३॥ तदनन्तर वे इसी गर्वसे समस्त पृथिवीतलपर फैल गये और किसी धन-सम्पन्न व्यक्तिको देखकर याचना करने लगे ॥११४॥ तत्पश्चात् किसी दिन मतिसमुद्र नामक मन्त्रीने राजाधिराज भरतसे कहा कि आज मैंने भगवान्के समवसरणमें निम्नाङ्कित वचन सुना है ॥११५॥ वहाँ कहा गया है कि भरतने जो इन ब्राह्मणोंकी रचना की है सो वे वर्द्धमान तीर्थकरके बाद कलियुग नामक पञ्चम काल आने पर पाखण्डी एवं अत्यन्त उद्धत हो जावेंगे ॥११६॥ धर्म बुद्धिसे मोहित होकर अर्थात् धर्म समझकर प्राणियोंको मारेंगे, बहुत भारी कपायसे युक्त होंगे और पाप कार्यके करनेमे तत्पर होंगे ॥११७॥ जो हिंसाका उपदेश देनेमे तत्पर रहेगा ऐसे वेद नामक खोटे शास्त्रको कर्तासे रहित अर्थात् ईश्वर प्रणीत बतलावेंगे और समस्त प्रजाको मोहित करते फिरेंगे ॥११८॥ बड़े-बड़े आरम्भोंमे लीन रहेंगे, दक्षिणा ग्रहण करेंगे और जिनशासनकी सदा निन्दा करेंगे ॥११९॥ निर्ग्रन्थ मुनिको आगे देखकर क्रोधको प्राप्त होंगे और जिस प्रकार विपवृत्तके अंकुर जगत्के उपद्रव अर्थात् अपकारके लिए हैं उसी प्रकार ये पापी भी जगत्के उपद्रवके लिए होंगे—जगत्मे सदांम अनर्थ उत्पन्न करते रहेंगे ॥१२०॥ मतिसमुद्र मन्त्रीके वचन सुनकर भरत कुपित हो उन सब विप्रोंको मारनेके लिए उद्यत हुआ । तदनन्तर वे भयभीत होकर भगवान् ऋषभदेवकी शरणमे गये ॥१२१॥ भगवान् ऋषभदेवने 'हे पुत्र ! इनका (मा हननं कार्पीः) हनन मत करो' यह शब्द कहकर इनकी रक्षा की थी इसलिए ये आगे चलकर 'माहन' इस प्रसिद्धिको प्राप्त हो गये अर्थात् 'माहन' कहलाने लगे ॥१२२॥ चूँकि इन शरणागत ब्राह्मणोंकी ऋषभ जिनेन्द्रने रक्षा की थी इसलिए देवो अथवा विद्वानोंने भगवान्को त्राता अर्थात्

ये च ते प्रथम भग्ना नृपा नाथानुगामिनः । व्रतान्तरमर्मा चक्रुः स्वबुद्धिपरिकल्पितम् ॥१२४॥
 तेषां शिष्याः प्रशिष्याश्च मोहयन्तः कुहेतुभिः । जगद् गर्वपरायत्ताः कुशास्त्राणि प्रचक्रिरे ॥१२५॥
 भृगुरङ्गिगिरा वह्निः कपिलोऽत्रिर्विदस्तथा । अन्ये च बहवोऽज्ञानाज्जाता वल्कलतापसाः ॥१२६॥
 स्त्रियं दृष्ट्वा कुचित्तास्ते पुलिङ्ग प्रासविक्रियम् । पिदधुर्मोहसङ्घनाः कौपीनेन नराधमाः ॥१२७॥
 सूत्रकण्ठा पुरा तेन ये सृष्टाश्चक्रवर्तिना । बीजवत्प्रसृतास्तेऽत्र सत्तानेन महीतले ॥१२८॥
 प्रस्तावगतमेतत्ते कथितं द्विजकरूपनम् । इदानीं प्रकृत वक्ष्ये राजन् शृणु समाहितः ॥१२९॥
 अथासौ लोकमुत्तार्य प्रभूतं भवसागरात् । कैलासशिखरे प्राप निवृत्तिं नाभिनन्दनः ॥१३०॥
 ततो भरतराजोऽपि प्रव्रज्यां प्रतिपन्नवान् । साम्राज्यं नृणवत् त्यक्त्वा लोकत्रिस्मयकारणम् ॥१३१॥

आर्याच्छन्दः

स्थिन्यधिकारोऽयं ते श्रेणिकं गदितः समासतस्त्वेनम् ।

वंशाधिकारमधुना पुरुपरवे विद्धि सादरं वच्मि ॥१३२॥

इत्यापे रविपेणाचार्यं प्रोक्ते पद्मचरिते ऋषभमाहात्म्याभिधानं
 नाम चतुर्थं पर्व ॥१४॥

रक्षक कहकर उनकी बहुत भारी स्तुति की थी ॥१२३॥ दीक्षाके समय भगवान् ऋषभदेवका अनुकरण करनेवाले जो राजा पहले ही च्युत हो गये थे उन्होंने अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार दूसरे दूसरे व्रत चलाये थे ॥१२४॥ उन्हींके शिष्य-प्रशिष्योंने अहङ्कारसे चूर होकर खोटी-खोटी युक्तियोंसे जगत्को मोहित करते हुए अनेक खोटे शास्त्रोंकी रचना की ॥१२५॥ भृगु, अङ्गिशिरस, वह्नि, कपिल, अत्रि तथा विद आदि अनेक साधु अज्ञानवश वल्कलोको धारण करनेवाले तापसी हुए ॥१२६॥ स्त्रीको देखकर उनका चित्त दूषित हो जाता था और जननेन्द्रियमें विकार दिखने लगता था इसलिए उन अधम मोही जीवोंने जननेन्द्रियको लंगोटसे आच्छादित कर लिया ॥१२७॥ कण्ठमें सूत्र अर्थात् यज्ञोपवीतको धारण करनेवाले जिन ब्राह्मणोंकी चक्रवर्ती भरतने पहले बीजके समान थोड़ी ही रचना की थी वे अब सन्तति रूपसे बढ़ते हुए समस्त पृथ्वी तलपर फैल गये ॥१२८॥ गौतम गणधर राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! यह ब्राह्मणोंकी रचना प्रकरणवश मैंने तुमसे कही है। अब सावधान होकर प्रकृत बात कहता हूँ सो सुन ॥१२९॥ भगवान् ऋषभदेव संसार-सागरसे अनेक प्राणियोंका उद्धारकर कैलास पर्वतकी शिखरसे मोक्षको प्राप्त हुए ॥१३०॥ तदनन्तर चक्रवर्ती भरत भी लोगोंको आश्चर्यमें डालनेवाले साम्राज्यको नृणके समान छोड़कर दीक्षाको प्राप्त हुए ॥१३१॥ हे श्रेणिक ! यह स्थिति नामका अधिकार मैंने संक्षेपसे तुम्हें कहा है हे श्रेष्ठ पुरुष ! अब वंशाधिकारको कहता हूँ सो आदरसे श्रवण कर ॥१३२॥

इस प्रकार आर्पणनामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्य प्रणीत पद्मचरितमें ऋषभदेवका
 माहात्म्य वर्णन करनेवाला चतुर्थ पर्व पूर्ण हुआ ॥१४॥

पञ्चमं पर्व

जगत्यस्मिन् महावशाञ्चत्वार' प्रथिता नृप । एषा रहस्यसयुक्ता' प्रभेदा बहुधोदिता ॥१॥
 इक्ष्वाकु' प्रथमस्तेषामुन्नतो लोकभूषण । ऋषिवशो द्वितीयस्तु शशाङ्करनिर्मल ॥२॥
 विद्याभृतां तृतीयस्तु वशोऽत्यन्तमनोहर । हरिवशो जगत्ख्यातश्चतुर्थ' परिकीर्तित' ॥३॥
 तस्यादित्ययशाः पुत्रो भरतस्योदपद्यत । तत सितयशा जातो बलाङ्कस्तस्य चाभवत् ॥४॥
 जज्ञे च सुवलस्तस्मात्तत्तश्चापि महाबल' । तस्मादतिबलो जातस्तत्तश्चामृतशब्दित' ॥५॥
 सुभद्र सागरो भद्रो रवितेजास्तथा शशी । प्रभूततेजास्तेजस्वी तपनोऽथ प्रतापवान् ॥६॥
 अतिवीर्य' सुवीर्यश्च तथोदितपराक्रम' । महेन्द्रविक्रम सूर्य' इन्द्रद्युम्नो महेन्द्रजित् ॥७॥
 प्रभुर्विभुरविध्वंसो वीतभीर्बृ'पभध्वज' । गरुडाङ्को मृगाङ्कश्च तथान्ये पृथिवीभृत' ॥८॥
 राज्य सुतेषु निक्षिप्य ससाराण्वभीरव । शरीरेष्वपि नि सङ्गा निर्ग्रन्थव्रतमाश्रिता ॥९॥
 अयमादित्यवंशस्ते कथितः क्रमतां नृप । उत्पत्ति सोमवशस्य साम्प्रत परिकीर्त्यते ॥१०॥
 ऋषभस्याभवत् पुत्रो नाम्ना बाहुवलीति य' । तत सोमयशा नाम सौम्य' सूनुरजायत ॥११॥
 ततो महाबलो जातस्ततोऽस्य सुबलोऽभवत् । स्मृतो भुजवली तस्यादेवमाद्या नृपाधिपा' ॥१२॥
 शशिवंशे समुत्पन्नाः क्रमेण सितचेष्टिता । श्रामण्यमनुभूयाशु सप्राप्ता परम पदम् ॥१३॥

अथानन्तर, गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! इस संसारमे चार महावंश प्रसिद्ध हैं और इन महावंशोंके अनेक अवान्तर भेद कहे गये हैं । ये सभी भेद अनेक प्रकारके रहस्योंसे युक्त हैं ॥१॥ उन चार महावंशोंमे पहला इक्ष्वाकुवंश है जो अत्यन्त उत्कृष्ट तथा लोकका आभूषण स्वरूप है । दूसरा ऋषिवंश अथवा चन्द्रवंश है जो चन्द्रमाकी किरणोंके समान निर्मल है ॥२॥ तीसरा विद्याधरो'का वंश है जो अत्यन्त मनोहर है और चौथा हरिवश है जो संसारमे प्रसिद्ध कहा गया है ॥३॥ इक्ष्वाकुवंशमे भगवान् ऋषभदेव उत्पन्न हुए, उनके भरत हुए और उनके अर्ककीर्ति महाप्रतापी पुत्र हुए । अर्क नाम सूर्यका है इसलिए इनका वंश सूर्यवंश कहलाने लगा । अर्ककीर्तिके सितयशा नामा पुत्र हुए, उनके बलाङ्क, बलाङ्कके सुवल, सुवलके महाबल, महाबलके अतिबल, अतिबलके अमृत, अमृतके सुभद्र, सुभद्रके सागर, सागरके भद्र, भद्रके रवितेज, रवितेजके शशी, शशीके प्रभूततेज, प्रभूततेजके तेजस्वी, तेजस्वीके प्रतापी तपन, तपनके अतिवीर्य, अतिवीर्यके सुवीर्य, सुवीर्यके उदितपराक्रम, उदितपराक्रमके महेन्द्रविक्रम, महेन्द्रविक्रमके सूर्य, सूर्यके इन्द्रद्युम्न, इन्द्रद्युम्नके महेन्द्रजित्, महेन्द्रजित्के प्रभु, प्रभुके विभु, विभुके अविध्वंस, अविध्वंसके वीतभी, वीतभीके वृषभध्वज, वृषभध्वजके गरुडाङ्क, और गरुडाङ्कके मृगाङ्क पुत्र हुए । इस प्रकार इस वंशमे अन्य अनेक राजा हुए । ये सभी संसारसे भयभीत थे अतः पुत्रोंके लिए राज्य सौंपकर शरीरसे भी निःस्पृह हो निर्ग्रन्थ व्रतको प्राप्त हुए ॥४-६॥ हे राजन् ! मैंने क्रमसे तुम्हें सूर्यवंशका निरूपण किया है अब सोमवंश अथवा चन्द्रवंशकी उत्पत्ति कही जाती है ॥१०॥

भगवान् ऋषभदेवकी दूसरी रानीसे जो बाहुवली नामका पुत्र हुआ था उसके सोमयशा नामका सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ था । सोम नाम चन्द्रमाका है सो उसी सोमयशासे सोमवंश अथवा चन्द्रवंशकी परम्परा चली है । सोमयशाके महाबल, महाबलके सुवल, और सुवलके भुजवली इसप्रकार इन्हें आदि लेकर अनेक राजा इस वंशमे क्रमसे उत्पन्न हुए हैं । ये सभी राजा निर्मल

केचित्तु तनुकर्माणो भुञ्जानास्तपसः फलम् । स्वर्गे चक्रुरवस्थानमासन्नभवनिर्गमाः ॥१४॥
 एष ते सोमवशोऽपि कथित. पृथिवीपते । वैद्याधरमतो वश कथयामि समासतः ॥१५॥
 नमेर्विद्याधरेन्द्रस्य रत्नमाली सुतोऽभवत् । रत्नवज्रस्ततो जातस्ततो रत्नरथोऽभवत् ॥१६॥
 रत्नचित्रोऽभवत्तस्माज्जातश्चन्द्ररथस्ततः । जज्ञेऽतो वज्रजङ्घाख्यो वज्रसेनश्रुतिस्ततः ॥१७॥
 उद्भूतो वज्रद्वयोऽस्तस्ततो वज्रध्वजोऽभवत् । वज्रायुधश्च वज्रश्च सुवज्रो वज्रभृत्तथा ॥१८॥
 वज्राभो वज्रबाहुश्च वज्राङ्गो वज्रसंज्ञकः । वज्रास्यो वज्रपाणिश्च वज्रजातुश्च वज्रवान् ॥१९॥
 विद्युन्मुखः सुवक्त्रश्च विद्युद्दंष्ट्रश्च तत्सुतः । विद्युत्वान् विद्युदाभश्च विद्युद्द्वेगोऽथ वैद्युतः ॥२०॥
 इत्याद्या बहवः शूरा विद्याधरपुराधिपा । गता दीर्घेण कालेन चेष्टितोचितमाश्रयम् ॥२१॥
 सुतेषु प्रभुता न्यस्य जिनदीक्षासुपाश्रिताः । हित्वा द्वेष च रागं च केचित्सिद्धिमुपागताः ॥२२॥
 केचिद्विनाशमप्राप्ते समस्ते कर्मबन्धने । संकल्पकृतसांनिध्यं सौरभोगमभुञ्जत ॥२३॥
 केचित्तु कर्मपाशेन बद्धा स्नेहगरीयसा । तत्रैव निधनं याता वागुराया मृगा इव ॥२४॥
 अथ विद्युद्दृढो नाम्ना प्रभुः श्रेण्योर्द्वयोरपि । विद्यावलसमुन्नद्धो बभूवोन्नतविक्रमः ॥२५॥
 अन्यदा स गतोऽपश्यद् विदेहं गगनस्थितम् । निर्ग्रन्थं योगमारूढं शैलनिश्चलविग्रहम् ॥२६॥
 स्थापितस्तेन नात्वासौ नाम्ना पञ्चगिरौ गिरौ । कुरुध्वं वधमस्येति विद्यावन्तश्च चोदिताः ॥२७॥

चेष्टाओके धारक थे तथा मुनिपदको धारणकर शीघ्र ही परमपद (मोक्ष) को प्राप्त हुए ॥११-१३॥
 कितने ही अल्पकर्म अर्वाशिष्ट रह जानेके कारण तपका फल भोगते हुए स्वर्गमें देव हुए तथा
 वहाँसे आकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगे ॥१४॥ हे राजन् ! यह मैंने तुम्हें सोमवंश कहा अब आगे
 संक्षेपसे विद्याधरोके वशका वर्णन करता हूँ ॥१५॥

विद्याधरोका राजा जो नमि था उसके रत्नमाली नामका पुत्र हुआ । रत्नमालीके रत्नवज्र,
 रत्नवज्रके रत्नरथ, रत्नरथके रत्नचित्र, रत्नचित्रके चन्द्ररथ, चन्द्ररथके वज्रजङ्घ, वज्रजङ्घके
 वज्रसेन, वज्रसेनके वज्रदंष्ट्र, वज्रदंष्ट्रके वज्रध्वज, वज्रध्वजके वज्रायुध, वज्रायुधके वज्र, वज्रके
 सुवज्र, सुवज्रके वज्रभृत्, वज्रभृत्के वज्राभ, वज्राभके वज्रबाहु, वज्रबाहुके वज्रसंज्ञ, वज्रसंज्ञके
 वज्रास्य, वज्रास्यके वज्रपाणि, वज्रपाणिके वज्रजातु, वज्रजातुके वज्रवान्, वज्रवान्के विद्युन्मुख,
 विद्युन्मुखके सुवक्त्र, सुवक्त्रके विद्युद्दंष्ट्र, विद्युद्दंष्ट्रके विद्युत्वान्, विद्युत्वान्के विद्युदाभ, विद्यु-
 दाभके विद्युद्द्वेग और विद्युद्द्वेगके वैद्युत नामक पुत्र हुए । ये ही नहीं, इन्हें आदि लेकर अनेक
 शूर वीर विद्याधरोके राजा हुए । ये सभी दीर्घ काल तक राज्यकर अपनी-अपनी चेष्टाओके
 अनुसार स्थानोंको प्राप्त हुए ॥१६-२१॥ इनमेंसे कितने ही राजाओंने पुत्रोंके लिए राज्य सौंपकर
 जिनदीक्षा धारण की और राग द्वेष छोड़कर सिद्धिपद प्राप्त किया ॥२२॥ कितने ही राजा
 समस्त कर्मबन्धनको नष्ट नहीं कर सके इसलिए संकल्प मात्रसे उपस्थित होनेवाले देवोंके
 सुखका उपभोग करने लगे ॥२३॥ कितने ही लोग स्नेहके कारण गुरुतर कर्मरूपी पाशसे बँधे रहे
 और जालमें बँधे हरिणोंके समान उसी कर्म रूपी पाशमें बँधे हुए मृत्युको प्राप्त हुए ॥२४॥

अथानन्तर इसी विद्याधरोके वंशमें एक विद्युद्दृढ नामका राजा हुआ जो दोनों श्रेणियोंका
 स्वामी था, विद्यावलमें अत्यन्त उद्धत और विपुल पराक्रमका धारी था ॥२५॥ किसी एक समय
 वह विमानमें बैठकर विदेह क्षेत्र गया था वहाँ उसने आकाशसे ही निर्ग्रन्थ मुद्राके धारी संजयन्त
 मुनिको देखा, उस समय वे ध्यानमें आरूढ़ थे और उनका शरीर पर्वतके समान निश्चल
 था ॥२६॥ विद्युद्दृढ विद्याधरने उन मुनिराजको लाकर पञ्चगिरि नामक पर्वतपर रख दिया

तस्य लोष्टुभिरन्यैश्च हन्यमानस्य योगिनः । वभूव समचित्तस्य सक्लेशो न मनागपि ॥२८॥
 ततोऽस्य सहमानस्य सजयन्तस्य दुःसहम् । उपसर्गं समुत्पन्नं केवलं सर्वभासनम् ॥२९॥
 धरणेन ततो विद्या हता विद्युद्दृढस्थिताः । ततोऽसौ हतविद्यः सन् ययात्रुपशर्म परम् ॥३०॥
 ततोऽनया पुनर्लब्धा विधानेन व्यवस्थया । प्रणतेनाङ्गलि कृत्वा संजयन्तस्य पादयोः ॥३१॥
 तपःश्लेणेन भवता विद्याः सेत्स्यन्ति भूरिणा । सिद्धा अपि तथा सत्यश्लेढ यास्यन्ति दुष्कृतात् ॥३२॥
 अर्हद्विभ्रमनाथस्य चैत्यस्योपरि गच्छताम् । साधूनां च प्रमादेऽपि विद्या न च्यन्ति व क्षणात् ॥३३॥
 धरणेन ततः पृष्टः संजयन्तः कुन्तुहलात् । विद्युद्दृढेन भगवन् कस्मादेव विचेष्टितम् ॥३४॥
 उवाच भगवानेव ससारेऽस्मिन् चतुर्गतां । आम्यन्नह समुत्पन्नो ग्रामे शकटनामनि ॥३५॥
 वणिग्वितकरो नाम्ना प्रियवादी दयान्वित । स्वभावार्जवसपन्न साधुमेवापरायणः ॥३६॥
 कालधर्मं ततः कृत्वा राजा श्रीवर्द्धनाह्वयः । अभवत् कुमुदावत्या व्यवस्थापालनोद्यत ॥३७॥
 ग्रामे तत्रैव विप्रोऽभूत् स कृत्वा कुत्सित तपः । कुदेवोऽत्र ततश्च्युत्वा राज्ञः श्रीवर्द्धनस्य तु ॥३८॥
 ख्यातो वह्निशिखो नाम्ना सत्यवादीति विश्रुतः । अभूत् पुरोहितो रौद्रो गुष्ठाकार्यकरो महान् ॥३९॥
 वणिग्नियमदत्तस्य स च द्रव्यमपाहृत । राश्यां धूत ततः कृत्वा निर्जित सोऽहुलीयकम् ॥४०॥

और 'इनका वध करो' इस प्रकार विद्याधरोको प्रेरित किया ॥२७॥ राजाकी प्रेरणा पाकर विद्याधरोने उन्हें पत्थर तथा अन्य साधनोंसे मारना शुरू किया परन्तु वे तो सम चित्तके धारी थे अतः उन्हें थोड़ा भी संक्लेश उत्पन्न नहीं हुआ ॥२८॥ तदनन्तर दुःसह उपसर्गको सहन करते हुए उन सज्जयन्त मुनिराजको समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥२९॥ उसी समय मुनिराजका पूर्व भवका भाई धरणेन्द्र आया । उसने विद्युद्दृढकी सब विद्याएँ हर लीं जिससे वह विद्यारहित होकर अत्यन्त शान्त भावको प्राप्त हुआ ॥३०॥ विद्याओंके अभावमें बहुत दुःखी होकर उसने हाथ जोड़कर नम्र भावसे धरणेन्द्रसे पूछा कि अब हमें किसी तरह विद्याएँ सिद्ध हो सकती हैं या नहीं ? तब धरणेन्द्रने कहा कि तुम्हें इन्हीं सज्जयन्त मुनिराजके चरणोंमें तपश्चरण सम्बन्धी क्लेश उठानेसे फिर भी विद्याएँ सिद्ध हो सकती हैं परन्तु खोटा कार्य करनेसे वे विद्याएँ सिद्ध होनेपर भी पुनः नष्ट हो जावेगी । जिनप्रतिमासे युक्त मन्दिर और मुनियोंका उल्लंघनकर प्रमादवश यदि ऊपर गमन करोगे तो तुम्हारी विद्याएँ तत्काल नष्ट हो जावेगी । धरणेन्द्रके द्वारा वताई हुई व्यवस्थाके अनुसार विद्युद्दृढने सजयन्त मुनिराजके पादमूलमें तपश्चरण कर फिर भी विद्या प्राप्त कर ली ॥३१-३३॥

यह सब होनेके बाद धरणेन्द्रने कुन्तुहलवश संजयन्त मुनिराजसे पूछा कि हे भगवन् ! विद्युद्दृढने आपके प्रति ऐसी चेष्टा क्यों की है ? वह किस कारण आपको हर कर लाया और किस कारण विद्याधरोसे उसने उपसर्ग कराया ? ॥३४॥ धरणेन्द्रका प्रश्न सुनकर भगवान् संजयन्त केवली इस प्रकार कहने लगे—इस चतुर्गति रूप संसारमें भ्रमण करता हुआ मैं एक वार शकट नामक गाँवमें हितकर नामक वैश्य हुआ था । मैं अत्यन्त मधुरभाषी, दयालु, स्वभावसम्बन्धी सरलतासे युक्त तथा साधुओंकी सेवामें तत्पर रहता था ॥३५-३६॥ तदनन्तर मैं कुमुदावती नामकी नगरीमें मर्यादाके पालन करनेमें उद्यत श्रीवर्द्धन नामका राजा हुआ ॥३७॥ उसी ग्राममें एक ब्राह्मण रहता था जो खोटा तपकर कुदेव हुआ था और वहाँसे च्युत होकर मुझ श्रीवर्द्धन राजाका वह्निशिख नामका पुरोहित हुआ था । वह पुरोहित यद्यपि सत्यवादी रूपसे प्रसिद्ध था परन्तु अत्यन्त दुष्ट-परिणामी था और छिपकर खोटे कार्य करता था ॥३८-३९॥ उस पुरोहितने एक वार नियमदत्त नामक वणिक्का धन छिपा लिया तब रानीने उसके साथ जुआ खेलकर उसकी अँगूठी जीत

तेनाभिज्ञानदानेन दास्या गत्वा तदालयम् । उपनीतानि रत्नानि वणिजे तु खवतिने ॥४१॥
 ततो गृहीतसर्वस्वः खलीकृत्य द्विजाधमः । पुरो निर्वासितो दीनस्तपः परममाचरत् ॥४२॥
 मृत्वा कल्पं स माहेन्द्रं प्राप्तस्तस्मात्पग्न्युत् । खेचराणामग्नीशोऽयमभूद्विद्युद्दृढध्वनिः ॥४३॥
 श्रीवर्द्धनस्तपः कृत्वा मृत्वा कल्पमुपागतः । संजयन्तश्रुतिर्जातो विदेहेऽह ततश्च्युत् ॥४४॥
 तेन दोषानुबन्धेन दृष्ट्वा मा क्रोधमूर्च्छितः । उपसर्गं व्यधात्रेप कर्मणां वंशतां गतः ॥४५॥
 योऽसौ नियमदत्तोऽमृतं स कृत्वा तपसोऽर्जनम् । राजा नागकुमाराणां जातस्त्वं शुभमानसः ॥४६॥
 अथ विद्युद्दृढस्याभूत्नाम्ना दृढरथः सुतः । तत्र राज्यं स निक्षिप्य तपः कृत्वा गतो द्विवम् ॥४७॥
 अश्वधर्माऽभवत्तस्मादश्वयुरभवत्ततः । अश्वध्वजस्ततो जातस्ततो पद्मनिभोऽभवत् ॥४८॥
 पद्ममाली ततो भूतोऽभवत् पद्मरथस्ततः । सिंहयानो मृगोद्धर्मा मेघाश्रुः सिंहसप्रभुः ॥४९॥
 सिंहकेतुः शशाङ्कस्यश्चन्द्राहश्चन्द्रशेखरः । इन्द्रचन्द्ररथाभिष्ट्यां चक्रधर्मा तदायुधः ॥५०॥
 चक्रध्वजो मणिग्रीवो मण्यङ्को मणिभासुरः । मणिस्यन्दनमण्यास्यो विम्बोष्ठो लम्बिताधरः ॥५१॥
 रक्तोष्ठो हरिचन्द्रश्च पूश्चन्द्रः पूर्णचन्द्रमाः । बालेन्दुश्चन्द्रमञ्जूडो व्योमेन्दुरुडुपालनः ॥५२॥
 एकचूडो द्विचूडश्च त्रिचूडश्च ततोऽभवत् । वज्रचूडस्ततस्तस्माद्भूरिचूडार्कचूडकां ॥५३॥
 तस्माद्बहिजटी जातो बह्वितेजास्ततोऽभवत् । बहवश्चैवमन्येऽपि कालेन त्रयमागताः ॥५४॥

ली ॥४७॥ रानीकी दासी अँगूठी लेकर पुरोहितके घर गई और वहाँ उसकी स्त्रीको दिखाकर उससे रत्न ले आई । रानीने वे रत्न नियमदत्त वणिक्को जो कि अत्यन्त दुःखी था वापिस दे दिये । तदनन्तर मैंने उस दुष्ट ब्राह्मणका सब धन छीन लिया तथा उसे तिरस्कृतकर नगरसे बाहर निकाल दिया । उस दीन हीन ब्राह्मणको सुबुद्धि उत्पन्न हुई जिससे उसने उत्कृष्ट तपश्चरण किया ॥४१-४२॥ अन्तमें मरकर वह माहेन्द्र स्वर्गमें देव हुआ और वहाँसे च्युत होकर यह विद्युद्दृढ नामक विद्याधरोका राजा हुआ है ॥४३॥ मेरा जीव श्रीवर्द्धन भी तपश्चरणकर मरा और स्वर्गमें देव हुआ । वहाँसे च्युत होकर मैं विदेह क्षेत्रमें संजयन्त हुआ हूँ ॥४४॥ उस पूर्वोक्त दोषके संस्कारसे ही यह विद्याधर मुझे देखकर क्रोधसे एकदम मूर्च्छित हो गया और कर्मोंके वशीभूत होकर उसी संस्कारसे इसने यह उपसर्ग किया है ॥४५॥ और जो वह नियमदत्त नामक वणिक् था वह तपश्चरण कर उसके फलस्वरूप उज्ज्वल हृदयका धारी तू नागकुमारोका राजा धरणेन्द्र हुआ है ॥४६॥

अथानन्तर—विद्युद्दृढके दृढरथ नामक पुत्र हुआ सो विद्युद्दृढ उसके लिए राज्य सौंपकर तथा तपश्चरण कर स्वर्ग गया ॥४७॥ इधर दृढरथके अश्वधर्मा, अश्वधर्माके अश्वायु, अश्वायुके अश्वध्वज, अश्वध्वजके पद्मनिभ, पद्मनिभके पद्ममाली, पद्ममालीके पद्मरथ, पद्मरथके सिंहयान, सिंहयानके मृगोद्धर्मा, मृगोद्धर्माके सिंहसप्रभु, सिंहसप्रभुके सिंहकेतु, सिंहकेतुके शशाङ्कमुख, शशाङ्कमुखके चन्द्र, चन्द्रके चन्द्रशेखर, चन्द्रशेखरके इन्द्र, इन्द्रके चन्द्ररथ, चन्द्ररथके चक्रधर्मा, चक्रधर्माके चक्रायुध, चक्रायुधके चक्रध्वज, चक्रध्वजके मणिग्रीव, मणिग्रीवके मण्यङ्क, मण्यङ्कके मणिभासुर, मणिभासुरके मणिस्यन्दन, मणिस्यन्दनके मण्यास्य, मण्यास्यके विम्बोष्ठ, विम्बोष्ठके लम्बिताधर, लम्बिताधरके रक्तोष्ठ, रक्तोष्ठके हरिचन्द्र, हरिचन्द्रके पूश्चन्द्र, पूश्चन्द्रके पूर्णचन्द्र, पूर्णचन्द्रके बालेन्दु, बालेन्दुके चन्द्रचूड, चन्द्रचूडके व्योमेन्दु, व्योमेन्दुके उडुपालन, उडुपालनके एकचूड, एकचूडके द्विचूड, द्विचूडके त्रिचूड, त्रिचूडके वज्रचूड, वज्रचूडके भूरिचूड, भूरिचूडके अर्कचूड, अर्कचूडके बहिजटी, बहिजटीके बह्वितेज नामका पुत्र हुआ । इसी प्रकार और भी बहुतसे

१. वाणिजे म०, क० । २. -माचरन् म० । ३. जाता म०, ख० । ४. पद्मनिभो म० । ५. मृगोद्धर्मा म० । मृगोद्धर्मान् ख० । ६. लम्बिताधरः म०, ख० ।

पालयित्वा श्रिय केचिन्न्यस्य पुत्रेषु ता पुनः । कृत्वा कर्मक्षयं याताः सिद्धैरध्यासिता महीम् ॥५५॥
 पृथ्वं वैद्याधरोऽय ते राजन् वश प्रकीर्तितः । अवतारो द्वितीयस्य युगस्यातः प्रचक्षते ॥५६॥
 अस्य नाभेयचिह्नस्य युगस्य विनिवर्तने । हीनाः पुरातना भावाः प्रशस्ता अत्र भूतले ॥५७॥
 शिथिलायितुमारब्धा परलोकक्रियारति । कामार्थयो समुत्पन्ना जनस्य परमा मति ॥५८॥
 अयेच्चक्रुकुलोन्धेषु तेष्वर्ततेषु राजसु । पुत्रः श्रियां समुत्पन्नो धरणीधरनामत ॥५९॥
 अयोध्यानगरे श्रीमान् प्रस्थातस्त्रिदशजय । इन्दुरेखा प्रिया तस्य जितशत्रुस्तयो सुत ॥६०॥
 पुरे पौदनसंज्ञेऽथ व्यानन्दस्य महीपते । जातामम्भोजमालाया नामतो विजया सुताम् ॥६१॥
 जितशत्रोः समायोज्य प्रद्वज्यं त्रिदशजयः । निर्वाणं च परिप्राप्तः कैलामधरणीधरे ॥६२॥
 अथाजितजिनो जातस्तयो पूर्वविधानतः । अभिपेकादिदेवेन्द्रैः कृत नाभेयवर्णितम् ॥६३॥
 तस्य पित्रा जिताः सर्वे तज्जन्मनि यतो द्विप । ततोऽसावजिताभिस्थ्या मप्राप्तो धरणीतले ॥६४॥
 धामन् सुनयनानन्देत्यादयस्तस्य योषितः । यासा गच्यपि रूपेण शक्ता नानुकृति प्रति ॥६५॥
 अन्यथा रम्यमुद्यान गतः सान्त पुरोऽजितः । पूर्वाह्ने फुल्लमैच्छितं पङ्कजाना वन महत् ॥६६॥
 तदेव सकुचद्वीच्य भास्करेऽस्त यियामति । अनित्यता श्रियो गत्वा निर्वैद परम गत ॥६७॥
 ततः पितरमापृच्छध मातरं च स बान्धवान् । नाथ पूर्वविधानेन प्रव्रज्या प्रतिपन्नवान् ॥६८॥

पुत्र हुए जो कालक्रमसे मृत्युको प्राप्त होते गये ॥४८-५४॥ इनमेसे कितने ही विद्याधर राजा, लक्ष्मीका पालनकर तथा अन्तमे पुत्रोको राज्य सौंपकर कर्मोका क्षय करते हुए सिद्धभूमिको प्राप्त हुए ॥५५॥ गौतमस्वामी कहते हैं कि हे राजन् ! इस प्रकार यह विद्याधरोका वंश कहा । अव द्वितीय युगका अवतार कहा जाता है सो सुन ॥५६॥

भगवान् ऋषभदेवका युग समाप्त होनेपर इस पृथिवीपर जो प्राचीन उत्तम भाव थे वे हीन हो गये, लोगोकी परलोक सम्बन्धी क्रियाओंमें प्रीति शिथिल होने लगी तथा काम और अर्थ पुरुषार्थमें ही उनकी प्रवृत्ति प्रवृत्त होने लगी ॥५७-५८॥ अथानन्तर इच्चाकु वंशमें उत्पन्न हुए राजा जब काल क्रमसे अतीत हो गये तब अयोध्या नगरीमें एक धरणीधर नामक राजा उत्पन्न हुए । उनकी श्रीदेवी नामक रानीसे प्रसिद्ध लक्ष्मीका धारक त्रिदशजय नामका पुत्र हुआ । इसकी स्त्रीका नाम इन्दुरेखा था, उन दोनोंके जितशत्रु नामका पुत्र हुआ ॥५९-६०॥ पौदनपुर नगरमें व्यानन्द नामक राजा रहते थे उनकी अम्भोजमाला नामक रानीसे विजया नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी । राजा त्रिदशजयने जितशत्रुका विवाह विजयाके साथ कराकर दीक्षा धारण कर ली और तपश्चरणकर कैलास पर्वतसे मोक्ष प्राप्त किया ॥६१-६२॥ अथानन्तर राजा जितशत्रु और रानी विजयाके अजितनाथ भगवान्का जन्म हुआ । इन्द्रादिक देवोंने भगवान् ऋषभदेवका जैसा अभिपेक आदि किया था वैसा ही भगवान् ऋषभदेवका किया ॥६३॥ चूँकि उनका जन्म होते ही पिताने समस्त शत्रु जीत लिये थे इसलिए पृथिवीतल पर उनका 'अजित' नाम प्रसिद्ध हुआ ॥६४॥ भगवान् अजितनाथकी सुनयना नन्दा आदि अनेक रानियाँ थीं । वे सब रानियाँ इतनी सुन्दर थीं कि इन्द्राणी भी अपने रूपसे उनकी समानता नहीं कर सकती थी ॥६५॥

अथानन्तर—भगवान् अजितनाथ एकदिन अपने अन्तःपुरके साथ सुन्दर उपवनमें गये । वहाँ उन्होंने प्रातःकालके समय फूला हुआ कमलोका एक विशाल वन देखा ॥६६॥ उसी वनको उन्होंने जब सूर्य अस्त होनेको हुआ तब संकुचित होता देखा । इस घटनासे वे लक्ष्मीको अनित्य मानकर परम वैराग्यको प्राप्त हो गये ॥६७॥ तदनन्तर—पिता माता और भाइयोंसे

क्षत्रियाणां सहस्राणि दशानेन सम तत । निष्क्रान्तानि परित्यज्य राज्यबन्धुपरिग्रहम् ॥६६॥
 पद्योपवासयुक्ताय तस्मै नाथाय 'पारणाम् । ब्रह्मदत्तो दत्तौ भक्त्या साकेतनगरोद्भवः ॥७०॥
 चतुर्दशश्वतीतेषु वर्षेष्वस्य ततोऽभवत् । केवलज्ञानमार्हन्त्य तथा विश्वस्य पूजितम् ॥७१॥
 ततश्चातिशयास्तस्य चतुस्त्रिंशत्समुत्थिता । अष्टौ च प्रतिहार्याणि द्रष्टव्यनीह पूर्ववत् ॥७२॥
 नवतिस्तस्य संजाता गणेशाः पादसञ्चिता । साधूनां चोदित लक्ष द्विवाकरसमत्विपाम् ॥७३॥
 कनीयान् जितशत्रोस्तु ख्यातो विजयसागरः । पत्नी सुमङ्गला तस्य तत्सुतः सगरोऽभवत् ॥७४॥
 बभूवासौ शुभाकारो द्वितीयश्चक्रवर्तिनाम् । निधानैर्नवभिः ख्यार्ति यो गतो वसुधातले ॥७५॥
 अस्मिन् यदन्तरे वृत्त श्रेणिकेद निशम्यताम् । अस्तीह चक्रवालाख्य पुर दक्षिणगोचरम् ॥७६॥
 तत्र पूर्णघनो नाम विभुर्व्योमविहारिणाम् । महाप्रभावसम्पन्नो विद्याबलसमुन्नतः ॥७७॥
 विहायस्तिलकेश स यथाचे वरकन्यकाम् । नैमित्तिकाज्ञया दत्ता सगराय तु तेन सा ॥७८॥
 युद्ध सुलोचनस्योत्र यावत्पूर्णघनस्य च । गृहीत्वा भगिनीं तावत्सहस्रनयनोऽगमत् ॥७९॥
 निपूद्य च सुनेत्र स पुर पूर्णघनोऽविशत् । अदृष्ट्वा च स ता कन्या स्वपुर पुनरागतः ॥८०॥
 ततः पितृवधात् क्रुद्धः सहस्रनयनोऽबलः । अरण्ये शरमाक्रान्ते स्थितश्छिद्रेच्छणावृतः ॥८१॥
 ततश्चक्रधरोऽश्वेन हृतस्त देशमागतः । दिष्ट्या चोत्पलमत्यासौ दृष्ट्वा भ्रात्रे निवेदितः ॥८२॥
 तुष्टेन तेन सा तस्मै दत्ता सगरचक्रिणे । चक्रिणाप्ययमानीतो विद्याधरमहीशताम् ॥८३॥

पूछकर उन्होंने पूर्व विधिके अनुसार दीक्षा धारण कर ली ॥६८॥ इनके साथ अन्य दश हजार क्षत्रियोने भी राज्य, भाई-बन्धु तथा सब परिग्रहका त्यागकर दीक्षा धारण की थी ॥६६॥ भगवान्ने तेलाका उपवास धारण किया था सो तीन दिन बाद अयोध्या निवासी ब्रह्मदत्त राजाने उन्हें भक्ति-पूर्वक पारणा कराई थी—आहार दिया था ॥७०॥ चौदह वर्ष होनेपर उन्हें केवलज्ञान तथा समस्त संसारके द्वारा पूजनीय अर्हन्तपद प्राप्त हुआ ॥७१॥ जिस प्रकार भगवान् ऋषभदेवके चौतीस अतिशय और आठ प्रातिहार्य प्रकट हुए थे उसी प्रकार इनके भी प्रकट हुए ॥७२॥ इनके पाद-मूलमें रहनेवाले नब्बे गणधर थे तथा सूर्यके समान कान्तिको धारण करनेवाले एक लाख साधु थे ॥७३॥ जितशत्रुके छोटे भाई विजयसागर थे, उनकी स्त्रीका नाम सुमङ्गला था, सो उन दोनोंके सगर नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥७४॥ यह सगर शुभ आकारका धारक दूसरा चक्रवर्ती हुआ और पृथ्वीतलपर नौ निधियोंके कारण परम प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ था ॥७५॥ हे श्रेणिक ! इसके समय जो वृत्तान्त हुआ उसे तू सुन । भरतक्षेत्रके विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीमें एक चक्रवाल नामका नगर है ॥७६॥ उसमें पूर्णघन नामका विद्याधरोंका राजा राज्य करता था । वह महा-प्रभावसे युक्त तथा विद्याओके बलसे उन्नत था । उसने विहायस्तिलक नगरके राजा सुलोचनसे उसकी कन्याकी याचना की पर सुलोचनने अपनी कन्या पूर्णघनको न देकर निमित्तज्ञानीकी आज्ञानुसार सगर चक्रवर्तीके लिए दी ॥७७-७८॥ इधर राजा सुलोचन और पूर्णघनके बीच जब तक भयङ्कर युद्ध होता है तब तक सुलोचनका पुत्र सहस्रनयन अपनी बहिनको लेकर अन्यत्र चला गया ॥७९॥ पूर्णघनने सुलोचनको मारकर नगरमें प्रवेश किया परन्तु जब कन्या नहीं देखी तो अपने नगरको वापिस लौट आया ॥८०॥ तदनन्तर पिताका वध सुनकर सहस्रनयन पूर्णमेघपर बहुत ही क्रुपित हुआ परन्तु निर्बल होनेसे कुछ कर नहीं सका । वह अष्टापद आदि हिंसक जन्तुओसे भरे वनमें रहता था और सदा पूर्णमेघके छिद्र देखता रहता था ॥८१॥ तदनन्तर एक मायामयी अश्व सगरचक्रवर्तीको हर ले गया सो वह उसी वनमें आया जिसमें कि सहस्रनयन रहता था । सौभाग्यसे सहस्रनयनकी बहिन उत्पलमतीने चक्रवर्तीको देखकर भाईसे यह समा-चार कहा ॥८२॥ सहस्रनयन यह समाचार सुनकर बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और उसने उत्पलमती,

स्त्रीरत्न तदसौ लब्ध्वा पर तोपमुपागत. । पट्खण्डाधिपति सर्वे पार्थिवै कृतशासन ॥८४॥
 प्रासविद्याभृदश्रेण पुर पौर्णघन तत । रुद्ध सहस्रनेत्रेण प्राकारेणेव सर्वत ॥८५॥
 ततो महति सप्राप्ते प्रवृत्ते जनसक्षये । नीत. सहस्रनेत्रेण पूर्णमेघ परासुताम् ॥८६॥
 पुत्र. पूर्णघनम्याथ नाम्ना 'तोदयवाहन । परैरुद्धासितश्चक्रवालाद् भ्राम्यन् नभोऽङ्गणे ॥८७॥
 खेचरैर्वहुभि क्रुद्धैरनुयातः सुदु खित ३ । अजित शरण यातस्त्रैलोक्यसुखकारणम् ॥८८॥
 ततो वज्रधरेणासौ पृष्टस्त्रासस्य ४ कारणम् । अन्नवीत् सगर प्राप्य मम बन्धुक्षयं कृत ॥८९॥
 अस्मत्पित्रोरभूद् वैर नैकजीवविनाशनम् । तेनानुबन्धदोषेण नितान्तक्रूरचतसा ॥९०॥
 सहस्रनयनेनाह त्रामित शत्रुणा भृशम् । हसै सम समुत्पत्य प्रासादाद्गतो द्रुतम् ॥९१॥
 ततो जिनसमीपे त गृहीतुमसहैर्नृप । निर्वेदिते सहस्राक्ष सप्रतस्थे स्वय रूपा ॥९२॥
 'कोऽपरोऽस्ति मदुद्धीर्यो येनासौ परिरक्ष्यते । इति सचिन्तयन् प्राप्तो जिनस्य धरणीमसौ ॥९३॥
 प्रभामण्डलमेवासौ दृष्ट्वा दूरे जिनोद्भवम् । सर्वं गवं परित्यज्य प्रणामाजित विभुम् ॥९४॥
 जिनपादसमीपे तौ मुक्तवैरी ततः स्थिता । तत्पित्रोश्चरित पृष्टो गणिना च जिनाधिप ॥९५॥
 इदं प्रोवाच भगवान् जम्बूद्वीपस्य भारते । पुरे सदनुसज्ञाके भावनो नाम वाणिज. ॥९६॥

सगरचक्रवर्तीके लिए प्रदान कर दी । चक्रवर्तीने भी पूर्णघनको विद्याधरोका राजा बना दिया ॥८३॥ जो छह खण्डका अधिपति था तथा समस्त राजा जिसका शासन मानते थे ऐसा चक्रवर्ती सगर उस स्त्रीको पाकर बहुत भारी सन्तोषको प्राप्त हुआ ॥८४॥ विद्याधरोका आधिपत्य पाकर सहस्रनयनने पूर्णघनके नगरको चारों ओरसे कोटके समान घेर लिया ॥८५॥ तदनन्तर दोनोके बीच मनुष्योंका संहार करनेवाला बहुत भारी युद्ध हुआ जिसमे सहस्रनयनने पूर्णमेघको मार डाला ॥८६॥ तदनन्तर पूर्णघनके पुत्र मेघवाहनको शत्रुओंने चक्रवाल नगरसे निर्वासित कर दिया सो वह आकाशरूपी आँगनमे भ्रमण करने लगा ॥८७॥ उसे देखकर बहुतसे कुपित विद्याधरोने उसका पीछा किया सो वह अत्यन्त दुखी होकर तीन लोकके जीवोंको सुख उत्पन्न करनेवाले भगवान् अजितनाथ की शरणमें पहुँचा ॥८८॥ वहाँ इन्द्रने उससे भयका कारण पूछा । तब मेघवाहनने कहा कि हमारे पिता पूर्णघन और सहस्रनयनके पिता सुलोचनमे अनेक जीवोंका विनाश करनेवाला वैर-भाव चला आ रहा था सो उसी संस्कारके दोषसे अत्यन्त क्रूरचित्तके धारक सहस्रनयनने सगर चक्रवर्तीका बल पाकर मेरे बन्धुजनोका क्षय किया है । इस शत्रुने मुझे भी बहुत भारी त्रास पहुँचाया है सो मैं महलसे हंसोंके साथ उड़कर शीघ्र ही यहाँ आया हूँ ॥८९-९१॥ तदनन्तर जो राजा मेघवाहनका पीछा कर रहे थे उन्हींने सहस्रनयनसे कहा कि वह इस समय भगवान् अजितनाथके समीप है अतः हम उसे पकड़ नहीं सकते । यह सुनकर सहस्रनयन रोपवश स्वयं ही चला और मन ही मन सोचने लगा कि देखे मुझसे अधिक बलवान् दूसरा कौन है ? जो इसकी रक्षा कर सके । ऐसा सोचता हुआ वह भगवान्के समवसरणमें आया ॥९२-९३॥ सहस्रनयनने ज्यों ही दूरसे भगवान्का प्रभामण्डल देखा त्योंही उसका समस्त अहङ्कार चूर-चूर हो गया । उसने भगवान् अजितनाथको प्रणाम किया । सहस्रनयन और मेघवाहन दोनो ही परम्परका वैर-भाव छोड़कर भगवान्के चरणोंके समीप जा बैठे । तदनन्तर गणधरने भगवान्से उन दोनोके पिताका चरित्र पूछा सो भगवान् निम्नप्रकार कहने लगे ॥९४-९५॥

जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमे सदतु नामका नगर था । उसमे भावन नामका एक वाणिक् रहता था । उसकी आतकी नामक स्त्री और हरिदास नामक पुत्र था । वह भावन यद्यपि चार करोड़

१. मेघवाहनः । २. सदुःखितः म० । ३. त्रासक म० । ४. बन्धु. क्षय कृत. म० ।
 ५. कोऽपरोऽस्ति म० ।

आतर्कीत्यङ्गना तस्य हरिदासश्च तत्सुत । चतुःकोटीश्वरो भूत्वा यात्रोद्युक्तः स भावन ॥६७॥
 पुत्राय सकलं द्रव्यं न्यासत्वेन समर्पयन् । घृतादिवर्जनार्थं च शिक्षामस्मै ददात् परम् ॥६८॥
 सहेतुमर्षदोषेभ्य उपदिश्य निवर्तनम् । पुत्राय वाणिजो यात पोतेन धनवृष्णया ॥६९॥
 उपचारेण वेश्यायामासक्त्या घृतमण्डले । सुरायामभिमानेन चतुःकोट्योऽपि नागिता ॥१००॥
 यदासौ निर्जितो घृते तदा राज्ञो गृह गत । हरिदासो दुराचारो द्रविणार्थं सुरङ्गया ॥१०१॥
 आनीयासौ ततो द्रव्यं क्रियां सर्वाञ्चकार स । भावनोऽन्यदा गेहमायातो नेक्षते सुतम् ॥१०२॥
 हरिदासो गतः क्वेति तेन पृष्टा कुटुम्बिनी । सावोचदनया यातश्चौर्याथ च सुरङ्गया ॥१०३॥
 तनोऽसौ तस्य मरणं शङ्कमानः सुरङ्गया । प्रस्थितश्चौर्यशान्त्यर्थं गृहाम्बन्तरदत्तया ॥१०४॥
 आगच्छता च पुत्रेण कोऽपि वैरी ममेत्यसौ । मण्डलाग्रेण पापेन वराको विनिपातितः ॥१०५॥
 विजातोऽसौ तत्तस्तेन नखभ्रमशटादिभिः । स्पृष्ट्वा मम पितेन्येप प्राप्सो दुःखं च दुःसहम् ॥१०६॥
 जनकस्य ततो मृत्युं कृत्वासौ भयविद्रुतः । पर्यटन् दुःखतो देशान् यातः कालेन पञ्चताम ॥१०७॥
 कौलेयकौ शृगालौ च वृषदशौ वृषौ तथा । नकुलौ महिपावेतौ जातौ च वृषभौ पुनः ॥१०८॥
 अन्योऽन्यस्य ततो घातं कृत्वा तौ भवसकटे । विदेहे पुष्कलावत्यं मनुष्यत्वमुपागतौ ॥१०९॥
 उग्रं कृत्वा तपस्तस्मिन्नुत्तरानुत्तराह्वर्या । गत्वा सतारमायातो जनका भवतोरिमां ॥११०॥
 योऽसौ भावननामार्मीजातोऽर्मा पूर्णतोयदः । आर्मात्तस्य तु यः पुत्रः सजातः स सुलोचन ॥१११॥

द्रव्यका स्वामी था तो भी धन कमानेकी इच्छासे देशान्तरकी यात्राके लिए उद्यत हुआ ॥६६-
 ६७॥ उसने अपना सब धन धरोहरके रूपमें पुत्रके लिए सौंपते हुए, जुआ आदि व्यसनोके
 छोड़नेकी उत्कृष्ट शिक्षा दी। उसने कहा कि 'हे पुत्र! ये जुआ आदि व्यसन समस्त दोषोके
 कारण हैं इसलिए इनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर है' ऐसा उपदेश देकर वह भावन नामका
 वाणिज्य धनकी वृष्णासे जहाजमें बैठकर देशान्तरको चला गया ॥६८-६९॥ पिताके चले जानेपर
 हरिदासने वेश्या सेवन, जुआकी आसक्ति तथा मदिराके अहंकार वश चारो करोड़ द्रव्य नष्ट कर
 दिया ॥१००॥ इस प्रकार जब वह जुआमें सब कुछ हार गया और अन्य जुवाड़ियोंका देनदार
 हो गया तब वह दुराचारी धनके लिए सुरङ्ग लगाकर राजाके घरमें घुसा तथा वहाँसे धन
 लाकर अपने सब व्यसनोकी पूर्ति करने लगा। अथानन्तर कुछ समय बाद जब उसका पिता
 भावन देशान्तरसे घर लौटा तब उसने पुत्रको नहीं देखकर अपनी स्त्रीसे पूछा कि हरिदास कहाँ
 गया है? स्त्रीने उत्तर दिया कि वह इस सुरङ्गसे चोरी करनेके लिए गया है ॥१०१-१०३॥
 तदनन्तर भावनको शङ्का हुई कि कहीं इस कार्यमें इसका मरण न हो जावे इस शङ्कासे वह
 चोरी छोड़नेके लिए घरके भीतर दी हुई सुरङ्गसे चला ॥१०४॥ उधरसे उसका पुत्र हरिदास
 वापिस लौट रहा था, सो उसने समझा कि यह कोई मेरा वैरी आ रहा है ऐसा समझकर उस
 पापीने बेचारे भावनको तलवारसे मार डाला ॥१०५॥ पीछे जब नख, दाढ़ी, मूँछ तथा जटा
 आदिके स्पर्शसे उसे विदित हुआ कि अरे! यह तो मेरा पिता है, तब वह दुःसह दुःखको प्राप्त
 हुआ ॥१०६॥ पिताकी हत्याकर वह भयसे भागा और अनेक देशोंमें दुःख पूर्वक भ्रमण करता
 हुआ मरा ॥१०७॥ पिता पुत्र दोनो श्वान हुए, फिर शृगाल हुए, फिर मार्जार हुए, फिर बैल हुए,
 फिर नेवला हुए, फिर भैंसा हुए, और फिर बैल हुए। ये दोनो ही परस्परमें एक दूसरेका घातकर
 मरे और संसार रूपी वनमें भटकते रहे। अन्तमें विदेह क्षेत्रकी पुष्कलावती नगरीमें मनुष्य
 हुए ॥१०८-१०९॥ फिर उग्र तपश्चरणकर शतार नामक ग्यारहवें स्वर्गमें उत्तर और अनुत्तर
 नामक देव हुए। वहाँसे आकर जो भावन नामका पिता था वह पूर्णमेघ विद्याधर हुआ और जो

पित्रोरेव परिज्ञाय भवदुःखविवर्तनम् । भजत शममुज्जित्वा वैरं ससारकारणम् ॥११२॥
 चक्रवर्ती ततोऽपृच्छदेतयो पूर्वजन्मनि । वैरकारणमेव च भाषित धर्मचक्रिणा ॥११३॥
 जम्बूद्वीपस्य भरते पुरे पद्मकनामनि । साख्यिकोरम्भनामासीद् विषये प्रथितो धनी ॥११४॥
 गण्यावलिसमाह्वानौ तस्य मैत्रीसमन्वितौ । गिप्यावत्यन्तविरयातौ धनवन्तौ गुणोक्तौ ॥११५॥
 मा भूदाभ्या ममोद्वर्तं सहताभ्यामिति द्रुतम् । तयो स भेदमकरोन्नयशास्त्रविचक्षण ॥११६॥
 गोपालकेन समन्य शर्गा मूल्यार्थमन्यदा । चिक्रीपुर्गां गृह यावदायातो निजलीलया ॥११७॥
 क्रीत्वा देवनियोगान्तामागच्छन्नावली पुरम् । गच्छता शशिना क्रोधान्निहतो म्लेच्छतामित ॥११८॥
 मृत शर्गा बलीवर्दी जातो म्लेच्छेन तेन च । हन्वा वैरानुबन्धेन भक्ष्यतामुपपादित ॥११९॥
 तिर्यग्नारकपान्थ सन्म्लेच्छो मूपकता गत । अभूच्छश्यपि मार्जारस्तेन हत्वा स भक्षित ॥१२०॥
 पापकर्मनियोगेन प्राप्तौ नरकभूमिषु । प्राप्यते सुमहद् दुःख जन्तुभिर्मवसागरे ॥१२१॥
 भूय मख्य काश्या तौ दासीं जातौ सहौदरौ । दास्या सभ्रमदेवस्य कूटकार्पटिकाह्वयौ ॥१२२॥
 जिनवेग्मनि तौ तेन नियुक्तौ प्रेत्य पुण्यतः । रूपानन्द सुरूपश्च जातौ भूतगणाधिपौ ॥१२३॥
 शशिपूर्वो रजोबल्या च्युत्वाऽभूत् कुलपुत्रकः । कुलन्धरोऽपरः पुष्पभूतिः पुत्रः पुरोधस ॥१२४॥

उसका पुत्र था वह सुलोचन नामका विद्याधर हुआ । इसी वैरके कारण पूर्णमेघने सुलोचनको मारा है ॥११०-१११॥ गणधर देवने सहस्रनयन और मेघवाहनको समझाया कि तुम दोनों इस तरह अपने पिताओंका सासारिक दुःखमय परिभ्रमणको जानकर संसारका कारणभूत वैर भाव छोड़कर साम्य भावका सेवन करो ॥११२॥

तदनन्तर सगर चक्रवर्तीने पूछा कि हे भगवन् ! मेघवाहन और सहस्रनयनका पूर्व जन्ममे वैर क्यों हुआ ? तब धर्मचक्रके अधिपति भगवान्ने उनके वैरका कारण निम्न प्रकार समझाया ॥११३॥ उन्होंने कहा कि जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्र सम्बन्धी पद्मक नामक नगरमे गणित शास्त्रका पाठी महाधनवान् रम्भ नामका एक प्रसिद्ध पुरुष रहता था ॥११४॥ उसके दो शिष्य थे—एक चन्द्र और दूसरा आवलि । ये दोनों ही परस्पर मैत्री भावसे सहित थे । अत्यन्त प्रसिद्ध धनवान् और गुणोसे युक्त थे ॥११५॥ नीतिशास्त्रमे निपुण रम्भने यह विचारकर कि यदि ये दोनों परस्परमे मिले रहेंगे तो हमारा पद भङ्ग कर देंगे, दोनोंमे फूट डाल दी ॥११६॥ एक दिन चन्द्र गाय खरीदना चाहता था सो गोपालके साथ सलाह कर मूल्य लेनेके लिए वह सहज ही अपने घर आया था कि भाग्यवश आवलि उसी गायको खरीदकर अपने गाँवकी ओर आ रहा था । बीचमे चन्द्रने क्रोधवश उसे मार डाला । आवलि मरकर म्लेच्छ हुआ ॥११७-११८॥ और चन्द्र मरकर बैल हुआ सो म्लेच्छने पूर्व वैरके कारण उसे मारकर खा लिया ॥११९॥ म्लेच्छ तिर्यञ्च तथा नरक योनिमे भ्रमणकर चूहा हुआ और चन्द्रका जीव बैल मरकर विलाव हुआ सो विलावने चूहेको मारकर भक्षण किया ॥१२०॥ पाप कर्मके कारण दोनों ही मरकर नरकमे उत्पन्न हुए सो ठीक ही है क्योंकि प्राणी ससार रूपी सागरमे बहुत भारी दुःख पाते ही हैं ॥१२१॥ नरकसे निकलकर दोनों ही वनारसमे संभ्रमदेवको दासीके कूट और कार्पटिक नामके पुत्र हुए । ये दोनों ही भाई दास थे—दासवृत्तिका काम करते थे सो सभ्रमदेवने उन्हें जिनमन्दिरमे नियुक्त कर दिया । अन्तमे मरकर दोनों ही पुण्यके प्रभावसे रूपानन्द और सुरूप नामक व्यन्तर देव हुए ॥१२२-१२३॥ रूपानन्द चन्द्रका जीव था और सुरूप आवलिका जीव था सो रूपानन्द चयकर रजोबली नगरीमे कुलधर नामका कुलपुत्रक हुआ और सुरूप, पुरोहितका पुत्र पुष्पभूति हुआ ॥१२४॥

१. भजतः म० । २. समेद म० । ३. पुग ख० । ४. रूपानन्दसुरूपश्च म० । ५. रजोवाल्याम् म० ।
 ६. पुत्रपुरोधस. क० ।

मित्रां तौ सैरिक्त्यायै प्राप्तां वैर ततः स्थिनम् । पुष्पभूति तनो हन्तुं प्रावर्तन कुलधरः ॥१२५॥
 वृत्रमूलस्यसाधोश्च धर्मं श्रुत्वा प्रशान्तवान् । राज्ञा परीक्षितश्चाभूत् सानन्तः पुण्ययोगतः ॥१२६॥
 पुष्पभूतिरिमं दृष्ट्वा धर्माद् विभवमागतम् । जैनो भूत्वा नृतो जातस्तृतीये सुरविष्टपे ॥१२७॥
 कुलधरोऽपि तत्रैव च्युतौ तौ मन्दरावरे । विदेहे धातकीखण्डे जयवत्यामरिञ्जये ॥१२८॥
 सहस्रशिरसो नृच्यौ क्रूरामरधनश्रुता । जातावच्यन्नविक्रान्तावन्तरङ्गां सुविश्रुतां ॥१२९॥
 अन्यदेगः समं नाम्नां वदुं प्रतिष्ठत द्विपम् । प्रतिमैष्टिप सत्वाना जन्मनैव विरोधिनाम् ॥१३०॥
 शनिनोऽर्ज्ञा कथं व्याला इति विस्मयमागतः । अविशद् स महागण्यमपग्यञ्च महामुनिम् ॥१३१॥
 ततो राजा समं नाम्नां तस्य केवलिनोऽन्तिके । प्रत्रय्य निर्धृतिं प्रापच्छतारं नु गनाविभौ ॥१३२॥
 शशिपूर्वस्ततरच्युत्वा जातोऽय मेववाहनः । आवली नु सहत्वाच्चो वैरं तेनानयोरिदम् ॥१३३॥
 प्रतिनिर्माधिका कस्माद् सहस्रनयने विभो । इति पृष्टो जिनोऽब्रुवन् सगरेण ततः पुनः ॥१३४॥
 भिन्नाज्ञानेन साधुनां रम्भोऽमरकुलं गतः । सौधर्मं च तनश्च्युत्वा जातश्चन्द्रपुरे हरेः ॥१३५॥
 नरेन्द्रस्य धरादेव्यां दयितव्रतकीर्तन । श्रान्प्रान्नात्कमात्स्य विदेहं त्वरे च्युतः ॥१३६॥
 महायोषेण चन्द्रिण्यामुच्यन्नो रत्नचये । पयोवलो मुनीभूय प्रागतं कल्पमाश्रितः ॥१३७॥

यद्यपि कुलधर और पुष्पभूति दोनों ही मित्र थे तथापि एक हलवाहकके निमित्तसे उन दोनोंमें शत्रुता हो गई। फलस्वरूप कुलधर पुष्पभूतिको मारनेके लिए प्रवृत्त हुआ ॥१२५॥ मार्गमें उसे एक वृक्षके नीचे विराजमान मुनिराज मिले सो उनसे धर्म श्रवणकर वह शान्त हो गया। राजाने उसकी परीक्षा ली और पुण्यके प्रभावसे उसे मण्डलेश्वर बना दिया ॥१२६॥ पुष्पभूतिने देखा कि धर्मके प्रभावसे ही कुलधर वैभवको प्राप्त हुआ है इसलिए वह भी जैनो हो गया और सरकार तीसरे नवर्गमें देव हुआ ॥१२७॥ कुलधर भी उसी तीसरे स्वर्गमें देव हुआ। दोनों ही च्युत होकर धातकी खण्ड द्वीपके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें अरिजय पिता और जयवती माताके पुत्र हुए। एकका नाम क्रूरामर, दूसरेका नाम धनश्रुति था। ये दोनों भाई अत्यन्त शूरवीर, एवं सहस्रशार्पि राजाके विश्वासपात्र प्रसिद्ध सेवक हुए ॥१२८-१२९॥ किसी एक दिन राजा सहस्रशार्पि, इन दोनों सेवकोंके साथ हाथी पकड़नेके लिए वनमें गया। वहाँ उसने जन्मसे ही विरोध रखनेवाले सिंह-नृगादि जीवांको परस्पर प्रेम करते हुए देखा ॥१३०॥ 'ये हिंसक प्राणी शान्त क्यों हैं?' इस प्रकार आश्चर्यको प्राप्त हुए राजा सहस्रशार्पिने ज्योही महावनमें प्रवेश किया त्योंही उसकी दृष्टि महामुनि केवली भगवान्के ऊपर पड़ी ॥१३१॥ तदनन्तर राजा सहस्रशार्पिने दोनों सेवकोंके साथ केवली भगवान्के पास दीक्षा धारण कर ली। फलस्वरूप राजा तो मोक्षको प्राप्त हुआ और क्रूरामर तथा धनश्रुति शतार स्वर्ग गये ॥१३२॥ इनमें चन्द्रका जीव क्रूरामर तो तो नवर्गसे चयकर मेववाहन हुआ है और आवलिका जीव धनश्रुति सहस्रनयन हुआ है। इस प्रकार पूर्वभवके कारण इन दोनोंमें वैर-भाव है ॥१३३॥

तदनन्तर सगर चक्रवर्तीने भगवान्से पूछा कि हे प्रभो! सहस्रनयनमें मेरी अधिक प्रीति है सो इसका क्या कारण है? उत्तरमें भगवान्ने कहा कि जो रम्भ नामा गणित शान्त्रका पाठी था वह मुनियोंको आहारदान देनेके कारण देवकुलमें आर्य हुआ, फिर सौधर्म स्वर्ग गया, वहाँसे च्युत होकर चन्द्रपुर नगरमें राजा हरि और धरा नामकी रानीके व्रतकीर्तन नामका प्यारा पुत्र हुआ। वह मुनिपद धारणकर स्वर्ग गया, वहाँसे च्युत होकर पश्चिम विदेह क्षेत्रके रत्नसंचय नगरमें राजा महायोष और चन्द्रिणी नामकी रानीके पयोवल नामका पुत्र हुआ। वह मुनि होकर प्रान्त नामक चौदहवें स्वर्गमें देव हुआ ॥१३४-१३७॥ वहाँसे च्युत होकर भरत क्षेत्रके

१. स्थितौ न०. स्थिनः क० । २. जयावत्या -म०; जायावत्या ख० । ३. शुनिश्रुतौ ख० । ४. अन्यद्वैयः म०, अन्यत्र + ईश. इति पदच्छेदः ।

प्रच्युत्य भरते जातो नगरे पृथिवीपुरे । यशोधरनरेन्द्रेण जयाया जयकीर्तन. ॥१३८॥
 प्रव्रज्य च पितु. पार्ष्वे ऋत्वा विजयमाश्रित । च्युत्वा ततो भवान् जात सगरश्चक्रलाङ्घन ॥१३९॥
 रम्भस्य भवतो यस्मादावली दयितोऽभवत् । तत्पूर्वोऽय प्रियोऽद्यापि सहस्राक्षस्ततस्तव ॥१४०॥
 अवगम्य जिनेन्द्रास्यादात्मपित्रोर्भवान्तरम् । उत्पन्नो धर्मसवेगस्तयोरत्यन्तमुन्नत. ॥१४१॥
 महतो धर्मसवेगाजातो जातिस्मृतौ तत । श्रद्धावन्तो समारब्धो स्तोतु तावजित जिनम् ॥१४२॥
 वालिशानामनाथानां सत्त्वाना कारणाद् विना । उपकार करोपि त्वमाश्चर्यं किमत. परम् ॥१४३॥
 उपमामुक्तरूपस्य वीर्येणाप्रमितस्य ते । निरीक्षणेन कस्तृप्तो विद्यतेऽस्मिन् जगत्त्रये ॥१४४॥
 लब्धार्थं कृतकृत्योऽपि सर्वदर्शी सुखात्मक । अचिन्त्यो ज्ञातविज्ञेयस्तथापि जगते हित. ॥१४५॥
 'सारधर्मोपदेशाख्य जीवाना त्व जिनोत्तम । पतता भवपाताले हस्तालम्ब प्रयच्छसि ॥१४६॥
 इति तो गङ्गदालापौ वाष्पविप्लुतलोचनौ । परम हर्षमायातौ प्रणम्य विधिवत्स्थितौ ॥१४७॥
 शक्राद्या देववृषभा. सगराद्या नृपाधिपा । साधव सिंहवीर्याद्या ययु परममद्भुतम् ॥१४८॥
 सदस्यथ जिनेन्द्रस्य रत्नसामधिपाविदम् । ऊचतुर्वचन भीमसुभीमाविति विश्रुतौ ॥१४९॥
 खेचरार्भक धन्योऽसि यस्त्व शरणमागत. । सर्वज्ञमजित नाथ, तुष्टावावामतस्तव ॥१५०॥
 शृणु सप्रति ते स्वास्थ्य यथा भवति सर्वत. । त प्रकार प्रवक्ष्याव' पालनीयस्त्वमावयो. ॥१५१॥

पृथिवीपुर नगरमे राजा यशोधर और जया नामकी रानीके जयकीर्तन नामका पुत्र हुआ ॥१३८॥
 वह पिताके निकट जिनदीक्षा ले विजय विमानमे उत्पन्न हुआ और वहाँसे चयकर तू सगर
 चक्रवर्ती हुआ है ॥१३९॥ जत्र तू रम्भ था तत्र आवलिके साथ तेरा बहुत स्नेह था । अब
 आवलि ही सहस्रनयन हुआ है । इसलिए पूर्वसंस्कारके कारण अब भी तेरा उसके साथ गाढ
 स्नेह है ॥१४०॥ इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्के मुखसे अपने तथा पिताके भवान्तर जानकर
 मेघवाहन और सहस्राक्ष दोनोको धर्ममे बहुत भारी रुचि उत्पन्न हुई ॥१४१॥ उस धार्मिक रुचिके
 कारण दोनोको जाति-स्मरण भी हो गया है । तदनन्तर श्रद्धासे भरे मेघवाहन और सहस्रनयन
 अजितनाथ भगवान्की इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥१४२॥ हे भगवन् ! जो बुद्धिसे रहित है
 तथा जिनका कोई नाथ—रक्षक नहीं है ऐसे ससारी प्राणियोंका आप विना करण ही उपकार
 करते हैं इससे अधिक आश्चर्य और क्या हो सकता है ॥१४३॥ आपका रूप उपमासे रहित है
 तथा आप अतुल्य वीर्यके धारक हैं । हे नाथ ! इन तीनों लोकोमे ऐसा कौन पुरुष है जो आपके
 दर्शनसे संतप्त हुआ हो ॥१४४॥ हे भगवन् ! यद्यपि आप प्राप्त करने योग्य समस्त पदार्थ प्राप्त कर
 चुके हैं, कृतकृत्य हैं, सर्वदर्शी हैं, सुखस्वरूप हैं, अचिन्त्य हैं, और जानने योग्य समस्त पदार्थों
 को जान चुके हैं तथापि जगत्का हित करनेके लिए उद्यत हैं ॥१४५॥ हे जिनराज ! ससार रूपी
 अन्धकूपमे पड़ते हुए जीवोको आप श्रेष्ठ धर्मोपदेश रूपी हस्तावलम्बन प्रदान करते हैं ॥१४६॥
 इस प्रकार जिनकी वाणी गद्गद हो रही थी और नेत्र आँसुओसे भर रहे थे ऐसे परम हर्षको
 प्राप्त हुए मेघवाहन और सहस्रनयन विधिपूर्वक स्तुति और नमस्कारकर यथास्थान बैठ
 गये ॥१४७॥ सिंहवीर्य आदि मुनि, इन्द्र आदि देव और सगर आदि राजा परम आश्चर्यको
 प्राप्त हुए ॥१४८॥

अथानन्तर-जिनेन्द्र भगवान्के समवसरणमे राक्षसोके इन्द्र भीम और सुभीम प्रसन्न
 होकर मेघवाहनसे कहने लगे कि हे विद्याधरके बालक ! तू धन्य है जो सर्वज्ञ अजित जिनेन्द्रकी
 शरणमे आया है, हम दोनो तुझपर सन्तुष्ट हुए हैं अत जिससे तेरी सर्वप्रकार से स्वस्थता हो
 सकेगी वह बात हम तुझसे इस समय कहते हैं सो तू ध्यानसे सुन, तू हम दोनोंकी रक्षाका

सन्त्यत्र लवणाम्भोवावत्युग्रग्राहसकटे । अत्यन्तदुर्गमा रम्या 'महाद्वीपा. सहस्रशः ॥१५२॥
 क्वचित् क्रीडन्ति गन्धर्वा किन्नराणां क्वचिद् गणा । क्वचिच्च यक्षसघाता क्वचिकिंपुरुषामरा ॥१५३॥
 तत्र मध्येऽस्ति स द्वीपो रक्षसां क्रीडनः शुभः । योजनानां शतान्येव सर्वतः सप्त कीर्तितः ॥१५४॥
 तन्मध्ये मेरुवद् भाति त्रिकूटाख्यो महागिरि । अत्यन्तदु प्रवेशो यः शरण्य सदगुहागृहे ॥१५५॥
 शिखर तस्य शैलेन्द्रचूडाकारं मनोहरम् । योजनानि नवोत्तुङ्ग पञ्चाशद्विपुलत्वतः ॥१५६॥
 नानारत्नप्रभाजालच्छन्नहेममहातटम् । चित्रवल्लीपरिष्वक्तकल्पद्रुमसमाकुलम् ॥१५७॥
 त्रिशद्योजनमानाथ सर्वतस्तस्य राक्षसी । लङ्केति नगरी भाति रत्नजाम्बूनदालया ॥१५८॥
 मनोहारिभिरुद्यानैः सरोभिश्च सवारिजैः । महद्दिश्वैत्यगेहैश्च सा महेन्द्रपुरीसमा ॥१५९॥
 गच्छ ता दक्षिणागया मण्डनत्वमुपागताम् । सम बान्धववर्गेण विद्याधर सुखी भव ॥१६०॥
 एवमुक्त्वा ददावस्मै हार राक्षसपुङ्गवः । देवताधिष्ठित ज्योत्स्ना कुर्वाण करकोटिभिः ॥१६१॥
 जन्मान्तरसुतप्रीत्या भीमश्चैव तमब्रवीत् । हारोऽय तेऽन्त्यदेहस्य युगश्रेष्ठस्य चोदितः ॥१६२॥
 धरण्यान्तर्गतं चान्यदत्तं स्वाभाविक पुरम् । विस्तीर्णभरताद्वार्धमधः पद्मयोजनीगतम् ॥१६३॥
 दुःप्रवेशमरातीना मनसापि महद्गृहम् । अलंकारोदयाभिस्य स्वर्गतुल्यमभिरुचया ॥१६४॥
 परचक्रसमाक्रान्त कदाचिच्चैन्द्रवेरसिम् । आश्रित्य तत्तटा तिष्ठे रहस्य वशसन्ततेः ॥१६५॥

पात्र है ॥१४६-१५१॥ बहुत भारी मगरमच्छोसे भरे हुए इस लवणसमुद्रमे अत्यन्त दुर्गम्य तथा अतिशय सुन्दर हजारों महाद्वीप है ॥१५२॥ उन महाद्वीपोंमें कहीं गन्धर्व, कहीं किन्नरोंके समूह, कहीं यक्षोंके मुण्ड और कहीं किंपुरुषदेव क्रीड़ा करते हैं ॥१५३॥ उन द्वीपोंके बीच एक ऐसा द्वीप है जो राक्षसोंकी शुभ क्रीड़ाका स्थान होनेसे राक्षस द्वीप कहलाता है और सात सौ योजन लम्बा तथा उतना ही चौड़ा है ॥१५४॥ उस राक्षस द्वीपके मध्यमें मेरु पर्वतके समान त्रिकूटाचल नामक विशाल पर्वत है । वह पर्वत अत्यन्त दु प्रवेश है और उत्तमोत्तम गुहारूपी गृहोंसे सबको शरण देनेवाला है ॥१५५॥ उसकी शिखर सुमेरु पर्वतकी चूलिकाके समान महामनोहर है, वह नौ योजन ऊँचा और पचास योजन चौड़ा है ॥१५६॥ उसके सुवर्णमय किनारे नानाप्रकारके रत्नोंकी कान्तिके समूहसे सदा आच्छादित रहते हैं तथा नानाप्रकार की लताओंसे आलिङ्गित कल्पवृक्ष वहाँ संकीर्णता करते रहते हैं ॥१५७॥ उस त्रिकूटाचलके नीचे तीस योजन विस्तारवाली लङ्का नगरी है, उसमें राक्षस वंशियोंका निवास है, और उसके महल नानाप्रकारके रत्नों एवं सुवर्णसे निर्मित हैं ॥१५८॥ मनको हरण करनेवाले वाग-वगीचो, कमलोंसे सुशोभित सरोधरो और बड़े-बड़े जिन मन्दिरोंसे वह नगरी इन्द्रपुरीके समान जान पड़ती है ॥१५९॥ वह लङ्का नगरी दक्षिण दिशाकी मानो आभूषण ही है । हे विद्याधर ! तू अपने बन्धुवर्गके साथ उस नगरीमें जा और सुखी हों ॥१६०॥ ऐसा कहकर राक्षसोंके इन्द्र भीमने उसे देवाधिष्ठित एक हार दिया । वह हार अपनी करोड़ों किरणोंसे चोदनी उत्पन्न कर रहा था ॥१६१॥ जन्मान्तर सम्बन्धी पुत्रकी प्रीतिके कारण उसने वह हार दिया था और कहा था कि हे विद्याधर ! तू चरमशरीरी तथा युगका श्रेष्ठ पुरुष है इसलिए तुझे यह हार दिया है ॥१६२॥ उस हारके सिवाय उसने पृथ्वीके भीतर छिपा हुआ एक ऐसा प्राकृतिक नगर भी दिया जो छह योजन गहरा तथा एक सौ साढ़े इकतीस योजन और डेढ़ कलाप्रमाण चौड़ा था ॥१६३॥ उस नगरमें शत्रुओंका शरीर-द्वारा प्रवेश करना तो दूर रहा मनसे भी प्रवेश करना अशक्य था । उसमें बड़े-बड़े महल थे, अलंकारोदय उसका नाम था और शोभासे वह स्वर्गके समान जान पड़ता था ॥१६४॥ यदि तुझपर कदाचित् परचक्रका आक्रमण हो तो इस नगरमें खड्गका आश्रय ले सुखसे रहना । यह तेरी वंश-परम्पराके लिए रहस्य-सुरक्षित स्थान है । ॥१६५॥ इस प्रकार राक्षसोंके इन्द्र भीम

इत्युक्तौ राक्षसेशाभ्या प्राप पूर्णघनात्मज । प्रमोद परम देव प्रणनाम च सोऽजितम् ॥१६६॥
 लब्ध्वा च राक्षसी विद्यामारुह्योप्सितगत्वरम् । विमान कामग नाम प्रस्थितस्ता पुरीमर्सा ॥१६७॥
 ज्ञात्वा लब्धवर चैत रक्षोभ्या सर्ववान्धवा । याता विकासमम्भोजसधा इव दिवानने ॥१६८॥
 विमलामलकान्ताद्या विद्याभाजस्तमृद्धिभि । सुप्रीता. ग्रीध्रमायाता नन्दयन्त सुभापितैः ॥१६९॥
 वेष्टितोऽसौ ततस्तुष्टै पार्वत. पृष्टतोऽप्रत. । कैश्चिद् द्विरदपृष्टस्थै कैश्चित्तरगयायिभि ॥१७०॥
 जयशब्दकृतारावै प्राप्तदुन्दुभिनिस्वनै ३ । श्वेतच्छत्रकृतच्छायैर्ध्वजमालाविभूपितैः ॥१७१॥
 विद्याधराणा सघातै कृताशीर्नमनक्रिय. । गच्छन्नभस्तलेऽपश्यल्लवणार्णवमाकुलम् ॥१७२॥
 आकाशमिव विस्तीर्ण पातालमिव निस्तलम् । तमालवनयकाशमूर्तिमालासमाकुलम् ॥१७३॥
 अथ जलगत. शैलो प्राहोऽय प्रकटो महान् । चलितोऽय महार्मीन सर्मापैरिति भापित ॥१७४॥
 त्रिकूटशिखराधस्तामहाप्राकारगोपुराम् । सन्ध्यामिव विलिम्पन्ती छाययारुणया नभ ॥१७५॥
 कुन्दशुभ्रै समुत्तुङ्गैर्वैजयन्त्युपशोभितैः । मण्डिता चैत्यसघातै सप्राकारै सतोरणै ॥१७६॥
 प्रविष्टो नगरी लङ्का प्रविश्य च जिनालयम् । वन्दित्वा स्वोचितागारमध्युवास समङ्गलम् ॥१७७॥
 इतरेऽपि यथा सन्न निविष्टास्तस्य वान्धवा. । रत्नशोभासमाकृष्टमनोनयनपङ्क्तय ॥१७८॥

और सुभीमने पूर्णघनके पुत्र मेघवाहनसे कहा जिसे सुनकर वह परम हर्षको प्राप्त हुआ । वह अजितनाथ भगवान्को नमस्कारकर उठा ॥१६६॥ राक्षसोके इन्द्र भीमने उसे राक्षसी विद्या दी । उसे लेकर इच्छानुसार चलनेवाले कामग नामक विमानपर आरूढ़ हो वह लङ्कापुरीकी ओर चला ॥१६७॥ 'राक्षसोके इन्द्रने इसे वरदानस्वरूप लङ्का नगरी दी है' यह जानकर मेघवाहनके समस्त भाई वान्धव इस प्रकार हर्षको प्राप्त हुए जिस प्रकार कि प्रातःकालके समय कमलके समूह विकास भावको प्राप्त होते हैं ॥१६८॥ विमल, अमल, कान्त आदि अनेक विद्याधर परम प्रसन्न वैभवके साथ शीघ्र ही उसके समीप आये और अनेक प्रकारके मीठे-मीठे शब्दोंसे उसका अभिनन्दन करने लगे ॥१६९॥ सन्तोपसे भरे भाई-बन्धुओंसे वेष्टित होकर मेघवाहनने लङ्काकी ओर प्रस्थान किया । उस समय कितने ही विद्याधर उसकी बगलमें चल रहे थे, कितने ही पीछे चल रहे थे, कितने ही आगे जा रहे थे, कितने ही हाथियोंकी पीठपर सवार होकर चल रहे थे, कितने ही घोड़ोंपर आरूढ़ होकर चल रहे थे, कितने ही जय-जय शब्द कर रहे थे, कितने ही दुन्दुभियोंका मधुर शब्द कर रहे थे, कितने ही लोगोपर सफेद छत्रोंसे छाया हो रही थी तथा कितने ही ध्वजाओं और मालाओंसे सुशोभित थे । पूर्वोक्त विद्याधरोंमें कोई तो मेघवाहनको आशीर्वाद दे रहे थे और कोई नमस्कार कर रहे थे । उन सबके साथ आकाशमें चलते हुए मेघवाहनने लवणसमुद्र देखा ॥१७०-१७२॥ वह लवणसमुद्र आकाशके समान विस्तृत था, पातालके समान गहरा था, तमालवनके समान श्याम था और लहरोके समूहसे व्याप्त था ॥१७३॥ मेघवाहनके समीप चलनेवाले लोग कह रहे थे कि देखो यह जलके बीच पर्वत दीख रहा है, यह बड़ा भारी मकर छलाङ्ग भर रहा है और इधर यह बृहदाकार मच्छ चल रहा है ॥१७४॥ इस प्रकार समुद्रकी शोभा देखते हुए मेघवाहनने त्रिकूटाचलकी शिखरके नीचे स्थित लङ्कापुरीमें प्रवेश किया । वह लङ्का बहुत भारी प्राकार और गोपुरोंसे सुशोभित थी, अपनी लाल-कान्तिके द्वारा सन्ध्याके समान आकाशको लिप्त कर रही थी, कुन्दके समान सफेद, ऊँचे पताकाओंसे सुशोभित, कोट और तोरणोंसे युक्त जिनमन्दिरोंसे मण्डित थी । लङ्कानगरीमें प्रविष्ट हो सर्वप्रथम उसने जिनमन्दिरमें जाकर जिनेन्द्रदेवकी वन्दना की और तदनन्तर मङ्गलोपकरणोंसे युक्त अपने योग्य महलमें निवास किया ॥१७५-१७७॥ रत्नोंकी शोभासे जिनके नेत्र और नेत्रोंके पक्तियों आकर्षित हो रही थीं ऐसे अन्य भाई-बन्धु भी यथायोग्य महलोमें ठहर गये ॥१७८॥

अथ किन्नरगोतास्थे पुरे रतिमयूखतः । अनुमत्या समुत्पन्नां सुप्रभां नाम कन्यकाम् ॥१७६॥
 चक्षुर्मानसयोश्चौरी वसतिं पुष्पधन्वनः । कौमुदी श्रीकुमुद्वत्या लावण्यजलदीर्घिकाम् ॥१८०॥
 संपदा परयोवाह भूषणाना विभूषणीम् । हर्षीकाणामशेषाणा प्रमोदस्य विधायिकाम् ॥१८१॥ (विशेषकम्)
 ततः खेचरलोकेन मस्तकोपात्तशासनः । पुरन्दर इव स्वर्गे तत्रासाववसच्चिरम् ॥१८२॥
 अथ तस्याभवत् पुत्रः पुत्रजन्माभिकाङ्क्षिण । महारक्ष इति ख्याति यो गतः कौलदेवतीम् ॥१८३॥
 वन्दनायान्यदा यातोऽजित तोयदवाहन । वन्दित्वा च निजस्थाने स्थितो विनयसन्नत ॥१८४॥
 तावदन्यकथाच्छेदे प्रणम्य सगरोऽजितम् । पृच्छतीद शिरः कृत्वा पाणिपङ्कजदन्तुरम् ॥१८५॥
 भगवन्नवसर्पिण्या भवद्विधजिनेश्वराः । स्वामिनो धर्मचक्रस्य भविष्यन्त्यपरे कति ॥१८६॥
 कति वा समतिक्रान्ता जगत्त्रयसुखप्रदाः । भवद्विधनरोत्पत्तिराश्चर्यं भुवनत्रये ॥१८७॥
 कति वा रत्नचक्राङ्गलक्ष्मीभाजः प्रकीर्तिताः । हलिनो वासुदेवाश्च कियन्तस्तद्विपस्तथा ॥१८८॥
 एव पृष्टो जिनो वाक्यमुवाच सुरदुन्दुभे । तिरस्कुर्वन्महाध्वान जनितश्रवणोत्सवम् ॥१८९॥
 भापाऽर्द्धमागधी तस्य भापमाणस्य नाधरौ । चकार स्पन्दसयुक्तावहो चित्रमिदं परम् ॥१९०॥
 उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योर्धर्मतीर्थप्रवर्तिनः । चतुर्विंशतिसंख्यानां प्रत्येकं सगरोद्विताः ॥१९१॥
 मोहान्ध्रध्वान्तसङ्घन्न कृत्स्नमार्सीदिदं जगत् । धर्मसचेतनामुक्त निष्पाखण्डमराजकम् ॥१९२॥

अथानन्तर—किन्नरगीत नामा नगरमे राजा रतिमयूख और अनुमति नामक रानीके सुप्रभा नामक कन्या थी । वह कन्या नेत्र और मनको चुरानेवाली थी, कामकी वसतिका थी, लक्ष्मीरूपी कुमुदिनीको विकसित करनेके लिए चोदनीके समान थी, लावण्य रूपी जलकी वापिका थी, आभूषणोंकी आभूषण थी, और समस्त इन्द्रियोंको हर्ष उत्पन्न करनेवाली थी । राजा मेघवाहनने बड़े वैभवसे उसके साथ विवाह किया ॥१७६-१८१॥ तदनन्तर समस्त विद्याधर लोग जिसकी आज्ञाको शिरपर धारण करते थे ऐसा मेघवाहन लंकापुरीमें चिर काल तक इस प्रकार रहता रहा जिस प्रकार कि इन्द्र स्वर्गमें रहता है ॥१८२॥ कुछ समय बाद पुत्र-जन्मकी इच्छा करनेवाले राजा मेघवाहनके पुत्र उत्पन्न हुआ । वह पुत्र कुल-परम्पराके अनुसार महारक्ष इस नामको प्राप्त हुआ ॥१८३॥ किसी एक दिन राजा मेघवाहन वन्दनाके लिए अजितनाथ भगवान्के समवसरणमें गया । वहाँ वन्दनाकर बड़ी विनयसे अपने योग्य स्थानपर बैठ गया ॥१८४॥ वहाँ जब चलती हुई अन्य कथा पूर्ण हो चुकी तब सगर चक्रवर्तीने हाथ मस्तकसे लगा नमस्कार कर अजितनाथ जिनेन्द्रसे पूछा ॥१८५॥ कि हे भगवन् ! इस अवसर्पिणी कालमें आगे चलकर आपके समान धर्मचक्रके स्वामी अन्य कितने तीर्थकर होंगे ? ॥१८६॥ और तीनों जगत्के जीवोंको सुख देनेवाले कितने तीर्थङ्कर पहले हो चुके हैं ? यथार्थसे आप जैसे मनुष्योंकी उत्पत्ति तीनों लोकोंमें आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली है ॥१८७॥ चौदह रत्न और सुदर्शन चक्रसे चिह्नित लक्ष्मीके धारक चक्रवर्ती कितने होंगे ? इसी तरह बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण भी कितने होंगे ॥१८८॥ इस प्रकार सगर चक्रवर्तीके पूछनेपर भगवान् अजितनाथ निम्नाङ्कित वचन बोले । उसके वे वचन देव-दुन्दुभिके गम्भीर शब्दका तिरस्कार कर रहे थे तथा क्रान्तिके लिए परम आनन्द उत्पन्न करनेवाले थे ॥१८९॥ भगवान्की भापा अर्द्धमागधी भापा थी और बोलते समय उनके ओंठोंको चञ्चल नहीं कर रही थी । यह बड़े आश्चर्यकी बात थी ॥१९०॥ उन्होंने कहा कि हे सगर ! प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीमें धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति करनेवाले चौबीस-चौबीस तीर्थकर होते हैं ॥१९१॥ जिस समय यह समस्त संसार मोहरूपी गाढ़ अन्धकारसे व्याप्त था, धर्मकी चेतनासे शून्य था, समस्त पाखण्डोंका घर और राजासे रहित था उस समय

यदा तदा समुत्पन्नो नाभेयो जिनपुङ्गव । राजन् तेन कृत. पूर्व काल कृतयुगाभिध' ॥१६३॥
 कल्पिताश्च त्रयो वर्णाः क्रियाभेदविधानत' । सस्यानां च समुत्पत्तिर्जायते कल्पतोयत. ॥१६४॥
 सृष्टा. काले च तस्यैव माहनाः सूत्रधारिणः । सुतेन भरताख्येन तस्य तत्समतेजसा ॥१६५॥
 आश्रमश्च समुत्पन्नः सागरेतरभेदत' । विज्ञानानि कलाश्चैव नाभेयेनैव देशिता' ॥१६६॥
 दीक्षामास्थाय तेनैव जन्मदुःखानलाहता । भव्या. कृतात्मकृत्येन नीता सौख्य शमाखुना ॥१६७॥
 त्रैलोक्यमपि समूय यस्यौपम्यादप्येषुपाम् । गुणानामशक' गन्तुमन्तमात्मसमुद्यते. ॥१६८॥
 अष्टापदनगारूढो य. शरीरविसृष्टये । दृष्टः सुरासुरैर्हैमकूटाकार. सविस्मयैः ॥१६९॥
 शरणं प्राप्य त नाथ मुनयो भरतादय. । महाव्रतधरा याता' पद सिद्धेः समाश्रिताः ॥२००॥
 पुण्यं केचिदुपादाय स्वर्गसौख्यमुपागताः । स्वभावार्जवसपन्ना. केचिन्मानुष्यक परम् ॥२०१॥
 नितान्तोज्ज्वलमप्यन्ये ददृशुस्तस्य नो मतम् । कुदष्टिरागसयुक्ता' कौशिका इव भास्करम् ॥२०२॥
 ते कुधर्मं समास्थाय कुदेवत्व प्रपद्य च । पुनस्तिर्यक्षु दुश्चेष्टा भ्रमन्ति नरकेषु च ॥२०३॥
 अनेकेऽत्र ततोऽतीते काले रत्नालयोपमे । नाभेययुगविच्छेदे जाते नष्टसमुत्सवे ॥२०४॥
 अवतीर्य दिवो मूर्ध्नि. कर्तुं कृतयुग पुन । उद्भूतोऽस्मि' हिताधायी जगतामजितो जिनः ॥२०५॥
 आचाराणां विघातेन कुदृष्टीना च सम्पदा । धर्मं ग्लानिपरिप्राप्तमुच्छ्रयन्ते जिनोत्तमाः ॥२०६॥
 ते त प्राप्य पुनर्धर्मं जीवा बान्धवमुत्तमम् । प्रपद्यन्ते पुनर्मार्गं सिद्धस्थानाभिगामिन. ॥२०७॥

राजा नाभिके पुत्र ऋषभदेव नामक प्रथम तीर्थंकर हुए थे, हे राजन् । सर्व प्रथम उन्हींके द्वारा इस कृत युगकी स्थापना हुई थी ॥१६२-१६३॥ उन्हींने क्रियाओंमें भेद होनेसे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीन वर्णोंकी कल्पना की थी । उनके समयमें मेघोंके जलसे धान्योंकी उत्पत्ति हुई थी ॥१६४॥ उन्हींके समय उनके समान तेजके धारक भरतपुत्रने यज्ञोपवीतको धारण करनेवाले ब्राह्मणोंकी भी रचना की थी ॥१६५॥ सागार और अनगरके भेदसे दो प्रकारके आश्रम भी उन्हींके समय उत्पन्न हुए थे । समस्त विज्ञान और कलाओंके उपदेश भी उन्हीं भगवान् ऋषभदेवके द्वारा दिये गये थे ॥१६६॥ दीक्षा लेकर भगवान् ऋषभदेवने अपना कार्य किया और जन्म सम्बन्धी दुःखाग्निसे पीड़ित अन्य भव्य जीवोंको शान्ति रूप जलके द्वारा सुख प्राप्त कराया ॥१६७॥ तीन लोकके जीव मिलकर इकट्ठे हो जावें तो भी आत्म तेजसे सुशोभित भगवान् ऋषभदेवके अनुपम गुणोंका अन्त प्राप्त करनेके लिए समर्थ नहीं हो सकते ॥१६८॥ शरीर त्याग करनेके लिए जब भगवान् ऋषभदेव कैलास पर्वतपर आरूढ़ हुए थे तब आश्चर्यसे भरे सुर और असुरोंने उन्हें सुवर्णमय शिखरके समान देखा था ॥१६९॥ उनकी शरणमें जाकर महाव्रत धारण करनेवाले कितने ही भरत आदि मुनि निर्वाण धामको प्राप्त हुए हैं ॥२००॥ कितने ही पुण्य उपार्जनकर स्वर्ग सुखको प्राप्त हैं, और स्वभावसे ही सरलताको धारण करनेवाले कितने ही लोग उत्कृष्ट मनुष्य पदको प्राप्त हुए हैं ॥२०१॥ यद्यपि उनका मत अत्यन्त उज्ज्वल था तो भी मिथ्यादर्शनरूपी रागसे युक्त मनुष्य उसे उस तरह नहीं देख सके थे जिस तरह कि उल्लू सूर्यको नहीं देख सकते हैं ॥२०२॥ ऐसे मिथ्यादृष्टि लोग कुधर्मकी श्रद्धाकर नीचे देवोंमें उत्पन्न होते हैं । फिर तिर्यञ्चोंमें दुष्ट चेष्टाएँ कर नरकोंमें भ्रमण करते हैं ॥२०३॥ तदनन्तर बहुत काल व्यतीत हो जानेपर जब समुद्रके समान गम्भीर ऋषभदेवका युग—तीर्थ विच्छिन्न हो गया और धार्मिक उत्सव नष्ट हो गया तब सर्वार्थसिद्धिसे च्यकर फिरसे कृतयुगकी व्यवस्था करनेके लिए जगत्का हित करनेवाला मैं दूसरा अजितनाथ तीर्थङ्कर उत्पन्न हुआ हूँ ॥२०४-२०५॥ जब आचारके विघात और मिथ्यादृष्टियोंके वैभवसे समीचीन धर्म ग्लानिको प्राप्त हो जाता है—प्रभावहीन होने लगता है तब तीर्थङ्कर उत्पन्न होकर उसका उद्योत करते हैं ॥२०६॥ संसारके प्राणी उत्कृष्ट बन्धुस्वरूप समीचीन धर्मको पुनः प्राप्तकर मोक्ष-

१. पूर्व ख० । २. समुत्पन्नाः म० । ३. -दुपेयुषाम् ख० । ४. -मशक ख० । ५. हिताधायी ख० ।

ततो मयि गते मोक्षमुत्पस्यन्ते जिनाधिपाः । द्वाविंशतिः क्रमादन्ये त्रिलोकोद्योतकारिणः ॥२०८॥
 ते च मत्सदृशाः सर्वे कान्तिवीर्यादिभूषिताः । त्रैलोक्यपूजनप्राप्तेर्ज्ञानदर्शनरूपतः ॥२०९॥
 चक्राङ्कितं श्रियं भुक्त्वा तेषां मध्ये त्रयो जिनाः । प्राप्स्यन्ति ज्ञानसाम्राज्यमनन्तसुखकारणम् ॥२१०॥
 तेषां नामानि सर्वेषां मङ्गलानि जगत्त्रये । महात्मनामहं वच्ये मनःशुद्धिकराणि ते ॥२११॥
 ऋषभो वृषभः पुंसामतीतः प्रथमो जिनः । वर्तमानोऽजितश्चाहं परिशेषा तु भाविनः ॥२१२॥
 संभवः संभवो मुक्तेर्भव्यर्नन्धाभिनन्दनः । सुमतिः पद्मतेजाश्च सुपार्श्वश्चन्द्रसन्निभः ॥२१३॥
 पुष्पदन्तोऽष्टकर्मन्तः शीतलः शीलसागरः । श्रेयान् श्रेयान् सुचेष्टासु वासुपूज्योऽर्चितः सताम् ॥२१४॥
 विमलान्तधर्माश्च शान्तिकुन्धरकीर्तिताः । मल्लिसुव्रतनामानौ नमिनेर्मा च विश्रुतौ ॥२१५॥
 पार्श्वो धीरजिनेन्द्रश्च जिनशैलीधुरन्धरः । देवाधिदेवता एते जीवस्वात्म्यव्यवस्थिताः ॥२१६॥
 जन्मावतारः सर्वेषां रत्नवृष्यभिनन्दितः । मेरौ जन्माभिपेकश्च सूरैः क्षीरोदवारिणा ॥२१७॥
 उपमानविनिमुक्तं तेजो रूपं सुखं बलम् । सर्वे जन्मरिपोर्लोके विध्वंसनविधायिनः ॥२१८॥
 अस्तं याते महावीरजिनतिग्मांशुमालिनि । लोके पाखण्डखद्योतास्तेजः प्राप्स्यन्ति भूरयः ॥२१९॥
 चतुर्गतिरूपसंसारकूपे ते पतिताः स्वयम् । पातयिष्यन्ति मोहान्धानन्यानप्यसुधारिणः ॥२२०॥
 एकस्वत्सदृशोऽतीतश्चक्रचिह्नः श्रियः पतिः । भवानेको महावीर्यो जनिष्यन्ति दशापरे ॥२२१॥

मार्गको प्राप्त होते हैं और मोक्ष स्थानकी ओर गमन करने लगते हैं अर्थात् विच्छिन्न मोक्षमार्ग फिरसे चालू हो जाता है ॥२०७॥ तदनन्तर जब मैं मोक्ष चला जाऊँगा तब क्रमसे तीनों लोकोंका उद्योत करनेवाले वाईस तीर्थङ्कर और उत्पन्न होंगे ॥२०८॥ वे सभी तीर्थङ्कर मेरे ही समान कान्ति, वीर्य आदिसे विभूषित होंगे, मेरे ही समान तीन लोकके जीवोंसे पूजाको प्राप्त होंगे और मेरे ही समान ज्ञानदर्शनके धारक होंगे ॥२०९॥ उन तीर्थङ्करोंमें तीन तीर्थङ्कर (शान्ति, कुन्धु, अर) चक्रवर्तीकी लक्ष्मीका उपभोग कर अनन्त सुखका कारण ज्ञानका साम्राज्य प्राप्त करेंगे ॥२१०॥ अब मैं उन सभी महापुरुषोंके नाम कहता हूँ । उनके ये नाम तीनों जगत्में मङ्गलस्वरूप हैं तथा हे राजन् सगर ! तेरे मनकी शुद्धता करनेवाले हैं ॥२११॥ पुरुषोंमें श्रेष्ठ ऋषभनाथ प्रथम तीर्थङ्कर थे जो हो चुके हैं, मैं अजितनाथ वर्तमान तीर्थङ्कर हूँ और वाकी वाईस तीर्थङ्कर भविष्यत् तीर्थङ्कर हैं ॥२१२॥ मुक्तिके कारण सम्भवनाथ, भव्य जीवोंको आनन्दित करनेवाले अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चन्द्रप्रभ, अष्टकर्मको नष्ट करनेवाले पुष्पदन्त, शीलके सागर स्वरूप शीतलनाथ, उत्तम चेष्टाओंके द्वारा कल्याण करनेवाले श्रेयोनाथ, सत्पुरुषोंके द्वारा पूजित वासुपूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, सुव्रतनाथ, नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और जिनमार्गके धुरन्धर वीरनाथ । ये इस अवसर्पिणी युगके चौबीस तीर्थङ्कर हैं । ये सभी देवाधिदेव और जीवोंका कल्याण करनेवाले होंगे ॥२१३-२१६॥ इन सभीका जन्मावतरण रत्नोंकी वर्षासे अभिनन्दित होगा तथा देव लोग क्षीरसागरके जलसे सुमेरु पर्वतपर सबका जन्माभिपेक करेंगे ॥२१७॥ इन सभीका तेज, रूप, सुख और बल उपमासे रहित होगा और सभी इस संसारमें जन्मरूपी शत्रुका विध्वंस करनेवाले होंगे अर्थात् मोक्षगामी होंगे ॥२१८॥ जब भगवान् महावीररूपी सूर्य अस्त हो जायगा तब इस संसारमें बहुतसे पाखण्डरूपी जुगनू तेजको प्राप्त करेंगे ॥२१९॥ वे पाखण्ड पुरुष इस चतुर्गतिरूप संसार कूपमें स्वयं गिरेंगे तथा मोहसे अन्धे अन्य प्राणियोंको भी गिरावेंगे ॥२२०॥ तुम्हारे समान चक्राङ्कित लक्ष्मीका अधिपति एक चक्रवर्ती तो हो चुका है, अत्यन्त शक्तिशाली

१. द्वाविंशति म० । २. भूतयः क०, ख० । ३. ज्ञात म० । ४. भव्यानन्यभि-म० । ५. वृष्यभिवन्दितः क० । ६. चिह्नश्रियः म० ।

प्रथमो भरतोऽतीतस्सगर त्व च वर्तसे । चक्रलान्कृतभोगेशा भविष्यन्ति परे नृपा ॥२२२॥
 सनत्कुमारविख्यातिर्मववा नामतोऽपर । शान्तिकुम्भवरनामान सुभूमध्वनिकीर्तितः ॥२२३॥
 महापद्म प्रसिद्धश्च हरिपेणध्वनिस्तथा । जयसेननृपश्चान्यो ब्रह्मदत्तो भविष्यति ॥२२४॥
 वासुदेवा भविष्यन्ति नव सार्धं प्रतीश्वरैः । बलदेवाश्च तावन्तो धर्मविन्यस्तचेतसः ॥२२५॥
 प्रोक्ता पृतेऽवसर्पिण्यां जिनप्रभृतयस्तथा । तथैवोत्सर्पिणीकाले भरतैरावताऽययोः ॥२२६॥
 एव कर्मवश श्रुत्वा जीवाना भवसकटम् । महापुरुषभूति च कालस्य च विवर्तनम् ॥२२७॥
 अष्टकर्मविमुक्तानां सुख चोपभयोऽङ्गितम् । जीमूतवाहनश्चक्रे चेतसीद विचक्षण ॥२२८॥
 कष्ट यैरेव जीवोऽय कर्मभिः परितप्यते । तान्येवोत्सहते कर्तुं मोहित कर्ममायया ॥२२९॥
 आपातमात्ररम्येषु विपवद् दुःखदायिषु । विपयेषु रति का वा दुःखोत्पादनवृत्तिषु ॥२३०॥
 कृत्वापि हि चिर सङ्ग धने कान्तासु बन्धुषु । एकाकिनैव कर्तव्य ससारे परिवर्तनम् ॥२३१॥
 तावदेव जनः सर्वः प्रियत्वेनानुवर्तते । दानेन गृह्यते यावत्सारमेयशिश्युर्था ॥२३२॥
 इयता चापि कालेन को गतः सह बन्धुभिः । परलोक कलत्रैर्वा सुहृद्भिर्बान्धवेन वा ॥२३३॥
 नागभोगोपमा भोगा भीमा नरकपातिनः । तेषु कुर्वान्नरः सङ्गं को वा यः स्यात्सचेतनः ॥२३४॥
 अहो परमिदं चित्रं सद्भावेन यदाश्रितान् । लक्ष्मीः प्रतारवत्येव दुष्टत्व किमत परम् ॥२३५॥

द्वितीय चक्रवर्ती तुम हो और तुम दो के सिवाय दश चक्रवर्ती और होंगे ॥२२१॥ चक्रवर्तियोमें प्रथम चक्रवर्ती भरत हो चुके हैं, द्वितीय चक्रवर्ती सगर तुम विद्यमान ही हो और तुम दोके सिवाय चक्रचिह्नित भोगोके स्वामी निम्नांकित दश चक्रवर्ती राजा और भी होंगे ॥२२२॥ ३ सनत्कुमार, ४ मघवा, ५ शान्ति, ६ कुन्धु, ७ अर, ८ सुभूम, ९ महापद्म, १० हरिपेण, ११ जयसेन और ब्रह्मदत्त ॥२२३॥ नौ प्रति नारायणोके साथ नौ नारायण होंगे और धर्ममें जिनका चित्त लग रहा है ऐसे बलभद्र भी नौ होंगे ॥२२४-२२५॥ हे राजन् ! जिस प्रकार हमने अवसर्पिणी कालमें होनेवाले तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती आदिका वर्णन किया है उसी प्रकारके तीर्थकर आदि उत्सर्पिणी कालमें भी भरत तथा ऐरावत क्षेत्रमें होंगे ॥२२६॥ इस प्रकार कर्मोंके वश होनेवाला जीवोंका संसारभ्रमण, महापुरुषोकी उत्पत्ति, कालचक्रका परिवर्तन और आठ कर्मोंसे रहित जीवोंको होनेवाला अनुपम सुख इन सबका विचारकर बुद्धिमान् मेघवाहनने अपने मनमें निम्न विचार किया ॥२२७-२२८॥ हाय हाय, बड़े दुःखकी बात है कि जिन कर्मोंके द्वारा यह जीव आतापको प्राप्त होता है कर्मरूपी मादिरासे उन्मत्त हुआ यह उन्हीं कर्मोंको करनेके लिए उत्साहित होता है ॥२२९॥ जो प्रारम्भमें ही मनोहर दिखते हैं और अन्तमें विपके समान दुःख देते हैं अथवा दुःख उत्पन्न करना ही जिनका स्वभाव है । ऐसे विपयोमें क्या प्रेम करना है ? ॥२३०॥ यह जीव धन, स्त्रियो तथा भाई-बन्धुओंका चिरकाल तक सङ्ग करता है तो भी ससारमें इसे अकेले ही भ्रमण करना पड़ता है ॥२३१॥ जिस प्रकार कुत्ताके पिल्लेको जब तक रोटीका टुकड़ा देते रहते हैं तभी तक वह प्रेम करता हुआ पीछे लगा रहता है इसी प्रकार इन संसारके सभी प्राणियोंको जब तक कुछ मिलता रहता है तभी तक ये प्रेमी बनकर अपने पीछे लगे रहते हैं ॥२३२॥ इतना भारी काल बीत गया पर इसमें कौन मनुष्य ऐसा है जो भाई-बन्धुओं, स्त्रियो, मित्रो तथा अन्य इष्ट जनोके साथ परलोकको गया हो ॥२३३॥ ये पञ्चेन्द्रियोंके भोग सोंपके शरीरके समान भयङ्कर एवं नरकमें गिरानेवाले हैं । ऐसा कौन सचेतन—विचारक पुरुष है जो कि इन विपयोमें आसक्ति करता हो ? ॥२३४॥ अहो, सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बातका है कि जो मनुष्य लक्ष्मीका सद्भावनासे आश्रय लेते हैं यह लक्ष्मी

स्वप्ने समागमो बृहत्तद्बृहद् बन्धुसमागमः । इन्द्रचापसमानं च क्षणमात्रं च तैः सुखम् ॥२३६॥
जलद्रुद्रुद्रवक्त्रायः सारेण परिवर्जितः । विद्युल्लताविलासेन सदृशं जीवितं चलम् ॥२३७॥
तत्साम्प्रतिमिदं हिन्वा संसारावासकारणम् । सहायं परिगृह्णामि धर्ममन्यमिचारिणम् ॥२३८॥
महारक्षसि निक्षिप्य राज्यभारं ततः कृती । प्राप्तवत् सोऽजितस्यान्ते महावैराग्यकङ्कटः ॥२३९॥
दशाधिकं शतं तेन नाकं खेचरभोगिनाम् । निर्वेदमाप्य निष्क्रान्त गेहचारकवासतः ॥२४०॥
महारक्षशशाङ्कोऽपि विभ्राणनक्रोत्करैः । पूरयन् बान्धवाम्भोधि रेजे लङ्कानभोऽङ्गणे ॥२४१॥
प्राप्य स्वप्नेऽपि तस्याज्ञां महान्निद्याधराधिपा । संभ्रमाद् बोधमायान्ति कृतमस्तकपाणयः ॥२४२॥
प्रथिता विमलाभास्य जाता प्रागसमप्रिया । यस्यानुवर्तनं चक्रे द्वायेव सततानुगा ॥२४३॥
अमरोद्भिभानुभ्यः परां रज श्रुतिं श्रिता । तस्य तस्यां समुत्पन्नाः पुत्राः सर्वार्थनन्मिताः ॥२४४॥
विचित्रकर्मसंपूर्णस्तुङ्गा विस्तारभाजिनः । प्रमिद्धास्तस्य ते पुत्रास्त्रयो लोका इवामवन् ॥२४५॥
प्रवर्त्याजितनाथोऽपि भव्यानां मुक्तिगामिनाम् । पन्यानां प्राप सम्भेदे निजां प्रकृतिमात्मनः ॥२४६॥
सगरस्य च पत्नीनां सहस्राणां पद्भुत्तराः । नवति शक्रपत्नीनामवन् तुल्यतेजसाम् ॥२४७॥
संपुत्राणां च पुत्राणां विभ्रतां शक्तिमुत्तमाम् । जाताः षष्टिः सहस्राणां रत्नस्तम्भसमत्विपाम् ॥२४८॥
ते कदाचिदयो याताः कैलासं वन्दनार्थिनः । कम्पयन्त पदभ्यासैर्वसुधां पर्वता इव ॥२४९॥

उन्हें ही धोखा देती है—ठगती है, इससे बढ़कर दुष्टता और क्या होगी ? ॥२३५॥ जिस प्रकार स्वप्न में हानेवाला इष्ट जनोका समागम अस्थायी है उसी प्रकार बन्धुजनोंका समागम भी अस्थायी है । तथा बन्धुजनोंके समागमसे जो सुख होता है वह इन्द्रधनुषके समान क्षणमात्रके लिए ही होता है ॥२३६॥ शरीर पानोके बबूलेके समान सारसे रहित है तथा यह जीवन विजलीकी चमकके समान चञ्चल है ॥२३७॥ इसलिए संसार-निवासके कारणभूत इस समस्त परिकरको छोड़कर मैं तो कभी धोखा नहीं देनेवाले एक धर्म रूप सहायकको ही ग्रहण करता हूँ ॥२३८॥ तदनन्तर ऐसा विचारकर वैराग्यरुपी कवचको धारण करनेवाले बुद्धिमान् मेघवाहन विद्याधरने महाराक्षस नामक पुत्रके लिए राज्यभार सौंपकर अजितनाथ भगवान्के समीप दीक्षा धारण कर ली ॥२३९॥ राजा मेघवाहनके साथ अन्य एक सौ दश विद्याधर भी वैराग्य प्राप्त कर घर लुपी वन्दी गृहसे बाहर निकले ॥२४०॥

इधर महाराक्षसरुपी चन्द्रमा भी दानरुपी किरणोंके समूहसे बन्धुजन रुपी समुद्रको हुलसाता हुआ लंकारुपी आकाशागणके बीच सुशोभित होने लगा ॥२४१॥ उसका ऐसा प्रभाव था कि बड़े-बड़े विद्याधरोंके अधिपति स्वप्नमें भी उसकी आज्ञा प्राप्तकर हड़बड़ाकर जाग उठते थे और हाथ जोड़कर मस्तकसे लगा लेते थे ॥२४२॥ उसकी विमलाभा नामकी प्राणप्रिया वल्लभा थी जो द्वायाके समान सदा उसके साथ रहती थी ॥२४३॥ उसके अमररक्ष, उद्घिररक्ष और भानुरक्ष नामक तीन पुत्र हुए । ये तीनों ही पुत्र सब प्रकारके अर्थोंसे परिपूर्ण थे ॥२४४॥ विचित्र-विचित्र कार्योंसे युक्त थे, उत्तुङ्ग अर्थान् उदार थे और जन-धनसे विस्तारको प्राप्त थे इसलिए ऐसे जान पड़ते मानो तीन लोक ही हो ॥२४५॥ भगवान् अजितनाथ भी मुक्तिगामी भव्य जीवोंको मोक्षका मार्ग प्रवर्तकर सम्भेद शिखरपर पहुँचे और वहाँसे आत्मस्वभावको प्राप्त हुए—सिद्ध पदको प्राप्त हुए ॥२४६॥ सगर चक्रवर्तिके इन्द्राणीके समान तेजको धारण करनेवाली द्रयानवे हजार रानियाँ थीं और उत्तम शक्तिको धारण करनेवाले एवं रत्नमयी रत्नम्भोंके समान देदीचमान साठ हजार पुत्र थे । उन पुत्रोंके भी अनेक पुत्र थे ॥२४७-२४८॥ किसी समय वे सभी पुत्र वन्दनाके लिए कैलास पर्वतपर गये । उस समय वे चरणोंके विक्षेपसे

१. विमलाभस्य म० । २. प्रवृत्त्य म० । ३. प्राप्य म०, क० । ४. संपुत्राणां म०, ख० । ५. कम्पय-
ता म० ।

विधाय सिद्धविग्रानां वन्दनां प्रश्रयान्विता । गिरेस्ते दण्डरत्नेन परिक्षेप प्रचक्रिरे ॥२५०॥
 आरसातलमूलां तां दृष्ट्वा खाता वसुन्धराम् । तेषामालोचन चक्रे नागेन्द्र* क्रोधदीपित ॥२५१॥
 क्रोधवह्नेस्ततस्तस्य ज्वालाभिर्लीढविग्रहा । भस्मसाङ्गावमायाता* सुतास्ते चक्रवर्तिनः ॥२५२॥
 तेषां मध्ये न दग्धौ द्वौ कथमप्यनुकम्पया । जीवितात्मक्या शक्त्या विपतो जातया यथा ॥२५३॥
 मागरीणामिम मृत्यु दृष्ट्वा युगपदागतम् । दुःखितौ सगरस्यान्तं यातौ भीमभगीरथौ ॥२५४॥
 अकस्मात् कथिते माय प्राणांस्त्याक्तीत्क्षणादिति । पण्डितैरिति सचिन्त्य निपिद्धौ तौ निवेदने ॥२५५॥
 ततः सभूय राजानो मन्त्रिणश्च कुलागता । नानाशास्त्रविबुद्धाश्च विनोदज्ञा मनीषिण ॥२५६॥
 अविभिन्नमुखच्छायाः पूर्ववैपसमन्विताः । विनयेन यथापूर्वं सगर समुपागताः ॥२५७॥
 नमस्कृत्योपविष्टैस्तैर्यथास्थान प्रचोदितैः । सज्ञया प्रवया कश्चिद्विद वचनमब्रवीत् ॥२५८॥
 राजन् सगर पश्य त्व जगतीमामनित्यताम् । ससार प्रति या दृष्ट्वा मानसं न प्रवर्तते ॥२५९॥
 राजार्साङ्गरतो नाम्ना त्वया समपराक्रम । दासीव येन पट्खण्डा कृता वश्या वसुन्धरा ॥२६०॥
 तस्यादित्ययशाः पुत्रो बभूवोन्नतविक्रम* । प्रसिद्धो यस्य नाम्नाय वशः सम्प्रति वर्तते ॥२६१॥
 एव तस्याप्यभूत् पुत्रस्तस्याप्यन्योऽपरस्ततः । गतास्ते चाधुना सर्वे दर्शनानामगोचरम् ॥२६२॥

पृथिवीको कँपा रहे थे और पर्वतोंके समान जान पड़ते थे ॥२४६॥ कैलास पर्वतपर स्थित सिद्ध प्रतिमाओंकी उन्होंने बड़ी विनयसे वन्दना की और तदनन्तर वे दण्डरत्नसे उस पर्वतके चारों ओर खाई खोदने लगे ॥२४७॥ उन्होंने दण्डरत्नसे पाताल तक गहरी पृथिवी खोद डाली यह देख नागेन्द्रने क्रोधसे प्रबलित हो उनकी ओर देखा ॥२४८॥ नागेन्द्रकी क्रोधाग्निकी ज्वालाओंसे जिनका शरीर व्याप्त हो गया था ऐसे वे चक्रवर्तीके पुत्र भस्मीभूत हो गये ॥२४९॥ जिस प्रकार विपकी मारक शक्तिके बीच एक जीवक शक्ति भी होती है और उसके प्रभावसे वह कभी-कभी औपधिके समान जीवनका भी कारण बन जाती है इसी प्रकार उस नागेन्द्रकी क्रोधाग्निमें भी जहाँ जलानेकी शक्ति थी वहाँ एक अनुकम्पा रूप परिणति भी थी । उसी अनुकम्पा रूप परिणतिके कारण उन पुत्रोंके बीचमें भीम भगीरथ नामक दो पुत्र किसी तरह भस्म नहीं हुए ॥२५०॥ सगर चक्रवर्तीके पुत्रोंकी इस आकस्मिक मृत्युको देखकर वे दोनों ही दुःखी होकर सगरके पास आये ॥२५१॥ सहसा इस समाचारके कहनेपर चक्रवर्ती कहीं प्राण न छोड़ें ऐसा विचारकर पण्डितजनोंने भीम और भगीरथको यह समाचार चक्रवर्तीसे कहनेके लिए मना कर दिया ॥२५२॥ तदनन्तर राजा, कुल क्रमागत मन्त्री, नाना शास्त्रोंके पारगामी और विनोदके जानकार विद्वज्जन एकत्रित होकर चक्रवर्तीके पास गये । उस समय उन सबके मुखकी कान्तिमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं था तथा वेशभूषा भी सबकी पहले के ही समान थी । सब लोग विनयसे जाकर पहले ही के समान चक्रवर्ती सगरके समीप पहुँचे ॥२५३-२५७॥ नमस्कारकर सब लोग जब यथा स्थान बैठ गये तब उनके संकेतसे प्रेरित हो एक वृद्धजनने निम्नाङ्कित वचन कहना शुरू किया ॥२५८॥

हे राजन् सगर ! आप ससारकी इस अनित्यताको तो देखो जिसे देखकर फिर संसारकी ओर मन प्रवृत्त नहीं होता ॥२५९॥ पहले तुम्हारे ही समान पराक्रमका धारी राजा भरत हो गया है जिसने इस छहखण्डकी पृथ्वीको दासीके समान वश कर लिया था ॥२६०॥ उसके महापराक्रमी अर्ककीर्ति नामक पुत्र ऐसा पुत्र हुआ था कि जिसके नामसे यह सूर्यवश अब तक चल रहा है ॥२६१॥ अर्ककीर्तिके भी पुत्र हुआ और उसके पुत्रके भी पुत्र हुआ परन्तु इस

१. सगरस्यापत्यानि पुमासः सागरयस्तेषाम् "अत इज्" इतीञ् प्रत्ययः । २. कथितेनाय म०, ख० ।
 ३. प्रचोदितान् म० ।

आसतां तावदेते वा नाकलोकेश्वरा अपि । ज्वलिता विभवैर्याताः क्षणाद् दुःखेन भस्मताम् ॥२६३॥
 येऽपि तीर्थकरा नाम त्रैलोक्यस्याभिनन्दकाः । शरीरं तेऽपि सत्यज्य गच्छन्त्यायुःपरिचये ॥२६४॥
 महातरौ यथैकरिमन्नुपित्वा रजनी पुनः । प्रभाते प्रतिपद्यन्ते ककुभो दश पक्षिणः ॥२६५॥
 एव कुटुम्ब एकस्मिन् सङ्गम प्राप्य जन्तवः । पुनः स्वां स्वां प्रपद्यन्ते गति कर्मवशानुगाः ॥२६६॥
 कैश्चित्तच्चेष्टित तेषां वपुश्चात्यन्तशोभनम् । विपर्ययकृतमक्षिभ्यामस्माकं तु कथागतम् ॥२६७॥
 बलवद्भयो हि सर्वेभ्यो मृत्युरेव महाबलः । आनीता निधन येन बलवन्तो बलीयसा ॥२६८॥
 कथं स्फुटति वो वक्ष स्मृत्वा तेषां महान्मनाम् । विनाश भरतादीनामहो चित्रमिदं परम् ॥२६९॥
 फेनोर्मिन्द्रधनुःस्वप्नविद्युद्बुद्बुदसन्निभाः । सपट प्रियसपर्का विग्रहाश्च शरीरिणाम् ॥२७०॥
 नास्ति कश्चिन्नरो लोके यो ब्रजेदुपमानताम् । यथायममरस्तद्वद्वय मृत्यूज्जिता इति ॥२७१॥
 येऽपि गोपयितु शक्ताः समुद्र ग्रामसकुलम् । कुर्युर्वा करयुग्मेन चूर्णं मेरुमहीधरम् ॥२७२॥
 उद्धर्तुं धरणी शक्ता असितु चन्द्रभास्करौ । प्रविष्टास्तेऽपि कालेन कृतान्तवदनं नराः ॥२७३॥
 मृत्योर्दुर्लङ्घितस्यास्य त्रैलोक्ये वशतां गते । केवलं व्युज्जिताः सिद्धा जिनधर्मसमुद्भवाः ॥२७४॥
 यथा ते बहवो याताः कालेन निधनं नृपाः । यात्यामो वयमप्येव सामान्य जगतामिदम् ॥२७५॥
 तत्र त्रिलोकसामान्ये वस्तुन्यस्मिन् समागते । शोकं कुर्याद्विद्वद्धात्मा को नरो भवकारणम् ॥२७६॥
 कथायामिति जाताया वीच्यापत्यद्वय पुनः । मानसे चक्रवर्तीद चकारेद्वितकोविदः ॥२७७॥

समय वे सब दृष्टिगोचर नहीं है ॥२६२॥ अथवा इन सबको रहने दो, स्वर्गलोकके अधिपति भी जो कि वैभवसे देदीप्यमान रहते हैं क्षणभरमे दुःखसे भस्म हो जाते हैं ॥२६३॥ अथवा इन्हे भी जाने दो, तीन लोकको आनन्दित करनेवाले जो तीर्थङ्कर हैं वे भी आयु समाप्त होनेपर शरीरको छोड़कर चले जाते हैं ॥२६४॥ जिस प्रकार पक्षी रात्रिके समय किसी बड़े वृक्षपर बसकर प्रातःकाल दशो दिशाओमें चले जाते हैं उसी प्रकार अनेक प्राणी एक कुटुम्बमें एकत्रित होकर कर्मोंके अनुसार फिर अपनी अपनी गतिको चले जाते हैं ॥२६५-२६६॥ किन्हींने उन पूर्व पुरुषोंकी चेष्टाएँ तथा उनका अत्यन्त सुन्दर शरीर अपनी आँखोंसे देखा है परन्तु हम कथामात्रसे उन्हें जानते हैं ॥२६७॥ मृत्यु सभी बलवानोंसे अधिक बलवान् है क्योंकि इसने अन्य सभी बलवानोंको परास्त कर दिया है ॥२६८॥ अहो यह बड़ा आश्चर्य है कि भरत आदि महापुरुषोंके विनाशका स्मरणकर हमारी छाती नहीं फट रही है ॥२६९॥ जीवोंकी धनसम्पदाएँ, इष्टसमागम और शरीर, फेन, तरङ्ग, इन्द्रधनुष, स्वप्न, विजली और बबूला के समान हैं ॥२७०॥ संसारमें ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो इस विषयमें उपमान हो सके कि जिस तरह यह अमर है उसी तरह हम भी अमर रहेंगे ॥२७१॥ जो मगरमच्छोंसे भरे समुद्रको सुखानेके लिए समर्थ हैं अथवा अपने दोनों हाथोंसे सुमेरु पर्वतको चूर्ण करनेमें समर्थ हैं अथवा पृथ्वीको ऊपर उठानेमें और चन्द्रमा तथा सूर्यको ग्रसनमें समर्थ हैं वे मनुष्य भी काल पाकर यमराजके मुखमें प्रविष्ट हुए हैं ॥२७२-२७३॥ तीनों लोकोंके प्राणी इस दुर्लङ्घनीय मृत्युके वश हो रहे हैं। यदि कोई वाकी छूटे है तो जिनधर्मसे उत्पन्न हुए सिद्ध भगवान् ही छूटे हैं ॥२७४॥

जिस प्रकार बहुतसे राजा कालके द्वारा विनाशको प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार हम लोग भी विनाशको प्राप्त होंगे। संसारका यह सामान्य नियम है ॥२७५॥ जो मृत्यु तीन लोकके जीवोंको समान रूपसे आती है उसके प्राप्त होनेपर ऐसा कौन विवेकी पुरुष होगा जो संसारके कारणभूत शोकको करेगा ॥२७६॥ इस प्रकार इधर वृद्ध मनुष्यके द्वारा यह चर्चा चल रही थी इधर चेष्टाओंके जाननेमें निपुण चक्रवर्तीने सामने सिर्फ दो पुत्र देखे। उन्हें देखकर वह मनमें विचार करने लगा ॥२७७॥ कि हमेशा सब पुत्र मुझे एक साथ नमस्कार

सर्वदा युगपत्सर्वे मा नमन्ति स्म देहजा । अद्य द्वौ दीनवदनौ नून शेषा गता क्षयम् ॥२७८॥
 एते चान्यापदेशेन कथयन्ति समागता । नृपा कथयितु साक्षाद्दुदारं दु खमक्षमा ॥२७९॥
 ततः शोकोरगोणासौ दष्टोऽपि न समत्यजन् । प्राणान् सभ्यवचोमन्त्रै प्रतिपद्य प्रतिक्रियाम् ॥२८०॥
 कदलीगर्भनि सारमवेय भवज सुखम् । भगीरथे श्रिय न्यस्य दीक्षा स समशिश्रियत् ॥२८१॥
 त्यजतोऽस्य धरित्रीय नगराकरमण्डिता । मनस्युदात्तलीलस्य जरत्तृणसमाभवत् ॥२८२॥
 सार्द्धं भीमरथेनासौ प्रतिपद्याजित विभुम् । केवलज्ञानमुत्पद्य सिद्धाना पदमाश्रयत् ॥२८३॥
 तनय सागरेर्जहो कुर्वन् राज्य भगीरथ । श्रुतसागरयोगीन्द्र पृष्टवानेवमन्यदा ॥२८४॥
 पितामहस्य मे नाथ तनया युगपत्कृत । कर्मणो मरण प्राप्ता मध्ये तेषामह तु न ॥२८५॥
 अवोचद् भगवान् सद्यो वन्दनार्थं चतुर्विध । सम्मेद प्रस्थितोऽवापदन्तिकग्रामदर्शनम् ॥२८६॥
 दृष्ट्वा तमन्तिकग्रामो दुर्वचा मकलोऽहसत् । कुम्भकारस्तु तत्रैको निपिध्य कृतवान् स्तुतिम् ॥२८७॥
 तद्ग्रामवासिनैकेन कृते चौर्यं स भूभृता । परिवेष्ट्याखिलो दग्धो ग्रामो भूर्यपराधक ॥२८८॥
 भस्मसाद्भावमापन्नो यस्मिन् ग्रामोऽत्र वासरे । कुम्भकारो गत क्वापि मध्यचेता निमन्त्रित ॥२८९॥
 कुम्भकारोऽभवन्सृत्वा वाणिज सुमहाधन । वराटकसमूहस्तु ग्राम प्राप्सश्च तेन स ॥२९०॥
 कुम्भकारोऽभवद्वाजा ग्रामोऽसौ मातृवाहका । हस्तिना चूर्णितास्तस्य ते चिर भवमभ्रमन् ॥२९१॥

करते थे पर आज दो ही पुत्र दिख रहे हैं और उतनेपर भी इनके मुख अत्यन्त दीन दिखाई देते हैं । जान पड़ता है कि शेष पुत्र क्षयको प्राप्त हो चुके हैं ॥२७८॥ ये आगत राजा लोग इस भारी दु खको साक्षात् कहनेमें समर्थ नहीं हैं इसलिए अन्योक्ति—दूसरके वहाने कह रहे हैं ॥२७९॥ तदनन्तर सगर चक्रवर्ती यद्यपि शोकरूपी सर्पसे डसा गया था तो भी समासदृजनोके वचनरूपी मन्त्रोसे प्रतिकार—सान्त्वना पाकर उसने प्राण नहीं छोड़े थे ॥२८०॥ उसने संसारके सुखको केलेके गर्भके समान नि'सार जानकर भगीरथको राज्यलक्ष्मी सौंपी और स्वयं दीक्षा धारण कर ली ॥२८१॥ उत्कृष्ट लीलाको धारण करनेवाला राजा सगर जब इस पृथ्वीका त्याग कर रहा था तब नाना नगर और सुवर्णादिकी खानोसे सुशोभित यह पृथ्वी उसके मनसे जीर्णतृणके समान तुच्छ जान पड़ती थी ॥२८२॥ तदनन्तर सगर चक्रवर्ती भीमरथ नामक पुत्रके साथ अजितनाथ भगवान्की शरणमें गया । वहाँ दीक्षा धारण कर उसने केवलज्ञान प्राप्त किया और तदनन्तर सिद्धपदका आश्रय लिया अर्थात् मुक्त हुआ ॥२८३॥

सगर चक्रवर्तीका पुत्र जह्नु का लड़का भगीरथ राज्य करने लगा । किसी एक दिन उसने श्रुतसागर मुनिराजसे पूछा ॥२८४॥ कि हमारे बाबा सगरके पुत्र एक साथ किस कर्मके उद्दयसे मरणको प्राप्त हुए हैं और उनके बीचमें रहता हुआ भी मैं किस कर्मसे बच गया हूँ ॥२८५॥ भगवान् अजितनाथने कहा कि एक बार चतुर्विधसंघ सम्मेदशिखरकी वन्दनाके लिए जा रहा था सो मार्गमें वह अन्तिक नामक ग्राममें पहुँचा ॥२८६॥ संघको देखकर उस अन्तिक ग्रामके सब लोग कुबचन कहते हुए संघकी हँसी करने लगे परन्तु उस ग्राममें एक कुम्भकार था उसने गाँवके सब लोगोको मनाकर संघकी स्तुति की ॥२८७॥ उस गाँवमें रहनेवाले एक मनुष्यने चोरी की थी सो अविवेकी राजाने सोचा कि यह गाँव ही बहुत अपराध करता है इसलिए घेरा डालकर साराका सारा गाँव जला दिया ॥२८८॥ जिस दिन वह गाँव जलाया गया था उस दिन मध्यस्थ परिणामोका धारक कुम्भकार निमन्त्रित होकर कहीं बाहर गया था ॥२८९॥ जब कुम्भकार मरा तो वह बहुत भारी धनका अधिपति वैश्य हुआ और गाँवके सब लोग मरकर कौड़ी हुए । वैश्यने उन सब कौड़ियोको खरीद लिया ॥२९०॥ तदनन्तर कुम्भकारका जीव मरकर

राजा च श्रमणो भूत्वा देवीभूय च्युतो भवान् । भगीरथः समुत्पन्नो ग्रामस्तु सगराङ्गजाः ॥२६२॥
 सङ्घस्य निन्दनं कृत्वा मृत्युमेति भवे भवे । तेनासौ युगपद्ग्रामो जातः स्तुत्या त्वमीदृशः ॥२६३॥
 श्रुत्वा पूर्वभवानेवमुपशान्तो भगीरथः । बभूव मुनिमुख्यश्च तपोयोग्यं पद ययौ ॥२६४॥
 वृत्तान्तगतमेतत्ते चरितं सगराश्रितम् । कथितं प्रस्तुत वच्ये श्रुणु श्रेणिक साम्प्रतम् ॥२६५॥
 योऽसौ तत्र महारत्नो नाम विद्याधराधिपः । लङ्कायां कुरुते राज्य कण्टकैः परिवर्जितम् ॥२६६॥
 सोऽन्यदा कमलच्छन्नदीर्घिकाकृतमण्डनम् । नानारत्नप्रभोत्तुङ्गक्रीडापर्वतकारितम् ॥२६७॥
 आमोदिकुसुमोद्गासि तरुखण्डविराजितम् । कलकूजितविभ्रान्तशकुन्तगणसकुलम् ॥२६८॥
 रत्नभूमिपरिच्छिन्नं विकासिविधद्युति^१ । घनपल्लवसच्छायलतामण्डपमण्डितम् ॥२६९॥
 अगमत् प्रमदोद्यानमन्तःपुरसमन्वितः । महत्या सपदा युक्तो विद्यावलसमुच्छ्रयः ॥३००॥
 तत्र क्रोडितुमारेभे वनिताभिरसौ समम् । कुसुमैस्ताड्यमानश्च ताडयश्च यथोचितम् ॥३०१॥
 काञ्चित्पादप्रणामेन कुपिता^२ मीर्ष्याया स्त्रियम् । सान्त्वयन्नन्यया तेन सान्त्वयमानः सुलीलया ॥३०२॥
 उरसा प्रेरयन् काञ्चित्त्रिकूटतटशोभिना । पीवरस्तनरम्येण प्रेर्यमाणस्तथान्यया ॥३०३॥
 पश्यन् प्रच्छन्नगात्राणि क्रीडाव्याकुलयोपिताम् । रतिसागरमध्यस्थो नन्दनेऽमरराजवत् ॥३०४॥

राजा हुआ और गौवके जीव मरकर गिजाई हुए सो राजाके हाथीसे चूर्ण होकर वे सब गिजाइयोंके जीव संसारमें भ्रमण करते रहे ॥२६१॥ कुम्भकारके जीव राजाने मुनि होकर देवपद प्राप्त किया और वहाँसे च्युत होकर तू भगीरथ हुआ है तथा गौवके सब लोग मरकर सगर चक्रवर्तीके पुत्र हुए हैं ॥२६२॥ मुनि संघकी निन्दाकर यह मनुष्य भव-भवमे मृत्युको प्राप्त होता है । इसी पापसे गौवके सब लोग भी एक साथ मृत्युको प्राप्त हुए थे और संघकी स्तुति करनेसे तू इस तरह सम्पन्न तथा दीर्घायु हुआ है ॥२६३॥ इस प्रकार भगीरथ भगवान्के मुखसे पूर्वभव सुनकर अत्यन्त शान्त हो गया और मुनियोमे मुख्य बनकर तपके योग्य पदको प्राप्त हुआ ॥२६४॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! प्रकरण पाकर यह सगरका चरित्र मैंने तुझसे कहा । अब इस समय प्रकृत कथा कहूँगा सो सुन ॥२६५॥

अथानन्तर—जो महारत्न नामा विद्याधरोंका राजा लङ्कामे निष्कण्टक राज्य करता था विद्यावलसे समुन्नत वह राजा एक समय अन्तःपुरके साथ क्रीड़ा करनेके लिए वड़े वैभवसे उस प्रमदवनमे गया जो कि कमलोसे आच्छादित वापिकाओंसे सुशोभित था, जिसके बीचमे नाना रत्नोंकी प्रभासे ऊँचा दिखनेवाला क्रीडापर्वत बना हुआ था, खिले हुए फूलोंसे सुशोभित वृक्षोंके समूह जिसकी शोभा बढ़ा रहे थे, अव्यक्त मधुर शब्दोंके साथ इंधर उधर मँडराते हुए पक्षियोंके समूहसे जो व्याप्त था, जो रत्नमयी भूमिसे वेष्टित था, जिसमे नाना प्रकारकी कान्ति विकसित हो रही थी, और जो सघन पल्लवोंकी समोचीन छायासे युक्त लतामण्डपोसे सुशोभित था ॥२६६-३००॥ राजा महारत्न उस प्रमदवनमे अपनी स्त्रियोंके साथ क्रीड़ा करने लगा । कभी स्त्रियों उसे फूलोंसे ताड़ना करती थीं और कभी वह फूलोंसे स्त्रियोंको ताड़ना करता था ॥३०१॥ कोई स्त्री अन्य स्त्रीके पास जानेके कारण यदि ईर्ष्यासे कुपित हो जाती थी तो उसे वह चरणोंमे झुककर शान्त कर लेता था । इसी प्रकार कभी आप स्वयं कुपित हो जाता था तो लीलासे भरी स्त्री इसे प्रसन्न कर लेती थी ॥३०२॥ कभी यह त्रिकूटाचलके तटके समान सुशोभित अपने वक्षःस्थलसे किसी स्त्रीको प्रेरणा देता था तो अन्य स्त्री उसे भी अपने स्थूल स्तनोंके आलिङ्गनसे प्रेरणा देती थी ॥३०३॥ इस तरह क्रीडामे निमग्न स्त्रियोंके प्रच्छन्न शरीरोंको देखता हुआ यह

अथ वक्त्रे त्रियामाया पर सकोचमीयुपि । राजीवसपुटेऽपश्यद् द्विरेफ स निर्पीडितम् ॥३०५॥
 दृष्ट्वा चास्य समुत्पन्ना चिन्तेय भवनाग्निनी । कर्मणो मोहनीयस्य याने शिथिलता गुणे ॥३०६॥
 मकरन्दरमासक्तो मूढस्तृप्तिमनागत । मृत्ति मधुकरः प्राप्तो धिगिच्छामन्तवजिताम् ॥३०७॥
 यथायमग्र ससक्तः^१ प्राप्तो मृत्यु मधुव्रत । प्राप्स्यामो वयमप्येव सक्ता खोमुखपङ्कजे ॥३०८॥
 यदि तावदय ध्वस्तो घ्राणेन रसनेन च । कैव वार्ता तदास्मासु पञ्चेन्द्रियवशात्मसु ॥३०९॥
 तिर्यग्जातिममेतस्य युक्त वास्येडर्माहितुम् । वय तु ज्ञानसपन्नाः सङ्गमत्र कथ गता ॥३१०॥
 मधुद्विर्धासिधाराया लेहने कीदृश सुप्तम् । रसन प्रत्युतायाति शतधा यत्र खण्डनम् ॥३११॥
 विषयेषु तथा सौख्य कीदृश नाम जायते । यत्र प्रत्युत दुःखानामुपर्युपरिसन्तति ॥३१२॥
 किंपाकफलतुल्यैभ्यो विषयेभ्य पराङ्मुखा । ये नरास्तान्नमस्यामि कायेन वचसा धिया ॥३१३॥
 हा कष्ट वञ्चितः पापो दीर्घकालमह खलैः । विपर्ययिपमासङ्गविषवन्मारणात्मकै ॥३१४॥
 अथात्र समये प्राप्तस्तदुद्यान महामुनि । अर्थानुगतया युक्त श्रुतसागरसङ्गया ॥३१५॥
 पूर्ण परमरूपेण हेपयन् कान्तितो विद्युम् । तिरस्कुर्वन् रवि दीप्या जय स्थैर्येण मन्दरम् ॥३१६॥
 धर्मध्यानप्रमक्तात्मा रागद्वेषविवजितः । भग्नस्त्रिदण्डसपर्कः कपायाणा शमे रत ॥३१७॥

राजा रतिरूप सागरके मध्यमे स्थित होता हुआ प्रमदवनमे इस प्रकार क्रोड़ा करता रहा जिस प्रकार कि नन्दन वनमे इन्द्र क्रीडा करता है ॥३०४॥

अथानन्तर सूर्य अस्त हुआ और रात्रिका प्रारम्भ होते ही कमलोके संपुट संकोचको प्राप्त होने लगे । राजा महारक्षणे एक कमल संपुटके भीतर मरा हुआ भौरा देखा ॥३०५॥ उसी समय मोहनीय कर्मका उदय शिथिल होनेसे उसके हृदयमे संसार-भ्रमणको नष्ट करनेवाली निम्नाङ्कित चिन्ता उत्पन्न हुई ॥३०६॥ वह विचार करने लगा कि देखो मकरन्दके रसमें आसक्त हुआ यह मूढ भौरा तृप्त नहीं हुआ इसलिए मरणको प्राप्त हुआ । आचार्य कहते हैं कि इस अन्तरहित अनन्त इच्छाको धक्कार हो ॥३०७॥ जिस प्रकार इस कमलमे आसक्त हुआ यह भौरा मृत्युको प्राप्त हुआ है उसी प्रकार स्त्रियोंके मुख रूपी कमलोमे आसक्त हुए हम लोग भी मृत्युको प्राप्त होंगे ॥३०८॥ जब कि यह भौरा घ्राण और रसना इन्द्रियके कारण ही मृत्युको प्राप्त हुआ है तब हम तो पौंचा इन्द्रियोंके वशीभूत हो रहे हैं अतः हमारी वात ही क्या है ? ॥३०९॥ अथवा यह भौरा तिर्यञ्च जातिका है—अज्ञानी है अतः इसका ऐसा करना ठीक भी है परन्तु हम तो ज्ञानसे सन्पन्न हैं फिर भी इन विषयोंमे क्या आसक्त हो रहे हैं ? ॥३१०॥ शहद लपेटी तलवारकी उस धारके चाटनेमें क्या सुख होता है ? जिसपर पड़ते ही जीभके सैकड़ों टुकड़े हो जाने हैं ॥३११॥ विषयोंमें कैसा सुख होता है सो जान पड़ता है उन विषयोंमें जिनमें कि सुखकी वात दूर रही किन्तु दुःखकी सन्तति ही उत्तरोत्तर प्राप्त होती है ॥३१२॥ किपाक फलके समान विषयोंसे जो मनुष्य विमुख हो गये हैं मैं उन सब महापुरुषोंको मन वचन कायसे नमस्कार करता हूँ ॥३१३॥ हाय हाय, बड़े खेदकी बात है कि मैं बहुत समय तक इन दुष्ट विषयोंसे वञ्चित होता रहा—घोखा खाता रहा । इन विषयोंकी आसक्ति अत्यन्त विषम है तथा विषके समान मारनेवाली है ॥३१४॥

अथानन्तर उसी समय उस वनमे श्रुतसागर इस सार्थक नामको धारण करनेवाले एक महामुनिराज वहाँ आये ॥३१५॥ श्रुतसागर मुनिराज अत्यन्त सुन्दर रूपसे युक्त थे, वे कान्तिसे चन्द्रमाको लज्जित करते थे, दीप्तिसे सूर्यका तिरस्कार करते थे और धैर्यसे सुमेरुको पराजित करते थे ॥३१६॥ उनकी आत्मा सदा धर्मध्यानमे लीन रहती थी, वे रागद्वेषसे रहित थे,

१. सशक्तः म० । २. शक्ताः म० । ३. दग्धा—म० । ४. समे म० ।

वशीकर्ता हृषीकाणा पद्मकायप्राणिवत्सलः । भीतिभिः सप्तभिर्मुक्तो मदाष्टकविवर्जितः ॥३१८॥
 साक्षादिव शरीरेण धर्मः सम्बन्धमागतः । सहितो यतिसङ्घेन महता चारुचेष्टिना ॥३१९॥
 स तत्र विपुले शुद्धे भूतले जन्तुवर्जिते । उपविष्टस्तनुच्छायास्थगिताणेपदिडमुखः ॥३२०॥
 तत्रासीन विद्विन्वैन मुसेभ्यो वनरक्षिणाम् । अभीयाय महारक्षो विभ्रदुत्कण्ठित मनः ॥३२१॥
 अथास्यातिप्रसन्नास्यकान्तितोयेन पादयोः । कुर्वन् प्रक्षालन राजा पपात शिवदायिनोः ॥३२२॥
 प्रणम्य शेषसद्य च पृष्ट्वा क्षेम च धर्मगम् । अवस्थाय क्षणं धर्मं पर्यपृच्छत् स भक्तितः ॥३२३॥
 अथोपशमचन्द्रस्य चित्तस्थस्येव निर्मलैः । दन्तांशुपटलैः कुर्वन् ज्योत्सनां मुनिरभापत ॥३२४॥
 अहिंसा नृप सद्भावो धर्मस्योक्तो जिनेश्वरैः । परिवारोऽस्तु शेषोऽस्य सत्यभापादिरिण्यते ॥३२५॥
 यां यां जीवा प्रपद्यन्ते गति कर्मानुभावतः । तत्र तत्र रति यान्ति जीवन प्रतिमोहिताः ॥३२६॥
 त्रैलोक्यस्य परित्यज्य लाभ मरणभीरवः । इच्छन्ति जीवन जीवा नान्यदस्ति ततः प्रियम् ॥३२७॥
 किमत्र बहुनोक्तेन स्वसवेद्यमिदं ननु । यथा स्वजीवित कान्त सर्वेषां प्राणिनां तथा ॥३२८॥
 तस्मान्नेत्रविध मूढा जीवित ये शरीरिणाम् । हरन्ति रौद्रकर्माण पापं तैर्न च किं कृतम् ॥३२९॥
 जन्तूना जीवित नीत्वा कर्मभारगुरुकृताः । पतन्ति नरके जीवा लोहपिण्डवदम्भसि ॥३३०॥

उन्होंने मन वचन कायको निरर्थक प्रवृत्तिरूपी तीन दण्डोको भग्न कर दिया था, कपायोके शान्त करनेमे वे सदा तत्पर रहते थे ॥३१७॥ वे इन्द्रियोको वश करनेवाले थे, छह कायके जीवोसे स्नेह रखते थे, सात भयो और आठ मदोसे रहित थे ॥३१८॥ उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात् धर्म ही शरीरके साथ सम्बन्धको प्राप्त हुआ है । वे मुनिराज उत्तम चेष्टाके धारक बहुत बड़े मुनिसङ्घसे सहित थे ॥३१९॥ जिन्होंने अपने शरीरकी कान्तिसे समस्त दिशाओके अग्रभागको आच्छादित कर दिया था ऐसे वे मुनिराज उस उद्यानके विस्तृत, शुद्ध एवं निर्जन्तुक पृथिवी तलपर विराजमान हो गये ॥३२०॥ जब राजा महारक्षको वनपालोके मुखसे वहाँ विराजमान इन मुनिराजका पता चला तो वह उत्कृष्ट हृदयको धारण करता हुआ उनके सन्मुख गया ॥३२१॥

अथानन्तर—अत्यन्त प्रसन्न मुखकी कान्तिरूपी जलके द्वारा प्रक्षालन करता हुआ राजा महारक्ष मुनिराजके कल्याणदायी चरणोमे जा पड़ा ॥३२२॥ उसने शेष सङ्घको भी नमस्कार किया, सबसे धर्म सम्बन्धी कुशल-क्षेम पूछी और फिर क्षणभर ठहरकर भक्तिभावसे धर्मका स्वरूप पूछा ॥३२३॥ तदनन्तर मुनिराजके हृदयमे जो उपशम भावरूपी चन्द्रमा विद्यमान था उसकी किरणोके समान निर्मल दाँतोकी किरणोके समूहसे चाँदनीको प्रकट हुए मुनिराज कहने लगे ॥३२४॥ उन्होंने कहा कि हे राजन् ! जिनेन्द्र भगवान्ने एक अहिंसाके सद्भावको ही धर्म कहा है वाकी सत्यभाषण आदि सभी इसके परिवार है ॥३२५॥ संसारी प्राणी कर्मोके उदयसे जिस-जिस गतिमे जाते हैं जीवनके प्रति मोहित होते हुए वे उसी-उसीमे प्रेम करने लगते हैं ॥३२६॥ एक ओर तीन लोककी प्राप्ति हो रही हो और दूसरी ओर मरणकी सम्भावना हो तो मरणसे डरनेवाले ये प्राणी तीन लोकका लोभ छोड़कर जीवित रहनेकी इच्छा करते हैं इससे जान पड़ता है कि प्राणियोंको जोवनसे बढ़कर और कोई वस्तु प्रिय नहीं है ॥३२७॥ इस विषय मे बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? यह बात तो अपने अनुभवसे ही जानी जा सकती है कि जिस प्रकार हमें अपना जीवन प्यारा है उसी प्रकार समस्त प्राणियोंको भी अपना जीवन प्यारा होता है ॥३२८॥ इसलिए जो क्रूरकर्म करनेवाले मूर्खप्राणी, जीवोके ऐसे प्रिय जीवनको नष्ट करते हैं उन्होंने कौन-सा पाप नहीं किया ? ॥३२९॥ जीवोके जीवनको नष्टकर प्राणी कर्मोके भारसे

मधु स्रवन्ति ये वाचा हृदये विपदाहणा । वगे स्थिता हृषीकाणां त्रि.सध्या दग्धमानसा ॥३३१॥
 साध्वाचारविनिर्मुक्ता यथाकामविधायिनः । ते भ्रमन्ति दुरात्मानस्तिर्यग्भर्षपरम्पराम् ॥३३२॥
 दुर्लभं सति जन्तुत्वे मनुष्यत्वं शरीरिणाम् । तस्मादपि सुरूपत्वं ततो धनसमृद्धता ॥३३३॥
 ततोऽप्यार्यत्वसभृतिस्ततो विद्यासमागम । ततोऽप्यर्थज्ञता तस्माद्दुर्लभो धर्मसगमः ॥३३४॥
 कृत्वा धर्मं ततः केचित् सुखं प्राप्य सुरालये । देव्यादिपरिवारेण कृतमानसगोचरम् ॥३३५॥
 च्युत्वा गर्भगृहे भूयो विण्मूत्रकृतलेपने । चलन्कृमिकुलाकीर्णं दुर्गन्धेऽत्यन्तदुस्सहे ॥३३६॥
 चर्मजालकसङ्घना पित्तश्लेष्मादिमध्यगाः । जनन्याहारनिष्यन्द लिहन्तो नाडिकाच्युतम् ॥३३७॥
 पिण्डीकृतसमस्ताङ्गा दुःखभारसमर्दिताः । उपित्वा निर्गता लब्ध्वा मनुष्यत्वमनिन्दितम् ॥३३८॥
 जन्मनः प्रभृति क्रूरा नियमाचारविवर्जिताः । मद्दृष्टिरद्विताः पापा विषयान् समुपासते ॥३३९॥
 ये कामवशता याताः सम्यक्वपरिवर्जिताः । प्राप्नुवन्तो महादुःखं ते भ्रमन्ति भवार्णवे ॥३४०॥
 परपीडाकर वाक्यवर्जनीय प्रयत्नतः । हिंसायाः कारणं तद्धि सा च ससारकारणम् ॥३४१॥
 तथा स्तेयं च्छ्रिया सङ्गं महाद्रविणवाञ्छनम् । सर्वमेतत्परित्याज्य पीडाकारणता गतम् ॥३४२॥
 श्रुत्वा धर्मं समाविष्टो वैराग्यं खेचराधिपः । पप्रच्छ प्रणतिं कृत्वा न्यतीत भवमात्मनः ॥३४३॥

इतने वचनदार हो जाते हैं कि वे पानीमें लोहपिण्डके समान सीधे नरकमें ही पड़ते हैं ॥३३०॥ जो वचनसे तो मानो मधु भरते हैं पर हृदयमें विपके समान दारुण है । जो इन्द्रियोंके वशमें स्थित है और बाहरसे जिनका मन त्रैकालिक सन्ध्याओमें निमग्न रहता है ॥३३१॥ जो योग्य आचारसे रहित हैं और इच्छानुसार मनचाही प्रवृत्ति करते हैं ऐसे दृष्ट जीव तिर्यञ्चयोनिमें परिभ्रमण करते हैं ॥३३२॥ सर्वप्रथम तो जीवांको मनुष्यपद प्राप्त होना दुर्लभ है, उससे अधिक दुर्लभ सुन्दर रूपका पाना है, उससे अधिक दुर्लभ धनसमृद्धिका पाना है, उससे अधिक दुर्लभ आर्यकुलमें उत्पन्न होना है, उससे अधिक दुर्लभ विद्याका समागम होना है, उससे अधिक दुर्लभ हेयोपादेय पदार्थको जानना है और उससे अधिक दुर्लभ धर्मका समागम होना है ॥३३३-३३४॥ कितने ही लोग धर्म करके उसके प्रभावसे स्वर्गमें देवियों आदिके परिवारसे मानसिक सुख प्राप्त करते हैं ॥३३५॥ वहाँसे चयकर, विष्ठा तथा मूत्रसे लिप्त बिलबिलाते कीड़ाओंसे युक्त, दुर्गन्धित एवं अत्यन्त दुःसह गर्भगृहको प्राप्त होता है ॥३३६॥ गर्भमें यह प्राणी चर्मके जालसे आच्छादित रहते हैं, पित्त, श्लेष्मा आदिके बीचमें स्थित रहते हैं और नालद्वारसे च्युत माता द्वारा उपभुक्त आहारके द्रवका आस्वादन करते रहते हैं ॥३३७॥ वहाँ उनके समस्त आङ्गोपाङ्ग सङ्कुचित रहते हैं, और दुःखके भारसे वे सदा पीड़ित रहते हैं, वहाँ रहनेके बाद निकलकर उत्तम मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं ॥३३८॥ सो कितने ही ऐसे पापी मनुष्य जो कि जन्मसे ही क्रूर होते हैं, नियम, आचार-विचारसे विमुख रहते हैं और सम्यग्दर्शन से शून्य होते हैं, विषयोका सेवन करते हैं ॥३३९॥ जो मनुष्य कामके वशीभूत होकर सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो जाते हैं वे महादुःख प्राप्त करते हुए ससाररूपी समुद्रमें परिभ्रमण करते हैं ॥३४०॥ दूसरे प्राणियोंको पीडा उत्पन्न करनेवाला वचन प्रयत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिये क्योंकि ऐसा वचन हिंसाका कारण है और हिंसा संसारका कारण है ॥३४१॥ इसी प्रकार चोरी, परस्त्रीका समागम तथा महापरिग्रहकी आकाक्षा, यह सब भी छोड़नेके योग्य है क्योंकि यह सभी पीडाके कारण है ॥३४२॥ विद्याधरोका राजा महारत्न, मुनिराजके मुखसे धर्मका उपदेश सुनकर वैराग्यको प्राप्त हो गया । तदनन्तर उसने नमस्कार कर मुनिराजसे अपना पूर्व भव पूछा ॥३४३॥

चतुर्ज्ञानोपगूढात्मा विनयेनोपसेदुषे । इति तस्मै समासेन जगाद् श्रुतसागरः ॥३४४॥
 भरते पोदनस्थाने हितो नामधरोऽभवत् । माधवीति च भार्यास्य प्रीत्यास्यत्त्वं तयो सुतः ॥३४५॥
 अथ तत्रैव नगरे नृपोऽभूद्दुःखाचलात् । अर्हच्छ्रीयां समुत्पन्नो नाम्ना हेमरथो महान् ॥३४६॥
 प्रासादे सोऽन्यथा जैने श्रद्धया परयान्वित । चकार महतीं पूजां लोकत्रिस्मयकारिणीम् ॥३४७॥
 तस्माद्गुणितमाकर्ण्य जयशब्दं जनैः कृतम् । जयेत्यानन्दपूर्णेन त्वयापि परिघोषितम् ॥३४८॥
 अभाते च ततस्तस्मिन् गृहाभ्यन्तरतो मुढा । शिखिनेव घनध्वानान्नर्तनं कृतमङ्गणे ॥३४९॥
 तस्माद्गुपात्तकुण्डलो गतः कालेन पञ्चताम् । अजायत महान् यत्नो यत्ननेत्रसमुत्पन्नः ॥३५०॥
 अवरस्मिन् विदेहेऽथ पुरे काञ्चननामनि । साधूनां शत्रुभिः कर्तुमुपसर्गं प्रवर्तितः ॥३५१॥
 निर्धात्य तान् त्वया शत्रून् सुनीनां धर्मसाधनम् । शरीरं रक्षितं तस्मात् पुण्यराशिः कर्जितः ॥३५२॥
 विजयार्थं ततश्च्युत्वा तद्विद्वद्भवेचरात् । श्रीप्रभायां समुद्भूत उदितो नाम विश्रुतः ॥३५३॥
 वन्दनाय समायात नाम्ना चामरविक्रमम् । दृष्टवानसि विद्येशं निदानमकरोत्ततः ॥३५४॥
 ततो महत्तपस्तप्त्वा कल्पमैशानमाश्रितः । एष प्रच्युत्य भूतोऽस्मि साग्रप्रत घानवाहनिः ॥३५५॥
 भास्करस्यन्दनस्येव चक्रेण परिवर्तनम् । कृतं त्वया तु संसारे स्त्रीजिह्वावशवर्तिना ॥३५६॥
 यावन्तः सन्तिक्रान्तास्तव देहा भवान्तरे । पिण्ड्यन्ते यदि ते लोके मभवेयुर्न जातुचित् ॥३५७॥
 कल्पानां कोटिमित्स्वृक्षिं सुरभोगैर्न यो गतः । खेचराणां च भोगेन स्वेच्छाकल्पितवृत्तिना ॥३५८॥

चार ज्ञानके धारी श्रुतसागरमुनि विनयसे समीपमे बैठे हुए महारक्ष विद्याधरसे संक्षेपपूर्वक कहने लगे ॥३४४॥

कि हे राजन् ! भरत क्षेत्रके पोदनपुर नगरमें एक हित नामका मनुष्य रहता था । माधवी उसकी स्त्रीका नाम था और तू उन दोनोंके प्रीति नामका पुत्र था ॥३४५॥ उसी पोदनपुर नगरमें उदयाचल राजा और अर्हच्छ्री नामकी रानीसे उत्पन्न हुआ हेमरथ नामका राजा राज्य करता था ॥३४६॥ एक दिन उसने जिनमन्दिरमें, बड़ी श्रद्धाके साथ, लोगोको आश्चर्यमें डालनेवाली बड़ी पूजा की ॥३४७॥ उस पूजाके समय लोगोने बड़े जोरसे जय-जय शब्द किया, उसे सुनकर तूने भी आनन्द विभोर हो जय-जय शब्द उच्चारण किया ॥३४८॥ तू इस आनन्दके कारण घरके भीतर ठहर नहीं सका इसलिए बाहर निकलकर आँगनमें इस तरह नृत्य करने लगा जिस प्रकार कि मयूर मेघका शब्द सुनकर नृत्य करने लगता है ॥३४९॥ इस कार्यसे तूने जो पुण्य बन्ध किया था उसके फलस्वरूप तू मरकर यक्षोंके नेत्रोंको आनन्द देनेवाला यज्ञ हुआ ॥३५०॥ तदनन्तर किसी दिन पश्चिम विदेहक्षेत्रके काञ्चनपुर नगरमें शत्रुओंने मुनियोके ऊपर उपसर्ग करना शुरू किया ॥३५१॥ सो तूने उन शत्रुओंको अलग कर धर्मसाधनमें सहायभूत मुनियोके शरीरकी रक्षा की । इस कार्यसे तूने बहुत भारी पुण्यका संचय किया ॥३५२॥ तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर तू विजयार्थ पर्वतपर तद्विद्वद् विद्याधर और श्रीप्रभा विद्याधरोंके उदित नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३५३॥ एक बार अमरविक्रम नामक विद्याधरोंका राजा मुनियोकी वन्दनाके लिए आया था सो उसे देखकर तूने निदान किया कि मेरे भी ऐसा वैभव हो ॥३५४॥ तदनन्तर महातपश्चरण कर तू दूसरे ऐशान स्वर्गमें देव हुआ और वहाँसे च्युत होकर मेघवाहनका पुत्र महारक्ष हुआ है ॥३५५॥ जिस प्रकार मयूरके रथका चक्र निरन्तर भ्रमण करता रहता है इसी प्रकार तूने भी स्त्री तथा जिह्वा इन्द्रियके वशीभूत होकर संसारमें परिभ्रमण किया है ॥३५६॥ तूने दूसरे भवोंमें जितने शरीर प्राप्त कर छोड़े हैं यदि वे एकत्रित किये जावें तो तीनों लोकोंमें कभी न समावें ॥३५७॥ जो करोड़ों कल्प तक प्राप्त होनेवाले देवोंके भोगोंसे तथा विद्याधरोंके मनचाहे भांग-विलाससे

अष्टभिर्दिवसैः स त्व कथं प्राप्स्यसि तर्पणम् । स्वप्नजालोपमैर्मोर्गैरधुना भज्यतां शमः ॥३५६॥
 ततस्तस्य विपादोऽभूद्वायुःक्षयममुत्थितः । किन्तु संसारचक्रस्थजन्मान्तरविवर्तनात् ॥३६०॥
 स्थापयित्वा ततो राज्ये तनय देवरक्षसम् । युवराजप्रतिष्ठायां तथा भास्कररक्षसम् ॥३६१॥
 त्यक्त्वा परिग्रह सर्वं परमार्थपरायण । स्तम्भतुल्यो महारक्षा लोभेनाभवदुज्जितः ॥३६०॥
 पानाहागादिकं त्यक्त्वा सर्वं देहस्य पालनम् । समः शत्रो च मित्रे च मन कृत्वा सुनिश्चलम् ॥३६३॥
 मौनव्रत समास्थाय जिनप्रासादमध्यग । कृत्वा नमहर्ता पूजामर्हतामभिपेक्षिणीम् ॥३६४॥
 अर्हत्पदपरिध्यानपवित्राकृतचेतनः । कृत्वा समाधिना काल स बभूव सुरोत्तम ॥३६५॥
 अथ किन्नरगीताख्ये पुरे श्रीधरनामत । विद्याजातां^३ रतिं जार्यां देवरक्षा प्रपन्नवान् ॥३६६॥
 गन्धर्वगीतनगरे^४ सुरसन्निभनामतः । गान्धारी गर्भसभूतां गन्धर्वा भानुरूढवान् ॥३६७॥
 सुता दश समुत्पन्ना मनोज्ञा देवरक्षसः । देवाङ्गनासंरूपाश्च पट् कन्या गुणभूषणा ॥३६८॥
 तावन्त एव चोत्पन्नाः सुताः कन्याश्च तत्समाः । आदित्यरक्षसो राज्ञः कीर्तिव्याप्तदिगन्तरा ॥३६९॥
 स्वनामसहनामानि महान्ति नगराणि तैः । निवेणितानि रम्याणि श्रेणिकैतानि जित्वरैः ॥३७०॥
 सन्ध्याकारः सुवेलश्च मनोहादो मनोहरः । हंसद्वीपो हरियोध समुद्र काञ्चनस्तथा ॥३७१॥
 अर्धस्वर्गोत्कृष्टश्चापि^५ निविशा स्वर्गसन्निभा । गोवाणरक्षसः पुत्रैर्महाबुद्धिपराक्रमैः ॥३७२॥

सन्तुष्ट नहीं हो सका वह तू केवल आठ दिन तक प्राप्त होनेवाले स्वप्न अथवा इन्द्रजाल सदृश भोगोंसे कैसे तृप्त होगा ? इसलिए अब भोगोंकी अभिलाषा छोड़ और शान्ति भाव धारण कर ॥३६८-३६९॥ तदनन्तर मुनिराजके मुखसे अपनी आयुका क्षय निकटस्थ जानकर उसे विपाद नहीं हुआ किन्तु 'इस संसार-चक्रमे अब भी मुझे अनेक भव धारण करना है' यह जानकर कुछ खेद अवश्य हुआ ॥३६०॥ तदनन्तर उसने अमररक्ष नामक ज्येष्ठ पुत्रको राज्य पदपर स्थापितकर भानुरक्ष नामक लघु पुत्रको युवराज बना दिया ॥३६१॥ और स्वयं समस्त परिग्रहका त्यागकर परमार्थमें तत्पर हो स्तम्भके समान निश्चल होता हुआ लोभसे रहित हो गया ॥३६२॥ शरीरका पोषण करनेवाले आहार-पानी आदि समस्त पदार्थोंका त्यागकर वह शत्रु तथा मित्रमें सम—मध्यस्थ बन गया और मनको निश्चलकर मौन व्रत ले जिन-मन्दिरके मध्यमें बैठ गया । इन सब कार्योंके पहले उसने अर्हन्त भगवान्की अभिपेक्षपूर्वक विशाल पूजा की ॥३६३-३६४॥ अर्हन्त भगवान्के चरणोंके ध्यानसे जिसकी चेतना पवित्र हो गई थी ऐसा वह विद्याधर समाधिमरणकर उत्तम देव हुआ ॥३६५॥

अथानन्तर अमररक्षने, किन्नरगीत नामक नगरमें श्रीधर राजा और विद्या रानीसे समुत्पन्न रति नामक स्त्रीको प्राप्त किया अर्थात् उसके साथ विवाह किया ॥३६६॥ और भानुरक्षने गन्धर्वगीत नगरमें राजा सुरसन्निभ और गान्धारी रानीके गर्भसे उत्पन्न, गन्धर्वा नामकी कन्याके साथ विवाह किया ॥३६७॥ अमररक्षके अत्यन्त सुन्दर दश पुत्र और देवाङ्गनाओंके समान सुन्दर रूपवाली, गुणरूप आभूषणोंसे सहित छह पुत्रियाँ उत्पन्न हुई ॥३६८॥ इसी प्रकार भानुरक्षके भी अपनी कीर्तिके द्वारा दिग्दिगन्तको व्याप्त करनेवाले दश पुत्र और छह पुत्रियाँ उत्पन्न हुई ॥३६९॥ हे श्रेणिक ! उन विजयी राजपुत्रोंने अपने नामके समान नामवाले बड़े-बड़े सुन्दर नगर वसाये ॥३७०॥ उन नगरोंके नाम सुनो—१ सन्ध्याकार, २ सुवेल, ३ मनोहाद, ४ मनोहर, ५ हंसद्वीप, ६ हरि, ७ योध, ८ समुद्र, ९ काञ्चन और १० अर्धस्वर्गोत्कृष्ट । स्वर्गकी समानता रखनेवाले ये दश नगर, महाबुद्धि और पराक्रमको धारण करनेवाले अमररक्षके पुत्रोंने

१. तर्पणम् म० । २. किन्नरदान्ताख्ये ख०, किन्नरनादाख्ये म० । ३. जातामरिजाया म० ।
 ४. नगरेऽमरसन्निभ क० । ५. सुरुपाश्च क० । ६. दिवश्चापि ज०, दशश्चापि क० ।

आवर्तविघटात्मोदा उत्कटस्फुटदुर्ग्रहाः । तटतोयावलीरत्नद्वीपाश्चाभान्ति राक्षसे ॥३७३॥
 नानारत्नकृतोद्योता हेमभित्तिप्रभासुराः । राक्षसानां बभूवुस्ते निवासाः क्रीडनार्थिनाम् ॥३७४॥
 तत्रैव खेचरैरेभिर्द्वीपान्तरसमाश्रितैः । सन्निवेशा महोत्साहैर्नगराणां प्रकल्पिता ॥३७५॥
 तत्तस्तौ पुत्रयो राज्यं दत्त्वा दोक्षा समाश्रितौ । महातपोधनौ भूत्वा पदं यातौ सनातनम् ॥३७६॥
 एव महति सन्ताने प्रवृत्ते धानवाहने । महापुरुषनिर्व्यूढराज्यप्राञ्ज्यवस्तुनि ॥३७७॥
 रक्षसस्तनयो जातो मनोवेगाङ्गधारिणः । राक्षसो नाम यस्याय नाम्ना वशः प्रकीर्त्यते ॥३७८॥
 तस्यादित्यगतिर्जातो बृहत्कीर्तिश्च नन्दनः । योपायां सुप्रभाख्यायां रविचन्द्रममप्रमौ ॥३७९॥
 वृषभौ तौ समासज्य राज्यस्यन्दनजे भरे । श्रमणत्वं समाराध्य देवलोकं समाश्रितः ॥३८०॥
 जाता सदनपद्माख्या भार्यादित्यगतेर्वरा । बृहत्कीर्तिस्तथा पुष्पनखेति परिकीर्तिता ॥३८१॥
 अथादित्यगतेः पुत्रो नाम्ना भीमप्रभोऽभवत् । सहस्रं यस्य पत्नीनामभूद्देवाङ्गनारुचाम् ॥३८२॥
 आमीदृष्टोत्तरं तस्य पुत्राणां शतमूर्जितम् । स्तम्भैरिव निजं राज्यं धारितं यैः समन्ततः ॥३८३॥
 आत्मजाय ततो राज्यं वितीर्य ज्यायसे प्रभुः । भीमप्रभः प्रवव्राज प्राप्तश्च परमं पदम् ॥३८४॥
 देवेन राक्षसेन्द्रेण राक्षसद्वीपमण्डले । कृतानुकम्पना ऊषुः सुखेनाम्बरगामिनः ॥३८५॥
 रचन्ति रक्षसा द्वीपं पुण्येन परिरक्षिताः । राक्षसा नामतो द्वीपं प्रसिद्धं तदुपागतम् ॥३८६॥

वसाये थे ॥३७१-३७२॥ इसी प्रकार १ आवर्त, २ विघट, ३ अम्भोद, ४ उत्कट, ५ स्फुट, ६ दुर्ग्रह,
 ७ तट, ८ तोय, ९ आवली और रत्नद्वीप ये दशनगर भानुरक्षके पुत्रोने वसाये थे ॥३७३॥
 जिनमे नाना रत्नोंका उद्योत फैल रहा था तथा जो सुवर्णमयी दीवालोकके प्रकाशसे जगमगा रहे
 थे ऐसे वे सभी नगर क्रीडाके अभिलाषी राक्षसोंके निवास हुए थे ॥३७४॥ वहींपर दूसरे द्वीपोंमे
 रहनेवाले विद्याधरोने बड़े उत्साहसे अनेक नगरोंकी रचना की थी ॥३७५॥

अथानन्तर—अमररक्ष और भानुरक्ष दोनों भाई, पुत्रोंको राज्य देकर दीक्षाको प्राप्त हुए
 और महातप रूपा धनके धारक हो सनातन सिद्ध पदको प्राप्त हुए ॥३७६॥ इस प्रकार
 जिसमे बड़े-बड़े पुरुषों द्वारा पहले तो राज्य पालन किया गया और तदनन्तर दीक्षा धारण की
 गई ऐसी राजा मेघवाहनकी बहुत बड़ी सन्तानकी परम्परा क्रमपूर्वक चलती रही ॥३७७॥ उसी
 सन्तान-परम्परामे एक मनोवेग नामक राक्षसके, राक्षस नामका ऐसा प्रभावशाली पुत्र हुआ
 कि उसके नामसे यह वंश ही राक्षस वंश कहलाने लगा ॥३७८॥ राजा राक्षसके सुप्रभा
 नामकी रानी थी, उससे उसके आदित्यगति और बृहत्कीर्ति नामके दो पुत्र हुए । ये दोनों
 ही पुत्र सूर्य और चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त थे ॥३७९॥ राजा राक्षस, राज्यरूपी रथका
 भार उठानेमे वृषभके समान उन दोनों पुत्रोंको संलग्नकर तप धर स्वर्गको प्राप्त हुए ॥३८०॥ उन
 दोनों भाइयोंमे बड़ा भाई आदित्यगति राजा था और छोटा भाई बृहत्कीर्ति युवराज था । आदित्य-
 गतिकी स्त्रीका नाम सदनपद्मा था और बृहत्कीर्तिकी स्त्री पुष्पनखा नामसे प्रसिद्ध थी ॥३८१॥
 आदित्यगतिके भीमप्रभ नामका पुत्र हुआ जिसकी देवाङ्गनाओंके समान कान्तिवाली एक हजार
 स्त्रियाँ थीं ॥३८२॥ उन स्त्रियोंसे उसके एकसौ आठ बलवान् पुत्र हुए थे । ये पुत्र स्तम्भोंके
 समान चारों ओरसे अपने राज्यको धारण किये थे ॥३८३॥ तदनन्तर राजा भीमप्रभने अपने
 बड़े पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली और क्रमसे तपश्चरण कर परमपद प्राप्त कर
 लिया ॥३८४॥ इस प्रकार राक्षस देवोंके इन्द्र भीम-सुभीमने जिनपर अनुकम्पा की थी ऐसे मेघ-
 वाहनकी वंश-परम्पराके अनेक विद्याधर राक्षसद्वीपमे सुखसे निवास करते रहे ॥३८५॥ पुण्य
 जिनकी रक्षा कर रहा था ऐसे राक्षसवंशी विद्याधर चूँकि उस राक्षसजातीय देवोंके द्वीपकी

१. राक्षसम् म० । २. योवेगाङ्गधारितः क० । मनोवेगाङ्गधारिणः म० । ३. यातो म० । ४. समा-
 साद्य ख० । ५. राक्षसो ख० ।

एष राक्षसवंशस्य सभवः परिकीर्तितः । वंशप्रधानपुरुषान् कीर्तयिष्याम्यतः परम् ॥३८७॥
 पुत्रो भीमप्रभस्याद्यः पूजार्हो नाम विश्रुतः । प्रवद्व्राज श्रियं न्यस्य तनये जितभास्करे ॥३८८॥
 सोऽपि सपरिकीर्त्याख्ये स्थापयित्वा श्रिय सुते । प्रात्रत् जसोऽपि सुग्रीवे निधाय प्राप दीक्षणम् ॥३८९॥
 सुग्रीवोऽपि हरिग्रीव सन्निवेश्य निजे पदे । उग्र तपः समाराध्य बभूव सुरसत्तमः ॥३९०॥
 हरिग्रीवोऽपि निक्षिप्य श्रीग्रीवे राज्यसपदम् । गृहीतश्रमणाचारो वनान्तरमशिश्रियत् ॥३९१॥
 आरोप्य सुमुखे राज्यं श्रीग्रीवो जनकाश्रितम् । मार्गमाश्रितवान् वीरः सुव्यक्ते सुमुखस्तथा ॥३९२॥
 सुव्यक्तोऽमृतवेगाख्ये न्यस्तवान् राक्षसीं श्रियम् । स चापि भानुगत्याह्ने स च चिन्तागती सुते ॥३९३॥
 इन्द्र इन्द्रप्रभो मेघो मृगारिदमनः पविः । इन्द्रजिद्भानुवर्मा च भानुर्भानुसमप्रभः ॥३९४॥
 सुरारिखिजटो भीमो मोहनोद्धारकौ रविः । चकारो वज्रमध्यश्च प्रमोद सिंहविक्रमः ॥३९५॥
 चामुण्डो मारणो भीष्मो द्विपवाहोऽरिमर्दनः । निर्वाणभक्तिरुग्रश्रीरर्हद्भक्तिरनुत्तरः ॥३९६॥
 गतभ्रमोऽनिलश्चण्डो लङ्काशोको मयूरवान् । महाबाहुर्मनोरम्यो भास्कराभो बृहद्गतिः ॥३९७॥
 बृहत्कान्तोऽरिसन्त्रासश्चन्द्रावर्तो महारव । मेघध्वानगृह्णोभनक्षत्रदमनादयः ॥३९८॥
 'अभिधाः कोटिशस्तेपा द्रष्टव्यास्वरचारिणाम् । मायावीर्यसमेतानां विद्याबलमहारूचाम् ॥३९९॥
 विद्यानुयोगकुशलः सर्वे श्रौसक्तवत्सलः । लङ्कायां स्वामिनः कान्ताः प्रायशः स्वर्गतश्च्युताः ॥४००॥
 स्वेषु पुत्रेषु निक्षिप्य लक्ष्मीं वंशक्रमागताम् । सविग्ना राक्षसाधीशा महाप्रांज्यमास्थिताः ॥४०१॥
 वेधित् कर्मावशेपेण त्रिलोकशिखर गताः । द्विवीर्युः परे केचित् पुण्यपाकानुभावतः ॥४०२॥

रक्षा करते थे इसलिए वह द्वीप राक्षस नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ और उस द्वीपके रक्षक विद्याधर राक्षस कहलाने लगे ॥३८६॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! यह राक्षसवंशकी उत्पत्ति मैने तुम्हसे कही अब आगे इस वंशके प्रधान पुरुषोका उल्लेख करूंगा । सो सुन ॥३८७॥ भीमप्रभका प्रथम पुत्र पूजार्ह नामसे प्रसिद्ध था सो वह अपने जितभास्कर नामक पुत्रके लिए राज्यलक्ष्मी सौंपकर दीक्षित हुआ ॥३८८॥ जितभास्कर संपरिकीर्ति नामक पुत्रको राज्य दे मुनि हुआ और संपरिकीर्ति सुग्रीवके लिए राज्य सौंप दीक्षाको प्राप्त हुआ ॥३८९॥ सुग्रीव, हरिग्रीवको अपने पदपर बैठाकर उग्र तपश्चरणकी आराधना करता हुआ उत्तम देव हुआ ॥३९०॥ हरिग्रीव भी श्रीग्रीवके लिए राज्यसम्पत्ति देकर मुनिव्रत धार वनमे चला गया ॥३९१॥ श्रीग्रीव सुमुखके लिए राज्य देकर पिताके द्वारा अङ्गीकृत मार्गको प्राप्त हुआ और बलवान् सुमुखने सुव्यक्त नामक पुत्रको राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली ॥३९२॥ सुव्यक्तने अमृतवेग नामक पुत्रके लिए राक्षसवंशकी सम्पदा सौंपकर तप धारण किया । अमृतवेगने भानुगतिको और भानुगतिकने चिन्तागतिको वैभव समर्पितकर साधुपद स्वीकृत किया ॥३९३॥ इस प्रकार इन्द्रः इन्द्रप्रभ, मेघ, मृगारिदमन, पवि, इन्द्रजित्, भानुवर्मा, भानु, भानुप्रभ, सुरारि, त्रिजट, भीम, मोहन, उद्धारक, रवि, चकार, वज्रमध्य, प्रमोद, सिंहविक्रम, चामुण्ड, मारण, भीष्म, द्विपवाह, अरिमर्दन, निर्वाणभक्ति, उग्रश्री, अर्हद्भक्ति, अनुत्तर, गतभ्रम, अनिल, चण्ड, लङ्काशोक, मयूरवान् महाबाहु, मनोरम्य, भास्कराभ, बृहद्गति, बृहत्कान्त, अरिसन्त्रास, चन्द्रावर्त, महारव, मेघ ध्वान, गृह्णोभ और नक्षत्रदमन आदि करोड़ों विद्याधर उस वंशमें हुए । ये सभी विद्याधर माया और पराक्रमसे सहित थे तथा विद्या, बल और महाकान्तिके धारक थे ॥३९४-३९६॥ ये सभी लङ्काके स्वामी, विद्यानुयोगमे कुशल थे, सबके वक्षःस्थल लक्ष्मीसे सुशोभित थे, सर्भ सुन्दर थे और प्रायः स्वर्गसे च्युत होकर लङ्कामे उत्पन्न हुए थे ॥४००॥ ये राक्षसवंशी राजा, संसासे भयभीत हो वंश-परम्परासे आगत लक्ष्मी अपने पुत्रोंके लिए सौंपकर दीक्षाको प्राप्त हुए ॥४०१॥ कितने ही राजा कर्मोंको नष्टकर त्रिलोककी शिखरको प्राप्त हुए, और कितने ही पुण्यो

एव तेष्वप्यतीतेषु घनप्रभसुतोऽभवत् । लङ्कायामधिपः कीर्तिधवलो नाम विश्रुतः ॥४०३॥
पद्मागर्भे समुद्भूतः खेचरैः कृतशासनः । समुद्भूते परमैश्वर्यं सुनासीरो यथा दिवि ॥४०४॥

वसन्ततिलकावृत्तम्

एव भवान्तरकृतेन तपोबलेन संप्राप्तुवन्ति पुरुषा मनुजेषु भोगान् ।
देवेषु चोत्तमगुणा गुणभूषिताङ्गा निर्दग्धकर्मपटलाश्च भवन्ति सिद्धाः ॥४०५॥
दुष्कर्मसक्तमतयः परमा लभन्ते निन्दा जना इह भवे मरणात्पर च ।
दुःखानि यान्ति बहुधा पतिताः कुयोनौ ज्ञात्वेति पापतमसो रवितां भजध्वम् ॥४०६॥

इत्यार्षे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते राक्षसवंशाधिकारः पञ्चमं पर्व ॥५॥



दयके प्रभावसे स्वर्गमें उत्पन्न हुए थे ॥४०२॥ इस प्रकार बहुतसे राजा व्यतीत हुए । उनमें लङ्का का अधिपति एक घनप्रभ नामक राजा हुआ । उसकी पद्मा नामक स्त्रीके गर्भमें उत्पन्न हुआ कीर्तिधवल नामका प्रसिद्ध पुत्र हुआ । समस्त विद्याधर उसका शासन मानते थे और जिस प्रकार स्वर्गमें इन्द्र परमैश्वर्यका अनुभव करता है उसी प्रकार वह कीर्तिधवल भी लङ्कामें परमैश्वर्य का अनुभव करता था ॥४०३-४०४॥

इस तरह पूर्वभवमें किये तपश्चरणके बलसे पुरुष, मनुष्यगति तथा देवगतिमें भोग भोगते हैं, वहाँ उत्तम गुणोंसे युक्त तथा नाना गुणोंसे भूषित शरीरके धारक होते हैं, कितने ही मनुष्य कर्मोंके पटलको भस्म कर सिद्ध हो जाते हैं, तथा जिनकी बुद्धि दुष्कर्ममें आसक्त है ऐसे मनुष्य इस लोकमें भारी निन्दाको प्राप्त होते हैं और मरनेके बाद कुयोनिये पड़कर अनेक प्रकारके दुःख भोगते हैं । ऐसा जानकर हे भव्य जीवो ! पाप रूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए सूर्यकी सदृशाता प्राप्त करो ॥४०५-४०६॥

इस प्रकार आर्पणामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्य विरचित पद्मचरितमें राक्षसवंशका निरूपण करनेवाला पञ्चम पर्व समाप्त हुआ ॥५॥



षष्ठं पर्व

वशो रक्षोनभोगानां मया ते परिकीर्तित । शृणु वानरकेतूनां सन्तानमधुना नृप ॥१॥
 विजयार्द्धगिरेर्भागे दक्षिणे स्वर्गसन्निभे । पुरं मेघपुर नाम्ना तुङ्गप्रासादशोभितम् ॥२॥
 विद्याधृता पतिस्तस्मिन्नतीन्द्रो नाम विश्रुतः । अतिक्रम्येव य शक्र स्थितो भोगाद्विसपदा ॥३॥
 श्रीमती नाम तस्यासीत् कान्ता श्रीसमविभ्रमा । यस्या सति मुखे पक्षो ज्योत्स्नयेव सदाभवत् ॥४॥
 तयोः श्रीकण्ठनामाभूत् सुतः श्रुतिविशारदः । यस्य नाग्नि गते कर्णं हर्षमीयुर्विचक्षणः ॥५॥
 स्वसा तस्याभवच्चर्चार्वा देवी नाम कर्नायसी । वाणतां नयने यस्या गते कुसुमधन्वनः ॥६॥
 अथ रत्नपुर नाम पुरं तत्र मनोहरम् । तत्र पुष्पोत्तरो नाम विद्याधारी महाबल ॥७॥
 तस्य पद्मोत्तरामिख्यः सुतो येन विलोचने । विषयान्तरसम्बन्धाज्जनानां विनिवर्तिते ॥८॥
 तस्मै पुष्पोत्तरः कन्या बहुशस्तामयाचत । श्रीकण्ठेन न सा तस्मै दत्ता कर्मानुभावत ॥९॥
 सा तेन कीर्तिशुभ्राय दत्ता बान्धववाक्यतः । विवाह च परेणास्या विधिना निरवर्तयत् ॥१०॥
 न मेऽभिजनतो दोषो न मे दारिद्र्यसम्भवः । न च पुत्रस्य वैरूप्यं न किञ्चिद्द्वैरकारणम् ॥११॥
 तथापि मम पुत्राय वितीर्णं तेन न स्वसा । इति पुष्पोत्तरो ध्यात्वा कोपवेश पर गतः ॥१२॥

अथानन्तर—गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन् श्रेणिक । मैंने तेरे लिए राजसचंशी विद्याधरोका वृत्तान्त तो कहा, अब तू वानरवंशियोंका वृत्तान्त सुन ॥१॥ स्वर्गके समान विजयार्ध पर्वतकी जो दक्षिण श्रेणी है उसमें एक मेघपुर नामका नगर है । यह नगर ऊँचे-ऊँचे महलोंसे सुशोभित है ॥२॥ वहाँ विद्याधरोका राजा अतीन्द्र निवास करता था । राजा अतीन्द्र अत्यन्त प्रसिद्ध था और भोग-सम्पदाके द्वारा मानो इन्द्रका उल्लङ्घन करता था ॥३॥ उसकी लक्ष्मीके समान हाव-भाव विलाससे सहित श्रीमती नामकी स्त्री थी । उसका मुख इतना सुन्दर था कि उसके रहते हुए सदा चँदनीसे युक्त पक्ष ही रहा करता था ॥४॥ उन दोनोंके श्रीकण्ठ नामका पुत्र था । वह पुत्र शास्त्रोंमें निपुण था और जिसका नाम कर्णगत होते ही विद्वान् लोग हर्षको प्राप्त कर लेते थे ॥५॥ उसके महामनोहरदेवी नामकी छोटी बहिन थी । उस देवीके नेत्र क्या थे मानो कामदेवके वाण ही थे ॥६॥

अथानन्तर—रत्नपुर नामका एक सुन्दर नगर था जिसमें अत्यन्त बलवान् पुष्पोत्तर नामका विद्याधर राजा निवास करता था ॥७॥ अपने सौन्दर्यरूपी सम्पत्तिके द्वारा देवकन्याके समान सबके मनको आनन्दित करनेवाली पद्माभा नामकी पुत्री और पद्मोत्तर नामका पुत्र था । यह पद्मोत्तर इतना सुन्दर था कि उसने अन्य मनुष्योंके नेत्र दूसरे पदार्थोंके सम्बन्धसे दूर हटा दिये थे अर्थात् सब लोग उसे ही देखते रहना चाहते थे ॥८॥ राजा पुष्पोत्तरने अपने पुत्र पद्मोत्तरके लिए राजा अतीन्द्रकी पुत्री देवीकी बहुत बार याचना की परन्तु श्रीकण्ठ भाईने अपनी बहिन पद्मोत्तरके लिए नहीं दी, लंकाके राजा कीर्तिधवलके लिए दी और बड़े वैभवके साथ विधिपूर्वक उसका विवाह कर दिया ॥९-१०॥ यह बात सुन राजा पुष्पोत्तरने बहुत कोप किया । उसने विचार किया कि देखो, न तो हमारे वंशमें कोई दोष है, न मुझमें दरिद्रतारूपी दोष है, न मेरे पुत्रमें कुरूपपना है और न मेरा उनसे कुछ वैर भी है फिर भी श्रीकण्ठने मेरे पुत्रके लिए अपनी बहिन नहीं दी ॥११-१२॥

१. अतिक्रम्य च म० । अतिक्रम्यैव ख० । २. सपद. क० । ३. चार्थ क० । ४. सप्तमश्लोकादनन्तर म० पुस्तके निम्नाङ्कितः श्लोकोऽधिको वर्तते । 'पद्माभासीस्तुता तस्य मनोहादनकारिणी । देवकन्येव सर्वेषा रूपलावण्यसम्पदा' । ५. विधिर्न म० ।

चैत्याना वन्दना कर्तुं श्रीकण्ठ सुरपर्वतम् । गतोऽन्यदा विमानेन वायुवेगेन चारुणा ॥१३॥
 तस्मान्निवर्तमानोऽसौ चेतःश्रोत्रापहारिणम् । शृङ्गाणामिव भ्रकारमशृणोद् गीतनिःस्वनम् ॥१४॥
 रम्यप्रक्वणमिश्रेण तेन गीतस्वनेन सः । धृतो ऋजुगुणेनेव बद्ध्वा निश्चलविग्रहः ॥१५॥
 आलोकनमथो चक्रे ततोऽपश्यत् स कन्यकाम् । गुरुणाधिष्ठितां कान्तां संगीतकगृहाङ्गणे ॥१६॥
 तस्या रूपसमुद्रेऽसौ निमग्न मानस द्रुतम् । न शशाक समुद्धर्तुं धर्तुं नांगानिव प्रभुः ॥१७॥
 स्थितश्चैपोऽन्तिकन्धोमिन् तया नीलोत्पलाभया । बध्वेव पीवरस्कन्धो दृष्ट्याकृष्टो मनोमुपा ॥१८॥
 ततो दर्शनमन्योन्य तयोर्माधुर्यपेशलम् । चकार वरणं प्रेमबद्धभावस्य सूचनम् ॥१९॥
 ततस्तामिङ्गिताभिज्ञो भुजपञ्जरमध्यगाम् । कृत्वा नभस्तले यातः स्पर्शार्मीलितलोचनः ॥२०॥
 परिवर्गस्ततस्तस्याः प्रलापमुखरीकृतः । पुष्पोत्तराय कन्यायाः श्रीकण्ठेन हृति जगौ ॥२१॥
 सर्वोद्योगेन संनद्य ततः पुष्पोत्तरो रुपा । तस्यानुपदवीं यातो दन्तदृष्टरदच्छदः ॥२२॥
 तेनानुधावमानेन व्रजता सुनभस्तले । शशीव घनवृन्देन श्रीकण्ठः शुशुभेऽधिकम् ॥२३॥
 आयान्त पृष्ठतो दृष्ट्वा श्रीकण्ठस्तं महाबलम् । त्वरित प्रस्थितो लङ्का नीतिशास्त्रविशारदः ॥२४॥
 तत्र स्वसुः पतिं गत्वा शरणं स समाश्रयत् । कालप्राप्तं नय सन्तो युञ्जाना यान्ति तुङ्गताम् ॥२५॥
 सोदरो मम कान्ताया इति स स्नेहनिर्भरम् । सभ्रमेण परिष्वज्य तं चकारासपूजनम् ॥२६॥

किसी एक दिन श्रीकण्ठ अकृत्रिम प्रतिमाओकी वन्दना करनेके लिए वायुके समान वेगवाले सुन्दर विमानके द्वारा सुमेरुपर्वत पर गया था ॥१३॥ वहाँसे जब वह लौट रहा था तब उसने मन और कानोको हरण करनेवाला, भ्रमरोकी भंकारके समान सुन्दर संगीतका शब्द सुना ॥१४॥ वीणाके स्वरसे मिले हुए संगीतके शब्दसे उसका शरीर ऐसा निश्चल हो गया मानो सीधी रस्सीसे ही बँधकर उसे रोक लिया हो ॥१५॥ तदनन्तर उसने सब ओर देखा तो उसे संगीतगृहके अँगनमें गुरुके साथ बैठी हुई पुष्पोत्तरकी पुत्री पद्माभा दिखी ॥१६॥ उसे देखकर श्रीकण्ठका मन पद्माभाके सौन्दर्यरूपी सागरमें शीघ्र ही ऐसा निमग्न हो गया कि वह उसे निकालनेमें असमर्थ हो गया । जिस प्रकार कोई हाथियोंको पकड़नेमें समर्थ नहीं होता उसी प्रकार वह मनको स्थिर करनेमें समर्थ नहीं हो सका ॥१७॥ श्रीकण्ठ उस कन्याके समीप ही आकाशमें खड़ा रह गया । श्रीकण्ठ सुन्दर शरीरका धारक तथा स्थूल कन्धोसे युक्त था । पद्माभाने भी चित्तको चुरानेवाली अपनी नीली-नीली दृष्टिसे उसे आकर्षित कर लिया था ॥१८॥ तदनन्तर दोनोका परस्परमें जो मधुर अवलोकन हुआ उसीने दोनोका वरण कर दिया अर्थात् मधुर अवलोकनसे ही श्रीकण्ठने पद्माभाको और पद्माभाने श्रीकण्ठको वर लिया । उनका यह वरना पारस्परिक प्रेम भावको सूचित करनेवाला था ॥१९॥ तदनन्तर अभिप्रायको जाननेवाला श्रीकण्ठ पद्माभाको अपने भुजपञ्जरके मध्यमें स्थितकर आकाशमें ले चला । उस समय पद्माभाके स्पर्शसे उसके नेत्र कुछ-कुछ बन्द हो रहे थे ॥२०॥ प्रलापसे चिल्लाते हुए परिजनके लोगोंने राजा पुष्पोत्तरको खबर दी कि श्रीकण्ठने आपकी कन्याका अपहरण किया है ॥२१॥ यह सुन पुष्पोत्तर भी बहुत क्रुद्ध हुआ । वह क्रोध वश दाँतांसे ओठ चाबने लगा और सब प्रकारसे तैयार हो श्रीकण्ठके पीछे गया ॥२२॥ श्रीकण्ठ आगे-आगे जा रहा था और पुष्पोत्तर उसके पीछे-पीछे दौड़ रहा था जिससे आकाशके बीच श्रीकण्ठ ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मेघसमूह जिसके पीछे उड़ रहा है ऐसा चन्द्रमा ही हो ॥२३॥ नीतिशास्त्रमें निपुण श्रीकण्ठने जब अपने पीछे महाबलवान् पुष्पोत्तरको आता देखा तो वह शीघ्र ही लंकाकी ओर चल पड़ा ॥२४॥ वहाँ वह अपने बहनोई कीर्तिधवलकी शरणमें पहुँचा सो ठीक ही है । क्योंकि जो समयानुकूल नीतियोग करते हैं वे उन्नतिको प्राप्त होते ही हैं ॥२५॥ 'यह मेरी खोका भाई है'

तयो' कुशलप्रवृत्तान्तप्रश्नो यावत्प्रवर्तते । तावत्पुष्पोत्तर. प्राप्नो महाबलसमन्वित. ॥२७॥
 कीर्तिशुक्लस्ततोऽपश्यद् गगन सर्वतश्चितम् । विद्याधरसमूहेन प्रदीप्तसुरतेजसा ॥२८॥
 असिकुन्तादिभि' शस्त्रैर्विकराल महारवम् । स्थानभ्रमिवागच्छद्बल खेचरसगमात् ॥२९॥
 वाजिभिर्वायुरहोभिर्गजैश्च जलदोपमै' । विमानैश्च महामानै. सिहैश्च प्रचलत्सदैः ॥३०॥
 दृष्टोत्तरां दिश व्यासा विहस्य क्रोधमिश्रितम् । सचिवाना समादेश कीर्तिशुक्लो युधे ददौ ॥३१॥
 अकार्येण तत. रवेन श्रीकण्ठोऽय त्रपानत । कीर्तिशुभ्रमिद वाक्य जगाद त्वरयान्वितम् ॥३२॥
 पुत बन्धुजन रक्ष त्व मदीयमिहाधुना । करोमि निर्जित यावत्प्रतिपत्त तवाश्रयात् ॥३३॥
 पुत्रमुक्ते जगादासो वचन नयमगतम् । तवायुक्तमिद वक्तु प्राप्य मा भोतिभेदनम् ॥३४॥
 यद्वि नामैप नो साम्ना शम यास्यति दुर्जन. । तत पश्य प्रविष्टोऽयं मृत्योर्वचन मदीरित ॥३५॥
 स्थापयित्वेति विश्रब्ध प्रियाया' सोदर नृप' । उत्कृष्टवयसो धीरान् दूतान् द्रुतमजीगमत् ॥३६॥
 उपर्युपरि ते गत्वा क्रमेणैव वभापिरे । पुष्पोत्तर महाप्राज्ञा मधुरालापकोविदा ॥३७॥
 पुष्पोत्तर वदन्त्येतद्भवन्त कीर्तिनिर्मल. । अस्मद्भवनविन्यस्तैः पदैरादरसङ्गतैः ॥३८॥
 महाकुलसमुपन्नो भवान् विमलचेष्टित. । सर्वस्मिन् जगति ख्याति गत. शास्त्रार्थकोविद ॥३९॥
 आगता गोचर का ते न मर्यादा महामते । कर्णजाहे निधीयेत यास्माभिरधुना तव ॥४०॥
 श्रीकण्ठोऽपि कुले जात शणाङ्गकरनिर्मले । त्रितवान् विनयोपेत कान्तः सर्वकलान्वित. ॥४१॥

यह जानकर कीर्तिधवलने वड़े स्नेहसे उसका आलिङ्गनकर अतिथिसत्कार किया ॥२६॥ जब तक उन दोनोंके बीच कुशल-समाचारका प्रश्न चलता है कि तब तक बड़ी भारी सेनाके साथ पुष्पोत्तर वहाँ जा पहुँचा ॥२७॥ तदनन्तर कीर्तिधवलने आकाशकी ओर देखा तो वह आकाश सब ओरसे विद्याधरके समूहसे व्याप्त था, विशाल तेजसे वेदीयमान हो रहा था ॥२८॥ तलवार, भाले आदि शास्त्रोंसे महाभयंकर था, बड़ा भारी शब्द उसमें हो रहा था, विद्याधरके समागमसे वह सेना ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने स्थानसे भ्रष्ट होनेके कारण ही उसमें वह महाशब्द हो रहा था ॥२९॥ वायुके समान वेगवाले घोड़ों, मेघोंकी उपमा रखनेवाले हाथियों, वड़े-वड़े विमानों और जिनकी गरदनके बाल हिल रहे थे ऐसे सिंहोंसे उत्तर दिशाकी व्याप्त देख कीर्तिधवलने क्रोधमिश्रित हँसी हँसकर मंत्रियोंके लिए युद्धका आदेश दिया ॥३०-३१॥

तदनन्तर अपने अकार्य—खोटे कार्यके कारण लज्जासे अवनत श्रीकण्ठने शीघ्रता करनेवाले कीर्तिधवलसे निम्नाङ्कित वचन कहे ॥३२॥ कि जब तक मैं आपके आश्रयसे शत्रुको परास्त करता हूँ तब तक आप यहाँ मेरे इष्टजन (स्त्री) की रक्षा करो ॥३३॥ श्रीकण्ठके ऐसा कहनेपर कीर्तिधवलने उससे नीतियुक्त वचन कहे कि भयका भेदन करनेवाले मुझको पाकर तुम्हारा यह कहना युक्त नहीं है ॥३४॥ यदि यह दुर्जन साम्यभावसे शातिन्को प्राप्त नहीं होता है तो तुम निश्चित देखना कि यह मेरे द्वारा प्रेरित होकर यमराजके ही मुखमें प्रवेश करेगा ॥३५॥ ऐसा कह अपनी स्त्रीके भाईको तो उसने निश्चिन्त कर महलमें रक्खा और शीघ्र ही उत्कृष्ट अवस्थावाले धीर-वीर दूतोंको पुष्पोत्तरके पास भेजा ॥३६॥ अतिशय बुद्धिमान् और मधुरभाषण करनेमें निपुण दूतोंने लगे हाथ जाकर पुष्पोत्तरसे यथाक्रम निम्नाङ्कित वचन कहे ॥३७॥ हे पुष्पोत्तर । हम लोगोंके मुखमें स्थापित एवं आदरपूर्ण वचनोंसे कीर्तिधवल राजा आपसे यह कहता है ॥३८॥ कि आप उच्चकुलमें उत्पन्न हैं, निर्मल चेष्टाओंके धारक हैं, समस्त संसारमें प्रसिद्ध हैं और शास्त्रार्थमें चतुर हैं ॥३९॥ हे महाबुद्धिमान् । कौन सी मर्यादा आपके कानोंमें नहीं पड़ी है जिसे इस समय हमलोग आपके कानोंके समीप रखें ॥४०॥ श्रीकण्ठ भी चन्द्रमाकी किरणोंके समान निर्मल कुलमें उत्पन्न हुआ है, धनवान् है, विनयसे युक्त है, सुन्दर है, और सब कलाओंसे

तस्य योग्या गुणैः कन्या रूपेण च कुलेन च । समानयो समायोगं करोतु विधिरिष्यताम् ॥४२॥
 न चास्ति कारणं किञ्चित् सेनयो मन्त्रये कृते । स्वभावं एव कन्यानां यत्परागारसेवनम् ॥४३॥
 दूतो यावद्ब्रवीत्येव तावद्दूर्ता समागता । पद्मया प्रेषिता तस्य दुहित्रेदमभाषत ॥४४॥
 ब्रवीति देव पद्मे कृत्वा चरणवन्दनम् । स्वयं ते गदितुं शक्ता त्रपया नेति नागता ॥४५॥
 तात स्वल्पापि नास्त्यत्र श्रीकण्ठस्यापराधिता । मया कर्मानुभावेन स्वयमेव प्रचोदित ॥४६॥
 यत सत्कुलजाताना गतिरेपैव योपिताम् । त्रिमुच्यै न मतोऽन्यस्य नरस्य नियमो मम ॥४७॥
 इति विज्ञापितो दूत्या चिन्तामेतामसौ श्रितः । किंकर्तव्य विमूढेन चेतसा विह्वलीकृतः ॥४८॥
 शुद्धाभिजनता मुत्स्या गुणानां वरभाजिनाम् । तस्मिञ्च सभवत्येपं पद्मं च बलिनं श्रितैः ॥४९॥
 अभिमानाक्षयाप्येन विनेनु शक्तिरस्ति मे । स्वयमेव तु कन्यार्यं रोचते क्रियतेऽत्र किम् ॥५०॥
 अभिप्रायं ततस्तस्य ज्ञान्वा ते हर्षनिर्भरा । समं दूत्या गता दूता शशासुरश्च यथोदितम् ॥५१॥
 सुताविज्ञापनात् व्यक्तक्रोधभारोऽभिमानवान् । पुणोत्तरो गतः स्थानमात्मीय परमार्थवित् ॥५२॥
 शुक्लाया मार्गशीर्षस्य पर्वतावथ गोभने । मुहूर्ते विधिना वृत्तं पाणिग्रहणमेतयोः ॥५३॥
 इति श्रीकण्ठमाहर्षं प्रीत्यात्यन्तमुदारया । प्रेरितः कीर्तिधवलो वचनं कृतनिश्चयम् ॥५४॥
 वैरिणो बहवः सन्ति विजयार्द्धगिरौ तव । अप्रमत्ततया कालं क्रियन्तं गमयिष्यसि ॥५५॥
 अतस्तिष्ठ त्वमत्रैव रम्ये रत्नालयान्तरे । निजाभिरुचिते स्थाने स्वेच्छया कृतचेष्टितः ॥५६॥
 पर्याप्नोति परित्यक्तुं न च त्वा मम मानसम् । मत्प्रीतिनागुरा छिन्वा कथं वा त्वं गमिष्यसि ॥५७॥

सहित है ॥४१॥ तुम्हारी कन्या गुण, रूप तथा कुल सभी बातोंमें उसके योग्य है । इस प्रकार अनुकूल भाव्य, दो समान व्यक्तियोंका संयोग करा दे तो उत्तम है ॥४२॥ जब कि दूसरेके घरकी सेवा करना यह कन्याओंका स्वभाव ही है तब दोनों पक्षकी सेनाओंका क्षय करनेमें कोई कारण दिखाई नहीं देता ॥४३॥ दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि इतनेमें पुत्री पद्माभाके द्वारा भेजी हुई दूती आकर पुष्पोत्तरसे कहने लगी ॥४४॥ कि हे देव ! पद्मा आपके चरणोंमें नमस्कारकर कहती है कि मैं लज्जाके कारण आपसे स्वयं निवेदन करनेके लिए नहीं आ सकी हूँ ॥४५॥ हे तात ! इस कार्यमें श्रीकण्ठका थोड़ा भी अपराध नहीं है । कर्मोंके प्रभावसे मैंने इसे स्वयं प्रेरित किया था ॥४६॥ चूँकि सत्कुलमें उत्पन्न हुई स्त्रियोंकी यही मर्यादा है अतः इसे छोड़कर अन्य पुरुषका मेरे नियम है—त्याग है ॥४७॥ इस प्रकार दूतीके कहने पर 'अब क्या करना चाहिए' इस चिन्ताको प्राप्त हुआ । उस समय वह अपने किंकर्तव्यविमूढ़ चित्तसे बहुत दुःखी हो रहा था ॥४८॥ उसने विचार किया कि वरमें जितने गुण होना चाहिए उनमें शुद्ध वंशमें जन्म लेना सबसे प्रमुख है । यह गुण श्रीकण्ठमें है ही उसके सिवाय यह बलवान् पक्षकी शरणमें आ पहुँचा है ॥४९॥ यद्यपि इसका अभिमान दूर करनेकी मुझमें शक्ति है, पर जब कन्याके लिए यह स्वयं रुचता है तब इस विषयमें क्या किया जा सकता है ? ॥५०॥ तदनन्तर पुष्पोत्तरका अभिप्राय जानकर हर्षसे भरे दूत, दूतीके साथ वापिस चले गये और सवने जो बात जैसी थी वैसी ही राजा कीर्तिधवलसे कह दी ॥५१॥ पुत्रीके कहनेसे जिसने क्रोधका भार छोड़ दिया था ऐसा अभिमानी तथा परमार्थको जाननेवाला राजा पुष्पोत्तर अपने स्थानपर वापिस चला गया ॥५२॥ अथानन्तर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाके दिन शुभमुहूर्तमें दोनोंका विधिपूर्वक पाणिग्रहण संस्कार हुआ ॥५३॥ एक दिन उदार प्रेमसे प्रेरित कीर्तिधवलने श्रीकण्ठसे निश्चयपूर्ण निम्नाङ्कित वचन कहे ॥५४॥ चूँकि विजयार्द्ध पर्वतपर तुम्हारे बहुतसे वैरी हैं अतः तुम सावधानीसे कितना काल वित्ता सकोगे ॥५५॥ लाभ इसीमें है कि तुम्हें जो स्थान रुचिकर हो वहीं स्वेच्छासे क्रिया करते हुए यहीं अत्यन्त सुन्दर रत्नमयी महलोंमें निवास करो ॥५६॥ मेरा मन

श्रीकण्ठमभिधायैव सचिव निजमव्रवीत् । पितामहक्रमायातमानन्दाख्य महामतिम् ॥५८॥
 सारासार त्वया दृष्ट मदीयानां चिर पुराम् । उपदिश्यतामत् सार श्रीकण्ठयात्र यत्पुरम् ॥५९॥
 इत्युक्त सचिव प्राह सितेन हृदयस्थितम् । कूर्चेन स्वामिन भक्त्या चामरेणेव वीजयन् ॥६०॥
 नरेन्द्र तत्र नास्येव पुर यत्र मनोहरम् । तथापि स्वयमन्विष्य गृह्णातु रुचिदर्शनम् ॥६१॥
 मध्ये सागरमेतस्मिन् द्वीपा सन्त्यतिभूरयः । कल्पद्रुमसमाकारैः पादपैर्व्याप्तदिदुमुखा ॥६२॥
 आचिता विविधै रत्नैस्तुङ्गशृङ्गा महौजस' । गिरयो येषु देवाना सन्ति क्रीडनहेतवः ॥६३॥
 भीमातिभीमदाक्षिण्यात्ते चान्यैरपि च, कुले । अनुज्ञाता, सुरैः सर्वैः पूर्वमित्येवमागम ॥६४॥
 पुराणि तेषु रम्याणि सन्ति काञ्चनसन्नभि' । सपूर्णानि महारत्नै करदप्रदिवाकरैः ॥६५॥
 संध्याकारो मनोह्लादः सुवेल, काञ्चनो हरिः । योधनो जलधिध्वानो हंसद्वीपो भरत्तम ॥६६॥
 अर्धस्वर्गोत्कटावर्तौ विघटो रोधनोऽमल, । कान्त, स्फुटतटो रत्नद्वीपस्तोयावली सर ॥६७॥
 अलङ्कनो नभोभानु' क्षेममित्येवमादय । आसन् ये रमणोद्देशा देवाना निरुपद्रवाः ॥६८॥
 त-पुत्र साम्प्रत जाता भूरिपुण्यैरुपाजिताः । पुराणा सन्निवेशा वो नानारत्नवसुन्धराः ॥६९॥
 दूतोऽवरोत्तरे भागे समुद्रपरिवेष्टिते । शतत्रयमतिक्रम्य योजनानामल पृथुः ॥७०॥
 अतिशाखासृगद्वीपः प्रसिद्धो भुवनत्रये । यस्मिन्नवान्तरद्वीपा सन्ति रम्या सहस्रशः ॥७१॥
 पुष्परागमणेर्भाभि क्वचित् प्रज्वलतीव यः । सस्यैरिव क्वचिच्छन्नो हरिन्मणिमरीचिभि ॥७२॥

तुम्हें छोड़नेको समर्थ नहीं है और तुम भी मेरे प्रेमपाशको छोड़कर कैसे जाओगे ॥१७॥
 श्रीकण्ठसे ऐसा कहकर कीर्तिधवलने अपने पितामहके क्रमसे आगत महाबुद्धिमान आनन्द नामक
 मन्त्रीको बुलाकर कहा ॥५८॥ कि तुम चिरकालसे मेरे नगरोकी सारता और असारताको अच्छी
 तरह जानते हो अतः श्रीकण्ठके लिए जो नगर सारभूत हो सो कहो ॥५९॥ इस प्रकार कहनेपर
 वृद्ध मन्त्री कहने लगा । जब वह वृद्ध मन्त्री कह रहा था तब उसको सफेद दाढ़ी वक्षस्थलपर
 हिल रही थी और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो हृदयमे विराजमान स्वामीको चमर ही
 ढोर रहा हो ॥६०॥ उसने कहा कि हे राजन ! यद्यपि आपके नगरोमे ऐसा एक भी नगर नहीं है
 जो सुन्दर न हो तथापि श्रीकण्ठ स्वयं ही खोजकर इच्छानुसार—जो इन्हें रुचिकर हो, ग्रहणकर
 लें ॥६१॥ इस समुद्रके बीचमे ऐसे बहुतसे द्वीप हैं जहाँ कल्पवृक्षोके समान आकारवाले वृक्षोसे
 दिशाएँ व्याप्त हो रही हैं ॥६२॥ इन द्वीपोंमे ऐसे अनेक पर्वत हैं जो नाना प्रकारके रत्नोंसे व्याप्त
 हैं, ऊँची-ऊँची शिखरोसे सुशोभित हैं, महादेदीप्यमान है और देवोकी क्रीडाके कारण हैं ॥६३॥
 राक्षसोंके इन्द्र भीम अतिभीम तथा उनके सिवाय अन्य सभी देवोने आपके वंशजोके
 लिए वे सब द्वीप तथा पर्वत दे रखे हैं ऐसा पूर्व परम्परासे सुनते आते हैं ॥६४॥ उन द्वीपोंमें
 सुवर्णमय महलोसे मनोहर और किरणोसे सूर्यको आच्छादित करनेवाले महारत्नोसे परिपूर्ण
 अनेक नगर हैं ॥६५॥ उन नगरोंके नाम इस प्रकार हैं—संध्याकार, मनोह्लाद, सुवेल, काञ्चन,
 हरि, योधन, जलधिध्वान, हंसद्वीप, भरत्तम, अर्धस्वर्गोत्कट, आवर्त, विघट, रोधन, अमल,
 कान्त, स्फुटतट, रत्नद्वीप, तोयावली, सर, अलङ्कन, नभोभानु और क्षेम इत्यादि अनेक सुन्दर
 सुन्दर स्थान हैं । इन स्थानोमे देव भी उपद्रव नहीं कर सकते हैं ॥६६-६८॥ जो बहुत भारी
 पुण्यसे प्राप्त हो सकते हैं और जहाँकी वसुधा नाना प्रकारके रत्नोसे प्रकाशमान है ऐसे वे
 समस्त नगर इस समय आपके आधीन हैं ॥६९॥ यहाँ पश्चिमोत्तर भाग अर्थात् वायव्य दिशा
 में समुद्रके बीच तीन सौ योजन विस्तारवाला बड़ा भारी वानर द्वीप है । यह वानर द्वीप तीनों
 लोकोमे प्रसिद्ध है और उसमें महामनोहर हजारो अवान्तर द्वीप हैं ॥७०-७१॥ यह द्वीप कही
 तो पुष्पराग मणियोकी लाल-लाल प्रभासे ऐसा जान पड़ता है मानो जल ही रहा हो, कहीं हरे

इन्द्रनीलप्रभाजालैस्तमसेव चितः क्वचित् । पद्माकरश्रिय धत्ते पद्मरागचयैः क्वचित् ॥७३॥
 भ्रमता यत्र वातेन गगने गन्धचारुणा । हृता जानन्ति नो यस्मिन्पताम इति पक्षिणः ॥७४॥
 स्फटिकान्तरविन्यास्तैः पद्मरागैः समत्वियः । ज्ञायन्ते चलनाद्यत्र सरःसु कमलाकराः ॥७५॥
 मत्तैर्मन्वासास्वादाच्छकुन्तैः कलनादिभिः । सभापत इति द्वीपान् यः समीपव्यवस्थितान् ॥७६॥
 यत्रौपधिप्रभाजालैस्तमो दूरं निराकृतम् । चक्रे बहुलपक्षेऽपि समावेश न रात्रिपु ॥७७॥
 यत्रच्छत्रसमाकराः फलपुष्पसमन्विताः । पादपा विपुलस्कन्धाः कलस्वनशकुन्तयः ॥७८॥
 सस्यैः स्वभावसपन्नैर्वीर्यकान्तिवितारिभिः । चलद्भिर्मन्दवातेन मही यत्र सकञ्चुका ॥७९॥
 विकचेन्दीवरैर्यत्र पट्टपदौघसमन्वितैः । नयनैरिव वीक्षन्ते^२ दीर्घिका भ्रूविलासिभिः ॥८०॥
 पवनाकम्पनाद्यस्मिन्^३ सात्कारश्रोत्रहारिभिः । पुण्ड्रेक्षोर्विपुलैर्वटैः प्रदेशाः पवनोज्ज्विताः ॥८१॥
 रत्नकाञ्चनविस्तीर्णशिलासघातशोभनः । मध्ये तस्य महानस्ति किष्कुर्नाम महीधरः ॥८२॥
 त्रिकूटेनेव तेनासौ शृङ्गवाहुभिरायतैः । आलिङ्गिता^४ दिशः कान्ताः श्रियमारोपिताः पराम् ॥८३॥
 आनन्दवचनादेव सानन्द परम गतः । श्रीकण्ठः कीर्तिधवलं प्राहैवमति भारतीम् ॥८४॥
 ततश्चैत्रस्य दिवसे प्रथमे मङ्गलाचिंते । ययौ सपरिवारोऽसौ द्वीपं वानरलाञ्छितम् ॥८५॥

मणियोंकी किरणोंसे आच्छादित होकर ऐसा सुशोभित होता है मानो धानके हरे भरे पौधोसे ही आच्छादित हो ॥७२॥ कहीं इन्द्रनील मणियोंके कान्तिसे ऐसा लगता है मानो अन्धकार के समूहसे व्याप्त ही हो, कहीं पद्मरागमणियोंकी कान्तिसे ऐसा जान पड़ता है मानो कमलाकर की शोभा धारण कर रहा हो ॥७३॥ जहाँ आकाशमे भ्रमती हुई सुगन्धित वायुसे हरे गये पक्षी यह नहीं समझ पाते हैं कि हम गिर रहे हैं ॥७४॥ स्फटिकके बीच-बीचमे लगे हुए पद्मराग मणियोंके समान जिनकी कान्ति है ऐसे तालाबोके बीच प्रफुल्लित कमलोंके समूह जहाँ हलनचलन रूप क्रियाके द्वारा ही पहिचाने जाते हैं ॥७५॥ जो द्वीप मकरन्द रूपी मदिराके आस्वादसे मनोहर शब्द करनेवाले मदनोन्मत्त पक्षियोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो समीपमे स्थित अन्यद्वीपोसे वार्तालाप ही कर रहा हो ॥७६॥ जहाँ रात्रिमे चमकनेवाली औपधियोंकी कान्तिके समूहसे अन्धकार इतनी दूर खदेड़ दिया गया था कि वह कृष्ण पक्षकी रात्रियोंसे भी स्थान नहीं पा सका था ॥७७॥ जहाँके वृक्ष छत्रोके समान आकारवाले हैं, फल और फूलोंसे सहित हैं, उनके स्कन्ध बहुत मोटे हैं और उनपर बैठे हुए पक्षी मनोहर शब्द करते रहते हैं ॥७८॥ स्वभावसम्पन्न—अपने आप उत्पन्न, वीर्य और कान्तिको देनेवाले, एवं मन्द-मन्द वायुसे हिलते धानके पौधोसे जहाँकी पृथिवी ऐसी जान पड़ती है मानो उसने हरे रङ्गकी चोली ही पहिन रक्खी हो ॥७९॥ जहाँकी वापिकाओंमे भ्रमरोके समूहसे सुशोभित नील कमल फूल रहे हैं और उनसे वे ऐसी जान पड़ती है मानो भौंहोके सञ्चारसे सुशोभित नेत्रोसे ही देख रही हो ॥८०॥ हवाके चलनेसे समुत्पन्न अव्यक्त ध्वनिसे कानोको हरनेवाले पौंडो और ईखोके बड़े-बड़े वगीचो से जहाँके प्रदेश वायुके सञ्चारसे रहित हैं अर्थात् जहाँ पौंडे और ईखके सघन वनोसे वायुका आवागमन रुकता रहता है ॥८१॥ उस वानरद्वीपके मध्यमे रत्न और सुवर्णकी लम्बी चौड़ी शिलाओसे सुशोभित किष्कु नामका बड़ा भारी पर्वत है ॥८२॥ जैसा यह त्रिकूटाचल है वैसा ही वह किष्कु पर्वत है सो उसकी शिखर रूपी लम्बी-लम्बी भुजाओंसे आलिङ्गित दिशा रूपी स्त्रियों परम शोभाको प्राप्त हो रही हैं ॥८३॥ आनन्द मन्त्रीके ऐसे वचन सुनकर परम आनन्दको प्राप्त हुआ श्रीकण्ठ अपने बहनोई कीर्तिधवलसे कहने लगा कि जैसा आप कहते हैं वैसा मुझे स्वीकार है ॥८४॥

तदनन्तर चैत्र मासके मङ्गलमय प्रथम दिनमें श्रीकण्ठ अपने परिवारके साथ वानरद्वीप

२. वीक्षन्ते म० । ३. सीत्कार म० । ४. आलिङ्गिता म० ।

पश्यन्नीलमणिच्छाया गत नभ इव चित्तिम् । महाप्राहकृताकम्प समुद्र विस्मयाकुलः ॥८६॥
 ततश्च त वरद्वीप^१ प्राप्तः स्वर्गमिवापरम् । व्याहरन्तमिवात्युच्चैः स्वागत निर्भरस्वनैः ॥८७॥
 निर्भराणामतिस्थूलै^२ शीकरैर्व्योमगामिभिः । हसन्तमिव तोपेण श्रीकण्ठागमजन्मना ॥८८॥
 विचित्रमणिसभूतप्रभाजालेन चारुणा । उ^३च्छ्रिता इव सघातास्तोरणाना समुन्नताः ॥८९॥
 ततस्तमवतीर्णोऽसौ द्वीपमाश्चर्यसकुलम् । वि^३चिपन् दिक्षु सर्वसु दृष्टिं नीलोत्पलद्युतिम् ॥९०॥
 खजूरामलकीनीपकपित्थागुरुचन्दनैः । प्लक्षार्जुनकदम्बाम्रप्रियालकदलोधवैः ॥९१॥
 दाडिमीपूगकङ्गोललवङ्गकुलैस्तथा । रम्यैरन्यैश्च विविधैः पादपैरुपशोभितम् ॥९२॥
 मणिवृक्षा इवोद्भिद्य चित्तिं ते तत्र निःसृता^४ । स्वस्मिन् निपतितां दृष्टिं नेतुमन्यत्र नो ददुः ॥९३॥
 प्रगुणाः काण्डदेशेषु विस्तीर्णाः स्कन्धबन्धने । उपरिच्छत्रसकाशा घनपल्लवराशयः ॥९४॥
 शाखाभिः सुप्रकाशाभिर्नताभिः कुसुमोत्करैः । फलैश्च सरसाः स्वादैः प्राप्ताः सन्तानमुत्तमम् ॥९५॥
 नात्यन्तमुन्नति याता न च याता निखर्वताम् । अनायासाङ्गनाप्राप्य प्रसूनफलपल्लवाः ॥९६॥
 स्तवकस्तनरम्याभिर्भङ्गनेत्राभिराद्रात् । आलिङ्गिताः सुवह्नीभिश्चलपल्लवपाणिभिः ॥९७॥
 परस्परसंमुल्लाप कुर्वाणा इव पक्षिणाम् । मनोहरेण नादेन गायन्त इव पट्पदैः ॥९८॥
 केचिच्छङ्खदलच्छायाः केचिद्धेमसमत्विपः । केचित्पङ्कजसकाशाः केचिद्द्वैद्वैर्यसन्निभा ॥९९॥

गया ॥८५॥ प्रथम ही वह समुद्रको देखकर आश्चर्यसे चकित हो गया । वह समुद्र नीलमणिके समान कान्तिवाला था इससे ऐसा जान पड़ता था मानो नीला आकाश ही पृथिवीपर आ गया हो तथा बड़े-बड़े मगरमच्छ उसमें कम्पन पैदा कर रहे थे ॥८६॥ तदनन्तर उसने वानर-द्वीपमें प्रवेश किया । वह द्वीप क्या था मानो दूसरा स्वर्ग ही था, और भरनोके उच्च स्वरसे ऐसा जान पड़ता था मानो स्वागत शब्दका उच्चारण ही कर रहा था ॥८७॥ भरनोके बड़े-बड़े छींटे उल्ललकर आकाशमें पहुँच रहे थे उनसे वह द्वीप ऐसा लगता था मानो श्रीकण्ठके आगमनसे उत्पन्न सन्तोषसे हँस ही रहा हो ॥८८॥ नाना मणियोंकी सुन्दर कान्तिके समूहसे ऐसा जान पड़ता था मानो ऊँचे-ऊँचे तोरणोंके समूह ही वहाँ खड़े किये गये हो ॥८९॥ तदनन्तर समस्त दिशाओंमें अपनी नीली दृष्टि चलाता हुआ श्रीकण्ठ आश्चर्यसे भरे हुए उस वानरद्वीपमें उतरा ॥९०॥ वह द्वीप खजूर, आँवला, नीप, कैथा, अगुरु चन्दन, बड़, कौहा, कदम्ब, आम, अचार, केला, अनार, सुपारी, कङ्गोल, लौंग तथा अन्य अनेक प्रकारके सुन्दर-सुन्दर वृक्षांसे सुशोभित था ॥९१-९२॥ वहाँ वे सब वृक्ष इतने सुन्दर जान पड़ते थे मानो पृथिवीको विदीर्णकर मणिमय वृक्ष ही बाहर निकले हो और इसीलिए वे अपने ऊपर पडी हुई दृष्टिको अन्यत्र नहीं ले जाने देते थे ॥९३॥ उन सब वृक्षोंके तने सीधे थे, जहाँसे डालियाँ फूटती हैं ऐसे स्कन्ध अत्यन्त मोटे थे, ऊपर सघन पत्तोंकी राशियाँ छत्रोंके समान सुशोभित थीं, देदीप्यमान तथा कुछ नीचे की ओर झुकी हुई शाखाओंसे, फूलोंके समूहसे और मधुर फलोंसे वे सब उत्तम सन्तानको प्राप्त हुए से जान पड़ते थे ॥९४-९५॥ वे सब वृक्ष न तो अत्यन्त ऊँचे थे, न अत्यन्त नीचे थे, हाँ, इतने अवश्य थे कि स्त्रियाँ उनके फूल, फल और पल्लवोंको अनायास ही पा लेती थीं ॥९६॥ जो गुच्छे रूपो स्तनोसे मनोहर थीं, भ्रमर ही जिनके नेत्र थे, और चञ्चल पल्लव ही जिनके हाथ थे ऐसी लता रूपी स्त्रियाँ बड़े आदरसे उन वृक्षोंका आलिङ्गन कर रहीं थीं ॥९७॥ पक्षियोंके मनोहर शब्दसे वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते थे मानो परस्परमें वार्तालाप ही कर रहे हो और भ्रमरों की मधुर झङ्कारसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो गा ही रहे हो ॥९८॥ कितने ही वृक्ष शङ्खके टुकड़ोंके समान सफेद कान्तिवाले थे, कितने ही स्वर्णके समान पीले रङ्गके थे, कितने ही कमलके समान गुलाबी रङ्गके थे और कितने ही वैदूर्यमणिके समान नीले वर्णके थे ॥९९॥ इस तरह

एव नानाविधास्तस्मिन् देशा विविधपादपैः । मण्डिता यान् समालोक्य स्वर्गभूरपि नेच्यते ॥१००॥
 'जीवजीवक्युग्माना व्यक्तवाचा सम शुक्लैः । आलाप' सारिकाभिश्च तस्मिन्नद्भुतकारणम् ॥१०१॥
 तत नानातरुच्छायामण्डलस्थेषु हारिषु । रत्नकाञ्चनदेहेषु पुष्पामोदानुलेपिषु ॥१०२॥
 शिलातलेषु विश्रब्ध निविष्ट. सेनया समम् । करणीय च निःशेष स चक्रे वपुषु सुखम् ॥१०३॥
 ततो नानाप्रसूनाना हससारसनादिनाम् । विमलोदकपूर्णाना सरसां मीनकम्पिनाम् ॥१०४॥
 किरता पुष्पनिकर तरुणां च महात्विषाम् । जयशब्दमिवोद्गतं कुर्वता पक्षिनिःस्वनैः ॥१०५॥
 नानारत्नचिताना च भूभागाना सुशोभया । युक्त भ्रमति स द्वीपमितश्चेतश्च तं सुखी ॥१०६॥
 तत. स विहरस्तस्मिन्वने नन्दनसन्निभे । यथेच्छ क्रीडतोऽपश्यद् वानरान् बहुविभ्रमान् ॥१०७॥
 अचिन्तयच्च दृष्टैता मृष्टेरतिविचित्रताम् । तिर्यग्योनिगता ह्येते कथ मानुषसन्निभाः ॥१०८॥
 वदन पाणिपाद च शेषांश्चावयवानमी । दधते मानुषार्कारांश्चेष्टा तेषां च सन्निभाम् ॥१०९॥
 ततरत्नैर्महती रन्तु प्रीतिरस्य समुच्छ्रिता । यथा स्थिरोऽयस्यौ राजा नितान्त प्रवर्णाकृतः ॥११०॥
 जगाद च समासन्नान् पुरुषान् वदनेर्क्षिणः । एतानानयत चिप्रमिति विस्मितमानसः ॥१११॥
 इत्युक्तैः गतगस्तस्य प्लवङ्गा गगनायनैः । उपनीताः प्रसोदेन कृतकेलिकलस्वनाः ॥११२॥
 सुशीलैस्तैरसौ साक रन्तु प्रवचते नृपः । नर्तयन् तालशब्देन बाहुभ्यां च परामृशन् ॥११३॥

नाना प्रकारके वृक्षोसे सुशोभित चहोंके प्रदेश नाना रङ्गके दिखाई देते थे । वे प्रदेश इतने सुन्दर थे कि उन्हें देखकर फिर स्वर्गके देखनेकी इच्छा नहीं रहती थी ॥१००॥ तोताओंके समान स्पष्ट बोलनेवाले चकोर और चकोरीका जो मैनाओंके साथ वार्तालाप होना था वह उस वानर-द्वीपमे अवसे बड़ा आश्चर्यका कारण था ॥१०१॥

तदनन्तर वह श्रीकण्ठ, नाना प्रकारके वृक्षोंकी छायामे स्थित, फूलोंकी सुगन्धिसे अनुलिप्त, रत्नमय तथा सुवर्णमय शिलातलोपर सेनाके साथ बैठा और वहीं उसने शरीरको सुख पहुँचानेवाले समस्त कार्य किये ॥१०२-१०३॥ तदनन्तर—जिनमे नाना प्रकारके पुष्प फूल रहे थे, हस और सारस पक्षी शब्द कर रहे थे, स्वच्छ जल भरा हुआ था और जो मछलियोंके संचारसे कुछ-कुछ कम्पित हो रहे थे ऐसे मालाओंकी, तथा फूलोंके समूहकी वर्षा करनेवाले, महाकान्तिमान्, और पक्षियोंकी बोलीके वहाने मानो जोर-जोरसे जय शब्दका उच्चारण करनेवाले वृक्षोंकी, एवं नाना प्रकारके रत्नोंसे व्याप्त भूभागो—प्रदेशोंकी सुपमासे युक्त उस वानर द्वीपमे श्रीकण्ठ जहाँतहाँ भ्रमण करता हुआ बहुत सुखी हुआ ॥१०४-१०६॥ तदनन्तर नन्दन वनके समान उस वनमे विहार करते हुए श्रीकण्ठने इच्छानुसार क्रीडा करनेवाले अनेक प्रकारके वानर देखे ॥१०७॥ सृष्टिकी इस विचित्रताको देखकर श्रीकण्ठ विचार करने लगा कि देखो ये वानर तिर्यञ्च योनिमे उत्पन्न हुए हैं फिर भी मनुष्यके समान क्यों हैं ? ॥१०८॥ ये वानर मुख, पैर, हाथ तथा अन्य अवयव भी मनुष्यके अवयवोंके समान ही धारण करते हैं । न केवल अवयव ही, इनकी चेष्टा भी मनुष्योंके समान है ॥१०९॥ तदनन्तर उन वानरोंके साथ क्रीडा करनेकी श्रीकण्ठके बहुत भारी इच्छा उत्पन्न हुई । यद्यपि वह स्थिर प्रकृतिका राजा था तो भी अत्यन्त उत्सुक हो उठा ॥११०॥ उसने विस्मित चित्त होकर मुखकी ओर देखनेवाले निकटवर्ती पुरुषोंको आज्ञा दी कि इन वानरोंको शीघ्र ही यहाँ लाओ ॥१११॥ कहनेकी देर थी कि विद्याधरोने सैकड़ों वानर लाकर उसके समीप खड़े कर दिये । वे सब वानर हर्षसे कल-कल शब्द कर रहे थे ॥११२॥ राजा श्रीकण्ठ उत्तम स्वभावके धारक उन वानरोंके साथ क्रीडा करने लगा । कभी वह ताली बजाकर उन्हें नचाता था, कभी अपनी भुजाओंसे उनका स्पर्श करता था और कभी

१. चकोरयुगलाम् । २. महत्विषाम् म० । ३. -मिवोद्गतं म० । ४. मानुषाकारा म० । ५. समुत्थिता म० । ६. वदनेक्ष्णः म० ।

वीक्षमाणः सितान् दन्तान् दाडिमीपुष्पलोहिते । अंबटीटे मुखे तेषां भास्वत्काञ्चनतारके ॥११४॥
यूकापनयन पश्यन् विनयेन परस्परम् । प्रेम्णा च कलह रम्य कृतखोत्कारनि स्वनम् ॥११५॥
शालिशूकसमच्छायांमृदिमातिशयान्वितान् । विधूतान् मृदुवातेन केशान् सीमन्तभाजिन ॥११६॥
कर्णान् विदूषकांसक्तश्रवणाकारधारिणः । नितान्तकोमलश्लक्ष्णानचलद्रुपा स्पृशन् ॥११७॥
विलोमानि नयल्लोमान्युदरे मुष्टमापिनि । उत्तिपश्च भ्रुवोऽपाङ्गदेशान् रेखावतस्तथा ॥११८॥
ततस्ते तेन बहवः पुरुपाणा समर्पिताः । मृष्टाशनादिभिः कर्तुं पोषण रतिहेतव ॥११९॥
प्राहयित्वा च तान् किष्कुमारोहदृष्टमानसः । ग्रावकृतैर्लताभिश्च निर्भरैस्तरुभिस्तथा ॥१२०॥
तत्रापश्यत् स विस्तीर्णं वैपम्यरहिता भुवम् । गुप्ता प्रान्ते महामानैर्ग्रावभिः सोन्नतद्रुमै ॥१२१॥
पुर तत्र महच्छेन ख्यात किष्कुपुराख्यया । निवेशितमरातीना मानसस्यापि दुर्गमम् ॥१२२॥
प्रमाण योजनान्यस्य चतुर्दश समन्तत । त्रिगुण परिवेषेण लेशतश्चाधिक भवेत् ॥१२३॥
समुखद्वारविन्यासा मणिकाञ्चनभित्तयः । प्रग्रीवकसमायुक्ता रत्नस्तम्भसमुच्छ्रिता ॥१२४॥
कपोतपाल्युपान्तेषु महानीलविनिर्मिता । रत्नभाभिर्निरस्तस्य ध्वान्तस्यैवानुकम्पिता ॥१२५॥

अनारके फूलके समान लाल, चपटी नाकसे युक्त एवं चमकीली सुनहली कनीनिकाओंसे युक्त उनके मुखमे उनके सफेद दाँत देखता था ॥११३-११४॥ वे वानर परस्परमे विनय पूर्वक एक दूसरेके जुएँ अलग कर रहे थे, और प्रेमसे खो खो शब्द करते हुए मनोहर कलह करते थे । राजा श्रीकण्ठने यह सब देखा ॥११५॥ उन वानरोके, वाल धानके छिलकेके समान पीले थे, अत्यन्त कोमल थे, मन्द-मन्द वायुसे हिल रहे थे और मँगसे सुशोभित थे । इसी प्रकार उनके कान विदूषकके कानोके समान कुछ अटपटा आकार धारणवाले, अत्यन्त कोमल और चिकने थे । राजा श्रीकण्ठ उनका बड़े प्रेमसे स्पर्श कर रहा था और इस मोहनी सुरसुरीके कारण उनके शरीर निष्कम्प हो रहे थे ॥११६-११७॥ उन वानरोके कुश पेटपर जो-जो रोम अस्तव्यस्त थे उन्हें यह अपने स्पर्शसे ठीक कर रहा था, साथ ही भौँहोको तथा रेखासे युक्त कटाक्ष-प्रदेशोको कुछ-कुछ ऊपरकी ओर उठा रहा था ॥११८॥ तदनन्तर श्रीकण्ठने प्रीतिके कारणभूत बहुतसे वानर मधुर अन्न पान आदिके द्वारा पोषण करनेके लिए सेवकोको सौंप दिये ॥११९॥ इसके बाद पहाड़के शिखरो, लताओं, निर्भरनो और वृक्षोंसे जिसका मन हरा गया था ऐसा श्रीकण्ठ उन वानरोके लिवाकर किष्कु पर्वतपर चढ़ा ॥१२०॥ वहाँ उसने लम्बी चौड़ी, विषमतारहित तथा अन्तमे ऊँचे-ऊँचे वृक्षोंसे सुशोभित उत्तुङ्ग पहाड़ोंसे सुरक्षित भूमि देखी ॥१२१॥ उसी भूमिपर उसने किष्कुपुर नामका एक नगर बसाया । यह नगर शत्रुओंके शरीरकी बात तो दूर रहे मनके लिए दुर्गम था ॥१२२॥ यह नगर चौदह योजन लम्बा चौड़ा था और इसकी परिधि-गोलाई बयालीस योजनसे कुछ अधिक थी ॥१२३॥ इस नगरमें विद्याधरोने महलोकी ऐसी-ऐसी ऊँची श्रेणियाँ बनाकर तैयार की थी कि जिनके सामने उत्तुङ्ग दरवाजे थे, जिनकी दीवाले मणि और सुवर्णसे निर्मित थीं, जो अच्छे-अच्छे बरण्डोंसे सहित थीं, रत्नोंके खम्भोपर खड़ी थीं । जिनकी कपोतपालीके समीपका भाग महानील मणियोंसे बना था और ऐसा जान पड़ता था कि रत्नोंकी कान्तिने जिस अन्धकारको सब जगहसे खदेड़कर दूर कर किया था मानो उसे यहाँ अनुकम्पा वश स्थान ही दिया गया था । जिन महलोंकी देहरी पद्मरागमणियोंसे निर्मित होनेके कारण लाल-लाल दिख रही थी इसलिए ऐसी जान पड़ती थीं मानो ताम्बूलके द्वारा जिसकी लाली बढ़ गई थी ऐसा ओठ ही धारण कर रहीं हों । जिनके दरवाजोंके ऊपर अनेक मोतियोंकी मालाएँ लटकाई गई थीं और जिनकी किरणोंसे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो अन्य भवनोंकी सुन्दरताकी हँसी ही उड़ा

१. वीक्षमाणः म०, ख० । २. नते । ३. कृतपोत्कारनिःस्वन ख० । ४. विदूषकान् सक्त क० ।
५. दृष्टमानसः म० । ६. कपोल-म० ।

देहलीपिण्डिकाभाग पद्मरागविनिर्मितम् । ताम्बूलेनेव सच्छायं धारयन्त्यो रदच्छदम् ॥१२६॥
 द्वारोपरि समायुक्तमुक्तादामांशुसम्पदा । हसन्य इव शेषाणां भवनानां सुरूपताम् ॥१२७॥
 शशाङ्कसदृशाकारैर्मणिभिः शिखराहितै । रजनीष्वपि कुर्वाणा सन्देह रजनीकरे ॥१२८॥
 चन्द्रकान्तमणिच्छायाकल्पितोदारचन्द्रिका । नानारत्नप्रभापक्तिसंदिग्धोत्तुङ्गतोरणा. ॥१२९॥
 मणिकुट्टिमविन्यस्तरत्नपद्मावलिक्रिया । पङ्क्तयस्तत्र गेहानां खेचरैर्विनिवेशिताः ॥१३०॥
 शुष्कसागरविस्तीर्णा मणिकाञ्चनवालुकाः । राजमार्गा. कृतास्तस्मिन् कौटिल्यपरिवर्जिता ॥१३१॥
 प्राकारस्तत्र विन्यस्तो रत्नच्छायाकृतावृत्तिः । शिखराग्रै. श्रिया दर्पात् सौधर्ममिव ताडयन् ॥१३२॥
 गोपुराणि च तुङ्गानि न्यस्तान्यत्र मरीचिभिः । मणीनां यानि लक्ष्यन्ते स्थगितानीव सर्वदा ॥१३३॥
 पुरन्दरपुराकारे पुरे तस्मिन् चिराय स । पद्मया सहितो रेमे शच्येव विबुधाधिप ॥१३४॥
 भद्रशालवने यानि तथा सौमनसे वने । नन्दने वा न तान्यस्य द्रव्याण्यापुर्दुरापताम् ॥१३५॥
 कदाचिदथ तत्रासौ तिष्ठन् प्रासादमूर्धनि । ब्रजन्त वन्दनाभक्त्या द्वीप नन्दीश्वरश्रुतिम् ॥१३६॥
 पाकशासनमैक्षिष्ट सत्रा देवैश्चतुर्विधैः । मुकुटाना प्रभाजालैः पिशङ्गितनभस्तलम् ॥१३७॥
 कुर्वन्त वधिर लोक समस्त तूर्यनिःस्वनैः । हस्तिभिर्वाजिभिर्हंसैर्भैरवैर्वृकैर्मृगैः ॥१३८॥
 अन्यैश्च विविधैर्यनैः परिवर्गैरधिष्ठितैः । अन्वीयमान दिव्येन गन्धेन व्याप्तविष्टपम् ॥१३९॥
 ततस्तेन श्रुत पूर्वं मुनिभ्यः सकथागतम् । स्मृतं नन्दीश्वरद्वीप नन्दनं स्वर्गवासिनाम् ॥१४०॥
 स्मृत्वा च विबुधैः सार्द्धमकरोद् गमने मतिम् । खेचरैश्च सम सर्वैः समारूढो मरुत्पथम् ॥१४१॥
 स गच्छन् क्रौञ्चयुक्तेन विमानेन सहाङ्गनः । मानुषोत्तरशैलेन निवारितगति. कृत. ॥१४२॥

रहीं हों। शिखरोके ऊपर चन्द्रमाके समान आकारवाले मणि लगे हुए थे उनसे जो रात्रिके समय असली चन्द्रमाके विषयमे संशय उत्पन्न कर रहे थे। अर्थात् लोग संशयमे पड़ जाते थे कि असली चन्द्रमा कौन है? चन्द्रकान्त मणियोंकी कान्तिसे जो भवन उत्तम चोंदनीकी शोभा प्रकट कर रहे थे तथा जिनमे लगे नाना रत्नोंकी प्रभासे ऊँचे-ऊँचे तोरण द्वारोका सन्देह हो रहा था जिनके मणिनिर्मित फर्शोंपर रत्नमयी कमलोके चित्राम किये गये थे ॥१२४-१३०॥ उस नगरमे कुटिलतासे रहित—सीधे ऐसे राजमार्ग बनाये गये थे जिनमे कि मणियों और सुवर्णकी धूलि बिखर रही थी तथा जो सूखे सागरके समान लम्बे-चौड़े थे ॥१३१॥ उस नगरमे ऊँचे-ऊँचे गोपुर बनाये गये थे जो मणियोंकी किरणोंसे सदा आच्छादितसे रहा करते थे ॥१३२॥ इन्द्रपुरके समान सुन्दर उस नगरमे राजा श्रीकण्ठ अपनी पद्माभा प्रियाके साथ, इन्द्र इन्द्राणीके समान चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा ॥१३३॥ भद्रशालवन, सौमनसवन तथा नन्दनवनमें ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो उसे दुर्लभ रही हो ॥१३४॥

अधानन्तर किसी एक दिन राजा श्रीकण्ठ महलकी छतपर बैठा था उसी समय नन्दीश्वर द्वीपकी चन्दना करनेके लिए चतुर्विध देवोंके साथ इन्द्र जा रहा था। वह इन्द्र मुकुटोंकी कान्तिसे आकाशको पीतवर्ण कर रहा था, तुरही बाजोंके शब्दसे समस्त लोकको वधिर बना रहा था, अपने-अपने स्वामियोंसे अधिष्ठित हाथी, घोड़े, हंस, मेढा, ऊँट, भेड़िया तथा हरिण आदि अन्य अनेक वाहन उसके पीछे-पीछे चल रहे थे, और उसकी दिव्य गन्धसे समस्त लोक व्याप्त हो रहा था ॥१३५-१३६॥ श्रीकण्ठने पहले मुनियोंके मुखसे नन्दीश्वरद्वीपका वर्णन सुना था सो देवोंको आनन्दित करनेवाला वह नन्दीश्वर द्वीप उसकी स्मृतिमे आ गया ॥१४०॥ स्मृतिमे आते ही उसने देवोंके साथ नन्दीश्वर द्वीप जानेका विचार किया। विचारकर वह समस्त विद्याधरोंके साथ आकाशमे आरूढ हुआ ॥१४१॥ जिसमे विद्यानिर्मित कौञ्चपक्षी जुते थे ऐसे विमानपर अपनी

अतिक्रान्तौस्ततो दृष्ट्वा मानुषोत्तरपर्वतम् । गोर्धाननिवहान् सर्वान् परमं शोकमागत ॥१४३॥
 परिदेवमथो चक्रे भग्नोत्साहो गतद्युतिः । हा कष्ट क्षुद्रशक्तीना मनुष्याणा धिगुन्नतिम् ॥१४४॥
 नन्दीश्वरे जिनेन्द्राणा प्रतिमानां महात्विषाम् । अकृत्रिमेण भावेन करिष्यामीति दर्शनम् ॥१४५॥
 पूजां च विविधैः पुष्पैर्धूपैर्गन्धैश्च हारिभिः । नमस्कार च शिरसा धराससक्तमौलिना ॥१४६॥
 ये कृता मन्दभाग्येन मया चारुमनोरथा । कथ ते कर्मभिर्भग्न्या अशुभैः पूर्वसचितै ॥१४७॥
 अथवा श्रुतमेवासीन्मया मानुषपर्वतम् । अतिक्रम्य न गच्छन्ति मानुषा इत्यनेकश ॥१४८॥
 तथापि श्रद्धया तन्मे नितान्त वृद्धियुक्तया । विस्मृत गन्तुसुद्धुक्तो यतोऽस्मि स्वल्पशक्तिक ॥१४९॥
 तस्मात् करोमि कर्माणि तानि यैरन्यजन्मनि । यातु नन्दीश्वर द्वीप गतिर्मे न विहन्यते ॥१५०॥
 इति निश्चित्य मनसा न्यस्य राज्यभरं सुते । अभून्महासुनिर्धैरस्त्यक्तसर्वपरिग्रह ॥१५१॥
 वज्रकण्ठस्तत सार्द्धं चारुण्या श्रियमुत्तमाम् । भुक्त्वा किष्कुपुरे रम्ये श्रत्वोपाख्यानक पितुः ॥१५२॥
 ऐश्वर्यं तनये क्षिप्त्वा प्राप देगम्बरी क्रियाम् । कीदृशं तदुपाख्यानमित्युक्तो गणभृज्जगौ ॥१५३॥
 वणिजौ भ्रातरावास्तां प्रीतौ स्त्रीभ्या वियोजितौ । कनीयान् दुर्विधो ज्येष्ठः स्वापतेयी गृहीतवाक् ॥१५४॥
 श्रेष्ठिन सगमादेव प्राप्तः श्रावकतां पराम् । मृगयाजीविना भ्रात्रा परम दुःखितोऽभवत् ॥१५५॥

प्रिया पद्माभाके साथ बैठकर राजा श्रीकण्ठ आकाशमार्गसे जा रहा था परन्तु जब मानुषोत्तर पर्वतपर पहुँचा तो उसका आगे जाना रुक गया ॥१४३॥ इसकी गति तो रुक गई परन्तु देवोंके समूह मानुषोत्तर पर्वतको उल्लंघन कर आगे निकल गये । यह देख श्रीकण्ठ परम शोकको प्राप्त हुआ ॥१४४॥ उसका उत्साह भग्न हो गया और कान्ति नष्ट हो गई । तदनन्तर वह विलाप करने लगा कि हाय-हाय क्षुद्रशक्तिके धारी मनुष्योकी उन्नतिको धिक्कार हो ॥१४५॥ 'नन्दीश्वर द्वीपमे जो जिनेन्द्र भगवान्की महाकान्तिशाली प्रतिमाएँ हैं मैं निश्चलभावसे उसके दर्शन करूँगा, नाना प्रकारके पुष्प, धूप और मनोहारी गन्धसे उनकी पूजा करूँगा तथा पृथ्वीपर मुकुट भुकाकर शिरसे उन्हें नमस्कार करूँगा' मुझ मन्दभाग्यने ऐसे जो सुन्दर मनोरथ किये थे वे पूर्वसचित अशुभ कर्मोंके द्वारा किस प्रकार भग्न कर दिये गये ? ॥१४६-१४७॥ अथवा यद्यपि यह बात मैंने अनेक बार सुनी थी कि मनुष्य मानुषोत्तर पर्वतका उल्लंघन कर नहीं जा सकते हैं तथापि अतिशय वृद्धिको प्राप्त हुई श्रद्धाके कारण मैं इस बातको भूल गया और अल्पशक्तिका धारी होकर भी जानेके लिए तत्पर हो गया ॥१४८-१४९॥ इसलिए अब मैं ऐसे कार्य करता हूँ कि जिससे अन्य जन्ममे नन्दीश्वर द्वीप जानेके लिए मेरी गति रोकनी न जा सके ॥१५०॥ ऐसा हृदयसे निश्चयकर श्रीकण्ठ, पुत्रके लिए राज्य सौंपकर, समस्त परिग्रहका त्यागी महामुनि हो गया ॥१५१॥

तदनन्तर श्रीकण्ठका पुत्र वज्रकण्ठ अपनी चारुणी नामक वल्लभाके साथ महा-मनोहर किष्कुपुरमें उत्कृष्ट राज्यलक्ष्मीका उपभोग कर रहा था कि उसने एक दिन वृद्धजनोंसे अपने पिताके पूर्वभव सुने । सुनते ही उसका वैराग्य बढ़ गया और पुत्रके लिए ऐश्वर्य सौंपकर उसने जिनदीक्षा धारण कर ली । यह सुनकर राजा श्रेणिकने गौतम गणधरसे पूछा कि श्रीकण्ठके पूर्वभवका वर्णन कैसा था जिसे सुनकर वज्रकण्ठ तत्काल विरक्त हो गया । उत्तरमे गणधर भगवान् कहने लगे ॥१५२-१५३॥ कि पूर्वभवमे दो भाई वणिक् थे, दोनोंमे परम प्रीति थी परन्तु स्त्रियोंने उन्हें जुदा-जुदा कर दिया । उनमे छोटा भाई दरिद्र था और बड़ा भाई धनसम्पन्न था । बड़ा भाई किसी सेठका आज्ञाकारी था सो उसके समागमसे वह श्रावक अवस्थाको प्राप्त हुआ परन्तु छोटा भाई शिकार आदि कुव्यसनोमे फँसा

१. ऐश्वर्यं म० । २. तनय म० । ३. प्रीति म० । ४. स्वापतेय धनमस्ति यस्य स स्वापतेयी धन-
 वानित्यर्थः । ५. गृहीतवान् ख० ।

१ अलीकस्वाहितस्वामिपुरुषस्य विसर्जने १ । परीक्ष्य भ्रातर प्रीत ददावस्मै महद्धनम् ॥१५६॥
 दुष्टा तत स्त्रिय त्यक्त्वा सगीर्यानुजबोधनम् । प्रव्रज्यायमभूद्विन्द्र' कनीयांस्तु शमी मृत. ॥१५७॥
 देवीभूयश्च्युतो जात' श्रीकण्ठस्तम्बबुद्धये । आत्मानं दर्शयन्निन्द्र' श्रीमान्नन्दीश्वरं गत. ॥१५८॥
 सुरेन्द्र वीक्ष्य पित्रा ते जातस्मरणमीयुपा । इदं कथितमस्माकमिति वृद्धास्तमूचिरे ॥१५९॥
 एतदाख्यानक श्रुत्वा वज्रकण्ठोऽभवन्मुनिः । इन्द्रायुधप्रभोऽप्येव न्यस्य राज्य शरीरजे ॥१६०॥
 तत इन्द्रमतो जातो मेरुस्तस्माच्च मन्दरः । समीरणगतिस्तस्मात्तस्मादपि रविप्रभ. ॥१६१॥
 ततोऽमरप्रभो जातस्त्रिकूटेन्द्रसुतास्य च । परिणेतु समानीता नाम्ना गुणवती शुभा ॥१६२॥
 अथासौ दर्पणच्छाये वेदीसम्बन्धिभूतले । मणिभिः कल्पित चित्र पश्यन्नाश्चर्यकारणम् ॥१६३॥
 भ्रमरालीपरिष्वक्तमारविद क्वचिद्धनम् । ऐन्दीवर वन चार्द्धपद्मेन्दीवरक तथा ॥१६४॥
 चञ्चूपात्तमृणालाना हसाना युगलानि च । क्रौञ्चानां सारसाना च तथाऽन्येषा पतत्रिणाम् ॥१६५॥
 रत्नचूर्णैरतिरत्नैः पञ्चवर्णसमन्वितैः । रचितान् खेचरस्त्रीभिः तत्रापश्यत् प्लवङ्गमान् ॥१६६॥
 स तान् दृष्ट्वा पर तोष जगामाम्बरगाधिप । मनोज्ञ प्रायशो रूप धीरस्यापि मनोहरम् ॥१६७॥
 अथ पाणिगृहीत्यस्य दृष्ट्वा तान् विकृताननान् । प्रत्यङ्गवेपथु प्राप्ता प्रचलः सर्वभूषणा ॥१६८॥

था । छोटे भाईकी इस दशासे बड़ा भाई सदा दुःखी रहता था ॥१५४-१५५॥ एक दिन उसने अपने स्वामीका एक सेवक छोटे भाईके पास भेजकर मूठ-मूठ ही अपने आहत होनेका समाचार भेजा । उसे सुनकर प्रेमसे भरा छोटा भाई दौड़ा आया । इस घटनासे बड़े भाईने परीक्षा कर ली कि यह हमसे स्नेह रखता है । यह जानकर उसने छोटे भाईके लिए बहुत धन दिया । धन देनेका समाचार जब बड़े भाईकी स्त्रीको मिला तो वह बहुत ही क्रुपित हुई । इस अनबनके कारण बड़े भाईने अपनी दुष्ट स्त्रीका त्याग कर दिया और छोटे भाईको उपदेश देकर ढीन्हा ले ली । समाधिसे मरकर बड़ा भाई इन्द्र हुआ और छोटा भाई शान्त परिणामोसे मरकर देव हुआ । वहाँसे च्युत होकर छोटे भाईका जीव श्रीकण्ठ हुआ । श्रीकण्ठको सम्बोधनेके लिए बड़े भाईका जीव जो वैभवशाली इन्द्र हुआ था अपने आपको दिखाता हुआ नन्दीश्वरद्वीप गया था । इन्द्रको देखकर तुम्हारे पिता श्रीकण्ठको जातिस्मरण हो गया । यह कथा मुनियोने हमसे कही थी ऐसा वृद्धजनोने वज्रकण्ठसे कहा ॥१५६-१५६॥

यह कथा सुनकर वज्रकण्ठ अपने वज्रप्रभ पुत्रके लिए राज्य देकर मुनि हो गया । वज्रप्रभ भी अपने पुत्र इन्द्रमतके लिए राज्य देकर मुनि हुआ । तदनन्तर इन्द्रमतसे मेरु, मेरुसे मन्दर, मन्दरसे समीरणगति, समीरणगतिसे रविप्रभ, और रविप्रभसे अमरप्रभ नामक पुत्र हुआ । अमरप्रभ लङ्काके धनीकी पुत्री गुणवतीको विवाहनेके लिए अपने नगर ले गया ॥१६०-१६२॥ जहाँ विवाहकी वेदी बनी थी वहाँकी भूमि दर्पणके समान निर्मल थी तथा वहाँ विद्याधरोकी स्त्रियो ने मणियोसे आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले अनेक चित्र बना रखे थे । कही तो भ्रमरोसे आलिङ्गित कमलोका वन बना हुआ था, कहीं नील कमलोका वन था, कहीं आधे लाल और नीले कमलोका वन था, कही चोचसे मृणाल दवाये हुए हंसोके जोड़े बने थे, और कहीं क्रौञ्च, सारस तथा अन्य पक्षियोके युगल बने थे । उन्हीं विद्याधरोने कही अत्यन्त चिकने पाँच वर्णके रत्नमयी चूर्णसे वानरोके चित्र बनाये थे सो इन्हें देखकर विद्याधरोका स्वामी राजा अमरप्रभ परम सन्तोषको प्राप्त हुआ सो ठीक ही है क्योंकि सुन्दररूप प्रायः कर धीर वीर मनुष्यके भी मनको हर लेता है ॥१६३-१६७॥ इधर राजा अमरप्रभ तो परम सन्तुष्ट हुआ, उधर वधू गुणवती विकृत मुखवाले उन वानरोको देखकर भयभीत हो गई । उसका प्रत्येक अङ्ग काँपने लगा, सब आभूषण

नि श्रेयदृश्यविभ्रान्ततारकाकुललोचना । दर्शयन्ती च रोमाञ्चप्रोगुदमादेहवद्भयम् ॥१६६॥
 स्वदोदयिन्दुमंथद्विसर्पचित्कालिका । भीररप्यतिसञ्चेष्टा प्राविगदभुजपङ्गरम् ॥१७०॥
 दृष्ट्वा यान् मुदितः पूर्वं तेभ्योऽकुप्यत् पुनर्वर । कान्तामिप्रायसामर्थात् सुरूपमपि नेयते ॥१७१॥
 ततोऽप्याववर्षात् केन विवाहे मम चित्रिता । कपयो विविधाकारा अमी वित्रासकारिणः ॥१७२॥
 नूनं कश्चिन्ममास्तेऽन्मिन् जनो मत्परमगत । क्षिप्रमन्विष्यतामेप करोम्यस्य वधं स्वयम् ॥१७३॥
 ततस्त्वं कोपगम्भीरगुहागह्वरवर्तिनम् । वर्षीयास्यो महाप्राज्ञा मधुर मन्त्रिणोऽनुचन् ॥१७४॥
 तात नास्मिन् जन कोऽपि विद्वेष्टा तव विद्यते । त्वयि वा यस्य विद्वेषः कुतस्तस्यात्ति जीवितम् ॥१७५॥
 स त्व भव प्रसन्नात्मा श्रूयतामत्र कारणम् । विवाहमङ्गले न्यस्ता यत प्लवगपङ्क्तय ॥१७६॥
 अन्वये भवतामानीच्छ्रीकण्ठो नाम विभ्रत । येनेद नाकसकाग मृष्ट किष्कुपुरोत्तमम् ॥१७७॥
 सकलन्याम्य देगन्म्य विविधाकारभाजिनः । अभवत् म नृपः सृष्टा प्रपञ्चः कर्मणामिव ॥१७८॥
 यस्याद्यापि वनान्तेषु लतागृहसुखस्थिता । गुणान् गायन्ति किन्नर्यः स्थानकं प्राप्य किन्नरा ॥१७९॥
 चञ्चलत्वसमुद्भूतमयशो येन शोधितम् । स्थिरप्रकृतिना लक्ष्म्या वासवोपमशक्तिना ॥१८०॥
 न एतान् प्रथम दृष्ट्वा वानरानत्र रूपिण । मानुपाकारसंयुक्तान् जगाम किल विस्मयम् ॥१८१॥
 रमे च मुदितोऽर्मीभिः सम विविधचेष्टितैः । मृष्टागनादिभिश्चामी नितान्तं सुस्थिता कृता ॥१८२॥

चञ्चल हो उठे, सबके देखते-देखते ही उसकी आँखोंकी पुतलियों भयसे घूमने लगीं, उसके सारे शरीरसे रोमाञ्च निकल आये और उनसे वह ऐसे जान पड़ने लगीं मानो शरीरधारी भयको ही दिखा रही हों । उसके ललाट पर जो तिलक लगा था वह स्वेदजलकी बूँदोंसे मिलकर फैल गया । यद्यपि वह भयभीत हो रही थी तो भी उसकी चेष्टाएँ उत्तम थीं । अन्तमे वह इतनी भयभीत हुई कि राजा अमरप्रभसे लिपट गई ॥१६८-१७०॥ राजा अमरप्रभ पहले जिन वानरोको देखकर प्रसन्न हुआ था अब उन्हीं वानरोके प्रति अत्यन्त क्रोध करने लगा सो ठीक ही है क्योंकि खीका अभिप्राय देखकर सुन्दर वस्तु भी रुचिकर नहीं होती ॥१७१॥ तदनन्तर उसने कहा कि हमारे विवाहमे अनेक आकारोंके धारक तथा भय उत्पन्न करनेवाले ये वानर किसने चित्रित किये हैं ? ॥१७२॥ निश्चित ही इम कार्यमे कोई मनुष्य मुझसे ईर्ष्या करनेवाला है सो शीघ्र ही उसकी खोज की जाय, मैं स्वयं ही उसका वध करूँगा ॥१७३॥ तदनन्तर राजा अमरप्रभको क्रोधरूपी गहरी गुहाके मध्य वर्तमान देखकर महाबुद्धिमान् वृद्ध मन्त्री मधुर शब्दोंमे कहने लगे ॥१७४॥ कि हे स्वामिन् ! इम कार्यमे आपसे द्वेष करनेवाला कोई भी नहीं है । भला, आपके साथ जिसका द्वेष होगा उसका जीवन ही कैसे रह सकता है ? ॥१७५॥ आप प्रसन्न हूजिये और विवाह-मङ्गलमे जिस कारणसे वानरोकी पङ्क्तियों चित्रित की गई है वह कारण सुनिये ॥१७६॥ आपके वंशमें एक श्रीकण्ठ नामका प्रसिद्ध राजा हो गया है जिसने स्वर्गके समान सुन्दर इस किष्कुपुर नामक उत्तम नगरकी रचना की थी ॥१७७॥ जिस प्रकार कर्मोंका मूल कारण रागादि प्रपञ्च है उमी प्रकार अनेक आकारको धारण करनेवाले इस देशका मूल कारण वही श्रीकण्ठ राजा है ॥१७८॥ वनोंके बीच निकुञ्जोंमे सुखसे बैठे हुए किन्नर उत्तमोत्तम स्थान पाकर आज भी उस राजाके गुण गाया करते हैं ॥१७९॥ जिसकी प्रकृति स्थिर थी तथा जो इन्द्रतुल्य पराक्रमका धारक था ऐसे उस राजाने चञ्चलताके कारण उत्पन्न हुआ लक्ष्मीका अपयश दूर कर दिया था ॥१८०॥ सुनते हैं कि वह राजा सर्व प्रथम इस नगरमे सुन्दर रूपके धारक तथा मनुष्यके समान आकारसे संयुक्त इन वानरोको देखकर आश्चर्यको प्राप्त हुआ था ॥१८१॥ वह राजा नाना प्रकारकी चेष्टाओंको धारण करनेवाले इन वानरोके साथ बड़ी प्रसन्नतासे क्रीडा करता था तथा उर्साने इन वानरोको मधुर आहार-पानी आदिके द्वारा सुखी किया था ॥१८२॥

तत प्रभृति ये जाता. कुले तस्य महाद्युते. । तस्य भक्त्या रतिं तेऽपि चक्रुरेभिर्नरोत्तमा. ॥१८३॥
 युष्माक पूर्वजैर्यस्मादमी मङ्गलवस्तुषु । प्रकल्पिता. ततस्तेऽपि मङ्गले सन्निधापिता. ॥१८४॥
 मङ्गलं यस्य यत्पूर्वं पुरुषैः सेवित कुले । प्रत्यवायेन सम्बन्धे निरासे तस्य जायते ॥१८५॥
 क्रियमाण तु तद्भक्त्या करोति शुभसम्पदम् । तस्मादासेव्यतामेतद्भवतापि सुचेतसा ॥१८६॥
 इत्युक्ते मन्त्रिभि. सान्त्व प्रत्युवाचामरप्रभ. । त्यजन् क्षणेन क्रोपोत्थविकारं वदनापितम् ॥१८७॥
 मङ्गलं सेविता. पूर्वैर्यद्यस्माकममी ततः । किमित्यालिखिता भूमौ यस्यां पादादिसगमः ॥१८८॥
 नमस्कृत्य बहाम्येतान् शिरसा गुरुगौरवात् । रत्नादिघटितान् कृत्वा लक्षणांर्माँलिकोटिषु ॥१८९॥
 ध्वजेषु गृहशृङ्गेषु तोरणाना च मूर्द्धसु । शिरस्तु चातपत्राणामेतानाशु प्रयच्छत ॥१९०॥ ।
 ततस्त्वैस्तत्प्रतिज्ञाय तथा सर्वमनुष्ठितम् । यथा द्विर्गीच्यते या या तत्र तत्र प्लवङ्गमाः ॥१९१॥
 अथैतस्य सम देव्या भुञ्जानस्य परं सुखम् । विजयार्द्धजिगीपायामकरोन्मानसं पदम् ॥१९२॥
 प्रनस्थे च ततो युक्तः सेनया चतुरङ्गया । कपिध्वज. कपिच्छत्र. कपिमौलिः^३ कपिस्तुत ॥१९३॥
 श्रेणिद्वय विजित्यासौ रणे सत्त्वविमर्दिनि । आस्थापयद्दशे राजा जग्राह न धनं तयो ॥१९४॥
 अभिमानेन तुज्ञाना पुरुषाणामिदं व्रतम् । नमयन्त्येव यच्छत्रु द्रविणे विगताशयाः ॥१९५॥
 ततोऽसौ पुनरागच्छत् पुर किष्कु प्रकीर्तितम् । विजयार्द्धप्रधानेन जनेनानुगतायनः ॥१९६॥

तदनन्तर महाकान्तिके धारक राजा श्रीकण्ठके वंशमे जो उत्तमोत्तम राजा हुए वे भी उसकी भक्तिके कारण इन वानरोसे प्रेम करते रहे ॥१८३॥ चूँकि आपके पूर्वजोने इन्हें माङ्गलिक पदार्थोंमें निश्चित किया था अर्थात् इन्हें मङ्गल स्वरूप माना था इसलिए ये सब चित्रामरूपसे इस मंगलमय कार्यमें उपस्थित किये गये हैं ॥१८४॥ जिस कुलमें जिस पदार्थकी पहलेसे पुरुषोंके द्वारा मङ्गलरूपमें उपासना होती आ रही है यदि उसका तिरस्कार किया जाता है तो नियमसे विघ्न-बाधाएँ उपस्थित होती हैं ॥१८५॥ यदि वही कार्य भक्तिपूर्वक किया जाता है तो वह शुभ सम्पदाओंको देता है । हे राजन् ! आप उत्तम हृदयके धारक हैं—विचारशील है अतः आप भी इन वानरोंके चित्रामकी उपासना कीजिये ॥१८६॥ मन्त्रियोंके ऐसा कहनेपर राजा अमरप्रभने बड़ी सान्त्वनासे उत्तर दिया । क्रोधके कारण उसके मुखपर जो विकार आ गया था उत्तर देते समय उसने उस विकारका त्याग कर दिया था ॥१८७॥ उसने कहा कि यदि हमारे पूर्वजोने इनकी मङ्गल रूपसे उपासना की है तो इन्हें इस तरह पृथिवीपर क्यों चित्रित किया गया है जहाँ कि पैर आदिका संगम होता है ॥१८८॥ गुरुजनोंके गौरवसे मैं इन्हें नमस्कारकर शिरपर धारण करूँगा । रत्न आदिके द्वारा वानरोंके चिह्न बनवाकर मुकुटोंके अग्रभागमें, ध्वजाओंमें, महलोंके शिखरोंमें, तोरणोंके अग्रभागमें तथा छत्रोंके ऊपर इन्हें शीघ्र ही धारण करो । इस प्रकार मन्त्रियोंको आज्ञा दी सो उन्होंने 'तथास्तु' कहकर राजाकी आज्ञानुसार सब कुछ किया । जिस दिशामें देखो उसी दिशामें वानर ही वानर दिखाई देते थे ॥१८९-१९१॥

अथानन्तर रानीके साथ परम सुखका उपभोग करते हुए राजा अमरप्रभके मनमें विजयार्ध पर्वतको जीतनेकी इच्छा हुई सो चतुरङ्ग सेनाके साथ उसने प्रस्थान किया । उस समय उसकी ध्वजामें वानरोंका चिह्न था और सब वानरवंशी उसकी स्तुति कर रहे थे ॥१९२-१९३॥ प्राणियोंका मान मर्दन करनेवाले युद्धमें दोनों श्रेणियोंको जीतकर उसने अपने वश किया पर उनका धन नहीं ग्रहण किया ॥१९४॥ सो ठीक ही है क्योंकि अभिमानी मनुष्योंका यह व्रत है कि वे शत्रुको नम्रीभूत ही करते हैं, उसके धनकी आकांक्षा नहीं करते ॥१९५॥ तदनन्तर विजयार्द्ध पर्वतके प्रधान पुरुष जिसके पीछे-पीछे आ रहे थे ऐसा राजा अमरप्रभ दिग्विजय कर

आधिपत्यं समस्तानां प्राप्य विद्याभूतामसौ । निश्चला बुभुजे लक्ष्मीं निगडैरिव मयुताम् ॥१६७॥
 ततस्तस्य सुतो जातः कपिकेतुरभिख्यया । श्रीप्रभा कामिनी यस्य बभूव गुणधारिणी ॥१६८॥
 ततो विक्रमसपन्न स तं वीक्ष्य शरीरजम् । राज्यलक्ष्यां समायोज्य निरगाद् गृहवन्धनात् ॥१६९॥
 दत्त्वा प्रतिवलास्याय लक्ष्मीं सोऽपि विनिर्ययी । प्रायशो विपवल्लीव दृष्टा पूर्वैर्नृपद्युति ॥२००॥
 पूर्वापार्जितपुण्यानां पुरुषाणां प्रयत्नतः । सजातासु न लक्ष्मीषु भावः संजायते महान् ॥२०१॥
 यथैव ता समुत्पन्नास्तेषामल्पप्रयत्नतः । तथैव त्यजतामेषां पीडा तासु न जायते ॥२०२॥
 तथा कथञ्चिदासाद्य सन्तो विपयजं सुखम् । तेषु निर्वेदमागत्य वाञ्छन्ति परम पदम् ॥२०३॥
 यन्नोपकरणं साध्यमात्मायत्तं निरन्तरम् । महदन्तेव निर्मुक्तं सुखं तत् को न वाञ्छति ॥२०४॥
 सुतः प्रतिवलास्यापि गगनानन्दसज्जित । तस्यापि खेचरानन्दस्तस्यापि गिरिनन्दनः ॥२०५॥
 पूर्वं वानरक्रेतूना वंगे सत्या चित्रजिताः । आत्मीयै कर्मभि प्राप्ताः स्वर्गं मोक्षं च मानवा ॥२०६॥
 वशानुसरणच्छाया मात्रमेतद्व्यकीर्त्यते । नामान्येषां समस्तानां शक्तः क परिकीर्तितुम् ॥२०७॥
 लक्षणं यस्य यल्लोके स तेन परिकीर्त्यते । सेवकं सेवया युक्तः कर्षकं कर्षणात्तया ॥२०८॥
 धानुष्को धनुषो योगाद् धार्मिको धर्मसेवनात् । क्षत्रियः क्षततस्त्राणाद् ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यतः ॥२०९॥
 इक्ष्वाकवो यथा चैते नमेश्च विनमेस्तथा । कुले विद्याधरा जाता विद्याधरणयोगतः ॥२१०॥

किष्कु नगर वापिस आया ॥१६६॥ इस प्रकार समस्त विद्याधरोंका आधिपत्य पाकर उसने
 चिर काल तक लक्ष्मीका उपभोग किया । लक्ष्मी चञ्चल थी सो उसने वेड़ी डालकर ही मानों
 उसे निश्चल बना दिया था ॥१६७॥

तदनन्तर राजा अमरप्रभके कपिकेतु नामका पुत्र हुआ । उसके अनेक गुणोंको धरनेवाली
 श्रीप्रभा नामकी रानी थी ॥१६८॥ पुत्रको पराक्रमी देख राजा अमरप्रभ उसे राज्यलक्ष्मी
 सौंपकर गृहरूपी बन्धनसे बाहर निकला ॥१६९॥ तदनन्तर कपिकेतु भी प्रतिवला नामक पुत्रके
 लिए राज्यलक्ष्मी देकर घरसे चला गया सो ठीक ही है क्योंकि पूर्व पुरुष राज्यलक्ष्मीको प्रायः
 विषकी वेलके समान देखते थे ॥२००॥ जिन्होंने पूर्व पर्यायमें पुण्य उपार्जित किया है ऐसे
 पुरुषोंका प्रयत्नोपार्जित लक्ष्मीमें बड़ा अनुराग नहीं होता ॥२०१॥ पुण्यात्मा मनुष्योंको चूँकि
 लक्ष्मी थोड़े ही प्रयत्नसे अनायास ही प्राप्त हो जाती है इसलिए उसका त्याग करते हुए उन्हें पीडा
 नहीं होती ॥२०२॥ सत्पुरुष, विषय सम्बन्धी सुखको किसी तरह प्राप्त करते भी हैं तो उससे
 शीघ्र ही विरक्त हो परम पद—मोक्षकी इच्छा करने लगते हैं ॥२०३॥ जो सुख उपकरणोंके
 द्वारा साध्य न होकर आत्माके आधीन है, अन्तर रहित है, महान् है तथा अन्तसे रहित है
 उस सुखकी भला कौन नहीं इच्छा करेगा ॥२०४॥ प्रतिवलाके गगनानन्द नामका पुत्र हुआ,
 गगनानन्दके खेचरानन्द और खेचरानन्दके गिरिनन्दन पुत्र हुआ ॥२०५॥ इस प्रकार ध्वजामें
 वानरोंका चिह्न धारण करनेवाले—वानरवंशियोंके वंशमें संख्यातीत राजा हुए सो उनमें अपने-
 अपने कर्मानुसार कितने ही स्वर्गको प्राप्त हुए और कितने ही मोक्ष गये ॥२०६॥ गौतम स्वामी
 राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि राजन् ! यह तो वंशमें उत्पन्न हुए पुरुषोंका छाया मात्रका निरूपण
 है । इन सब पुरुषोंका नामोल्लेख करनेके लिए कौन समर्थ है ? ॥२०७॥ लोकमें जिसका
 जो लक्षण होता है उसका उसी लक्षणसे उल्लेख होता है । जैसे सेवा करनेवाला सेवक, खेती
 करनेवाला किसान, धनुष धारण करनेवाला धानुष्क, धर्म सेवन करनेवाला धार्मिक, दुःखी
 जीवोंकी रक्षा करनेवाला क्षत्रिय और ब्रह्मचर्य धारण करनेवाला ब्राह्मण कहा जाता है । जिस
 प्रकार इक्ष्वाकु वंशमें उत्पन्न हुए पुरुष इक्ष्वाकु कहलाते हैं और नमि-विनमिके वंशमें उत्पन्न हुए

परित्यज्य नृपो राज्यं श्रमणो जायते महान् । तपसा प्राप्य सम्बन्धं तपो हि श्रम उच्यते ॥२११॥
 अथ तु व्यक्त एवास्ति शब्दोऽन्यत्र प्रयोगवान् । यष्टिहस्तो यथा यष्टि. कुन्त. कुन्तकरस्तथा ॥२१२॥
 मञ्चस्था पुरुषा मञ्चा यथा च परिकीर्तिता । साहचर्यादिभिर्धर्मैरेवमाद्या उदाहृता ॥२१३॥
 तथा वानरचिह्नेन वृत्रादिविनिवेशिना । विद्याधरा गता स्याति वानरा इति विष्टपे ॥२१४॥
 श्रेयसो देवदेवस्य वासुपूज्यस्य चान्तरे । अमरप्रभसज्ञेन कृत वानरलक्षणम् ॥२१५॥
 तत्कृतात् सेवनाज्ञाता जेषा अपि तथाक्रिया । परा हि कुरुते प्रीतिं पूर्वाचरितसेवनम् ॥२१६॥
 एवं सक्षेपत प्रोक्त कपिवशसमुद्भव । प्रवक्ष्यामि परां वार्तामिमा श्रेणिक तेऽधुना ॥२१७॥
 महोदधिरवो नाम खेचराणामभूत् पति । कुले वानरकेतूना किष्कुनांमिनि पुरुत्तमे ॥२१८॥
 विद्युत्प्रकाशा नामास्य पत्नी स्त्रीगुणसम्पदाम् । निधानमभवद् भावगृहीतपतिमानसा ॥२१९॥
 रामाणामभिरामाणां शतशो योपरि स्थिता । सांभाग्येन तु रूपेण विज्ञानेन तु कर्मभि ॥२२०॥
 पुत्राणा गतमेतस्य साष्टक वीर्यशालिनाम् । येषु राज्यभर न्यस्य स भोगान् वृशुजे सुखम् ॥२२१॥
 मुनिसुव्रतनाथस्य तीर्थे य परिकीर्तितः । व्यापारैरद्भुतैर्नित्यमनुरजितखेचरः ॥२२२॥
 लङ्कायां स तदा स्वामी रत्नोवंशनभोविद्यु । विद्युत्केश इति स्यातो वभूव जनताप्रियः ॥२२३॥
 गन्यागमनसवृद्धमभूत् प्रेम पर तयोः । यतश्चित्तमभूदेकं पृथक्त्व देहमात्रतः ॥२२४॥
 तद्विक्रेशस्य विज्ञाय श्रामण्यमुदधिस्वनः । श्रमणन्व परिप्राप्त परमार्थविशारदः ॥२२५॥

पुरुष विद्या धारण करनेके कारण विद्याधर कहे गये हैं । जो राजा राज्य छोड़कर तपके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं वे श्रमण कहलाते हैं क्यों कि श्रम करे सो श्रमण और तपश्चरण ही श्रम कहा जाता है ॥२०८-२११॥ इसके सिवाय यह बात तो स्पष्ट ही है कि शब्द कुल्ल है और उसका प्रयोग कुल्ल अन्य अर्थमें होता है जैसे जिसके हाथमें यष्टि है वह यष्टि, जिसके हाथमें कुन्त है वह कुन्त और जो मञ्चपर बैठा है वह मञ्च कहलाता है । इस तरह साहचर्य आदि धर्मों के कारण शब्दोंके प्रयोगमें भेद होता है इसके उदाहरण दिये गये हैं ॥२१२-२१३॥ इसी प्रकार जिन विद्याधरोंके छत्र आदिमें वानरके चिह्न थे वे लोकमें 'वानर' इस प्रसिद्धिको प्राप्त हुए ॥२१४॥ देवाधिदेव श्रेयान्सनाथ और वासुपूज्य भगवान्के अन्तरालमें राजा अमरप्रभने अपने मुकुट आदिमें वानरका चिह्न धारण किया था सो उसकी परम्परामें जो अन्य राजा हुए वे भी ऐसा ही करते रहे । यथार्थमें पूर्वजोंकी परिपाटीका आचरण करना परम प्रीति उत्पन्न करता है ॥२१५-२१६॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! इस तरह संक्षेपसे वानर-वंशकी उत्पत्ति कही है अब एक दूसरी बात कहता हूँ सो सुन ॥२१७॥

अथानन्तर किष्कुनामक उत्तम नगरमें इसी वानर-वंशमें महोदधि नामक विद्याधर राजा हुआ । इसकी विद्युत्प्रकाशा नामकी रानी थी जो स्त्रियोंके गुणरूपी सम्पदाओंकी मानो खजाना थी । उसने अपनी चेष्टाओंसे पतिका हृदय वश कर लिया था, वह सौभाग्य, रूप, विज्ञान तथा अन्य चेष्टाओंके कारण सैकड़ों सुन्दरी स्त्रियोंकी शिरोमणि थी ॥२१८-२२०॥ राजा महोदधिके एक सौ आठ पराक्रमी पुत्र थे सो उनपर राज्यभार सौंपकर वह सुखसे भोगोंका उपभोग करता था ॥२२१॥ मुनिसुव्रत भगवान्के तीर्थमें राजा महोदधि प्रसिद्ध विद्याधर था वह अपने आश्चर्यजनक कार्योंसे सदा विद्याधरोंको अनुरक्त रखता था ॥२२२॥ उसी समय लङ्कामें विद्युत्केश नामक प्रसिद्ध राजा था । जो राजस वंशरूप आकाशका मानो चन्द्रमा था और लोगोंका अत्यन्त प्रिय था ॥२२३॥ महोदधि और विद्युत्केशमें परम स्नेह था जो कि एक दूसरेके यहाँ आने-जानेके कारण परम वृद्धिको प्राप्त हुआ था । उन दोनोंका चित्त तो एक था केवल शरीर मात्रसे ही दोनोंमें पृथक्पना था ॥२२४॥ विद्युत्केशने मुनिदीक्षा धारण कर ली

तद्विक्रमः कृतो हेतोरश्रितो दुर्द्वाराकृतिम् । सपृष्टः श्रेणिकेनेवमुवाच गणनाथकः ॥२२६॥
 अन्यथाय तद्विक्रमः प्रमदाख्य मनोहरम् । निष्क्रान्तो रन्तुमुद्यान कृतकीडनकालयम् ॥२२७॥
 पद्मेन्द्रीवरगम्येऽसुरः सु स्वच्छवारिषु । उद्यत्तरङ्गभङ्गेषु क्रोणीमचारचारुषु ॥२२८॥
 दोलासु च महाहासु रचितामनभूमिषु । तुङ्गपादपद्मकासु दूरप्रेक्षाप्रवृद्धिषु ॥२२९॥
 सत सोपानमार्गेषु गलरञ्जितसालुषु । द्रुमगण्डपरीतेषु हेमपर्वतश्रेणुषु ॥२३०॥
 फलपुष्पमनोज्ञेषु चलःपल्लवगालिषु । लतालिङ्गितवेहेषु महारुहचयेषु च ॥२३१॥
 मुनिचोभनगामर्थ्ययुक्तविभ्रममपदाम् । पुष्पादिप्रचयासक्तपाणिपल्लवशोभिनाम् ॥२३२॥
 नितम्बवहनायासजानस्वेदाराद्युत्रिप्रपाम् । कुचकम्पोच्छ्रलस्थूलमुक्ताहारपुंसत्रिपाम् ॥२३३॥
 निमज्जदुःखवसूचमवलम्ब्यविराजिताम् । निःश्वसाकृष्टमत्तालिवारणाकुञ्चेतनाम् ॥२३४॥
 स्वस्ताम्बरसमालम्बिकराणां चलचक्षुषाम् । मध्यमास्थाय दाराणां स रेमे राक्षसात्रिषु ॥२३५॥
 अथ क्रीडनसक्ताया देव्यास्तस्य पयोधरा । श्रीचन्द्राख्यां दधानायाः कपिना नगकोटिभिः ॥२३६॥
 त्रिपाटितो स्वभावेन विनयप्रच्युतात्मना । नितान्त रेत्यमानेन रूपा विकृतचक्षुषा ॥२३७॥
 ममाश्वस्य ततः कान्ता प्रगल्भस्तनशोणिताम् । निहतो बाणमाकृष्य तद्विक्रमेण वानरः ॥२३८॥

यह समाचार जानकर परमार्थके जाननेवाले महोदधिने मुनिदीक्षा धारण कर ली ॥२२५॥ यह कथा सुनकर श्रेणिक राजाने गौतम गणधरसे पूछा कि हे स्वामिन् ! विद्युत्केशनं किम कारण कठिन दीक्षा धारण की । इसके उत्तरमें गणधर भगवान् इस प्रकार कहने लगे ॥२२६॥ कि किसी समय विद्युत्केश जिसमें क्रीडाके अनेक स्थान बने हुए थे वैसे अत्यन्त सुन्दर प्रमदनामक वनमें क्रीडा करनेके लिए गया था सो वहाँ कभी तो वह उन मगोवरामें क्रीडा करता था जो कमल तथा नील कमलासे मनोहर थे, जिनमें स्वच्छ जल भरा था, जिनमें बड़ी-बड़ी लहरें उठ रहीं थीं तथा नावोंके सचारसे महामनोहर दिखाई देते थे ॥२२७-२२८॥ कभी उन वेशकीमती मूलांपर मूलता था जिनमें बैठनेका अच्छा आसन बनाया गया था, जो ऊँचे वृक्षसे बंधे थे तथा जिनकी उज्जाल बहुत लम्बी होती थी ॥२२९॥ कभी उन सुवर्णमय पर्वतोंपर चढ़ता था जिनके ऊपर जानके लिए सीढियोंके मार्ग बने हुए थे, जिनके शिखर रत्नासे रञ्जित थे, और जो वृक्षोंके समूहमें वेष्टित थे ॥२३०॥ कभी उन वृक्षोंकी फुरमुटमें क्रीडा करता था जो फल और फूलोंसे मनोहर थे, जो हिलते हुए पल्लवोंसे सुशोभित थे और जिनके शरीर अनेक लताओंसे आलिङ्गित थे ॥२३१॥ कभी उन स्त्रियोंके बीच बैठकर क्रीडा करता था कि जिनके हाव-भाव-विलामरूप सम्पदाएँ मुनियोंको भी चोभित करनेकी सामर्थ्य रखती थीं, जो फूल आदि तोड़नेकी क्रियामें लगे हुए हस्तरूपी पल्लवोंसे शोभायमान थीं, स्थूल नितम्ब धारण करनेके कारण जिनके शरीरपर श्वेद जलकी बूँदें प्रकट हो रहीं थीं, स्तनोंके कम्पनसे ऊपरकी ओर उछलनेवाले बड़े-बड़े मोनियोंके हावसे जिनकी कान्ति बढ़ रही थी, जिसकी मूँदमें रेखाएँ कभी अन्तर्हित हो जाती थीं और कभी प्रकट दिखाई देती थीं ऐसी कमरसे जो सुशोभित थीं, श्वासोद्वासासे आकर्षित मत्त भौंगोंके निराकरण करनेमें जिनका चित्त व्याकुल था, जो नीचे खिसके हुए वस्त्रको अपने हाथसे थामे हुई थीं तथा जिनके नेत्र दृग्धर-उधर चल रहे थे । इस प्रकार राक्षसोंका राजा विद्युत्केश अनेक स्त्रियोंके बीच बैठकर क्रीडा कर रहा था ॥२३२-२३५॥ अथानन्तर राजा विद्युत्केशकी रानी श्रीचन्द्रा इधर क्रीडामें लीन थी उधर किमी वानरने आकर अपन नाखूनोंके अप्रभागसे उसके दोनों स्तन विदीर्ण कर दिये ॥२३६॥ जिस वानरने उसके स्तन विदीर्ण किये थे वह स्वभावसे ही अविनयी था, क्रोधसे अत्यन्त खेदको प्राप्त हो रहा था, उसके नेत्र विकृत दिखाई देते थे ॥२३७॥ तदनन्तर जिसके स्तनसे खून मड़ रहा था

१. कम्पोज्ज्वलत् म० । २. पुर म० । ३. विद्यमानेन म० ।

वेगेन स ततो गवा पत्तिनस्तत्र भूतले । तिष्ठन्ति मुनयो यत्र विहायस्तलचारिणः ॥२३६॥
 ततस्तत्रेपथुग्रस्त सत्राणं वीच्य वानरम् । मुनीनामनुकम्पाऽभूत् संसारस्थितिवेदिनाम् ॥२३७॥
 तस्मै पञ्चनमस्कारः सर्वत्यागसमन्वितः । धर्मदानसमुद्युक्तैरपदिष्टस्तपोधनैः ॥२३८॥
 ततः स विकृतां त्यक्त्वा तनुं वानरयोनिजाम् । महोदधिकुमारोऽभूत् क्षणेनोत्तमविग्रहः ॥२३९॥
 ततो यावदसौ हन्तुं खेचरोऽन्यान् समुद्यत । कर्पीस्तावदयं प्राप्तः कृतस्वतनुपूजनः ॥२४०॥
 हन्यमानां नरं क्रूरैर्दृष्ट्वा वानरमंहतिम् । चक्रे वैक्रियसामर्थ्यात् कर्पीनां महती चमूम् ॥२४१॥
 दंष्ट्राङ्कुरकरालैस्त्वैर्वदनैर्भ्रूविकारिभिः । मिन्दूरसदृशच्छायैः कृतभीषणनिःस्वनैः ॥२४२॥
 उत्क्षिप्य पर्वतान् केचित् केचिदुन्मूल्य पादपान् । आहत्य धरणीं केचित् पाणिनास्फाल्य चापरे ॥२४३॥
 क्रोधसंभारोद्गाह्ना दूरोत्प्लवनकारिणः । वभणुर्वानराध्यक्षं खेचरं भिन्नचेतसम् ॥२४४॥
 तिष्ठ तिष्ठ दुराचार मृत्योः सम्प्रति गोचरे । निहत्य वानरं पाप तवाद्य शरणं कुतः ॥२४५॥
 अमिधायेति तै सर्वं व्योम पर्वतपाणिभिः । व्याप्तं तथा यथा तस्मिन् सूचीभेदोऽपि नेच्यते ॥२४६॥
 ततो विस्मयमापन्नस्तद्विज्ञेशो व्यचिन्तयत् । नेदं बलं प्लवङ्गानां किमप्यन्यद्विद भवेत् ॥२४७॥
 ततो निरीहदेहोऽसौ माधुर्यमितया गिरा । वानरान्विनयेनेदमत्रवीक्षण्यपण्डितः ॥२४८॥
 सन्तो वदत के यूयं महाभासुरविग्रहा । न प्रकृत्या प्लवङ्गानां शक्तिरेषा समीक्ष्यते ॥२४९॥

ऐसी बल्लभाको सान्त्वना देकर उसने वाण द्वारा वानरको मार डाला ॥२३६॥ वायल वानर वेगसे भागकर वहाँ पृथ्वीपर पड़ा जहाँ कि आकाशगामी मुनिराज विराजमान थे ॥२३६॥ जिसके शरीरमें कँपकँपी छूट रही थी तथा वाण छिदा हुआ था ऐसे वानरको देखकर संसारकी स्थितिके जानकार मुनियोंके हृदयमें दया उत्पन्न हुई ॥२३७॥ उसी समय धर्मदान करनेमें तत्पर एवं तपस्वी धनके धारक मुनियोने उस वानरके लिए सब पदार्थोंका त्याग कराकर पञ्चनमस्कार मन्त्रका उपदेश दिया ॥२३८॥ उसके फलस्वरूप वह वानर योनिमें उत्पन्न हुए अपने पूर्वविकृत शरीरको छोड़कर क्षणभरमें उत्तम शरीरका धारी महोदधिकुमार नामक भवनवासी देव हुआ ॥२३९॥ तदनन्तर इधर राजा विद्युत्केश जब तक अन्य वानरोंको मारनेके लिए उद्यत हुआ तब तक अधिज्ञानसे अपना पूर्वभव जानकर महोदधिकुमार देव वहाँ आ पहुँचा । आकर उसने अपने पूर्व शरीरका पूजन किया ॥२४०॥ दुष्ट मनुष्योंके द्वारा वानरोंके समूह मारे जा रहे हैं यह देख उसने विक्रियाकी सामर्थ्यसे वानरोंकी एक बड़ी भारी सेना बनाई ॥२४१॥ उन वानरोंके मुख दाँदोंसे विकराल थे, उनकी भौंहें चढ़ी हुई थीं, सिन्दूरके समान लाल-लाल उनका रङ्ग था और वे भयंकर शब्द कर रहे थे ॥२४२॥ कोई वानर पर्वत उखाड़कर हाथमें लिये थे, कोई वृक्ष उखाड़कर हाथमें धारण कर रहे थे, कोई हाथोंसे जमीन कूट रहे थे और कोई पृथ्वी फुला रहे थे ॥२४३॥ क्रोधके भारसे जिनके अङ्ग महारुद्र—महाभयकर दिख रहे थे और जो दूर-दूर तक लम्बी छलांग भर रहे थे ऐसे मायामयी वानरोंने अतिशय क्रुपित वानरवंशी राजा विद्युत्केश विद्याधरसे कहा ॥२४४॥ कि अरे दुराचारी ! ठहर-ठहर, तब तू मृत्युके वश आ पड़ा है, अरे पापी ! वानरको मारकर अब तू किसकी शरणमें जायगा ? ॥२४५॥ ऐसा कहकर हाथोंमें पर्वत धारण करनेवाले उन मायामयी वानरोंने समस्त आकाशको इस प्रकार व्याप्त कर लिया कि सुई रखनेको भी स्थान नहीं दिखाई देता था ॥२४६॥ तदनन्तर आश्चर्यको प्राप्त हुआ विद्युत्केश विचार करने लगा कि यह वानरोंका बल नहीं है, यह तो कुछ और ही होना चाहिए ॥२४७॥ तब शरीरकी आशा छोड़ नीतिशास्त्रका पण्डित विद्युत्केश मधुरवाणी द्वारा विनयपूर्वक वानरोंसे बोला ॥२४८॥ कि हे सत्पुरुषो ! कहो आप लोग कौन हो ? तुम्हारे शरीर अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे हैं,

ततस्तं विनयोपेत दृष्ट्वा खेचरपुङ्गवम् । महोदधिकुमारेण वाक्यमेतदुदाहृतम् ॥२५३॥
 तिर्यग्जातिस्वभावेन नितान्तं चपलस्त्वया । अपराद्ध स्वजायाया हतो योऽसौ प्लवङ्गम ॥२५४॥
 सोऽह साधुप्रसादेन सम्प्राप्तो देवतामिमाम् । महाशक्तिसमायुक्तां यथेच्छावाससपदाम् ॥२५५॥
 विभूति मम पश्य त्वमिति चोक्त्वा परा श्रियम् । स तस्मै प्रकटीचक्रे महोदधिसुरोचिताम् ॥२५६॥
 ततोऽसौ वेपथु प्राप्तो भयात् सर्वशरीरगम् । विदीर्णहृदयो दृष्टरोमा विभ्रान्तलोचनः ॥२५७॥
 महोदधिकुमारेण मा भैपीरिति चोदितः । जगाद गद्गद वाक्य किं करोमीति तु खितः ॥२५८॥
 ततस्तेन सुरेणासौ गुर्वन्तिकमुपाहृतः । ताभ्या प्रदक्षिणाकृत्य कृत तस्याह्विवन्दनम् ॥२५९॥
 वानरेण सता प्राप्त मया देवत्वमीदृशम् । गुरु भवन्तमासाद्य वत्सल सर्वदेहिनाम् ॥२६०॥
 देवेनेत्यभिधायासौ स्तुतो वाग्भि पुन पुन । अर्चितश्च महाक्षग्भिः पाठयो प्रणतस्तथा ॥२६१॥
 तदाश्चर्यं ततो दृष्ट्वा खेचरेण तपोधन । सष्टृ किं करोमीति जगाद वचनं हितम् ॥२६२॥
 चतुर्ज्ञानोपगृह्णात्मा ममास्त्यत्र समीपगः । गुरुस्तस्यान्तिक याम एष धर्म सनातन ॥२६३॥
 आचार्ये श्रियमाणे यस्तिष्ठत्यन्तिकगोचरे । करोत्याचार्यकं मूढ शिष्यता दूरमृत्सृजन ॥२६४॥
 नासौ गिष्यो न चाचार्यो निर्धर्मः स कुमारगः । सर्वतो भ्रंशमायातः स्वाचारात् साधुनिन्दित ॥२६५॥
 इत्युक्ते विस्मयोपेतौ जातौ देवनभश्चरौ । चक्रनुरचेतसीद च परिवारसमन्वितौ ॥२६६॥

तुम्हारी यह शक्ति वानरोकी स्वाभाविक शक्ति तो नहीं दिखाई पड़ती ॥२५२॥ तदनन्तर विद्याधरोके राजा विद्युत्केशको विनयावन्त देख कर महोदधिकुमारने यह वचन कहे ॥२५३॥ किं पशुजातिके स्वभावसे जो अत्यन्त चपल था तथा इसी चपलताके कारण जिसने तुम्हारी स्त्रीका अपराध किया था ऐसे जिस वानरको तूने मारा था वह मैं ही हूँ । साधुओंके प्रसादसे इस देवत्व पर्यायको प्राप्त हुआ हूँ । यह पर्याय महाशक्तिसे युक्त है तथा इच्छानुसार इसमें संपदाएँ प्राप्त होती है ॥२५४-२५५॥ तुम मेरी विभूतिको देखो यह कह कर उसने मनोदधि कुमारदेवके योग्य अपनी उत्कृष्ट लक्ष्मी उसके सामने प्रकट कर दी ॥२५६॥ यह देख भयसे विद्युत्केशका सर्व शरीर काँपने लगा, उसका हृदय विदीर्ण हो गया, रोमाञ्च निकल आये और आँखे घूमने लगी ॥२५७॥ तब महोदधिकुमारने कहा कि डरो मत । देवकी वाणी सुन, दुःखी होते हुए विद्युत्केशने गद्गद वाणीसे कहा कि मैं क्या करूँ ? जो आप आज्ञा करो सो करूँ ॥२५८॥ तदनन्तर वह देव राजा विद्युत्केशको जिन्होंने पञ्च नमस्कार मन्त्र दिया था उन गुरुके पास ले गया । वहाँ जाकर देव तथा राजा विद्युत्केश दोनोने प्रदक्षिणा दे कर गुरुके चरणोंमें नमस्कार दिया ॥२५९॥ महोदधिकुमार देवने मुनिराजकी यह कह कर बार-बार स्तुति की कि मैं यद्यपि वानर था तो भी समस्त प्राणियोंसे स्नेह रखने वाले आप ऐसे गुरुको पा कर मैंने यह देव पर्याय प्राप्त की है । यह कह कर उसने महामालाओंसे मुनिराजकी पूजा की तथा चरणोंमें नमस्कार किया ॥२६०-२६१॥ यह आश्चर्य देखकर विद्याधर विद्युत्केशने मुनिराजसे पूछा कि हे देव । मैं क्या करूँ ? मेरा क्या कर्तव्य है ? इसके उत्तरमें मुनिराजने निम्नांकित हितकारी वचन कहे कि चार ज्ञानके धारी हमारे गुरु पास ही विद्यमान हैं सो हम लोग उन्हींके समीप चले, यही सनातन धर्म है ॥२६२-२६३॥ आचार्यके समीप रहने पर भी जो उनके पास नहीं जाता है और स्वयं उपदेशादि देकर आचार्यका काम करता है वह मूर्ख शिष्य, शिष्यपनाको दूरसे ही छोड़ देता है । वह न तो शिष्य रहता है और न आचार्य ही कहलाता है, वह धर्मरहित है, कुमारगामी है, अपने समस्त आचारसे भ्रष्ट है और साधुजनोंके द्वारा निन्दनीय है ॥२६४-२६५॥ मुनिराजके ऐसा कहनेपर देव और विद्याधर

अहो परममाहात्म्यं तपसो भुवनातिगम् । मुनेरेवंविधस्यापि यदन्यो विद्यते गुरुः ॥२६७॥
 ततस्तस्योपकण्ठे ते साधुनाधिष्ठिता ययुः । देवाश्च व्योमयानाश्च धर्मोत्कण्ठितचेतसः ॥२६८॥
 गत्वा प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्यादरतो मुनिम् । नातिदूरे न चात्यन्तसमीपे स्थितिमाश्रिताः ॥२६९॥
 ततस्तां परमां मूर्तिं तपोराशिसमुत्थया । प्रज्वलन्तीं मुनेर्दीप्त्या दृष्ट्वा देवनभश्चराः ॥२७०॥
 चिन्तां कामपि संप्राप्ता धर्माचारसमुद्भवाम् । प्रफुल्लनयनाम्भोजा महाविनयसंगताः ॥२७१॥
 ततो देवनभोयानावज्जलिं न्यस्य मस्तके । पप्रच्छतुर्मुनिं धर्मं फलं चास्य यथोचितम् ॥२७२॥
 ततो जन्तुहितासङ्गनित्यप्रस्थितमानसः । संसारकारणासङ्गदूरीकृतसमीहितः ॥२७३॥
 सजलाम्भोदगम्भीरधीरया श्रमणो गिरा । जगाद परमं धर्मं जगतोऽभ्युदयावहम् ॥२७४॥
 तस्मिन् गदति तद्देशे लतामण्डपसंश्रिताः । ननृतुः शिखिसंघाता मेघनादविशङ्किनः ॥२७५॥
 समाधाय मनो धर्मः श्रूयतां सुरखेचरो । यथा जिनैः समुद्दिष्टो भुवनानन्दकारिभिः ॥२७६॥
 धर्मशब्दनमात्रेण बहवः प्राणिनोऽधमाः । अधर्ममेव सेवन्ते विचारजडचेतसः ॥२७७॥
 मार्गोऽयमिति यो गच्छेत् दिशमज्ञाय मोहवान् । द्राघीयसापि कालेन नेष्टं स्थानं स गच्छति ॥२७८॥
 कथाकल्पितधर्माख्यमधर्मं मन्दमानसाः । प्राणिघातादिभिर्जातं सेवन्ते विषयाश्रिताः ॥२७९॥
 ते तं भावेन संसेव्य मिथ्यादर्शनदूषिताः । तिर्यग्नरकदुःखानां प्रपद्यन्ते निधानताम् ॥२८०॥
 कुहेतुजालसंपूर्णग्रन्थाथैर्गुरुदण्डकैः । धर्मोपलिप्सया मूढान्ताडयन्ति नभस्तलम् ॥२८१॥

दोनों ही परम आश्चर्यको प्राप्त हुए । अपने अपने परिवारके साथ उन्होंने मनमें विचार किया कि अहो तपका कैसा लोकोत्तर माहात्म्य है कि ऐसे सर्वगुणसम्पन्न मुनिराजके भी अन्य गुरु विद्यमान हैं ॥२६६-२६७॥ तदनन्तर धर्मके लिए जिनका चित्त उत्कण्ठित हो रहा था ऐसे देव और विद्याधर उक्त मुनिराजके साथ उनके गुरुके समीप गये ॥२६८॥ वहाँ जाकर उन्होंने बड़े आदरके साथ प्रदक्षिणा देकर गुरुको नमस्कार किया और नमस्कारके अनन्तर न तो अत्यन्त दूर और न अत्यन्त पास किन्तु कुछ दूर हट कर बैठ गये ॥२६९॥ तदनन्तर तपकी राशिसे उत्पन्न दीप्तिसे देदीप्यमान मुनिराजकी उस उत्कृष्ट मुद्राको देख कर देव और विद्याधर धर्माचारसे समुद्भूत किसी अद्भुत चिन्ताको प्राप्त हुए । उस समय हर्ष और आश्चर्यसे सबके नेत्र-कमल प्रफुल्लित हो रहे थे तथा सभी महाविनयसे युक्त थे ॥२७०-२७१॥ तत्पश्चात् देव और विद्याधर दोनोंने हाथ जोड़ मस्तकसे लगाकर मुनिराजसे धर्म तथा उसके यथायोग्य फलको पूछा ॥२७२॥ तदनन्तर जिनका मन सदा प्राणियोंके हितमें लगा रहता था तथा जिनकी समस्त चेष्टाएँ संसारके कारणोंके संपर्कसे सदा दूर रहती थीं ऐसे मुनिराज सजल मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर वाणीसे जगत्का कल्याण करनेवाले उत्कृष्ट धर्मका निरूपण करने लगे ॥२७३-२७४॥ जब मुनिराज बोल रहे थे तब लतामण्डपमें स्थित मयूरोंके समूह मेघ गर्जनाकी शंका कर हर्षसे नृत्य करने लगे थे ॥२७५॥ मुनिराजने कहा कि हे देव और विद्याधरो ! संसारका कल्याण करनेवाले जिनेन्द्र भगवान्ने धर्मका जैसा स्वरूप कहा है वैसा ही मैं कहता हूँ आप-लोग मन स्थिर कर सुनो ॥२७६॥ जिनका चित्त विचार करनेमें जड़ है ऐसे बहुतसे अधम प्राणी धर्मके नाम पर अधर्मका ही सेवन करते हैं ॥२७७॥ जो मोही प्राणी गन्तव्य दिशाको जाने बिना 'यही मार्ग है' ऐसा समझ विरुद्धदिशामें जाता है वह दीर्घकाल वीत जाने पर भी इष्ट स्थान पर नहीं पहुँच सकता है ॥२७८॥ विचार करनेकी क्षमतासे रहित विषयलम्पटी मनुष्य, कथा-कहानियों द्वारा जिसे धर्म संज्ञा दी गई है ऐसे जीवघात आदिसे उत्पन्न अधर्मका ही सेवन करते हैं ॥२७९॥ मिथ्यादर्शनसे दूषित मनुष्य ऐसे अधर्मका अभिप्रायपूर्वक सेवनकर तिर्यञ्च तथा नरकगतिके दुःखोंके पात्र होते हैं ॥२८०॥ कुयुक्तियोंके जालसे परिपूर्ण ग्रन्थोंके अर्थसे मोहित

यद्यपि स्यात् क्वचिक्लिञ्चिद्धर्म^१ प्रति कुशासने । हिसादिरहिताचारे शरीरश्रमदेशिनि^२ ॥२८२॥
 सम्यग्दर्शनहीनत्वान्मूलच्छिन्न तथापि तत् । नाज्ञान क्षुद्रचारित्र तेषा भवति मुक्तये ॥२८३॥
 पार्थिवो लोष्ट्रलेशोऽपि वैदूर्यमपि पार्थिवम् । न पार्थिवत्वसामान्यात्तयोस्तुल्यं गुणादिकम् ॥२८४॥
 लोष्ट्रलेशसमो धर्मो मिथ्यादृग्भि प्रकीर्तित । वैदूर्यसदृशो जैनो धर्मसज्ञा तु सर्वगा ॥२८५॥
 धर्मस्य हि दया मूल तस्या मूलमहिसनम् । परिग्रहवतां पुसा हिंसन सततोद्भवम् ॥२८६॥
 तथा सत्यवचो धर्मस्तच्च यन्न परामुखम् । अदत्तादानमुक्तिश्च परनार्याश्च वर्जनम् ॥२८७॥
 द्रविणासिषु सतोपो हृषीकाणा निवारणम् । तनूकृति कपायाणा विनयो ज्ञानसेविनाम् ॥२८८॥
 व्रतमेतद् गृहस्थाना सम्यग्दर्शनचारिणाम् । आगाररहिताना तु शृणु धर्मं यथाविधि ॥२८९॥
 पञ्चोदारव्रतोत्तुङ्गमातङ्गस्कन्धवर्तिनः । त्रिगुसिद्धनीरन्ध्रकङ्कटच्छत्रविग्रहाः ॥२९०॥
 पांदातेन समायुक्ताः समित्या पञ्चभेदया । नानातपोर्महातीक्ष्णशस्त्रयुक्तमनस्करा ॥२९१॥
 वृत कपायसामन्तैर्मोहवारणवर्तिनम् । भवारारतिं विनिघ्नन्ति निरम्बरमहानृपा ॥२९२॥
 सर्वारम्भपरित्यागे सम्यग्दर्शनसगते । धर्मं स्थितोऽनगाराणामेव धर्मं समासत ॥२९३॥
 त्रिलोकश्रीपरिभ्रंसेधर्मोऽय हेतुता गत । एष एव पर प्रोक्तो मङ्गल पुरुषोत्तमै ॥२९४॥
 अन्य कस्तस्य कथ्येत धर्मस्य परमो गुण । त्रिलोकशिखर येन प्राप्यते सुमहासुखम् ॥२९५॥

प्राणी धर्म प्राप्त करनेकी इच्छासे बड़े-बड़े दण्डोंके द्वारा आकाशको ताडित करते हैं अर्थात् जिन कार्योंमें धर्मकी गन्ध भी नहीं उन्हें धर्म समझकर करते हैं ॥२८१॥ जिसमें प्रतिपादित आचार, हिसादि पापोसे रहित है तथा जिसमें शरीर-श्रम—कायक्लेशका उपदेश दिया गया है ऐसे किसी मिथ्याशासनमें भी यद्यपि थोड़ा धर्मका अंश होता है तो भी सम्यग्दर्शनसे रहित होनेके कारण वह निर्मूल ही है । ऐसे जीवोंका ज्ञानरहित क्षुद्र चारित्र मुक्तिका कारण नहीं है ॥२८२-२८३॥ मिट्टीका ढेला भी पार्थिव है और वैदूर्य मणि भी पार्थिव है सो पार्थिवत्व सामान्यकी अपेक्षा दोनोंके गुण आदिक एक समान नहीं हो जाते ॥२८४॥ मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा निरूपित धर्म मिट्टीके ढेलेके समान है और जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा निरूपित धर्म वैदूर्य मणिके समान है जब कि धर्म संज्ञा दोनोंमें ही समान है ॥२८५॥ धर्मका मूल दया है, और दयाका मूल अहिंसा रूप परिणाम है । परिग्रही मनुष्योंके हिंसा निरन्तर होती रहती है ॥२८६॥ दयाके सिवाय सत्य वचन भी धर्म है परन्तु सत्य वचन वह कहलाता है कि जिससे दूसरेको दुःख न हो । अदत्तादानका त्याग करना, परस्त्रीका छोड़ना, धनादिकमें सतोप रखना, इन्द्रियोंका निवारण करना, कपायोंको कृश करना और ज्ञानी मनुष्योंकी विनय करना, यह सम्यग्दृष्टि गृहस्थोंका व्रत अर्थात् धर्म है । अब गृहग्रहित मुनियोंके धर्मका विधिपूर्वक निरूपण करता हूँ सो सुनो ॥२८७-२८८॥ जो पञ्च महाव्रत रूपी उन्नत हाथीके स्कन्धपर सवार है, तीन गुप्ति रूपी मजवृत तथा निश्छिद्र कवचसे जिनका शरीर आच्छादित है, जो पञ्च समितिरूपी पैदल सिपाहियोंसे युक्त है, और जो नाना तपरूपी महातीक्ष्ण शस्त्रोंके समूहसे सहित हैं ऐसे दिगम्बर यति रूपी महाराजा, कपाय रूपी सामन्तोसे परिवृत तथा मोह रूपी हाथीपर सवार ससार रूपी शत्रुको नष्ट करते हैं ॥२८९-२९०॥ जब सब प्रकारके आरम्भका त्याग किया जाता है और सम्यग्दर्शन धारण किया जाता है तभी मुनियोंका धर्म प्राप्त होता है । यह संक्षेपमें धर्मका स्वरूप समझो ॥२९३॥ यह धर्म ही त्रिलोक सम्बन्धी लक्ष्मीकी प्राप्तिका कारण है । उत्तम पुरुषोंने इस धर्मको ही उत्कृष्ट मङ्गलस्वरूप कहा है ॥२९४॥ जिस धर्मके द्वारा

१. धर्मस्य लेशः धर्म प्रति (अव्ययीभावसमास) । २. -देशिने म०, ख० । ३. च म० । ४. न जान म० । ५. स तदोद्भवम् म० । ६. त्रिगुप्त म० । ७. पदातीना समूहः पादात तेन । ८. महीतीक्ष्ण म० । ९. धर्मस्थितानगाराणा -म० । १०. प्राप्ते धर्मोऽय म० ।

सागारेण जनः स्वर्गे भुङ्क्ते भोगान्महागुणान् । देवीनिवहमध्यस्थो मानसेन समाहृतान् ॥२६६॥
 निर्वाससां तु धर्मेण मोक्षं प्राप्नोति मानवः । अनौपम्यमनाबाध सुखं यत्रान्तवर्जितम् ॥२६७॥
 स्वर्गगास्तु पुनश्च्युत्वा प्राप्य दैगम्बरी क्रियाम् । द्वित्रैर्भैवैः प्रपद्यन्ते प्रकृष्टाः परम पदम् ॥२६८॥
 काकतालीययोगेन प्राप्ता अपि सुरालयम् । कुयोनिषु पुनः पापा भ्रमन्त्येव कुतीर्थिनः ॥२६९॥
 जैनमेवोत्तम वाक्य जैनमेवोत्तम तपः । जैव एव परो धर्मो जैनमेव पर मतम् ॥३००॥
 नगर व्रजतः पुंसो वृक्षमूलादिसगमः । नान्तरीयकतामेति यथा खेदनिवारणः ॥३०१॥
 प्रस्थितस्य तथा मोक्षं जिनशासनवर्त्मना । देवविद्याधरादिश्रीरनुपङ्गेण जायते ॥३०२॥
 विबुधेन्द्रादिभोगानां हेतुस्व यत्प्रपद्यते । जिनधर्मो न तच्चित्र ते ह्यस्मात् सुकृतादपि ॥३०३॥
 विपरीत यदेतस्माद् गृहिभ्रमणधर्मतः । चरित तस्य सज्ज्ञानमधर्म इति कीर्तितम् ॥३०४॥
 भ्रमन्ति येन तिर्यक्षु नानादुःखप्रदायिषु । वाहनात्ताडनाच्छेदाद्भेदाच्छीतोष्णसगमात् ॥३०५॥
 नित्यान्धकारयुक्तेषु नरकेषु च भूरिषु । तुषारपवनाघातकृतकम्पेषु केषुचित् ॥३०६॥
 स्फुरत्स्फुलिङ्गरौद्राग्निज्वालालीढेषु केषुचित् । नानाकारमहारावयन्त्रव्यासेषु केषुचित् ॥३०७॥
 सिंहव्याघ्रवृकश्येनगृह्ररुद्धेषु केषुचित् । चक्रक्रकचकुन्तासिमोचिवृक्षेषु केषुचित् ॥३०८॥

महासुखदायी त्रिलोकका शिखर अर्थात् मोक्ष प्राप्त हो जाता है उस धर्मका और दूसरा कौन उत्कृष्ट गुण कहा जावे ? अर्थात् धर्मका सर्वोपरि गुण यही है कि उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है ॥२६५॥ गृहस्थ धर्मके द्वारा यह मनुष्य स्वर्गमे देवीसमूहके मध्यमे स्थित हो संकल्प मात्रसे प्राप्त उत्तमोत्तम भोगोको भोगता है और मुनि धर्मके द्वारा उस मोक्षको प्राप्त होता है जहाँ कि इसे अनुपम, निर्वाध तथा अनन्त सुख मिलता है ॥२६६-२६७॥ स्वर्गगामी उत्कृष्ट मनुष्य स्वर्गसे च्युत होकर पुनः मुनिदीक्षा धारण करते हैं और दो तीन भवोंमे ही परम पद—मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ॥२६८॥ परन्तु जो पापी-मिथ्यादृष्टि जीव हैं वे काकतालीयन्यायसे यद्यपि स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं तो भी वहाँसे च्युत हो कुयोनियोमे ही भ्रमण करते रहते हैं ॥२६९॥ जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कथित वाक्य अर्थात् शास्त्र ही उत्तम वाक्य हैं, जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा निरूपित तप ही उत्तम तप है, जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा प्रोक्त धर्म ही परम धर्म है और जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा उपदिष्ट मत ही परम मत है ॥३००॥ जिस प्रकार नगरकी ओर जानेवाले पुरुषको खेद निवारण करनेवाला जो वृक्षमूल आदिका संगम प्राप्त होता है वह अनायास ही प्राप्त होता है उसी प्रकार जिन शासन रूपी मार्गसे मोक्षकी ओर प्रस्थान करनेवाले पुरुषको जो देव तथा विद्याधर आदिकी लक्ष्मी प्राप्त होती है वह अनुपङ्गसे ही प्राप्त होती है—उसके लिए मनुष्यको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है ॥३०१-३०२॥ 'जिनधर्म, इन्द्र आदिके भोगोका कारण होता है' इसमे आश्चर्यकी बात नहीं है क्योंकि इन्द्र आदिके भोग तो साधारण पुण्य मात्रसे भी प्राप्त हो जाते हैं ॥३०३॥ इस गृहस्थ और मुनिधर्मके विपरीत जो भी आचरण अथवा ज्ञान है वह अधर्म कहलाता है ॥३०४॥ इस अधर्मके कारण यह जीव वाहन, ताडन, छेदन, भेदन तथा शीत उष्णकी प्राप्ति आदि कारणोंसे नाना दुःख देनेवाले तिर्यञ्चोमे भ्रमण करता है ॥३०५॥ इसी अधर्मके कारण यह जीव निरन्तर अन्धकारसे युक्त रहनेवाले अनेक नरकोंमें भ्रमण करता है । इन नरकोंमें कितने ही नरक तो ऐसे हैं जिनमे ठण्डी हवाके कारण निरन्तर शरीर काँपता रहता है । कितने ही ऐसे हैं जो निकलते हुए तिलगोंसे भयंकर दिखनेवाली अग्निकी ज्वालाओंसे व्याप्त हैं । कितने ही ऐसे हैं जो नाना प्रकारके महाशब्द करनेवाले यन्त्रोंसे व्याप्त हैं । कितने ही ऐसे हैं जो विक्रियानिर्मित सिंह, व्याघ्र, वृक, वाज तथा गीध आदि जीवोंसे भरे हुए हैं ।

विलीनत्रिपुसोमादिपानत्रायिषु केषुचित् । तीक्ष्णतुण्डस्फुरद्गमचिक्रादिषु केषुचित् ॥३०६॥
 वृमिप्रकाशसम्मिश्रकपङ्केषु केषुचित् । परस्परसमुद्भूतवाधाहेतुषु केषुचित् ॥३१०॥
 पृथ्विवधेषु जीवानां सदा दुःखत्रिधायिषु । दुःखं यन्नरकेषु स्यात् क गच्छत्त्वपक्रांतितुम् ॥३११॥
 यतो यथा पुग भ्रान्तौ युवां दुःखासु योनिषु । तथा पर्यटनं भूय प्राप्स्यतो धर्मवर्जितौ ॥३१२॥
 इत्युक्तान्यां परिपृष्टस्तान्या भ्रमणसत्तमः । कथं कुयोनिषु भ्रान्तावावामिति मुने वद ॥३१३॥
 जन्मान्तरं ततोऽत्रोचत्तयो संयममण्डन । मनो निर्धीयतां वन्सावित्युक्त्वा मधुरं वच ॥३१४॥
 पर्यटन्तौ युवामत्र संसारे दुःखत्रायिनि । परस्परस्य कुर्वाणौ वधं मोहपरायणौ ॥३१५॥
 मानुष्यभवमायातौ कथंचित् कर्मयोगतः । अयं हि दुर्बलो लोके धर्मोपादानकारणम् ॥३१६॥
 व्याधस्तयोरभूदेनो विषये काशिनामनि । श्रावस्थ्यामपरोऽन्त्यापदे स्वैर्यमुपागतः ॥३१७॥
 सुयशोदत्तनामान्मां प्रवृज्यामाश्रितः क्षिती । चचार तपसा युक्तो महतात्यन्तरूपवान् ॥३१८॥
 ततस्त्वं सुस्थितं देशे काश्या प्राणविवर्जिते । पूजनायै समायाताः सम्यग्दृष्टिकुलाङ्गना ॥३१९॥
 स्त्रीभिस्ततः परीतं त व्याधोऽसौ वीच्य योगिनम् । अतश्चोद्वाग्मिरुग्राभि शस्त्रैः कुर्वन् विभीतिकाम् ॥३२०॥
 निर्लज्जो वस्त्रमुक्तोऽय स्नानवर्जितविग्रहः । मृगयायां प्रवृत्तस्य जातो मेऽमङ्गलं महत् ॥३२१॥
 वदत्येवं ततो व्याधे धनुर्मीपणकारिणि । मुनेः कलुपतां प्राप्तं ध्यानं दुःखेन संभृतम् ॥३२२॥
 इति वाचिन्वचत् क्रोधान्मुष्टिघातेन पापिनम् । कणशस्त्रूर्णयाम्येनं व्याधं रुचवचोमुचम् ॥३२३॥

कितने ही ऐसे हैं जो चक्र, करोंत, भाला, तलवार आदिकी वर्षा करनेवाले वृक्षांसे युक्त हैं । कितने ही ऐसे हैं जिनमें पिचलाया हुआ गंगा सीसा आदि पिचलाया जाता है । कितने ही ऐसे हैं जिनमें तीक्ष्णमुण्डवाली दुष्ट मक्खियाँ आदि विद्यमान हैं । कितने ही ऐसे हैं जिनमें रक्तक्री क्रीचमे कृमिके समान अनेक छोटे-छोटे जीव विलाविलाते रहते हैं और कितने ही ऐसे हैं जिनमें परस्पर—एक दूसरेके द्वारा दुःखके कारण उत्पन्न होते रहते हैं ॥३०६-३१०॥ इस प्रकारके सदा दुःखदायी नरकामे जीवोंको जो दुःख प्राप्त होता है उसे कहनेके लिए कौन समर्थ है ? ॥३११॥ जिस प्रकार तुम दोनोंने पहले दुःख देनेवाली अनेक कुयोनियोंमें भ्रमण किया था यदि अब भी तुम धर्मसे वञ्चित रहते हो तो पुनः अनेक कुयोनियोंमें भ्रमण करना पड़ेगा ॥३१२॥ मुनिराजके यह कहनेपर देव तथा विद्याधरने उससे पूछा कि हे भगवन् ! हम दोनोंने किस कारण कुयोनियोंमें भ्रमण किया है ? सो कहिए ॥३११-३१३॥

तदनन्तर—‘हे वत्सो ! मन स्थिर करो’ इस प्रकारके मधुर वचन कहकर संयमरूपी आभूषणसे विभूषित मुनिराज उन दोनोंके भवान्तर कहने लगे ॥३१४॥ इस दुःखदायी संसारमें मोहसे उन्मत्त हो तुम दोनों एक दूसरेका वध करते हुए चिरकाल तक भ्रमण करते रहे ॥३१५॥ तदनन्तर किसी प्रकार कर्मयोगसे मनुष्य भवको प्राप्त हुए । निश्चयसे संसारमें धर्मप्राप्तिका कारणभूत मनुष्यभवका मिलना अत्यन्त कठिन है ॥३१६॥ उनसे एक तो काशी देशमें श्रावस्ती नगरमें राजाका सुयशोदत्तनामा मन्त्री हुआ । सुयशोदत्त अत्यन्त रूपवान् था, कारण पाकर उसने दीक्षा ले ली और महातपश्चरणसे युक्त हो पृथ्वीपर विहार करने लगा ॥३१८॥ विहार करते हुए सुयशोदत्तमुनि काशी देशमें आकर किसी निर्जन्तु स्थानमें विराजमान हो गये । उनकी पूजाके लिए अनेक सम्यग्दृष्टि स्त्रियाँ आई थीं सो पापी व्याध, स्त्रियोंसे घिरे उन मुनिको देख तीक्ष्ण वचनरूपी शस्त्रोंसे भय उत्पन्न करता हुआ वेधने लगा ॥३१९-३२०॥ यह निर्लज्ज नग्न, तथा स्नानरहित मलिन शरीरका धारक, शिकारके लिए प्रवृत्त हुए मुक्तको महा अमङ्गलरूप हुआ है ॥३२१॥ धनुषसे भय उत्पन्न करनेवाला व्याध जब उक्त प्रकारके वचन कह रहा था तब दुःखके कारण मुनिका ध्यान कुछ कलुपताको प्राप्त हो गया ॥३२२॥ क्रोधवश वे विचारने लगे कि रुच वचन कहनेवाले इस पापी व्याधको मैं एक मुट्टीके प्रहारसे कण-कणकर चूर्ण कर डालता

ततः कापिष्ठगमनं मुनिना यदुपाजितम् । तदस्य क्रोधमंभागन् क्षणाद् भ्रममुपागतम् ॥३२४॥
 ततोऽसौ कालधर्मेण युक्तो ज्योति सुगोऽभवत् । ततः प्रच्युत्य जातस्त्वं विद्युत्केशो नमश्चर ॥३२५॥
 व्याधोऽपि सुचिर भ्रान्त्वा भवद्भ्रममहावने । लङ्कायां प्रमदोद्याने शाखासृगगतं गतः ॥३२६॥
 ततोऽसौ निहत स्यर्थं त्वया वाणेन चापलात । प्राप्य पञ्चनमस्कार जातोऽयं मागराम् ॥३२७॥
 एव ज्ञान्वा पुनर्वैरं मुञ्चत देवखेचरं । सा भृद् भूयोऽपि संसारे भवतो परिहिण्डनम् ॥३२८॥
 वाञ्छत नरमात्रेण शक्य यन्न प्रशंसितुम् । सिद्धानां तत्सुखं भद्रौ भद्राचारपरायणौ ॥३२९॥
 नमत प्रणत देवैराखण्डलपुरस्मरैः । भक्त्या परमया युक्तो मुनिसुव्रतर्माश्वरम् ॥३३०॥
 शरणं प्राप्य तं नार्थं निष्ठितान्मप्रतिक्रियम् । परकृत्यसमुद्युक्तं प्राप्स्यथ, परम सुखम् ॥३३१॥
 ततो मुनिमुखादित्याग्निर्गतेन वचोऽशुना । परं प्रवोद्यमानोतस्तद्विन्देशः सरोजवत् ॥३३२॥
 सुक्लेशसङ्गे पुत्रे सक्रमय्य निज पदम् । शिष्यतामगमद्दीरो सुनेरश्वरधारिणः ॥३३३॥
 सम्यग्दर्शनसंज्ञानसञ्चारित्रय ततः । समाराध्यगतं कालं चभ्रुवामरसत्तम ॥३३४॥
 ततः त्रिङ्गुपुरस्वामी महोदधिर्वाभिध । कान्ताभिः सहितस्तिष्ठन् विद्युत्सदृशदीप्तिभिः ॥३३५॥
 चन्द्रपादाश्रये रम्ये महाप्रासादमूर्द्धनि । चारुगाष्टीसुधास्वादं विन्दन् देवेन्द्रवसुखम् ॥३३६॥
 वेगेन महताग्न्य धवलाश्वरधारिणा । खेचरेणाग्रतो भूत्वा कृत्वा प्रणतिमादरात् ॥३३७॥
 निवेदितन्तद्विन्देशः प्रव्रज्यां कारणान्विताम् । प्राप्य भोगेषु निर्वेदं दीक्षणे मतिमादधे ॥३३८॥

हूँ ॥३२३॥ मुनिने तपश्चरणके प्रभावसे कापिष्ठ स्वर्गमें जाने योग्य जो पुण्य उपाजन किया था वह क्रोधके कारण क्षणभरमें नष्ट हो गया ॥३२४॥ तदनन्तर कुछ समताभावसे मरकर वह ज्योतिपीडेव हुआ । वहाँसे आकर तू विद्युत्केश नामक विद्याधर हुआ है ॥३२५॥ और व्याधका जीव चिरकाल तक संसाररूपी अटवीमें भ्रमणकर लङ्काके प्रमदवनमें वानर हुआ ॥३२६॥ सो चपलता करनेके कारण स्त्रीके निमित्त तूने इसे वाणसे मारा । वहाँ अन्तमें पञ्चनमस्कार मन्त्र प्राप्तकर महोदधि नामका देव हुआ है ॥३२७॥ ऐसा विचारकर हे देव विद्याधरो ! तुम दोनों अब अपना वैर-भाव छोड़ दो जिससे फिर भी संसारमें भ्रमण नहीं करना पड़े ॥३२८॥ हे भद्र-पुरुषो ! तुम भद्र आचरण करनेमें तत्पर हो इसलिए सिद्धोके उस सुखकी अभिलाषा करो जिसकी मनुष्यमात्र प्रशंसा नहीं कर सकता ॥३२९॥ इन्द्र आदि देव जिन्हें नमस्कार करते हैं ऐसे मुनिसुव्रत भगवान्को परमभक्तिसे युक्त हो नमस्कार करो ॥३३०॥ वे भगवान् आत्महितका कार्य पूर्ण कर चुके हैं । अब परहितकारी कार्य करनेमें ही संलग्न हैं सो तुम दोनों उनकी शरणमें जाकर परम सुखको प्राप्त करोगे ॥३३१॥

तदनन्तर मुनिराजके मुखरूपी सूर्यसे निर्गत वचनरूपी किरणोंसे विद्युत्केश कमलके समान परम प्रबोधको प्राप्त हुआ ॥३३२॥ फलस्वरूप वह धीर वीर, सुक्लेश नामक पुत्रके लिए अपना पद सौंप कर चारण ऋद्धि धारी मुनिराजका शिष्य हो गया अर्थात् उनके समीप उसने दीक्षा धारण कर ली ॥३३३॥ तदनन्तर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनोंकी आराधना कर वह अन्तमें समाधिके प्रभावसे उत्तम देव हुआ ॥३३४॥

इधर त्रिङ्गुपुरका स्वामी महोदधि, विजलीके समान कान्तिको धारण करने वाली स्त्रियोंके साथ, जिस पर चन्द्रमाकी किरणें पड़ रही थीं ऐसे महामनोहर उत्तुङ्ग भवनके शिखरपर सुन्दर गोष्ठीरूपी अमृतका स्वाद लेता हुआ इन्द्रके समान सुखसे बैठा था ॥३३५-३३६॥ कि उसी समय शुक्ल वस्त्रको धारण करने वाले एक विद्याधरने वड़े वेगसे आकर तथा सामने खड़े होकर आदर पूर्वक प्रणाम किया और तदनन्तर विद्युत्केश विद्याधरके दीक्षा लेनेका समाचार कहा ! समाचार सुनते ही महोदधिने भोगोंसे विरक्त होकर दीक्षा लेनेका विचार किया ॥३३७-३३८॥

प्रवजामीति चानेन गदितेऽन्त पुरान्महान् । उदतिष्ठद् गृहान्तेषु विलापः प्रतिनादवान् ॥३३६॥
तन्त्रीवशाद्विसन्मिश्रमृदङ्गध्वनितोपम । प्रविलाप सुनारीणा मुनेरप्यहरन्मनः ॥३४०॥
तवापितः परप्रीत्या तद्विक्रमेण बालकः । सुकेशो नवराज्यस्थ पालनीय सुनोऽधुना ॥३४१॥
इति विज्ञाप्यमानोऽपि युवराजेन सादरम् । नेत्रामेयजलस्युलधारावर्षविवाधिना ॥३४२॥
निष्कण्ठकमिदं राज्यं भुङ्क्व तावन्महागुणम् । पुरन्दर इवोदारैर्मौर्गैर्मानय यौवनम् ॥३४३॥
एव सचोद्यमानोऽपि मन्त्रिभिर्नमानसैः । बहुभेदान्युदाहृत्य शास्त्राणि नयकोविदैः ॥३४४॥
अनाथात्नाथ नः कृत्वा त्वन्मनः स्थितमानसान् । विहाय प्रस्थितः क्वासि लता इव महातरुः ॥३४५॥
इति प्रसाद्यमानोऽपि चरणानतमूर्द्धभिः । गुणोद्यमिप्रयकारीभिर्नारीभिः चरदश्रुभिः ॥३४६॥
गुणैर्नाथ तवोदारैर्बद्धा कालं चिरं सतीम् । प्रतिभज्य महालक्ष्मीं योजिता ललिता सदा ॥३४७॥
ब्रजसिं क्वेति सामन्तैर्गण्डान्तैरश्रुधारिभिः । समं विज्ञाप्यमानोऽपि नृपाटोपविवर्जितैः ॥३४८॥
छित्वा स्नेहमयान् पाशान् त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहम् । प्रतिचन्द्राभिधानाय दत्त्वा पुत्राय सम्पदम् ॥३४९॥
विग्रहेऽपि निरासङ्गो जग्राहोग्रां समग्रधी । धीरो दैगम्बरी लक्ष्मीं क्षमातलस्थिरचन्द्रमां ॥३५०॥
ततो ध्यानगजारूढस्तपस्तीक्ष्णपतत्रिणा । शिरश्छित्त्वा भवाराते प्रविष्टः सिद्धकाननम् ॥३५१॥
प्रतीन्दुरपि पुत्राय किष्किन्धाय ददौ श्रियम् । यौवराज्यं कनिष्ठाय तस्मै चान्ध्रकरूढये ॥३५२॥

महोदधिके यह कहते ही कि मैं दीक्षा लेता हूँ अन्त पुरसे विलापका बहुत भारी शब्द उठ खड़ा हुआ। उस विलापकी प्रतिध्वनि समस्त महलोंमें गूँजने लगी ॥३३६॥ वीणा बॉसुरी आदिके शब्दोंसे मिश्रित मृदङ्ग ध्वनिकी तुलना करनेवाला स्त्रियोंका वह विलाप साधारण मनुष्यकी बात जाने दो मुनिके भी चित्तको हर रहा था अर्थात् करुणासे द्रवीभूत कर रहा था ॥३४०॥ उसी समय युवराज भी वहाँ आ गया। वह नेत्रोंमें नहीं समाने वाले जलकी बड़ी मोटी धागाको वरसाता हुआ आदरपूर्वक बोला कि विद्युत्केश अपने पुत्र सुकेशको परमप्रीतिके कारण आपके लिए सौंप गया है। वह नवीन राज्य पर आरूढ हुआ है इसलिए आपके द्वारा रक्षा करने योग्य है ॥३४१-३४२॥ जिनका हृदय दुखी हो रहा था ऐसे नीतिनिपुण मन्त्रियोंने भी अनेक शास्त्रोंके उदाहरण देकर प्रेरणा की कि इस महावैभवशाली निष्कण्ठक राज्यका इन्द्रके समान उपभोग करो और उत्कृष्ट भोगोंसे यौवनको सफल करो ॥३४३-३४४॥ जिनके मस्तक चरणोंसे नम्रीभूत थे, जो अपने गुणोंके द्वारा उत्कट प्रेम प्रकट कर रही थीं तथा जिनकी आँखोंसे आँसू भर रहे थे ऐसी स्त्रियोंने भी यह कह कर उसे प्रसन्न करनेका प्रयत्न किया कि हे नाथ ! जिनके हृदय आपके हृदयमें स्थित हैं ऐसी हम सबको अनाथ बनाकर लताओंको छोड़ वृक्षके समान आप कहों जा रहे हैं ? ॥३४५-३४६॥ हे नाथ ! यह मनोहर राज्यलक्ष्मी पतिव्रता स्त्रीके समान चिर कालसे आपके उत्कृष्ट गुणोंसे बद्ध है—आपमें आरक्त है इसे छोड़कर आप कहों जा रहे हैं ? और जिनके कपोलोंपर अश्रु बह रहे थे ऐसे सामन्तोंने भी राजकीय आडम्बरसे रहित हो एक साथ प्रार्थना की पर सब मिलकर भी उसके मानसको नहीं बदल सके ॥३४७-३४८॥ अन्तमें उसने स्नेहरूपी पाशको छेदकर तथा समस्त परिग्रहका त्यागकर प्रतिचन्द्र नामक पुत्रके लिए राज्य सौंप दिया और शरीरमें भो निःस्पृह होकर कठिन दैगम्बरी लक्ष्मी—मुनिदीक्षा धारण कर ली। वह पूर्ण बुद्धिको धारण करनेवाला अतिशय गम्भीर था और अपनी सौम्यताके कारण ऐसा जान पड़ता था मानो पृथिवी तलपर स्थिर रहनेवाला चन्द्रमा ही हो ॥३४९-३५०॥ तदनन्तर ध्यानरूपी हाथीपर बैठे हुए मुनिराज महोदधि तपरूपी तीक्ष्ण वाणसे संसार रूपी शत्रुका शिर छेदकर सिद्धवन अर्थात् मोक्षमें प्रविष्ट हुए ॥३५१॥ तदनन्तर प्रतिचन्द्र भी अपने ज्येष्ठ पुत्र किष्किन्धके लिए राज्यलक्ष्मी और अन्ध्रक-

अन्येद्यः प्रतिपन्नश्च जैनमार्गं निरम्बरम् । सिद्धैरासेवित स्थानं गतश्चामलयोगतः ॥३५३॥
 ततस्तावुद्यतौ कृत्यं भ्रातरौ भुवि चक्रतुः । अन्योन्याक्रान्ततेजस्कौ सूर्याचन्द्रमसाविव ॥३५४॥
 अत्रान्तरे नभोगाना पर्वते दक्षिणक्षितौ । रथनूपुरनामास्ति पुर सुरपुराकृति ॥३५५॥
 आसीत्तत्रोभयो श्रेण्योः स्वामी भूरिपराक्रम । ढघावशनिवेगाख्यां यः शत्रुत्रासकारिणीम् ॥३५६॥
 पुत्रो विजयसिंहोऽस्य^३ नाम्नाऽऽदित्यपुर परम् । वाञ्छन् रूपावलेपेन प्रयातोऽथ स्वयवरम् ॥३५७॥
 विद्यामन्दरसज्ञस्य सुतामम्बरचारिणः । वेगवत्या समुत्पन्नां कान्तिदिग्धनमस्तलाम् ॥३५८॥
 अथासौ यौवनप्राप्तं वीक्ष्य पुत्री मनोहराम् । स्वजनानुमतो मोहात् स्वयवरमरीरचत् ॥३५९॥
 अपरेऽपि खगाः सर्वे विमानैर्मणिशालिभिः । पूरयन्तो नभः शीघ्रं गता भूपित्तविग्रहाः ॥३६०॥
 ततो मन्चेपु रम्येषु रत्नस्तम्भधृतात्मसु । तुङ्गासनसमृद्धेषु स्फुरन्मणिमरीचिषु ॥३६१॥
 मितेन परिवारेण युक्ता देहोपयोगिना । उपविष्टा यथास्थान प्रधाना व्योमचारिणः ॥३६२॥
 श्रीमालाया ततस्तेषां सर्वेषां व्योमचारिणाम् । मध्यस्थायां समं पेतुर्दृष्टीन्दीर्घवर्षदृक्तयः ॥३६३॥
 अथ स्वयवराशानां प्रवृत्ता व्योमचारिणाम् । मदनाश्लिष्टचित्तानामिति सुन्दरविभ्रमाः ॥३६४॥
 निष्कम्पमपि मूर्द्धस्थं मुकुटं कञ्चिदुन्नतम् । अकरोत् किल निष्कम्प रत्नाशुच्छन्नपाणिना ॥३६५॥
 कश्चित् कूर्परमाधाय कटिपार्ष्वे लज्जम्भण । चक्र देहस्य बलन स्फुटस्सन्धिकृतस्वनम् ॥३६६॥
 प्रदेशेऽपि स्थिता कश्चिदुज्ज्वलामसिपुत्रिकाम् । असारयत् कराग्रेण कटाक्षकृतवीक्षणाम् ॥३६७॥

रूढि नामक छोटे पुत्रके लिए युवराज पद देकर निर्ग्रन्थ दीक्षाको प्राप्त हुआ और निर्मल ध्यानके प्रभावसे सिद्धालयमें प्रविष्ट हो गया अर्थात् मोक्ष चला गया ॥३५२-३५३॥

तदनन्तर—जिनका तेज एक दूसरेमें आक्रान्त हो रहा था ऐसे सूर्य चन्द्रमाके समान तेजस्वी दोनों भाई किष्किन्ध और अन्धकरूढि पृथिवी पर अपना कार्यभार फैलानेको उद्यत हुए ॥३५४॥ इसी समय विजयार्धपर्वतकी दक्षिणश्रेणीमें इन्द्रके समान रथनूपुर नामका नगर था । ॥३५५॥ उसमें दोनो श्रेणियोंका स्वामी महापराक्रमी तथा शत्रुओको भय उत्पन्न करनेवाला राजा अशनिवेग रहता था ॥३५६॥ अशनिवेगका पुत्र विजयसिंह था । आदित्यपुरके राजा विद्यामन्दर विद्याधरकी वेगवती रानीसे समुत्पन्न एक श्रीमाला नामकी पुत्री थी । वह इतनी सुन्दरी थी कि अपनी कान्तिसे आकाशतलको लिप्त करती थी । विद्यामन्दरने पुत्रीको यौवनवती देख आत्मीयजनकी अनुमतिसे स्वयंवर रचवाया । अशनिवेगका पुत्र विजयसिंह श्रीमाला को चाहता था इसलिए रूपके गर्वसे प्रेरित हो स्वयंवरमें गया ॥३५७-४५८॥ जिनके शरीर भूपित थे ऐसे अन्य समस्त विद्याधर भी मणियोंसे सुशोभित विमानोंके द्वारा आकाशको भरते हुए स्वयंवरमें पहुँचे ॥३६०॥ तदनन्तर जो रत्नमय खम्भोंपर खड़े थे, ऊँचे-ऊँचे सिंहासनोसे युक्त थे तथा जिनमें खचित मणियोंकी किरणें फैल रही थीं ऐसे मनोहर मञ्चोंपर प्रमुख-प्रमुख विद्याधर यथास्थान आरूढ हुए । उन विद्याधरोंके साथ उनकी शरीर-रक्षाके लिए उपयोगी परिमित परिवार भी था ॥३६१-३६२॥ तदनन्तर मध्यमें विराजमान श्रीमाला पुत्रीपर सब विद्याधरोंके नेत्ररूपी नीलकमल एक साथ पड़े ॥३६३॥ तदनन्तर जिनकी आशा स्वयंवरमें लग रही थी और जिनका चित्त कामसे आलिङ्गित था ऐसे विद्याधरोंमें निम्नाङ्कित सुन्दर चेष्टाएँ प्रकट हुईं ॥३६४॥ किसी विद्याधरके मस्तकपर स्थित उन्नत मुकुट, यद्यपि निश्चल था तो भी वह उसे रत्नोंकी किरणोंसे आच्छादित हाथके द्वारा निश्चल कर रहा था ॥३६५॥ कोई विद्याधर कोहनी कमरके पास रख जमुहाई लेता हुआ शरीरको मोड़ रहा था—अँगड़ाई ले रहा था । उसकी इस क्रियासे शरीरके सन्धि स्थान चटककर शब्द कर रहे थे ॥३६६॥ कोई विद्याधर

पाण्डवो पुरुषे कश्चिच्चलयत्येव चामरम् । सलीलमशुकान्तेन चक्रे वीजनमानने ॥३६८॥
 सव्येन वक्त्रमाच्छाद्य कश्चिदुत्तलपाणिना । सकोच्य दक्षिण बाहु व्याधिपद् वद्धमुष्टिकम् ॥३६९॥
 पादासनस्थित कश्चिदुद्यम्य चरण शनै । वामोरुफलके चक्रे दक्षिण रतिदक्षिण ॥३७०॥
 पादाङ्गुष्ठेन कश्चिच्च नेत्रान्तेक्षितकन्यक । कृत्वा पाणितले गण्ड लिलेख चरणासनम् ॥३७१॥
 गाढमप्यपरो वद्धमुन्मुच्य कटिसूत्रकम् । वबन्ध शनकैर्भूय शेषाणमपि चक्रकम् ॥३७२॥
 स्फुटदन्वोऽन्यसदृष्टप्रोत्तानविकराङ्गुलि । वक्षुः कश्चित्समुद्यम्य बहुतोरणमूर्द्ध्वयन् ॥३७३॥
 पार्श्वस्थस्यापरो हस्त सख्युरास्फाल्य सस्मितम् । कथां चक्रे विना हेतो कन्याक्षिसचलेक्षणः ॥३७४॥
 कृतचन्दनचर्चोऽन्यः कुङ्कुमस्थासकाचिते । चक्षुर्वक्षसि चिक्षेप विशाले कृतहस्तके ॥३७५॥
 कश्चित्कुन्तलमालस्था गृहीत्वा केशवल्लरीम् । कुटिलामपि वामायां प्रदेशिन्यामयोजयत् ॥३७६॥
 अधर कश्चिदाकृष्य वामहस्तेन मन्यरम् । स्वच्छताम्वूलसच्छायमैक्षिष्ट भ्रुवमुन्नयन् ॥३७७॥
 अपरोऽभ्रमयत् पद्मं वद्धभ्रमरमण्डलम् । सव्येतरणे हस्तेन त्रिसर्पन् कर्णिकारज ॥३७८॥
 वीणाभिर्वेणुभिः गङ्गैर्मृदङ्गैर्भल्लरैस्तथा । जनितोऽथ महानाद काहलानकमर्दकैः ॥३७९॥
 मङ्गलानि प्रयुक्तानि वन्दिभिर्वद्वृन्दकैः । महापुरुषचेष्टाभिर्निवद्धानि प्रमोदिभिः ॥३८०॥
 महानादस्य तस्यान्ते धात्री नाम्ना सुमङ्गला । वामेतरकरोपात्तहेमवेत्रलता ततः ॥३८१॥

वगलमे रक्खी हुई देदीप्यमान छुरीको हाथके अग्रभागसे चला रहा था तथा चार-चार उसकी ओर कटाक्षसे देखता था ॥३६७॥ यद्यपि पासमे खड़ा पुरुष चमर धौर रहा था तो भी कोई विद्याधर वस्त्रके अञ्चलसे लीलापूर्वक मुखके ऊपर हवा कर रहा था ॥३६८॥ कोई एक विद्याधर, जिसकी हथेली ऊपरकी ओर थी ऐसे वॉये हाथसे मुँह ढँककर, जिसकी मुट्टी वँधी थी ऐसी दाहिनी भुजाको संकुचित कर फैला रहा था ॥३६९॥ कोई एक रतिकुशल विद्याधर, पादासनपर रखे दाहिने पाँवको उठाकर धीरेसे वॉई जाँघपर रख रहा था ॥३७०॥ कन्याकी ओर कटाक्ष चलाता हुआ कोई एक युवा हथेलीपर कपोल रखकर पैरके अंगूठेसे पादासनको कुरेद रहा था ॥३७१॥ जिसमें लगा हुआ मणियोंका समूह शेषनागके समान जान पड़ता था ऐसे कसकर वँधे हुए कटिसूत्रको खोलकर कोई युवा उसे फिरसे धीरे-धीरे बाध रहा था ॥३७२॥ कोई एक युवा दोनों हाथोंकी चटचटाती अगुलियोंको एक दूसरेमें फँसाकर ऊपरकी ओर कर रहा था तथा सीना फुलाकर भुजाओंका तोरण खड़ा कर रहा था ॥३७३॥ जिसकी चञ्चल आँखे कन्याकी ओर पड़ रही थीं ऐसा कोई एक युवा वगलमे बैठे हुए मित्रका हाथ अपने हाथमें ले मुसकराता हुआ निष्प्रयोजन कथा कर रहा था—गप-शप लड़ा रहा था ॥३७४॥ कोई एक युवा, जिसपर चन्द्रनका लेप लगानेके बाद केशरका तिलक लगाया गया था तथा जिसपर हाथ रक्खा था ऐसे विशाल वक्षस्थलपर दृष्टि डाल रहा था ॥३७५॥ कोई एक विद्याधर ललाटपर लटकते हुए घुँघराले वालोको वॉये हाथकी प्रदेशिनी अङ्गुलीमे फँसा रहा था ॥३७६॥ कोई एक युवा स्वच्छ ताम्बूल खानेसे लाल-लाल दिखनेवाले ओठको धीरे-धीरे वॉये हाथसे खींचकर भौँह ऊपर उठाता हुआ देख रहा था ॥३७७॥ और कोई एक युवा कर्णिकाकी परागको फैलाता हुआ दाहिने हाथसे जिसपर भौँरे मँडरा रहे थे ऐसा कमल घुमा रहा था ॥३७८॥ उस समय स्वयंवर मण्डपमे वीणा, वाँसुरी, शह, मृदङ्ग, झालर, काहल, मेरी और मर्दक नामक वाजोसे उत्पन्न महाशब्द हो रहा था ॥३७९॥ महापुरुषोंकी चेष्टाएँ देख जो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे तथा जिन्होंने अलग-अलग अपने भुण्ड बना रक्खे थे ऐसे वन्दीजनोंके द्वारा मङ्गल पाठका उच्चारण हो रहा था ॥३८०॥ तदनन्तर महाशब्दके शान्त होनेके बाद दाहिने हाथमे स्वर्णमय

जगाद् वचनं कन्यां विनयादानताननाम् । प्राप्तकल्पलताकारां मणिहेमविभूषणैः ॥३८२॥
 सख्यं सन्यस्तविश्रसिमृदुपाणिसरोरुहाम् । ऊर्ध्वस्थिता स्थितामूर्ध्वं मकरध्वजवर्णिनीम् ॥३८३॥
 नभस्तिलकनाम्नोऽयं नगरस्य पतिः सुते । उत्पन्नो विमलायां च चन्द्रकुण्डलभूपतेः ॥३८४॥
 मार्तण्डकुण्डलो नाम्ना मार्तण्डविजयी रुचा । प्रकाण्डतां परां प्राप्तो मण्डलाद्यो गुणात्मकः ॥३८५॥
 गुणचिन्ताप्रवृत्तासु गोष्ठीष्वस्यादितो बुधाः । नाम गृह्णन्ति रोमाञ्चकण्टक्यासविग्रहाः ॥३८६॥
 साकमेतेन रन्तुं चेदस्ति ते मनसः स्पृहा । वृणोष्वैन ततो दृष्टसमस्तग्रन्थगर्भकम् ॥३८७॥
 ततस्त यौवनादीपत्रच्युत खेचराधिपम् । आननानतिमात्रेण प्रत्याख्यातवती शुभा ॥३८८॥
 भूयोऽवदत्ततो धात्रो तनये यच्छ लोचने । पुरुषाणामधीशेऽस्मिन् कान्तिदीप्तिविभूतिभिः ॥३८९॥
 अय रत्नपुराधीशो लक्ष्मीविद्याङ्गयोः सुतः । नाम्ना विद्यासमुद्धातो बहुविद्याधराधिपः ॥३९०॥
 अस्य नाम्नि गते कर्णजाह वीरप्रवर्तने । शत्रवो गृह्णते वायुधूताश्वत्थदलस्थितम्^१ ॥३९१॥
 अस्य वक्षसि विस्तीर्णे कृतहारोपधानके । कुनृपभ्रान्तिभिः खिन्ना लक्ष्मीविश्रान्तमागता ॥३९२॥
 अस्याङ्गे यदि ते प्रातिः स्यातुमस्ति मनोहरे । गृहाणैन तडिन्माला युज्यता मन्दराद्रिणा ॥३९३॥
 तत प्रत्याचक्षे त चक्षुषैवर्जुदर्शनात् । वाञ्छिते हि वरत्वेन दृष्टिश्रद्धलतां व्रजेत् ॥३९४॥
 ततोऽसौ तदभिप्रायवेदिना तां सुमङ्गला । अपरं^२ दर्शनं नित्ये नरेशमिति चावदत् ॥३९५॥

छड़ीकी धारण करनेवाली सुमङ्गला धाय कन्यासे निम्न वचन बोली । उस समय कन्याका मुख विनयसे अवनत था तथा मणिमयी आभूषणोसे वह कल्पलताके समान जान पड़ती थी ॥३८१-३८२॥ वह अपना कोमल हस्त कमल यद्यपि सखीके कन्धेपर रखी थी तो भी वह नीचेकी ओर खिसक रहा था । वह पालकीपर सवार थी और कामको प्रकट करनेवाली थी ॥३८३॥ आगत राजकुमारोका परिचय देती हुई सुमङ्गला धाय बोली कि हे पुत्रि ! यह नभस्तिलक नगर का राजा, चन्द्रकुण्डल भूपालकी विमला नामक रानीसे उत्पन्न हुआ है ॥३८४॥ मार्तण्डकुण्डल इसका नाम है, अपनी कान्तिसे सूर्यको जीत रहा है, सन्धि विग्रह आदि गुणोसे युक्त है तथा इन्हीं सब कारणोसे यह अपने मण्डलमें परम प्रसुखताको प्राप्त हुआ है ॥३८५॥ जब गोष्ठियोमें राजाओंके गुणोकी चर्चा शुरू होती है तब विद्वज्जन सबसे पहले इसीका नाम लेते हैं और हर्षातिरेकके कारण उस समय विद्वज्जनोंके शरीर रोमाञ्चरूपी कण्टकोसे व्याप्त हो जाते हैं ॥३८६॥ हे पुत्रि ! यदि इसके साथ रमण करनेकी तेरे मनकी इच्छा है तो जिसने समस्त शास्त्रोंका सार देखा है ऐसे इस मार्तण्डकुण्डलको स्वीकृत कर ॥३८७॥ तदनन्तर जिसका यौवन कुछ ढल चुका था ऐसे विद्याधरोके राजा मार्तण्डकुण्डलका श्रीमालाने मुख नीचा करने मात्रसे ही निराकरण कर दिया ॥३८८॥ तदनन्तर सुमङ्गला धाय बोली कि हे पुत्रि ! कान्ति, दीप्ति और विभूतिके द्वारा जो समस्त पुरुषोंका अधीश्वर है ऐसे इस राजकुमारपर अपनी दृष्टि डालो ॥३८९॥ यह रत्नपुरका स्वामी है, राजा विद्याङ्ग और रानी लक्ष्मीका पुत्र है विद्यासमुद्धात इसका नाम है तथा समस्त विद्याधरोका स्वामी है ॥३९०॥ वीरोमें हलचल मचानेवाला इसका नाम सुनते ही शत्रु, भयसे वायुके द्वारा कम्पित पीपलके पत्तेकी दशाको प्राप्त होते हैं अर्थात् पीपलके पत्तेके समान काँपने लगते हैं ॥३९१॥ अनेक बुद्ध राजाओंके पास भ्रमण करनेसे जो थक गई थी ऐसी लक्ष्मी, हाररूपी तक्षियासे सुशोभित इसके विस्तृत वक्षःस्थलपर मानो विश्रामको प्राप्त हुई है ॥३९२॥ यदि इसकी गोदमें बैठनेकी तेरी अभिलाषा है तो इसे स्वीकार कर । विजली सुमेरुपर्वतके साथ समागमको प्राप्त हो ॥३९३॥ श्रीमाला उसे अपने नेत्रोसे सरलतापूर्वक देखती रही इसीसे उसका निराकरण हो गया सो ठीक ही है क्योंकि कन्या जिसे वररूपसे पसन्द करती है उसपर उसकी दृष्टि चञ्चल हो जाती है ॥३९४॥ तदनन्तर उसका अभिप्राय जाननेवाली सुमङ्गला उसे दूसरे

१. प्रकीर्तने म० । २. वात- म० । ३. स्थितम् ख० । ४. दर्शयन्ती न-रेश म०-।

वज्रायुधस्य पुत्रोऽय वज्रशीलाङ्गसभवः । वज्रपञ्जरनामानमधितिष्ठति पत्तनम् ॥३६६॥
 अस्य बाहुद्वये लक्ष्मीर्दिनेशकरभासुरे । चञ्चलापि स्वभावेन सयतेवावतिष्ठते ॥३६७॥
 सत्यमन्येऽपि विद्यन्ते नाममात्रेण खेचराः । तेषां खद्योततुल्यानामय भास्करता गत ॥३६८॥
 मानेन तुङ्गतामस्य प्राप्तस्य शिरसः पराम् । सप्राप्त पुनरुत्कर्षं मुकुटं स्फुटरत्नकम् ॥३६९॥
 सूरूपे प्रतिपद्यस्व पतिं विद्याभृतामिमम् । विषयांश्चेत्समान् शक्या भोक्तु धीस्तव विद्यते ॥४००॥
 ततः खेचरभानु तं दृष्ट्वा कन्या कुमुद्वती । सकोच परम याता धान्येति गदिता पुनः ॥४०१॥
 चित्राम्बरस्य पुत्रोऽय पद्मश्रीकुक्षिसभव । नित्य चन्द्रपुराधीशो नाम्ना चन्द्राननो नृपः ॥४०२॥
 पश्य वक्षोऽस्य विस्तीर्णं चारुचन्दनचर्चितम् । चन्द्ररश्मिपरिप्वक्त कौलासतटसन्निभम् ॥४०३॥
 उच्छ्रलत्करभारोऽस्य हारो वक्षसि राजते । उत्सर्पत्सीकरो दूर कौलास इव निर्भर ॥४०४॥
 नामाक्षरकरैरस्य मनः श्लिष्टमरेरपि । प्रयाति परम ह्लादं दुःखतापविवर्जितम् ॥४०५॥
 याति चेद्विह ते चेतः प्रसादं सौम्यदर्शने । रजनीव शशाङ्केन लभस्वैतेन सङ्गमम् ॥४०६॥
 ततस्तस्मिन्नपि प्रीतिं न मनोऽस्याः समागतम् । कमलिन्या यथा चन्द्रे नयनानन्दकारिणि ॥४०७॥
 पुनराह ततो धात्री कन्ये पश्य पुरन्दरम् । अवतीर्णं महीमेत भवतीसगलालसम् ॥४०८॥
 सुतोऽय मेरुकान्तस्य श्रीरम्भागर्भसभवः । स्वामी मन्दरकुञ्जस्य पुरस्याम्भोधरध्वनिः ॥४०९॥

राजाके पास ले जाकर बोली ॥३६५॥ कि यह राजा वज्रायुध और रानी वज्रशीलाका पुत्र खेचरभानु वज्रपञ्जर नामक नगरमें रहता है ॥३६६॥ लक्ष्मी यद्यपि स्वभावसे चञ्चल है तो भी सूर्यकी किरणोंके समान देदीप्यमान इसकी दोनों भुजाओंपर बँधी हुई के समान सदा स्थिर रहती है ॥३६७॥ यह सच है कि नाममात्रके अन्य विद्याधर भी हैं परन्तु वे सब जुगनूके समान हैं और यह उनके बीच सूर्यके समान देदीप्यमान है ॥३६८॥ यद्यपि इसका मस्तक स्वाभाविक प्रमाणसे ही परम ऊँचाईको प्राप्त है फिर भी इसपर जो जगमगाते रत्नोंसे सुशोभित मुकुट बाँधा गया है सो केवल उत्कर्ष प्राप्त करनेके लिए ही बाँधा गया है ॥३६९॥ हे सुन्दरि ! यदि इन्द्राणीके समान समस्त भोग भोगनेकी तेरी इच्छा है तो इस विद्याधरोके अधिपतिको स्वीकृत कर ॥४००॥ तदनन्तर उस खेचरभानु रूपी सूर्यको देखकर कन्या रूपी कुमुदिनी परम संकोचको प्राप्त हो गई । यह देख सुमङ्गला धायने कुछ आगे बढ़ कर कहा ॥४०१॥ कि यह राजा चित्राम्बर और रानी पद्मश्रीका पुत्र चन्द्रानन है, चन्द्रपुर नगरका स्वामी है । देखो सुन्दर चन्दनसे चर्चित इसका वक्षस्थल कितना चौड़ा है ? यह चन्द्रमाकी किरणोंसे आलिङ्गित कौलास पर्वतके तटके समान कितना भला मालूम होता है ? ॥४०२-४०३॥ झलकती हुई किरणोंसे सुशोभित हार इसके वक्षस्थल पर ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसा कि उठते हुए जलकणोंसे सुशोभित निर्भर कौलासके तट पर सुशोभित होता है ॥४०४॥ इसके नामके अक्षर रूपी किरणोंसे आलिङ्गित शत्रुका भी मन परम हर्षको प्राप्त होता है तथा उसका सब दुःख रूपी संताप छूट जाता है ॥४०५॥ हे सौम्यदर्शने ! यदि तेरा चित्त इस पर प्रसन्नताको प्राप्त है तो चन्द्रमाके साथ रात्रिके समान तू इसके साथ समागमको प्राप्त हो ॥४०६॥ तदनन्तर नेत्रोंको आनन्दित करने वाले चन्द्रमा पर जिस प्रकार कमलिनीका मन प्रीतिको प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार राजा चन्द्रानन पर श्रीमालाका मन प्रीतिको प्राप्त नहीं हुआ ॥४०७॥ तब धाय बोली कि हे कन्ये ! इस राजा पुरन्दरको देखो । यह पुरन्दर क्या है मानो तुम्हारे संगमकी लालसासे पृथिवी पर अवतीर्ण हुआ साक्षात् पुरन्दर अर्थात् इन्द्र ही है ॥४०८॥ यह राजा मेरुकान्त और रानी श्रीरम्भाका पुत्र है, मन्दरकुञ्ज नगरका स्वामी है, मेघके समान इसकी जोरदार आवाज

शक्ता यस्य न संग्रामे दृष्टिं सम्मुखमागताम् । प्रतिपत्तुं कुतो वाणान् शत्रवो भयदारिता ॥४१०॥
 सभावयामि देवानां नाथोऽप्यस्माद् ब्रजेद् भयम् । अभग्नप्रसरो ह्यस्य प्रतापो भ्रमति क्षितिम् ॥४११॥
 उन्नतं चरणेनास्य शिरस्ताडय सुस्वने । प्रस्तावे प्रेमयुक्तेषु कलहेषु नितम्बिनि ॥४१२॥
 असावपि ततस्तस्या न लेभे मानसे पदम् । चित्रा हि चेतसो वृत्तिं प्रजानां कर्महेतुका ॥४१३॥
 अभाषयदिमां बालां ततोऽन्यं व्योमचारिणम् । धात्री सद.सरस्यब्ज हसीमुत्कलिका यथा ॥४१४॥
 उवाच च सुते पश्य नृपमेत महाबलम् । मनोजवेन वेगिन्यां सभूतं वायुरहसम् ॥४१५॥
 नाकार्द्धसञ्जकस्याय पुरस्य परिरक्षिता । अतिक्रम्य स्थिता यस्य गणनां विमला गुणाः ॥४१६॥
 भ्रूसमुत्क्षेपमात्रेण सर्वं य. क्षितिमण्डलम् । भ्राम्यति स्वाङ्गवेगोत्थवातपातितभूधरः ॥४१७॥
 विद्याबलेन यः कुर्याद् भूमि गगनमध्यगाम् । दर्शयेद्वा ग्रहान् सर्वान् धरणीतलचारिण. ॥४१८॥
 तुरीय वा सृजेन्नोक सूर्यं वा चन्द्रशीतलम् । चूर्णयेद्वा धराशीश स्थापयेद्धानिल स्थिरम् ॥४१९॥
 शोपयेद् वाम्भसा नाथ मूर्त्तं कुर्वीत वा नभः । भाषितेनोरुणा किं वा भवेद्यस्य यथेप्सितम् ॥४२०॥
 तत्रापि न मनस्तस्याश्चक्रे स्थानमयुक्तिकम् । वदत्येपेति चाज्ञासीत् सर्वशास्त्रकृतश्रमा ॥४२१॥
 अन्यानपि बहूनेवं धात्रीदर्शितसपदः । विद्याबलसमायुक्तान् कन्या तत्याज खेचरान् ॥४२२॥
 ततोऽसौ चन्द्रलेखेव व्यतीता^१ याज्ञभश्चरान् । पर्वता इव ते प्राप्ताः श्यामतां लोकवाहिनः ॥४२३॥

है ॥४०६॥ युद्धमें भयसे पीड़ित शत्रु, इसकी सम्मुखागत दृष्टिको सहन करनेमें असमर्थ रहते हैं फिर वाणोकी तो बात ही जुदी है ॥४१०॥ मुझे तो लगता है कि देवोंका अधिपति इन्द्र भी इससे भयभीत हो सकता है, वास्तवमें इसका अखण्डित प्रताप समस्त पृथ्वीमें भ्रमण करता है ॥४११॥ हे सुन्दर शब्दोंवाली नितम्बिनि ! प्रेमपूर्ण कलहके समय तू इसके उन्नत मस्तकको अपने चरणसे ताडित कर ॥४१२॥ राजा पुरन्दर भी उसके हृदयमें स्थान नहीं पा सका सो ठीक ही है क्योंकि अपने-अपने कर्मोंके कारण लोगोंकी चित्तवृत्ति विचित्र प्रकारकी होती है ॥४१३॥ जिस प्रकार सरोवरमें तरङ्ग हंसीको दूसरे कमलके पास ले जाती है उसी प्रकार धाय उस कन्याको सभारूपी सरोवरमें किसी दूसरे विद्याधरके पास ले जाकर बोली कि हे पुत्रि ! इस राजा महाबलको देख । यह राजा मनोजवके द्वारा वेगिनी नामक रानीसे उत्पन्न हुआ है । वायुके समान इसका वेग है ॥४१४-४१५॥ नाकार्द्धपुरका स्वामी है, इसके निर्मल गुण गणनासे परे है ॥४१६॥ अपने शरीरके वेगसे उत्पन्न वायुके द्वारा पर्वतोंको गिरा देनेवाला यह राजा भौंह उठाते ही समस्त पृथिवीमें चक्कर लगा देता है ॥४१७॥ यह विद्याके बलसे पृथिवीको आकाशगामिनी बना सकता है और समस्त ग्रहोंको पृथिवी-तल-चारी दिखा सकता है ॥४१८॥ अथवा तीन लोकके सिवाय चतुर्थ लोकको रचना कर सकता है सूर्यको चन्द्रमाके समान शीतल बना सकता है, सुमेरु पर्वतका चूर्ण कर सकता है, वायुको स्थिर बना सकता है, समुद्रको सुखा सकता है और आकाशको मूर्तिक बना सकता है । अथवा अधिक कहनेसे क्या ? इसकी जो इच्छा होती है वैसा ही कार्य हो जाता है ॥४१९-४२०॥ धायने यह सब कहा सही, पर कन्याका मन उसमें स्थान नहीं पा सका । कन्या सर्वशास्त्रोंको जाननेवाली थी इसलिए उसने जान लिया कि यह धाय अत्युक्तियुक्त कह रही है—इसके कहनेमें सत्यता नहीं है ॥४२१॥ इस तरह धायके द्वारा जिनके वैभवका वर्णन किया गया था—ऐसे बहुतसे विद्याबलधारी विद्याधरोंका परित्याग कर कन्या आगे बढ़ गई ॥४२२॥ तदनन्तर जिस प्रकार चन्द्रलेखा जिन पर्वतोंको छोड़कर आगे बढ़ जाती है वे पर्वत अन्धकारसे मलिन हो जाते हैं उसी प्रकार कन्या श्रीमाली जिन विद्याधरोंको छोड़कर आगे बढ़ गई थी वे शोकको

खेचराणां विलक्षणां दृष्ट्वान्योन्यं गतत्वियाम् । प्रवेष्टु धरणीमासीदभिप्रायस्त्रपावताम् ॥४२४॥
 अपकर्ण्य ततो धात्री खेचरद्युतिवर्णिनीम् । तस्या पपात किष्किन्धकुमारे दृष्टिराद्रात् ॥४२५॥
 ततो मालागुण कण्ठे दृष्टं एवास्य सगत । अन्योऽन्य च समालाप. स्निग्धया रचितोऽनयो ॥४२६॥
 ततो विजयसिंहस्य किष्किन्धान्ध्रकयोगता । दृष्टिराहूय तावेव त्रिद्यावीर्येण गर्वित ॥४२७॥
 विद्याधरसमाजोऽयं क्व भवन्ताविहागतौ । विरूपदर्शनौ क्षुद्रौ वानरौ विनयच्युतौ ॥४२८॥
 नेह देशे वन रम्य फलैरस्ति कृतानति । न वा निर्भरधारिण्य. सुन्दरा गिरिकन्दरा. ॥४२९॥
 घृन्दानि वानरीणां वा कुर्वन्ति कुविचेष्टितम् । मांसलोहितवक्त्राणा प्रवृत्ताना यथेप्सितम् ॥४३०॥
 आहूताविह केनैतौ पशू कपिनिशाचरौ । दूताधमस्य तस्याद्य करोमि विनिपातनम् ॥४३१॥
 निर्घाट्येतामिमावस्माद्देशां च्छाखामृगौ खलौ । वृथा विद्याधरीश्रद्धा दूर नयत चानयोः ॥४३२॥
 रुष्टौ ततो वचोभिस्तौ परुषैर्वानरध्वजौ । महान्त क्षोभमायातौ सिहाविव गजान् प्रति ॥४३३॥
 ततः स्वामिपरीवादमहावाताहता सती । गता क्षोभ चमूवेला रौद्रचेष्टाविधायिनी ॥४३४॥
 कश्चिदास्फालयद्दाममस दक्षिणपाणिना । वेगाघातसमुत्सर्पेद्रक्तसीकरजालकम् ॥४३५॥
 कश्चिद् दृष्टि विचिक्षेप क्षेपीय.क्षुब्धमानस. । कोपावेशारुणा भीमां प्रलयोत्कामिवारिषु ॥४३६॥
 कश्चिद्दक्षिणहस्तेन वक्षःकम्प्रेण कोपतः । अस्पृक्षत् सकल क्रूरकर्म वान्छन् महास्पदम् ॥४३७॥

धारण करते हुए मलिनमुख हो गये ॥४२३॥ एक दूसरेको देखनेसे जिनकी कान्ति नष्ट हो गई थी ऐसे लज्जायुक्त विद्याधरोके मनमें विचार उठ रहा था कि यदि पृथिवी फट जाय तो उसमें हम प्रविष्ट हो जावे ॥४२४॥ तदनन्तर विद्याधरोकी कान्तिका वर्णन करनेवाली धायकी उपेक्षाकर श्रीमालाकी दृष्टि बड़े आदरसे किष्किन्धकुमारके ऊपर पड़ी ॥४२५॥ उसने लोगोके देखते-देखते ही वरमाला किष्किन्धकुमारके गलेमे डाल दी और उसी समय स्नेहसे भरी श्रीमाला ने परस्पर वार्तालाप किया ॥४२६॥ तदनन्तर किष्किन्ध और अन्ध्रकरुडिपर विजयसिंह की दृष्टि पड़ी । विद्याके बलसे गर्वित विजयसिंहने उन दोनोको बुलाकर कहा ॥४२७॥ कि अरे ! यह तो विद्याधरोका समूह है, यहाँ आप लोग कहाँ आ गये ? तुम दोनोका दर्शन अत्यन्त विरूप है । तुम लुब्ध हो, वानर हो और विनयसे रहित हो ॥४२८॥ न तो यहाँ फलोसे नम्रीभूत मनोहर वन है और न निर्भरोको धारण करनेवाली पहाड़की गुफाएँ ही है ॥४२९॥ तथा जिनके मुख मांस के समान लाल-लाल हैं ऐसी इच्छानुसार प्रवृत्ति करनेवाली वानरियोंके मुण्ड भी यहाँ कुचेष्टाएँ नहीं कर रहे हैं ॥४३०॥ इन पशु रूप वानर निशाचरोको यहाँ कौन बुलाकर लाया है ? मैं आज उस नीच दूतका निपात-घात करूँ ॥४३१॥ यह कह उसने अपने सैनिकोसे कहा कि इन दुष्ट वानरोको इस स्थानसे निकाल दो तथा इन्हें वृथा ही जो विद्याधरी प्राप्त करनेकी श्रद्धा हुई है उसे दूर कर दो ॥४३२॥ तदनन्तर विजयसिंहके कठोर शब्दोंसे रुष्ट हो किष्किन्ध और अन्ध्रकरुडि दोनो वानरवंशी उस तरह महाक्षोभको प्राप्त हुए जिस तरह कि हाथियोंके प्रति सिंह महाक्षोभको प्राप्त होते है ॥४३३॥ तदनन्तर स्वामीकी निन्दा रूपी महावायुसे ताड़ित विद्याधरोकी सेनारूपी वेला रुद्र-भयङ्कर चेष्टा करती हुई परम क्षोभको प्राप्त हुई ॥४३४॥ कोई सामन्त दाहिने हाथसे बायें कन्धेको पीटने लगा । उस समय उसके वेगपूर्ण आघातके कारण बायें कन्धेसे रक्तके छींटोका समूह उछटने लगा था ॥४३५॥ जिसका चित्त अत्यन्त लुभित हो रहा था ऐसा कोई एक सामन्त शत्रुओपर क्रोधके आवेशसे लाल-लाल भयङ्कर दृष्टि डाल रहा था । उसकी वह लाल दृष्टि ऐसी जान पड़ती थी मानो प्रलय कालकी उत्का ही हो ॥४३६॥ कोई सैनिक क्रोधसे कॉपते हुए दाहिने हाथसे वक्षःस्थलका स्पर्श कर रहा था और उससे ऐसा जान

१. त्रपावतः म० । २. दृष्टिरेवास्य म० । ३. गर्विता ख० । ४. कृतानति. म० । ५. पशुकपि म० ।
 ६. स्वप्नारणाकृतौ क०, ख० । ७. अस्पृक्षत् क० ।

करं करेण कश्चिच्च स्मितयुक्तमताडयत । तथा यथा गतः पान्थः श्रुतैर्वधिरतां चिरम् ॥४३८॥
 मूलजालददाबद्धमहापीठस्य शाखिनः । कश्चिदुन्मूलन चक्रे चलत्पल्लवधारिणः ॥४३९॥
 मञ्चस्य स्तम्भमादाय बभक्ष्णांसे परं कपि । क्षुद्रभगैर्नभस्तस्य व्याप्तमन्तरवर्जितैः ४४०॥
 गात्रं बलितमेकेन स्फुटदृढवृणाङ्कितम् । शोणितोद्गारधाराभिरूपातघनसन्निभम् ॥४४१॥
 कृताट्टहासमन्वेन हसितं विवृताननम् । शब्दात्मकमिवाशेषं कुर्वता भुवनान्तरम् ॥४४२॥
 धृतोऽन्येन जटाभारश्छन्नाशेषदिगाननः । छायाया तस्य सजाता शर्वरीव तदा चिरम् ॥४४३॥
 संकोचिना भुजे कश्चिद्भ्रामे दक्षिणपाणिना । चकार ताडनं घोरं निर्घातापातभीषणम् ॥४४४॥
 सहध्वं ध्वसनं वाचः परुषायाः फलं खलाः । दुःखैर्गा इति तारेण ध्वनिना मुखराननं ॥४४५॥
 अपूर्वायाः पराभूतेस्ततस्ते संहसा भृशम् । कपयोऽभिमुखीभूता हन्तुं खेचरवाहिनीम् ॥४४६॥
 गजा गजैस्तता सार्द्धं रथारूढा रथस्थितैः । पदातयश्च पादातैश्चक्रुर्बुद्धं सुदारुणम् ॥४४७॥
 सेनयोरुभयोरजातस्ततस्तत्र रणो महान् । दूरस्थितामरवातजनितोद्गारविस्मयः ॥४४८॥
 श्रुत्वा च तत्क्षणं युद्धं सुकेशो राक्षसाधिपः । मनोरथं इवायातः किष्किन्धान्ध्रकयोः सुहृत् ॥४४९॥
 अकम्पनसुताहेतोर्थया युद्धमभूत् परम् । तथेदमपि सवृत्तं वीजं युद्धस्य योपितः ॥४५०॥

पढ़ता था मानो समस्त क्रूर कर्म करनेके लिए किसी बड़े स्थानकी खोज ही कर रहा हो ॥४३७॥
 किसीने मुसकराते हुए अपने एक हाथसे दूसरे हाथको इतने जोरसे पीटा कि उसका शब्द
 सुनकर पथिक चिरकालके लिए बहुरा हो गया ॥४३८॥ जिसका महापीठ जड़ोंके समूहसे
 पृथ्वीपर मजबूत बँधा था और जो चञ्चल पल्लव धारण कर रहा था ऐसे किसी वृक्षको कोई
 सैनिक जड़से उखाड़ने लगा ॥४३९॥ किसी वानरने मञ्चका खम्भा लेकर कन्धेपर इतने जोरसे
 तोड़ा कि उसके निरन्तर बिखरे हुए छोटे-छोटे टुकड़ोंसे आकाश व्याप्त हो गया ॥४४०॥
 किसीने अपने शरीरको इतने जोरसे मोड़ा कि उसके पुरे हुए घाव फिरसे फट गये तथा खूनकी
 बड़ी मोटी धाराओंसे उसका शरीर उत्पात-कालके मेघके समान जान पड़ने लगा ॥४४१॥
 किसीने मुँह फाड़कर इतने जोरसे अट्टहास किया कि मानो वह समस्त संसारके अन्तरालको
 शब्दमय ही करना चाहता था ॥४४२॥ किसीने अपनी जटाओंका समूह इतनी जोरसे हिलाया
 कि उससे समस्त दिशाएँ व्याप्त हो गईं और उससे ऐसा जान पड़ने लगा मानो चिरकालके लिए
 रात्रि ही हो गई हो ॥४४३॥ कोई सैनिक दाहिने हाथको संकुचित कर उससे बाईं भुजाको
 इतनी जोरसे पीट रहा था कि उससे वज्रपातके समान भयङ्कर घोर शब्द हो रहा था ॥४४४॥
 'अरे दुष्ट विद्याधरो ! तुमने जो कठोर वचन कहे हैं उसके फलस्वरूप इस विध्वंसको सहन
 करो' इस प्रकारके उच्च शब्दोंसे किसीका मुख शब्दायमान हो रहा था अर्थात् कोई चिल्ला-
 चिल्लाकर उक्त शब्द कह रहा था ॥४४५॥ तदनन्तर उस अपूर्व तिरस्कारके कारण वानरवंशी,
 विद्याधरोकी सेनाको नष्ट करनेके लिए सम्मुख आये ॥४४६॥ तत्पश्चात् हाथी हाथियोंसे, रथोंके
 सवार रथके सवारोंसे और पैदल सिपाही पैदल सिपाहियोंके साथ भयङ्कर युद्ध करने
 लगे ॥४४७॥ इस प्रकार दोनों सेनाओमें वहाँ महायुद्ध हुआ । ऐसा महायुद्ध कि जो दूर खड़े
 देवोंके समूहको महान् आश्चर्य उत्पन्न कर रहा था ॥४४८॥ किष्किन्ध और अन्ध्रकका मित्र
 जो सुकेश नामका राक्षसोंका राजा था वह युद्धका समाचार सुन तत्काल ही मनोरथके समान
 वहाँ आ पहुँचा ॥४४९॥ पहले अकम्पनकी पुत्री सुलोचनाके निमित्त जैसा महायुद्ध हुआ था
 वैसा ही युद्ध उस समय हुआ सो ठीक ही है क्योंकि युद्धका कारण स्त्रियों ही है ॥४५०॥

यावच्च तुमुल तेषा वर्तते खगरत्तसाम् । तावदादाय ता कन्यां किष्किन्ध' कृत्तितां गतः ॥४५१॥
 आहूय चाभियातस्य तावदन्ध्रकभूमृता' । कृपाणेन शिरस्तुङ्ग' जयसिंहस्य पातितम् ॥४५२॥
 तेनैकेन विना सैन्यमितश्चेतश्च तद्गतम् । आत्मनेव विना देहे हपोकाणा कुल' धनम् ॥४५३॥
 तत सुतवध श्रत्वा वज्रेणेव समाहृत । शोकेनाशनिवेगोऽभून्मूर्च्छान्धतमसावृत ॥४५४॥
 ततः स्वदारनेत्राम्बुसिक्तवच'स्थलश्चिरात् । गतः प्रबोधमाकार वभार क्रोधभीपणम् ॥४५५॥
 ततस्तस्य समाकार परिवर्गोऽपि नेक्षितुम् । शशाक प्रलयोत्पातभास्कराकारसन्निभम् ॥४५६॥
 सर्वविद्याधरैः साद्धं ततोऽसौ शस्त्रभासुरैः । गत्वा किष्कुपुरस्याभूत्तुङ्गशाल इवापरः ॥४५७॥
 विदित्वा नगरं रुद्ध ततस्तौ वानरध्वजौ । तडिस्केशिसमायुक्तौ निष्क्रान्तौ रणलालसौ ॥४५८॥
 गदाभिः शक्तिभिर्वाणैः पाशै' प्रासैर्महासिभिः । ततो दानवसैन्य तदध्वस्त वानररात्सै' ॥४५९॥
 दिशा ययान्ध्रको यातः किष्किन्धो वा महाहवे । सुकेशो वा तथा याता मार्गाश्चूर्णितखेचराः ॥४६०॥
 तत्र पुत्रवधक्रोधवह्निज्वालाप्रदीपितः । अन्ध्रकाभिमुखो जातो वज्रवेगः कृतध्वनिः ॥४६१॥
 बालोऽयमन्ध्रकः पापोऽग्निवेगोऽयमुद्धतः । इति ज्ञात्वोत्थितो योद्धु' किष्किन्धोऽशनिरहसौ ॥४६२॥
 विद्युद्वाहननाम्नासौ तस्सुतेन पुरस्कृतः । अभवच्च तथोर्युद्धं दारजात पराभवम् ॥४६३॥
 यावच्च तत्तथोर्युद्धं वर्ततेऽयन्तभीपणम् । निहतोऽशनिवेगेन तावदन्ध्रकवानर ॥४६४॥

इधर जब तक विद्याधर और राजसोके बीच भयङ्कर युद्ध होता है उधर तब तक कन्याको लेकर किष्किन्ध कृतकृत्य हो गया अर्थात् उसे लेकर युद्धसे भाग गया ॥४५१॥ विद्याधरोका राजा विजयसिंह ज्यो ही सामने आया त्यों ही अन्ध्रकरुदिने ललकारकर उसका उन्नत मस्तक तलवारसे नीचे गिरा दिया ॥४५२॥ जिस प्रकार एक आत्माके विना शरीरमे इन्द्रियों का समूह जहाँ-तहाँ बिखर जाता है उसी प्रकार एक विजयसिंहके विना समस्त सेना इधर-उधर बिखर गई ॥४५३॥ जब अशनिवेगने पुत्रके वधका समाचार सुना तो वह शोकके कारण वज्रसे ताड़ित हुएके समान परम दुखी हो मूर्च्छा रूपी गाढ़ अन्धकारसे आवृत हो गया ॥४५४॥ तदनन्तर अपनी स्त्रियोंके नयन जलसे जिसका वक्षःस्थल भीग रहा था ऐसा अशनिवेग, जब प्रबोधको प्राप्त हुआ तब उसने क्रोधसे भयङ्कर आकार धारण किया ॥४५५॥ तदनन्तर प्रलयकालके उत्पात सूचक भयङ्कर सूर्यके समान उसके आकारको परिकरके लोग देखनेमे भी समर्थ नहीं हो सके ॥४५६॥ तदनन्तर उसने शस्त्रोंसे देदीप्यमान समस्त विद्याधरोंके साथ जाकर किसी दूसरे ऊँचे कोटके समान किष्कुपुरको घेर लिया ॥४५७॥ तदनन्तर नगरको घिरा जान दोनों भाई युद्धकी लालसा रखते हुए सुकेशके साथ बाहर निकले ॥४५८॥ फिर वानर और राजसोकी सेनाने गदा, शक्ति, वाण, पाश, भाले तथा बड़ी-बड़ी तलवारोंसे विद्याधरोकी सेनाको विध्वस्त कर दिया ॥४५९॥ उस महायुद्धमे अन्ध्रक, किष्किन्ध और सुकेश जिस दिशामें निकल जाते थे उसी दिशाके मार्ग चूर्णा-कृत वानरोसे भर जाते थे ॥४६०॥ तदनन्तर पुत्रवधसे उत्पन्न क्रोध रूपी अग्निकी ज्वालाओंसे प्रदीप्त हुआ अशनिवेग जोरका शब्द करता हुआ अन्ध्रकके सामने गया ॥४६१॥ तब किष्किन्ध ने विचारा कि अन्ध्रक अभी बालक है और यह पापी अशनिवेग महा उद्धत है, ऐसा विचार-कर वह अशनिवेगके साथ युद्ध करनेके लिए स्वयं उठा ॥४६२॥ सो अशनिवेगके पुत्र विद्युद्वा-हनने उसका सामना किया और फल स्वरूप दोनोंमे घोर युद्ध हुआ सो ठीक ही है क्योंकि संसारमें जितना पराभव होता है वह स्त्रीके निमित्त ही होता है ॥४६३॥ इधर जब तक किष्किन्ध और विद्युद्वाहनमे भयङ्कर युद्ध चलता है उधर तब तक अशनिवेगने अन्ध्रकको

१. कृत्तिनो भावः कृत्तिता ताम् । कृत्यता म० । २. भूतिना क० । ३. बलम् म० । ४. अशनिवेगः ।
 ५. अशनिवेगेन ।

ततोऽसौ पतितो बालः क्षितौ तेजोविवर्जितः । प्रत्यूषशशिनश्छायां वभार गतचेतनः ॥४६५॥
 किष्किन्धेनापि निक्षिप्ता विद्युद्वाहनवक्षसि । शिला स ताडितो मूर्च्छां प्राप्य बोध पुनर्गतः ॥४६६॥
 आदाय ता शिला तेन ततो वक्षसि ताडितः । किष्किन्धोऽपि गतो मूर्च्छां घूर्णितेक्षणमानसः ॥४६७॥
 लङ्केन्द्रेण ततो नीतः प्रेमससक्तचेतसा । किष्कु^१ प्रमादमुत्क्षिप्य चिरात् प्राप्तश्च चेतनाम् ॥४६८॥
 उन्मील्य स ततो नेत्रे यदा नापश्यदन्ध्रकम् । तदापृच्छन्मम भ्राता वर्तते क्वेति पार्श्वगान् ॥४६९॥
 तत प्रलयवातेन क्षोभितस्याम्बुधे. समम् । शुश्रावान्त.पुराक्रन्दमन्ध्रकध्वसहेतुकम् ॥४७०॥
 विप्रलाप ततश्चक्रे प्रतप्त शोकवह्निना । चिरं भ्रातृगुणध्यानकृतदुःखोर्मिसन्ततिः ॥४७१॥
 हा भ्रातर्मयि सत्येव कथं प्राप्तोऽसि पञ्चताम् । दक्षिणः पतितो बाहुस्त्वयि मे पातमागते ॥४७२॥
 दुरात्मना कथं तेन पापेन विनिपातितम् । शस्त्र बाले त्वयि क्रूरं धिक् तमन्यायवर्तिनम् ॥४७३॥
 अपश्यन्नाकुलोऽभूव यो भवन्त निमेषतः । सोऽहं वद कथं प्राणान् धारयिष्यामि साम्प्रतम् ॥४७४॥
 अथवा निर्मितं चेतो वज्रेण मम दारुणम् । यज्ज्ञात्वापि भवन्मृत्यु शरीरं न विमुञ्चति ॥४७५॥
 बाल ते स्मितसंयुक्त वीरगोष्ठीसमुद्भवम् । स्मरन् स्फुटसमुल्लास दुःख प्राप्नोमि दुःसहम् ॥४७६॥
 यद्यद्विचेष्टितं सार्द्धं क्रियमाणं त्वया पुरा । प्रसेकममृतेनेव कृतवत्सर्वगात्रकम् ॥४७७॥
 स्मर्यमाणं तदेवेदमधुना मरणं कथम् । प्रयच्छति विषेणैव सेकं मर्मविदारणम् ॥४७८॥

मार डाला ॥४६४॥ तदनन्तर बालक अन्ध्रक, तेज रहित पृथिवीपर गिर पड़ा और निष्प्राण हो प्रातःकालके चन्द्रमाकी कान्तिको धारण करने लगा अर्थात् प्रातःकालीन चन्द्रमाके समान कान्ति हीन हो गया ॥४६५॥ इधर किष्किन्धने एक शिला विद्युद्वाहनके वक्षस्थलपर फेंकी जिससे तड़ित हो वह मूर्च्छित हो गया परन्तु कुछ ही समयमें सचेत होकर उसने वही शिला किष्किन्धके वक्षस्थलपर फेंकी जिससे वह भी मूर्च्छाको प्राप्त हो गया । उस समय शिलाके आघातसे उसके नेत्र तथा मन दोनों ही घूम रहे थे ॥४६६-४६७॥ तदनन्तर प्रेमसे जिसका चित्त भर रहा था ऐसा लङ्काका राजा सुकेश उसे प्रमाद छोड़कर शीघ्र ही किष्कपुर ले गया । वहाँ चिरकालके बाद उसे चेतना प्राप्त हुई ॥४६८॥ जब उसने आँखे खोलीं और सामने अन्ध्रक को नहीं देखा तब समीपवर्ती लोगोंसे पूछा कि हमारा भाई कहाँ है ? ॥४६९॥ उसी समय उसने प्रलयकी वायुसे क्षोभित समुद्रके समान, अन्ध्रककी मृत्युसे उत्पन्न अन्तःपुरके रोनेका शब्द सुना ॥४७०॥ तदनन्तर जिसके हृदयमें भाईके गुणोंके चिन्तनसे उत्पन्न दुःखकी लहरे उठ रहीं थी ऐसा किष्किन्ध शोकाग्निसे सन्तप्त हो चिर काल तक विलाप करता रहा ॥४७१॥ हे भाई ! मेरे रहते हुए तू मृत्युको कैसे प्राप्त हो गया ? तेरे मरनेसे मेरी दाहिनी भुजा ही भङ्गको प्राप्त हुई ॥४७२॥ उस पापी दुष्टने तुझ बालकपर शस्त्र कैसे चलाया ? अन्यायमें प्रवृत्ति करनेवाले उस दुष्टको धिक्कार है ॥४७३॥ जो तुझे निमेष मात्र भी नहीं देखता था तो आकुल हो जाता था वहीं मैं अब प्राणोंको किस प्रकार धारण करूँगा सो कह ॥४७४॥ अथवा मेरा कठोर चित्त वज्रसे निर्मित है इसीलिए तो वह तेरी मृत्यु जानकर भी शरीर नहीं छोड़ रहा है ॥४७५॥ हे बालक ! मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त, वीर पुरुषोंकी गोष्ठीमें समुत्पन्न जो तेरा प्रकट हर्षोल्लास था उसका स्मरण करता हुआ मैं दुःसह दुःख प्राप्त कर रहा हूँ ॥४७६॥ पहले तेरे साथ जो-जो चेष्टाएँ—कौतुक आदि किये थे वे समस्त शरीरमें मानो अमृतका ही सिंचन करते थे ॥४७७॥ पर आज वे ही सब स्मरणमें आते ही विषके सिंचनके समान मर्मघातक मरण क्यो प्रदान कर रहे हैं अर्थात् जो पहले अमृतके समान सुखदायी थे वे ही आज विषके समान

ततोऽसौ विलपन् भूरि भ्रातृस्नेहातिविकलव । सुकेशादिभिरानीतः प्रबोधमिति भाषणात् ॥४७६॥
युक्तमेतन्न धीराणां कर्तुं क्षुद्रविचेष्टितम् । शोको हि पण्डितैर्दृष्टः पिशाचो भिन्ननामकः ॥४८०॥
कर्मणा विनियोगेन वियोगः सह बन्धुना । प्राप्ते तत्रापरं दुःख शोको यच्छ्रुति सन्ततम् ॥४८१॥
'प्रेक्षापूर्वप्रवृत्तेन जन्तुना सप्रयोजनः । व्यापारः सततः कृत्यः शोकाश्चायमनर्थकः ॥४८२॥
प्रत्यागमः कृते शोके प्रेतस्य यदि जायते । ततोऽन्यानपि सगृह्य विदधीत जनः शुचम् ॥४८३॥
शोकः प्रत्युत देहस्य शोषाकरणमुत्तमम् । पापानामयमुद्रको महामोहप्रवेशनः ॥४८४॥
तदेव वैरिणः शोकः परित्यज्य प्रसन्नधीः । कृत्ये कुरु मतिन्यासं नानुबन्ध त्यजत्यरिः ॥४८५॥
भूढाः शोकमहापङ्के मग्नाः शोपामपि क्रियाम् । नाशयन्ति तदायत्तजोवितैर्वीक्षिता जनैः ॥४८६॥
बलीयान् वज्रवेगोऽयमस्मन्नाशस्य चिन्तकः । प्रतिकर्तव्यमस्माभिश्चिन्तनीयमिहाधुना ॥४८७॥
बलीयसि रिपो गुप्ति प्राप्य कालं नयेद् बुधः । तत्र तावदवाप्नोति न निकारमरातिकम् ॥४८८॥
प्राप्य तत्र स्थितं कालं कुतश्चिद् द्विगुणं रिपुम् । साधयेन्नहि भूतीनामेकस्मिन् सर्वदा रतिः ॥४८९॥
अतः परम्परायातमस्माकं कुलगोचरम् । अलङ्कारपुरं नाम स्थान मे स्मृतिमागतम् ॥४९०॥
कुलवृद्धास्तदस्माकं शसन्त्यविदित परैः । प्राप्य तत् स्वर्गलोकेऽपि न कुर्वीत पद मनः ॥४९१॥

दुःखदायी क्यों हो गये ? ॥४७८॥ इस प्रकार भाईके स्नेहसे दुःखी हुआ किष्किन्ध बहुत विलाप करता रहा । तदनन्तर सुकेश आदिने उसे इस प्रकार समझाकर प्रबोधको प्राप्त कराया ॥४७६॥ उन्होंने कहा कि धीर वीर मनुष्योंको क्षुद्र पुरुषोंके समान शोक करना उचित नहीं है । यथार्थमें पण्डितजनोने शोकको भिन्न नामवाला पिशाच ही कहा है ॥४८०॥ कर्मोंके अनुसार इष्टजनोके साथ वियोगका अवसर आनेपर यदि शोक होता है तो वह आगे के लिए और भी दुःख देता है ॥४८१॥ विचार पूर्वक कार्य करनेवाले मनुष्यको सदा वही कार्य करना चाहिए जो प्रयोजनसे सहित हो । यह शोक प्रयोजन रहित है अतः बुद्धिमान् मनुष्यके द्वारा करने योग्य नहीं है ॥४८२॥ यदि शोक करनेसे मृतक व्यक्ति वापिस लौट आता हो तो दूसरे लोगोंको भी इकट्ठाकर शोक करना उचित है ॥४८३॥ शोकसे कोई लाभ नहीं होता बल्कि शरीरका उत्कट शोषण ही होता है । यह शोक पापोंका तीव्रोदय करनेवाला और महामोहमें प्रवेश करानेवाला है ॥४८४॥ इसलिए इस वैरी शोकको छोड़कर बुद्धिको स्वच्छ करो और करने योग्य कार्यमें मन लगाओ क्योंकि शत्रु अपना संस्कार छोड़ता नहीं है ॥४८५॥ मोही मनुष्य शोकरूपी महापङ्कमें निमग्न होकर अपने शेष कार्योंको भी नष्ट कर लेते हैं । मोही मनुष्योंका शोक तब और भी अधिक बढ़ता है जब कि अपने आश्रित मनुष्य उनकी ओर दीनता भरी दृष्टिसे देखते हैं ॥४८६॥ हमारे नाशका सदा ध्यान रखनेवाला अशनिवेग चूँकि अत्यन्त बलवान् है इसलिए इस समय हम लोगोंको इसके प्रतिकारका विचार अवश्य करना चाहिए ॥४८७॥ यदि शत्रु अधिक बलवान् है तो बुद्धिमान् मनुष्य किसी जगह छिपकर समय बिता देता है । ऐसा करनेसे वह शत्रुसे प्राप्त होनेवाले पराभवसे बच जाता है ॥४८८॥ छिपकर रहनेवाला मनुष्य जब योग्य समय पाता है तब अपनेसे दूनी शक्तिको धारण करनेवाले शत्रुको भी वश कर लेता है सो ठीक ही है क्योंकि सम्पदाओंकी सदा एक ही व्यक्तिमें प्रीति नहीं रहती ॥४८९॥ अतः परम्परासे चला आया हमारे वंशका निवासस्थल अलंकारपुर (पाताल लंका) इस समय मेरे ध्यानमें आया है ॥४९०॥ हमारे कुलके वृद्धजन उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं तथा शत्रुओंको भी उसका पता नहीं है । वह इतना सुन्दर है कि उसे पाकर फिर मन स्वर्ग लोककी आकांक्षा नहीं

तस्मादुत्तिष्ठ गच्छामस्तत्पुरं रिपुदुर्गमम् । अनयो हि महानेप यत्कालस्य ^१न थापनम् ॥४६२॥
 एवमन्विष्य ^२नो शोको यदा तीव्रो निवर्तते । श्रीमालादर्शनादस्य ततोऽसौ विनिवर्तिनः ॥४६३॥
 ततस्तौ परिवर्गेण समस्तेन समन्वितौ । प्रस्थितौ दर्शनं प्राप्तौ विद्युद्वाहनविद्विपः ॥४६४॥
 ततोऽसौ पृष्ठतो गन्तु प्रवृत्तो धावतोस्तयोः । भ्रातृघातेन सक्रुद्धः शत्रुनिर्मूलनोद्यतः ॥४६५॥
 भग्नाः किलानुसर्तव्याः शत्रवो नेति भाषितम् । नीतिशास्त्रशरीरज्ञैः पुरुषैः शुद्धबुद्धिभिः ॥४६६॥
 निहतश्च तव भ्राता येन पापेन वैरिणा । प्रापितोऽसौ महानिद्रां विशिखैरन्ध्रको मया ॥४६७॥
 तस्मात्पुत्र निवर्तस्व नैतेऽस्माकं कृतागसः । अनुकम्पा हि कर्तव्या महता दुःखिते जने ॥४६८॥
 पृष्ठस्य दशनं येन कारितं कातरात्मना । जीवन्मृतस्य तस्यान्यत्क्रियता किं मनस्विना ॥४६९॥
 यावदेव सुत शास्ति वज्रवेगो वशस्थितिम् । अलङ्कारपुरं प्राप्तास्तावद्वातरराक्षसाः ॥५००॥
 पातालावस्थिते तत्र रत्नालोकचिते पुरे । तस्थुः शोकं प्रमोद च वहन्तो भयवर्जिताः ॥५०१॥
 अन्यदाशनिवेगोऽथ दृष्ट्वा शरदि तोयदम् । क्षणाद्विलयमायात विरक्तो राज्यसपदि ॥५०२॥
 सुख विषययोगेन विज्ञाय क्षणभङ्गुरम् । मनुष्यजन्म चात्यन्तदुर्लभं भवसकटे ॥५०३॥
 सहस्रारं सुत राज्ये स्थापयित्वा विधानतः । सम विद्युत्कुमारेण वभूव श्रमणो महान् ॥५०४॥
 शशासात्रान्तरे लङ्का निर्घातो नाम खेचरः । नियुक्तोऽशनिवेगेन महाविद्यापराक्रमः ॥५०५॥

करता ॥४६१॥ इसलिए उठो हम लोग शीघ्र ही शत्रुओंके द्वारा अगम्य उस अलंकारपुर नगरमें चलें । इस स्थितिमें यदि वहाँ जाकर संकटका समय नहीं निकाला जाता है तो यह बड़ी अनीति होगी ॥४६२॥ इस प्रकार लंकाके राजा सुकेशने किष्किन्धको बहुत समझाया पर उसका शोक दूर नहीं हुआ । अन्तमें रानी श्रीमालाके देखनेसे उसका शोक दूर हो गया ॥४६३॥ तदनन्तर राजा किष्किन्ध और सुकेश अपने समस्त परिवारके साथ अलंकारपुरकी ओर चले, परन्तु विद्युद्वाहन शत्रुने उन्हें देख लिया ॥४६४॥ वह भाई विजयसिंहके घातसे अत्यन्त क्रुद्ध था तथा शत्रुका निर्मूल नाश करनेमें सदा उद्यत रहता था इसलिए भागते हुए सुकेश और किष्किन्धके पीछे लग गया ॥४६५॥ यह देख नीतिशास्त्रके मर्मज्ञ तथा शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाले पुरुषोंने विद्युद्वाहनको समझाया कि भागते हुए शत्रुओंका पीछा नहीं करना चाहिए ॥४६६॥ पिता अशनिवेगने भी उससे कहा कि जिस पापी वैरीने तुम्हारे भाई विजयसिंहको मारा था उस अन्ध्रको मैंने वाणोंके द्वारा महानिद्रा प्राप्त करा दी है अर्थात् मार डाला है ॥४६७॥ इसलिए हे पुत्र ! लौटो, ये हमारे अपराधी नहीं हैं । महापुरुषको दुःखी जनपर दया करनी चाहिये ॥४६८॥ जिस भीरु मनुष्यने अपनी पीठ दिखा दी वह तो जीवित रहने पर भी मृतकके समान है, तेजस्वी मनुष्य भला उसका और क्या करेंगे ॥४६९॥ इधर इस प्रकार अशनिवेग जब तक पुत्रको अपने आधीन रहनेका उपदेश देता है उधर तब तक वानर और राक्षस अलंकारपुर (पाताललंका) में पहुँच गये ॥५००॥ वह नगर पातालमें स्थित था तथा रत्नोंके प्रकाशसे व्याप्त था सो उस नगरमें वे दोनों शोक तथा हर्षको धारण करते हुए रहने लगे ॥५०१॥

अथानन्तर एक दिन अशनिवेग शरद्वृत्तुके मेघको क्षणभरमें विलीन होता देख राज्यसम्पदासे विरक्त हो गया ॥५०२॥ विषयोके संयोगसे जो सुख होता है वह क्षणभङ्गुर है तथा चौरासी लाख योनियोंके संकटमें मनुष्य जन्म पाना अत्यन्त दुर्लभ है ॥५०३॥ ऐसा जानकर उसने सहस्रार नामक पुत्रको तो विधिपूर्वक राज्य दिया और स्वयं विद्युत्कुमारके साथ वह महाश्रमण अर्थात् निर्ग्रन्थ साधु हो गया ॥५०४॥ इस अन्तरालमें अशनिवेगके द्वारा नियुक्त

पुक्त्रोन्धाय वलिवन्पातालनगरोदरात् । सवनकर्माधरं पश्यन् शनैरवनिमण्डलम् ॥५०६॥
 विदित्वोपगमप्राप्तान् शत्रून् भयविवर्जित- । श्रीमालो गतो मेहं किष्किन्धो वन्दितुं जिनम् ॥५०७॥
 प्रत्यागच्छंस्ततोऽपश्यद्वह्निणोऽन्वतस्तटे । अटवीं सुरकुर्वामां पृथ्वीकर्णतटामिधाम् ॥५०८॥
 श्रीमालां चात्रवीदेवं वीणामिव सुखस्वराम् । वक्षस्यलस्थिता वामबाहुना कृतधारणाम् ५०९॥
 देवि पश्याटवी रम्यां कुसुमाब्जितपादपाम् । सीमन्तिनीमिव स्वच्छमन्दगत्यापगाम्मसाम् ॥५१०॥
 गरज्जलधराकारो राजतेऽयं महीधर- । मध्येऽस्या गिखरैस्तुङ्गैर्धरणीमौलिमञ्जित- ॥५११॥
 कुन्दशुभ्रसमावर्तफेनमण्डलमण्डितैः । निर्मरैर्हंसतावायमट्टहासेन भासुरः ॥५१२॥
 पुष्पाञ्जलिं प्रकीर्यायं तरुणाखाभिरादरात् । अम्युन्यानं करोतीव चलत्तस्वनेन नौ ॥५१३॥
 पुष्पामोदसमृद्धेन वायुना घ्राणलेपिता । प्रस्युदतिं करोतीव नमन च नमत्तुः ॥५१४॥
 वदध्वेव धृतवान् गाटं व्रजन्त मामय गुणैः । अतिक्रम्य न शक्नोमि गन्तुमेन महीधरम् ॥५१५॥
 आलयं कल्पयाम्यत्र भूचरैरतिदुर्गमम् । प्रसादं मानसं गच्छन्सुवयत्येव मे शुभम् ॥५१६॥
 अलङ्कारपुरगामे पातालोदगवर्तिनि । खिन्नं खिन्नं मम स्वान्तं रतिमत्र प्रयास्यति ॥५१७॥
 इत्युक्त्वानुमतालापः प्रियया विस्मयाकुल- । उत्पारयन् धनव्रातमवतीर्णो धराधरम् ॥५१८॥

महाविद्या और महा पराक्रमका धारी निर्घात नामका विद्याधर लंकाका शासन करता था ॥५०५॥ एक दिन किष्किन्ध वलिके समान पातालवर्ती अलंकारपुर नगरसे निकलकर वन तथा पर्वतोसे सुशोभित पृथिवीमण्डलका धीरे-धीरे अवलोकन कर रहा था । इसी अवसरपर उसे पता चला कि शत्रु शान्त हो चुके हैं । यह जानकर वह निर्भय हो अपनी श्रीमाला रानीके साथ जिनेन्द्रदेवकी वन्दना करनेके लिए सुमेरु पर्वतपर गया ॥५०६-५०७॥ वन्दनाकर वापिस लौटते समय उमने दक्षिणसमुद्रके तटपर पृथिवी-कर्णतटा नामकी अटवी देखी । यह अटवी देवकुरुके समान सुन्दर थी ॥५०८॥ किष्किन्धने, जिसका स्वर वीणाके समान सुखदायी था, जो वक्षस्यलसे सटकर बैठी थी और वीणोंसे अपनेको पकड़े थी ऐसी रानी श्रीमालासे कहा ॥५०९॥ कि हे देवि ! देखो, यह अटवी कितनी सुन्दर है, यहाँके वृक्ष फूलोंसे सुशोभित हैं, तथा नदियोंके जलकी स्वच्छ एवं मन्द गतिसे ऐसी जान पड़ती है मानो इसने सीमन्त—माँग ही निकाल रखी हो ॥५१०॥ इसके बीचमे यह शरदःश्रुतुके मेघका आकार धारण करनेवाला तथा ऊँची-ऊँची शिखरोंसे सुशोभित धरणीमौलि नामका पर्वत सुशोभित हो रहा है ॥५११॥ कुन्दके फूलके समान शुक्ल फेनपटलसे मण्डित निर्मरनोंसे यह देदीप्यमान पर्वत ऐसा जान पड़ता है मानो अट्टहास ही कर रहा हो ॥५१२॥ यह वृक्षकी शाखाओंसे आदर पूर्वक पुष्पाञ्जलि विखेरकर वायुकम्पित वृक्षोंके वनसे हम दोनोंको आता देख आदरसे मानो उठ ही रहा है ॥५१३॥ फूलोंकी सुगन्धिसे समृद्ध तथा नासिकाको लिप्त करनेवाली वायुसे यह पर्वत मानो हमारी अगवानी ही कर रहा है तथा मुकते हुए वृक्षोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोगोंको नमस्कार ही कर रहा है ॥५१४॥ ऐसा जान पड़ता है कि आगे जाते हुए मुझे इस पर्वतने अपने गुणोंसे मजबूत बाँधकर रोक लिया है इसीलिए तो मैं इसे लोंघकर आगे जानेके लिए समर्थ नहीं हूँ ॥५१५॥ मैं यहाँ भूमिगोचरियोंके अगोचर सुन्दर महल वनवाता हूँ । इस समय चूँकि मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है इसलिए वह आगामी शुभकी सूचना देता है ॥५१६॥ पातालके बीचमे स्थित अलङ्कारपुरमे रहते-रहते मेरा मन्त्र खिन्न हो गया है सो यहाँ अवश्य ही प्रीतिको प्राप्त होगा ॥५१७॥ प्रिया श्रीमालाने किष्किन्धके इस

१. स्वस्य ख० । २. आवयोः । ३. ख० पुस्तके अत्र 'स्थापयत्येव निभ्रान्तः प्रीतिं तद्गतचेतसा'
 इत्यधिकः पाठः । ४. मेतु म० ।

सर्ववान्धवयुक्तेन तेम स्वर्गसमं पुरम् । क्षणात्तद्गप्रमोदेन रचित गिरिमूर्द्धनि ॥५१६॥
 अभिधान कृतं चास्य निजमेव यशस्विना । यतोऽद्यापि पृथिव्यां तत् किंकिन्धपुरमुच्यते ॥५२०॥
 पर्वतोऽपि स किंकिन्धः प्रख्यातस्तस्य सगमात् । पूर्वं तु मधुरित्यासीन्नाम तस्य जगद्गतम् ॥५२१॥
 सम्यग्दर्शनयुक्तोऽसौ जिनपूजासमुद्यतः । भुञ्जानः परमान् भोगान् सुखेन न्यवसच्चिरम् ॥५२२॥
 तस्माच्च सभव प्राप श्रीमालाया सुतद्वयम् । ज्येष्ठः सूर्यरजा नाम ख्यातो^१ यज्ञरजास्तथा ॥५२३॥
 सुता च सूर्यकमला जाता कमलकोमला । यया विद्याधरा सर्वे शोभया विकलवीकृताः ॥५२४॥
 अथ मेघपुरे राजा मेरुनाम नभश्चरः । मघोन्यां तेन संभूतो मृगारिदमनः सुतः ॥५२५॥
 तेन पर्यटता दृष्टा किंकिन्धतनयान्यदा । तस्यामुत्कण्ठितो लेभे न स नक्तदिवा सुखम् ॥५२६॥
 अन्यर्थिता सुहृद्भिः सा तदर्थं सादरैस्ततः । सप्रथार्थं सम देव्या दत्ता किंकिन्धभूमृता ॥५२७॥
 निर्वृत्त च विधानेन तयोर्वावाहमङ्गलम् । किंकिन्धनगरे रम्ये ध्वजादिकृतभूपणे ॥५२८॥
 प्रतिगच्छन् स^३ तामूढ्वा न्यवसत्कर्णपर्वते । कर्णकुण्डलमेतेन नगरं तत्र निर्मितम् ॥५२९॥
 अलङ्कारपुरेशस्य सुकेशस्याथ सूनवः । इन्द्राण्या जन्म संप्रापुः क्रमेण पुरुविक्रमाः ॥५३०॥
 अमीपां प्रथमो माली सुमाली चेति मध्यमः । कर्नीयान् माल्यवान् ख्यातो विज्ञानगुणभूषणः ॥५३१॥

कथनका समर्थन किया तब आश्चर्यसे भरा किंकिन्ध मेघसमूहको चीरता हुआ, पर्वतपर उतरा ॥५१६॥ समस्त वान्धवोसे युक्त, भारी हर्षको धारण करनेवाले राजा किंकिन्धने पर्वतके शिखरपर क्षण भरमे स्वर्णके समान नगरकी रचना की ॥५१६॥ जो अपना नाम था यशस्वी किंकिन्धने वही नाम उस नगरका रक्खा । यही कारण है कि वह पृथिवीमे आज भी किंकिन्धपुर कहा जाता है ॥५२०॥ पहले उस पर्वतका 'मधु' यह नाम संसारमे प्रसिद्ध था परन्तु अब किंकिन्धपुरके समागमसे उसका नाम भी किंकिन्धगिरि प्रसिद्ध हो गया ॥५२१॥ सम्यग्दर्शनसे सहित तथा जिनपूजामे उद्यत रहनेवाला राजा किंकिन्ध उत्कृष्ट भोगोको भोगता हुआ चिर काल तक उस पर्वतपर निवास करता रहा ॥५२२॥ तदनन्तर राजा किंकिन्ध और रानी श्रीमालाके दो पुत्र उत्पन्न हुए । उनमे वड़ेका नाम सूर्यरज और छोटेका नाम यक्षरज था ॥५२३॥ इन दो पुत्रोके सिवाय उनके कमलके समान कोमल अङ्गको धारण करनेवाली सूर्यकमला नामकी पुत्री भी उत्पन्न हुई । वह पुत्री इतनी सुन्दरी थी कि उसने अपनी शोभाके द्वारा समस्त विद्याधरोको वैचैन कर दिया था ॥५२४॥

अथानन्तर मेघपुरनगरमे मेरु नामका विद्याधर राजा राज्य करता था । उसकी मघोनी नामकी रानीसे मृगारिदमन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥५२५॥ एक दिन मृगारिदमन अपनी इच्छानुसार भ्रमण कर रहा था कि उसने किंकिन्धको पुत्री सूर्यकमलाको देखा । उसे देख मृगारिदमन इतना उत्कण्ठित हुआ कि वह न तो रातमें सुख पाता था और न दिनमें ही ॥५२६॥ तदनन्तर मित्राने आदरके साथ उसके लिए सूर्यकमलाकी याचना की और राजा किंकिन्धने रानी श्रीमालाके साथ सलाह कर देना स्वीकृत कर लिया ॥५२७॥ ध्वजा-पताका आदिसे विभूषित, महामनोहर किंकिन्ध नगरमे विधिपूर्वक मृगारिदमन और सूर्यकमलाका विवाह-मङ्गल पूर्ण हुआ ॥५२८॥ मृगारिदमन सूर्यकमलाको विवाहकर जब वापिस जा रहा था तब वह कर्ण नामक पर्वत पर ठहरा । वहाँ उसने कर्णकुण्डल नामका नगर बसाया ॥५२९॥

अलङ्कारपुरके राजा सुकेशकी इन्द्राणी नामकी रानीसे क्रमपूर्वक तीन महाबलवान् पुत्रोने जन्म प्राप्त किया ॥५३०॥ उनमेंसे पहलेका नाम माली, मभलेका नाम सुमाली और सबसे छोटेका नाम माल्यवान् था । ये तीनों ही पुत्र परमविज्ञानी तथा गुण रूपी आभूषणोंसे सहित थे ॥५३१॥ उन

१. ख्यातोऽज्ञरजा म० । २. सचार्य क० । ३. तामूढा म० । ४. मध्यगाः म० ।

अहरन्मानस पित्रोर्वेन्द्रु नां द्विपता तथा । तेषां क्रीडा कुमाराणां देवानामिव सान्द्रता ॥५३२॥
 सिद्धविद्यासमुद्भूतवीर्योद्भवैर्क्रियास्ततः । निवारिताः पितृभ्या ते यत्रादिति पुन पुनः ॥५३३॥
 रन्तु चेद्वात किष्किन्ध पुत्रा. कौमारचापलात् । मा ब्राजिष्ट समीप त्व जातुचिद्विणिगाम्बुधे ॥५३४॥
 ततः प्रणम्य तैः^३ पृष्टौ पितरौ तत्र कारणम् । कुनूहलस्य ब्राह्म्याद्वीर्यशैशवसंभृतान् ॥५३५॥
 अनाख्येयमिदं वत्सा इति तौ विहितोत्तरौ । सुतरामनुबन्धेन सुतैः पृष्टौ सचाटुभि ॥५३६॥
 ततस्तेभ्यः सुकेगेन कथितं शृणुतामजा । हेतुना विदितेनात्र यद्यवश्य प्रयोजनम् ॥५३७॥
 पुर्यामगनिवेगेन लङ्कायां स्थापितः पुरा । निर्घातो नामतः क्रूरः खेचरो बलवानलम् ॥५३८॥
 कुलक्रमेण सास्माकमागता नगरी शुभा । रिपोस्तस्माद् भयार्थ्यक्ता नितान्तमसुवत् प्रिया ॥५३९॥
 देशे देशे चरास्तेन नियुक्ताः पापकर्मणा । दत्तावधानाः सततमस्मद्धिद्रगत्रेपणे ॥५४०॥
 यन्त्राणि च प्रयुक्तानि यानि कुर्वन्ति मारणम् । विदित्वा रमणासक्तान् भवतो गगनाङ्गणे ॥५४१॥
 निवृन्ति तानि रन्ध्रेषु कृत्वा रूपेण लोभनम् । प्रमदाचरणानीवागक्त तपसि योगिनम् ॥५४२॥
 एव निगदितं श्रुत्वा पितृदुःखानुचिन्तनात् । निःश्वस्य मालिना दीर्घं समुद्भूताश्रुक्षुपा ॥५४३॥
 क्रोधसंपूर्णचित्तेन कृत्वा गर्वस्मितं चिरम् । निरीक्ष्य वाह्युगल प्रगल्भमिति भाषितम् ॥५४४॥
 इत्यन्तं समयं तात कस्माद्धो न निवेदितम् । अहो स्नेहापदेशेन गुरुणा वञ्चिता वयम् ॥५४५॥
 अत्रिधाय नराः कार्यं ये गर्जन्ति निरर्थकम् । महान्तं लाघव लोके शक्तिमन्तोऽपि यान्ति ते ॥५४६॥

कुमार्गोंकी क्रीड़ा देवोंकी क्रीड़ाके समान अद्भुत थी तथा माता-पिता वन्धुजन और शत्रुओंके भी मनको हरण करती थी ॥५३२॥ सिद्ध हुई विद्याओंसे समुत्पन्न पराक्रमके कारण जिनकी क्रियाएँ अत्यन्त उद्धत हो रहीं थी ऐसे उन कुमारोंको माता-पिता बड़े प्रयत्नसे बार-बार मना करते थे कि हे पुत्रो ! यदि तुम लोग अपनी बालचपलताके कारण क्रीड़ा करनेके लिए किष्किन्ध-गिरि जाओ तो दक्षिण समुद्रके समीप कभी नहीं जाना ॥५३३-५३४॥ पराक्रम तथा बाल्य अवस्थाके कारण समुत्पन्न कुनूहलकी बहुलतासे वे पुत्र प्रणामकर माता-पितासे इसका कारण पूछते थे तो वे यही उत्तर देते थे कि हे पुत्रो ! यह बात कहनेकी नहीं है । एक बार पुत्रोंने बड़े अनुनय-विनयके साथ आग्रहकर पूछा तो पिता सुकेशने उनसे कहा कि हे पुत्रो ! यदि तुम्हें इसका कारण अवश्य ही जाननेका प्रयोजन है तो सुनो ॥५३५-५३७॥ बहुत पहलके बात है कि अशनिवेगने लङ्कामें शासन करनेके लिए निर्घात नामक अत्यन्त क्रूर एवं बलवान् विद्याधरको नियुक्त किया है । वह लंका नगरी कुल-परम्परासे चली आई हमारी शुभ नगरी है । वह यद्यपि हमारे लिए प्राणोंके समान प्रिय थी तो भी बलवान् शत्रुके भयसे हमने उसे छोड़ दिया ॥५३८-५३९॥ पाप कर्ममें तत्पर शत्रुने जगह-जगह ऐसे गुप्तचर नियुक्त किये हैं जो सदा हम लोगोंके छिद्र खोजनेमें सावधान रहते हैं ॥५४०॥ उसने जगह-जगह ऐसे यन्त्र बना रखे हैं कि जो आक्राशागणमें क्रीड़ा करते हुए आप लोगोंको जानकर मार देते हैं ॥५४१॥ वे यन्त्र अपने मौन्दर्यसे प्रलोभन देकर दर्शकोंको भीतर बुलाते हैं और फिर उस तरह नष्ट कर देते हैं कि जिस तरह तपश्चरणके समय होनेवाले प्रमाद पूर्ण आचरण असमर्थ योगीको नष्ट कर देते हैं ॥५४२॥ इस प्रकार पिताका कहा सुन और उनके दुःखका विचारकर माली लम्बी साँस छोड़ने लगा तथा उसकी आँखोंसे आँसू बहने लगे ॥५४३॥ उसका चित्त क्रोधसे भर गया, वह चिरकाल तक गर्वसे मन्द-मन्द हँसता रहा और फिर अपनी भुजाओंका युगल देख इस प्रकार गम्भीर स्वरसे बोला ॥५४४॥ हे पिता जी ! इतने समय तक यह बात तुमने हम लोगोंसे क्यों नहीं कही ? बड़े आश्चर्यकी बात है कि आपने बड़े भारी स्नेहके वहाने हम लोगोंको धोखा दिया ॥५४५॥ जो मनुष्य

१. चाद्भुता म० । २. वीर्योद्भूत ख० । वीर्योद्भूत म० । ३. तौ म० । ४. त्यक्त्वा म० । ५. अस्म-

वास्तां ततः फलेनैव शमतां तात यास्यसि । तन्मर्यादं कृत चेद मया चूडाविमोक्षणम् ॥५४७॥
 अयामङ्गलर्भासाभ्या वाचा ते न निवारिताः । पितृभ्या तनया यात सिन्धुदृष्ट्यानुव्रीक्षिताः ॥५४८॥
 पातालादथ निर्गम्य यथा भवनवासिनः । जग्मुः प्रत्यरि सोन्साहा भ्रातरः शस्त्रभासुराः ॥५४९॥
 तेषामनुपद लना ततो राक्षसवाहिनी । चलदायुधधारोर्मिमाला व्याप्य नभस्तलम् ॥५५०॥
 निरीक्षिता पितृभ्यां ते यावत्लोचनगोचरम् । व्रजन्तः स्नेहसम्पूर्णमानसाभ्यां समङ्गलम् ॥५५१॥
 त्रिकूटशिखरेणासौ ततस्तैरुपलक्षिता । दृष्ट्वैव प्रौढया ज्ञाता गृहीतेति पुरी वरा ॥५५२॥
 व्रजस्त्रिरेव तैः केचिद्वैत्या मृत्युवशीकृताः । केचिद्व्यणवता नीताः केचित् स्थानान्निभोचिताः ॥५५३॥
 विशङ्गि सैन्यमागत्य प्रणतैः शत्रुगोचरैः । ते सामन्तैरलं जाता महान्तः पृथुकोर्तयः ॥५५४॥
 शत्रूणामागम श्रुत्वा निर्घातो निर्घयां ततः । युद्धौण्डश्रलच्छत्रच्छायाच्छत्रद्विवाकरः ॥५५५॥
 ततोऽभवन्महायुद्ध सेनयोः सत्त्वदारणम् । वाजिभिर्वारणैर्मत्तैर्विमानैः स्यन्दनैस्तथा ॥५५६॥
 महीमयमिवोत्पन्न गगनं दन्तिना कुलैः । तथा जलात्मकं जातं तेषां गण्डच्युताम्भसा ॥५५७॥
 वातात्मकं च तत्कर्णतालसंजातवायुना । तेजोमयं तथान्योऽन्यगस्त्राघातोत्थवह्निना ॥५५८॥
 दीनैः किमपरैरत्र निहतैः क्षुद्रत्वेचरैः । क्वासौ क्वासौ गतः पापो निर्घात इति चोदयन् ॥५५९॥

कार्य न कर केवल निष्प्रयोजन गर्जना करते हैं वे लोकमे शक्ति शाली होनेपर भी महान् अनादरको पाते हैं ॥५४६॥ अथवा रहने दो, यह सब कहनेसे क्या ? हे तात ! आप फल देखकर ही शान्तिको प्राप्त होंगे । जब तक यह कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तकके लिए मैं यह चोटी खोल कर रखूंगा ॥५४७॥ अथानन्तर अमङ्गलसे भयभीत माता-पिताने उन्हें वचनसे मना नहीं किया । केवल स्नेह पूर्ण दृष्टिसे उनकी ओर देख कर कहा कि हे पुत्रो ! जाओ ॥५४८॥ तदनन्तर वे तीनों भाई भवनवासी देवोंके समान पातालसे निकल कर शुत्रकी ओर चले । उस समय वे तीनों भाई उत्साहसे भर रहे थे तथा शस्त्रोंसे देदीप्यमान हो रहे थे ॥५४९॥ तदनन्तर चञ्चल शस्त्रोंकी धारा ही जिसमें लहरोंका समूह था ऐसी राक्षसोंकी सेना रूपी नदी आकाशतलको व्याप्त कर उनके पीछे लग गई ॥५५०॥ तीनों पुत्र आगे बढ़े जा रहे थे और जिनके हृदय स्नेहसे परिपूर्ण थे ऐसे माता-पिता उन्हें जब तक वे नेत्रोंसे दिखते रहे तब तक मङ्गलाचार पूर्वक देखते रहे ॥५५१॥ तदनन्तर त्रिकूटाचलकी शिखरसे उपलक्षित लङ्कापुरीको उन्होंने गम्भीर दृष्टिसे देख कर ऐसा समझा मानो हमने उसे ले ही लिया है ॥५५२॥ जाते-जाते ही उन्होंने कितने ही दैत्य मौतके घाट उतार दिये, कितने ही वश कर लिये और कितने ही म्यानसे च्युत कर दिये ॥५५३॥ शत्रु पक्षके सामन्त नम्रीभूत हो कर सेनामे आकर मिलते जाते थे इससे विशालकीर्ति के धारक तीनों ही कुमार एक बड़ी सेनासे युक्त हो गये थे ॥५५४॥ युद्धमे निपुण तथा चञ्चल छत्रकी छायासे सूर्यको आच्छादित करने वाला निर्घात शत्रुओंका आगमन सुन लङ्कासे बाहर निकला ॥५५५॥ तदनन्तर दोनों सेनाओंमे महायुद्ध हुआ । उनका वह महायुद्ध घोड़ों, मदोन्मत्त हाथियों, तथा अपरिमित रथोंसे जीवोंको नष्ट करनेवाला था ॥५५६॥ हाथियोंके समूहसे आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो पृथिवीमय ही हो, उनके गण्डस्थलसे च्युत जलसे ऐसा जान पड़ता था मानो जलमय ही हो, उनके कर्णरूपी तालपत्रसे उत्पन्न वायुसे ऐसा जान पड़ता था मानो वायुरूप ही हो और परस्परके आघातसे उत्पन्न अग्निसे ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि रूप ही हो ॥५५७-५५८॥ युद्धमे दीन हीन अन्य कुछ विद्याधरोंके मारनेसे क्या लाभ है ? वह पापी निर्घात कहाँ है ? कहाँ है ? इसप्रकार प्रेरणा करता हुआ माली आगे बढ़ रहा था

दृष्ट्वा नार्थी शितैर्वांगे, कृत्वा स्पन्दनवर्जितम् । निर्वातमनिनिर्वाताच्चक्रे मंप्राप्तपञ्चतम् ॥५६०॥
 निर्वातं निहतं ज्ञात्वा दानवा भ्रष्टचेतसः । यथास्त्रं निलयं याता विजयार्द्धनगात्रितम् ॥५६१॥
 केचिक्कण्डे समाम्नाय कृपणं कृपणोत्पता । मालिनं चरया याताः शरणं रणकातरा ॥५६२॥
 प्रविष्टान्ने ततो लङ्का त्रातरो मङ्गलार्चितम् । समागमं च मंप्राप्ताः पितृप्रभृतिवान्बन्धु ॥५६३॥
 ततो हेमपुरेगन्ध सुतां हेमन्वचारिण । भोगवशां समुत्पन्नां नाम्ना चन्द्रवतीं शुभाम् ॥५६४॥
 उवाह विधिना माली मानसोत्पवकारिणीम् । न्वभावचपलस्त्वान्तहृषाकृमृगवागुगम् ॥५६५॥
 प्रीतिकृत्पुत्रेगन्ध प्रीतिकान्तस्य चान्नज्ञाम् । प्रीतिसन्धुङ्गां लेभे सुमाली प्रीतिपञ्चिताम् ॥५६६॥
 कनकाभपुरेगन्ध कनकस्य सुतां यथा । उवाह कनकश्रीजां माल्यवान् कनकावलीम् ॥५६७॥
 एतेषां प्रथमा जाया एता हृदयमंत्रया । अङ्गानां सहस्रं तु प्रत्येकमधिकं स्मृतम् ॥५६८॥
 श्रेणीद्वयं तन्मन्त्रं पराक्रमवशाद्भुतम् । गेषामिव वनागजा शिरसा रचिताञ्जलिम् ॥५६९॥
 दृढबद्धपदाथ प्रनियुक्तानिजसम्पर्का । जानां सुकेशकिष्किन्धौ निर्ग्रन्थी शान्तचेतसौ ॥५७०॥

मन्दाक्रान्ताच्छन्दः

मुञ्चा मुञ्चा विपत्रजनिन म्पञ्चमेवं महान्तो
 लङ्का जैनं भवशतमलध्वंसनं मुक्तिमार्गम् ।
 याना प्रायः प्रियजनगुगल्लेहपाशादपेता,
 सिद्धिम्यानं निरुपनमुत्वं गदमा चानराश्च ॥५७१॥

॥५५६॥ अन्तमें मालीने निर्वातको देव कर पहले तो उसे तीक्ष्ण बाणोंसे रथरहित क्रिया और फिर तलवारके प्रहारसे उसे समाप्त कर दिया ॥५६०॥ निर्वातको मरा जानकर जिनका चित्त भ्रष्ट हो गया था ऐसे दानव विजयार्थ पर्वत पर स्थित अपने अपने भवनोंमें चले गये ॥५६१॥ युद्धमें डरने वाले कितने ही दान दान दानव कण्ठमें तलवार लटका कर शीघ्र ही मालीकी शरणमें पहुँचे ॥५६२॥ तदनन्तर माली आदि तीनों भाइयोंने मङ्गलमय पदार्थोंसे सुशोभित लंकानगरीमें श्वेश किया । वहीं माता-पिता आदि इष्ट जनके साथ समागमको प्राप्त हुए ॥५६३॥

तदनन्तर हेमपुरके राजा हेमविद्यावरकी भोगवती रानीसे उत्पन्न चन्द्रवती नामक शुभ पुत्रीको मालीने विधिपूर्वक विवाहा । चन्द्रवती मालीके मनमें आनन्द उत्पन्न करनेवाली थी तथा स्वभावसे ही चपल मन और इन्द्रिय रूपी मृगोंको बाँधनेके लिए जालके समान थी ॥५६४-५६५॥ प्रीतिकृत्पुत्रके स्वामी राजा प्रीतिकान्त और रानी प्रीतिसतीकी पुत्री प्रीतिको सुमालीने प्राप्त किया ॥५६६॥ कनकाभनगरके स्वामी राजा कनक और रानी कनकश्रीकी पुत्री कनकावलीको माल्यवानने विवाहा ॥५६७॥ सदा हृदयमें निवास करनेवाली ये इनकी प्रथम स्त्रियाँ थीं वैसे प्रत्येककी कुछ अधिक एक-एक हजार स्त्रियाँ थी ॥५६८॥ तदनन्तर विजयार्थ पर्वतकी दोनों श्रेणियों उनके पराक्रमसे वशीभूत हो गेषाङ्गतके समान उनकी आवाजों हाथ जोड़कर शिरसे धारण करने लगीं ॥५६९॥ अन्तमें अपने-अपने पदोंपर अच्छी तरह आरुढ़ पुत्रोंके लिए अपनी-अपनी सम्यक् मौपकर सुकेश और किष्किन्ध शान्त चित्त हो निर्ग्रन्थ साधु हो गये ॥५७०॥ इस प्रकार प्रायः कितने ही बड़े-बड़े राजसवंशी और वानरवंशी राजा विषय मन्वन्थी सुखका लपभोगकर अन्तमें संसारके संकड़ों दीपोंको नष्ट करनेवाला जितेन्द्र प्रणीत मोक्ष मार्ग पाकर, प्रियजनोंके गुणोत्पन्न स्नेह रूपी बन्धनसे दूर दृढ अनुपम सुखसे सम्पन्न मोक्ष

कृत्वाप्येवं सुब्रह्म दुरित ध्यानयोगेन दग्ध्वा
 सिद्धावासे निहितमत्तयो योगिनस्यक्तसङ्गाः ।
 पृथं ज्ञान्वा सुचरितगुण प्राणिनो यात शान्ति
 मोहोच्छेदात् कृतजयरविः प्राप्नुत ज्ञानराज्यम् ॥५७२॥

इत्यार्षे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते वानरवंशाभिधान नाम पष्ठं पर्व ॥६॥



स्थानको प्राप्त हुए ॥५७१॥ कितने ही लोगोंने यद्यपि गृहस्थ अवस्थामें बहुत भारी पाप किया था तो भी उसे निर्ग्रन्थ साधु हो ध्यानके योगसे भस्म कर दिया था और मोक्षमें अपनी बुद्धि लगाई थी । इस प्रकार सम्यक्चारित्रके प्रभावको जानकर हे भक्त प्राणियो ! शान्तिको प्राप्त होओ, मोहका उच्छेद कर विजय रूपी सूर्यको प्राप्त होओ और अन्तमें ज्ञानका राज्य प्राप्त करो ॥५७२॥

इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध, रविपेणाचार्य प्रोक्त पद्मचरितमें वानरवंशका कथन करनेवाला छठवाँ पर्व पूर्ण हुआ ॥६॥

सप्तमं पर्व

अत्रान्तरे पुरे राजा रथनूपुरनामनि । महस्त्रार इति ख्यातो बभूवान्तमुद्वतः ॥१॥
 तस्य भार्या बभूवेष्टा नाम्ना मानसमुन्दरी । सुन्दरी मानसेनाल शरीरेण च सदगुणा ॥२॥
 अन्तर्वर्त्नी मर्तामेनामन्यन्तकृशविग्रहाम् । भर्तापृच्छन् श्लयाशेषमूपणां वीक्ष्य सादरम् ॥३॥
 विभ्रयद्भानि ते कस्मान्नितान्त तनुता प्रिये । किं तवाकाङ्क्षितं राज्ये मम वायेत दुलमम् ॥४॥
 गवा प्रगल्भनां ब्रूहि तवाद्यैव समीहितम् । सपाश्यामि निःशेषं देवि प्राणशरीरयामि ॥५॥
 कर्तुं शक्तोऽस्मि ते कान्ते सुगस्त्राकृतशासताम् । शर्चामपि कराग्राम्यां पादसंवाहकारिणीम् ॥६॥
 द्युक्ता सा ततस्त्वेन वरागंहाङ्गमंथिता । जगाद विनयादेव वचनं लीलयान्वितम् ॥७॥
 यस्मादागम्य मे गर्भं मंभव कोऽप्यय गतः । ततः प्रवृत्तिं वान्छामि भोक्तुमिन्द्रस्य सम्पदम् ॥८॥
 इमे मनोरथा नाथ परित्यज्य मया व्रपाम् । परात्तयान्यन्त भवतो विनिवेदिताः ॥९॥
 द्युक्ते कल्पिता भोगसम्पत्तम्याः सुरेन्द्रजा । विद्यावलमसृद्देन सहस्त्रारेण तन्त्रणात् ॥१०॥
 सम्पूर्णदोहदा जाता सा तत पूर्णविग्रहा । धारयन्ती दुरास्थानां द्युति कान्तिञ्च भामिनी ॥११॥
 व्रजता त्रिणाप्यूर्ध्वं खेद जग्राह तेजसा । अभ्यवान्दृच्च सर्वासां दानुमाज्ञां दिशामपि ॥१२॥
 कान्ते पूर्णे च मपूर्णलक्षणाद्गमसूत सा । दासक वान्धवानन्दसम्पदुत्तमकारणम् ॥१३॥
 ततो महोभव चक्रे महस्त्रार प्रमोदवान् । शङ्कन्यूननिनादेन वधिरौकृतदिदुःखम् ॥१४॥
 मनूपुरणकारचरणन्यामकुट्टनैः । नृत्यन्तीभि पुरस्त्राभि कृतमूलकूपनम् ॥१५॥

अथानन्तर रथनूपुर नगरमें अत्यन्त पराक्रमका धारी राजा सहस्त्रार राज्य करता था ॥१॥ उसकी मानसमुन्दरी नामक प्रिय स्त्री थी । मानसमुन्दरी मन तथा शरीर दोनोंसे ही सुन्दर थी और अनेक उत्तमोत्तम गुणोंसे युक्त थी ॥२॥ वह गर्भिणी हुई । गर्भके कारण उसका समस्त शरीर कृश हो गया और समस्त आभूषण शिथिल पड़ गये । उसे बड़े आदरके साथ देखकर राजा महस्त्रारने पूछा कि हे प्रिये ! तेरे अङ्ग अत्यन्त कृशताको क्यों धारण कर रहे हैं ? तेरी क्या अभिलाषा है ? जो मेरे राज्यमें दुर्लभ हो ॥३-४॥ हे प्राणोंसे अधिक प्यारी देवि ! कह तेरी क्या अभिलाषा है ? मैं आज ही उसे अच्छी तरह पूर्ण करूँगा ॥५॥ हे कान्ते ! देवाङ्गनाओंपर शानन करनेवाली इन्द्राणोंको भी मैं ऐसा करनेमें समर्थ हूँ कि वह अपनी हयेलियोंसे मेरे पादमर्दन करे ॥६॥ पतिके ऐसा कहनेपर उसकी सुन्दर गोदमें बैठी मानसमुन्दरी, विनय मे लीलापूर्वक इस प्रकारके वचन बोली ॥७॥ हे नाथ ! जबसे यह कोई बालक मेरे गर्भमें आया है तभीसे इन्द्रकी सम्पदा भोगनेकी मेरी इच्छा है ॥८॥ हे स्वामिन् ! अत्यन्त विवशताके कारण ही मैंने लज्जा छोड़कर ये मनोरथ आपके लिए प्रकट किये हैं ॥९॥ बल्लभाके ऐसा कहते ही विद्यावलसे समृद्ध सहस्त्रारने तन्त्रण ही उसके लिए इन्द्र जैसी भोग सम्पदा तैयार कर दी ॥१०॥ इसप्रकार दोहदपूर्ण होनेसे उसका समस्त शरीर पुष्ट हो गया और वह कहनेमें न आवे ऐसी दीप्ति तथा कान्ति धारण करने लगी ॥११॥ उसका इतना तेज बढ़ा कि वह ऊपर आकाशमें जाते हुए सूर्यसे भी खिन्न हो उठती थी तथा समस्त दिशाओंको आजा देनेकी उसकी इच्छा होती थी ॥१२॥ समय पूर्ण होनेपर उसने, जिसका शरीर समस्त लक्षणोंसे युक्त था तथा जो वान्धवजनोंके हर्ष और सम्पदाका उत्तम कारण था ऐसा पुत्र उत्पन्न किया ॥१३॥ तदनन्तर हर्षसे भरे सहस्त्रारने पुत्र-जन्मका महान् उत्सव किया । उस समय शङ्ख और तुरहीके शब्दोंसे दिशाएँ बहिरी हो गई थीं ॥१४-१५॥ नगरकी

यथेच्छं द्रविण दत्त विचारपरिवर्जितम् । प्रचलोद्ध्वकर्तृत्तं गजैरपि सवृहितम् ॥१६॥
 उत्पाताः शत्रुगहेषु सजाताः शोकसूचिनः । बन्धुगेहेषु चोत्पन्नाः सूचिका भूरिसम्पदः ॥१७॥
 अभिलापो यतस्तस्मिन्मातुर्गर्भस्थितेऽभवत् । इन्द्रभोगे ततः पित्रा कृत तस्येन्द्रशब्दनम् ॥१८॥
 बालक्रीडा वभूवास्य शक्तयूनोऽपि जित्वरी । भिदुरा रिपुदर्पाणां सृत्वरी चारुकर्मणि ॥१९॥
 क्रमात् स यौवनं प्राप्तस्तेजोनिर्जितभास्करम् । कान्तिनिर्जितरात्रीशं स्थैर्यनिर्जितपर्वतम् ॥२०॥
 अस्ता इव दिशस्तेन सुविस्तीर्णेन वक्षसा । दिङ्नागकुम्भतुङ्गासस्थवीयो वृत्तबाहुना ॥२१॥
 ऊरुस्तम्भद्वयं तस्य सुवृत्त गूढजानुकम् । जगाम परमस्थैर्यं वक्षोभवनधारणात् ॥२२॥
 विजयार्द्धगिरौ तेन सर्वे विद्याधराधिपाः । ग्राहिता वैतसीं वृत्तिं महाविद्याबलद्धिना ॥२३॥
 इन्द्रमन्दिरसकाश भवनं तस्य निर्मितम् । चत्वारिंशत्सहाष्टाभिः सहस्राणि च योपिताम् ॥२४॥
 पट्विंशतिसहस्राणि ननृतुर्नाटकानि च । दन्तिनां व्योममार्गाणां वाजिनां च निरन्ततां ॥२५॥
 शशाङ्कधवलस्तुङ्गो गगनाङ्गणगोचरः । दुर्निवार्यो महावीर्यो दंष्ट्राष्टकविराजितः ॥२६॥
 दन्तिराजो महावृत्तकरार्गलितदिङ्मुखः । ऐरावताभिधानेन गुणैश्च प्रथितो भुवि ॥२७॥
 शक्त्या परमया युक्तं लोकपालचतुष्टयम् । शची च महिषी रम्या सुधर्माख्या तथा सभा ॥२८॥
 वज्र प्रहरण त्रीणि सदांस्यप्सरसां गणाः । नाम्ना हरिणकेशी च सेनायास्तस्य चाधिपः ॥२९॥

स्त्रियों नृत्य करते समय जब नूपुरोंकी झनकारके साथ अपने पैर पृथिवीपर पटकती थीं तो पृथिवी तल कोंप उठता था ॥१५॥ बिना विचार किये इच्छानुसार धन दानमे दिया गया । मनुष्योंकी बात दूर रही हाथियोंने भी उस समय अपनी चञ्चल सँड ऊपर उठाकर गर्जना करते हुए नृत्य किया था ॥१६॥ शत्रुओंके घरोंमे शोक सूचक उत्पात होने लगे और बन्धुजनोंके घरोंमे बहुत भारी सम्पदाओंकी सूचना देनेवाले शुभ शकुन होने लगे ॥१७॥ चूँकि बालकके गर्भमें रहते हुए माताको इन्द्रके भोग भोगनेकी इच्छा हुई थी इसलिए पिताने उस बालकका इन्द्र नाम रक्खा ॥१८॥ वह बालक था फिर भी उसकी क्रीड़ाएँ शक्तिसम्पन्न तरुण मनुष्यको जीतने वाली थीं, शत्रुओका मान खण्डित करनेवाली थीं और उत्तम कार्यमे प्रवृत्त थीं ॥१९॥ क्रम-क्रमसे वह उस यौवनको प्राप्त हुआ जिसने तेजसे सूर्यको, कान्तिसे चन्द्रमाको और स्थैर्यसे पर्वतको जीत लिया था ॥२०॥ उसके कन्धे दिग्गजके गण्डस्थलके समान स्थूल और भुजाएँ गोल थीं तथा उसने विशाल वक्षस्थलसे समस्त दिशाएँ मानो आच्छादित ही कर रक्खी थीं ॥२१॥ जिनके घुटने मांसपेशियोंमे गूढ थे ऐसी उसकी दोनों गोल जाँघे स्तम्भोंकी तरह वक्षस्थलरूपी भवनको धारण करनेके कारण परम स्थिरताको प्राप्त हुई थीं ॥२२॥ बहुत भारी विद्याबल और ऋद्धिसे सम्पन्न उस तरुण इन्द्रने विजयार्ध पर्वतके समस्त विद्याधर राजाओको वेतके समान नम्रवृत्ति धारण करा रक्खी थी, अर्थात् सब उसके आज्ञाकारी थे ॥२३॥ उसने इन्द्रके महलके समान सुन्दर महल बनवाया । अड़तालीस हजार उसकी स्त्रियाँ थीं । छत्तीस हजार नृत्यकार नृत्य करते थे । आकाशमे चलनेवाले हाथियों और घोड़ोंकी तो गिनती ही नहीं थी ॥२४-२५॥ एक हाथी था, जो चन्द्रमाके समान सफेद था, ऊँचा था, आकाश रूपी आँगनमे चलनेवाला था, जिसे कोई रोक नहीं सकता था, महाशक्तिशाली था, आठ-दोँतीसे सुशोभित था, बड़ी मोटी गोल सँडसे जो दिशाओमे मानो अर्गल लगा रखता था, तथा गुणोंके द्वारा पृथिवीपर प्रसिद्ध था उसका उसने ऐरावत नाम रक्खा था ॥२६-२७॥ चारो दिशाओमें परम शक्तिसे युक्त चार लोकपाल नियुक्त किये, पट्टरानीका नाम शची और सभाका नाम सुधर्मा रक्खा ॥२८॥ वज्र नामका शस्त्र, तीन सभाएँ, अप्सराओके समूह, हरिणकेशी सेनापति,

अश्विनो वसवश्चाद्यौ चतुर्भेदा द्विर्वाक्यः । नारदस्तुम्बुरु विश्वावसुप्रभृतिगायकाः ॥३०॥
 उर्वशी मेनका मञ्जुस्वन्याद्यप्सरसो वराः । मन्त्री बृहस्पति सर्वमेव तस्य सुरेन्द्रवत् ॥३१॥
 ततोऽप्यौ नमिचजात सर्वविद्यामृता पति । ऐश्वर्यं सुरनायस्य विभ्राणः पुण्यसंभृतम् ॥३२॥
 अत्रान्तरे महामानो माली लङ्कापुरगपति । पूर्वयैव धिया सर्वान् गास्ति खेचरपुङ्गवान् ॥३३॥
 विजयार्द्धनगन्धेषु नमस्तेषु पुरेषु वा । लङ्कागत क्रोन्यैर्यं स्वभ्रातृवलगवितः ॥३४॥
 वेण्या यान विमान वा कन्या वापामि भूपगम् । यद्यच्छ्रेणीद्वये सारं वस्तु चारैर्निवेद्यते ॥३५॥
 तत्त सर्वं बलाद्वारः त्रिप्रमानयययर्मा । पञ्चदशमानमेवैकं बलविद्याविभूतिभि ॥३६॥
 इन्द्राश्रयान् नगंराजा भग्नां श्रुत्वास्य चान्यथा । प्रस्थितो भ्रातृकिष्किन्धसुतैः मार्कं महाबल ॥३७॥
 विमानत्रिविचच्छार्पैः संन्यासैर्गिबोन्नतैः । महाप्राप्तादयकार्षां स्यन्दनं काञ्चनाच्चितैः ॥३८॥
 गजैर्नवावनाकारैः ससिमिश्रितगामिभिः । गार्दूलैर्मृगैर्गोभिर्मृगराजैः क्रमेणैकैः ॥३९॥
^३वालेर्महिर्षैर्हैर्नैर्नैश्च वाहनैः । ग्राह्या द्वादशसर्वं महाभासुरविग्रहैः ॥४०॥
 अथ माहितमिन्यूचैः सुमाली भ्रातृवन्मल । प्रदेगोऽत्रैव तिष्ठामो भ्रातरद्य न गम्यते ॥४१॥
 लङ्का या प्रतिगन्धाम शृणु काण्णमत्र मे । अनिमित्तानि दृश्यन्ते पुन पुनरिहायने ॥४२॥
 एक सकोन्य चण्णमयन्ताकुलमानम । स्थितः शुष्कद्रुमन्यात्रे धुन्वन् पचात्र पुन पुन ॥४३॥

अश्विनिकुमार वद्य, आठ वसु, चार प्रकारके देव, नारद, तुम्बुरु, विश्वावसु आदि गायक, उर्वशी मेनका मञ्जुस्वनी आदि अप्सराएँ, और बृहस्पति मन्त्री आदि समस्त वैभव उसने इन्द्रके समान ही निश्चिन किया था ॥२६-३१॥ तदनन्तर यह, नमि विद्याधरके पुण्योदयसे प्राप्त इन्द्रका ऐश्वर्य धारण करता हुआ समस्त विद्याधरोंका अधिपति हुआ ॥३२॥

इसी समय लंकापुरीका न्यामी महामानी माली था सो समस्त विद्याधरों पर पहले ही के समान शासन करता था ॥३३॥ अपने भाइयोंके बलसे गर्वको धारण करने वाला माली, लङ्कामें रह कर ही विजयार्थवर्षतके समस्त नगरोंमें अपना शासन करता था ॥३४॥ वेश्या, वाहन, विमान, कन्या, वस्त्र तथा आभूषण आदि जो जो श्रेष्ठ वस्तु, दोनो श्रेणियोंमें गुप्तचरोंसे इन्ने मालूम होती थी उस सबको धीरे धीरे माली जबरदस्ती शीघ्र ही अपने यहाँ बुलवा लेता था । वह बल विद्या विभूति आदिसे अपने आपको ही सर्व श्रेष्ठ मानता था ॥३५-३६॥ अब इन्द्रका आश्रय पाकर विद्याधर मालीकी आज्ञा भंग करने लगे सो यह समाचार सुन महाबलवान् माली भाई तथा किष्किन्धके पुत्रोंके साथ विजयार्थ गिरिको ओर चला ॥३७॥ कोई अनेक प्रकारकी कान्तिको धारण करनेवाले तथा संन्याकालके मेघोंके समान ऊँचे विमानों पर बैठ कर जा रहे थे, कोई बड़े बड़े महलके समान सुवर्णजटित रथोंमें बैठकर चल रहे थे, कोई मेघोंके समान श्यामवर्ण हाथियोंपर बैठे थे, कोई मनके समान शीघ्र गमन करनेवाले घोड़ोंपर सवार थे, कोई शार्दूलों पर, कोई चीतोंपर, कोई बेलोंपर, कोई सिंहोंपर, कोई ऊँटोंपर, कोई गधोंपर, कोई भैंसोंपर, कोई हंसोंपर, कोई भेड़ियोंपर तथा कोई अन्य वाहनोंपर बैठकर प्रस्थान कर रहे थे । इस प्रकार महादृढ़ीयमान शरीरके धारक अन्यान्य वाहनोंसे समस्त आकाशाङ्गण को आच्छादित करता हुआ माली विजयार्थके निकट पहुँचा ॥३८-४०॥ अथानन्तर भाईके स्नेहसे भरे सुमालीने मालीसे कहा कि हे भाई ! हम सब आज यहीं ठहरे, आगे न चलें अथवा लङ्काको वापिस लौट चले । इसका कारण यह है कि आज मार्गमें बार बार अपशकुन दिखाई देते हैं ॥४१-४२॥ देखो उधर सूखे वृक्षके अग्रभाग पर बैठा कौआ एक पैर सङ्कुचित कर बार-बार पंख फड़फड़ा रहा है । उसका मन अत्यन्त व्याकुल दिखाई देता है, मूखा काठ चोंचमें

१. तुम्बुरो म० । २. अश्वैः । ३. खरैः । ४. मार्ग ।

शुष्ककाण्ड दधच्चन्वा^१ वीक्ष्यमाणो दिवाकरम् । रमन् क्रूरमय ध्वाङ्क्षो निवारयति नो गतिम् ॥४४॥
 ज्वालारौद्रमुखी चैव शिवां नो भुजदक्षिणे । घोरं विरोति रोमाणि^२ दृष्ट्वा निद्रयती मुहुः ॥४५॥
 अयं पतङ्गविम्बे च परिवेषिणि दृश्यते । कवन्धो भीषणो^३ वृष्टकीलालवजालक ॥४६॥
 घोरा. पतन्ति निर्घाताः, कम्पिताखिलपर्वताः । दृश्यन्ते वनिताः कृत्स्ना मुक्तकेश्यो नभस्तले ॥४७॥
 खरं खरः^४ खमुत्क्षिप्य मुखं मुखरयन्नभः । क्षिति खनन् खुराग्रेण दक्षिणं कुरुते स्वरम् ॥४८॥
 प्रत्युवाच ततो माली सुमालिनमिति स्फुटम् । कृत्वा स्मितं ददं वाहू^५ केशगभ्यां निर्पाडयन् ॥४९॥
 अभिप्रेत्य वधं गत्रोरारुह्य जयिनं द्विपम् । प्रस्थितः पौरुष विभ्रक्तयं^६ भूयो निवर्तते ॥५०॥
 दंष्ट्रयोः प्रेक्षणं कुर्वन् चरद्दानस्य दन्तिनः । चक्षुर्विनासितारातिः^७ पूर्यमाणः शितै शरैः ॥५१॥
 दन्तदष्टाधरो वद्वन्नकृटीकुटिलाननः । त्रिस्मितैरमरैर्दंष्ट्रो भटः कि विनिवर्तते ॥५२॥
 कन्दरासु रतं मेरोर्नन्दने चारुर्नन्दने । चैत्यालया जिनेन्द्राणां कारिता गगनस्पृशः ॥५३॥
 दत्त किमिच्छकं दान भुक्ता भोगा महागुणाः । यगो धवलितागेषभुवन समुपार्जितम् ॥५४॥
 जन्मनेत्यं कृतार्थोऽस्मि यदि प्राणान्महाहवे । परित्यजामि क्रियता कृतमन्येन वस्तुना ॥५५॥
 अस्मौ पलायितो भीतो वराक इति भाषितम् । कथमाकर्णयद्दीगे जनतायाः सुचेतसः ॥५६॥
 इति संभाषमाणोऽस्मौ भ्रातरं मासुगननः । विजयादस्य मूर्धानं क्षणाद्विदितं ययौ ॥५७॥

द्वाकर सूर्यकी ओर देखता हुआ क्रूर शब्द कर रहा है मानो हम लोगोंको आगे जानेसे रोक रहा है ॥४३-४४॥ इधर ज्वालाओसे जिसका मुख अत्यन्त रुद्र मालूम होता है ऐसी यह शृगाली दक्षिण दिशामे रोमाञ्च धारण करती हुई भयङ्कर शब्द कर रही है ॥४५॥ देखो, परिवेष से युक्त सूर्यके विम्बमें वह भयङ्कर कवन्ध दिखाई दे रहा है और उससे खूनकी वृद्धांका समूह वर्ष रहा है ॥४६॥ उधर समस्त पर्वतोंको कम्पित करनेवाले भयङ्कर वज्र गिर रहे हैं तो इधर आकाशमे खुले केश धारण करनेवाली समस्त स्त्रियों दिखाई दे रहीं हैं ॥४७॥ देखो, दाहिनी ओर वह गद्भ ऊपरको मुख उठाकर आकाशको बड़ी तीक्ष्णतासे मुखरित कर रहा है तथा खुरके अग्रभागसे पृथिवीको खोदता हुआ भयङ्कर शब्द कर रहा है ॥४८॥ तदनन्तर वाज्रवन्दोंसे दोनों भुजाओंको अच्छी तरह पीड़ित करते हुए मालीने मुसकगकर सुमालीको इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दिया कि शत्रुके वधका सङ्कल्पकर तथा विजयी हाथीपर सवार हो जो पुरुषार्थका धारी युद्धके लिए चल पड़ा है वह वापिस कैसे लौट सकता है ॥४९-५०॥ जो मद्मत्त हाथीकी दाढ़ोंको हिला रहा है, अपनी आँखोंसे ही जिसने शत्रुओंको भयभीत कर दिया है, जो तीक्ष्ण वाणोंसे परिपूर्ण है, दाँतोंसे जिसने अधरोष्ठ चाब रक्खा है, तनी हुई भ्रुकुटियोंसे जिसका मुँह कुटिल हो रहा है, तथा देव लोग जिसे आश्चर्य चकित हो देखते हैं ऐसा योद्धा क्या वापिस लौटता है ? ॥५१-५२॥ मैंने मेरु पर्वतकी कन्दराओं तथा सुन्दर नन्दन वनमे रमण किया है, गगनचुम्बी जिनमन्दिर वनवाये हैं ॥५३॥ किमिच्छक दान दिया है, उत्तमोत्तम भोग भोगे हैं. और समस्त संसारको उज्ज्वल करनेवाला यश उपार्जित किया है ॥५४॥ इस प्रकार जन्म लेनेका जो कार्य था उसे मैं कर चुका हूँ—कृतकृत्य हुआ हूँ, अब युद्धमे मुझे प्राण भी छोड़ना पड़े तो इससे क्या ? मुझे अन्य वस्तुकी आवश्यकता नहीं ॥५५॥ 'वह वेचारा भयभीत हो युद्धसे भाग गया' जनताके ऐसे शब्दोंको धीरवीर मनुष्य कैसे सुन सकता है ॥५६॥ क्रोधसे जिसका मुख तमतमा रहा था ऐसा माली भाईसे इस प्रकार कहता हुआ तत्क्षण विना जाने ही विजयार्थ के शिखरपर चला गया ॥५७॥ तदनन्तर जिन-जिन विद्याधरोंने उसका शासन नहीं माना था

१. वीक्ष्यमाण. म०, ख० । २. रत्नक्रूरमयं म० । ३. दृष्ट्या म० । ४. मुञ्जत्त्रीलाल-म० । ५. आकाशं । ६. केशगभ्यां म० । ७. भूयो म० । ८. प्रेक्षणं म० । ततो हि प्रेक्षणं क० । ९. तयमाणः म० (?) । १०. चारुवन्दिने म० । चारनन्दनः क० ।

ततोऽपमानित यैर्ष्यं शासन खेचराधिपैः । तत्पुराणि स सामन्तैर्ध्वंसयामास दारुणैः ॥५८॥
 उद्यानाना महाध्वंसो जनितः क्रोधिभिः खगैः । यथा कमलखण्डाना मातङ्गैर्मदमन्यरैः ॥५९॥
 ततः मवाध्यमाना सा प्रजा गगनचारिणाम् । जगाम शरण त्रस्ता सहस्रार सवेपथुः ॥६०॥
 पादयोश्च प्रणम्योचे वचो दीनमिदं भृशम् । सुकेशस्य सुतैर्ध्वस्तां समस्ता नाथ पालय ॥६१॥
 सहस्रारस्ततोऽवोचत् खगा गच्छत मत्सुतम् । विज्ञापयत युष्माक सपरित्राणकारणम् ॥६२॥
 त्रिविष्टप यथा शक्रो रक्षत्यूर्जितशासनः । एव लोकमिम पाति स सर्वं वृत्रसूदनः ॥६३॥
 एवमुक्तास्ततो जामुनिन्द्राम्ब्यास नभश्चरा । कृत्वाञ्जलि प्रणमुश्च वृत्तान्तं च न्यवेदयन् ॥६४॥
 इन्द्रस्ततोऽवदत् क्रद्धो दर्पस्मिलसिताननः । पार्श्वे व्यवस्थिते वज्रे दत्त्वा लोहितलोचने ॥६५॥
 यत्नेन महतान्विष्य हन्तव्या लोककण्टकाः । किं पुनः स्वयमायाताः समीप लोकपालिनः ॥६६॥
 ततो मत्तद्विपालानस्तम्भभङ्गस्य कारणम् । रणसज्ञाविधानार्थं विपम तूर्यमाहृतम् ॥६७॥
 सन्नाहमण्डनोपेता निरोयुश्च नभश्चराः । हेतिहस्ता पर हर्षं विभ्राणा रणसभ्रमम् ॥६८॥
 रथैरश्वैर्गजैरुष्टैः सिंहेर्घ्याभ्रैर्वृकैर्मृगैः । हसच्छागैर्वृषैर्मैपैर्विमानैर्वहणैः खरैः ॥६९॥
 लोकपालाश्च निर्जग्मुर्निजवर्गसमन्विताः । नानाहेतिप्रभाश्लिष्टा भ्रूभङ्गविपमाननाः ॥७०॥
 ऐरावत समारूढ कङ्कटच्छन्नविग्रहः । समुच्छ्रितसितच्छत्रो निरैदिन्द्रः सम सुरैः ॥७१॥

उन सबके नगर उसने क्रूर सामन्तोंके द्वारा नष्ट-भ्रष्ट कर दिये ॥५८॥ जिस प्रकार मदमाते हाथी कमल वनोंको विध्वस्त कर देते हैं उसी प्रकार क्रोधसे भरे विद्याधरोने वहाँके उद्यान—बाग वगीचे विध्वस्त कर दिये ॥५९॥ तदनन्तर मालीके सामन्तो द्वारा पीडित विद्याधरोकी प्रजा भयसे कोंपती हुई सहस्रारकी शरणमे गई ॥६०॥ और उसके चरणोंमें नमस्कारकर इस प्रकार दीनता भरे शब्द कहने लगी—हे नाथ ! सुकेशके पुत्रोंने समस्त प्रजाको क्षत-विक्षत कर दिया है सो उसकी रक्षा करो ॥६१॥ तब सहस्रारने विद्याधरोंसे कहा कि आप लोग मेरे पुत्र—इन्द्रके पास जाओ और उससे अपनी रक्षाकी बात कहो ॥६२॥ जिस प्रकार बलिष्ठ शासनको धारण करनेवाला इन्द्र स्वर्गकी रक्षा करता है उसी प्रकार पापको नष्ट करनेवाला मेरा पुत्र इस समस्त लोककी रक्षा करता है ॥६३॥ इस प्रकार सहस्रारका उत्तर पाकर विद्याधर इन्द्रके समीप गये और हाथ जोड़कर प्रणाम करनेके बाद सब समाचार उससे कहने लगे ॥६४॥ तदनन्तर गर्वपूर्ण मुसकानसे जिसका मुख सफेद हो रहा था ऐसे क्रुद्ध इन्द्रने पासमे रखे वज्रपर लाल-लाल नेत्र डालकर कहा कि ॥६५॥ जो लोकके कण्टक हैं मैं उन्हें बड़े प्रयत्नसे खोज-खोजकर नष्ट करना चाहता हूँ फिर आप लोग तो स्वयं ही मेरे पास आये हैं और मैं लोकका रक्षक कहलाता हूँ ॥६६॥ तदनन्तर जिसे सुनकर भन्दोन्मत्त हाथी अपने बन्धनके खम्भोंको तोड़ देते थे ऐसा तुरहीका विपम शब्द उसने युद्धका सङ्केत करनेके लिए कराया ॥६७॥ उसे सुनते ही जो कवच रूपी आभूषणसे सहित थे, हथियार जिनके हाथमे थे और जो युद्ध सम्बन्धी परम हर्ष धारण कर रहे थे ऐसे विद्याधर अपने-अपने घरोंसे बाहर निकल पड़े ॥६८॥ वे विद्याधर सायामयी रथ, घोड़े, हाथी, ऊँट, सिंह, व्याघ्र, भेड़िया, मृग, हंस, बकरा, बैल, मेढ़ा, विमान, मोर और गर्दभ आदि वाहनोपर बैठे थे ॥६९॥ इनके सिवाय जो नाना प्रकारके शस्त्रोंकी प्रभासे आलिङ्गित थे तथा भौंहोंके भङ्गसे जिनके मुख विपम दिखाई देते थे ऐसे लोकपाल भी अपने-अपने परिकरके साथ बाहर निकल पड़े ॥७०॥ जिसका शरीर कवचसे आच्छादित था, और जिसके ऊपर सफेद छत्र फिर रहा था ऐसा इन्द्र विद्याधर भी ऐरावत हाथीपर आरूढ हो देवोंके

१. शासयामास क०, ख० । २. रक्षत्यूर्जित म० । ३. वृत्तसूदनः म०, क० । पापहारकः ।
 ४. निरगच्छत् ।

युगान्तवनर्मानानां तत प्रववृते रयः । देवानां राक्षसानां च दुःप्रेच्यः क्रुचेष्टिनः ॥७२॥
 नक्षिना पाच्यते वाजी रथेन चोद्यते रयः । भज्यते दन्तिना दन्तो ण्डानं च पडातिभिः ॥७३॥
 ग्राममुद्गरचक्रामिसुपर्डीसुसलेषुभिः । गदाकनकपाणिश्च दृष्टं दृष्टं नमस्तलम् ॥७४॥
 महोन्माहमयो सैन्यं पुरस्सरणदक्षिणम् । दक्षिणं चलितोद्योग देवानां निवर्हः कृतम् ॥७५॥
 विद्युत्चान् चान्दानश्च चन्द्रो नित्यगतिस्तथा । चलद्योतिःप्रभाह्यश्च रत्नसामन्निणोद् बलम् ॥७६॥
 अयन्नसूर्यरज्ज्वावुचुङ्कपिक्रेतुर्वा । नीदतो राक्षसान् वीक्ष्य दुर्दरा योदयुमुद्यता ॥७७॥
 दग्धिता घृष्टनेताभ्या सर्वे ते सुरयुङ्गवा । कृपादन्यत्र दृष्टान्यां दधदभ्यां वैद्युत ज्वम् ॥७८॥
 यानुद्याता अपि प्राप्य बलं ताभ्यां समुद्यता । योदुर्ध्वं शस्त्रममृहेन कुर्वाणा वान्तमन्वरे ॥७९॥
 ध्वस्तमान तदः सैन्यं देवं यानुकपिष्वजै । दृष्ट्वा क्रुद्धः समुत्तस्यो स्वय योद्धुं सुराधिप ॥८०॥
 कृपियानुद्यतेर्वास्तिततो देवेन्द्रसूवरः । शस्त्रवर्षं विमुञ्चस्त्रिस्तारगर्जनकाग्निभिः ॥८१॥
 निजगाढ तत शक्र पालयन् लोकपालिन । नर्वनो विगिर्विर्मुक्तैर्वभञ्ज कपिराक्षसान् ॥८२॥
 अय माली समुत्तस्यो सैन्यं दृष्ट्वा समाकुलम् । तेजना क्रोधजातेन दीपयन् सकलं नभः ॥८३॥
 अमवच्च ततो युद्धं मालीन्द्रमतिदाह्यम् । विस्मयभ्यासचित्तान्यां सेनाभ्यां हृतदर्शनम् ॥८४॥
 मालिनो मारुद्रेण्ये स्वक्रवानाङ्कितं गरम् । आकर्णाकृष्टनिर्मुक्तं निचन्वान सुराधिपः ॥८५॥
 मस्ताभ्य वेदनां श्लोधान्मालिनाप्यमरोत्तमः । ललाटस्य तटे शक्या हतो वेगविमुक्तया ॥८६॥

साथ बाह्य निकल्ला ॥७१॥ तदनन्तर प्रलय कालके मेघोंके समान भयङ्कर देवों और राक्षसोंके बीच ऐसा विकट युद्ध हुआ कि जो बड़ी कठिनाईसे देखा जाता था तथा क्रूर चेष्टाओंसे भरा था ॥७२॥ घोड़ा घोड़ाको गिरा रहा था, रथ रथको चूर्ण कर रहा था, हाथी हाथीको भग्न कर रहा था और पैदल सिपाही पैदल सिपाहीको नष्ट कर रहा था ॥७३॥ भाले, मुद्गर, चक्र, तलवार, वन्दूक, सुसल, वाण, गदा, कनक और पाश आदि शस्त्रोंसे समस्त आकाश आच्छादित हो गया था ॥७४॥ तदनन्तर देव कहानेवाले विद्याधरोंने एक ऐसी सेना बनाई जो महान् उत्साहसे युक्त थी. आगे चलनेमें कुशल थी. उदार थी और शत्रुके उद्योगको विचलित करनेवाली थी ॥७५॥ देवोंकी सेनाके प्रधान विद्युत्चान्, चान्दान, चन्द्र, नित्यगति तथा चलज्योति प्रभाह्य आदि देवोंने राक्षसोंकी सेनाको क्षत-विधत बना दिया । तब वानरवंशियोंमें प्रधान दुर्धर पराक्रमके धारी ऋक्षरज और सूर्यरज राक्षसोंको नष्ट होते देख युद्ध करनेके लिए तैयार हुए ॥७६-७७॥ ये दोनों ही वीर विजयी जैसे वेगको धारण करते थे इसलिए क्षण-क्षणमें अन्यत्र दिखाई देते थे । इन दोनोंने देवोंको इतना मारा कि उनसे पीठ दिखाते ही बर्ना ॥७८॥ इधर राक्षस भी इन दोनोंका बल पाकर शस्त्रोंके समूहसे आकाशमें अन्यकार फैलाते हुए युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए ॥७९॥ उधर जव इन्द्रने देखा कि राक्षसों और वानरवंशियोंके द्वारा देवोंकी सेना नष्ट की जा रही है तब वह क्रुद्ध हो स्वयं युद्ध करनेके लिए उठा ॥८०॥ तदनन्तर शस्त्र वर्षा और गम्भीर गर्जना करनेवाले वानर तथा राक्षस हर्षा मेघोंने उस इन्द्र रूपी पर्यतको घेर लिया ॥८१॥ तब लोकपालोंकी रक्षा करते हुए इन्द्रने जोरसे गर्जना की और सब ओर छोड़े हुए वाणोंसे वानर तथा राक्षसोंको नष्ट करना शुरू कर दिया ॥८२॥ तदनन्तर सेनाको व्याकुल देख माली न्वयं उठा । उस समय वह क्रोधसे उत्पन्न तेजसे समस्त आकाशको देदीप्यमान कर रहा था ॥८३॥ तदनन्तर माली और इन्द्रका अत्यन्त भयङ्कर युद्ध हुआ । आश्चर्यसे जिनके चित्त भर रहे थे ऐसी दोनों ओरकी सेनाएँ उनके उस युद्धको बड़े गौरवसे देख रही थीं ॥८४॥ तदनन्तर इन्द्रने, जो क्रान्तक खींचकर छोड़ा गया था तथा अपने नामसे चिह्नित था ऐसा एक वाण मालीके ललाटपर गाड़ दिया ॥८५॥ इधर मालीने भी उसकी पीड़ा रोकर वेगसे छोड़ी हुई

रक्ताङ्गितदेहञ्च माली द्राक् तमुपागतः । क्रोधारुणः सहस्रांशुर्यथास्तधरणीधरम् ॥८७॥
 भानुविम्बसमानेन चक्रेणास्य तत गिरः । अभिमुख्यमुपेतस्य लून पत्या द्विवीकसाम् ॥८८॥
 भ्रातरं निहत इष्ट्वा नितान्त दुःखितस्ततः । चिन्तयित्वा महावीर्यं चक्रिण व्योमगामिनाम् ॥८९॥
 परिवारेण सर्वेण निजेन सहितः क्षणात् । रणात् पलायन चक्रे सुमाली नयपेशल ॥९०॥
 तद्वधार्थं गतं शक्रमनुमार्गेण गत्वरम् । उवाच प्रणतः सोम स्वामिभक्तिपरायण ॥९१॥
 विद्यमाने प्रभो भृत्ये मादृशे शत्रुमारणे । प्रयत्न कुरुपे कस्मात् स्वय मे यच्छ शशासनम् ॥९२॥
 एवमस्त्विति चोक्तेऽभावनुमार्गं रिपुर्गतः । वाणपुञ्जं त्रिमुञ्चन्न करौघमिव शत्रुगाम् ॥९३॥
 ततस्तदाहतं सैन्य विशिलै कपिरक्षसाम् । धाराहत गवां यद्वत्कुलमाकुलता गतम् ॥९४॥
 पाप न क्षत्रमर्यादां त्व जानासि मनागपि । जडवर्गपरिचिस इत्युक्ता प्रासकारिणा ॥९५॥
 निवृत्त्य क्रोधद्वीप्तेन ततो माल्यवता शशी । गाढ स्तनान्तरे भिन्नो भिण्डमालेन मूर्च्छितः ॥९६॥
 अथ त्वाश्वस्यते यावन्मूर्च्छांमीलितलोचनः । अन्तर्द्धानं गतास्तावद् यातुधानप्लवङ्गमा ॥९७॥
 पुनर्जन्मेव ते प्राप्ता अलङ्कारोदय पुरम् । सिंहस्येव विनिःक्रान्ता जठरादागता सुखम् ॥९८॥
 प्रतिबुद्धः शशाङ्कोऽपि दिशो वीक्ष्य रिपूजिक्ताः । स्तूयमानो जयेनारेर्यथो मयवतोऽन्तिकम् ॥९९॥
 ध्वस्तशत्रुश्च सुत्रामा वन्दिना निवहै स्तुत । अन्वितो लोकपालाना चक्रवालेन तोपिणा ॥१००॥

शक्तिके द्वारा इन्द्रके ललाटके समीप ही जमकर चोट पहुँचाई ॥८६॥ खूनसे जिसका शरीर लाल हो रहा था ऐसा क्रोधयुक्त माली शीघ्र ही इन्द्रके पास इस तरह पहुँचा जिस तरह कि सूर्य अस्ताचलके समीप पहुँचता है ॥८७॥ तदनन्तर माली ज्योंही सामने आया त्योंही इन्द्रने सूर्य विम्बके समान चक्रसे उसका शिर काट डाला ॥८८॥ भाईको मरा देख सुमाली, बहुत दुःखी हुआ । उसने विचार किया कि विद्याधरोंका चक्रवर्ती इन्द्र महाशक्तिशाली है अतः इसके सामने हमारा स्थिर रहना असम्भव है । ऐसा विचारकर नीतिकुशल सुमाली अपने समस्त परिवार के साथ उसी समय युद्धसे भाग गया ॥८९-९०॥ उसका वध करनेके लिए इन्द्र उसी मार्गसे जानेको उद्यत हुआ तब स्वामिभक्तिमे तत्पर सोमने नम्र होकर प्रार्थना की कि हे प्रभो ! शत्रुको मारनेवाले मुझ जैसे भृत्यके रहते हुए आप स्वयं क्यों प्रयत्न करते हैं ? मुझे आज्ञा दीजिए ॥९१-९२॥ 'ऐसा ही हो' इस प्रकार इन्द्रके कहते ही सोम शत्रुके पीछे उसी मार्गसे चल पड़ा । वह शत्रु तक पहुँचनेवाली किरणोंके समूहके समान वाणोंके समूहकी वर्षा करता जाता था ॥९३॥ तदनन्तर जिस प्रकार जल वृष्टिसे पीडित गायोंका समूह व्याकुलताको प्राप्त होता है उसी प्रकार सोमके वाणोंसे पीडित वानर और राक्षसोंकी सेना व्याकुलताको प्राप्त हुई ॥९४॥ तदनन्तर अवसरके योग्य कार्य करनेवाले, क्रोधसे देदीप्यमान माल्यवान्ने मुड़कर सोमसे कहा कि अरे पापी ! तू मूर्ख लोगोसे घिरा है अतः तू युद्धकी मर्यादाको नहीं जानता । यह कहकर उसने भिण्डमाल नामक शस्त्रसे सोमके वक्षःस्थलमे इतनी गहरी चोट पहुँचाई कि वह वहीं मूर्च्छित हो गया ॥९५-९६॥ मूर्च्छाके कारण जिसके नेत्र निमीलित थे ऐसा सोम जब तक कुछ विश्राम लेता है तब तक राक्षस और वानर अन्तर्हित हो गये ॥९७॥ जिस प्रकार कोई सिंहके उदरसे सुरक्षित निकल आवे उसी प्रकार वे भी सोमकी चपेटसे सुरक्षित निकलकर अलङ्कारोदयपुर अर्थात् पाताल लङ्कामें वापिस आ गये । उस समय उन्हें ऐसा लगा मानो पुनर्जन्मको ही प्राप्त हुए हो ॥९८॥ इधर जब सोमकी मूर्च्छा दूर हुई तो उसने दिशाओंको शत्रुसे खाली देखा । निदान, शत्रुकी विजयसे जिसकी स्तुति ही रही थी ऐसा सोम इन्द्रके समीप वापिस पहुँचा ॥९९॥ जिसने शत्रुओंको नष्ट कर दिया था

१. सत्वरम् ख० । गत्वरं क० । २. शासतम् म० । ३. प्राप्तकारणम् क० । ४. सोमः । ५. अल-
 काराहय म० । ६. मुखम् ख० ।

ऐरावतं समारूढश्चामरानिलवीजितः । सितच्छत्रकृतच्छायो नृत्यत्सुरपुरसरः ॥१०१॥
 रत्नांशुकध्वजन्यस्तशोभमुच्छ्रिततोरणम् । आगुल्फपुष्पविशिवं सिक्तं कुङ्कुमवारिणा ॥१०२॥
 गवाक्षन्त्यस्तमन्नारानयनालीनिरीक्षितः । युक्तं परमया भूत्या विवेग रथनूपुरम् ॥१०३॥
 पित्रोश्च विनयात् पादौ प्रणनाम कृताञ्जलिः । तौ च पस्पृशतुर्गात्रं कम्पिना तस्य पाणिना ॥१०४॥
 शत्रून्नेव स निर्जित्य परमानन्दमागतः । आम्वाद्यन् पर भोगं प्रजापालनतत्परः ॥१०५॥
 सुतरां स ततो लोके प्रसिद्धिं शक्रतां गतः । प्राप्तः स्वर्गप्रसिद्धिं च विजयार्द्धं भूधरः ॥१०६॥
 उत्पत्तिं लोकपालानां तस्य वक्ष्यामि साम्प्रतम् । एकाग्रं मानसं कृत्वा श्रेणिकैपां निवृध्यताम् ॥१०७॥
 स्वर्गलोकाच्च्युतो जातो मकरध्वजखेचरात् । सभूतो जठरेऽदित्या लोकपालोऽभवच्छशी ॥१०८॥
 कान्तिमानेय शक्रेण द्योतिःसङ्गे पुरोत्तमे । पूर्वस्थां ककुभि न्यस्तो मुमुदे परमर्दिकः ॥१०९॥
 जातो मेघरथाभिख्याद्गुणायां महाबलः । खेचरो वरुणो नाम संप्राप्तो लोकपालताम् ॥११०॥
 पुरे मेघपुरे न्यस्तः पश्चिमाध्यामसौ दिशि । पाश प्रहरणं श्रुत्वा यस्य विभ्यति शत्रवः ॥१११॥
 संभूतः कनकावल्यां किंसूर्येण महात्मना । कुचेराख्यो नभोगामी विभूत्या परयान्वितः ॥११२॥
 काञ्चनाख्ये पुरे चायमुद्रीच्यां दिशि योजितः । संप्राप परम भोगं प्रख्यातो जगति धिया ॥११३॥
 संभूतः श्रीप्रभागर्भे कालाग्निव्योमचारिणः । चण्डकर्मा यमो नाम तेजस्वी परमोऽभवत् ॥११४॥
 दक्षिणोदन्वतो द्वीपे किष्कुनाग्नि पुरोत्तमे । स्थापितोऽसौ स्वपुण्यानां प्राप्नुवन्नृजित फलम् ॥११५॥

तथा वन्दीजनोके समूह जिसकी स्तुति कर रहे थे ऐसे इन्द्र विद्याधरने सन्तोपसे भरे लोकपालोके साथ रथनूपुर नगरमें प्रवेश किया । वह ऐरावत हाथीपर सवार था, उसके दोनों ओर चमर ढोले जा रहे थे, सफेद छत्रकी उसपर छाया थी, नृत्य करते हुए देव उसके आगे आगे चल रहे थे, तथा भरोखोमे बैठी उत्तम स्त्रियाँ अपने नयनोंसे उसे देख रही थीं । उस समय रत्नमयी ध्वजाओंसे रथनूपुर नगरको शोभा बढ़ रही थी, उसमें ऊँचे ऊँचे तोरण खड़े किये गये थे, उसकी गलियोंमें घुटनों तक फूल बिछाये गये थे और केशरके जलसे समस्त नगर सींचा गया था । ऐसे रथनूपुर नगरमें उसने बड़ी विभूतिके साथ प्रवेश किया ॥१००-१०३॥ राजमहलमें पहुँचनेपर उसने हाथ जोड़कर माता-पिताके चरणोंमें नमस्कार किया और माता-पिताने भी काँपते हुए हाथसे उसके शरीरका स्पर्श किया ॥१०४॥ इस प्रकार शत्रुओंको जीतकर वह परम हर्षको प्राप्त हुआ और उत्कृष्ट भोग भोगता हुआ प्रजापालनमें तत्पर रहने लगा ॥१०५॥ तदनन्तर वह लोकमें इन्द्रकी प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ और विजयार्द्ध पर्वत स्वर्ग कहलाने लगा ॥१०६॥

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! अब लोकपालोंकी उत्पत्ति कहता हूँ सो मनको एकाग्र कर सुनो ॥१०७॥ स्वर्ग लोकसे च्युत होकर मकरध्वज विद्याधरकी अदिति नामा स्त्रीके उदरमें सोम नामका लोकपाल उत्पन्न हुआ था । यह बहुत ही कान्तिमान् था । इन्द्रने इसे द्योति सङ्ग नामक नगरकी पूर्व दिशामें लोकपाल स्थापित किया था । इस तरह यह परम ऋद्धिका धारी होता हुआ हर्षसे समय व्यतीत करता था ॥१०८-१०९॥ मेघरथ नामा विद्याधरकी वरुणा नामा स्त्रीसे वरुण नामका लोकपाल विद्याधर उत्पन्न हुआ था । इन्द्रने इसे मेघपुर नगरकी पश्चिम दिशामें स्थापित किया था । इसका शस्त्र पाश था जिसे सुनकर शत्रु दूरसे ही भयभीत हो जाते थे ॥११०-१११॥ महात्मा किंसूर्य विद्याधर की कनकावली स्त्रीसे कुचेर नामका लोकपाल विद्याधर उत्पन्न हुआ था । यह परम विभूतिसे युक्त था । इन्द्रने इसे काञ्चनपुर नगरकी उत्तर दिशामें स्थापित किया था । यह संसारमें लक्ष्मीके कारण प्रसिद्ध था तथा उत्कृष्ट भोगोंको प्राप्त था ॥११२-११३॥ कालाग्नि नामा विद्याधरकी श्रीप्रभा स्त्रीके गर्भसे यम नामका लोकपाल विद्याधर उत्पन्न हुआ था । यह रुद्रकर्मा तथा परम तेजस्वी था ॥११४॥ इन्द्रने इसे दक्षिण सागरके द्वीपमें विद्यमान किष्कु नामक नगरकी दक्षिण

पुरस्य यस्य यन्नाम पृथिव्यां ख्यातिमागतम् । तेनैव ख्यापिता नाम्ना पौरास्तत्र सुरेशिना ॥११६॥
 असुराख्ये नभोगाना नगरे निवसन्ति ये । असुराख्या इमे जाता सकले धरणीतले ॥११७॥
 यक्षगीते पुरे यक्षा. किन्नराह्णे च किन्नराः । गन्धर्वसञ्ज्ञया ख्याता पुरे गन्धर्वनामनि ॥११८॥
 अश्विनो वसवो विश्वे वैश्वानरपुरस्सराः । कुर्वन्ति त्रिदशक्रीडा विद्यावलसमन्विता ॥११९॥
 अवाप्य सभव योनौ प्राप्यर्थाविस्तर भुवि । प्रणतो भूरिलोकेन मन्यते स्व सुरेश्वरम् ॥१२०॥
 इन्द्र. स्वर्ग. सुराश्चान्ये समस्तास्तस्य विस्मृताः । सपञ्जीरतिमेतस्य नित्योत्सवविधायिन ॥१२१॥
 स्वमिन्द्र पर्वत स्वर्गं लोकपालान् खगेश्वरान् । निजांश्च सकलान् देवान् स मेने मूर्तिगर्वित ॥१२२॥
 मत्तोऽस्ति न महान् कश्चित्पुरुषो भुवनत्रये । अहमेवास्य विश्वस्य प्रणेता विदिताखिल ॥१२३॥
 विद्याभृच्चक्रवर्तित्वमिति प्राप्य स गर्वितः । फलमन्वभवत् पूर्वजन्मोपात्तसुकर्मणः ॥१२४॥
 भागेऽत्र यो व्यतिक्रान्तस्त वृत्तान्तमतः शृणु । धनदस्य समुत्पत्ति श्रेणिक ज्ञायते यथा ॥१२५॥
 व्योमविन्दुरिति ख्यातः पुरे कौतुकमङ्गले । भार्या नन्दवती तस्यामुत्पन्न दुहितृद्वयम् ॥१२६॥
 कौशिकी ज्यायसी तत्र केकसी च कनीयसी । ज्येष्ठा विश्रवसे दत्ता पुरे यक्षविनिर्मिते ॥१२७॥
 तस्यां वैश्रवणो जातः शुभलक्षणविग्रह । शतपत्रेक्षण. श्रीमानङ्गनानयनोत्सव ॥१२८॥
 पृथमुक्तः स चाहूय शक्रेण कृतपूजनः । ब्रज लङ्कापुरीं गाधि प्रियस्त्व मम खेचरान् ॥१२९॥
 चतुर्णां लोकपालानामद्य प्रभृति पञ्चमः । लोकपालो भव त्व मे मत्प्रसादान्महाबलः ॥१३०॥

दिशामे स्थापित किया था। इस प्रकार यह अपने पुण्यके प्रबल फलको भोगता हुआ समय व्यतीत करता था ॥११५॥ जिस नगरका जो नाम पृथिवीपर प्रसिद्ध था इन्द्रने उस नगरके निवासियोंको उसी नामसे प्रसिद्ध 'कराया था ॥११६॥ विद्याधरोके असुर नामक नगरमें जो विद्याधर रहते थे पृथिवी तल पर वे असुर नामसे प्रसिद्ध हुए ॥११७॥ यक्षगीत नगरके विद्याधर यक्ष कहलाये। किन्नर नामा नगरके निवासी विद्याधर किन्नर कहलाये और गन्धर्वनगरके रहनेवाले विद्याधर गन्धर्व नामसे प्रसिद्ध हुए ॥११८॥ अश्विनीकुमार, विश्वावसु तथा वैश्वानर आदि विद्याधर, विद्यावलसे सहित हो देवोंको क्रीड़ा करते थे ॥११९॥ इन्द्र यद्यपि मनुष्य योनिमें उत्पन्न हुआ था फिर भी वह पृथिवी पर लक्ष्मीका विस्तार पाकर अपने आपको इन्द्र मानने लगा। सब लोग उसे नमस्कार करते थे ॥१२०॥ सम्पदाओंसे परम प्रीतिको प्राप्त तथा निरन्तर उत्सव करनेवाले उस इन्द्र विद्याधरकी समस्त प्रजा यह भूल गई थी कि यथार्थमें कोई इन्द्र है, स्वर्ग है अथवा देव हैं ॥१२१॥ वैभवके गर्वमें फँसा इन्द्र, अपने आपको इन्द्र, विजयार्द्ध गिरिको स्वर्ग, विद्याधरोंको लोकपाल और अपनी समस्त प्रजाको देव मानता था ॥१२२॥ तीनों ही लोकोमें मुझसे अधिक महापुरुष और कोई दूसरा नहीं है। मैं ही इस समस्त जगत्का प्रणेता तथा सब पदार्थोंको जाननेवाला हूँ ॥१२३॥ इस प्रकार विद्याधरोका चक्रवर्तीपना पाकर गर्वसे फूला इन्द्र विद्याधर अपने पूर्व जन्मोपार्जित पुण्य कर्मका फल भोगता था ॥१२४॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! इस भागका जो वृत्तान्त निकल चुका है उसे सुनो जिसमें धनदकी उत्पत्तिका ज्ञान हो सके ॥१२५॥

कौतुकमङ्गल नामा नगरमें व्योमविन्दु नामका विद्याधर रहता था। उसकी नन्दवती भार्याके उदरसे दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई ॥१२६॥ उनमें बड़ीका नाम कौशिकी और छोटीका नाम केकसी था। बड़ी पुत्री कौशिकी यक्षपुरके धनी विश्रवसके लिए दी गई। उससे वैश्रवण नामका पुत्र हुआ। इसका समस्त शरीर शुभ लक्षणोंसे सहित था, कमलके समान उसके नेत्र थे, वह लक्ष्मीसम्पन्न था तथा स्त्रियोंके नेत्रोंको आनन्द देनेवाला था ॥१२७-१२८॥ इन्द्र विद्याधरने वैश्रवणको बुलाकर उसका सत्कार किया और कहा कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो इसलिए लङ्का नगरी जाकर विद्याधरो पर शासन करो ॥१२९॥ तुम चूँकि महाबलवान् हो अतः मेरे प्रसादके

यदाज्ञापयसीत्युक्त्वा कृत्वा चरणवन्दनाम् । आपृच्छ्व पितरो नत्वा निर्गतोऽसौ सुमङ्गम् ॥१३१॥
 अद्यतिष्ठच्च मुदितो लङ्कां शङ्काविवर्जितः । विद्याधरसमूहेन शिरसा धृतशासनः ॥१३२॥
 प्रीतिमत्या समुत्पन्नः सुमालि तनयस्तु यः । नाम्ना रत्नश्रवाः शूरस्त्यागी भुवनवत्सलः ॥१३३॥
 मित्रोपकरण यस्य जीवित तुङ्गचेतसः । भृत्यानामुपकाराय प्रभुत्व भूरितेजसः ॥१३४॥
 लब्धवर्णोपकाराय वैदग्ध्य दग्धदुर्मतेः । बन्धूनामुपकाराय लक्ष्म्याश्च परिपालनम् ॥१३५॥
 ईश्वरत्व दरिद्राणामुपकारार्थमुन्नतम् । साधूनामुपकारार्थं सर्वस्वं सर्वपालिनः ॥१३६॥
 सुकृतस्मरणार्थञ्च मानस मानशालिनः । धर्मोपकरणं चायुः वीर्योपकृतये वपुः ॥१३७॥
 पितेव प्राणिवर्गस्य यो बभूवानुकम्पकः । सुकाल इव चातीतः स्मर्यतेऽद्यापि जन्तुभिः ॥१३८॥
 परस्त्री मातृवद् यस्य शीलभूषणधारिणः । परद्रव्यञ्च तृणवत्परश्च स्वशरीरवत् ॥१३९॥
 गुणिनां गणनायां यः प्रथम गणितो बुधैः । दोषिणां च समुल्लापे स स्मृतो नैव जन्तुभिः ॥१४०॥
 अन्यैरिव महाभूतैः शरीरं तस्य निर्मितम् । अन्यथा सा कुतः शोभा बभूवास्य तथाविधा ॥१४१॥
 प्रसेकममृतनेव चक्रे संभाषणेषु सः । महादानमिवोदात्तचरितो विततार च ॥१४२॥
 धर्मार्थकामकार्याणां मध्ये तस्य महामतेः । धर्म एव महान् यत्नो जन्मान्तरगतावभूत् ॥१४३॥

कारण आजसे लेकर चार लोकपालोके सिवाय पञ्चम लोकपाल हो ॥१३०॥ 'जो आपकी आज्ञा है वैसा ही करूँगा' यह कहकर वैश्रवणने उसके चरणोमे नमस्कार किया । तदनन्तर माता पितासे पूछकर और उन्हें नमस्कारकर वैश्रवण मङ्गलाचार पूर्वक अपने नगरसे निकला ॥१३१॥ विद्याधरोंको समूह जिसकी आज्ञा शिरपर धारण करते थे ऐसा वैश्रवण निःशङ्क हो बड़ी प्रसन्नतासे लङ्कामे रहने लगा ॥१३२॥

इन्द्रसे हारकर सुमाली अलङ्कारपुर नगर (पाताललंका) मे रहने लगा था । वहाँ उसकी प्रीतिमती रानीसे रत्नश्रवा नामका पुत्र हुआ । वह बहुत ही शूरीर त्यागी और लोकवत्सल था ॥१३३॥ उस उदारहृदयका जीवन मित्रोका उपकार करनेके लिए था, उस तेजस्वीका तेज भृत्योका उपकार करनेके लिए था ॥१३४॥ दुर्बुद्धिको नष्ट करनेवाले उस रत्नश्रवाका चातुर्य विद्वानोका उपकार करनेके लिए था, वह लक्ष्मीको रक्षा बन्धुजनोंका उपकार करनेके लिए करता था ॥१३५॥ उसका बड़ा चढ़ा ऐश्वर्य दरिद्रोका उपकार करनेके लिए था । सबकी रक्षा करनेवाले उस रत्नश्रवाका सर्वस्व साधुओंका उपकार करनेके लिए था ॥१३६॥ उस स्वाभिमानी का मन पुण्य कार्योका स्मरण करनेके लिए था । उसकी आयु धर्मका उपकार करनेवाली थी और उसका शरीर पराक्रमका उपकार करनेके लिए था ॥१३७॥ वह पिताके समान प्राणियोंके समूह पर अनुकम्पा करनेवाला था । वीते हुए सुकालकी तरह आज भी प्राणी उसका स्मरण करते हैं ॥१३८॥ शीलरूपी आभूषणको धारण करनेवाले उस रत्नश्रवाके लिए परस्त्री माताके समान थी । पर-द्रव्य तृणके समान था और पर-पुरुष अपने शरीरके समान था अर्थात् जिस प्रकार वह अपने शरीरकी रक्षा करता था उसी प्रकार पर-पुरुषकी भी रक्षा करता था ॥१३९॥ जब गुणी मनुष्योकी गणना शुरू होती थी तब विद्वान् लोग सबसे पहले इसीको गिनते थे और जब दोषोकी चर्चा होती थी तब प्राणी इसका स्मरण ही नहीं करते थे ॥१४०॥ उसका शरीर मानो पृथिवी आदिसे अतिरिक्त अन्य महाभूतोसे रचा गया था अन्यथा उसकी वह अनोखी शोभा कैसे होती ? ॥१४१॥ वह जब वार्तालाप करता था तब ऐसा जान पड़ता था मानो अमृत ही सींच रहा हो । वह इतना उदात्तचरित था कि मानो हमेशा महादान ही देता रहता हो ॥१४२॥ जन्मान्तरमे भी उस महाबुद्धिमान्ने धर्म अर्थ काममे से एक धर्ममे ही महान् प्रयत्न किया था

यशो विभूषण तस्य भूषणानां सुभूषणम् । गुणा कीर्त्या सम तस्मिन् सकृदुम्वा इव स्थिता ॥१४४॥
 स भूति परमां वान्ध्वन् क्रमाद् गोत्रसमागताम् । सत्याजितो निर्जं स्थानं पत्या स्वर्गनिवासिनाम् ॥१४५॥
 परित्यज्य भय धीरो विद्या साधयितुं क्षम । रौद्रं भूतपिशाचादिनादि^१ पुष्पादिकं वनम् ॥१४६॥
 विद्यायां विदिता पूर्वमथो^२ तन्नामिनीं सुताम् । व्योमविन्दुर्ददावस्मै तपसे परिचारिकाम् ॥१४७॥
 तस्य सा योगिन पाण्वे^३ विनीता समवस्थिता । कुताञ्जलिपुटादेग वान्ध्वन्ती तन्मुखोद्गतम् ॥१४८॥
 ततः समाप्तनियम कृतसिद्धनमस्कृति । एकाकिनां सता^४ बाला द्यूा सरललोचनाम् ॥१४९॥
 नीलोत्पलेक्षणा पद्मवक्रा कुन्ददलद्विजाम् । शिरीषमालिकाबाहुं पाटलादन्तवाससम् ॥१५०॥
 वकुलामोदनि श्वासां चम्पकत्वक्समत्वपम् । कुसुमैरिव निःशेषा निर्मिता दधतीं तनुम् ॥१५१॥
 मुक्तपद्मालयां पद्मा रूपेणैव वर्णाकृताम् । परमोत्कण्ठयानीतां पादविन्यस्तलोचनाम् ॥१५२॥
 अपूर्वपुष्पालोक्लजितानतविग्रहाम् । ससाध्वसविनिक्षिप्तनि श्वासोत्कम्पितस्तनीम् ॥१५३॥
 लावण्येन^५ विलम्पन्तीं पल्लवानन्तिकागताम्^६ । नि श्वासाकृष्टमत्तालिकुलव्याकुलिताननाम् ॥१५४॥
 सौकुमार्यादिवोदाराद्विभ्यतानतिनिर्भरम् । यौवनेन कृताश्लेषां सभूतिं योषित. पराम् ॥१५५॥
 गृहीत्वेवाखिलस्त्रेण लावण्य त्रिजगद्गतम् । कर्मभिर्निर्मिता कर्तुमद्भुत सार्वलौकिकम् ॥१५६॥

॥१४३॥ सब आभूषणोंका आभूषण यश ही उसका आभूषण था । गुण उसमे कीर्तिके साथ इस प्रकार रह रहे थे मानो उसके कुदुम्बी ही हो ॥१४४॥ वह रत्नश्रवा, अपनी वंश-परम्परासे चली आई उत्कृष्ट विभूतिको प्राप्त करना चाहता था पर इन्द्र विद्याधरने उसे अपने स्थानसे च्युत कर रक्खा था ॥१४५॥ निदान, वह धीर-वीर विद्या सिद्ध करनेके लिए, जहाँ भूत पिशाच आदि शब्द कर रहे थे ऐसे महाभयङ्कर पुष्प वनमे गया ॥१४६॥ सो रत्नश्रवा तो इधर विद्या सिद्ध कर रहा था उधर विद्याके विषयमे पहलेसे ही परिज्ञान रखनेवाली तथा जो बादमे रत्नश्रवाकी पत्नी होनेवाली थी ऐसी अपनी छोटी कन्या केकसीको व्योमविन्दुने उसकी तपकालीन परिचर्याके लिए भेजा ॥१४७॥ सो केकसी उस योगीके समीप वड़े विनयसे हाथ जोड़े खड़ी हुई उसके मुखसे निकलनेवाले आदेशकी प्रतीक्षा कर रही थी ॥१४८॥

तदनन्तर जब रत्नश्रवाका नियम समाप्त हुआ तब वह सिद्ध भगवान्को नमस्कारकर उठा । उसी समय उसको दृष्टि अकेली खड़ी केकसीपर पड़ी । केकसीकी आँखोंसे सरलता टपक रही थी ॥१४९॥ उसके नेत्र नील कमलके समान थे, मुख कमलके समान था, दाँत कुन्दकी कलीके समान थे, भुजाएँ शिरीषकी मालाके समान थीं, अधरोष्ठ गुलाबके समान था ॥१५०॥ उसकी श्वाससे मौलिश्रीके फूलोंकी सुगन्धि आ रही थी, उसकी कान्ति चम्पेके फूलके समान थी, उसका सारा शरीर मानो फूलोंसे ही बना था ॥१५१॥ रत्नश्रवाके पास खड़ी केकसी ऐसी जान पड़ती थी मानो उसके रूपसे वशीभूत हो लक्ष्मी ही कमल रूपी घरको छोड़कर वड़ी उत्कण्ठासे उसके पास आई हो और उसके चरणोंमें नेत्र गड़ाकर खड़ी हो ॥१५२॥ अपूर्व पुरुषके देखनेसे उत्पन्न लज्जाके कारण उसका शरीर नीचेकी ओर झुक रहा था तथा भय सहित निकलते हुए श्वासोच्छ्वाससे उसके स्तन कम्पित हो रहे थे ॥१५३॥ वह अपने लावण्यसे समीपमें पड़े पल्लवोंको लिप्त कर रही थी तथा श्वासोच्छ्वासको सुगन्धिसे आकृष्ट मदनोन्मत्त भ्रमरोंके समूह से वनको आकुलित कर रही थी ॥१५४॥ वह अत्यधिक सौकुमार्यके कारण इतनी अधिक नीचे को झुक रही थी कि यौवन डरते-डरते ही उसका आलिङ्गन कर रहा था । केकसी क्या थी मानो स्त्रीत्वकी परम सृष्टि थी ॥१५५॥ समस्त संसार सम्बन्धी आश्चर्य इकट्ठा करनेके लिए ही मानो त्रिभुवनसम्बन्धी समस्त स्त्रियोंका सौन्दर्य एकत्रितकर कर्माने उसकी रचना की थी ॥१५६॥

१. पुष्पान्तकं म० । मद्योनाद्भाविनीं क० ख० ज० (मन्दोद्योतोद्भाविनीम्) । ३. सुता म० ।

४. वाससाम् म० । ५. विलपन्तीं म० । ६. नन्तिकीगतान् म० ।

शरीरेणैव सयुक्ता साक्षाद्विद्यामुपागताम् । वशीकृतामुदारैण तपसा कान्तिशालिनीम् ॥१५७॥
 पप्रच्छ प्रियया वाचा करुणावान् स्वभावतः । प्रमदासु विशेषेण कन्यकासु ततोऽधिकम् ॥१५८॥
 कस्यासि दुहिता बाले किमर्थं वा महावने । एकाकिनी मृगीवास्मिन् यूथाद् भ्रष्टावतिष्ठसे ॥१५९॥
 के वा भजन्ति ते वर्णा नाम पुण्यमनोरथे । पक्षपातोभवत्येव योगिनामपि सज्जने ॥१६०॥
 तस्मै साकथयद् वाचा गद्गदत्वमुपेतया । दधत्यात्यन्तमाधुर्यं चेतश्चोरणदक्षया ॥१६१॥
 उत्पन्ना मन्दवत्यङ्गे व्योमविन्दोरहं सुता । केकसीति भवत्सेवां कर्तुं पित्रा निरूपिता ॥१६२॥
 तत्रैव समये तस्य सिद्धा विद्या महौजसः । मानसस्ताम्भिनी नाम्ना क्षणदर्शितविग्रहा ॥१६३॥
 ततो विद्याप्रभावेण तस्मिन्नेव महावने । पुरं पुष्पान्तक नाम क्षणात्तेन निवेशितम् ॥१६४॥
 कृत्वा पाणिगृहीता च केकसी विधिना ततः । रेमे तत्र पुरे प्राप्य भोगान् मानसकल्पितान् ॥१६५॥
 बभूव च तयोः प्रीतिर्जाया पत्योरनुत्तरा । क्षणार्द्धमपि नो सेहे वियोग या सुचेतसो ॥१६६॥
 मृतामिव स तां मेने लोचनागोचरस्थिताम् । निमेषादर्शनीं नान्मलानि ब्रजन्ती मृदुमानसाम् ॥१६७॥
 वक्षत्रचन्द्रेऽक्षिणी तस्यास्तस्य नित्यं व्यवस्थिते । सर्वेषां वा हृषीकाणां सा बभूवास्य बन्धनम् ॥१६८॥
 अनन्यजेन रूपेण यौवनेन धनश्रिया । विद्याबलेन धर्मेण सक्तिरासीत्परं तयो ॥१६९॥
 ब्रजन्ती ब्रज्यया युक्ते तिष्ठन्ती स्थितिमागते । ज्ञायेव साभवत् पत्याचनुवर्तनकारिणी ॥१७०॥

वह केकसी ऐसी जान पड़ती थी मानो रत्नश्रवाके उत्कृष्ट तपसे वशीभूत हुई कान्तिसे सुशो-
 भित साक्षात् विद्या ही शरीर धरकर सामने खड़ी हो ॥१५७॥ रत्नश्रवा स्वभावसे ही दयालु
 था और विशेषकर स्त्रियोपर तथा उनसे भी अधिक कन्याओंपर अधिक दयालु था अतः उसने
 प्रिय वचनोसे पूछा कि हे बाले ! तू किसकी लड़की है ? और इस महावनेमें भुण्डसे विछुड़ी
 हरिणीके समान अकेली किस लिए खड़ी है ? ॥१५८॥ हे पुण्य मनोरथे ! कौनसे अच्छे तेरे
 नामको प्राप्त हैं ? रत्नश्रवाने केकसीसे ऐसा पूछा सो उचित ही था क्योंकि सज्जनके ऊपर
 साधुओका भी पक्षपात हो ही जाता है ॥१६०॥ इसके उत्तरमें अनन्त माधुर्यको धारण करने-
 वाली एवं चित्तके चुरानेमें समर्थ गद्गद वाणीसे केकसीने कहा कि मैं मन्दवतीके शरीरसे
 उत्पन्न राजा व्योमविन्दुकी पुत्री हूँ, केकसी मेरा नाम है और पिताकी प्रेरणासे आपकी सेवा
 करनेके लिए आई हूँ ॥१६१-१६२॥ उसी समय महातेजस्वी रत्नश्रवाको मानसस्तम्भिनी
 नामकी विद्या सिद्ध हो गई सो उस विद्याने उसी समय अपना शरीर प्रकट कर दिखाया ॥१६३॥

तदनन्तर उस विद्याके प्रभावसे उसने उसी वनेमें तत्क्षण ही पुष्पान्तक नामका नगर
 बसाया ॥१६४॥ और केकसीको विधिपूर्वक अपनी स्त्री बनाकर उसके साथ मनचाहे भोग
 भोगता हुआ वह उस नगरमें क्रीड़ा करने लगा ॥१६४-१६५॥ शोभनीय हृदयको धारण करनेवाले
 उन दोनों दम्पतियोमें ऐसी अनुपम प्रीति उत्पन्न हुई कि वह आघे क्षणके लिए भी उनका वियोग
 सहन नहीं कर सकती थी ॥१६६॥ यदि केकसी क्षण भरके लिए भी रत्नश्रवाके नेत्रोंके ओझल
 होती थी तो वह उसे ऐसा मानने लगता था मानो मर ही गई हो । और केकसी भी यदि उसे
 पल भरके लिए नहीं देखती थी तो म्लानिको प्राप्त हो जाती थी—उसकी मुखकी कान्ति मुरझा
 जाती थी । कोमल चित्त तो उसका था ही ॥१६७॥ रत्नश्रवाके नेत्र सदा केकसीके मुखचन्द्रपर
 ही गड़े रहते थे अथवा यो कहना चाहिए कि केकसी, रत्नश्रवाकी समस्त इन्द्रियोका मानो
 बन्धन ही थी ॥१६८॥ अनुपम रूप, यौवन, धन-सम्पदा, विद्याबल और पूर्वोपार्जित धर्मके
 कारण उन दोनोंमें परस्पर परम आसक्ति थी ॥१६९॥ जब रत्नश्रवा चलता था तब केकसी भी

१. त्वमिहावनौ ० । २. पुण्यमनोरथैः । ३. दर्शनम्लानि म० । ४. अनन्यजैकरूपेण म० ।
 ५. ब्रजया म०, क० ।

अयामौ विपुले कान्ते चौराकूपारपाण्डुरे । रत्नदीपकृत्तालोके दुकूलपटकोमले ॥१७१॥
यथेष्टगह्वके न्यस्त नानावर्णोपधानके । निश्वासामोदनिर्णिद्रद्विरेफमसुपासिते ॥१७२॥
परितः स्थितयामैस्त्रीविनिद्रनयनेक्षिते । तनुदन्तविनिर्माणपट्टके गयनोत्तमे ॥१७३॥
चिन्तयन्ती गुणान् पत्युर्मनोवन्धनकारिण । वाञ्छन्ती च सुतोत्पत्तिं सुखं निद्रामुपागता ॥१७४॥
इन्द्राञ्जले परान् स्वप्नान् महाविस्मयकारिण । अव्यक्तचलनाध्यायिसखीवीक्षितविग्रहा ॥१७५॥
ततः प्रभाततूर्येण गङ्गाशब्दानुकारिणा । सागधाना च वाणीभिः सुप्रबोधनमागता ॥१७६॥
कृतमङ्गलकार्याद्यं नेपथ्यं दधती शुभम् । सर्वाभिरन्वितागच्छन् मनोज्ञा मर्तुरन्तिकम् ॥१७७॥
आर्माना चाञ्जलिं कृत्वा पत्युः पार्श्वे सुविभ्रमा । मद्रासनेऽशुकच्छन्ने क्रमात् स्वप्नान्यवेदयत् ॥१७८॥
अथ रात्रौ मया यामे चरमे नाय वीक्षिता । त्रयः स्वप्ना श्रुतौ तेषां प्रसार्दं कर्तुमर्हसि ॥१७९॥
बृहद्बृहन् गजेन्द्राणां ध्वमयन् परमांजसा । कुक्षिमास्येन मे मिहः प्रविष्टो नभसस्तलात् ॥१८०॥
विद्रावयन् मयूखैश्च ध्वान्त गजकुलासितम् । स्थितो विहायसो मध्यादङ्गे कमलवान्धव ॥१८१॥
कुर्वन्मनोहरा लीला दूरयन् तिमिर करैः । अखण्डमण्डलो दृष्टः पुरः कुमुदनन्दनः ॥१८२॥
दृष्टमात्रेषु चैतेषु विस्मयाक्रान्तमानसा । प्रभाततूर्यनादेन गनाह वीतनिद्रताम् ॥१८३॥

चलने लगती थी और जब रत्नश्रवा बैठता था तो केकसी भी बैठ जाती थी । इस तरह वह छायाके समान पतिकी अनुगामिनी थी ॥१७०॥

अथानन्तर—एक दिन राती केकसी रत्नोंके महलमें ऐसी शय्यापर पड़ी थी कि जो विशाल थी, सुन्दर थी, चीरसमुद्रके समान सफेद थी, रत्नोंके दीपकोका जिस प्रकार प्रकाश फैल रहा था, जो रेशमी वस्त्रसे कोमल थी, ॥१७१॥ जिसपर यथेष्ट गद्दा बिछा हुआ था, रंगविरंगी तकियों रखी हुई थीं, जिसके आस-पास श्वासोच्छ्वासकी सुगन्धिसे जागरूक भौंरे मण्डरा रहे थे ॥१७२॥ चारों ओर पहरेपर खड़ीं स्त्रियों जिसे निद्रारहित नेत्रोंसे देख रही थीं, और जिसके समीप ही हाथी-दौतकी बनी छोटी सी चौकी रखी हुई थी ऐसी उत्तम शय्यापर केकसी मनका बन्धन करनेवाले पतिके गुणोंका चिन्तन करती और पुत्रोत्पत्तिकी इच्छा रखती हुई सुखसे सो रही थी ॥१७३-१७४॥ उसी समय स्थिर होकर ध्यान करनेवाली अर्थात् सूक्ष्म देख-रेख रखनेवाली स्त्रियों जिसके शरीरका निरीक्षण कर रही थीं ऐसी केकसीने महा आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले उत्कृष्ट स्वप्न देखे ॥१७५॥ तदनन्तर शब्दोंके शब्दका अनुकरण करनेवाली प्रातः कालीन तुरहीकी मधुर ध्वनि और चारणोंकी रम्य वाणीसे केकसी प्रबोधको प्राप्त हुई ॥१७६॥ सो मङ्गल कार्य करनेके अनन्तर शुभ तथा श्रेष्ठ नेपथ्यको धारणकर मनको हरण करती हुई, स्त्रियोंके साथ पतिके समीप पहुँची ॥१७७॥ वहाँ हाथ जोड़, हाव-भाव दिखाती हुई, पतिके समीप, उत्तम वस्त्रसे आच्छादित सोफापर बैठकर उसने स्वप्न देखनेकी बात कही ॥१७८॥ उसने कहा कि हे नाथ ! आज रात्रिके पिछले पहर मैंने तीन स्वप्न देखे हैं सो उन्हें सुनकर प्रसन्नता काजिए ॥१७९॥ पहले स्वप्नमें मैंने देखा है कि अपने उत्कृष्ट तेजसे हाथियोंके बड़े भारी मुण्डको विध्वस्त करता हुआ एक सिंह आकाशतलसे नीचे उतरकर मुख-द्वारसे मेरे उदरमें प्रविष्ट हुआ है ॥१८०॥ दूसरे स्वप्नमें देखा है कि किरणोंसे हाथियोंके समूहके समान काले अन्धकारको दूर हटाता हुआ सूर्य आकाशके मध्य भागमें स्थित है ॥१८१॥ और तीसरे स्वप्नमें देखा है कि मनोहर लीलाको करता और किरणोंसे अन्धकारको दूर हटाता हुआ पूर्ण चन्द्रमा हमारे सामने खड़ा है ॥१८२॥ इन स्वप्नोंके दिखते ही मेरा मन आश्चर्यसे भर गया और उसी

१. यथेष्टेह्विन्यस्त- म० । २. समुपासते म० । ३. यामश्री म० । ४. तत्र दन्त म० ।
५. अव्यक्तचलनादायि म० । अव्यक्तचलनादायि क० । ६. सापि प्रबोध म० ।

किमेतदिति नाथ त्व ज्ञातुमर्हसि सांप्रतम् । ज्ञातव्येषु हि नारीणां प्रमाणं प्रियमानसम् ॥१८४॥
 ततोऽष्टाङ्गनिमित्तञ्च कुशलो जिनशासने । रत्नश्रवाः प्रमोदेन स्वप्नार्थान् व्यवृणोत् क्रमात् ॥१८५॥
 उत्पत्स्यन्ते त्रयः पुत्रास्त्रिजगद्गतकीर्तयः । तव देवि महासत्त्वाः कुलवृद्धिविधायिनः ॥१८६॥
 भवान्तरनिबद्धेन सुकृतेनोत्तमक्रियाः । बल्लभत्वं प्रपत्स्यन्ते सुरेष्वपि सुरैः समाः ॥१८७॥
 कान्त्युत्सारिततारेशा दीप्युत्सारितभास्कराः । गम्भीर्यजिततोयेशाः स्थैर्योत्सारितभूधराः ॥१८८॥
 चारुक्रमफल भुक्त्वा स्वर्गो षेषस्य कर्मणः । परिपाकमवाप्स्यन्ति सुरैरप्यपराजिताः ॥१८९॥
 दानेन कामजलदाश्चक्रवर्तिसमर्द्धयः । वरसीमन्तिनीचेतोलोचनालीमलिम्बुवाः ॥१९०॥
 श्रीवत्सलक्ष्णाल्यन्तराजितोत्तुङ्गवक्षसः । नाममात्रश्रुतिध्वस्तमहासाधनशत्रवः ॥१९१॥
 भविता प्रथमस्तेषां नितान्त जगते हितः । साहसैकरसासक्त शत्रुपद्मक्षपाकरः ॥१९२॥
 सग्रामगमनात्तस्य भविष्यति समन्ततः । शरीर निचितं चारोत्सरोमाञ्चकण्ठकैः ॥१९३॥
 निधान कर्मणामेव दारुणाना भविष्यति । वस्तुन्युरीकृते तस्य न शक्रोऽपि निवर्तकः ॥१९४॥
 कृत्वा स्मित ततो देवी परमप्रमदाञ्जिता । भक्तुराननमालोक्य विनयादित्यभापत ॥१९५॥
 अर्हन्मतामृतास्वादसुचिताभ्या कथ प्रभो । आवाभ्यां प्राप्य जन्माय क्रूरकर्मा भविष्यति ॥१९६॥
 आवयोर्ननु मज्जापि जिनवाक्येन भाविता । भवेदमृतवल्लीतो विपस्य प्रसवः कथम् ॥१९७॥
 प्रत्युवाच स तामेव प्रिये शृणु वरानने । कर्माणि कारण तस्य न वय कृत्यवस्तुनि ॥१९८॥

समय प्रातःकालीन तुरहीकी ध्वनिसे मेरी निद्रा टूट गई ॥१८३॥ हे नाथ ! यह क्या है ? इसे आप ही जाननेके योग्य हैं क्योंकि स्त्रियोंके जानने योग्य कार्योमें पतिका मन ही प्रमाणभूत है ॥१८४॥ तदनन्तर अष्टाङ्ग निमित्तके जानकार एवं जिन-शासनमें कुशल रत्नश्रवाने बड़े हर्षसे क्रम पूर्वक स्वप्नोका फल कहा ॥१८५॥ उन्होने कहा कि हे देवि ! तुम्हारे तीन पुत्र होंगे । ऐसे पुत्र कि जिनकी कीर्ति तीनों लोकोमें व्याप्त होगी, जो महापराक्रमके धारी तथा कुलकी वृद्धि करनेवाले होंगे ॥१८६॥ वे तीनों ही पुत्र पूर्व भवमें संचित पुण्यकर्मसे उत्तम कार्य करनेवाले होंगे, देवोंके समान होंगे और देवोंके भी प्रीतिपात्र होंगे ॥१८७॥ वे अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको दूर हटावेंगे, तेजसे सूर्यको दूर भगावेंगे और स्थिरतासे पर्वतको ठुकरावेंगे ॥१८८॥ स्वर्गमें पुण्य कर्मका फल भोगनेके बाद जो कुछ कर्म शेष बचा है अब उसका फल भोगेंगे । वे इतने बलवान् होंगे कि देव भी उन्हें पराजित नहीं कर सकेंगे ॥१८९॥ वे दानके द्वारा मनोरथको पूर्ण करनेवाले मेघ होंगे, चक्रवर्तियोंके समान ऋद्धिके धारक होंगे, और श्रेष्ठ स्त्रियोंके मन तथा नेत्रोंको चुरानेवाले होंगे ॥१९०॥ उनका उन्नत वक्षःस्थल श्रीवत्स चिह्नसे अत्यन्त सुशोभित होगा, और उनका नाम सुनते ही बड़ी-बड़ी सेनाओंके अधिपति शत्रु नष्ट हो जावेंगे ॥१९१॥ उन तीनों पुत्रोंमें प्रथम पुत्र जगत्का अत्यन्त हितकारी होगा, साहसके कार्यमें वह बड़े प्रेमसे आसक्त होगा तथा शत्रु रूपी कमलोको निमीलित करनेके लिए चन्द्रमाके समान होगा ॥१९२॥ वह युद्धका इतना प्रेमी होगा कि युद्धमें जाते ही उसका सारा शरीर खड़े हुए रोमाञ्चरूपी कंटकोसे व्याप्त हो जावेगा ॥१९३॥ वह घोर भयंकर कार्योका भाण्डार होगा तथा जिस कार्यको स्वीकृत कर लेगा उससे उसे इन्द्र भी दूर नहीं हटा सकेगा ॥१९४॥ पतिके ऐसे वचन सुन परम प्रमोदको प्राप्त हुई केकसी, मन्द हासकर तथा पतिका मुख देखकर विनयसे इस प्रकार बोली कि हे नाथ ! हम दोनोका चित्त तो जिनमत रूपी अमृतके आस्वादसे अत्यन्त निर्मल है फिर हम लोगोसे जन्म पाकर यह पुत्र क्रूरकर्मा कैसे होगा ? ॥१९५-१९६॥ निश्चयसे हम दोनोकी मज्जा भी जिनेन्द्र भगवान्के वचनोंसे संस्कारित है फिर हमसे ऐसे पुत्रका जन्म कैसे होगा ? क्या कहीं अमृतकी वेलसे विपकी भी उत्पत्ति होती है ? ॥१९७॥ इसके उत्तरमें राजा रत्नश्रवाने

मूलं हि कारण कर्मस्वरूपविनियोजने । निमित्तमात्रमेवास्य जगत पितरौ स्मृतौ ॥१६६॥
 भविष्यतोऽनुजावस्य जिनमार्गविगारदौ । गुणग्रामममार्कणीं सुचेष्टीं शीलसागरीं ॥२००॥
 सुदृढ सुकृते लग्नां भवस्खलनभीतित । नन्यवाक्यरतीं सर्वसत्त्वकारण्यकारिणीं ॥२०१॥
 तयोगिपि पुरोपात्त सौम्यकर्म मृदुस्वने । कारण करुणोपेते यतो हेतुसम फलम् ॥२०२॥
 एवमुक्त्वा जिनेन्द्राणां ताभ्यां पूजाप्रवर्तिता । मनसापि प्रतीतेन प्रयताभ्यामहर्षिवम् ॥२०३॥
 ततो गर्भस्थिते सत्त्वे प्रथमे मातुर्गीहितम् । वभूव क्रूरमन्यन्तं हठनिजितपौरुषम् ॥२०४॥
 अभ्यवाङ्मत्पद्व्यास कर्तुं मूर्धसु विद्विषाम् । रक्तकर्षमदिग्धेषु परिस्फुरणकारिषु ॥२०५॥
 आज्ञा दातुमभिप्राय सुरराज्येऽप्यजायत । हुङ्कारमुखरं चास्यमन्तरेणापि कारणम् ॥२०६॥
 निःशब्दं शरीरस्य निजितश्रमवत्तरा । कठोरा वर्धरा वाणी दृष्टिपाता परिस्फुटा ॥२०७॥
 दर्पणे विद्यमानेऽपि सायक्रेऽप्यदाननम् । कथमप्यानमन्मूर्धा गुरुणामपि वन्दने ॥२०८॥
 प्रतिपचामनाकम्पं कुर्वन्नय विनिर्गतं । संपूर्णे समये तस्याः कुक्षे प्राणा सदाख्ये ॥२०९॥
 प्रभया तस्य जातस्य दिवाकरदुरीक्षया । परिवर्गस्य नेत्रौघाः सुवनस्थगिता इव ॥२१०॥
 भृतैश्च ताडनाद् भूतो दुन्दुभेरुद्धतो ध्वनि । कवन्धैः शत्रुगेहेषु कृतमुत्पातनर्तनम् ॥२११॥
 ततो जन्मोत्सवस्तस्य महान् पित्रा प्रवर्तितः । उन्मत्तिकेव यत्रासीत् प्रजा स्वेच्छाविधायिनी ॥२१२॥

कहा कि हे प्रिये । हे उत्कृष्टमुखि । इस कार्यमें कर्म ही कारण हैं हम नहीं ॥१६६॥ संसारके स्वरूपकी योजनामें कर्म ही मूल कारण हैं माता-पिता तो निमित्त मात्र हैं ॥१६६॥ इसके दोनो छोटे भाई जिन मार्गके पण्डित, गुणोंके समूहसे व्याप्त, उत्तम चेष्टाओंके धारक तथा शीलके सागर होंगे ॥२००॥ संसारमें कहीं मेरा खलन न हो जाय इस भयसे वे सदा पुण्य कार्यमें अच्छी तरह संलग्न रहेंगे, सत्य वचन बोलनेमें तत्पर होंगे और सब जीवोंपर दया करनेवाले होंगे ॥२०१॥ हे कोमल शब्दावाली तथा दयासे युक्त प्रिये । उन दोनो पुत्रोंका पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म ही उनके इस स्वभावका कारण होगा सो ठीक ही है क्योंकि कारणके समान ही फल होता है ॥२०२॥ ऐसा कहकर रात-दिन सावधान रहनेवाले माता-पिताने प्रसन्न चित्तसे जिनेन्द्र भगवानकी पूजा की ॥२०३॥

तदनन्तर जब गर्भमें प्रथम बालक आया तब माताकी चेष्टा अत्यन्त क्रूर हो गई । वह हठ पूर्वक पुरुषोंके समूहको जीतनेकी इच्छा करने लगी । वह चाहने लगी कि मैं खूनकी कीचड़ से लिप्त तथा छटपटाते हुए शत्रुओंके मस्तकोपर पर रक्खूँ ॥२०४-२०५॥ देवराज-इन्द्रके ऊपर भी आज्ञा चलानेका उसका अभिप्राय होने लगा । बिना कारण ही इसका मुख हुंकारसे मुखर हो उठता है ॥२०६॥ उसका शरीर कठोर हो गया था, शत्रुओंको जीतनेमें वह अधिक श्रम करती थी, उसकी वाणी कर्कश तथा वर्धर स्वरसे युक्त हो गई थी, उसके दृष्टिपात भी निःशब्द होनेसे स्पष्ट होते थे ॥२०७॥ दर्पण रहते हुए भी वह कृपाणमें मुख देखती थी और गुरुजनोंकी वन्दनामें भी उसका मस्तक किसी तरह बड़ी कठिनाईसे मुक्तता था ॥२०८॥ तदनन्तर समय पूर्ण होनेपर वह बालक शत्रुओंके आसन कंपाता हुआ माताके उदरसे बाहर निकला अर्थात् उत्पन्न हुआ ॥२०९॥ सूर्यके समान कठिनाईसे देखने योग्य उस बालककी प्रभासे प्रसूति-गृहमें काम करनेवाले परिजनोंके नेत्र ऐसे हो गये जैसे मानो किसी सघन वनसे ही आच्छादित हो गये हों ॥२१०॥ भूतजातिके देवोंद्वारा ताडित होनेके कारण दुन्दुभि वाजोंसे बहुत भारी शब्द उत्पन्न होने लगा और शत्रुओंके घरोंमें शिर रहित धड़ उत्पात सूचक नृत्य करने लगे ॥२११॥ तदनन्तर पिताने पुत्रका बड़ा भारी जन्मोत्सव किया । ऐसा जन्मोत्सव कि जिसमें

१. प्रयाताभ्या- म० । २. पदं न्यास म० । ३. सुरराज्येऽप्यजायत म० । ४. सुदारुणः म० ।
 ५. सुवनस्थगिता इव म० । सुवनस्थगिता इव ख० ।

अथ मेरुगुहाकारे तस्मिन् सूतिगृहोदरे । शयने सस्मितस्तिष्ठन् रक्तपादतलश्रलः ॥२१३॥
 उत्तानः कम्पयन् भूमिं लीलया शयनान्तिकाम् । सद्यः समुत्थितादित्यमण्डलोपमदर्शनं ॥२१४॥
 दत्त राक्षसनाथेन मेघवाहनरूढये । पुरा नागसहस्रेण रक्षितं प्रस्फुरत्करम् ॥२१५॥
 पिनद्ध रक्षसां भीत्या न केनचिदिहान्तरे । आदरेण विना हारं करेणाकर्षदभङ्कः ॥२१६॥
 हारमुष्टिं ततो बाल दृष्ट्वा माता ससभ्रमा । चकाराङ्गे महास्नेहात् समाजग्नौ च मूर्धनि ॥२१७॥
 दृष्ट्वा पिता च त बाल सहार परमाद्भुतम् । महानेप नरः कोऽपि भवितेति व्यचिन्तयत् ॥२१८॥
 नागेन्द्रकृतरक्षेण हारेण रमतेऽमुना । कोऽन्यथा यस्य नो शक्तिर्भविष्यति जनातिगा ॥२१९॥
 चारणेन समादिष्टं साधुना यद्वचः पुरा । इदं तद्वितथ नैव जायते यतिभाषितम् ॥२२०॥
 दृष्ट्वाश्चर्यं स हारोऽस्य जनन्या भीतिमुक्तया । पिनद्धो भासयन्नाशा दश जालेन रोचिषाम् ॥२२१॥
 स्थूलस्वच्छेषु रत्नेषु नवान्यानि मुखानि यत् । हारे दृष्टानि यातोऽसौ तद्विशाननसञ्ज्ञिताम् ॥२२२॥
 भानुकर्णस्ततो जातः कालेऽतीते कियत्यपि । यस्य भानुरिव न्यस्तः कर्णयोर्गण्डशोभया ॥२२३॥
 ततश्चन्द्रनखा जाता पूर्णचन्द्रसमानना । उद्यददर्शशाङ्काभनखभासितदिङ्मुखा ॥२२४॥
 ततो विभीषणो जातः कृत येन विभीषणम् । जातमात्रेण पापानां सौम्याकारेण साधुना ॥२२५॥
 देहवत्त्व जगामासौ साक्षाद्धर्म इवोत्तमः । अद्यापि गुणजा यस्य कीर्तिर्जगति निर्मला ॥२२६॥

प्रजा पागलके समान अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न प्रकारके कार्य करती थी ॥२१२॥
 अथानन्तर जिसके पैरके तलुए लाल-लाल थे ऐसा वह बालक मेरुपर्वतकी गुहाके समान आकार
 वाले प्रसूतिकागृहमें शय्याके ऊपर मन्द-मन्द हँसता हुआ पड़ा था । हाथ-पैर हिलानेसे चञ्चल
 था, चित्त अर्थात् ऊपरकी ओर मुख कर पड़ा था, अपनी लीलासे शय्याकी समीपवर्ती भूमिको
 कम्पित कर रहा था, और तत्काल उदित हुए सूर्यमण्डलके समान देदीप्यमान था ॥२१३-२१४॥
 बहुत पहले मेघवाहनके लिए राक्षसोंके इन्द्र भीमने जो हार दिया था, हजार नागकुमार जिसकी
 रक्षा करते थे, जिसकी किरणें सब ओर फैल रही थीं और राक्षसोंके भयसे इस अन्तरालमें
 जिसे किसीने नहीं पहिना था ऐसे हारको उस बालकने अनायास ही हाथसे खींच लिया ॥२१५-
 २१६॥ बालकको मुट्टीमें हार लिये देख माता घबड़ा गई उसने बड़े स्नेहसे उसे उठाकर गोदमें
 ले लिया और शीघ्र ही उसका मस्तक सूँघ लिया ॥२१७॥ पिताने भी उस बालकको हार लिये
 बड़े आश्चर्यसे देखा और विचार किया कि यह अवश्य ही कोई महापुरुष होगा ॥२१८॥ जिसकी
 शक्ति लोकोत्तर नहीं होगी ऐसा कौन पुरुष नागेन्द्रोंके द्वारा सुरक्षित इस हारके साथ क्रीड़ा कर
 सकता है ॥२१९॥ चारणऋद्धिधारी मुनिराजने पहले जो वचन कहे थे वे यही थे क्योंकि
 मुनियोका भाषण कदापि मिथ्या नहीं होता ॥२२०॥ यह आश्चर्य देख माताने निर्भय होकर वह
 हार उस बालकको पहिना दिया । उस समय वह हार अपनी किरणोंके समूहसे दशो दिशाओं
 को प्रकाशमान कर रहा था ॥२२१॥ उस हारमें जो बड़े-बड़े स्वच्छ रत्न लगे हुए थे उनमें
 असली मुखके सिवाय नौ मुख और भी प्रतिबिम्बित हो रहे थे इसलिए उस बालकका दशानन
 नाम रक्खा गया ॥२२२॥

दशाननके बाद कितना ही समय बीत जानेपर भानुकर्ण उत्पन्न हुआ । भानुकर्णके कपोल
 इतने सुन्दर थे कि उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो उसके कानोंमें भानु अर्थात् सूर्य ही पहिना
 रक्खा हो ॥२२३॥ भानुकर्णके बाद चन्द्रनखा नामा पुत्री उत्पन्न हुई । उसका मुख पूर्ण चन्द्रमाके
 समान था और उगते हुए अर्धचन्द्रमाके समान सुन्दर नखोकी कान्तिसे उसने समस्त दिशाओं
 को प्रकाशित कर दिया था ॥२२४॥ चन्द्रनखाके बाद विभीषण हुआ । उसका आकार सौम्य
 था तथा वह साधु प्रकृतिका था । उसने उत्पन्न होते ही पापी लोगोंसे भय उत्पन्न कर दिया था
 ॥२२५॥ विभीषण ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात् उत्कृष्ट धर्म ही शरीरवत्ताको प्राप्त हुआ

वालक्रीडापि भीमाभूद्दशग्रीवस्य भास्वतः । कनीयसोस्तु 'सानन्द विदधे विद्विषामपि ॥२२७॥
 शुशुभे भ्रातृमध्ये सा कन्या सुन्दरविग्रहा । दिवसाकंशशाङ्काना मध्ये सध्येव सक्क्रिया ॥२२८॥
 मातुरङ्गे स्थितोऽथासौ धृतचूडः कुमारकः । दशाननो दशाशाना कुर्वन् ज्योत्सना द्विजत्विषा ॥२२९॥
 नभसा प्रस्थित वनापि द्योतयन्त दिशस्त्विषा । युक्त खेचरचक्रेण विभूतिवलशालिना ॥२३०॥
 कक्षा विद्युत्कृतोद्योतैर्मदधाराविसर्जिभिः । वेष्टित दन्तिजीमूतै कर्णशङ्खवलाहकैः ॥२३१॥
 महता तूर्यनादेन श्रुतिवाधिर्यकारिणा । कुर्वाण सुखर चक्र दिशामुरपरक्रमम् ॥२३२॥
 प्रसित्वेव विमुञ्चन्त बलेन पुरतो नभः । धीरो वैश्रवण वीक्ष्याञ्चक्रे दृष्टया प्रगतभया ॥२३३॥
 महिमान च दृष्ट्वास्य पप्रच्छेति स मातरम् । निघ्नश्चपलभावस्य बालभावेन सस्मितः ॥२३४॥
 अग्न्य कोऽयमितो याति मन्यमानो निजौजसा । जगत्तृणमिवाशेष बलेन महता वृतः ॥२३५॥
 ततः साकथयत्तस्य मातृप्वर्षीय एष ते । सिद्धविद्य श्रिया युक्तो महत्या लोककीर्तितः ॥२३६॥
 शत्रूणां जनयन् कम्प पर्यटत्येष विष्टपम् । महाविभवसम्पन्नो द्वितीय इव भास्कर ॥२३७॥
 भवत्कुलक्रमायाता तवोद्वास्य पितामहम् । अय पाति पुरीं लङ्कां दत्तामिन्द्रेण वैरिणा ॥२३८॥
 मनोरथशतानेप जनकस्त्वव चिन्तयन् । तदर्थं न दिवा निद्रा न च रक्तमवाप्नुते ॥२३९॥
 अहमप्यनया पुत्र चिन्तया शोपमागता । अवाप्त मरण पुसा स्वस्थानभ्रशतो वरम् ॥२४०॥

हो । उसकी गुणोसे उत्पन्न उसकी निर्मल कीर्ति आज भी ससारमे सर्वत्र छाई हुई है ॥२२६॥
 तेजस्वी दशाननकी बालक्रीडा भी भयङ्कर होती थी जब कि उसके दोनो छोटे भाइयोंकी
 बालक्रीडा शत्रुओंको भी आनन्द पहुँचाती थी ॥२२७॥ भाइयोंके बीच सुन्दर शरीरको धारण
 करनेवाली कन्या चन्द्रनखा, ऐसी सुशोभित होती थी मानो दिन सूर्य और चन्द्रमाके बीच
 उत्तम क्रियाओंसे युक्त सन्ध्या ही हो ॥२२८॥

अथानन्तर चोटीको धारण करनेवाला दशानन एक दिन माताकी गोदमें बैठा हुआ
 अपने दाँतोकी किरणोंसे मानो दशो दिशाओंमे चँदनी फैला रहा था उसी समय वैश्रवण
 आकाश-मार्गसे कहीं जा रहा था । वह अपनी कान्तिसे दिशाओंको प्रकाशमान कर रहा था,
 वैभव और पराक्रमसे सुशोभित विद्याधरोके समूहसे युक्त था तथा उन हाथीरूपी
 मेघोंसे घिरा था जो कि माला रूपी विजलीके द्वारा प्रकाश कर रहे थे, मदरूपी जलकी
 धाराको छोड़ रहे थे, और जिनके कानोंमें लटकते हुए शंख बलाकाओंके समान जान पडते थे ।
 वैश्रवण कानोंको बहरा करने वाले तुरहीके विशाल शब्दसे दिशाओंके समूहको शब्दायमान
 कर रहा था । विशाल पराक्रमका धारक था और अपनी बड़ी भारी सेनासे ऐसा जान पड़ता
 था मानो सामने के आकाशको ग्रस कर छोड़ ही रहा हो । दशाननने उसे बड़ी गम्भीर दृष्टिसे
 देखा ॥२२९-२३३॥ दशानन लड़कपनके कारण चञ्चल तो था ही अतः उसने वैश्रवणकी महिमा
 देख हँसते-हँसते मातासे पूछा कि हे मा ! अपने प्रतापसे समस्त संसारको तृणके समान समझना
 हुआ, बड़ी भारी सेनासे घिरा यह कौन यहाँसे जा रहा है ॥२३४-२३५॥ तब माता उससे
 कहने लगी कि यह तेरी मौसीका लड़का है । इसे अनेक विद्याएँ सिद्ध हुई हैं, यह बहुत भारी
 लक्ष्मीसे युक्त है, लोकमे प्रसिद्ध है, महावैभवसे सम्पन्न हुआ दूसरे सूर्यके समान शत्रुओंको
 कँपकँपी उत्पन्न करता हुआ संसारमे घूमता फिरता है ॥२३६-३३७॥ इन्द्र विद्याधरने तेरे
 बाबाके भाई मालीको युद्धमे मारा और बाबाको तेरी कुल-परम्परासे चली आई लंकापुरीसे
 दूर हटा कर इसे दी सो उसी लंकाका पालन करता है ॥२३८॥ इस लंकाके लिए तुम्हारे पिता
 सैकड़ों मनोरथोंका चिन्तवन करते हुए न दिनमे चैन लेते हैं न रात्रिमे नीद ॥२३९॥ हे पुत्र !

पुत्र लक्ष्मीं कदा तु त्वं प्राप्स्यसि स्वकुलोचिताम् । विशल्यमिव यां दृष्ट्वा भविष्यत्यावयोर्मनः ॥२४१॥
 कदा नु भ्रातरावेतो विभूत्या तव सगतौ । द्रक्ष्यामि विहितच्छन्दौ विष्टे वीतकण्ठके ॥२४२॥
 मानुर्दानवचः श्रुत्वा कृन्वा गर्वस्मितं ततः । विभीषणो वभाणेद्रमुद्यत्क्रोधविपाङ्कुरः ॥२४३॥
 धनदो वा भवत्येष देवो वा कोऽस्य वीक्षितः । प्रभावो येन मातस्त्वं कगेपि परिदेवनम् ॥२४४॥
 वीरप्रसविनी वीरा विज्ञातजनचेष्टिता । एवविधा सती कस्माद् वदसि त्वं यथेतरा ॥२४५॥
 श्रीवत्समण्डितोरस्को ध्यायताततविग्रहः । अद्भुतैकरसासक्तनित्यचेष्टो महाबलः ॥२४६॥
 भस्मच्छन्नाग्निवद्भस्मीकतुं शक्तोऽखिलं जगत् । न मनोगोचरं प्राप्तो दशग्रीवः किमत्र ते ॥२४७॥
 गत्या जयेदय चित्तमनादरसमुत्थया । तटानि गिरिराजस्य पाटयेच्च चपेटया ॥२४८॥
 राजमार्गं प्रतापस्य स्तम्भौ भुवनवंशमनः । अङ्कुरौ दर्पवृक्षस्य न ज्ञातावस्य ते भुजौ ॥२४९॥
 एवंकृतस्तत्रोऽयासां भ्रात्रा गुणकलाविदा । नेजोबहुतरं प्राप सर्पिपेव तन्ननपात् ॥२५०॥
 जगाद चेति किं मातरात्मनोऽतिविकृत्यया । वदामि शृणु यत्सत्यं वाक्यमेतदनुत्तरम् ॥२५१॥
 गर्विता अपि विद्याभिः सभूय मम खेचराः । एकस्यापि न पर्याप्ता भुजस्य रणमूर्द्धनि ॥२५२॥
 कुलोचितं तथापीद विद्याराधनसंज्ञकम् । कर्म कर्तव्यमस्माभिस्तत्कुर्वाणैर्न लङ्घयते ॥२५३॥
 कुर्वन्त्याराधन यत्नात् साधवस्तपसो यथा । आराधनं तथा कृत्य विद्यायाः खगोत्रजैः ॥२५४॥

मैं भी इसी चिन्तासे सूख रही हूँ । अपने म्यानसे भ्रष्ट होने की अपेक्षा पुरुषोका मरण हो जाना अच्छा है ॥२४०॥ हे पुत्र ! तू अपने कुलके योग्य लक्ष्मीको कब प्राप्त करेगा ? जिसे देख हम दोनोका मन शल्य रहित सा हो सके ॥२४१॥ मैं कब तेरे इन भाइयोको विभूतिसे युक्त तथा निष्कण्ठक विश्वमे स्वच्छन्द विचरते हुए देखूंगी ? ॥२४२॥ माताके दीन वचन सुन कर जिसके क्रोध रूपी विपके अङ्कुर उत्पन्न हो रहे थे ऐसा विभीषण गर्वसे मुसकराता हुआ बोला ॥२४३॥ कि हे मा ! यह धनद हो चाहे देव हो, तुमने इसका ऐसा कौनसा प्रभाव देखा कि जिससे तुम इस प्रकार विलाप कर रही हो ॥२४४॥ तुम तो वीरप्रसू हो, स्वयं वीर हो, और मनुष्योंकी समस्त चेष्टाओंकी जानने वाली हो । फिर ऐसी होकर भी अन्य स्त्रीकी तरह ऐसा क्या कह रही हो ॥२४५॥ जरा ध्यान तो करो कि जिसका वक्षस्थल श्रीवत्सके चिह्नसे चिह्नित है, विशाल शरीरको धारण करने वाला है, जिसकी प्रतिदिनकी चेष्टाएँ एक आश्चर्य रससे ही सनी रहती हैं, जो महाबलवान् है और भस्मसे आच्छादित अग्निके समान समस्त संसारको भस्म करनेमें समर्थ है ऐसा दशानन क्या कभी तुम्हारे मनमें नहीं आया ? ॥२४६-२४७॥ यह अनादरसे ही उत्पन्न गतिके द्वारा मनको जीत सकता है और हाथकी चपेटासे मुमेरुके शिखर विदीर्ण कर सकता है ॥२४८॥ तुम्हें पता नहीं कि इसकी भुजाएँ प्रतापकी पक्की सड़क हैं, संसार रूपी रूपी घरके खम्भे हैं, और अहंकार रूपी वृक्षके अङ्कुर हैं ॥२४९॥ इस प्रकार गुण और कलाके जानकार विभीषण भाईके द्वारा जिसकी प्रशंसा की गई थी ऐसा रावण, धीके द्वारा अग्निके समान बहुत अधिक प्रतापको प्राप्त हुआ ॥२५०॥ उसने कहा कि माता ! अपनी बहुत प्रशंसा करनेसे क्या लाभ है ? परन्तु सच बात तुमसे कहता हूँ सो सुन ॥२५१॥ विद्याओंके अहंकारसे फूले यदि सबके सब विद्याधर मिलकर युद्धके मैदानमें आवें तो मेरी एक भुजाके लिए भी पर्याप्त नहीं हैं ॥२५२॥ फिर भी विद्याओंकी आराधना करना यह हमारे कुलके योग्य कार्य है अतः उसे करते हुए हमें लज्जित नहीं होना चाहिए ॥२५३॥ जिस प्रकार साधु बड़े प्रयत्नसे तपकी आराधना करते हैं उसी प्रकार विद्याधरोंके गोत्रज पुरुषोंको भी बड़े प्रयत्नसे विद्याकी धाराधना

इत्युक्त्वा धारयन्मानमनुजाभ्या समन्वित । पितृभ्या जुम्बितो मूर्द्धनि कृतसिद्धनमस्कृतिः ॥२५५॥
 प्रासमङ्गलसकारो निश्चयस्थिरमानसः । निर्गत्य मुदितो गोहादुत्पपात नभस्तलम् ॥२५६॥
 क्षणात् प्राप्तं प्रविष्टश्च भीम नाम महावनम् । दंष्ट्राकरालवदनैः क्रूरसत्त्वैर्निनादितम् ॥२५७॥
 सुसाजगरनिश्वासप्रेङ्खितोदारपादपम् । नृत्यद्वयन्तरसघातपादक्षोभितभूतलम् ॥२५८॥
 महागह्वरदेशस्थं सूच्यभेदतमश्रयम् । कालेनैव स्वयं वल्ससन्निधानं सुभीषणम् ॥२५९॥
 यस्योपरि न गच्छन्ति सुराश्चापि भयार्दिता । यच्च भीमतया प्राप प्रसिद्धिं सुवनत्रये ॥२६०॥
 गिरयो दुर्गमा यत्र ध्वान्तव्यासगुहाननाः । साराश्च तरवो लोक ग्रसितु प्रोद्यता इव ॥२६१॥
 अभिन्नचेतसस्तत्र गृहीत्वा शममुत्तमम् । दुराशादूरितात्मानो धवलाम्बरधारिण ॥२६२॥
 पूर्णन्दुसौम्यवदनाः शिखामणिविराजिताः । तपश्चरित्तुमारब्धास्त्रयोऽपि आतरो महत् ॥२६३॥
 विद्या चाष्टाक्षरा नीता वश्यता जपलक्ष्या । सर्वकामान्नदा नाम दिवसाद्देनैस्ततः ॥२६४॥
 अन्न यथेप्सित तेभ्यः सोपनिन्द्ये यतस्ततः । क्षुधाजनितमेतेषां सवभूव न पीडनम् ॥२६५॥
 ततो जपितुमारब्धाः सुचित्ता षोडशाक्षरम् । मन्त्रं कोटिसहस्राणि यस्यावृत्तिदशोदिता ॥२६६॥
 जम्बूद्वीपपतिर्यज्ञस्तमथ स्त्रीभिरावृतः । अनावृत इति ख्यातः प्राप्तः क्रीडितुमिच्छया ॥२६७॥
 अन्नाना ततस्तस्य क्रीडन्तीनां सुविभ्रमम् । ते तपोनिहितात्मान स्थिता लोचनगोचरे ॥२६८॥

करनी चाहिये ॥२५४॥ इसप्रकार कह कर मानको धारण करता हुआ रावण अपने दोनो छोटे भाइयोंके साथ विद्या सिद्ध करने के लिए घरसे निकल कर आकाशकी ओर चला गया । जाते समय माता-पिताने उसका मस्तक चूमा था, उसने सिद्ध भगवान्को नमस्कार किया था, माङ्गलिक सस्कार उसे प्राप्त हुए थे, उसका मन निश्चयसे स्थिर था तथा प्रसन्नतासे भरा था ॥२५५-२५६॥ क्षण भरमे ही वह भीम नामक महावनमे जा पहुँचा । जिनके मुख दाँदोंसे भयंकर थे ऐसे दुष्ट प्राणी उस वनमे शब्द कर रहे थे ॥२५७॥ सोते हुए अजगरोके श्वासोच्छ्वास से वहाँ वड़े-वड़े वृक्ष कम्पित हो रहे थे तथा नृत्य करते हुए व्यन्तरोके चरण-निक्षेपसे वहाँका पृथिवी तल क्षोभित हो रहा था ॥२५८॥ वहाँ की बड़ी-बड़ी गुफाओंमे सूचीके द्वारा दुर्भेद्य-सघन अन्धकारका समूह विद्यमान था । वह वन इतना भयंकर था कि मानो साक्षात् काल ही सदा उसमे विद्यमान रहता था ॥२५९॥ देव भी भयसे पीड़ित होकर उसके ऊपर नहीं जाते थे, तथा अपनी भयकरताके कारण तीनो लोकोमें प्रसिद्ध था ॥२६०॥ जिनकी गुफाओंके अग्रभाग अन्धकारसे व्याप्त थे ऐसे वहाँ के पर्वत अत्यन्त दुर्गम थे और वहाँ के सुदृढ़ वृक्ष ऐसे जान पड़ते थे मानो लोकको प्रसने के लिए ही खड़े हो ॥२६१॥ जिनके चित्तमे किसी प्रकारका भेद भाव नहीं था जिनकी आत्माएँ खोटी आशाओंसे दूर थी, जो शुक्ल वस्त्र धारण कर रहे थे, जिनके मुख पूर्णचन्द्रमाके समान सौम्य थे और जो चूडामणिसे सुशोभित थे ऐसे तीनो भाइयोंने उस भीम महावनमे उत्तम शान्ति धारण कर महान् तपश्चरण करना प्रारम्भ किया ॥२६२-२६३॥ उन्होंने एक लाख जप कर सर्वकामान्नदा नामकी आठ अक्षरो वाली विद्या आधे ही दिनमे सिद्ध कर ली ॥२६४॥ यह विद्या उन्हें जहां-तहासे मनचाहा अन्न लाकर देती रहती थी जिससे उन्हें क्षुधा सम्बन्धी पीडा नहीं होती थी ॥२६५॥ तदनन्तर हृदयको स्वस्थ कर उन्होंने सोलह अक्षर वाला वह मन्त्र जपना शुरू किया कि जिसकी दश हजार करोड़ आवृत्तियाँ शास्त्रोंमे कहीं गई हैं ॥२६६॥

तदनन्तर जम्बूद्वीपका अधिपति अनावृत नामका यज्ञ अपनी स्त्रियोसे आवृत हो इच्छानुसार क्रीडा करनेके लिए उस वनमें आया ॥२६७॥ जिनकी आत्मा तपश्चरणमे लीन थी ऐसे

रूपेण तास्तत्तत्संपां समाकृष्य कचेध्विष । देव्यः समीपमानीता. कौतुकाकुलचेतसः ॥२६६॥
 उचुस्तामामिदं काञ्चिदुच्चिनालकञ्जसिना । वक्त्रेण सद्विरेफेण पद्मस्य श्रियमाश्रिताः ॥२७०॥
 नितामन्तं सुकुमारार्द्रा विमर्षकान्तितेजसः । तपश्चरत किं कार्यमपरित्यक्तवाससः ॥२७१॥
 भोगेर्विना न नात्राणामोदणी जायते रुचिः । इदं देहतया नापि शक्यते परतो भयम् ॥२७२॥
 जटामुकुटमारं क्व क्व चेदं प्रथमं वयः । विरुद्धसंप्रयोगस्य जटारो यूयमुदगतः ॥२७३॥
 पार्श्वस्तनतटास्फालसुखसंगमनोचितौ । करौ गिलादिसनेन किमर्थं प्रापितौ व्यथाम् ॥२७४॥
 अहो हृसीयसी बुद्धिर्युष्माकं रूपगालिनाम् । भोगोचिनन्व देहस्य यत्कृतं दुःखयोजनम् ॥२७५॥
 उचिष्टन गृहं याम. किमद्यापि गतं बुधा. । सहास्माभिर्महाभोगान् प्राप्नुत प्रियदर्शनान् ॥२७६॥
 तामिरिन्युदितं नेयां न चक्रे मानसे पदम् । यथा सरोजिनीपत्रे पयसो विन्दुजालकम् ॥२७७॥
 एवमुचुस्ततश्चान्या. सख्य. काष्टमया इमे । निश्चलत्व तथा ह्येषां सर्वेष्वङ्गेषु दृश्यते ॥२७८॥
 अभिधायेति संकुच्य रमसादुपमृत्य च । त्रिगाले हृदये चक्रुरवतंसेन ताडनम् ॥२७९॥
 तथापि ते गता क्षोभं नैवं प्रवणचेतसः । यत. कापुरया एव सञ्चलन्ति प्रस्तुतागयात् ॥२८०॥
 देवीनिवेदनाद् हृष्टा जन्मद्वीपेगिना तत । कृत्वा च स्मितमिन्युक्ता. प्राप्तविस्मयचेतसा ॥२८१॥
 भो भो. सुपुरया कस्मात्तपश्चरत दुष्करम् । अाराधयत वा देवं कतमं वदताचिरात् ॥२८२॥

तीनों भाई, हाव-भाव पूर्वक क्रीड़ा करनेवाली उस यक्षकी स्त्रियोंके दृष्टिगोचर हुए ॥२६६॥
 तदनन्तर कौतुकसे जिनका चित्त आकुल हो रहा था ऐसी देवियों शीघ्र ही उनके पास इस प्रकार
 आईं मातां उनके सौन्दर्यने चोटी पकड़कर ही उन्हें खींच लिया हो ॥२६६॥ उन देवियोंमें कुछ
 देवियों धुंधराले वालोंसे मुशोभित मुखसे भ्रमर सहित कमलकी शोभा धारण कर रही थीं ।
 उन्होंने कहा कि जिनके शरीर अत्यन्त सुकुमार हैं, जिनकी कान्ति और तेज सब ओर फैल रहा है
 तथा वक्त्रका जिन्होंने त्याग नहीं किया है ऐसे आप लोग किस लिए तपश्चरण कर रहे हैं ॥२७०-
 २७१॥ शरीरकी ऐसी कान्ति भोगोंके विना नहीं हो सकती । तथा आपके ऐसे शरीर हैं कि
 जिसमे आपको किसी अन्यसे भय भी उत्पन्न नहीं हो सकता ॥२७२॥ कहीं तो यह जटारूप
 सुकुटाका भार और कहीं यह प्रथम तान्त्रण्य अवस्था ? निश्चित ही आप लोग विरुद्ध पदार्थोंका
 समागम नृजनेके लिए ही उत्पन्न हुए हैं ॥२७३॥ मूल स्तन-तटोंके आस्फालनसे उत्पन्न सुखकी
 प्राप्तिके योग्य अपने इन हाथोंको आप लोग शिला आदि कर्कश पदार्थोंके समागमसे पीड़ा क्यों
 पहुँचा रहे हैं ॥२७४॥ अहो आश्चर्य है कि रूपसे मुशोभित आप लोगोंकी बुद्धि बड़ी हलकी
 है कि जिससे भोगोंके योग्य शरीरको आप लोग इस तरह दुःख दे रहे हैं ॥२७५॥ उठो घर चले,
 हे विद्वान् पुरुषो ! अब भी क्या गया है ? प्रिय पदार्थोंका अवलोकनकर हम लोगोंके साथ महाभोग
 प्राप्त करो ॥२७६॥ उन देवियोंने यह सब कहा अवश्य, पर उनके चित्तमे ठीक उस तरह स्थान
 नहीं पा सका कि जिस तरह कमलिनीके पत्रपर पानीके बूँदोंका समूह स्थान नहीं पाता
 है ॥२७७॥ तदनन्तर कुछ दूसरी देवियों परस्परमें इस प्रकार कहने लगीं कि हे सखियों !
 निश्चय ही ये काष्टमय हैं—लकड़ीके पुतले हैं इसीलिए तो इनके समस्त अंगोंमें निश्चलता दिखाई
 देती है ॥२७८॥ ऐसा कहकर तथा कुछ क्षुपित हो पासमें जाकर उन देवियोंने उनके विशाल
 हृदयमे अपने कर्णमूलासे चाँट पहुँचाई ॥२७९॥ फिर भी निपुण चित्तको धारण करनेवाले तीनों
 भाई क्षोभको प्राप्त नहीं हुए सो ठीक ही है क्योंकि कायर पुरुष ही अपने प्रकृत लक्ष्यसे भ्रष्ट
 होते हैं ॥२८०॥ तदनन्तर देवियोंके कहनेसे जिसके चित्तमे आश्चर्य उत्पन्न हो रहा था ऐसे
 जन्मद्वीपाधिपति अनावृत यक्षने भी हर्षित हो उन तीनों भाइयोंसे मुसकराते हुए कहा ॥२८१॥
 कि हे सत्पुरुषो ! आप लोग किस प्रयोजनसे कठिन तपश्चरण कर रहे हो ? अथवा किस देवकी

इत्युक्तास्ते यदा तस्थु पुस्तकमर्गता इव । तदा कोपेन यक्षाणा पतिरेवमभापत ॥२८३॥
 विस्मृत्य मामिमे देव कमन्य ध्यातुमुद्यताः । अहो चपलतामीपां परमेयममेघसाम् ॥२८४॥
 उपद्रवार्थमेतेषा तत्क्षण च प्रचण्डवाक् । किङ्कराणामदादाज्ञामाज्ञादानप्रतीक्षिणाम् ॥२८५॥
 स्वभावेनैव ते क्रूराः प्राप्य त्वाज्ञां ततोऽधिकाम् । नानारूपधराश्चक्रुः पुरस्तेषामिति क्रिया ॥२८६॥
 कश्चिदुत्प्लुत्य वेगेन गृहीत्वा पर्वतोन्नतम् । पुर' पपात निर्घातान् घातयन्निव सर्वत ॥२८७॥
 सर्पेण वेष्टन कश्चिच्चक्रे सर्वशरीरगम् । भ्रूवा च केसरी कश्चिद् व्यादायास्य समागत ॥२८८॥
 चक्रुरन्ये रव कर्णे वधिराकृतदिद्मुखम् । दशहस्तिमरुहावसमुद्रत्व गतास्तथा ॥२८९॥
 एवविधैरुपायैस्ते यदा जग्मुर्न विक्रियाम् । ध्यानस्तम्भसमासकनिश्चलस्वान्तधारणा ॥२९०॥
 तदा स्लेच्छ्वल भीम चण्डचण्डालसकुलम् । करालमायुधैरुग्रैर्विकृत तैस्तमोनिभम् ॥२९१॥
 कृत्वा पुष्पान्तक ध्वस्त विजित्य च किलाहवे । वद्ध्वा रत्नश्रवास्तेषा दर्शितो बान्धवै समम् ॥२९२॥
 अन्त पुर च कुर्वाण विप्रलाप मनश्छिद्यम् । युष्मासु सत्सु पुत्रेषु दु खप्राप्तमिति ध्वनत् ॥२९३॥
 पुत्रा रक्षत मा स्लेच्छ्वर्हन्ममान महावने । तेषामिति पुर पित्रा प्रयुक्तो भूरिविप्लवः ॥२९४॥
 ताडयमाना च चण्डालैर्माता निगडसयुता । कचाकृष्टा विमुञ्चन्ती धारा नयनवारिण ॥२९५॥
 जगाद पश्यतावस्थामीदृशीं मे सुता वने । नांताह शवरै पत्नी कथ युष्माकमग्रतः ॥२९६॥
 समूय मम सर्वेऽपि लब्धविद्यावला अपि । एकस्यापि न पर्यासा भुजस्य व्योमचारिण ॥२९७॥

आराधना कर रहे हो ? सो शीघ्र ही कहो ॥२८२॥ यज्ञके ऐसा कहनेपर भी जब वे मिट्टीसे निर्मित पुतलोकी तरह निश्चल बैठे रहे तब वह क्रुपित हो इस प्रकार बोला कि ॥२८३॥ ये लोग मुझे भुलाकर अन्य किस देवका ध्यान करनेके लिए उद्यत हुए हैं । अहो ! इन मूर्खोंकी यह सबसे बड़ी चपलता है ॥२८४॥ इस तरह कठोर वचन बोलनेवाले उस यज्ञेन्द्रने आज्ञा देनेकी प्रतीक्षा करनेवाले अपने सेवकोंको इन तीन भाइयोंपर उपद्रव करनेकी आज्ञा दे दी ॥२८५॥ वे किङ्कर स्वभावसे ही क्रूर थे फिर उससे भी अधिक स्वामीकी आज्ञा पा चुके थे इसलिए नाना रूप धारणकर उनके सामने तरह-तरहकी क्रियाएँ करने लगे ॥२८६॥ कोई यज्ञ वेगसे पर्वतके समान ऊँचा उछलकर उनके सामने ऐसा गिरा मानो सब ओरसे वज्र ही गिर रहा हो ॥२८७॥ किसी यज्ञने सोंप बनकर उनके समस्त शरीरको लपेट लिया और कोई सिंह बनकर तथा मुँह फाड़कर उनके सामने आ पहुँचा ॥२८८॥ किन्हींने कानोंके पास ऐसा भयङ्कर शब्द किया कि उससे समस्त दिशाएँ बहरीं हो गईं । तथा कोई दशमशक बनकर, कोई हाथी बनकर, कोई आँधी बनकर, कोई दावानल बनकर और कोई समुद्र बनकर भिन्न-भिन्न प्रकारके उपद्रव करने लगे ॥२८९॥ ध्यान रूपी खम्भेमें वद्ध रहनेके कारण जिनका चित्त अत्यन्त निश्चय था ऐसे तीनों भाई जब पूर्वोक्त उपायों से विकारको प्राप्त नहीं हुए ॥२९०॥ तब उन्होंने विक्रियासे स्लेच्छ्वोंकी एक बड़ी भयङ्कर सेना बनाई । वह सेना अत्यन्त क्रोधी चाण्डालोंसे युक्त थी, तीक्ष्ण शस्त्रोंसे भयङ्कर थी और अन्धकारके समूहके समान जान पड़ती थी ॥२९१॥ उन्होंने दिखाया कि युद्धमे जीतकर पुष्पान्तक नगर को विध्वस्त कर दिया है तथा तुम्हारे पिता रत्नश्रवाको भाई-बन्धुओ सहित गिरफ्तार कर लिया गया है ॥२९२॥ अन्तःपुर भी हृदयको तोड़ देनेवाला विलाप कर रहा है और साथ ही साथ यह शब्द कर रहा है कि तुम्हारे जैसे पुत्रोंके रहते हुए भी हम दुःखको प्राप्त हुए हैं ॥२९३॥ पिता इस प्रकार चिल्ला-चिल्लाकर उनके सामने बहुत भारी वाधा उत्पन्न कर रहा है कि हे पुत्रो ! इस महावनमें स्लेच्छ्व भुके मार रहे हैं सो मेरी रक्षा करो ॥२९४॥ उन्होंने दिखाया कि तुम्हारी माताको चाण्डाल बेड़ीमे डालकर पीट रहे हैं, चोटी पकड़कर घसीट रहे हैं और वह आँसुओं की धारा छोड़ रही है ॥२९५॥ माता कह रही है कि हे पुत्रो ! देखो, वनमें मैं ऐसी अवस्थाको प्राप्त हो रही हूँ । यही नहीं तुम लोगोंके सामने ही शवर लोग मुझे अपनी पत्नी-वसतिमे लिये जा रहे हैं ॥२९६॥ तुम यह पहले मूठ-मूठ ही कहा करते थे कि विद्यावलको प्राप्त सब विद्याधर

इत्युक्त वितथ पूर्वमेकस्यापि यतोऽधुना । यूयं म्लेच्छस्य पर्याप्ता न त्रयोऽपि हतौजसः ॥२६८॥
 दशग्रीव वृथा स्तोत्रमकरोत्ते विभीषणः । एकापि नास्ति ते ग्रीवा जननीं यो न रक्षति ॥२६९॥
 कालेन यावता यातस्त्व मे मानेन वर्जितः । निष्कान्तो जठरादस्मादुच्चारस्तावता वरम् ॥२७०॥
 भानुकर्णोऽप्यय मुक्तः कर्णाभ्यां यो नमे स्वरम् । आर्त्तं शृणोति कुर्वत्या विगतक्रियविग्रहः ॥२७१॥
 विभीषणोऽप्यय व्यर्थं नाम धत्ते विभीषणः । शक्तो यो नैककस्यापि शबरस्य मृताकृतिः ॥२७२॥
 म्लेच्छैर्विधर्म्यमाणाया दयां कुरुत नो कथम् । स्वमरि प्रेम हि प्रायः पितृभ्यां सोदरे परम् ॥२७३॥
 विद्या हि साध्यते पुत्रः स्वजनानां समृद्धये । तेपा च पितरौ श्रेष्ठौ तयोश्चैवा व्यवस्थिति ॥२७४॥
 भ्रूक्षेपमात्रतोऽप्येते शबरा यान्ति भस्मताम् । भवतां दृग्विषव्यालचक्षुःपातादिव द्रुमाः ॥२७५॥
 जठरेण मया यूय धारिताः सुखलिप्सया । पुत्रा हि गदिताः पित्रोः प्रारोहा इव धारकाः ॥२७६॥
 यदैवमपि न ध्यानभङ्गस्तेषामजायत । तदेति तैः समारब्ध मायाकर्मातिदारुणम् ॥२७७॥
 छिन्नं पित्रो शिरस्तेषां पुरः सायकधारया । पुरो दशाननस्यापि मूर्द्धा भ्रात्रोर्निपातितः ॥२७८॥
 तयोरपि पुरो मूर्द्धा दशग्रीवस्य पातितः । येन तौ क्रोपतः प्राप्तावीपद्धानविकम्पनम् ॥२७९॥
 दशग्रीवस्तु भावस्य दधानोऽत्यन्तशुद्धताम् । महार्वीर्यो दधत्थैर्य मन्दरस्य महारुचिः ॥२८०॥
 अवभज्य हृषीकाणां प्रसार निजगोचरे । अचिराभाचल चित्तं कृत्वा दासमिवाश्रवम् ॥२८१॥

मिलकर भीमेरी एक भुजाके लिए पर्याप्त नहीं हैं । परन्तु इस समय तो तुम तीनों ही इतने निस्तेज हो रहे हो कि एक ही म्लेच्छके लिए पर्याप्त नहीं हो ॥२६७-२६८॥ हे दशग्रीव, यह विभीषण तेरी व्यर्थ ही स्तुति करता था । जब कि तू माताकी रक्षा नहीं कर पा रहा है तब तो मैं समझती हूँ कि तेरे एक भी ग्रीवा नहीं है ॥२६९॥ मानसे रहित तू जितने समय तक मेरे उदरमे रहकर बाहर निकला है उतने समय तक यदि मैं मलको भी धारण करती तो अच्छा होता ॥२७०॥ जान पड़ता है यह भानुकर्ण भी कर्णोंसे रहित है इसलिए तो मैं चिल्ला रही हूँ और यहाँ मेरे दुःख भरे शब्दको सुन नहीं रहा है । देखो, कैसा निश्चिन्त शरीर धारण किये है ॥२७१॥ यह विभीषण भी इस विभीषण नामको व्यर्थ ही धारण कर रहा है और मुर्दा जैसा इतना अकर्मण्य हो गया है कि एक भी म्लेच्छका निराकरण करनेमे समर्थ नहीं है ॥२७२॥ देखो, ये म्लेच्छ बहिन चन्द्रनखाको धर्म हीन बना रहे हैं सो इसपर भी तुम दया क्यों नहीं करते हो ? माता-पिताकी अपेक्षा भाईका बहिनपर अधिक प्रेम होता है पर इसकी तुम्हें चिन्ता कहाँ है ? ॥२७३॥ हे पुत्रो ! विद्या सिद्ध की जाती है आत्मीयजनोकी समृद्धिके लिए सो उन आत्मीयजनोकी अपेक्षा माता-पिता श्रेष्ठ हैं और माता-पिताकी अपेक्षा बहिन श्रेष्ठ है यही सनातन व्यवस्था है ॥२७४॥ जिस प्रकार विषधर सर्पकी दृष्टि पड़ते ही वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार तुम्हारी भाँहके सञ्चार मात्रसे म्लेच्छ भस्म हो सकते हैं ॥२७५॥ मैंने तुम लोगोको सुख पानेकी इच्छासे ही उदरमे धारण किया था क्यों कि पुत्र वही कहलाते हैं जो पायेकी तरह माता पिताको धारण करते हैं—उनकी रक्षा करते हैं ॥२७६॥ इतना सब कुछ करनेपर भी जब उनका ध्यान भङ्ग नहीं हुआ, तब उन देवोंने अत्यन्त भयङ्कर मायामयी कार्य करना शुरू किया ॥२७७॥ उन्होंने उन तीनोंके सामने तलवारकी धारसे माता-पिताका शिर काटा तथा रावणके सामने उसके अन्य दो भाइयोंका शिर काटकर गिराया ॥२७८॥ इसी प्रकार उन दो भाइयोंके सामने रावण का शिर काटकर गिराया । इस कार्यसे विभीषण और भानुकर्णके ध्यानमें क्रोधवश कुछ चञ्चलता आ गई ॥२७९॥ परन्तु दशानन भावोकी शुद्धताको धारण करता हुआ मेरुके समान स्थिर बना रहा । वह महा शक्तिशाली तथा दृढ़श्रद्धानी जो था ॥२८०॥ उसने इन्द्रियोंके सञ्चारको अपने आपमें ही रोककर बिजलीके समान चञ्चल मनको दासके समान आज्ञाकारी बना

कण्टकेन कृतत्राणः संश्रयेण समं तत । ध्यानवक्तव्यताहीनो दध्या मन्त्र प्रयत्नतः ॥३१२॥
 यदि नाम तदा ध्यानमात्रिशेच्छ्रमणोत्तम । अष्टकर्मसमुच्छेद तत कुर्वीत तत्त्वणात् ॥३१३॥
 अत्रान्तरे सदेहानां कृताञ्जलिपुटस्थितम् । सहस्र तस्य विद्यानामनेक वगतामितम् ॥३१४॥
 समाप्तिमेति नो यावन्पथ्या मन्त्रविवर्तने । तावदेवास्य ता सिद्धा निश्चयात् किं न लभ्यते ॥३१५॥
 निश्चयोऽपि पुण्योपात्तलभ्यते कर्मणः सितौत । कर्माण्येव हि यच्छन्ति विघ्न दु खानुभाविन ॥३१६॥
 काले दानविधिं पात्रे क्षेमे चायु स्थितिचयम् । सम्प्रबोधिफलां विद्या नाभव्यो लब्धुमर्हति ॥३१७॥
 कस्यचिद्दणभिर्वर्षे विद्या मासेन कस्यचित् । क्षणेन कस्यचित्सिद्धिं यान्ति कर्मानुभावतः ॥३१८॥
 यग्ण्यां स्वपितु त्याग करोतु चिरमन्धस । मज्जन्वप्सु दिवानक्त गिरेः पततु मस्तकात् ॥३१९॥
 त्रिवक्तां पञ्चतायोग्या क्रिया विग्रहशोषिणीम् । पुण्यैर्विरहितो जन्तुस्तथापि न कृती भवेत् ॥३२०॥
 अन्नमात्र क्रिया पुंसां सिद्धे सुकृतकर्मणाम् । अकृतोत्तमकर्माणो यान्ति मृत्यु निरर्थका ॥३२१॥
 सर्वादरान्मनुष्येण तस्मादाचार्यसेवया । पुण्यमेव सदा कार्यं सिद्धिं पुण्यैर्विना कुत ॥३२२॥
 पश्य श्रेणिक पुण्यानां प्रभाव यद्दशानन । असपूर्णे गत काले विद्यासिद्धिं महामना ॥३२३॥
 सक्षेपेण करिष्यामि विद्यानां नामकीर्तनम् । अर्थसामर्थ्यतो लब्ध भवावहितमानस ॥३२४॥
 नम संचारिणीं कायदायिनीं कामगामिनी । दुर्निवारा जगत्कम्पा प्रज्ञप्तिर्भानुमालिनी ॥३२५॥

लिया था ॥३११॥ शत्रुसे बड़ला लेनेको इच्छा रूपी कण्टक तथा जितेन्द्रियता रूपी सवर दोनो ही जिसकी रक्षा कर रहे थे ऐसा दशानन ध्यानसम्बन्धी दोषोसे रहित होकर प्रयत्नपूर्वक मन्त्रका ध्यान करता रहा ॥३१२॥ आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा ध्यान कोई मुनिराज धारण करते तो वह उस ध्यानके प्रभावसे उसी समय अष्टकर्मोंका विच्छेद कर देते ॥३१३॥ इसी बीचमे हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई अनेक हजार शरीरधारिणी विद्याएँ दशाननको सिद्ध हो गई ॥३१४॥ मन्त्र जपनेकी संख्या समाप्त नहीं हो पाई कि उसके पहले ही समस्त विद्याएँ उसे सिद्ध हो गई, सो ठीक ही है क्योंकि दृढ़ निश्चयसे क्या नहीं मिलता है ? ॥३१५॥ दृढ़ निश्चय भी पूर्वोपार्जित उज्ज्वल कर्मसे ही प्राप्त होता है । यथार्थमे कर्म ही दु खानुभवमे विघ्न उत्पन्न करते हैं ॥३१६॥ योग्य समय पात्रके लिए दान देना, क्षेत्रमे आयुकी स्थिति समाप्त होना तथा रत्नत्रयकी प्राप्ति रूपी फलसे युक्त विद्या प्राप्त होना, इन तीन कार्योंको अभव्य जीव कभी नहीं पाता है ॥३१७॥ किसीको दश वर्षमे, किसीको एक माहमे और किसीको एक क्षणमे ही विद्याएँ सिद्ध हो जाती है सो यह सब कर्मोंका प्रभाव है ॥३१८॥ भले ही पृथिवीपर सोवे, चिर काल तक भोजनका त्याग रखे, रात-दिन पानीमे डूबे रहे, पहाड़की चोटीसे गिरे, और जिससे मरण भी हो जावे ऐसी शरीर सुखानवाली क्रियाएँ करे तो भी पुण्यरहित जीव अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर सकता ॥३१९-३२०॥ जिन्होंने पूर्व भवमे अच्छे कार्य किये हैं उन्हें सिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है । तपश्चरण आदि क्रियाएँ तो निमित्त मात्र हैं पर जिन्होंने पूर्वभवमें उत्तम कार्य नहीं किये वे व्यर्थ ही मृत्युको प्राप्त होते हैं—उनका जीवन निरर्थक जाता है ॥३२१॥ इसलिए मनुष्यको पूर्ण आदरसे आचार्यकी सेवा कर सदा पुण्यका ही सञ्चय करना चाहिए क्योंकि पुण्यके बिना सिद्धि कैसे हो सकती है ? ॥३२२॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! पुण्यका प्रभाव देखो कि महामनस्वी दशानन, समय पूर्ण न होनेपर भी विद्याओंकी सिद्धिको प्राप्त हो गया ॥३२३॥ अब मैं सक्षेपसे विद्याओंका नामोल्लेख करता हूँ । विद्याओंके ये नाम उनके अर्थ-कार्यकी सामर्थ्यसे ही प्राप्त हुए हैं—प्रचलित हैं । हे श्रेणिक ! सावधान चित्त होकर सुनो ॥३२४॥ संचारिणी, कामदायिनी, कामगामिनी, दुर्निवारा, जगत्कम्पा, प्रज्ञप्ति, भानुमालिनी, अणिमा,

२. शत्रुसे म० । ३. माविशच्छ्रम म० । ४. बद्धात् । ५. कामगामिनी म० । ६. कायगामिनी म० ।

अणिमा लघिमा क्षोभ्या मनःस्तम्भनकारिणी । संवाहिनी सुरध्वंसी कौमारी वधकारिणी ॥३२६॥
 सुविधाना तपोरूपा दहनो विपुलोदरी । शुभप्रदा रजोरूपा दिनरात्रिविधायिनी ॥३२७॥
 वज्रोदरी समाकृष्टिर्दग्गन्यजरामरा । अनलस्तम्भनी तोयस्तम्भनी गिरिदारिणी ॥३२८॥
 अवलोकन्यरिध्वंसी घोरा धीरा भुजङ्गिनी । वारुणी भुवनावध्या दारुणा मदनाशिनी ॥३२९॥
 भास्करी भयसंभूतिरैगानी विजया जया । बन्धनी मोचनी चान्या वराही कुटिलाकृतिः ॥३३०॥
 चित्तोद्भवकरी शान्तिः कौवेरी वशकारिणी । योगेश्वरी बलोत्सादी चण्डा भीतिः प्रवर्षिणी ॥३३१॥
 पद्ममाद्या महाविद्याः पुरासुकृतकर्मणा । स्वल्पैरेव दिनैः प्राप दशग्रीवः सुनिश्चलः ॥३३२॥
 सर्वाहा रतिसंवृद्धिर्जृम्भिणी व्योमगामिनी । निद्राणी चेति पञ्चैता भानुकर्ण समाश्रिताः ॥३३३॥
 सिद्धार्था शत्रुदमनी निर्व्यावाता खगामिनी । विद्या विभीषणं प्राप्ताश्चतस्रो दयिता इव ॥३३४॥
 ईश्वरत्वं ततः प्राप्ता विद्यायां ते सुविभ्रमाः । जन्मान्यद्विवसं प्रापुर्महासंमदकारणम् ॥३३५॥
 ततः पत्यापि यक्षाणां दृष्ट्वा विद्या समागताः । पूजितास्ते महाभूत्या दिव्यालङ्कारभूषिताः ॥३३६॥
 स्वयंप्रभमिति स्थातं नगरं च निवेगितम् । मेरुशृङ्गसमुच्छ्रायसङ्गपङ्क्तिविराजितम् ॥३३७॥
 मुक्ताजालपरिचिस्रगवाक्षैर्दूरमुन्नतैः । रत्नजाश्रुनदस्तम्भैरञ्जितं चैन्यवेम्भभिः ॥३३८॥
 अन्योन्यकरसम्बन्धजनितेन्द्रशरासनैः । रत्नैः कृतसमुद्योतं नित्यविद्युत्समप्रभैः ॥३३९॥
 आनृभ्यां सहितस्तत्र प्रासादे गगनस्पृशि । विद्यावलेन सम्पन्नः सुखं तस्यौ दशाननः ॥३४०॥
 जम्बूद्वीपपति प्राह तत एव दशाननम् । विस्मितस्तत्र वीर्येण प्रसन्नोऽहं महामते ॥३४१॥

लघिमा, क्षोभ्या, मनःस्तम्भनकारिणी, संवाहिनी, सुरध्वंसी, कौमारी, वधकारिणी, सुविधाना, तपोरूपा, दहनो, विपुलोदरी, शुभप्रदा, रजोरूपा, दिनरात्रिविधायिनी, वज्रोदरी, समाकृष्टि, अदर्शनी, अजरा, अमरा, अनलस्तम्भनी, तोयस्तम्भनी, गिरिदारिणी, अवलोकिनी, अरिध्वंसी, घोरा, धीरा, भुजङ्गिनी, वारुणी, भुवना, अवध्या, दारुणा, मदनाशिनी, भास्करी, भयसंभूति, ऐशानी, विजया, जया, बन्धनी, मोचनी, वाराही, कुटिलाकृति, चित्तोद्भवकरी, शान्ति, कौवेरी, वशकारिणी, योगेश्वरी, बलोत्सादी, चण्डा, भीति और प्रवर्षिणी, आदि अनेक महाविद्याओंको निश्चल परिणामांका धारी दशानन पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके उदयसे थोड़े ही दिनोंमें प्राप्त हो गया ॥३२५-३३२॥ सर्वाहा, इतिसंवृद्धि, जृम्भिणी, व्योमगामिनी और निद्राणीसे पाँच विद्याएँ भानुकर्णको प्राप्त हुई ॥३३३॥ सिद्धार्था, शत्रुदमनी, निर्व्यावाता और आकाशगामिनी ये चार विद्याएँ प्रिय छिवोंके समान विभीषणको प्राप्त हुई ॥३३४॥ इस प्रकार विद्याओंके ऐश्वर्यको प्राप्त हुए वे तीनों भाई महाहर्षके कारणभूत नूतन जन्मको ही मानो प्राप्त हुए थे ॥३३५॥

तदनन्तर यक्षोंके अधिपति अनावृत यज्ञने भी विद्याओंको आया देख महावैभवसे उन तीनों भाइयोंकी पूजा की और उन्हें दिव्य अलंकारोंसे अलंकृत किया ॥३३६॥ दशाननने विद्याके प्रभावसे स्वयंप्रभ नामका नगर वसाया । वह नगर मेरुपर्वतके शिखरके समान ऊँचे-ऊँचे मकानोंकी पंक्तिसे सुशोभित था ॥३३७॥ जिनके करोंमें मोतियोंकी झालर लटक रही थी, जो बहुत ऊँचे थे तथा जिनके खम्भे रत्न और स्वर्णके बने थे ऐसे जिनमन्दिरोंसे अलंकृत था ॥३३८॥ परस्परकी किरणोंके सम्बन्धसे जो इन्द्रधनुष उत्पन्न कर रहे थे, तथा निरन्तर स्थिर रहनेवाली विजलीके समान जिनकी प्रभा थी ऐसे रत्नोंसे वह नगर सदा प्रकाशमान रहता था ॥३३९॥ उसी नगरके गगनचुम्बी राजमहलमें विद्यावलेसे सम्पन्न दशानन अपने दोनों भाइयोंके साथ सुखसे रहने लगा ॥३४०॥

तदनन्तर आश्चर्यसे भरे जम्बूद्वीपके अधिपति अनावृतयज्ञने एक दिन दशाननसे कहा कि

चतुःसमुद्रपर्यन्ते नागव्यन्तरसंकुले । तिष्ठत्वन्न यथाच्छन्द जम्बूद्वीपतले भवान् ॥३४२॥
 द्वीपस्यास्य समस्तस्य वसिताहमकण्टक । यथेप्सित चरेस्तस्मिन्नुद्धरन् शत्रुसहतिम् ॥३४३॥
 प्रसन्ने मयि ते वत्स स्मृतिमात्रपुरःस्थिते । ईप्सितव्याहतौ शक्तो न शक्रोऽपि कुतोऽपरे ॥३४४॥
 द्वाधिष्ठं जीव काल त्व भ्रातृभ्या सहितः सुखी । वर्द्धन्तां भूतयो दिव्या बन्धुसेव्याः सदा तव ॥३४५॥
 इत्याशीभिः समानन्द सत्याभिस्तान् पुनः पुनः । जगाम स्वालयं यक्षः परिवारसमन्वित ॥३४६॥
 त रत्नश्रवसं श्रुत्वा विद्यालिङ्गितविग्रहम् । सर्वतो रक्षसा सङ्घा प्राप्ता कृतमहोत्सवाः ॥३४७॥
 उन्नत ननृतुः केचिच्चक्रुरास्फोटन तथा । केचित् प्रमोदसपूर्णा सभूता न स्वविग्रहे ॥३४८॥
 उदात्त नदित कैश्चिच्छत्रुपक्षभयकरम् । सुधयेव नभः कैश्चिच्चिम्पद्भिर्हसितं चिरम् ॥३४९॥
 सुमाली माल्यवान् सूर्यरजा ऋक्षरजास्तथा । आगता नितरा प्रीताः समारूढोत्तमान् रथान् ॥३५०॥
 अन्ये च स्वजनाः सर्वे विमानैर्वाजिभिर्गजैः । स्वदेशेभ्यो विनिष्क्रान्तास्त्रासेन परिवर्जिता ॥३५१॥
 अथ रत्नश्रवाः पुत्रस्नेहसपूर्णमानसः । वैजयन्तीभिराकाश शुक्लोकुर्वन्निरन्तरम् ॥३५२॥
 विभूत्या परया युक्तो वन्दित्यन्दैरभिष्टुतः । सप्राप्तो रथमारूढो महाप्रासादसन्निभम् ॥३५३॥
 एकीभूय व्रजन्तोऽस्मी पञ्चसङ्गमपर्वते । दु खेन रजनी नित्युररातिभययोगतः ॥३५४॥
 ततो गुरुन् प्रणामेन समाश्लेषणतः सखीन् । स्निग्धेन चक्षुषा श्रुत्यान् जगुहुः कैकसीसुताः ॥३५५॥

हे महाबुद्धिमन् ! मैं तुम्हारे वीर्यसे बहुत प्रसन्न हूँ ॥३४१॥ अतः जिसके अन्तमे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस प्रकार चार समुद्र हैं तथा जो नागकुमार और व्यन्तर देवोंसे व्याप्त है ऐसे इस जम्बूद्वीपमे इच्छानुसार रहे ॥३४२॥ मैं इस समस्त दीपका अधिपति हूँ मेरा कोई भी प्रतिद्वन्द्वी नहीं है अतः तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम शत्रुसमूहको उखाड़ते हुए इस जम्बूद्वीपमे इच्छानुसार सर्वत्र विचरण करो ॥३४३॥ हे वत्स ! मैं तुम्हपर प्रसन्न हूँ और तेरे स्मरण मात्रसे सदा तेरे सामने खड़ा रहूँगा । मेरे प्रभावसे तेरे मनोरथमें बाधा पहुँचानेके लिए इन्द्र भी समर्थ नहीं हो सकेगा फिर साधारण मनुष्यकी तो बातकी क्या है ? ॥३४४॥ तू अपने दोनों भाइयोंके साथ सुखी रहता हुआ दीर्घ काल तक जीवित रह । तेरी दिव्य विभूतियाँ सदा बढ़ती रहें और बन्धुजन सदा उनका सेवन करते रहें ॥३४५॥ इस प्रकार यथार्थ आशीर्वादसे उन तीनों भाइयोंको आनन्दित कर वह यक्ष परिवारके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥३४६॥

तदनन्तर दशाननको विद्याओंसे आलिङ्गित सुन चारो ओरसे राक्षसोंके समूह महोत्सव करते हुए उसके समीप आये ॥३४७॥ उनमे कोई तो नृत्य करते थे, कोई ताल बजाते थे, कोई हर्षसे इतने फूल गये थे कि अपने शरीरमे ही नहीं समाते थे ॥३४८॥ कितने ही लोग शत्रुपक्षको भयभीत करनेवाला जोरका सिंहनाद करते थे, कोई आकाशको चूनासे लिप्त करते हुए की तरह चिरकाल तक हँसते रहते थे, ॥३४९॥ प्रीतिसे भरे सुमाली, माल्यवान्, सूर्यरज और ऋक्षरज उत्तमोत्तम रथोपर सवार हो उसके समीप आये ॥३५०॥ इनके सिवाय अन्य सभी कुटुम्बीजन, कोई विमानोपर बैठकर, कोई घोड़ोपर सवार होकर, और कोई हाथियोपर आरूढ होकर आये । वे सब भयसे रहित थे ॥३५१॥ अथानन्तर पुत्रके स्नेहसे जिसका मन भर रहा था ऐसा रत्नश्रवा पताकाओंसे आकाशको निरन्तर शुक्ल करता हुआ बड़ी विभूतिके साथ आया । वन्दीजनोके समूह उसकी स्तुति कर रहे थे, और वह किसी बड़े राजमहलके समान सुन्दर रथ पर सवार था ॥३५२-३५३॥ ये सब मिलकर साथ ही साथ आ रहे थे सो मार्गमें पञ्चसङ्गम नामक पर्वतपर उन्होंने शत्रुके भयके कारण बहुत ही दुखसे रात्रि बिताई ॥३५४॥ तदनन्तर कैकसीके पुत्र दशानन आदिने आगे जाकर उन सबकी अगवानी की । उन्होंने गुरुजनोको

१. भ्रमण कुर्याः । २. श्रवज म० । ३. प्रशशसुञ्च रावणम् म० । ४. चन्द्रकान्ति तिरस्कुर्वत् म० ।
 ५. महाप्रसाद-म० ।

शरीरक्षेमपृच्छादिसिद्धिवृत्तान्तसंकथा । न तेषामवर्गीतत्वं प्राप्तावध्या पुनः पुनः ॥३५६॥
 दृष्टुर्विस्मयापन्नाः स्वयंप्रभपुरोत्तमम् । देवलोकप्रतिच्छन्द यातुधानप्लवङ्गमा ॥३५७॥
 सवेपथुकरेणैषा गात्रमस्पृशता चिरम् । पितरौ सप्रणामानामानन्दाच्चाकुलेक्षणौ ॥३५८॥
 नभोमध्ये गते भानौ तेषा स्नानविधिस्ततः । दिव्यामि. कर्तुमारब्धो वनिताभिर्महोत्सवः ॥३५९॥
 मुक्ताजालपरीतेषु स्नानपीठेषु ते स्थिताः । नानारत्नसमृद्धेषु जात्यजाम्बूनदात्मसु ॥३६०॥
 पादपीठेषु चरणौ निहितौ पल्लवच्छवी । उदयाद्रिशिरोवर्तिद्विवाकरसमाकृता ॥३६१॥
 ततो रत्नविनिर्माणैः सौवर्णैः राजतात्मकैः । कुम्भैः पल्लवसंछन्नवक्रैर्हारविराजितैः ॥३६२॥
 चन्द्रादिव्यप्रतिस्पृष्टिं छायावच्छादितात्मभिः । आमोदवासिताशोपदिवक्त्रजलपुरितैः ॥३६३॥
 एकानेकमुखैः प्रान्तभ्रान्तभ्रमरमण्डलैः । गर्जद्भिर्जलपातेन गम्भीरजलदैरिव ॥३६४॥
 गन्धैरुद्वर्तनैः कान्तिविधानकुण्डलैस्तथा । अभिपेकः कृतस्तेषा नूर्यनाटादिनन्दितः ॥३६५॥
 अलंकृतस्ततो देहो दिव्यवस्त्रविभूषणैः । मङ्गलानि प्रयुक्तानि कुलनारीभिरादरात् ॥३६६॥
 ततो देवकुमारामैः स्वजनानन्ददायिभिः । गुरुणां विनयादेतैः कृतं चरणवन्दनम् ॥३६७॥
 अत्याशिपस्ततो दृष्ट्वा तेषां विद्योत्थसपदः । जीवतात्तिचिर कालमिति तान् गुरवोऽब्रुवन् ॥३६८॥

प्रणाम किया, मित्रोका आलिङ्गन किया और भृत्योंकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखा ॥३५५॥ गुरुजनोने भी दशानन आदिसे शरीरकी कुशल-क्षेम पूछी, विद्याएँ किस तरह सिद्ध हुई आदि का वृत्तान्त भी बार-बार पूछा सो ऐसे अवसरपर किसी बातको बार-बार पूछना निन्दनीय नहीं है ॥३५६॥ राक्षस तथा वानरवंशियोने देवलोकके समान उस स्वयंप्रभनगरको बड़े आश्चर्यके साथ देखा ॥३५७॥ जिनके नेत्र आनन्दसे व्याप्त थे ऐसे माता-पिताने प्रणाम करते हुए दशानन आदिके शरीरका कौपते हुए हाथोंसे चिरकाल तक स्पर्श किया ॥३५८॥ जब सूर्य आकाशके मध्यभागमें था तब दिव्य वनिताओंने बड़े उत्सवके साथ उन तीनों कुमारोंकी स्नान विधि प्रारम्भ की ॥३५९॥ जिनके चारों ओर मोतियोंके समूह व्याप्त थे तथा जो नाना प्रकारके रत्नोंसे समृद्ध थे ऐसे उत्कृष्ट स्वर्णनिर्मित स्नानकी चौकियोंपर वे आसीन हुए ॥३६०॥ पल्लवोंके समान लाल-लाल कान्तिके धारक दोनों पैर उन्होंने पादपीठपर रखे थे और उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उदयाचलके शिखरपर वर्तमान सूर्य ही हो ॥३६१॥ तदनन्तर रत्नमयी सुवर्णमयी और रजतमयी उन कलशोंसे उनका अभिपेक शुरू हुआ कि जिनके मुख पल्लवों से आच्छादित थे, जो हारोंसे सुशोभित थे, चन्द्रमा तथा सूर्यके साथ स्पर्द्धा करनेवाली कान्ति से जिनका आत्म-स्वरूप आच्छादित था, जो अपनी सुगन्धिसे दिङ्मण्डलको सुवासित करनेवाले जलसे पूर्ण थे, जिनमें एक तो प्रधान मुख था तथा अन्य छोटे-छोटे अनेक मुख थे, जिनके आस-पास भ्रमरोंके समूह मँडरा रहे थे और जो जलपातके कारण गम्भीर मेघके समान गरज रहे थे ॥३६२-३६४॥ तदनन्तर शरीरकी कान्ति बढ़ानेमें कुशल उवटना आदि लगाकर सुगन्धित जलसे उनका अभिपेक किया गया । उस समय तुरही आदि वादित्रोंके मङ्गलमय शब्दोंसे वहाँका वातावरण आनन्दमय हो रहा था ॥३६५॥ तत्पश्चात् दिव्य वस्त्राभूषणोंसे उनके शरीर अलंकृत किये गये और कुलाङ्गनाओंने बड़े आदरसे अनेक मङ्गलाचार किये ॥३६६॥ तदनन्तर जो देवकुमारोंके समान जान पड़ते थे और आत्मीयजनोंको आनन्द प्रदान कर रहे थे ऐसे उन तीनों कुमारोंने बड़ी विनयसे गुरुजनोंकी चरणवन्दना की ॥३६७॥ तदनन्तर गुरुजनोने देखा कि इन्हे जो विद्याओंसे सम्पदाएँ प्राप्त हुई हैं वे हमारे आशीर्वादसे

सुमाली माल्यवान् सूर्यरजा ऋक्षरजास्तथा । रत्नश्रवाश्च तान् स्नेहाट्टालिलिङ्गः पुनः पुन ॥३६६॥
मम बान्धवलोकेन मृत्युवर्गेण चावृताः । चक्रुरभ्यवहार ते स्वेच्छाकल्पितसपद ॥३७०॥
गुरुषु प्राप्तपूजेषु ततो वस्त्रादिदानत । यथाहं मृत्युवर्गे च सप्राप्तप्रतिमानने ॥३७१॥
विश्रव्या गुरवोऽपृच्छस्तान् प्रीतिविकचेक्षणा । दिवसा नियतो वत्साः सुखेन सुस्थिता इति ॥३७२॥
ततन्ते मस्तके कृत्वा करयुग्म प्रणामिनः । ऊचुर्नः कुशल नित्य प्रसादाद् भवतामिति ॥३७३॥
मालिनः मकथाप्राप्त कथयन् मरण ततः । सुमाली शोकभारेण सद्यो मूर्च्छां समागतः ॥३७४॥
रत्नश्रवःसुतेनाम्यौ तत शीतलपाणिना । सस्पृश्य पुनरानीतो ज्येष्ठेन व्यक्तचेतनाम् ॥३७५॥
आनन्दितश्च तद्वाक्यैरुज्जितैर्हिमशीतलैः । समस्तशत्रुमघातघातबीजाङ्कुरोद्गमैः ॥३७६॥
पुण्डरीकेक्षण पश्यन् सुमाली त ततोऽर्भकम् । शोक क्षणात्समुत्सृज्य पुनरानन्दमागता ॥३७७॥
इति चोवाच तं हृद्यं चोभिविन्तयेतरैः । अहो वत्स तवोदार सत्त्व तोषितदेवतम् ॥३७८॥
अहो घृतिरिय जित्वा स्थिता तव दिनाकरम् । अहो गाम्भीर्यमुत्सार्य स्थितमेतन्नद्रीपतिम् ॥३७९॥
अहो पराक्रमः कान्या सहिनोऽयं जनातिगः । अहो रत्नकुलस्यासि जातस्तौत विगोपकः ॥३८०॥
मन्दरेण यथा जम्बूद्वीपः कृतविभूषणः । नमस्तल गशाङ्गेन यथा तिमकरेण च ॥३८१॥
सुपुत्रेण तथा रत्नकुलमेतद्गणानन । त्वया लोफमहाश्रयकारिचेष्टेन भूषितम् ॥३८२॥
आमस्तोयदवाहाद्या नरास्वकुलपूर्वजाः । भुक्त्वा लङ्कापुरी कृत्वा सुकृतं ये गताः शिवम् ॥३८३॥

भी अधिक है अतः उन्होंने यही कहा कि तुम लोग चिरकाल तक जीवित रहो ॥३६८॥ सुमाली, माल्यवान्, सूर्यरज, ऋक्षरज और रत्नश्रवाने स्नेहवश उनका वार-वार आलिङ्गन किया था ॥३६६॥ तदनन्तर इच्छानुसार जिन्हें सब सम्पदाएँ प्राप्त थीं ऐसे उन सब लोगोंने बन्धुजनों तथा भृत्यवर्गसे आवृत होकर भोजन किया ॥३७०॥ तदनन्तर दशाननने वस्त्र आदि देकर गुरुजनोंकी पूजा की और यथायोग्य भृत्यवर्गका भी सन्मान किया ॥३७१॥ तत्पश्चात् प्रीतिसे जिनके नेत्र फूल रहे थे ऐसे समस्त गुरुजन निश्चिन्ततासे बैठे थे । प्रकरण पाकर उन्होंने कहा कि हे पुत्रो ! इतने दिन तक तुम सब सुखसे रहे ? ॥३७२॥ तव दशानन आदि कुमारोंने हाथ जोड़ शिरसे लगाकर प्रणाम करते हुए कहा कि आप लोगोंके प्रसादसे हम सबकी कुशल है ॥३७३॥ तदनन्तर प्रकरणवश मालीके मरणकी चर्चा करते हुए सुमाली इतने शोकग्रस्त हुए कि उन्हें तत्काल ही मूर्च्छा आ गई ॥३७४॥ तत्पश्चात् रत्नश्रवाके जेष्ठ पुत्र दशाननने अपने शीतल हाथसे स्पर्शकर उन्हें पुन सचेत किया ॥३७५॥ तथा बर्फके समान ठण्डे और समस्त शत्रुसमूहके घातरूपी बीजके अङ्कुरोद्गमके समान शक्तिशाली वचनसे उन्हें आनन्दित किया ॥३७६॥ तव कमलके समान नेत्रोंसे सुशोभित दशाननको देख, सुमाली तत्काल ही सब शोक छोड़कर पुनः आनन्दको प्राप्त हो गये ॥३७७॥ और दशाननसे हृद्यहारी सत्य वचन कहने लगे कि अहो वत्स ! सच-मुच ही तुम्हारा उदार बल देवताओंको सन्तुष्ट करनेवाला है ॥३७८॥ अहो ! तुम्हारी यह कान्ति सूर्यको जीतकर स्थित है और तुम्हारा गाम्भीर्य समुद्रको दूर हटाकर विद्यमान है ॥३७९॥ अहो ! तुम्हारा यह कान्ति सहित पराक्रम सर्वजनातिगामी है अर्थात् सब लोगोंसे बढ़कर है । अहो पुत्र ! तुम राजसवंशके तिलकम्बरूप उत्पन्न हुए हो ॥३८०॥ हे दशानन ! जिस प्रकार मुमेरुपर्वतसे जम्बूद्वीप सुशोभित है और चन्द्रमा तथा सूर्यसे आकाश सुशोभित होता है उसी प्रकार लोगोंको महान् आश्चर्यमें डालनेवाली चेष्टाओंसे युक्त तुम सुपुत्रसे यह राजसवंश सुशोभित हो रहा है ॥३८१-३८२॥ मेघवाहन आदि तुम्हारे कुलके पूर्वपुरुष थे जो लङ्कापुरीका पालन कर

अस्मद्व्यसनविच्छेदपुण्यैर्जातोऽसि साम्प्रतम् । वक्त्रेणैकेन ते तोपात् कथयामि कथ कथाम् ॥३८४॥
 नभश्चरगणैरेभिः प्रत्याशा जीवितं प्रति । मुक्ता सती पुनर्बद्धा त्वय्युत्साहपरायणे ॥३८५॥
 कैलासमन्दरायातैरस्माभिर्वन्दितु जिनम् । प्रणम्यातिशयज्ञानः पृष्टः श्रमणसत्तमः ॥३८६॥
 भविता पुनरस्माक कदा नाथ समाश्रयः । लङ्कायामिति सद्वाक्यमेवमाहानुकम्पकः ॥३८७॥
 लप्स्यते भवत. पुत्राजन्म यः पुरुषोत्तमः । समूतायां वियद्विन्दोः स लङ्कायां प्रवेशकः ॥३८८॥
 भरतस्य स खण्डांछीन् भोच्यते बलविक्रमः । सत्त्वप्रतापविनयश्रीकीर्तिरुचिसंश्रयः ॥३८९॥
 गृहीतां रिपुणा लक्ष्मी मोचयिष्यत्यसावपि । नैतच्चित्र यतस्तस्यां स प्राप्स्यति परां श्रियम् ॥३९०॥
 स त्व महोत्सवो जातः कुलस्य शुभलक्षणः । उपमानविमुक्तेन रूपेण हतलोचन. ॥३९१॥
 इत्युक्तोऽसौ जगादैवमस्त्विति प्रणताननः । शिरस्यञ्जलिमाधाय कृतसिद्धनमस्कृति. ॥३९२॥
 प्रभावात्तस्य बालस्य बन्धुवर्गस्ततः सुखम् । अध्युवास यथास्थानमरातिभयवर्जितः ॥३९३॥

शादूलविक्रीडितम्

एवं पूर्वभवान्जितेन पुरुषाः पुण्येन यान्ति श्रियं

कीर्तिच्छन्नदिगन्तरालभुवना नास्मिन् वयः कारणम् ।

अग्ने. किन्न कणः करोति विपुल भस्म क्षणात् कानन

मत्तानां करिणां भिनत्ति निवह सिंहस्य वा नार्मक. ॥३९४॥

बोध द्याशु कुमुद्वतीषु कुरुते शीतांशुरोचिर्लव.

सन्ताप प्रणुदन् दिवाकरकरैरुत्पादित प्राणिनाम् ।

तथा अन्तमे तपश्चरण कर मोक्ष गये हैं ॥३८३॥ अब हमारे दुःखोको दूर करनेवाले पुण्यसे तू उत्पन्न हुआ है । हे पुत्र ! एक तेरे मुखसे मुझे जो सन्तोष हो रहा है उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ ॥३८४॥ इन विद्याधरोंने तो जीवित रहनेकी आशा छोड़ दी थी अब तुम्हें उम्हाही के उत्पन्न होनेपर फिरसे आशा वॉधी है ॥३८५॥ एक बार हम जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना करनेके लिए कैलास पर्वतपर गये थे । वहाँ अवधिज्ञानके धारी मुनिराजको प्रणामकर हमने पूछा था कि हे नाथ ! लङ्कामे हमारा निवास फिर कब होगा ? इसके उत्तरमें दयालु मुनिराजने कहा था ॥३८६-३८७॥ कि तुम्हारे पुत्रसे वियद्विन्दुकी पुत्रीमे जो उत्तम पुरुष जन्म प्राप्त करेगा वही तुम्हारा लङ्कामें प्रवेश करानेवाला होगा ॥३८८॥ वह पुत्र बल और पराक्रमका धारी तथा सत्त्व, प्रताप, विनय, लक्ष्मी, कीर्ति और कान्तिका अनन्य आश्रय होगा तथा भरतक्षेत्रके तीन खण्डोका पालन करेगा ॥३८९॥ शत्रुके द्वारा अपने आधीन की हुई लक्ष्मीको यही पुत्र उससे मुक्त करावेगा इसमें आश्चर्यकी भी कोई बात नहीं है क्योंकि वह लङ्कामे परम लक्ष्मीको प्राप्त होगा ॥३९०॥ सो कुलके महोत्सवस्वरूप तू उत्पन्न हो गया है, तेरे सब लक्षण शुभ है तथा अनुपमरूपसे तू सबके नेत्रोको हरनेवाला है ॥३९१॥ सुमालीके ऐसा कहनेपर दशाननने लज्जासे अपना मस्तक नीचा कर लिया और 'एवमस्तु' कह हाथ जोड़ शिरसे लगाकर सिद्ध भगवानको नमस्कार किया ॥३९२॥ तदनन्तर उस बालकके प्रभावसे सब बन्धुजन शत्रुके भयसे रहित हो यथास्थान सुखसे रहने लगे ॥३९३॥

तदनन्तर गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! इस प्रकार पूर्वोपार्जित पुण्यकर्मके प्रभावसे मनुष्य, कीर्तिके द्वारा दिग्दिगन्तराल तथा लोकको आच्छादित करते हुए लक्ष्मीको प्राप्त होते हैं । इसमे मनुष्यकी आयु कारण नहीं है । क्या अग्निका एक कण क्षणभरमे विशाल वनको भस्म नहीं कर देता अथवा सिंहका बालक मदनोन्मत्त हाथियोंके भुण्डको विदीर्ण नहीं कर देता ? ॥३९४॥ चन्द्रमाकी किरणोंका एक अंश, सूर्यकी किरणोंसे उत्पादित प्राणियोंके

निद्राविद्रुतिहेतुभिश्च समये जीमूतमालानिभ
ध्वान्त दूरमपाकरोति किरणैरुद्योतमात्रो रविः ॥३६५॥

इत्यार्षे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पञ्चचरिते दशग्रीवामिधानं नाम सप्तमं पर्व ॥७॥



सन्तापको दूर करता हुआ शीघ्र ही कुमुदिनियोंमें उल्लास पैदा कर देता है और सूर्य उदित होते ही निद्राको दूर हटानेवाली अपनी किरणोंसे मेघमालाके समान मलिन अन्धकारको दूर कर देता है ॥३६५॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्यविरचित पञ्चचरितमें दशाननका वर्णन करनेवाला सातवाँ पर्व पूर्ण हुआ ॥७॥

अष्टमं पर्व

अथासोदक्षिणश्रेण्यां भास्करप्रतिमो द्युतौ । सुवीरोऽसुरसर्गाते^१ पुरे मयखगेश्वर० ॥१॥
 दैत्यत्वेन प्रसिद्धस्य^२ समस्ते तस्य भूतले । नाम्ना हेमवती भार्या योपिद्गुणसमन्विता ॥२॥
 सुता मन्दोदरी नाम सर्वावयवसुन्दरी । तन्दूरी विशालार्त्नी लावण्यजलवेणिका ॥३॥
 नवयौवनसपूर्णा दृष्ट्वा तामन्यदा पिता । चिन्ताव्याकुलितः प्राह दयितामिति सादरम् ॥४॥
 आरूढा नवतारुण्य वत्सा मन्दोदरी प्रिये । गुणितेवैतदीया मे चिन्तामानसमाश्रिता ॥५॥
 कन्याना यौवनारम्भे सतापाग्निमुद्भवे । इन्धनत्वं प्रपद्यन्ते पितरौ स्वजनै^३ समम् ॥६॥
 एवमर्थं ददत्यस्या जन्मनोऽनन्तर बुधाः । लोचनाञ्जलिभिस्तोय दुःखाकुलितचेतसः ॥७॥
 अहो भिनत्ति मर्माणि वियोगो देहनिःसृतै^३ । अपत्यैर्जनितो नीतैरागत्या संस्तुतैर्जनै^३ ॥८॥
 तद्ब्रूहि तरुणीं कस्मै ददामैतां प्रिये वयम् । गुणैः कुलेन कान्त्या च क एतस्याः समो भवेत् ॥९॥
 इत्युक्त्वा प्राह त देवी कन्याना देहपालने । जनन्य उपयुज्यन्ते पितरौ दानकर्मणि ॥१०॥
 यत्र ते रुचितं दान मह्य तत्रैव रोचते । भर्तृच्छन्दानुवर्तिन्यो भवन्ति कुलवालिकाः ॥११॥
 इत्युक्तो मन्त्रिभिः सार्धं चकारासौ प्रधारणम् । केनचिन्मन्त्रिणा कश्चिदुद्दिष्टः खेचरस्ततः ॥१२॥
 अन्येनेन्द्र^३ समुद्दिष्टः सर्वविद्याधराधिपः । तस्माद्धि खेचराः सर्वे विभ्यति प्रतिकूलने ॥१३॥

अथानन्तर विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें असुर-सङ्गीत नामका नगर है । वहाँ कान्ति मे सूर्यकी उपमा धारण करनेवाला प्रबल योद्धा मय नामका विद्याधर रहता था । वह पृथिवी-तलमे दैत्य नामसे प्रसिद्ध था । उसकी हेमवती नामकी स्त्री थी जो कि स्त्रियोंके समस्त गुणोंसे सहित थी ॥१-२॥ उसकी मन्दोदरी नामकी पुत्री थी । उसके समस्त अवयव सुन्दर थे, उदर कृश था, नेत्र विशाल थे और वह सौन्दर्य रूपी जलकी धाराके समान जान पड़ती थी ॥३॥ एक दिन नवयौवनसे सम्पूर्ण उस पुत्रीको देखकर पिता चिन्तासे व्याकुल हो अपनी स्त्री मन्दो-दरीसे बड़े आदरके साथ बोला कि हे प्रिये ! पुत्री मन्दोदरी नवयौवनको प्राप्त हो चुकी है इसे देख मेरी इस विषयकी मानसिक चिन्ता कई गुणी बढ़ गई है ॥४-५॥ किसीने ठीक ही कहा है कि सन्तापरूपी अग्निको उत्पन्न करनेवाले कन्याओंके यौवनारम्भमे माता-पिता अन्य परिजनोके साथ ही साथ ईन्धनपनेको प्राप्त होते हैं ॥६॥ इसीलिए तो कन्या जन्मके बाद दुःखसे आकुलित है चित्त जिनका ऐसे विद्वज्जन इसके लिए नेत्र रूपी अञ्जलिके द्वारा जल दिया करते हैं ॥७॥ अहो, जिन्हें अपरिचितजन आकर ले जाते हैं ऐसे अपने शरीरसे समुत्पन्न सन्तान (पुत्री) के साथ जो वियोग होता है वह मर्मको भेदन कर देता है ॥८॥ इसलिए हे प्रिये ! कहो, यह तारुण्यवती पुत्री हम किसके लिए देवे । गुण, कुल और कान्तिसे कौन वर इसके अनुरूप होगा ॥९॥ पतिके ऐसा कहनेपर रानी हेमवतीने कहा कि माताएँ तो कन्याओंके शरीरकी रक्षा करनेमें ही उपयुक्त होती है और उनके दान करनेमें पिता उपयुक्त होते हैं ॥१०॥ जहाँ आपके लिए कन्या देना रुचता हो वहीं मेरे लिए भी रुचेगा क्योंकि कुलाङ्गनाएँ पतिके अभिप्रायके अनुसार ही चलती हैं ॥११॥ रानीके ऐसा कहनेपर राजाने मन्त्रियोंके साथ सलाह की तो किसी मन्त्रीने किसी विद्याधरका उल्लेख किया ॥१२॥ तदनन्तर किसी दूसरे मन्त्रीने कहा कि इसके लिए इन्द्र विद्याधर ठीक होगा क्यों कि वह समस्त विद्याधरोका अधिपति है

ततः स्वयं मयेनोक्त युष्माकं वेद्मि नो मनः । मद्य तु रुचितं ख्यातः सिद्धविद्यो दशाननः ॥१४॥
 भवितासौ महान् कोऽपि जगतोऽद्भुतकारणम् । अन्यथा जायते सिद्धिर्विद्यानामाशु नाल्पके ॥१५॥
 ततोऽनुमेनिरे तस्य तद्वाक्य प्रमुदान्विताः । मारीचप्रमुखाः सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रकोविदाः ॥१६॥
 मन्त्रिणो भ्रातरश्चास्य मारीचाद्या महाबलाः । मारीचोऽस्य ततश्चक्रे मानस त्वरयान्वितम् ॥१७॥
 ग्रहेष्वभिमुखस्थेषु सौम्येषु दिवसे शुभे । क्रूरग्रहेष्वपश्यत्सु लग्ने कुशलतावहे ॥१८॥
 कृत्य कालातिपातेन नेति ज्ञात्वा ततो मयः । पुष्पान्तकविमानेन प्रस्थितः कन्ययान्वित ॥१९॥
 ततो मङ्गलगीतेन प्रमदाना नभस्तलम् । तूर्यनादस्य विच्छेदे^१ शब्दात्मकमिवाभवत् ॥२०॥
 पुष्पान्तकाद् विनिष्क्रम्य भीमारण्ये स्थिता इति । युवभिः कथित तस्य निर्वृत्य प्रथमार्गते ॥२१॥
 तद्देशवेदिभिश्चारैः कथित तद्वन ततः । चलितोऽसावपश्यच्च 'मेघानामिव सचयम् ॥२२॥
 चारः कश्चिदुवाचेति पश्येद्य देव सद्वनम् । स्निग्धध्वान्तचयाकार निविडोत्तुङ्गपादपम् ॥२३॥
 अट्टेर्वलाहकाख्यस्य सन्ध्यावर्तस्य चान्तरे^२ । मन्दारुणमिवारण्य सम्मेटाष्टपादागयोः ॥२४॥
 वनस्य पश्य मध्येऽस्य शङ्खशुभ्रमहागृहम् । नगर शरदम्भोदमहावृन्दसमद्युति ॥२५॥
 सर्मापे च पुरस्यास्य पश्य प्रासादमुन्नतम् । सौधर्ममिव यः स्पृष्टुमीहते शृङ्गकोटिभिः ॥२६॥

और सब विद्याधर उसके विरुद्ध जानेमें भयभीत भी रहेंगे ॥१३॥ तब राजा मयने स्वयं कहा कि मैं आप लोगोंके मनकी बात तो नहीं जानता पर मुझे जिसे समस्त विद्याएँ सिद्ध हुई हैं ऐसा प्रसिद्ध दशानन अच्छा लगता है ॥१४॥ निश्चित ही वह जगत्में कोई अद्भुत कार्य करनेवाला होगा अन्यथा उसे छोटी ही उमरमें शीघ्र ही अनेक विद्याएँ सिद्ध कैसे हो जातीं ॥१५॥ तदनन्तर मन्त्र करनेमें निपुण मारीच आदि समस्त प्रमुख मन्त्रियोने बड़े हर्षके साथ राजा मय की बातका समर्थन किया ॥१६॥ तदनन्तर महाबलवान् मारीच आदि मन्त्रियो और भाइयोने राजा मयके मनको शीघ्रतासे युक्त किया अर्थात् प्रेरणा की कि इस कार्यको शीघ्र ही सन्पन्न कर लेना चाहिए ॥१७॥ तब राजा मयने भी विचार किया कि समय बीत जानेसे कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है ऐसा विचारकर वह किसी शुभ दिन, जब कि सौम्यग्रह सामने स्थित थे, क्रूर ग्रह विमुख थे और लग्न मङ्गलकारी थी, कन्याके साथ पुष्पान्तक विमानमें बैठकर चला । प्रस्थान करते समय तुरहीका मधुर शब्द हो रहा था और स्त्रियों मङ्गल गीत गा रहीं थी । बीच-बीचमें जब तुरहीका शब्द बन्द होता था तो स्त्रियोंके मङ्गल गीतोसे आकाश ऐसा गूँज उठता था मानो शब्दमय ही हो गया हो ॥१८-२०॥ दशानन भीमवनमें है, यह समाचार, पुष्पान्तक विमानसे उतरकर जो जवान आगे गये थे उन्होने लौटकर राजा मयसे कहा । तब राजा मय उस देशके जानकार गुप्तचरोंसे पता चलाकर भीमवनकी ओर चला । वहाँ जाकर उसने काली घटाके समान वह वन देखा ॥२१-२२॥ दशाननके खास स्थानका पता बताते हुए किसी गुप्तचरने कहा कि हे राजन् ! जिस प्रकार सम्मेटाचल और कैलास पर्वतके बीचमें मन्दारुण नामका वन है उसी प्रकार वलाहक और सन्ध्यावर्त नामक पर्वतके बीचमें यह उत्तमवन देखिए । देखिए कि यह वन स्निग्ध अन्धकारकी राशिके समान कितना सुन्दर मालूम होता है और यहाँ कितने ऊँचे तथा सघन वृक्ष लग रहे हैं ॥२३-२४॥ इस वनके मध्यमें शङ्खके समान सफेद बड़े-बड़े घरोंसे सुशोभित जो वह नगर दिखाई दे रहा है वह शरद् ऋतुके बादलोके समूहके समान कितना भला जान पड़ता है ? ॥२५॥ उसी नगरके समीप देखो एक बहुत ऊँचा महल दिखाई दे रहा है । ऐसा महल कि जो अपनी शिखरोके अग्रभागसे मानो सौधर्म स्वर्गको ही छूना

१. मारीचश्च म० । २. विच्छेदशब्दात्मक- म० । ३. प्रथमा गतिः म० । ४. चान्तरम् म० ।

अवतीर्य नभोभागात् समीपे तस्य वेश्मनः । सानीकिनी विशश्राम चकार च यथोचितम् ॥२७॥
 तूर्यादिडम्बरं त्यक्त्वा दैत्यानामधिपस्ततः । आसौः कतिपर्यैर्युक्तो विनीताकल्पशोभितः ॥२८॥
 अभिमानोदयं सुवत्वा सकन्यः प्राप्तविस्मयः । तं प्रासादं समारुह्यप्रतीहारनिवेदितः ॥२९॥
 सप्तमं च तलं प्राप्तः क्रमेण निभृतक्रमः । वनदेवीमिवैच्छिष्ट मूर्तामुत्तमकन्यकाम् ॥३०॥
 अथेन्दुनखया तस्य कृताभ्यागतसत्क्रिया । प्रपद्यन्ते परिभ्रंशं कुलज्ञा नोपचारतः ॥३१॥
 ततः सुखासनासीनः स्थितां कन्योचितासने । अपृच्छत् प्रश्रयादेवं तां मयो विनयान्विताम् ॥३२॥
 वस्त्रे कासि कुतो वासि कस्माद्वा कारणादिह । वससि प्रभयेऽरण्ये कस्य चेदं महागृहम् ॥३३॥
 एकाकिन्या कथं चास्मिन् धृतिरूपद्यते तव । वपुरुत्कृष्टमेतत्ते पीडानां नैव भाजनम् ॥३४॥
 एवं पृष्टा सती बाला स्त्रीणां स्वाभाविकी त्रया । मन्दं वनमृगी मुग्धा जगादेति नतानना ॥३५॥
 पृष्टभक्तेन संसाध्य चन्द्रहासमिमं मम । शैलराजं गतो भ्राता वन्दिदुं जिनपुङ्गवान् ॥३६॥
 दशवक्त्रेण तेनाहं पालनार्थं निरूपिता । आर्यं तिष्ठामि चैत्येऽस्मिन् चन्द्रप्रभविराजिते ॥३७॥
 यदि च स्युर्भवंतोऽपि दृष्टुमेतं समागताः । क्षणमात्रं ततोऽत्रैव स्थानं कुर्वन्तु सज्जनाः ॥३८॥
 यावदेवं समालापो वर्तते मधुरस्तयोः । तेजसां मण्डलं तावद् दृश्यते स्म नभस्तले ॥३९॥
 उक्तं च कन्यया नूनमागतोऽयं दशाननः । सहस्रकिरणं कुर्वन् प्रभया विगतप्रभम् ॥४०॥

चाहता है ॥२६॥ राजा मयकी सेना आकाशसे उतरकर उसी महलके समीप यथायोग्य विश्राम करने लगी ॥२७॥

तदनन्तर दैत्योंका अधिपति राजा मय तुरही आदि वादित्रोंका आडम्बर छोड़कर तथा विनीत मनुष्योंके योग्य वेप-भूपा धारणकर कुछ आप्तजनोंके साथ उस महलके समीप पहुँचा । कन्या मन्दोदरी उसके साथ थी । महलको देखते ही राजा मयका जहाँ अहंकार छूटा वहाँ उसे आश्चर्य भी कम नहीं हुआ । तदनन्तर द्वारपालके द्वारा समाचार भेजकर वह महलके ऊपर चढ़ा ॥२८-२९॥ सावधानीसे पैर रखता हुआ जब वह क्रमसे सातवें खण्डमें पहुँचा तब वहाँ उसने मूर्तिधारिणी वनदेवीके समान उत्तम कन्या देखी ॥३०॥ वह कन्या दशाननकी बहिन चन्द्रनखा थी सो उसने सबका अतिथि-सत्कार किया सो ठीक ही है क्योंकि कुलके जानकार मनुष्य योग्य उपचारसे कभी नहीं चूकते ॥३१॥ तदनन्तर जब मय सुखकारी आसनपर बैठ गया और चन्द्रनखा भी कन्याओंके योग्य आसनपर बैठ चुकी तब विनय दिखाती हुई उस कन्यासे मयने बड़ी नम्रतासे पूछा ॥३२॥ कि हे पुत्रि ! तू कौन है ? और किस कारणसे इस भयावह वनमें रहती है तथा यह बड़ा भारी महल किसका है ? ॥३३॥ इस महलमें अकेली रहते हुए तुझे कैसे धैर्य उत्पन्न होता है । तेरा यह उत्कृष्ट शरीर पीडाका पात्र तो किसी तरह नहीं हो सकता ॥३४॥ स्त्रियोंके लज्जा स्वभावसे ही होती है इसलिए मयके इस प्रकार पूछनेपर उस सती कन्याका मुख लज्जाने नत हो गया । साथ ही वनकी हरिणीके समान भोली थी ही अतः धीरे-धीरे इस प्रकार बोली कि मेरा भाई दशानन पष्ठोपवास अर्थात् तैलाके द्वारा इस चन्द्रहास खड्गको सिद्धकर जिनेन्द्र भगवान्की वन्दना करनेके लिए सुमेरु पर्वतपर गया है । दशानन मुझे इस खड्गकी रक्षा करनेके लिए कह गया है सो हे आर्य ! मैं चन्द्रप्रभ भगवान्से सुशोभित इस चैत्यालयमें स्थित हूँ । यदि आपलोग दशाननको देखनेके लिए आये हैं तो क्षण मात्र यहींपर विश्राम कीजिए ॥३५-३८॥

जब तक इन दोनोंमें इस प्रकारका मधुर आलाप चल रहा था तब तक आकाशतलमें तेजका मण्डल दिखाई देने लगा ॥३९॥ उसी समय कन्याने कहा कि जान पड़ता है अपनी

१. समारुह्य म० । २. -भ्यागम म० । ३. प्रपद्यान्तपरिभ्रंशं कुलजातोपचारतः म० । ४. स चासनासीनः म० । ५. -मेवं म० । ६. दृशते म० ।

विद्युद्गण्डेन संयुक्तं मेधानामिव तं चयम् । अवलोक्य समासन्नमुत्तस्थौ सन्नमान्मयः ॥४१॥
 कृत्वा यथोचिताचारमासनेषु पुनः स्थिताः^१ । मण्डलाग्रप्रभाजालश्यामलीकृतचित्रहाः^२ ॥४२॥
 मारीचो वज्रमध्यश्च वज्रनेत्रो नभस्तद्वित् । उग्रनक्रो मरुद्वक्रो मेधावी सारणः शुक्रः ॥४३॥
 एवमाद्या गतास्तोप पर दृष्ट्वा दशाननम् । इत्युत्तुर्मङ्गल वाक्यं दैत्यनाथस्य मन्त्रिण ॥४४॥
 अस्मभ्यं तव दैत्येश^३ धिपणातिगरीयसी । नराणामुत्तमो येन मनस्येप निवेशित ॥४५॥
 इति^४ चाहुर्दशग्रीवमहो ते रूपमुज्ज्वलम् । अहो प्रश्रयसभारो वीर्यं चातिशयान्वितम् ॥४६॥
 दक्षिणस्यामय श्रेण्यामसुरप्रथिते पुरे । दैत्यानामधिपो नाम्ना मयो भुवनविश्रुत ॥४७॥
 गुणैरेप समाकृष्टः कुमार तव निर्मलैः । आयातः कं न कुर्वन्ति सज्जना दर्शनोत्सुकम् ॥४८॥
 स्वागतादिकमित्याह ततो रत्नश्रवःसुत । सता हि कुलविधेयं यन्मनोहरभाषणम् ॥४९॥
 साधुना दैत्यनाथेन प्रेमदर्शनकारिणा । उचितेन नियोगेन जनोऽयमनुगृह्यताम् ॥५०॥
^५वचः सोऽयं ततः प्राह तात युक्तमिदं तव । प्रतिक्लृप्तसमाचारा न भवन्त्येव साधवः ॥५१॥
 दृष्टोऽसौ सचिवैस्तस्य कौतुकाक्रान्तमानसैः । कृतानन्दश्च सद्वाक्यैः पुनस्त्वैः समाकुलैः ॥५२॥
 ततो गर्भगृहं रम्यं प्रविष्टोऽयं सुभावनः । चकार महतीं पूजां जिनेन्द्राणां विशेषतः ॥५३॥
 स्तवाश्च विविधानुक्त्वा रोमहर्षणकारिणः । मस्तकेऽङ्गलिमास्थाय चूडामणिविभूषिते ॥५४॥

प्रभासे सूर्यको निष्प्रभ करता हुआ दशानन आ गया है ॥४०॥ विजलीके सहित मेघराशिके समान उस दशाननको निकटवर्ती देख मय हड़बड़ाकर आसनसे उठ खड़ा हुआ ॥४१॥ यथा योग्य आचार प्रदर्शित करनेके वाद सव पुनः आसनोपर आरूढ़ हुए । तलवारकी कान्तिसे जिनके शरीर श्यामल हो रहे थे ऐसे मारीच, वज्रमध्य, वज्रनेत्र, नभस्तद्वित्, उग्रनक्र, मरुद्वक्र, मेधावी, सारस और शुक्र आदि मयके मन्त्री लोग दशाननको देखकर परम सन्तोषको प्राप्त हुए और निम्नलिखित मङ्गल वचन मयसे कहने लगे कि हे दैत्यराज ! आपकी बुद्धि हम सबसे अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि आपने ही इस पुरुषोत्तमको हृदयमे स्थान दिया था । अर्थात् हम लोगोंका इसकी ओर ध्यान नहीं गया जब कि आपने इसका अपने मनमें अच्छी तरह विचार रक्खा ॥४२-४५॥ मयसे इतना कहकर उन मन्त्रियोंने दशाननसे कहा कि अहो तुम्हारा उज्ज्वलरूप आश्चर्यकारी है, तुम्हारा विनयका भार अद्भुत है और तुम्हारा पराक्रम भी अतिशयसे सहित है ॥४६॥ यह दैत्योका राजा दक्षिणश्रेणीके असुरसंगीत नामा नगरका रहनेवाला है तथा संसारमे मय नामसे प्रसिद्ध है । यह आपके गुणोसे आकर्षित होकर यहाँ आया है सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुष किसे दर्शनके लिए उत्कण्ठित नहीं करते ? ॥४७-४८॥ तव रत्नश्रवाके पुत्र दशाननने कहा कि आपका स्वागत है । आचार्य कहते हैं कि जो मधुर भाषण है वह सत्पुरुषोकी कुल विद्या है ॥४९॥ दैत्योके अधिपति उत्तम पुरुष हैं जिन्होंने कि हमें प्रेम पूर्वक दर्शन दिये । मैं चाहता हूँ कि ये उचित आदेश देकर इस जनको अनुगृहीत करें ॥५०॥ तदनन्तर मयने कहा कि हे तात ! तुम्हें यह कहना उचित है क्योंकि जो उत्तम पुरुष है वे विरुद्ध आचरण कभी नहीं करते ॥५१॥ जिनका चित्त कौतुकसे व्याप्त था ऐसे मयके मन्त्रियोंने भी दशाननके दर्शन किये और आकुलतासे भरे तथा बार-बार कहे हुए उत्तम वचनांसे उसे आनन्दित किया ॥५२॥

तदनन्तर अच्छी भावनासे युक्त दशाननने चन्द्रप्रभजिनालयके महामनोहर गर्भगृहमें प्रवेश किया । वहाँ उसने प्रधानरूपसे जिनेन्द्र भगवान्की बड़ी भारी पूजा की ॥५३॥ रोमाञ्च उत्पन्न करनेवाले अनेक प्रकारके स्तवन पढ़े, हाथ जोड़कर चूडामणिसे सुशोभित मस्तकपर

१. स्थितः म० । २. विग्रहः म० । ३. दैत्यस्य म० । ४. चाह म० । ५. इदं मयस्ततः ल० । इदं मयस्ततः म० । ६. स्वभावतः म० ।

स्पृशँल्ललाटपट्टेन जानुभ्यां च महीतलम् । पावनौ स जिनेन्द्राणां ननाम् चरणौ चिरम् ॥५५॥
 ततो गेहाजिनेन्द्राणां निष्क्रान्तः परमोदयः । सहितो दैत्यनाथेन निविष्टः सुखमासने ॥५६॥
 विजयार्धगिरिस्थानां पृच्छन् वार्तां खगामिनाम् । चक्षुषो गोचरीभावं निन्द्ये मन्दोदरीमसौ ॥५७॥
 चारुलक्षणसपूर्णां सौभाग्यमणिभूमिकाम् । तनुस्निग्धनखोत्तुङ्गपृष्ठपादसरोरुहाम् ॥५८॥
 रग्मास्तम्भसमानाभ्यां तूणाभ्यां पुष्पधन्वनः । लावण्याम्भ.प्रवाहाभ्यामूर्भ्यामतिराजिताम् ॥५९॥
 युक्तविस्तारमुत्तुङ्ग मन्मथास्थानमण्डपम् । नितम्बं दधतीमग्रकुक्कुन्दरैमनोहरम् ॥६०॥
 वज्रमध्यामधोवक्रां हेमकुम्भनिभस्तनीम् । शिरीषसुमनोमालाँमृदुवाहुलतायुगाम् ॥६१॥
 कम्बुरेखानतग्रीवां पूर्णचन्द्रसमाननाम् । नेत्रकान्तिनदीसेतुवन्धसन्निभनासिकाम् ॥६२॥
 रक्तदन्तच्छदच्छायाच्छुरिताच्छकपोलकाम् । वीणाभ्रमरसौन्मादपरपुष्टसमस्वनाम् ॥६३॥
 इन्दीवरारविन्दाना कुमुदाना च संहतीः । विमुञ्चन्तीमिवाशासु दृष्ट्या दृत्या मनोभुवः ॥६४॥
 अष्टमीशर्वरीनाथसमानालिकपट्टिकाम् । संगतश्रवणां स्निग्धनीलसूक्ष्मशिरोरुहाम् ॥६५॥
 गोभयास्यांहिहस्तानां जङ्गमामिव पद्मिनीम् । जयन्तीं करिणीं हंसीं सिंहीं च गतिविभ्रमैः ॥६६॥
 विद्यालिङ्गनजामीप्यां धारयन्तीं दशानने । पद्मालय परित्यज लक्ष्मीमिव समागताम् ॥६७॥

लगाये, और ललाटतट तथा घुटनोंसे पृथ्वीतलका स्पर्शकर जिनेन्द्र भगवान्के पवित्र चरणोंको
 देर तक नमस्कार किया ॥५४-५५॥ तदनन्तर परम अभ्युदयको धारण करनेवाला दशानन जिन-
 मन्दिरसे बाहर निकलकर दैत्यराज मयके साथ आसनपर सुखसे बैठा ॥५६॥ वार्तालापके
 प्रकरणमें जब वह विजयार्ध पर्वतपर रहनेवाले विद्याधरोका समाचार पूछ रहा था तब मन्दो-
 दरी उसके दृष्टिगोचर हुई ॥५७॥ मन्दोदरी सुन्दर लक्षणोंसे पूर्ण थी, सौभाग्यरूपी मणियोंकी
 मानो भूमि थी, उसके चरणकमलोंका पृष्ठ भाग छोटे किन्तु स्निग्ध नखोंसे ऊपरको उठा हुआ
 जान पड़ता था ॥५८॥ वह जिन ऊरुओंसे सुशोभित थी वे केलेके स्तम्भके समान थे, कामदेवके
 तरकसके समान जान पड़ते थे अथवा सौन्दर्यरूपी जलके प्रवाहके समान मालूम होते थे ॥५९॥
 वह जिस नितम्बको धारण कर रही थी वह योग्य विस्तारसे सहित था, ऊँचा उठा था, कामदेव
 के सभामण्डपके समान जान पड़ता था और कुछ ऊँचे उठे हुए कूल्होंसे मनोहर था ॥६०॥
 उसकी कमर वज्रके समान मजबूत अथवा हीराके समान देदीप्यमान थी, लज्जाके कारण
 उसका मुख नीचेकी ओर था, स्वर्णकलशके समान उसके स्तन थे, और शिरीषके फूलोंकी मालाके
 समान कोमल उसकी दोनों भुजाएँ थीं ॥६१॥ उसकी गरदन शङ्ख जैसी रेखाओंसे सुशोभित
 तथा कुछ नीचेकी ओर झुकी थी, मुख पूर्णचन्द्रमाके समान था और नाक तो ऐसी जान पड़ती
 थी मानो नेत्रोंकी कान्तिरूपी नदीके बीचमें पुल ही बाँध दिया गया हो ॥६२॥ उसके स्वच्छ
 कपोल आँठोंकी लाल-लाल कान्तिसे व्याप्त थे तथा उसकी आवाज वीणा भ्रमर और उन्मत्त
 कौयलकी आवाजके समान थी ॥६३॥ उसकी दृष्टि कामदेवकी दृष्टीके समान थी और उससे
 वह दिशाओंमें नीलकमल, लालकमल तथा सफेद कमलोंका समूह ही मानो विखेरती थी ॥६४॥
 उसका ललाट अष्टमीके चन्द्रमाके समान था, कान सुन्दर थे, तथा चिकने काले और वारीक
 बाल थे ॥६५॥ वह मुख तथा चरणोंकी शोभासे चलती फिरती कमलिनीको, हाथोंकी शोभासे
 हस्तिनीको तथा गति और विभ्रमके द्वारा क्रमशः हंसी और सिंहनीको जीत रही थी ॥६६॥
 विद्याओंने दशाननका आलिङ्गन प्राप्त कर लिया और मैं ऐसे ही रह गई इस प्रकार ईर्ष्याको
 धारण करती हुई लक्ष्मी ही मानो कमलरूपी घरको छोड़कर मन्दोदरीके वहाने आ गई थी ॥६७॥

१. सहितौ म० । २. मान ख० । ३. अदृश्यकटीपार्श्वसुन्दरम् इति ख० पुस्तके टिप्पणम् । ४. माला
 म० । ५. जङ्गानामिव म० ।

अङ्गनाविपया सृष्टिं मपूर्वामिव कर्मणा । आहृत्य जगतोऽशेष लावण्यमिव निर्मिताम् ॥६८॥
 दिवाकरकरस्पर्शस्वर्भानुग्रहभीतितः । तारापतिं परित्यज्य क्षितिं कान्तिमिवागताम् ॥६९॥
 सीमन्तमणिभाजालरचितास्यावगुण्ठनाम् । हारेण वक्त्रलावण्यसेतुनेव विभूषिताम् ॥७०॥
 कर्णयोर्वालिकाचौकौन्मुक्ताफलसमुत्थितात् । सितस्य सिन्दुवारस्य मञ्जरीमिव विभ्रतीम् ॥७१॥
 कन्दर्पदर्पमक्षोभ सहते जघन न यत् । इतीव वेष्टित कान्त्या मणिचक्रकान्तया ॥७२॥
 मनोज्ञामपि तां दृष्ट्वा दुःखितोऽभूत् स चिन्तया । नीयन्ते विषयै प्रायः सत्त्ववन्तोऽपि वश्यताम् ॥७३॥
 तस्यां माधुर्ययुक्तायां दृष्टिस्तस्य गता सती । अभवन्मधुमत्तेव प्रत्यानीतापि घूर्णिता ॥७४॥
 अचिन्तयत्तदा नाम स्यादिय वनितोत्तमा । ह्री श्रीलक्ष्मीर्धृति कीर्तिं प्राप्तमूर्तिं सरस्वती ॥७५॥
 किमुद्वेयसुतानूढा माया वा केनचित्कृता । अहो सृष्टिरिय मूर्ध्नि स्थिता निखिलयोपिताम् ॥७६॥
 प्राप्नुयाद् यदि मामैतां कन्यामिन्द्रियहारिणीम् । कृतार्थं नस्ततो जन्म जायते तृणमन्यथा ॥७७॥
 चिन्तयन्तमिमं चैव मयोऽभिप्रायकोविदः । उपनीय सुतामाह प्रसुरस्या भवानिति ॥७८॥
 तेन वाक्येन सितोऽसावमृतेनेव तत्त्वणात् । तोपस्येवाङ्कुरान् जातान् दग्धे रोमाञ्चकण्टकान् ॥७९॥
 ततोऽनयोः क्षणोद्गतसर्ववस्तुलमागमम् । स्वजनानन्दित वृत्त पाणिग्रहणमङ्गलम् ॥८०॥
 ममं तथा ततो यातः स्वयंप्रभपुर कृती । मन्यमानः श्रिय प्राप्तां समस्तभुवनश्रिताम् ॥८१॥

कर्मरूपी विधाताने संसारके समस्त सौन्दर्यको इकट्ठाकर उसके वहाने स्त्रीविषयक अपूर्व सृष्टि ही मानो रची थी ॥६८॥ वह सूर्यकी किरणोंका स्पर्श तथा राहुग्रहके आक्रमणके भयसे चन्द्रमाको छोड़कर पृथ्वीपर आई हुई कान्तिके समान जान पड़ती थी ॥६९॥ उसने अपने सीमन्त (मांग) में जो मणि पहिन रक्खा था उसकी कान्तिका समूह उसके मुखपर घूँघटका काम देता था । वह जिस हारसे सुशोभित थी वह मुखके सौन्दर्यके प्रवाहके समान जान पड़ता था ॥७०॥ उसने अपने कानोंमें मोतीजड़ित वालियाँ पहिन रक्खी थीं सो उनकी प्रभासे ऐसी जान पड़ती थी मानो सफेद सिन्दुवार (निर्गुण्डा) की मञ्जरी ही धारण कर रही हो ॥७१॥ चूँकि जघनस्थल कामके दर्पजन्य क्षोभको सहन नहीं करता था इसलिए ही मानो उसे मणिसमूहसे सुशोभित कटिसूत्रसे वेष्टित कर रखा था ॥७२॥ वह मन्दोदरी अत्यन्त सुन्दर थी फिर भी दशानन उसे देख चिन्तासे दुःखी हो गया सो ठीक ही है क्योंकि धैर्यवान् मनुष्य भी प्राय विषयोके आधीन हो जाते हैं ॥७३॥ मन्दोदरी माधुर्यसे युक्त थी इसलिए उसपर पड़ी दशानन की दृष्टि स्वयं भी मानो मधुसे मत्त हो गई थी, यही कारण था कि वह उसपरसे हटा लेनेपर भी नशामे मृमती थी ॥७४॥ दशानन विचारने लगा कि यह उत्तम स्त्री कौन हो सकती है ? क्या ह्री, श्री, लक्ष्मी, धृति, कीर्ति अथवा सरस्वती है ? ॥७५॥ यह विवाहित है या अविवाहित ? अथवा किसीके द्वारा की हुई माया है ? अहो, यह तो समस्त स्त्रियोंकी शिरोधार्य सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है ॥७६॥ यदि मैं इन्द्रियोको हरनेवाली इस कन्याको प्राप्त कर सकूँ तो मेरा जन्म कृतकृत्य हो जाय अन्यथा तृणके समान तुच्छ है ही ॥७७॥ इस प्रकार विचार करते हुए दशाननसे अभिप्रायके जाननेवाले मयने पुत्री मन्दोदरीको पास ले जाकर कहा कि इसके स्वामी आप है ॥७८॥ मयके इस वचनसे दशाननको इतना आनन्द हुआ मानो तत्क्षण अमृतसे ही सींचा गया हो । उसके सारे शरीरमें रोमाञ्च उठ आये मानो सन्तोपके अङ्कुर ही उत्पन्न हुए हो ॥७९॥

तदनन्तर जहाँ क्षणभरमें ही समस्त वस्तुओंका समागम हो गया था और कुटुम्बीजन जहाँ आनन्दसे फूल रहे थे ऐसा इन दोनोंका पाणिग्रहण-मङ्गल सम्पन्न हुआ ॥८०॥ तदनन्तर दशानन कृतकृत्य होता हुआ मन्दोदरीके साथ स्वयंप्रभनगर गया । वह मन्दोदरीको पाकर ऐसा

१. -मसर्वा म० । २. जगताशेष म० । ३. लोका म० । ४. समुत्थिताम् म० । ५. मणिचक्राङ्ककान्तया ल० । ६. भुवनश्रिताम् म० ।

मयोऽपि तनयाचिन्ता^१ शल्योद्गारान्ससंमद^२ । तद्वियोगात् सशोकरश्च स्थितः स्वोचितधामनि ॥८२॥
 प्रापद्देवीसहस्रस्य प्राधान्यं चारुविभ्रमा । क्रमान्मन्दोदरी भर्तुर्गुणैराकृष्टमानसा ॥८३॥
 अभिप्रेतेषु देगेषु स रेमे सहितस्तथा । पुरन्दर इवेन्द्राण्या मर्देन्द्रियमनोज्ञया ॥८४॥
 प्रभात्र वेदितुं वाञ्छन् विद्यायामपि भूरिशः । व्यापारानित्यसां चक्रे समेतः परया रुचा ॥८५॥
 गृह्णो भवत्यनेकश्च सर्वस्त्रीकृतसंगमः । वितनोन्यर्कवत्तापं ज्योत्स्नां मुञ्चति चन्द्रवत् ॥८६॥
 वह्निवन्मुञ्चति ज्वालां वर्षन्ननुधरो यथा । वायुवच्चलयत्यद्गान् कुर्वते सुरनायताम् ॥८७॥
 आपगानायतां याति पर्वतत्वं प्रपद्यते । मत्तवारणतामेति भवत्यश्वो महाजवः ॥८८॥
 क्षणादारात् क्षणाद्दूरे क्षणाद् दृश्य क्षणाच्च नो । क्षणान्महान् क्षणात्सूक्ष्मः क्षणाद्भीमो न च क्षणात् ॥८९॥
 एव च रममाणोऽसां नाम्ना मेघरवं गिरिम् । प्रापत्तत्र च सद्गार्पामपश्यद् विमलाम्भसम्^३ ॥९०॥
 कुमुदं लपलैः पद्मैः स्वच्छैरन्यैश्च वारिलैः । पर्यन्तसचरत्क्रौञ्चहसचक्राहसारसाम् ॥९१॥
 मृदुशोपपटच्छन्नतटा सोपानमण्डिताम् । नभसेव त्रिलीनेन पूरिता सत्रितुः करैः ॥९२॥
 अर्जुनादिमहोत्तुङ्गपादपव्यासरोधसम्^३ । प्रस्फुरन्ध्वफरीचक्रसमुच्छ्रलितसीकराम् ॥९३॥
 भ्रूक्षेपानिव कुर्वाणां तरङ्गै रतिभङ्गुरैः । जल्पन्तीमिव नादेन पक्षिणां श्रोत्रहारिणाम् ॥९४॥

भाव रहा था मानो समस्त संसारकी लक्ष्मी ही मेरे हाथ लग गई है ॥८१॥ पुरीकी चिन्ता रूपी शल्यके निकल जानेसे जिसे हर्ष हो रहा था तथा साथ ही उसके वियोगसे जिसे शोक हो रहा था ऐसा राजा मय भी अपने योग्य स्थानमे जाकर रहने लगा ॥८२॥ जिसके हाव-भाव सुन्दर थे तथा जिसने अपने गुणोंसे पतिका मन आकृष्ट कर लिया था ऐसी मन्दोदरीने क्रमसे हजारों देवियोंमे प्रधानता प्राप्त कर ली ॥८३॥ समस्त इन्द्रियोको प्रिय लगने वाली उस रानी मन्दोदरीके साथ दशानन, इच्छित स्थानोंमे इन्द्राणीके साथ इन्द्रके समान क्रीड़ा करने लगा ॥८४॥ उच्छ्रित कान्तिसे सहित दशानन अपनी विद्याओंका प्रभाव जाननेके लिए निम्नाङ्कित बहुत सारे कार्य करता था ॥८५॥ वह एक होकर भी अनेक रूप धरकर समस्त स्त्रियोंके साथ समागम करता था । कभी सूर्यके समान सन्ताप उत्पन्न करता था तो कभी चन्द्रमाके समान चँदनी छोड़ने लगता था ॥८६॥ कभी अग्निके समान ज्वालाएँ छोड़ता था तो कभी मेघके समान वर्षा करने लगता था । कभी वायुके समान बड़े-बड़े पहाड़ोंको चला देता था तो कभी इन्द्र जैसा प्रभाव जमाता था ॥८७॥ कभी समुद्र बन जाता था, कभी पर्वत हो जाता था, कभी मन्दोन्मत्त हाथी बन जाता था और कभी महावेगशाली घोड़ा हो जाता था ॥८८॥ वह क्षणभरमें पास आ जाता था, क्षणभरमे दूर पहुँच जाता था, क्षणभरमे दृश्य हो जाता था, क्षण भरमे अदृश्य हो जाता था, क्षण भरमे सहान् हो जाता था, क्षण भरमे सूक्ष्म हो जाता था, क्षण भरमें भयङ्कर दिखाई देने लगता था और क्षण भरमे भयङ्कर नहीं रहता था ॥८९॥ इस प्रकार रमण करता हुआ वह एक वार मेघरव नामक पर्वतपर गया और वहाँ स्वच्छ जल से भरी वापिकाके पास पहुँचा ॥९०॥ उस वापिकामे कुमुद, नीलकमल, लालकमल, सफेद कमल तथा अन्यान्य प्रकारके कमल फूल रहे थे और उसके किनारेपर क्रौञ्च, हंस, चकवा तथा सारस आदि पक्षी घूम रहे थे ॥९१॥ उसके तट हरी-हरी कोमल घास-रूपी वस्त्रसे आच्छादित थे, सीढ़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं और उसका जल तो ऐसा जान पड़ता था, मानो सूर्यको किरणोंसे पिघल कर आकाश ही उसमे भर गया हो ॥९२॥ अर्जुन (क्रोहा) आदि बड़े-बड़े ऊँचे वृक्षोंसे उसका तट व्याप्त था । जब कभी उसमें मछलियोंके समूह ऊपरको उछलते थे तब उनसे जलके छींटे ऊपर उड़ने लगते थे ॥९३॥ अत्यन्त भङ्गुर अर्थान् जल्दी-जल्दी उत्पन्न होने और मिटनेवाली तरङ्गोंसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो भौँहें

तत्र क्रीडाप्रसक्तानां दधतीनां परां श्रियम् । पट् सहस्राणि कन्यानामपश्यत् केकसीसुतः ॥६५॥
 काश्चिच्छ्रीकरजालेन रेमिरे दूरगामिना । पर्यटन्ति स्म सत्कन्या दूर सख्या कृतागसः ॥६६॥
 प्रदर्श्य रदन काचित्पद्मपण्डे सशैवले । कुर्वन्ती पङ्कजाशङ्का सखीना सुचिर स्थिता ॥६७॥
 मृदङ्गनिस्वन काचिच्चक्रे करतलाहृतम् । कुर्वाणा सलिल मन्द गायन्ती पट्पटै समम् ॥६८॥
 ततस्ता युगपद् दृष्ट्वा कन्या रत्नश्रव.सुतम् । क्षण त्यक्तजलक्रीडा बभूवुः स्तम्भिता इव ॥६९॥
 मध्यं तासां दशग्रीवो गतो रमणकाङ्क्षया । रन्तुमेतेन म्नाक ता व्यापारिण्योऽभवन् मुदा ॥१००॥
 आहताश्च सम सर्वा विशिखै पुष्पधन्वनः । दृष्टिरासामभूदस्मिन् बद्धेवानन्यचारिणी ॥१०१॥
 मिश्रे कामरसे तासां त्रयया पूर्वसगमात् । मनो दोलामिवारूढ बभूवात्यन्तमाकुलम् ॥१०२॥
 सुरसुन्दरतो जाता नाम्ना पद्मवती शुभा । सर्वश्रीयोपिति स्फीतनीलोत्पलदलेक्षणा ॥१०३॥
 कन्याऽशोकलता नाम बुधस्य दुहिता वरा । मनोवेगा समुत्पन्ना नवाशोकलतासमा ॥१०४॥
 संध्यायां कनकाजाता नाम्ना विद्युत्प्रभा परा । विद्युत् प्रभया लज्जां या नयेच्चारुदर्शना ॥१०५॥
 महाकुलसमुद्भूता ज्येष्ठास्तासामिमा. श्रिया । विभूत्या च त्रिलोकस्य मूर्ता सुन्दरता इव ॥१०६॥
 आकल्पक च सप्राप्तास्तं ययुस्ताः सहेतराः । सख्येतापत्रपा तावद् दु.सहाः स्मरवेदना ॥१०७॥
 गान्धर्वविधिना सर्वा निराशङ्केन तेन ता । परिणीताः शयाङ्केन ताराणामिव सहति ॥१०८॥

ही चला रही हो तथा पक्षियोंके मधुर शब्दसे ऐसी मालूम होती थी मानो वार्तालाप ही कर रही हो ॥६४॥ उस वापिकापर परम शोभाको धारण करनेवाली छह हजार कन्याएँ क्रीडामे लीन थीं सो दशाननने उन सबको देखा ॥६५॥ उनमेंसे कुछ कन्याएँ तो दूर तक उड़नेवाले जलके फव्वारेसे क्रीड़ा कर रही थीं और कुछ अपराध करनेवाली सखियोंसे दूर हटकर अकेली-अकेली ही घूम रही थीं ॥६६॥ कोई एक कन्या शेवालसे सहित कमलोके समूहमे बैठकर दाँत दिखा रही थी और उसकी सखियोंके लिए कमलकी आशङ्का उत्पन्न कर रही थीं ॥६७॥ कोई एक कन्या पानीको हथेलीपर रख दूसरे हाथकी हथेलीसे उसे पीट रही थी और उससे मृदङ्ग जैसा शब्द निकल रहा था । इसके सिवाय कोई एक कन्या भ्रमरोके समान गाना गा रही थी । तदनन्तर वे सबकी सब कन्याएँ एक साथ दशाननको देखकर जलक्रीड़ा भूल गईं और आश्चर्यसे चकित रह गईं ॥६८-६९॥ दशानन क्रीड़ा करनेकी इच्छासे उनके बीचमे चला गया तथा वे कन्याएँ भी उसके साथ क्रीड़ा करनेके लिए बड़े हर्षसे तैयार हो गईं ॥१००॥ क्रीड़ा करते-करते ही वे सब कन्याएँ एक साथ कामके वाणोसे आहत (घायल) हो गईं और दशाननपर उनकी दृष्टि ऐसी वैधी कि वह फिर अन्यत्र संचार नहीं कर सकी ॥१०१॥ उस अपूर्व समागमके कारण उन कन्याओंका कामरूपी रस लज्जासे मिश्रित हो रहा था अतः उनका मन दोलापर आरूढ हुए के समान अत्यन्त आकुल हो रहा था ॥१०२॥ अब उन कन्याओंमें जो मुख्य हैं उनके नाम सुनो । राजा सुरसुन्दरसे सर्वश्री नामकी स्त्रीमे उत्पन्न हुई पद्मवती नामकी शुभ कन्या थी । उसके नेत्र किसी बड़े नीलकमलकी कलिकाके समान थे ॥१०३॥ राजा बुधकी मनोवेगा रानीसे उत्पन्न अशोकलता नामकी कन्या थी जो नूतन अशोकलताके समान थी ॥१०४॥ राजा कनकसे संख्या नामक रानीसे उत्पन्न हुई विद्युत्प्रभा नामकी श्रेष्ठ कन्या थी जो इतनी सुन्दरी थी कि अपनी प्रभासे विजलीको भी लज्जा प्राप्त करा रही थी ॥१०५॥ ये कन्याएँ महाकुलमे उत्पन्न हुई थीं और शोभासे उन सबमे श्रेष्ठ थीं । विभूतिसे तो ऐसी जान पड़ती थीं मानो तीनों लोककी सुन्दरता ही रूप धरकर इकट्ठी हुई हो ॥१०६॥ उक्त तीनों कन्याएँ अन्य समस्त कन्याओंके साथ दशाननके समीप आईं सो ठीक ही है क्योंकि लज्जा तभी तक सही जाती है जब तक कि कामकी वेदना असह्य न हो उठे ॥१०७॥ तदनन्तर किसी प्रकारकी शङ्कासे रहित

दशग्रीवेण सार्धं तां पुनः क्रीडां प्रचक्रिरे । अन्योन्याहयुतां प्राप्य प्रथमोपगमाकुला ॥१०६॥
 सप्रत्येव हि सा क्रीडा क्रियते तेन या समम् । शशाङ्गेन विमुक्तानां ताराणां कामिरूपता ॥११०॥
 ततः कञ्चुकिभिस्तासामाशु गत्वा निवेदितम् । जनकैभ्य इदं वृत्तं रत्नश्रवससंभवम् ॥१११॥
 ततस्तैः प्रहिताः क्रूराः पुरुषास्तद्विनाशने । सदृष्टोष्टपुटा बद्धभ्रुकुटीकोटिसकटाः ॥११२॥
 विविधानि विमुञ्चन्तस्ते शस्त्राणि समं ततः । भ्रूक्षेपमात्रकेणैव कैकसेयेन निर्जिताः ॥११३॥
 भयत्रेपितसर्वाङ्गास्ततस्तेऽमरसुन्दरम् । व्यज्ञापयन् समागत्य शस्त्रनिर्मुक्तपाणय ॥११४॥
 गृहाण जीवन नाथ हर वा नः कुलाङ्गनाः । छिन्धि तां चरणौ पाणी ग्रीवां वा न वयं क्षमाः ॥११५॥
 कन्यानिवहमध्यस्थः कोऽपि धीरो विराजते । सुरेन्द्रसुन्दरः कान्त्या समानो रजनीपतेः ॥११६॥
 क्रुद्धस्य तस्य नो दृष्टि देवाः शक्रपुरस्तराः । महेन्द्र किमुत चुद्रा अस्मत्तुल्याः शरीरिणः ॥११७॥
 रथनूपुरनाथेन्द्रप्रभृत्युत्तममानवाः । वीक्षिता बहवोऽस्माभिरयं तु परमादृतः ॥११८॥
 एव श्रुत्वा महाक्रोधरक्तास्योऽमरसुन्दरः । निरैत् सनद्य सयुक्तो बुधेन कनकेन च ॥११९॥
 अन्ये च बहवः शूरा पतयो व्योमगामिनाम् । निश्चक्रमुर्वियर्हीप्त कुर्वाणाः शस्त्ररश्मिभिः ॥१२०॥
 ततस्तानायतो दृष्ट्वा ता भयाकुलमानसाः । विद्याधरसुता ऊचुरिदं रत्नश्रवःसुतम् ॥१२१॥
 अस्मत्प्रयोजनात्नाथ प्राप्तोऽस्यत्यन्तसंशयम् । पुण्यहीना वयं कष्टं सर्वा अप्यपलक्षणाः ॥१२२॥

दशाननने उन सब कन्याओको गन्धर्व विधिसे उस प्रकार विवाह लिया कि जिस प्रकार चन्द्रमा ताराओके समूहको विवाह लेता है ॥१०८॥

तदनन्तर 'मैं पहले पहुँचूँ, मैं पहले पहुँचूँ' इस प्रकार परस्परमें होड़ लगाकर वे कन्याएँ दशाननके साथ पुनः क्रीड़ा करने लगीं ॥१०६॥ जो कन्या दशाननके साथ क्रीड़ा करती थी वही भली मालूम होती थी सो ठीक ही है क्योंकि चन्द्रमासे रहित ताराओकी क्या शोभा है ? ॥११०॥ तदनन्तर जो कञ्चुकी इन कन्याओके साथ वापिकापर आये थे उन्होने शीघ्र ही जाकर कन्याओके पितासे दशाननका यह वृत्तान्त कह सुनाया ॥१११॥ तब कन्याओके पिताने दशाननको नष्ट करनेके लिए ऐसे क्रूर पुरुष भेजे कि जो क्रोधवश ओठोंको डश रहे थे तथा बद्ध भौंहोके अग्रभागसे भयानक मालूम होते थे ॥११२॥ वे सब एक ही साथ अनेक प्रकारके शस्त्र चला रहे थे पर दशाननने उन्हें भौंह उठाते ही जीत लिया ॥११३॥ तदनन्तर जिनका सारा शरीर भयसे काँप रहा था तथा जिनके हाथसे शस्त्र छूट गये थे ऐसे वे सब पुरुष राजा सुरसुन्दरके पास जाकर कहने लगे ॥११४॥ कि हे नाथ ! चाहे हमारा जीवन हर लो, चाहे हमारे हाथ पैर तथा गरदन काट लो पर हम उस पुरुषको नष्ट करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥११५॥ इन्द्रके समान सुन्दर तथा कान्तिसे चन्द्रमाकी तुलना करनेवाला कोई एक धीरवीर मनुष्य कन्याओके बीचमें बैठा हुआ सुशोभित हो रहा है ॥११६॥ सो जब वह क्रुद्ध होता है तब उसकी दृष्टिको इन्द्र आदि देव भी सहन नहीं कर सकते फिर हमारे जैसे बुद्ध प्राणियोंकी तो बात ही क्या है ? ॥११७॥ रथनूपर नगरके राजा इन्द्र आदि बहुतसे उत्तम पुरुष हमने देखे हैं पर यह उन सबमें परम आदरको प्राप्त है ॥११८॥ यह सुनकर, बहुत भारी क्रोधसे जिसका मुँह लाल हो रहा था ऐसा राजा सुरसुन्दर राजा कनक और बुधके साथ तैयार होकर बाहर निकला ॥११९॥ इनके सिवाय और भी बहुतसे शूरवीर विद्याधरोंके अधिपति शस्त्रोंकी किरणोंसे आकाशको देदीप्यमान करते हुए बाहर निकले ॥१२०॥ तदनन्तर उन्हें आता देख, जिनका मन भयसे व्याकुल हो रहा था ऐसी वे विद्याधर कन्याएँ दशाननसे बोलीं कि हे नाथ ! आप हमारे निमित्तसे अत्यन्त संशयको प्राप्त हुए हैं । यथार्थमें हम सब पुण्य-हीन तथा शुभलक्षणोंसे रहित हैं ॥१२१-१२२॥

उत्तिष्ठ शरणं गच्छ कंचिन्नाय प्रसीद नः । उत्पन्न्य गगनं क्षिप्रं रक्ष प्रागान् सुदुर्लभान् ॥१२३॥
 अस्मिन् वा भवने लैने भूत्वा प्रच्छन्नविग्रह । तिष्ठ यावद्विमे क्रूरा नेत्रन्ते भवतस्तनुम् ॥१२४॥
 श्रुत्वा वाक्यमिदं दीन दृष्ट्वा च निकटं बलम् । सिते कुमुदवत्तेन नेत्रे पद्मनिमे हृते ॥१२५॥
 उवाच च न मा नूनं विच्छद्यद्वदयेदगम् । क्रिमेभिः क्रियते कार्यं संभूयापि गर्त्मत ॥१२६॥
 एकाकी पृथुकः सिंहः प्रस्फुरन्मितकेशर । किं वा नानयते ध्वंसं यूयं समददन्तिनाम् ॥१२७॥
 इदं ताः पुनरुचुस्तं यद्येवं नाथ मन्यसे । ततोऽस्माकं पितृन् रक्ष भ्रातृन् च न्वजनांस्तथा ॥१२८॥
 पुत्रमस्तु प्रिया यूयं मा भेष्टेति स सान्त्वनम् । कुरुते यावदेतासा तावद्वलमुपागतम् ॥१२९॥
 ततो विमानमारुह्य क्षणाद्विद्याविनिर्मितम् । खमारुह्य दशग्रीवो दन्तदष्टरदच्छदः ॥१३०॥
 त पुत्रानयवास्तस्य प्राप्य युद्धमहोत्सवम् । दुःखेन मानमाकाशे प्राप्ता रोमाद्धकर्षणा ॥१३१॥
 तस्योपरि ततो योधाश्चिन्निपुः शस्त्रमहती । धारा इव घनस्यूला पर्वतस्य घनावनाः ॥१३२॥
 ततोऽर्ष्वा शस्त्रमंघातं कामिश्रिद्धं विन्ध्यवारयत् । कामिश्रिच्च रिपुव्रात गिलाभिमर्शमानयत् ॥१३३॥
 वराकनिहतैरेभिः खचरैः किं ममेत्यमौ । चिन्तयित्वा प्रवानास्त्रान् तांश्चक्रे नेत्रगोचरम् ॥१३४॥
 तामनेन ततोऽश्रेण मोहयित्वा गतक्रिया । नागपाशैस्त्रयोऽप्येते बद्ध्वा तासामुपाहृताः ॥१३५॥
 मोचित्वास्ते तवस्तामि पूजां च परिलम्बिता । शूस्त्रजनसंप्राप्ते समद च समागताः ॥१३६॥

हे नाथ ! उठो और किसीकी शरणमें जाओ । हम लोगोपर प्रसन्न होओ और शीघ्र ही आकाशमें उड़कर अपने दुर्लभ प्राणोंकी रक्षा करो ॥१२३॥ अथवा ये क्रूरपुरुष जब तक आपका शरीर नहीं देख लेते हैं जब तक उसके पहले ही इस जिन-मन्दिरमें छिपकर बैठ गहो ॥१२४॥ कन्याओंके यह दीन वचन सुनकर तथा सेनाकों निकट देख दशानने अपने कुमुदके समान सफेद नेत्र कमलके समान लाल कर लिये ॥१२५॥ उसने कन्याओंसे कहा कि निश्चय ही आप हमारा पराक्रम नहीं जानती हो इसीलिए ऐसा कह रही हो । जरा सोचो तो सही, बहुतसे कौए एक साथ मिलकर भी गरुड़का क्या कर सकते हैं ? ॥१२६॥ जिसकी सफेद जटाएँ फहरा रही हैं ऐसा अकेला सिंहका बालक क्या भद्रोन्मत्त हाथियोंके मुण्डको नष्ट नहीं कर देता ? ॥१२७॥ दशाननके वीरता भरे वचन सुन उन कन्याओंने फिर कहा कि हे नाथ ! यदि आप ऐसा मानते हैं तो हमारे पिता, भाई तथा कुटुम्बीजनों की रक्षा कीजिये, अर्थात् युद्धमें उन्हें नहीं मारिये ॥१२८॥ 'हे प्रिया जनो ! ऐसा ही होगा, तुम सब भयभीत न होओ' इस प्रकार दशानन जब तक उन कन्याओंको सान्त्वना देता है कि तब तक वह सेना आ पहुँची ॥१२९॥ तदनन्तर क्षणभरमें विद्या निर्मित विमानपर आरुढ़ होकर रावण आकाशमें जा पहुँचा और दातांसे ओठ चवाने लगा ॥१३०॥ दशाननके वे ही सब अवयव थे पर युद्धरूपी महोत्सवको पाकर इतने अधिक फूल गये और रोमाद्धोंसे कर्कश हो गये कि आकाशमें बड़ी कठिनाईमें समा सके ॥१३१॥ तदनन्तर जिस प्रकार मेघ किसी पर्वतपर बड़ी मोटी जल की धाराएँ छोड़ते हैं उसी प्रकार सब योधा दशाननके ऊपर शस्त्रोंके समूह छोड़ने लगे ॥१३२॥ तब दशानने शिलाएँ वर्षाना शुरू किया । उसने कितनी ही शिलाओंसे तो शत्रुओंके शस्त्रसमूहको रोकता और कितनी ही शिलाओंसे शत्रुसमूह को भयभीत किया ॥१३३॥ इन वेचारे दीन-हीन विद्याधरोंको मारनेसे मुझे क्या लाभ है ? ऐसा विचारकर उसने सुरसुन्दर, कनक और वृष इन तीन प्रधान विद्याधरोंको अपनी दृष्टिका विषय बनाया अर्थात् उनकी ओर देखा ॥१३४॥ तदनन्तर उसने तामस शस्त्रसे मोहित कर उन्हें निश्चेष्ट बना दिया और नागपाशमें बाँधकर तीनोंको तीन कन्याओंके सामने रख दिया ॥१३५॥ तब कन्याओंने उन्हें लुढ़वाकर उनका सत्कार कराया और उन्हें शूरवीर वर

१. कं च म० । २. तने म० । ३. संमद-म० । ४. खचरैः म० । नेवकैः म० । ५. प्रधाना स्त्री ता
 चक्रे नेत्रगोचराम् म० (?) । त्रौन् प्रवानान् मत्वा तात् दृष्टिपथमानिनावेत्यर्थः । ६. संप्राप्ते म० ।

ततः पाणिग्रहशुक्रे तस्य तासां च तैः पुनः । दिवसानां त्रय विद्याजनितश्च महोत्सवः ॥१३७॥
 गताश्चानुमतास्तेन यथा स्वं निलयानमी । मन्दोदरीगुणाकृष्टः स च यातः स्वयंप्रभम् ॥१३८॥
 ततस्तं परया घृत्या युक्त दृष्ट्वा सथोपितम् । बान्धवाः परम हर्षं जग्मुर्विस्तारितेक्षणा ॥१३९॥
 दूरादेव च तं दृष्ट्वा भानुकर्णविभीषणौ । अभिगत्या विनिष्क्रान्तौ सुहृदोऽन्ये च बान्धवाः ॥१४०॥
 वेष्टितश्च प्रविष्टस्तैः स्वयंप्रभपुरोत्तमम् । रेमे च स्वेच्छया तेऽत्र प्राप्नुवन् सुखमुत्तमम् ॥१४१॥
 अथ कुम्भपुरे राजमहोदरसुतां वराम् । सुरूपाक्षीसमुद्भूतां तडिन्मालाभिधानकाम् ॥१४२॥
 भास्करश्रवणो लेभे सुप्रीतः स तथा समम् । चारुविभ्रमकारिण्या निमग्नो रतिसागरे ॥१४३॥
 तत्र कुम्भपुरे तस्य केनचित् कृतशब्दने । श्वसुरस्नेहतः कर्णो सतत पेततुर्यतः ॥१४४॥
 कुम्भकर्ण इति ख्यातिं ततोऽसौ भुवने गतः । धर्मसक्तमतिवीरः कलागुणविशारदः ॥१४५॥
 अथ स प्रखलं ख्यातिमन्यथा गमितो जनैः । मासासृज्जीवनत्वेन तथा षण्मासनिद्रया ॥१४६॥
 आहारोऽस्य शुचिः स्वादुर्यथाकामप्रकल्पितः । सुरभिर्वन्धुयुक्तस्य प्रथम तर्पितातिथिः ॥१४७॥
 संध्यासवेशनोत्थानमध्यकालप्रवर्तिनी । निद्रास्य शेषकालस्तु धर्मव्यासक्तचेतसः ॥१४८॥
 परमार्थावबोधेन वियुक्ताः पापचेतसः । कल्पयन्त्यन्यथा साधून् धिक् तान् दुर्गतिगामिनः ॥१४९॥
 अथास्ति दक्षिणश्रेण्यां नाम्ना ज्योतिःप्रभ पुरम् । विशुद्धकमलस्तत्र राजा मयमहासुहृत् ॥१५०॥

प्राप्त हुआ है इस समाचारसे उन्हें हर्षित भी किया ॥१३६॥ तदनन्तर उन्होंने दशानन और उन कन्याओका विधिपूर्वक पुनः प्राणिग्रहण किया । इस उपलक्ष्यमे तीन दिनतक विद्याजनित महोत्सव होते रहे ॥१३७॥ तत्पश्चात् ये सब दशाननकी अनुमति लेकर अपने-अपने घर चले गये और दशानन भी मन्दोदरीके गुणोसे आकृष्ट हुआ स्वयंप्रभनगर चला गया ॥१३८॥ तदनन्तर श्रेष्ठ कान्तिसे युक्त दशाननको अनेक स्त्रियो सहित आया देख, बान्धवजन परम हर्षको प्राप्त हुए । हर्षातिरेकसे उनके नेत्र विस्तृत हो गये ॥१३९॥ भानुकर्ण और विभीषण तथा अन्य मित्र और इष्टजन दूरसे ही उसे देख अगवानी करनेके लिए नगरसे बाहर निकले ॥१४०॥ उन सबसे घिरा दशानन, स्वयंप्रभनगरमे प्रविष्ट हो मनचाही क्रीड़ा करने लगा और भानुकर्ण विभीषण आदि बन्धुजन भी उत्तम सुखको प्राप्त हुए ॥१४१॥

अथानन्तर कुम्भपुर नगरमें राजा महोदरकी सूरूपाक्षी नामा स्त्रीसे उत्पन्न तडिन्माला नामकी कन्या थी सो भानुकर्णने बड़ी प्रसन्नतासे प्राप्त की । सुन्दर हाव-भाव दिखानेवाली तडिन्मालाके साथ भानुकर्ण रतिरूपी सागरमे निमग्न हो गया ॥१४२-१४३॥ एकवार कुम्भपुर नगरपर किसी प्रबल शत्रुने आक्रमण कर हल्ला मचाया तब श्वसुरके स्नेहसे भानुकर्णके कान कुम्भपुरपर पड़े अर्थात् वहाँके दुःखभरे शब्द इसने सुने तबसे संसारमे इसका कुम्भकर्ण नाम प्रसिद्ध हुआ । इसकी बुद्धि सदा धर्ममे आसक्त रहती थी, यह शूरवीर था तथा कलाओमे निपुण था ॥१४४-१४५॥ दुष्टजनोने इसके विषयमे अन्यथा ही निरूपण किया है । वे कहते है कि यह मांस और खूनका भोजन कर जीवित रहता था तथा छह माहकी निद्रा लेता था सो इसका आहार तो इच्छानुसार परम पवित्र मधुर और सुगन्धित होता था । प्रथम ही अतिथियोको सन्तुष्टकर बन्धुजनोके साथ आहार करता था ॥१४६-१४७॥ संध्याकाल शयन करने का और प्रातःकाल उठनेका समय है सो भानुकर्ण इसके बीचमें ही निद्रा लेता था । इसका अन्य समय धार्मिक कार्योंमे ही व्यतीत होता था ॥१४८॥ जो परमार्थज्ञानसे रहित पापी मनुष्य, सत्पुरुषों का अन्यथा वर्णन करते हैं वे दुर्गतिमे जाने वाले हैं ऐसे लोगोको धिक्कार है ॥१४९॥

अथानन्तर दक्षिणश्रेणीमे ज्योतिःप्रभ नामका नगर है । वहाँ विशुद्धकमल राजा राज्य

तस्य नन्दनमालायामुत्पन्ना वरकन्यका । राजीवसरसी नाम्ना पतिं प्राप्ता विभीषणम् ॥१५१॥
 कान्तया कान्तया साक न स प्राप रतिं कृती । देववत् परमाकारः पद्मया पद्मया तथा ॥१५२॥
 अथ मन्दोदरी गर्भं कालयोगाददीधरत् । सद्यः कल्पितचित्तस्थदोहदाहारिविभ्रमा ॥१५३॥
 नीता च जनकागार प्रसूता^१ बालक वरम् । इन्द्रजित्स्वयातिमायातो य^२ समस्तमहीतले ॥१५४॥
 मातामहगृहे वृद्धिं प्राप्तश्च जननन्दनः । स कुर्वन् निर्भरक्रीडां सिंहशाव इवोत्तमाम् ॥१५५॥
 ततोऽसौ पुनरानीता सपुत्रा भर्तुरन्तिकम् । दत्तदुःखा पितुः^३ स्वस्य पुत्रस्य च वियोगत ॥१५६॥
 दशग्रीवोऽथ पुत्रास्य दृष्ट्वा परममागतः । आनन्द पुत्रतो नान्यत्प्रीतेरायतन परम् ॥१५७॥
 कालक्रमात् पुनर्गर्भं दधाना पितुरन्तिकम् । नीता^४ सुख प्रसूता च मेघवाहनबालकम् ॥१५८॥
 भर्तुरन्तिकमानीता पुनः सा भोगसागरे । पतिता स्वेच्छयातिष्ठद्^५ गृहीतपतिमानसा ॥१५९॥
 दारको स्वजनानन्द कुर्वाणौ चारुविभ्रमौ । तौ युवत्व परिप्राप्तौ महोच्चविपुलेक्षणौ ॥१६०॥
 अथ वैश्रवणो यासा कुरुते स्वामितां पुराम् । व्यध्वसयदिमा गत्वा कुम्भकर्णः सहस्रशः ॥१६१॥
 तासु रत्नानि वस्त्राणि कन्यकाश्च मनोहराः । गणिकाश्चानयद्वीरः स्वयंप्रभपुरोत्तमम् ॥१६२॥
 अथ वैश्रवणः क्रुद्धो ज्ञात्वा पृथुकचेष्टितम् । सुमालिनोऽन्तिक दूत प्रजिघायातिगर्वितः ॥१६३॥
 प्रविवेश ततो दूतः प्रतिहारनिवेदितः । उपचार च संप्राप्तः कृतकं लोकमार्गत^६ ॥१६४॥

करता था जो मयका महामित्र था ॥१५०॥ उसकी नन्दनमाला नामकी स्त्रीसे राजीवसरसी नामकी कन्या उत्पन्न हुई थी वह विभीषणको प्राप्त हुई ॥१५१॥ देवोके समान उत्कृष्ट आकारको धारण करनेवाला बुद्धिमान् विभीषण, लक्ष्मीके समान सुन्दरी उस राजीवसरसी स्त्रीके साथ क्रीडा करता हुआ वृष्टिको प्राप्त नहीं हुआ ॥१५२॥ तदनन्तर समय पाकर मन्दोदरीने गर्भ धारण किया । उस समय उसके चित्तमे जो दोहला उत्पन्न होते थे उनकी पूर्ति तत्काल की जाती थी । उसके हाव-भाव भी मनको हरण करनेवाले थे ॥१५३॥ राजा मय पुत्रीको अपने घर ले आया वहाँ उसने उस उत्तम बालकको जन्म दिया जो समस्त पृथ्वीतलमे इन्द्रजित् नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥१५४॥ लोगोको आनन्दित करनेवाला इन्द्रजित् अपने नानाके घर ही वृद्धिको प्राप्त हुआ । वहाँ वह सिंहके बालकके समान उत्तम क्रीडा करता हुआ सुखसे रहता था ॥१५५॥ तदनन्तर मन्दोदरी पुत्रके साथ अपने भर्ता दशाननके पास लाई गई सो अपने तथा पुत्रके वियोगसे वह पिताको दुःख पहुँचानेवाली हुई ॥१५६॥ दशानन पुत्रका मुख देख परम आनन्दको प्राप्त हुआ । यथार्थमे पुत्रसे बढ़कर प्रीतिका और दूसरा स्थान नहीं है ॥१५७॥ कालक्रमसे मन्दोदरीने फिर गर्भ धारण किया सो पुनः पिताके समीप भेजी गई । अबकी बार वहाँ उसने सुखपूर्वक मेघवाहन नामक पुत्रको जन्म दिया ॥१५८॥ तदनन्तर वह पुनः पतिके पास आई और पतिके मनको वशकर इच्छानुसार भोगरूपी सागरमे निमग्न हो गई ॥१५९॥ सुन्दर चेष्टाओके धारी दोनों बालक आत्मीयजनोका आनन्द बढ़ाते हुए तरुण अवस्थाको प्राप्त हुए । उस समय उनके नेत्र किसी महावृषभके नेत्रोके समान विशाल हो गये थे ॥१६०॥

अथानन्तर वैश्रवण जिन नगरोंका राज्य करता था, कुम्भकर्ण हजारों वार जा जाकर उन नगरोंको विध्वस्त कर देता था ॥१६१॥ उन नगरोंमे जो भी मनोहर रत्न, वस्त्र, कन्याएँ अथवा गणिकाएँ होती थी शूरवीर कुम्भकर्ण उन्हें स्वयंप्रभनगर ले आता था ॥१६२॥ तदनन्तर जब वैश्रवणको कुम्भकर्णकी इस बालचेष्टाका पता चला तब उसने कुपित होकर सुमालीके पास दूत भेजा । वैश्रवण इन्द्रका बल पाकर अत्यन्त गर्वित रहता था ॥१६३॥ तदनन्तर द्वारपालके द्वारा

१. बालकदलम् म० । २. -स्तस्य ख० । ३. स्वय म० । ४. तिष्ठन् म० । ५. गृहीता म० ।
 ६. मणिका ख० ।

उवाचेदं तथा दूतो वाक्यालङ्कारमञ्जितः । समचं दृग्वक्त्रस्य सुमालिनमिति क्रमात् ॥१६५॥
 समस्तभुवनव्यापिकीर्तिवैश्रवणश्रुतिः^१ ।^२ वदतीद् महाराजो भवन्तं कुरु चेतसि ॥१६६॥
 पण्डितोऽपि कुलीनोऽसि लोकज्ञोऽसि महानसि । अकार्यसङ्गभीतोऽसि देशकोऽसि सुवर्त्मसु ॥१६७॥
 एवविधस्य ते युक्त कुर्वन्तं शिशुचापलम् । प्रमत्तचेतस पौत्रं निवारयितुमान्मनः ॥१६८॥
 तिरश्चा मानुषाणां च प्रायो भेदोऽयमेव हि । कृत्याकृत्य न जानन्ति यदेकैऽन्यत्तु तद्विदुः ॥१६९॥
 विस्मरन्ति च नो पूर्वं वृत्तान्तं दृढमानसा । जातायामपि कस्याञ्चिदभूतौ विद्युत्पमद्युतौ ॥१७०॥
 शान्तिर्मांलिवधेनैव शेषस्य स्यात् कुलस्य ते । को हि स्वकुलनिर्मूलध्वंसहेतुक्रिया भजेत् ॥१७१॥
 समुद्रवीचिसंसक्त^३ शक्रस्य ध्वस्तविद्विषः । प्रतापो विस्मृतः किं ते यतोऽनुचितमीहते ॥१७२॥
 स त्वं क्रीडन्नि मण्डूको दंष्ट्राकण्ठकसंकटे । वक्त्ररन्ध्रे भुजङ्गस्य विषाग्निकणमोचिनि ॥१७३॥
 नियन्नुमय शक्नोपि नैतं तस्करदारकम् । ततो ममार्षथाद्यैव करोम्यस्य नियन्त्रणम् ॥१७४॥
 नैवं चेत् कुरुते पश्य ततश्चारकवेशमनि । निगडैः संयुतं पौत्रं यान्यमानमनेकधा ॥१७५॥
 अलङ्कारोदयं त्यक्त्वा चिरं कालमवस्थितः । तदेव धिवरं भूयः प्रवेष्टुमभिवान्द्यसि ॥१७६॥
 कुपिते मयि शक्रे वा न तेऽस्ति गरणं भुवि । जलबुद्बुद्वद्वद्वातादचिरादेव नश्यसि ॥१७७॥
 ततः परुषवाग्वातवेगाहतमनोजलः । क्षीम परममायातो दशाननमहार्णवः ॥१७८॥

समाचार भेजकर दूतने भीतर प्रवेश किया। दूत लोकाचारके अनुसार योग्य विनयको प्राप्त था ॥१६४॥ दूतका नाम वाक्यालङ्कार था सो उसने दशाननके समच ही सुमालीसे इस प्रकार क्रमसे कहना शुरू किया ॥१६५॥ जिनकी कीर्ति समस्त संसारमें फैल रही है ऐसे वैश्रवण महाराजने आपसे जो कहा है उसे चित्तमें धारण करो ॥१६६॥ उन्होंने कहा है कि तुम पण्डित हो, कुलीन हो, लोक व्यवहारके ज्ञाता हो, महान् हो, अकार्यके समागमसे भयभीत हो और सुमार्गका उपदेश देनेवाले हो ॥१६७॥ सो तुम्हें लड़कों जैसी चपलता करनेवाले अपने प्रमादी पौत्रको मना करना उचित है ॥१६८॥ तिर्यञ्च और मनुष्योंमें प्रायः यही तो भेद है कि तिर्यञ्च कृत्य और अकृत्यको नहीं जानते हैं पर मनुष्य जानते हैं ॥१६९॥ जिनका चित्त दृढ़ है ऐसे मनुष्य विजलीके समान भङ्गुर किसी विभूतिके प्राप्त होने पर भी पूर्ववृत्तान्तको नहीं भूलते हैं ॥१७०॥ तुम्हारे कुलका प्रधान माली मारा गया इसीसे समस्त कुलको शान्ति धारण करना चाहिए थी—क्योंकि ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपने कुलका निर्मूल नाश करनेवाले काम करेगा ॥१७१॥ शत्रुओंको नष्ट करनेवाले इन्द्रका वह प्रताप जो कि समुद्रकी लहर-लहरमें व्याप्त हो रहा है तुमने क्यों भुला दिया ? जिससे कि अनुचित काम करनेकी चेष्टा करते हो ॥१७२॥ तुम मेंढकके समान हो और इन्द्र भुजङ्गके समकक्ष है, सो तुम इन्द्ररूपी भुजङ्गके उस मुखरूपी विलमें क्रीड़ा कर रहे हो जो दाँडरूपी कंटकोसे व्याप्त है तथा विषरूपी अग्निके तिलगे छोड़ रहा है ॥१७३॥ यदि तुम इस चोर वालकपर नियन्त्रण करनेमें समर्थ नहीं हो तो आज ही मुझे सौंप दो मैं स्वयं इसका नियन्त्रण करूँगा ॥१७४॥ यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो अपने पौत्रको जेलखानेके अन्दर वेड़ियोंसे बद्ध तथा अनेक प्रकारकी यातना सहते हुए देखोगे ॥१७५॥ जान पड़ता है कि तुमने अलङ्कारोदयपुर (पाताललङ्का) को छोड़कर बहुत समय तक बाहर रह लिया है अब फिरसे उसी विलमें प्रवेश करना चाहते हो ॥१७६॥ यह निश्चित समझ लो कि मेरे या इन्द्रके कुपित होनेपर पृथ्वीमें तुम्हारा कोई शरण नहीं है, जिस प्रकार जरा-सी हवा चलनेसे पानीका बबूला नष्ट हो जाता है उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओगे ॥१७७॥

तदनन्तर उस दूतके कठोर वचनरूपी वायुके वेगसे जिसका मनरूपी जल आघातको प्राप्त

१. विश्रवणश्रुतिः म० । २. चरतीद् म० । ३. संसक्तशक्रस्य-म०, ख० ।

प्रतीकाग्राहवच्चास्य प्रस्फुरत्त्वेदमोचिन' । चक्षुपात्यन्तरक्तेन दिग्धं सकलमम्बरम् ॥१७६॥
 ततो वधिरयन्नाशा' स्वरेणाम्बरगामिना । करिणो निर्मदीकुर्वन् बभाण प्रतिनादिना १८०॥
 कोऽसौ वैश्रवणो नाम को वेन्द्रः परिभाष्यते । अस्मद् गोत्रक्रमायाता नगरी येन गृह्यते ॥१८१॥
 सोऽयं श्येनायते काकः शृगालः शरभायते' । इन्द्रायते स्वभृत्याना निस्त्रपः पुरुषाधम' ॥१८२॥
 आ' कुदूत पुरोऽस्माक गदतः परुषं वच' । नि'शङ्कस्य शिरस्तावत् पातयामि रूपे वलिम् ॥१८३॥
 इत्युक्त्वा कोशतः खड्गमाचकर्षं कृत वियत् । इन्दीवरवनेनेव येन व्याप्त महासर. ॥१८४॥
 कुर्वाण क्वणन वाताद्रोषादिव सकम्पनम् । नीत कालमिवाँसित्व हिंसाया इव शावकम् ॥१८५॥
 उद्गूर्णश्रायमेतेन वेगादागत्य चान्तरम् । विभीषणेन सरुद्धः सान्त्वितश्चेति सादरम् ॥१८६॥
 भृत्यस्यास्यापराध. कः क्लीबस्यापहतात्मनः । विक्रीतनिजदेहस्य शुक्रस्येवानुभाषिणः ॥१८७॥
 हृदयस्थेन नाथेन पिशाचेनेव चोदिताः । दूता वाचि प्रवर्तन्ते यन्त्रदेहा इवावशा' ॥१८८॥
 तत्प्रसीद दयामार्यं कुरु प्राणिनि दु खिते । अकीर्तिरुद्रवत्युर्वीलोके चन्द्रवधे कृते ॥१८९॥
 शिरस्सु विद्विषामेव तव खड्गः पतिष्यति । न हि गण्डूपदान् हन्तु वैनतेयः प्रवर्तते ॥१९०॥
 एवं कोपानलस्तस्य यावत्सद्वाक्यवारिणा । शममानीयते तेन साधुना न्यायवादिना ॥१९१॥

हुआ था ऐसा दशानन रूपी महासागर परम क्षोभको प्राप्त हुआ ॥१७८॥ दूतके वचन सुनते ही दशाननकी ऐसी दशा हो गई मानो किसीने उसके अङ्ग पकड़कर झकझोर दिया हो, उसके प्रत्येक अङ्गसे पसीना छूटने लगा और उसकी अत्यन्त लालदृष्टिने समस्त आकाशको लिप्त कर दिया ॥१७९॥ तदनन्तर आकाशमें गूँजनेवाले स्वरसे दिशाओंको बहरा करता हुआ दशानन, प्रतिध्वनिसे हाथियोंको मदरहित करता हुआ बोला ॥१८०॥ कि यह वैश्रवण कौन है ? अथवा इन्द्र कौन कहलाता है ? जो कि हमारी वंश-परम्परासे चली आई नगरीपर अधिकार किये बैठा है ? ॥१८१॥ निर्लज्ज नीचपुरुष अपने भृत्योंके सामने इन्द्र जैसा आचरण करता है सो मानो कौआ बाज बन रहा है और शृगाल अष्टापदके समान आचरण कर रहा है ॥१८२॥ अरे कुदूत ! हमारे सामने निशङ्क होकर कठोर वचन बोल रहा है सो मैं अभी क्रोधके लिए तेरे मस्तककी बलि चढ़ाता हूँ ॥१८३॥ यह कह कर उसने म्यानसे तलवार खींची जिससे आकाशरूपी सरोवर ऐसा दिखने लगा मानो नील कमलरूपी वनसे ही व्याप्त हो गया हो ॥१८४॥ दशाननकी वह तलवार हवासे बात कर रही थी, क्रोधसे मानो कॉप रही थी, ऐसी जान पड़ती थी मानो तलवारका रूप धरकर यमराज ही वहाँ आया हो, अथवा मानो हिसाका वेटा ही हो ॥१८५॥ दशाननने वह तलवार ऊपरको उठाई ही थी कि विभीषणने बीचसे आकर रोक दिया और बड़े आदरसे इस प्रकार समझाया कि ॥१८६॥ जिसने अपना शरीर बेच दिया है और जो तोतेके समान कही बातको ही दुहराता हो ऐसे इस पापी दीन-हीन भृत्यका अपराध क्या है ? ॥१८७॥ दूत जो कुछ वचन बोलते हैं सो पिशाच की तरह हृदयमें विद्यमान अपने स्वामीसे प्रेरणा पाकर ही बोलते हैं । यथार्थमें दूत यन्त्रमयी पुरुषके समान पराधीन है ॥१८८॥ इसलिए हे आर्य ! प्रसन्न होओ और दुःखी प्राणी पर दया करो । लुद्रका वध करनेसे संसारमें अकीर्ति ही फैलती है ॥१८९॥ आपकी तलवार तो शत्रुओके ही शिर पर पड़ेगी क्योंकि गरुड़ जलमें रहनेवाले निर्विष सांपोको मारनेके लिए प्रवृत्त नहीं होता ॥१९०॥ इस प्रकार न्याय-नीति को जानने वाले सत्पुरुष विभीषण, सद्गुणेशरूपी जलसे जबतक दशाननकी क्रोधाग्निको शान्त करता है तबतक अन्य लोगोने उस दूतके पैर खींचकर उसे सभाभवनसे शीघ्र ही बाहर निकाल दिया । आचार्य कहते हैं कि दुःखके लिए ही जिसकी रचना हुई है ऐसे भृत्यको धिक्कार

पादयोस्तावदाकृष्य दूतोऽन्यैः सुखलीकृतैः । क्षिप्रं निष्क्रासितो गेहाद् धिग् भृत्य दुःखनिर्मितम् ॥१६२॥
 गत्वा वैश्रवणायेयमवस्था तेन वेदिता । दशग्रीवाद्दिनिष्क्रान्ता वाणी चात्यन्तदुःकथा ॥१६३॥
 तयेन्धनविभूत्यास्य कोपवह्निः समुत्थितः । अमात इव सोऽनेन^१ भृत्यचेतःसु वण्डितः ॥१६४॥
 अर्चीकरच्च संग्रामसंज्ञा परुषतूर्यतः । रणसज्जा यथा सद्यो मणिभद्रादयः कृताः ॥१६५॥
 निरैद् वैश्रवणो योद्धु यत्तयोधैस्ततो वृत^२ । विलसत्सायकप्रासचक्राद्यायुधपाणिभिः ॥१६६॥
 स निर्भराञ्जनचोणीधराकारैर्मतङ्गजैः । संध्यारागसमाविष्टमेघाकारैर्महारथैः ॥१६७॥
 प्रस्फुरन्नामरैश्वैर्जयद्विज्वतोऽनिलम् । सुरावाससमाकारैर्विमानैर्दूरमुत्तैः ॥१६८॥
 लङ्घिताश्वविमानेभ्यस्वन्दनेनोस्तेजसा । पादातेन च संघट्टमीयुषार्णवरात्रिणा ॥१६९॥
 पूर्वमेव च निष्क्रान्तो दशग्रीवो महाबलः । भानुकर्णादिभिः सार्धं स्थितो रणमहोत्सवः ॥२००॥
 गुञ्जाख्यस्य ततो मूर्ध्नि पर्वतस्य तयोरभूत् । संपातः सेनयो^३ शस्त्रसपातोद्गगनपावकः ॥२०१॥
 क्षवणनेन ततोऽसीनां ससीनां हेपितेन च । पदातीनां च नादेन गजानां गर्जितेन च ॥२०२॥
 अन्योऽन्यसगमाद्गूतरथशब्देन चारुणा । तूर्यस्वरेण चोग्रेण शीत्कारेण च पत्रिणाम् ॥२०३॥
 ध्वनिं कोऽपि विमिश्रोऽभूत् प्रतिनादेन बोधित^४ । व्याप्नुवन् रोदसी कुर्वन् भटानां मदमुत्तमम् ॥२०४॥
 कृतान्तवन्दनाकारैश्चक्रैः स्फुरितधारकैः । खड्गैस्तद्रसनाकारै रक्तसीकरचर्पिभिः ॥२०५॥
 तद्रोमसन्निभै^५ कुन्तैस्तत्तर्जन्योपमैः शरैः । परिघैस्तद्भुजाकारै^६ स्तन्मुष्टिसममुद्गरैः ॥२०६॥

हो ॥१६१-१६२॥ दूतने जाकर अपनी यह सब दशा वैश्रवणको बतला दी और दशाननके मुखसे निकली वह अभद्रवाणी भी सुना दी ॥१६३॥ दूतके वचनरूपी ईधनसे वैश्रवणकी क्रोधाग्नि भभक उठी । इतनी भभकी कि वैश्रवणके मनमें मानो समा नहीं सकी इसलिए उसने भृत्यजनोके चित्तमें बाँट दी अर्थात् दूतके वचन सुनकर वैश्रवण कुपित हुआ और साथ ही उसके भृत्य भी बहुत कुपित हुए ॥१६४॥ उसने तुरहीके कठोर शब्दोंसे युद्धकी सूचना करवा दी जिससे मणिभद्र आदि योद्धा शीघ्र ही युद्धके लिए तैयार हो गये ॥१६५॥ तदनन्तर जिनके हाथोंमें कृपाण, भाले, तथा चक्र आदि शस्त्र सुशोभित हो रहे थे ऐसे यत्नरूपी योधाओसे घिरा हुआ वैश्रवण युद्धके लिए निकला ॥१६६॥ इधर अञ्जनगिरिका आकार धारण करनेवाले—बड़े-बड़े काले हाथियो, संध्याकी लालिमासे युक्त मेघोंके समान दिखनेवाले बड़े-बड़े रथो, जिनके दोनों ओर चमर डुल रहे थे तथा जो वेगसे वायुको जीत रहे थे ऐसे घोड़ो, देवभवनके समान सुन्दर तथा ऊँची उड़ान भरनेवाले विमानो, तथा जो घोड़े, विमान, हाथी और रथ—सभीको उल्लङ्घन कर रहे थे अर्थात् इन सबसे आगे बढ़कर चल रहे थे, जिनका प्रताप बहुत भारी था, जो अधिकताके कारण एक दूसरेको धक्का दे रहे थे तथा समुद्रके समान गरज रहे थे ऐसे पैदल सैनिको और भानुकर्ण आदि भाइयोके साथ महाबलवान् दशानन, पहलेसे ही बाहर निकलकर तैयार बैठा था । युद्धका निमित्त पाकर दशाननके हृदयमें बड़ा उत्सव-उल्लास हो रहा था ॥१६७-२००॥

तदनन्तर गुञ्ज नामक पर्वतके शिखरपर दोनो सेनाओका समागम हुआ । ऐसा समागम कि जिसमें शस्त्रोंके पड़नेसे अग्नि उत्पन्न हो रही थी ॥२०१॥ तदनन्तर तलवारोंकी खनखनाहट, घोड़ोंकी हिनहिनाहट, पैदल सैनिकोंकी आवाज, हाथियोंकी गर्जना, परस्परके समागमसे उत्पन्न रथोंकी सुन्दर चीत्कार, तुरहीकी बुलन्द आवाज और वाणोंकी सनसनाहटसे उस समय कोई मिश्रित-विलक्षण ही शब्द हो रहा था । उसकी प्रतिध्वनि आकाश और पृथिवीके बीच गूँज रही थी तथा योद्धाओंमें उत्तम मद उत्पन्न कर रही थी ॥२०२-२०४॥ इस तरह जिनका आकार यमराजके मुखके समान था तथा जिनकी धार पैनी थी, ऐसे चक्रों, यमराजकी

१. -सुखलक्षितं म० । २. सोतेन म० । ३. तद्दशनाकारैः क० । ४. कुम्भैः म० । ५. तत्तर्जन्योपमैः म० । ६. तनुमुष्टिभिर्मुद्गरैः म० ।

वभूव सुमहज्जन्य कृतविक्रान्तसमदम् । कातरोत्पादितग्राम गिरःक्रीतयशोधनम् ॥२०७॥
 ततो निज बल नीतं खेद यत्तभटैश्चिरात् । स धारयितुमारब्धो दशास्यो रणमस्तकम् ॥२०८॥
 अभ्यायान्त च त दृष्ट्वा सिसितातपनिवारणम् । कालमेघमिवोद्ध्वस्थरजनीकरमण्डलम् ॥२०९॥
 सचाप तमिवासक्तशचीपतिशरासनम् । हेमकण्टकमवीत विद्युतालमिवाचितम् ॥२१०॥
 किरीट विभ्रत नानारत्नसङ्गविराजितम् । युक्त तमिव वज्रेण छादयन्त नभस्त्विया ॥२११॥
 विलक्षाश्राभवन् यत्ना विपण्णाक्षाः क्षतौजसः । पराद्मुखक्रियायुक्ता क्षणात् क्षीणरणाशया ॥२१२॥
 त्रासाकुलितचित्तेषु ततो यत्तपदातिषु । आर्वतमिव यातेषु भ्रमत्सु सुमहारवम् ॥२१३॥
 स्वसेनामुखतां जग्मुर्गच्छाणा बहवोऽधिपा । पुनरेभिः कृत सैन्यं रणस्याभिमुख तथा ॥२१४॥
 तत उच्छेत्तुमारब्धो यत्तनाथान् दशानन । उत्पत्योत्पत्य गगने सिहो मत्तगजानिव ॥२१५॥
 प्रेरितः कोपवातेन दशाननतनूनपात् । शस्त्रज्वालकुल शत्रुसैन्यकक्षे व्यजग्मत ॥२१६॥
 न सोऽस्ति पुरुषो भूमौ रथे वाजिनि वारणे । विमाने वा न यश्छिद्रं कृतो दाशाननै शरैः ॥२१७॥
 ततोऽभिमुखमायात दृष्ट्वा दशमुख रणे । अभजद्धान्यवस्नेह पर वैश्रवण क्षणात् ॥२१८॥
 विपादमतुल चागात्रिर्वेदं च नृपश्रियः । यथा बाहुवली पूर्वं शमकर्मणि सगतः ॥२१९॥

जिह्वाके समान दिखनेवाली तथा खूनकी वृद्धे वरसानेवाली तलवारो, उसके रोमके समान दिखनेवाले भाले, यमराजको प्रदेशिनी अगुलीकी उपमा धारण करनेवाले बाणो, यमराजकी भुजाके आकार परिघ नामक शस्त्रो और उनकी मुट्टीके समान दिखनेवाले मुट्टरोसे दोनो सेनाओमे वड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्धसे जहाँ पराक्रम मनुष्योंको हर्ष हो रहा था वहाँ कातर मनुष्योंको भय भी उत्पन्न हो रहा था। दोनो ही सेनाओंके शूरवीर अपना शिर दे देकर यशरूपी महाधन खरीद रहे थे ॥२०५-२०७॥ तदनन्तर चिरकाल तक यत्तरूपी भटोंके द्वारा अपनी सेनाको खेद विन्न देख दशानन उसे संभालनेके लिए तत्पर हुआ ॥२०८॥ तदनन्तर जिसके ऊपर सफेद छत्र लग रहा था और उससे जो उस काले मेघके समान दिखाई देता था जिसपर कि चन्द्रमाका मण्डल चमक रहा था, जो धनुषसे सहित था और उससे इन्द्र धनुष सहित श्याम मेघके समान जान पड़ता था, सुवर्णमय कवचसे युक्त होनेके कारण जो विजलीसे युक्त श्याम मेघके समान दिखाई देता था, जो नाना रत्नोंके समागमसे सुशोभित मुकुट धारण कर रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो कान्तिसे आकाशको आच्छादित करता हुआ वज्रसे युक्त श्याम मेघ ही हो। ऐसे दशाननको आता हुआ देख यत्तोंकी आँखें चौंधिया गईं, उनका सब ओज नष्ट हो गया, युद्धसे विमुख हो भागनेकी चेष्टा करने लगे और क्षण भरमें उनका युद्धका अभिप्राय समाप्त हो गया ॥२०९-२१२॥ तदनन्तर जिनके चित्त भयसे व्याकुल हो रहे थे ऐसे यक्षोंके पैदल सैनिक महाशब्द करते हुए जब भ्रमरमे पड़ेके समान घूमने लगे तब यक्षोंके बहुत सारे अधिपति अपनी सेनाके सामने आये और उन्होंने सेनाको फिरसे युद्धके सन्मुख किया ॥२१३-२१४॥ तदनन्तर जिस प्रकार सिंह आकाशमे उछल-उछलकर मत्त हाथियोंको नष्ट करता है उसी प्रकार दशानन यत्ताधिपतियोंको नष्ट करनेके लिए तत्पर हुआ ॥२१५॥ शस्त्ररूपी ज्वालाओंसे युक्त दशानन रूपी अग्नि, क्रोधरूपी वायुसे प्रेरित होकर शत्रुसेना रूपी वनमे वृद्धिको प्राप्त हो रही थी ॥२१६॥ उस समय पृथिवी, रथ, घोड़े, हाथी, अथवा विमानपर ऐसा एक भी आदमी नहीं बचा था जो रावणके बाणोंसे सच्छिद्र न हुआ हो ॥२१७॥ तदनन्तर युद्धमे दशाननको सामने आता देख वैश्रवण, क्षण भरमे भाईके उत्तम स्नेहको प्राप्त हुआ ॥२१८॥ साथ ही अनुपम विपाद

१. साधारयितु- म० । २. अभ्यायात म० । ३. सिसितातपत्रवारणम् म० । ४. विद्युतात- म० ।
 ५. -मायान्तं म० । ६. सगते ख० म० ।

विवेद्रेति च धिक्कष्टं संसारं दुःखमाजनम् । चक्रवन्परिवर्तन्ते प्रागिनो यत्र योनिषु ॥२२०॥
 पश्यैश्वर्यविभूतेन किं वस्तु प्रस्तुतं मया । बन्धुविध्वसनं यत्र क्रियते गर्ववत्तया ॥२२१॥
 उदात्तमिति चाबोचद् भो भो शृणु दशानन । किमिदं क्रियते पापं क्षणिकर्त्रीप्रबोद्धितम् ॥२२२॥
 मानृष्वसुः सुतोऽहं ते मोदरप्रतिसंगतः । ततो बन्धुषु नो युक्तं व्यवहर्तुमनाम्प्रतम् ॥२२३॥
 कृत्वा प्राणिवधं जन्तुर्मनोज्ञविपयाशया । प्रयाति नरकं भीमं सुमहादुःखम्कुलम् ॥२२४॥
 यथैकत्रिवसं राज्यं प्राप्तं संवत्सरं वधम् । प्राप्नोति सदृशं तेन निश्चये विपर्ययः सुखम् ॥२२५॥
 चक्षुःपद्मपुटासङ्गजिकं ननु जीवितम् । न वेत्सि किं यतः कर्म कुरुते भोगकारणम् ॥२२६॥
 ततो हसन्नुवाचेद् दशास्यं बहूगोऽस्मिन् । धर्मश्रवणकालोऽयं न वैश्रवणं वर्तते ॥२२७॥
 मत्तन्त्रेणैवमाहूटैर्मण्डलाग्रकरैर्नरैः । क्रियते मारणं शत्रोर्न तु धर्मनिवेदनम् ॥२२८॥
 मार्गं तिष्ठ कृपागत्य किं व्यर्थं बहु भापसे । कुरु वा प्रणिपातं मे तृतीयोऽस्ति न ते गतिः ॥२२९॥
 अथवा धनपालस्त्वं द्रविणं मम पालय । कुर्वाणो हि निजं कर्म पुरुषो नैव लज्जते ॥२३०॥
 ततो वैश्रवणो भूय उवाचेति दशाननम् । नृनमायुस्तव स्वल्पं क्रूरं येनेति भापसे ॥२३१॥
 भूयोऽपि मानसं विप्रत्ततो रोषणरूपितम् । अस्ति चेत्तव सामर्थ्यं जहीत्याह दशाननः ॥२३२॥
 जगाद् स ततो ज्येष्ठस्त्वं मां प्रथममाजहि । वीर्यमत्तकायानां शूराणां नहि वर्धते ॥२३३॥

और राज्य लक्ष्मीसे उदासीनताको प्राप्त हुआ । जिस प्रकार पहले बाहुबली अपने भाई भरतसे द्वेषकर पछताये उसी प्रकार वैश्रवण भी भाई दशाननसे विरोध कर पछताया । वह मन ही मन शान्त अवस्थाको प्राप्त होता हुआ विचार करने लगा कि जिस संसारमें प्राणी नाना योनियोंमें चक्रती भौति परिवर्तन करते रहते हैं वह संसार दुःखका पात्र है, कष्ट स्वरूप है, अतः उसे धिक्कार हो ॥२१६-२२०॥ देखो, ऐश्वर्यमें मत्त होकर मैंने यह कौन-सा कार्य प्रारम्भ कर रखा है कि जिसमें अहंकार वश अपने भाईका विध्वंस किया जाता है ॥२२१॥ वह इस प्रकार उच्छ्वस वचन कहने लगा कि हे दशानन ! सुन, क्षणिक राज्य लक्ष्मीसे प्रेरित होकर यह कौन-सा पापकर्म किया जा रहा है ? ॥२२२॥ मैं तेरी मौसीका पुत्र हूँ अतः तुझपर सगे भाई जैसा स्नेह करता हूँ । भाइयोके साथ अनुचित व्यवहार करना उचित नहीं है ॥२२३॥ यह प्राणी मनोहर विषयोकी आशासे प्राणियोंका वधकर बहुत भारी दुःखसे युक्त भयंकर नरकमें जाता है ॥२२४॥ जिस प्रकार कोई मनुष्य एक दिनका तो राज्य प्राप्त करे और उसके फल स्वरूप वर्ष भर मृत्युको प्राप्त हो उसी प्रकार निश्चयसे यह प्राणी विषयोके द्वारा क्षणस्थायी सुख प्राप्त करता है और उसके फल स्वरूप अपरिमित काल तक दुःख प्राप्त करता है ॥२२५॥ यथार्थमें यह जीवन नेत्रोंकी टिमकारके समान क्षणभङ्गुर है सो हे दशानन ! क्या तू यह जानता नहीं है जिससे भोगोंके निमित्त यह कार्य कर रहा है ? ॥२२६॥ तव दया हीन दशाननने हँसते हुए कहा कि हे वैश्रवण ! यह धर्म श्रवण करनेका समय नहीं है ॥२२७॥ मग्नोन्मत्त हाथियोंपर चढ़े तथा तलवारको हाथमें धारण करनेवाले मनुष्य तो शत्रुका संहार करते हैं न कि धर्मका उपदेश ॥२२८॥ व्यर्थ ही बहुत क्यों बक रहा है ? या तो तलवारके मार्गमें खड़ा हो या मेरे लिए प्रणाम कर । तेरी तीसरी गति नहीं है ॥२२९॥ अथवा तू धनपाल है सो मेरे धनकी रक्षा कर । क्योंकि जिसका जो अपना कार्य होता है उसे करता हुआ वह लज्जित नहीं होता ॥२३०॥ तत्र वैश्रवण फिर दशाननसे बोला कि निश्चय ही तेरी आयु अल्प रह गई है इसीलिए तू इस प्रकार क्रूर वचन बोल रहा है ॥२३१॥ इसके उत्तरमें रोषसे लपित मनको धारण करनेवाले दशाननने फिर कहा कि यदि तेरी सामर्थ्य है तो मार ॥२३२॥ तत्र वैश्रवणने कहा कि तू बड़ा है इसलिए प्रथम तू ही मुझे मार क्योंकि जिनके शरीरमें

ऊर्ध्वं ततो दशास्यस्य शरान् वैश्रवणोऽमुचत् । करानिवावनेर्मूर्ध्नि मध्याह्ने द्योतिपा पति ॥२३४॥
 चिच्छेद सायकान् तस्य ततो वाणैर्दशानन । मण्डप च घन चक्रे क्षणमात्रादनाकुल ॥२३५॥
 रन्ध्रं वैश्रवण प्राप्य शगाङ्गार्धपुणा तत । दशास्यस्याच्छिनच्चाप चक्रे चैत रथच्युतम् ॥२३६॥
 ततोऽन्य रथमारुह्य वेगादम्भोदनिस्वनम् । तथासत्त्वो दशग्रीवो दुर्दंके पुष्पकान्तिकम् ॥२३७॥
 उल्काकारैस्ततस्तेन वज्रदण्डैर्घनेरितै । कणश कवच कौर्ण धनदस्य महारूपा ॥२३८॥
 हृदये शुक्लमालेऽथ भिण्डिमालेन वेगिना । जवान कैकमेयस्त तथा मूर्च्छामितो यत ॥२३९॥
 ततो जातो महाक्रन्दः सैन्ये वैश्रवणाश्रिते । तोपाच्च रक्षसा सैन्ये जात कलकलो महान् ॥२४०॥
 ततो भृत्यै समुद्रदृश्य वीरशय्याप्रतिष्ठित । क्षिप्र यक्षपुर नीतो धनदो भृशदु खित ॥२४१॥
 दशास्योऽपि जित शत्रु ज्ञात्वा निवच्यते रणात् । वीराणा शत्रुभङ्गेन कृतत्व न धनादिना ॥२४२॥
 अथ प्रतिक्रिया चक्रे धनदस्य चिकित्सकै । प्राप्तश्च पूर्ववद्देहमिति चक्रे स चेतसि ॥२४३॥
 द्रुमस्य पुष्पमुक्तस्य भग्नस्य वृषभस्य च । सरसश्चाप्यपद्मस्य वर्तेऽह सद्योऽधुना ॥२४४॥
 मानमुद्रहत. पुसो जीवत मसृतो सुखम् । तच्च मे साम्प्रत नास्ति तस्मान्मुक्त्यर्थमार्यते ॥२४५॥
 एतदर्थं न वाञ्छन्ति सन्तो विषयज सुखम् । यदेतद्भ्रुव स्तोत्र सान्तराय सद्दु खकम् ॥२४६॥
 नागः कस्यचिदप्यत्र कर्मणामिदमहितम् । समस्त प्राणिजातस्य कृतानामन्यजन्मनि ॥२४७॥

वाव नहीं लगता ऐसे शूर वीरोका पराक्रम वृद्धिको प्राप्त नहीं होता ॥२३३॥ तदनन्तर मध्याह्नके समय जिस प्रकार मूर्य अपनी किरणें पृथिवीके ऊपर छोड़ता है उसी प्रकार वैश्रवणने दशानन के ऊपर वाण छोड़े ॥२३४॥ तत्पश्चात् दशाननने अपने वाणोंसे उसके वाण छेद डाले और बिना किसी आकुलताके लगातार छोड़े हुए वाणोंसे उसके ऊपर मण्डप सा तान दिया ॥२३५॥ तदनन्तर अवसर पाकर वैश्रवणने अर्धचन्द्र वाणसे दशाननका धनुष तोड़ डाला और उसे रथसे च्युत कर दिया ॥२३६॥ तत्पश्चात् अद्भुत पराक्रमका धारी दशानन मेघके समान शब्द करनेवाले मेघनाद नामा दूसरे रथपर वेगसे चढ़कर वैश्रवणके समीप पहुँचा ॥२३७॥ वहाँ बहुत भारी क्रोधसे उसने जोर-जोरसे चलाये हुए उल्काके समान आकारवाले वज्रदण्डोंसे वैश्रवण का कवच चूर-चूर कर डाला ॥२३८॥ और सफेद मालाको धारण करनेवाले उसके हृदयमें वेग-शाली भिण्डिमालसे इतने जमकर प्रहार किया कि वह वहीं मूर्च्छित हो गया ॥२३९॥ यह देख वैश्रवणकी सेनामें रुदनका महाशब्द होने लगा और राक्षसोंकी सेनामें हर्षके कारण बड़ा भारी कल-कल शब्द होने लगा ॥२४०॥ तब अतिशय दुःखी और वीरशय्यापर पड़े वैश्रवणको उसके भृत्यगण शीघ्र ही यक्षपुर ले गये ॥२४१॥ रावण भी शत्रुको पराजित जान युद्धसे विमुख हो गया सो ठीक ही है क्योंकि वीर मनुष्योंका कृतकृत्यपना शत्रुओंके पराजयसे ही हो जाता है । धनादिकी प्राप्तिसे नहीं ॥२४२॥

अथानन्तर वैद्योंने वैश्रवणका उपचार किया सो वह पहलेके समान स्वस्थ शरीरको प्राप्त हो गया । स्वस्थ होनेपर उसने मनमें विचार किया ॥२४३॥ कि इस समय मैं पुष्परहित वृक्ष, फूटे हुए घट अथवा कमल रहित सरोवरके समान हूँ ॥२४४॥ जब तक मनुष्य मानको धारण करता है तभी तक संसारमें जीवित रहते हुए उसे सुख होता है । इस समय मेरा वह मान नष्ट हो गया है इसलिए मुक्ति प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करता हूँ ॥२४५॥ चूँकि यह विषयजन्य सुख अनित्य है, थोड़ा है, सान्तराय है और दुःखोंसे सहित है इसलिए सत्पुरुष उसकी चाह नहीं रखते ॥२४६॥ इसमें किसीका अपराध नहीं है, यह तो, प्राणियोंने अन्य जन्ममें जो कर्म कर

१. घनेरित म० । २. मुक्तपुष्पम् । ३. घटस्य । ४. आ समन्ताद् यत्न करोमि । ५. नापराध. ।
 ६. कस्यचिदप्यस्य म० ।

निमित्तमात्रतान्येषामसुखस्य सुखस्य वा । बुधास्तेभ्यो न कुप्यन्ति संसारस्थितिवेदिनः ॥२४८॥
 कल्याणमित्रतां यातः केकसीतनयो मम । गृहावासमहापाशाद्येनाहं मोचितोऽमतिः ॥२४९॥
 बान्धवो भानुकर्णोऽपि सवृत्तः साम्प्रत मम । सग्रामकारणं येन कृत परमसंविदे ॥२५०॥
 इति सचिन्त्य जग्राह दीक्षां दैगम्बरीमसौ । आराध्य च तपः सम्यक् क्रमाद्धाम पर गतः ॥२५१॥
 प्रचाल्य दशवक्त्रोऽपि पराभवमल कुले । सुखासिकामगादुर्व्यां बन्धुभिः शेखरीकृतः ॥२५२॥
 अथ प्रवर्तित तस्य मनोज्ञ धानदाधिपम् । प्रत्युत्तरत्नशिखर वातायनविलोचनम् ॥२५३॥
 मुक्ताजालप्रमुक्तेन समूहेनामलत्विपाम् । समुत्सृजदिव्राजस्रमश्रु स्वामिवियोगतः ॥२५४॥
 पद्मरागविनिर्माणमग्रदेश दधच्छुचा । ताडनादिव सप्राप्तं हृदयं रक्तता पराम् ॥२५५॥
 इन्द्रनीलप्रभाजालकृतप्रवावरणं क्वचित् । शोकादिव परिप्राप्त श्यामलन्वमुदारतः ॥२५६॥
 चैत्यकाननबाह्यालीवाप्यन्तर्भवनादिभिः । सहित नगराकार नानाशस्त्रकृतततम् ॥२५७॥
 भृत्यैरुपाहृतं तुङ्ग सुरप्रासादसन्निभम् । विमान पुष्पकं नाम विहायस्तलमण्डनम् ॥२५८॥
 अरातिभङ्गचिह्नत्वादियेपेद स मौनवान् । अन्यथा तस्य किं नास्ति यान विद्याविनिर्मितम् ॥२५९॥
 स त विमानमारूढ्य सामात्यः सहवाहनः । सपौरः सात्मजः सार्धं पितृभ्यां सहबन्धुभिः ॥२६०॥

रखे हैं उन्हींकी समस्त चेष्टा है ॥२४७॥ दुःख अथवा सुखके दूसरे लोग निमित्त मात्र हैं, इसलिए संसारकी स्थितिके जाननेवाले विद्वान् उनसे कुपित नहीं होते हैं अर्थात् निमित्तके प्रति हर्ष-विषाद नहीं करते हैं ॥२४८॥ वह दशानन मेरा कल्याणकारी मित्र है कि जिसने मुझ दुर्बुद्धिको गृहवास रूपी महाबन्धनसे मुक्त करा दिया ॥२४९॥ भानुकर्ण भी इस समय मेरा परम हितैपी हुआ है कि जिसके द्वारा किया हुआ संग्राम मेरे परम वैराग्यका कारण हुआ है ॥२५०॥ इस प्रकार विचारकर उसने दैगम्बरी दीक्षा धारण कर ली और समीचीन तपकी आराधना कर परम धाम प्राप्त किया ॥२५१॥

इधर दशानन भी अपने कुलके ऊपर जो पराभव रूपी मैल जमा हुआ था उसे धोकर पृथिवीमें सुखसे रहने लगा तथा समस्त बन्धुजनोंने उसे अपना शिरमौर माना ॥२५२॥ अथानन्तर वैश्रवणका जो पुष्पक विमान था उसे रावणके भृत्यजन रावणके समीप ले आये । वह पुष्पक विमान अत्यन्त सुन्दर था, वैश्रवण उसका स्वामी था, उसके शिखरमें नाना प्रकारके रत्न जड़े हुए थे, भूरोखे उसके नेत्र थे, उसमें जो मोतियोंकी झालर लगी थी उससे निर्मल कान्ति का समूह निकल रहा था और उससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वामीका वियोग हो जाने के कारण निरन्तर आँसू ही छोड़ता रहता हो । उसका अग्रभाग पद्मराग मणियोंसे बना था इसलिए उसे धारण करता हुआ वह ऐसा जान पड़ता था मानो शोकके कारण उसने हृदयको बहुत कुछ पीटा था इसीलिए वह अत्यन्त लालिमाको धारण कर रहा था । कहीं-कहीं इन्द्रनील मणियोंकी प्रभा उसपर आवरण कर रही थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो शोकके कारण ही वह अत्यन्त श्यामलताको प्राप्त हुआ हो । चैत्यालय, वन, मकानोंके अग्रभाग, वापिका तथा महल आदिसे सहित होनेके कारण वह किसी नगरके समान जान पड़ता था । नाना शस्त्रोंने उस विमानमें चोटे पहुँचाई थीं, वह बहुत ही ऊँचा था, देव भवनके समान जान पड़ता था और आकाशतलका मानो आभूषण ही था ॥२५३-२५८॥ मानी दशाननने शत्रुकी पराजयका चिह्न समझ उस पुष्पक विमानको अपने पास रखनेकी इच्छा की थी अन्यथा उसके पास विद्या निर्मित कौन-सा वाहन नहीं था ? ॥२५९॥ वह उस विमानपर आरूढ होकर मन्त्रियों, वाहनों,

१. दुर्व्यां क०, ख० । २. अथापवर्तित म० । ३. परम् म० । ४. कृत प्रावरणं म० । ५. गर्वयुक्तः ।

अन्तःपुरमहापद्मखण्डमध्यगतः सुखी । अव्याहृतगतिः स्वेच्छाकृतविभ्रमभूषण ॥२६१॥
 चापत्रिशूलनिस्त्रिंशत्पासपाशादिपाणिभिः । श्रुत्यैरनुगतो भवतैर्विहिताद्भुतकर्मभिः ॥२६२॥
 कृतशत्रुसमूहान्तैः सामन्तैर्बद्धमण्डलैः । गुणप्रवणचेतोभिर्महाविभवशोभितैः ॥२६३॥
 वरविद्याधरीपाणिगृहीतैश्चारुचामरैः । वीज्यमानो विल्लिप्ताङ्गो गोशीर्षादिविलेपनैः ॥२६४॥
 उच्छ्रितेनातपत्रेण रजनीकरशोभिना । यशसेवागत शोभा लब्धेनारातिभङ्गतः ॥२६५॥
 उदार भानुवत्तेजो दधानः पुण्यज फलम् । विन्दन् दक्षिणमम्भोर्धि यथाविन्द्रसम श्रिया ॥२६६॥
 तस्यानुगमन चक्रे कुम्भकर्णो गजस्थित । विभीषणो रथस्थश्च स्वगर्वविभवान्वितः ॥२६७॥
 महादैत्यो मयोऽप्येनमन्विषाय सबान्धवः । सामन्तैः सहितः सिंहशरभादियुतै रथैः ॥२६८॥
 मारीचोऽम्बरविद्युच्च वज्रो वज्रोदरो बुधः । वज्राक्ष क्रूरनक्रश्च सारणः सुनय शुक्रः ॥२६९॥
 मयस्य मन्त्रिणोऽन्ये च बहवः खेचराधिपाः । अनुजग्मुरुदारेण विभवेन समन्विता ॥२७०॥
 दक्षिणाशामशेषा स वशीकृत्य ततोऽन्यत । विजहार महीं पश्यन् सवनाद्रिसमुद्रगाम् ॥२७१॥
 अथासावन्वयापृच्छत् सुमालिनमुद्दमुत । उच्चैर्गगनमारूढो विनयानतविग्रह ॥२७२॥
 सरसीरहितेऽमुष्मिन् पूज्यपर्वतमूर्धनि । वनानि पश्य पद्मानां जातान्येतन्महाद्सुतम् ॥२७३॥
 तिष्ठन्ति निश्चला स्वामिन् कथमत्र महीतले । पतिता विविधच्छाया सुमहान्तः पयोमुचः ॥२७४॥

नागरिकजनों, पुत्रों, माता-पिताओं तथा बन्धुजनोंके साथ चला ॥२६०॥ वह उस विमानके अन्दर अन्तःपुर रूपी महाकमलवनके बीचमें सुखसे बैठा था, उसकी गतिको कोई नहीं रोक सकता था, तथा अपनी इच्छानुसार उसने हावभाव रूपी आभूषण धारण कर रक्खे थे ॥२६१॥ चाप, त्रिशूल, तलवार, भाला तथा पाश आदि शस्त्र जिनके हाथमें थे तथा जिन्होंने अनेक आश्चर्यजनक कार्य करके दिखलाये थे ऐसे अनेक सेवक उसके पीछे-पीछे चल रहे थे ॥२६२॥ जिन्होंने शत्रुओंके समूहका अन्त कर दिया था, जो चक्राकार मण्डल बनाकर पास खड़े थे, जिनका चित्त गुणोंके आधीन था तथा जो महावैभवसे शोभित थे ऐसे अनेक सामन्त उसके साथ जा रहे थे ॥२६३॥ गोशीर्ष आदि विलेपनोंसे उसका सारा शरीर लिप्त था तथा उत्तमोत्तम विद्याधरियों हाथमें लिये हुए सुन्दर चमरोसे उसे हवा कर रही थीं ॥२६४॥ वह चन्द्रमाके समान सुशोभित ऊपर तने हुए छत्रसे ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो शत्रुकी पराजयसे उत्पन्न यशसे ही सुशोभित हो रहा हो ॥२६५॥ वह सूर्यके समान उत्कृष्ट तेजको धारण कर रहा था तथा लक्ष्मीसे इन्द्रके समान जान पड़ता था । इस प्रकार पुण्यसे उत्पन्न फलको प्राप्त होता हुआ वह दक्षिणसमुद्रकी ओर चला ॥२६६॥ हाथीपर बैठा हुआ कुम्भकर्ण और रथपर बैठा तथा स्वाभिमान रूपी वैभवसे युक्त विभीषण इस प्रकार दोनों भाई उसके पीछे-पीछे जा रहे थे ॥२६७॥ भाई बान्धवो एवं सामन्तोंसे सहित महादैत्य मय भी, जिनमें सिंह शरभ आदि जन्तु जुते थे ऐसे रथोंपर बैठकर जा रहा था ॥२६८॥ मरीच, अम्बरविद्युत्, वज्र, वज्रोदर, बुध, वज्राक्ष, क्रूरनक्र, सारण और सुनय ये राजा मयके मन्त्री तथा उत्कृष्ट वैभवसे युक्त अन्य अनेक विद्याधरोंके राजा, उसके पीछे-पीछे चल रहे थे ॥२६९-२७०॥ इस प्रकार समस्त दक्षिण दिशाको वशकर वह वन, पर्वत तथा समुद्रसे सहित पृथिवीको देखता हुआ अन्य दिशाकी ओर चला ॥२७१॥

अथानन्तर एक दिन विनयसे जिसका शरीर मुक्त रहा था, ऐसा दशानन आकाशमें बहुत ऊँचे चढ़कर अपने दादा सुमालीसे आश्चर्यचकित हो पूछता है कि हे पूज्य । इधर इस पर्वतके शिखरपर सरोवर तो नहीं है पर कमलोका वन लहलहा रहा है सो इस महाआश्चर्यको आप देखे ॥२७२-२७३॥ हे स्वामिन् । यहाँ पृथ्वीतलपर पड़े, रंगविरंगे, बड़े-बड़े मेघ, निश्चल

नमः सिद्धेभ्य इत्युक्त्वा सुमाली नमयागदत् । नामूनि शतपत्राणि न चैने वत्स तोयदाः ॥२७५॥
 सिनकेनुकूनच्छायाः सहस्राकारतोर्गा । शृङ्गेषु पर्वतस्यामी विगजन्ते जिनालया ॥२७६॥
 कारिता हरिपेगेन नजनेन महात्मना । एतान् वत्स नमन्त्य त्वं भव पृतमना जगान् ॥२७७॥
 तनस्तत्रन्य एवामौ नमस्कृत्य जिनालयान् । उवाच विस्मयापन्नो धनदस्य विमर्दक ॥२७८॥
 आसीत्किं तस्य माहात्म्यं हरिपेगस्य न्ययताम् । प्रतीक्ष्यतम येनासौ भवद्विरिति कीर्तितः ॥२७९॥
 सुमाली न्यगदच्चैवं साधु पृष्टं दृशानन । चरितं हरिपेगस्य शृणु पापविदारणम् ॥२८०॥
 कान्धिल्यनगरं राजा नाम्ना नृगपतिव्रज । बभूव यशसा व्याससमस्तसुवनो महान् ॥२८१॥
 महिषी तस्य वप्राह्वा प्रमदागुणशालिनी । अभूत् सौभाग्यत प्राप्ता पर्त्ताशतलैलामताम् ॥२८२॥
 हरिपेगं नमुपद्र स ताभ्यां परमोदय । चतुःपण्ड्याशुभैर्युक्तो लक्षणैः कतदुपकृतः ॥२८३॥
 वप्रया चान्यदा जैने मते भ्रमयितुं रथे । आष्टाहिकमहानन्दे नगरे धर्मशीलया ॥२८४॥
 महालक्ष्मीगिति ख्याता सौभाग्यमद्रविह्वला । अवृत्तमवदत्तया सपत्नी दुर्विचिष्टिना ॥२८५॥
 पूर्व ब्रह्मरथो यानु नदीयं पुनर्वर्त्मनि । भ्रमिष्यति ततः पश्चाद्प्रया कारितो रथः ॥२८६॥
 इति श्रुत्वा नतो वप्रा कुरिषेनेव ताडिता । हृदये दुःखसंतप्ता प्रतिजामकरोदिसाम् ॥२८७॥
 भ्रमिष्यति रथोऽथ मे प्रथमं नगरे यटि । पूर्ववत्पुनराहारं करिष्येऽतोऽन्यथा तु न ॥२८८॥
 इत्युक्त्वा च ववन्प्रासां प्रतिज्ञालक्ष्मवेगिनाम् । व्यापाररहितावत्यागोक्त्वाणास्यपङ्कजा ॥२८९॥

होकर कैसे खड़े हैं ? ॥२७५॥ तत्र सुमालीने 'नमः सिद्धेभ्यः' कहकर दशाननसे कहा कि हे वत्स !
 न तो ये कमल हैं और न मेघ ही हैं ॥२७५॥ किन्तु सफेद पताकाएँ जिनपर छाया कर गयी है
 तथा जिनमें हजारों प्रकारके तोरण बने हुए हैं ऐसे ये जिन-मन्दिर पर्वतके शिखरोंपर सुशोभित
 हो रहे हैं ॥२७६॥ ये सब मन्दिर महापुण्य हरिपेग चन्द्रवर्तीके द्वारा वनवाये हुए हैं । हे वत्स !
 तू इन्हें नमस्कार कर और ज्ञणभरमें अपने हृदयको पवित्र कर ॥२७७॥ तदनन्तर वैश्रवणका
 मानदर्शन करनेवाले दशाननने वहीं खड़े रहकर जिनालयोंको नमस्कार किया और आश्चर्यचकित
 हो सुमालीसे पूछा कि पूज्यवर ! हरिपेगका ऐसा क्या माहात्म्य था कि जिनसे आपने उनका
 इस तरह कथन किया है ? ॥२७८-२७९॥ तत्र सुमालीने कहा कि हे दशानन ! तूने बहुत अच्छा
 प्रश्न किया । अब पागको नष्ट करनेवाला हरिपेगका चरित्र सुन ॥२८०॥

कान्धिल्य नगरमें अपने यशके द्वारा समस्त संसारको व्याप्त करनेवाला सिद्धव्रज नामका
 एक बड़ा राजा रहता था ॥२८१॥ उसकी वप्रा नामकी पटरानी थी जो स्त्रियोंके योग्य गुणोंसे
 सुशोभित थी तथा अपने सौभाग्यके कारण सैकड़ों रानियोंमें आभूषणपनाको प्राप्त थी ॥२८२॥
 उन् द तोसे परम अभ्युदयको वारण करनेवाला हरिपेग नामका पुत्र हुआ । वह पुत्र उत्तमोत्तम
 चौंसठ लक्षणोंसे युक्त था तथा पापोंको नष्ट करनेवाला था ॥२८३॥ किसी एक समय आष्टाहिक
 महात्मव आया तो धर्मशील वप्रा गताने नगरमें जिनेन्द्र भगवानका रथ निकलवाना चाहा
 ॥२८४॥ राजा सिद्धव्रजकी महालक्ष्मी नामक दूसरी रानी थी जो कि सौभाग्यके गर्वसे सदा
 विह्वल रहती थी । अनेक खाटी चैष्टाओंसे भरी महालक्ष्मी वप्राकी सौत थी इसलिए उसने
 उसके विरुद्ध आवाज उठाई कि पहले मेरा ब्रह्मरथ नगरको गलियोंमें धूमेगा । उसके पीछे वप्रा
 गनीके द्वारा वनवाया हुआ जैतरथ धूम सजेगा ॥२८५-२८६॥ यह सुनकर वप्राको इतना दुःख
 हुआ कि मानो उसके हृदयमें वज्रकी ही चोट लगी हो । दुःखसे सन्तप्त होकर उसने प्रतिज्ञा की
 कि यदि मेरा यह रथ नगरमें पहिले धूमेगा तो मैं पूर्वकी तरह पुनः आहार कहूँगी अन्यथा
 नहीं ॥२८७-२८८॥ यह कहकर उसने प्रतिज्ञाके चिह्नस्वरूप वेणी बाँध ली और सब काम छोड़

१. अदिशयेन वृत्त्य । २. पत्नी सा लक्ष्मिनाम् म० । ३. आमरणताम् । ४. चतुःपण्ड्यशुभै - म०, ख० ।
 ५. रथम् म०, वप्रा जैने रथं भ्रमयितुं मते इट्टे तर्तीत्यर्थः । ६. प्रतिज्ञां लक्ष्य म० ।

ततः श्वासान् विमुञ्चन्तीमश्रुविन्दूननारतम् । हरिपेण. समालोक्य जननीमित्यवोचत् ॥२६०॥
 मात कस्मादिदं पूर्वं स्वप्नेऽपि न निषेवितम् । त्वया रोदनमारब्धममङ्गलमल वद ॥२६१॥
 तथोक्त स तत. श्रुत्वा हेतुमेव व्यचिन्तयत् । किं करोमि गुरो पीडा प्राप्तेय कथमीरिता ॥२६२॥
 पिताय जननी चैषा द्वावत्येती महागुरु । करोमि क प्रतिद्वेषमहो मग्नोऽस्मि सकटे ॥२६३॥
 असमर्थस्ततो द्रष्टु मातर साश्रुलोचनाम् । निष्क्रम्य भवनाद्यातो वन व्यालसमाकुलम् ॥२६४॥
 तत्र मूलफलादीनि भक्षयन् विजने वने । सरस्सु च पिवन्नम्भो विजहार भयोऽङ्कित ॥२६५॥
 रूपमेतस्य त दृष्ट्वा पगवोऽपि सुनिर्दया । क्षणेनोपशम जग्मुर्भव्य कस्य न समत. ॥२६६॥
 तत्रापि स्मर्यमाण तत्कृत मात्रा प्ररोदनम् । वधाधे तं प्रलापश्च कृतो गद्गदकण्ठया ॥२६७॥
 रम्येष्वपि प्रदेशेषु वने तत्रास्य नो धृति. । वभूव कुर्वतो नित्य भ्रमण मृदुचेतसा ॥२६८॥
 वनदेव इति भ्रान्ति कुर्वाणोऽसावनारतम् । दूरविस्तारितार्क्षामिर्मृगीभि. कृतवीक्षण ॥२६९॥
 समियायाद्भिर शिष्यशतमन्युवनाश्रमम् । विरोध दूरमुज्जिक्त्वा वनप्राणिभिराश्रितम् ॥३००॥
 चम्पायामथ रुद्राया कालकल्पास्त्रभूश्रुता । रुद्रेण साधनं भूरि विभ्रता पुरुतेजसा ॥३०१॥
 यावत्तेन सम युद्ध चकार जनमेजय. । पूर्वं रचित्तया तावत्सुदूरगसुरङ्गया ॥३०२॥

दिया । उसका मुखकमल शोकसे मुरझा गया, वह निरन्तर मुखसे श्वास और मेत्रोसे आँसू छोड़ रही थी । माताकी ऐसी दशा देख हरिपेणने कहा कि हे मात । जिसका पहले कभी स्वप्नमे भी तुमने सेवन नहीं किया वह अमाङ्गलिक रुदन तुमने क्यों प्रारम्भ किया ? अब वश करो और रुदनका कारण कहो ॥२६०-२६१॥ तदनन्तर माताका कहा कारण सुनकर हरिपेणने इस प्रकार विचार किया कि अहो ! मैं क्या करूँ ? यह बहुत भारी पीडा प्राप्त हुई है सो पितासे इसे कैसे कहूँ ? ॥२६२॥ वह पिता हैं और यह माता हैं । दोनों ही मेरे लिए परम गुरु हैं । मैं किसके प्रति द्वेष करूँ ? आश्चर्य है कि मैं बड़े संकटमे आ पड़ा हूँ ॥२६३॥ कुछ भी हो पर मैं रुदन करती माताको देखनेमे असमर्थ हूँ । ऐसा विचारकर वह महलसे निकल पड़ा और हिंसक जन्तुओसे भरे हुए वनमे चला गया ॥२६४॥ वहाँ वह निर्जन वनमे मूल, फल आदि खाता और सरोवरमे पानी पीता हुआ निर्भय हो घूमने लगा ॥२६५॥ हरिपेणका ऐसा रूप था कि उसे देखकर दुष्ट पशु भी क्षणभरमे उपशम भावको प्राप्त हो जाते थे सो ठीक ही है क्योंकि भव्यजीव किसे नहीं प्रिय होता है ? ॥२६६॥ निर्जन वनमे भी जब हरिपेणको माताके द्वारा किये हुए रुदनकी याद आती थी तब वह अत्यन्त दुःखी हो उठता था । माताने गद्गद कण्ठसे जो भी प्रलाप किया वह मव स्मरण आनेपर उसे बहुत कुछ वाधा पहुँचा रहा था ॥२६७॥ कोमल चित्तसे निरन्तर भ्रमण करनेवाले हरिपेणको वनके भीतर एक-से-एक बढ़कर मनोहर स्थान मिलते थे पर उनमें उसे धैर्य प्राप्त नहीं होता था ॥२६८॥ क्या यह वनदेव है ? इस प्रकारकी भ्रान्ति वह निरन्तर करता रहता था और हरिणियों उसे दूर तक आँख फाड़-फाड़कर देखती रहती थीं ॥२६९॥ इस प्रकार घूमता हुआ हरिपेण, जहाँ वनमे प्राणी परस्परका वैरभाव दूर छोड़कर शान्तिसे रहते थे ऐसे अंगिरसऋषिके शिष्य शतमन्युके आश्रममे पहुँचा ॥३००॥

अथानन्तर एक कालकल्प नामका राजा था जो महाभयकर, महाप्रतापी और बहुत बड़ी सेनाको धारण करनेवाला था सो उसने चारो ओरसे चम्पा नगरीको घेर लिया ॥३०१॥ चम्पाका राजा जनमेजय जब तक उसके साथ युद्ध करता है तब तक पहलेसे वनवाई हुई लम्बी सुरंगसे माता नागवती अपनी पुत्रीके साथ निकलकर शतमन्यु ऋषिके उस आश्रममे पहलेसे

नाम्ना नागवती तस्या माता तनुजया समम् । पूर्वमेव गता देश शतमन्युयतिश्रितम् ॥३०३॥
 नागवत्या सुता तस्मिन् दृष्ट्वा त रूपशालिनम् । मन्मथस्य शरैर्विद्धा तनुविक्रवताकरैः ॥३०४॥
 ततस्तामन्यथाभूतां दृष्ट्वा नागवती जगौ । सुते भव विनोता त्वं स्मर वाक्य महामुने. ॥३०५॥
 पूर्वं हि मुनिना प्रोक्त यथा त्व चक्रवर्तिनः । भविता वनितारत्नमिति सज्ञा न चक्षुषा ॥३०६॥
 रक्ता च तस्य तां ज्ञात्वा भृश भीतैरकीर्तितः । आश्रमात्तापसैर्मूर्धैर्हरिपेणो निराकृतः ॥३०७॥
 ततो दग्धोऽपमानेन कन्यामादाय चेतसा । वभ्राम सततं श्लिष्टो भ्रामयैव स विद्यया ॥३०८॥
 नाशने शयनीये न पुष्पपल्लवकल्पिते । फलानां भोजने नैव पाने वा सरसोऽम्भस. ॥३०९॥
 न ग्रामे नगरे नोपवने रम्यलतागृहे । धृति लेभे समुत्कण्ठभराक्रान्तः स शोकवान् ॥३१०॥
 दावाग्निसदृशास्तेन पद्मखण्डा निरीक्षिता. । वज्रसूर्चासमास्तस्य वभूवुश्चन्द्ररश्मय. ॥३११॥
 विशालपुलिनाश्वास्य स्वच्छतोयाः समुद्रगाः । मनो वहन्ति चाकृष्टकन्याजघनसाम्यतः ॥३१२॥
 मनोऽस्य केतकीसूची कुन्तयष्टिरिवाभिनत् । चक्रवच्च कदम्बाना पुष्प सुरभि चिच्छिद्ये ॥३१३॥
 कुटजाना विधूतानि कुसुमानि नभस्वता । मर्माणि चिच्छिद्युस्तस्य मन्मथस्येव सायका. ॥३१४॥
 इति चाचिन्तयल्लप्स्ये स्त्रीरत्न यदि नाम तत् । ततः शोकमह मातुरपनेप्याम्यसशयम् ॥३१५॥
 प्राप्तमेव ततो मन्ये पतित्व भरतेऽखिले । आकृतिर्न हि सा तस्या. स्तोक्रभोगविधायिनी ॥३१६॥
 नदीकूलेष्वरण्येषु ग्रामेषु नगरेषु च । पर्वतेषु च चैत्यानि कारयिष्याम्यह ततः ॥३१७॥
 मातुः शोकेन सतप्तो मृतः स्यां यदि तामहम् । न पश्येय धृतो जीवो मम तत्सगमाशया ॥३१८॥

ही पहुँच गई थी ॥३०२-३०३॥ वहाँ नागवतीकी पुत्री सुन्दर रूपसे सुशोभित हरिपेणको देखकर शरीरमे वेचैनी उत्पन्न करनेवाले कामदेवके वाणोसे वायल हो गई ॥३०४॥ तदनन्तर पुत्रीको अन्यथा देख नागवतीने कहा कि हे पुत्रि ! सावधान रह, तू महामुनिके वचन स्मरण कर ॥३०५॥ सम्यग्ज्ञानरूपी चञ्चुको धारण करनेवाले मुनिराजने पहले कहा था कि तू चक्रवर्तीका स्त्रीरत्न होगी ॥३०६॥ तापसियोंको जब मालूम हुआ कि नागवतीकी पुत्री हरिपेणसे बहुत अनुराग रखता है तो अपकीर्णसे डरकर उन मूढ तापसियोंने हरिपेणको आश्रमसे निकाल दिया ॥३०७॥ तब अपमानसे जला हरिपेण हृदयमे कन्याको धारणकर निरन्तर इधर-उधर घूमता रहा । ऐसा जान पड़ता था मानो वह भ्रामरी विद्यासे आलिङ्गित होकर ही निरन्तर घूमता रहता था ॥३०८॥ उत्कण्ठाके भारसे दबा हरिपेण निरन्तर शोकग्रस्त रहता था । उसे न भोजनमे, न पुष्प और पल्लवोसे निर्मित शय्यामे, न फलोंके भोजनमे, न सरोवरका जल पीनेमे, न गाँवमे, न नगरमे, और न मनोहर निकुञ्जोसे युक्त उपवनमे धीरज प्राप्त होता था ॥३०९-३१०॥ कमलके समूहको वह दावानलके समान देखता था और चन्द्रमाकी किरणे उसे वज्रकी सुईके समान जान पड़ती थी ॥३११॥ विशाल तटोसे सुशोभित एवं स्वच्छ जलको धारण करनेवाली नदियों इसके मनको इसलिए आकर्षित करती थीं, क्योंकि उनके तट, इसके प्रति आकर्षित कन्याके नितम्बोकी समानता रखते थे ॥३१२॥ केतकी की अनी भालेके समान इसके मनको भेदती रहती थी और कदम्बवृक्षोके सुगन्धित फूल चक्रके समान छेदते रहते थे ॥३१३॥ वायुके मन्द-मन्द भ्रोकसे हिलते हुए कुटज वृक्षोके फूल कामदेवके वाणोके समान उसके मर्मस्थल छेदते रहते थे ॥३१४॥ हरिपेण ऐसा विचार करता रहता था कि यदि मैं उस स्त्रीरत्नको पा सका तो निःसन्देह माताका शोक दूर कर दूँगा ॥३१५॥ यदि वह कन्या मिल गई तो मैं यही समझूँगा कि मुझे समस्त भरत क्षेत्रका स्वामित्व मिल गया है । क्योंकि उसकी जो आकृति है वह अल्पभोगोको भोगनेवाली नहीं है ॥३१६॥ यदि मैं उसे पा सका तो नदियोंके तटोपर, वनोंमे, गाँवोमे, नगरोमे और पर्वतो पर जिन-मन्दिर वनवाँसगा ॥३१७॥ यदि मैं उसे नहीं देखता तो माताके शोकसे संतप्त होकर

चिन्तयन्निति चान्यच्च बहुदु खितमानसः । विस्मृतो जननीशोकं स वज्राम ग्रही यथा ॥३१६॥
 पर्यटश्च बहून् देशान् प्राप्त सिन्धुनद पुरम् । तदवस्थोऽपि वीर्येण तेजसा चोरुणान्वित ॥३२०॥
 वहि क्रीडाविनिष्क्रान्तास्तत्र त वीचय योपित । स्तम्भिता इव निश्चेष्टाः स्पष्टावय शतशोऽभवन् ॥३२१॥
 पुण्डरीकेक्षण मेरुकटकोदारवक्षसम् । दिङ्मतङ्गजकुम्भांसमिभस्तम्भसमोरुकम् ॥३२२॥
 उन्मत्तत्वमुपेतानामनन्यगतचेतसाम् । पश्यन्तीनां न त नृसिर्वभूव पुरयोपिताम् ॥३२३॥
 अयाञ्जनगिरिच्छाद्यः प्रगलहाननिर्भर । आजगाम गजस्तासा स्त्रीणामभिमुखो बलात् ॥३२४॥
 न शक्नोमि गज धतुं कुस्ताशु पलायनम् । यद्वि शक्तियुता नार्य इत्यारोहेण चोदितम् ॥३२५॥
 नरवृन्दारकासक्तचेतनास्ता न तद्वचः । चक्रुः श्रवणयोर्नापि समर्या, प्रपलायितुम् ॥३२६॥
 मुहुः प्रचण्डमारोहे ततो रटति चेतितम् । वनिताभिर्बभूवुश्च भव्यन्याकुलचेतस ॥३२७॥
 ततस्ता, शरणं जगमुस्त नर कृतकम्पना । भयेनोपकृत तासां तत्समागमचेतसाम् ॥३२८॥
 तत स करुणायुक्तो हरिपेणो व्यचिन्तयत् । सभ्रान्तोत्तमरामाङ्गसगमात् पुलकाञ्चितः ॥३२९॥
 इत, सिन्धुर्नाभीरोऽयमित शालो गजोऽन्यत । सकटे तु परिप्राप्ते करोमि प्राणिपालनम् ॥३३०॥
 वृष खनति वल्मीक शृङ्गाभ्यां न तु भूधरम् । पुरुष कदलीं छिन्ते सायकेन शिलां तु न ॥३३१॥
 मृदु पराभयत्येप लोकः प्रखलचेष्टित । उद्धृत्याप्यसुख कर्तुं नाभिवाञ्छति कर्कशे ॥३३२॥

कभीका मर जाता । वास्तवमे मेरे प्राण उसीके समागमकी आशासे रुके हुए हैं ॥३१६॥ जिसका मन अत्यन्त दुःखी था ऐसा हरिषेण इस प्रकार तथा अन्य प्रकारकी चिन्ता करता हुआ माताका शोक भूल गया । अब तो वह भूताक्रान्त मानवके समान इधर उधर घूमने लगा ॥३१६॥ इस प्रकार अनेक देशोमे घूमता हुआ सिन्धुनद नामक नगरमे पहुँचा । यद्यपि उसकी वैसी अवस्था हो रही थी तो भी वह बहुत भारी पराक्रम और विशाल तेजसे युक्त था ॥३२०॥ उस नगरकी जो छियाँ क्रीड़ा करनेके लिए नगरके बाहर गई थी वे हरिषेणको देखकर आश्चर्यचकितकी तरह निश्चेष्ट हो गईं । वे सैकड़ों बार आँखे फाड़-फाड़कर उसे देखती थीं ॥३२१॥ जिसके नेत्र कमलके समान थे, जिसका चक्षुःस्थल मेरुपर्वतके कटकके समान लम्बा चौड़ा था, जिसके कन्धे दिग्गजके गण्डस्थलके समान थे, और जिसकी जोँघे हाथी बौधनेके खम्भेके समान सुपुष्ट थीं ऐसे हरिषेणको देखकर वे छियाँ पागल सी हो गईं, उनके चित्त ठिकाने नहीं रहे तथा उसे देखते-देखते उन्हें नृप्ति नहीं हुई ॥३२२-३२३॥

अथानन्तर—अञ्जनगिरिके समान काला और भरते हुए मदसे भरा एक हाथी बलपूर्वक उन छियोंके सामने आया ॥३२४॥ हाथीका महावत जोर-जोरसे चिल्ला रहा था कि हे छियो ! यदि तुम लोगोमे शक्ति है तो शीघ्र ही भाग जाओ, मैं हाथीको रोकनेमें असमर्थ हूँ ॥३२५॥ पर छियाँ तो श्रेष्ठ पुरुष हरिषेणके देखनेमे आसक्त थीं इसलिए महावतके वचन नहीं सुन सकी और न भागनेमे ही समर्थ हुईं ॥३२६॥ जब महावतने बार-बार जोरसे चिल्लाना शुरू किया तब छियोने उस ओर ध्यान दिया और तब वे भयसे व्याकुल हो गईं ॥३२७॥ तदनन्तर कॉपती हुई वे छियाँ हरिषेणकी शरणमे गईं । इस तरह उसके साथ समागमकी इच्छा करनेवाली छियाँका भयने उपकार किया ॥३२८॥ तत्पश्चात् घबड़ाई हुई उत्तम छियोंके शरीरके संपर्कसे जिसे रोमाञ्च उठ आये थे ऐसे हरिषेणने दयायुक्त हो विचार किया ॥३२९॥ कि इस ओर गहरा समुद्र है, उस ओर प्राकार है और उधर हाथी है इस तरह सङ्कट उपस्थित होनेपर मैं प्राणियोंकी रक्षा अवश्य करूँगा ॥३३०॥ जिस प्रकार बैल अपने सींगोसे चामीको खोदता है पर्वतको नहीं । और पुरुष बाणसे केलेके वृक्षको छेड़ता है शिलाको नहीं ॥३३१॥ इसी प्रकार दुष्ट चेष्टाओसे

१. च + ऊरुणा = विशालेन, चारुणा म० । २. स्पष्टाक्षाः । ३. शक्नुवतो म० । ४. हस्तिपके ।
 ५. जातम् । ६. शालोऽयमेकतः क० । ७. उद्धृत्याप्य म० । ८. कर्कशः क० ।

क्लीवास्ते तापसा येन क्षमा तेषां मया कृता । सारङ्गसमवृत्तीनां निर्वासेन कृतागसाम् ॥३३३॥
 वसतां गुरुोहेषु क्षमात्यन्तगरीयसी । कृता सा हि हितात्यन्त संजाता परमोदया ॥३३४॥
 उक्तमेवं ततस्तेन तारनिष्ठुरया गिरा । भो भो हस्तिपकान्येन नय देशेन वारणम् ॥३३५॥
 ततो हस्तिपकेनोक्तमहो ते घृष्टता परा । यन्मनुष्य गजं वेत्ति स्व च वेत्ति मतङ्गजम् ॥३३६॥
 नून मृत्युसमीपोऽसि यन्मद्वहसे गजे । ग्रहेण वा गृहीतोऽसि ब्रजास्मादाशु गोचरात् ॥३३७॥
 विहस्य स ततः कोपाललीलया कृतनर्तनः । सान्त्वयित्वाङ्गनाः कृत्वा घृष्टतो गजमभ्यगात् ॥३३८॥
 विघ्नद्विलसितेनासौ करुणेन ततो नभः । उत्पत्य दशने पादं कृत्वाऽरुचन्मतङ्गजम् ॥३३९॥
 ततः क्रीडितुमारमे गजेन सह लीलया । दृष्टनष्टं समस्तेषु गात्रेष्वस्य पुनर्भुवि ॥३४०॥
 पारम्पर्यं ततः श्रुत्वा कृत्वा कलकलं महत् । विनिष्क्रान्त पुर सर्वं दृष्टुमेतन्महान्द्रुतम् ॥३४१॥
 वातायनगताश्चेत्तां चक्रिरे त महाङ्गनाः । चक्रुर्मनोरथान् कन्यास्तत्समागमसगतान् ॥३४२॥
 आस्फालनैर्महाशब्दैर्मुहुर्गात्रविधूननैः । कृतोऽसौ निर्मदस्तेन क्षणमात्रेण वारणः ॥३४३॥
 हर्म्यपृष्ठगतो दृष्ट्वा तदाश्चर्यं पुराधिपः । सिन्धुनामाखिल तस्मै प्रजिघाय परिच्छदम् ॥३४४॥
 ततः कुथाकृतच्छाये नानावर्णकभासुरे । आरूढः स गजे तस्मिन् विभूत्या परयान्वित ॥३४५॥

भरा मानव कोमल प्राणीका ही पराभव करता है, कठोर प्राणीको दुःख पहुँचानेकी वह इच्छा भी नहीं करता ॥३३२॥ वे तापसी तो अत्यन्त दीन थे इस लिए मैंने उनपर क्षमा धारण की थी । उन तापसियोंने आश्रमसे निकालकर यद्यपि अपराध किया था पर उनकी वृत्ति हरिणोंके समान दीन थी साथ ही वे गुरुओंके घर रहते थे इसलिए उनपर क्षमा धारण करना अत्यन्त श्रेष्ठ था । यथार्थमे मैंने उनपर जो क्षमा की थी वह मेरे लिए अत्यन्त हितावह तथा परमाभ्युदयका कारण हुई है ॥३३३-३३४॥ तदनन्तर हरिपेणने बड़े जोरसे चिल्लाकर कहा कि रे महावत ! तू हाथी दूसरे स्थानसे ले जा ॥३३५॥ तव महावतने कहा कि अहो ! तेरी बड़ी घृष्टता है कि जो तू हाथीको मनुष्य समझता है और अपनेको हाथी मानता है ॥३३६॥ जान पड़ता है कि तू मृत्युके समीप पहुँचनेवाला है इसीलिए तो हाथीके विषयमे गर्व धारण कर रहा है अथवा तुम्हे कोई भूत लग रहा है । यदि भला चाहता है तो शीघ्र ही इस स्थानसे चला जा ॥३३७॥ तदनन्तर क्रोधवश लीलापूर्वक नृत्य करते हुए हरिपेणने जोरसे अट्टहास किया, स्त्रियोंको सान्त्वना दी और स्वयं स्त्रियोंको अपने पीछे कर हाथीके सामने गया ॥३३८॥ तदनन्तर विजलीकी चमकके समान शीघ्र ही आकाशमे उछलकर और खीशपर पैर रखकर वह हाथीपर सवार हो गया ॥३३९॥ तदनन्तर उसने लीलापूर्वक हाथीके साथ क्रीड़ा करना शुरू किया । क्रीड़ा करते-करते कभी तो वह दिखाई देता था और कभी अदृश्य हो जाता था । इस तरह उसने हाथीके समस्त शरीरपर क्रीड़ा की पश्चात् पृथ्वीपर नीचे उतरकर भी उसके साथ नाना क्रीड़ाएँ कीं ॥३४०॥ तदनन्तर परम्परासे इस महान् कल-कलको सुनकर नगरके सब लोग इस महाआश्चर्यको देखनेके लिए बाहर निकल आये ॥३४१॥ बड़ी-बड़ी स्त्रियोंने झरोखोमे बैठकर उसे देखा तथा कन्याओंने उसके साथ समागमकी इच्छाएँ कीं ॥३४२॥ आस्फालन अर्थात् पीठपर हाथ फेरनेसे, जोरदार डॉटडपटके शब्दोंसे और वार-वार शरीरके कम्पनसे हरिपेणने उस हाथीको क्षणभरमे मदरहित कर दिया ॥३४३॥ नगरका राजा सिन्धु, महलकी छतपर बैठा हुआ यह सब आश्चर्य देख रहा था । वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने हरिपेणको बुलानेके लिए अपना समस्त परिकर भेजा ॥३४४॥ तदनन्तर रङ्ग-विरङ्गी मूलसे जिसकी शोभा बढ़ रही थी तथा नाना रङ्गोंके चित्रामसे जो शोभायमान था ऐसे उसी हाथी पर वह बड़े वैभवसे

मनासि पौरनारीणामुच्चिन्वन् रूपपाणिना । प्रविवेश पुर स्वेदविन्दुमुक्ताफलान्वित ॥३४६॥
 नराविपस्य कन्यार्ना परिणीत तत शतम् । तेन सर्वत्र चासक्ता हरिपेणमयी कथा ॥३४७॥
 महान्तमपि सम्राटः सन्मान स नरेश्वरात् । स्त्रीरत्नेन विना मेने ता वर्धमिव शर्वरीम् ॥३४८॥
 अचिन्तयच्च नून सा मया विरहिताधुना । मृगीवाकुलता प्राप्ता परमां विपमे वने ॥३४९॥
 सकृद्रेषा कथञ्चिच्चेत् त्रियामा क्षयमेष्यति । गमिष्यामि ततो वालामेता द्रागनुकम्पितुम् ॥३५०॥
 विचिन्तत्येवमेतस्मिन् शयनीयेऽतिशोभने । चिरेण निद्रया लब्धं पदमत्यन्तकृच्छ्रत ॥३५१॥
 स्वप्नेऽपि च स तामेव दृश्यान्मोजलोचनाम् । प्रायो हि मानसस्यास्य सैव गोचरतामगात् ॥३५२॥
 अथ वेगवती नाम्ना कलागुणविशारदा । खेचराधिपकन्यायाः सखी तमहरत् क्षणात् ॥३५३॥
 ततो निद्राक्षये दृष्ट्वा हियमाण स्वमन्त्रे । पापे हरसि मा कस्मादिति व्याहृत्य कोपतः ॥३५४॥
 दृष्ट्वा निपतारात् सदप्रद्वन्द्वदः । मुष्टिं बबन्ध ता हन्तु वज्रमुद्गरसन्निभाम् ॥३५५॥
 ततस्त कुपित दृष्ट्वा पुरुष चारुलक्षणम् । विद्यावलसमृद्धापि शङ्किता सेत्यभाषत ॥३५६॥
 आरूढस्तस्मात्प्राया छिन्ते तस्या यथा नरः । मूल तथा करोपि त्व ममायुष्मन् विहिसनम् ॥३५७॥
 यदर्थं नीयते तात त्व मया तद्गतो भवान् । सत्य ज्ञास्यसि नह्यस्य वपुस्तव दुःखिता ॥३५८॥
 अचिन्तयच्च भद्रेय वनिता चारुभाषिणी । आकृति कथयत्यस्याः परपीडा निवृत्तताम् ॥३५९॥

आरूढ़ हुआ ॥३४५॥ जो पसीनेकी वूँटोंके वहाने मानो मोतियोंसे सहित था ऐसा हरिपेण अपने सौन्दर्य रूपीसे हाथसे नगरकी स्त्रियोंका मन सचित करता हुआ नगरमें प्रविष्ट हुआ ॥३४६॥ तदनन्तर उसने राजाकी सौ कन्याओंके साथ विवाह किया । इस प्रकारसे जहाँ देखो वहीं—सर्वत्र हरिपेणकी चर्चा फैल गई ॥३४७॥ यद्यपि उसने राजासे बहुत भारी सन्मान प्राप्त किया था तो भी तापसियोंके आश्रममें जो स्त्रीरत्न देखा था उसके विना उसने एक रातको वर्षके समान समझा ॥३४८॥ वह विचार करने लगा कि इस समय निश्चय ही वह कन्या मेरे विना विपम वनमें हरिणीके समान परम आकुलताको प्राप्त होती होगी ॥३४९॥ यदि यह रात्रि किसी तरह एक वार भी समाप्त हो जाय तो मैं शीघ्र ही उस वालापर दया करनेके लिए दौड़ पड़ूँगा ॥३५०॥ यह अत्यन्त मुशोभित शय्यापर पड़ा हुआ ऐसा विचार करता रहा । विचार करते-करते बड़ी देर बाद बहुत कठिनाईसे उसे नींद आई ॥३५१॥ स्वप्नमें भी यह उसी कमल-लोचनाको देखता रहा सो ठीक ही है क्योंकि प्रायः करके इसके मनका वही एक विषय रह गई थी ॥३५२॥

अथानन्तर विद्याधर राजाकी कन्याकी सहेली वेगवती जो कि सर्व प्रकारकी कलाओं और गुणोंमें त्रिशारद थी, सोते हुए हरिपेणको क्षण एकमें हर कर ले गई ॥३५३॥ जब उसकी निद्रा भग्न हुई तो उसने अपने आपको आकाशमें हरा जाता देख क्रोधपूर्वक वेगवतीसे कहा कि री पापिनि ! तू मुझे किस लिए हर लिये जा रही है ? ॥३५४॥ जिसके नेत्रोंकी समस्त पुतलियाँ दिख रही थीं तथा जिसने आँठ डश रक्खा था ऐसे हरिपेणने उस वेगवतीको मारनेके लिए वज्रमय मुद्गरके समान मुट्टी बौंधी ॥३५५॥ तदनन्तर सुन्दर लक्षणोंके धारक हरिपेणको कुपित देख वेगवती यद्यपि विद्यावलसे समृद्ध थी तो भी भयभीत हो गई । उसने उससे कहा कि हे आयुष्मन् ! जिस प्रकार वृक्षकी शाखापर चढा कोई मनुष्य उसीकी जड़को काटता है उसी प्रकार मुझपर आरूढ़ हुए तुम मेरा ही घात कर रहे हो ॥३५६-३५७॥ हे तात ! मैं तुम्हें जिस लिए ले जा रही हूँ तुम जब उसको प्राप्त होओगे तब मेरे वचनोंकी यथार्थता जान सकोगे । यह निश्चित समझो कि वहाँ जाकर तुम्हारे इस शरीरको रञ्जमात्र भी दुःख नहीं होगा ॥३५८॥ वेगवतीका कहा सुनकर हरिपेणने विचार किया कि यह स्त्री मन्त्र तथा मधुरभाषिणी है ।

१. शर्वरी म० । २. द्रागनुचिन्तनम् म० । ३. विचिन्तयत्येव म० । ४. छिन्ने म० ।

यथेद स्पन्दते चक्षुर्दक्षिण मम साम्प्रतम् । तथा च कल्पयाम्येषा प्रियसंगमकारिणी ॥३६०॥
 पुनश्चानेन सा पृष्टा भद्रे वेदय कारणम् । ललामसंकथासगात् कर्णौ तावत्प्रतर्पय ॥३६१॥
 जगाद चेति राजास्ति पुरे सूर्योदये वरे । नाम्ना शक्रधनुस्तस्य भार्या धीरिति कीर्तिता ॥३६२॥
 गुणरूपमद्रग्रस्ता जयचन्द्रा तयोः सुता । पुरुषद्वेषिणी जाता पितृवाक्यापकर्णिनी ॥३६३॥
 यो यस्तस्या मयालिख्य पट्टके दर्शितः पुरा । सकले भरतक्षेत्रे नासौ तस्या रुचौ स्थितः ॥३६४॥
 ततो भवान् मया तस्या दर्शितः पट्टकस्थितः । गाढाकल्पकशल्पेन शल्यिता चेदमव्रवीत् ॥३६५॥
 कामभोगोपमानेन समं यदि न युज्यते । मृत्यु ततः प्रपत्स्येऽहं नत्वन्यमधम वरम् ॥३६६॥
 प्रतिज्ञा च पुरस्तस्या मयेय दुष्करा कृता । शोकमत्युत्कटं दृष्ट्वा तद्गुणाकृष्टचित्तया ॥३६७॥
 यदि तं नानये शीघ्रं त्वन्मानसमलिम्बुचम् । ज्वालाजटालमनिल प्रविशामि ततः सखि ॥३६८॥
 प्रतिज्ञायेति पुण्येन प्राप्तोऽसि महता मया । त्वत्प्रसादात्करिष्यामि प्रतिज्ञा फलसंगताम् ॥३६९॥
 सूर्योदयपुरं चैषा प्राप्ता स च निवेदितः । आनीतः शक्रचापाय कन्यायै च मनोहरः ॥३७०॥
 ततः पाणिग्रहश्चक्रे तयोरद्भुतरूपयोः । विस्मयापन्नचेतोभिः स्वजनैरभिनन्दितः ॥३७१॥
 सपादितप्रतिज्ञा च प्राप्ता वेगवती परम् । सन्मानं राजकन्याभ्यां प्रमद च तथा यशः ॥३७२॥
 त्यक्त्वा नौ धरणीवासो गृहीतः पुरुषोऽनया । इति सचिन्त्य कुपितौ तस्या मैथुनिकौ च तौ ॥३७३॥

इसकी आकृति ही बतला रही है कि यह पर-पीड़ासे निवृत्त है अर्थात् कभी किसीको पीड़ा नहीं पहुँचाती ॥३५६॥ और चूँकि इस समय मेरी दाहिनी आँख फड़क रही है इससे निश्चय होता है कि यह अवश्य ही प्रियजनोका समागम करावेगी ॥३६०॥ तब हरिषेणने उससे फिर पूछा कि हे भद्रे ! तू ठीक-ठीक कारण बता और मनोहर कथा सुनाकर मेरे कानोको सन्तुष्ट कर ॥३६१॥ इसके उत्तरमें वेगवतीने कहा कि सूर्योदय नामक श्रेष्ठ नगरमें राजा शक्रधनु रहता है । उसकी स्त्री धी नामसे प्रसिद्ध है । उन दोनोंके जयचन्द्रा नामकी पुत्री है जो कि गुण तथा रूपके अहङ्कारसे ग्रस्त है, पुरुषोंके साथ द्वेष रखती है और पिताके वचनोंकी अवहेलना करती है ॥३६२-३६३॥ समस्त भरत क्षेत्रमें जो-जो उत्तम पुरुष थे उन सबके चित्रपट बनाकर मैंने पहले उसे दिखलाये हैं पर उसकी रुचिमें एक भी नहीं आया ॥३६४॥ तब मैंने आपका चित्रपट उसे दिखलाया सो उसे देखते ही वह तीव्र उत्कण्ठा रूपी शल्यसे विद्ध होकर बोली कि काम-देवके समान इस पुरुषके साथ यदि मेरा समागम न होगा तो मैं मृत्युको भले ही प्राप्त हो जाऊँगी पर अन्य अधम मनुष्यको प्राप्त नहीं होऊँगी ॥३६५-३६६॥ उसके गुणोंसे जिसका चित्त आकृष्ट हो रहा था ऐसी मैंने उसका बहुत भारी शोक देखकर उसके आगे यह कठिन प्रतिज्ञा कर ली कि तुम्हारे मनको चुरानेवाले इस पुरुषको यदि मैं शीघ्र नहीं ले आऊँ तो हे सखि ! ज्वालाओसे युक्त अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगी ॥३६७-३६८॥ मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की ही थी कि बड़े भारी पुण्योदय से आप मिल गये । अब आपके प्रसादसे अपनी प्रतिज्ञाको अवश्य ही सफल बनाऊँगी ॥३६९॥ ऐसा कहती हुई वह सूर्योदयपुर आ पहुँची । वहाँ आकर उसने राजा शक्रधनु और कन्या जयचन्द्राके लिए सूचना दे दी कि तुम्हारे मनको हरण करनेवाला हरिषेण आ गया है ॥३७०॥ तदनन्तर आश्चर्यकारी रूपको धारण करनेवाले दोनों-वरकन्याका पाणिग्रहण किया गया । जिनका चित्त आश्चर्यसे भर रहा था ऐसे सभी आत्मीय जनोंने उनके उस पाणिग्रहणका अभि-नन्दन किया था ॥३७१॥ जिसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी ऐसी वेगवतीने राजा और कन्या-दोनोंकी ओरसे परम सन्मान प्राप्त किया था । उसके हर्ष और सुयशका भी ठिकाना नहीं था ॥३७२॥ 'इस कन्याने हम लोगोंको छोड़कर भूमिगोचरी पुरुष स्वीकृत किया' ऐसा विचारकर

१. पितृवाक्यापकर्षिणी म० । २. गाढाकल्पकशल्पेन म० । ३-४. म० पुस्तकेऽनयोः श्लोकयोः क्रमभेदो वर्तते । ५. मैथुनिकाचितौ म० ।

आवाञ्छतां ग्णं कर्तुं महासाधनमर्थायुता । कुपितावपमानेन गङ्गावरमर्हाधरो ॥३७४॥
 ततः शक्रधनुः साकं सुचापाख्येन मनुना । हरियेगं जगादेव करुणासक्तचेतन ॥३७५॥
 तिष्ठ त्वमिह नामात संख्यं कर्तुं वनाम्यहम् । त्वन्निमित्तं रिपूँ क्रुद्धादुद्धतौ दुःखचारिणौ ॥३७६॥
 स्मित्वा ततो जगादासीं परकार्येषु यो रतः । कार्ये तस्य कथं स्वस्मिद्धांतामन्यं भविष्यति ॥३७७॥
 कुरु पूज्य प्रमादं मे चच्छ युद्धाय गासनम् । नृत्यं मत्सदृशं प्राप्य स्वयं किमिति युष्यमे ॥३७८॥
 ततोऽमङ्गलभातेन वाञ्छताप्यनिवारितः । श्वसुरेण कृतासङ्गमश्वं पवनगामिमि ॥३७९॥
 अमूर्तनावावित्रै पूर्णं शूरसारथिनेवृक्म् । वेष्टिन बोधचक्रेण हरियेगो ग्णं ययौ ॥३८०॥
 तस्य चानुपदं जग्मुर्गर्वनांगिश्च खेचरा । कृत्वा कलकल तुङ्गं गन्तुमानसदुःसहम् ॥३८१॥
 ततो महति संजाने सयुगे शृगधारिते । भग्नं शक्रधनुःसैन्यं दृष्ट्वा वाप्रेय उन्वितम् ॥३८२॥
 तयो यथा दिशा तस्य प्रावर्तत रथोत्तमः । तस्यां नाश्वो न मातङ्गो न मनुष्यो रथो न च ॥३८३॥
 गरस्तेन समं युक्तरातिव्रलमाहृतम् । जगाम क्वाप्यनालोक्य पृष्ठं स्वल्पितवृत्तिकम् ॥३८४॥
 पृथुवेपथय केचिद्विदमृचुर्मयादिता । कृतं गङ्गाधरेणेंद्रं नृधरेणं च दुर्मतम् ॥३८५॥
 अयं कोऽपि रणे भाति सूर्यवपुस्त्रयोत्तमः । करानिब्र शरान्मुञ्चन् सर्वांशानु समं वदून् ॥३८६॥
 ध्वस्यमानं उत सैन्यं दृष्ट्वा तेन महान्मना । गतौ क्वापि भयत्रस्तां गङ्गावरमर्हाधरो ॥३८७॥

कन्याके मामाके लड़के गङ्गावर और मर्हाधर बहुत ही कुपित हुए। कुपित ही नहीं हुए अपमान से प्रेरित हो बड़ी भारी सेना लेकर युद्ध करनेकी भी इच्छा करने लगे ॥३७३-३७४॥ तदनन्तर करुणामें आसक्त है चित्त जिसका ऐसे राजा शक्रधनुं अपने सुचाप नामक पुत्रके साथ हरि-पणसे इस प्रकार निवेदन किया कि हे नामात ! तुम यहीं ठहरो, मैं युद्ध करनेके लिए जाता हूँ। तुम्हारे निमित्तसे दो उत्कट शत्रु कुपित होकर दुःखका अनुभव कर रहे हैं ॥३७५-३७६॥ तत्र हंसकर हरियेगने कहा कि जो परकीय कार्यमें सदा तत्पर रहता है उसके अपने ही कार्यमें लक्ष्मीनता कैसे हो सकती है ? ॥३७७॥ हे पूज्य ! प्रसन्नता करो और मेरे लिए युद्धका आदेश दो। मेरे जैसा भृत्य पाकर आप इस प्रकार न्वयं क्यों युद्ध करते हो ? ॥३७८॥ तद-नन्तर अमङ्गलसे भयभीत श्वसुरने चाहते हुए भी उसे नहीं रोका। फलस्वरूप जिसमें हवाके समान शीघ्रगामी घोड़े जुते थे, जो नाना प्रकारके शब्दोंसे पूर्ण था, जिसका सारथि शूरवीर था, और जो घोड़ोंके समूहसे घिरा था ऐसे रथको हरियेग प्राप्त हुआ ॥३७९-३८०॥ उसके पीछे विद्याधर लोग शत्रुके मनको असहनीय बहुत भारी कोलाहलकर घोड़ों और हाथियोंपर सवार होकर जा रहे थे ॥३८१॥ तदनन्तर शूरवीर मनुष्य जिसकी व्यवस्था बनाये हुए थे ऐसा महायुद्ध प्रवृत्त हुआ सो कुछ ही समय बाद शक्रधनुको सेनाको पराजित देख हरियेग युद्धके लिए उठा ॥३८२॥ तदनन्तर जिस दिशासे उसका उत्तम रथ निकल जाता था उस दिशामें न घोड़ा बचता था, न हार्थी दिखाई देता था, न मनुष्य शेष रहता था और न रथ ही बाकी बचता था ॥३८३॥ उसने एक साथ डोरी पर चढ़ाये हुए बाणोंसे शत्रुकी सेनाको इस प्रकार मारा कि वह पीछे बिना देखे ही एक ढस सरपट कहींपर भाग खड़ी हुई ॥३८४॥ जिनके शरीरमें बहुत भारी कँपकँपी बूट रही थी ऐसे भयसे पीडित कितने ही घोड़ा कह रहे थे कि गङ्गाधर और मर्हाधरने यह बड़ा अनिष्ट कार्य किया है ॥३८५॥ यह कोई अद्भुत पुरुष युद्धमें सूर्यकी भाँति सुशोभित हो रहा है। जिस प्रकार सूर्य समस्त दिशाओंमें किरणें छोड़ता है उसी प्रकार यह भी समस्त दिशाओंमें बहुत बाण छोड़ रहा है ॥३८६॥ तदनन्तर अपनी सेनाको उस महात्माके द्वारा नष्ट होती देख भयसे ग्रस्त हुए गङ्गाधर और

१. युद्धम् । २. रिपुक्रुद्धौ दुर्वृत्तौ दुःखचारिणौ म० । ३. त्वामिन् म० । ४. वाञ्छितोऽप्यनि- ख० ।
 ५. शुरि-त्र० । ६. दृष्ट्वा म० । ७. तस्य म० । ८. मर्हाधरेण ।

शरत्पयोधराकारतटसंघातसंकटम् । क्षीरेणैव जगत्सर्वं चालयन्तं करोत्करैः ॥११६॥
 क्वचिद्विश्रब्धसंसुप्तमृगाधिपदरोमुखम् । क्वचित्सुप्तशयुश्वासवाताघूर्णितपादपम् ॥१२०॥
 क्वचित्परिसरक्रौडत्कुरङ्गककदम्बकम् । क्वचिन्मत्तद्विपत्रातकलिताधित्यकावनम् ॥१२१॥
 क्वचित्पुलकितकारं प्रसूनप्रकराचितम् । क्वचिद्वृत्तसटाभारैरुद्धतैर्भोपणाकृतिम् ॥१२२॥
 क्वचित्पद्मवनेनेव युक्तं शाखामृगाननैः । क्वचित्खड्गि^३क्षतस्यन्दिशालादिसुरभीकृतम् ॥१२३॥
 क्वचिद्विद्युत्लताशिलघ्नसंभवदधनसन्ततिम् । क्वचिद्विवाकाराकारशिखरौद्ध्योत्तिताम्बरम् ॥१२४॥
 पाण्डुकस्येव कुर्वाणं विजिगीषां क्वचिद्वनैः । सुरभिप्रसवोत्तुङ्गविस्तीर्णघनपादपैः ॥१२५॥
 अवतीर्णश्च तत्रासावपश्यत्तं महामुनिम् । ध्यानार्णवसमाविष्टं तेजसावद्धमण्डलम् ॥१२६॥
 आशाकरिकराकारप्रलम्बितभुजद्वयम् । पद्मगाभ्यामिवाशिलघ्नं महाचन्दनपादपम् ॥१२७॥
 आतापनशिलापीठमस्तकस्थं सुनिश्चलम् । कुर्वाणं प्राणिविषयं संशयं प्राणधारिणम् ॥१२८॥
 ततो बालिरसावेव इति ज्ञात्वा दशाननः । अतीतं संस्मरन् वैरं ज्वाल क्रोधवह्निना ॥१२९॥
 वद्धा च भृकुटीं भीमां दष्टोष्ठः प्रखरस्वरः । वभाण भासुराकारो मुनिमेवं सुनिर्भयः ॥१३०॥
 अहो शोभनमारब्धं त्वया कर्तुमिदं तपः । यदद्याप्यभिमानेन विमानं स्तम्भ्यते मम ॥१३१॥

लम्बा चौड़ा वृत्तःस्थल था, बड़े-बड़े वृत्त ही उसकी महाभुजाएँ थीं और गुफाएँ ही उसका गंभीर मुख थीं इस प्रकार वह पर्वत अपूर्व पुरुषकी आकृति धारण कर रहा था ॥११८॥ वह शरद्ऋतुके बादलोंके समान सफेद-सफेद किनारोंके समूहसे व्याप्त था तथा किरणोंके समूहसे ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त संसारको दूधसे ही धो रहा हो ॥११९॥ कहीं उसकी गुफाओंमें सिंह निःशङ्क होकर सो रहे थे और कहीं सोये हुए अजगरोंकी श्वासोच्छ्वासकी वायुसे वृत्त हिल रहे थे ॥१२०॥ कहीं उसके किनारोंके वनोंमें हरिणोंका समूह क्रीड़ा कर रहा था और कहीं उसकी अधित्यकाके वनोंमें मदोन्मत्त हाथियोंके समूह स्थित थे ॥१२१॥ कहीं फूलोंके समूहसे व्याप्त होनेके कारण ऐसा जान पड़ता था मानो उसके रोमाञ्च ही उठ रहे हों और कहीं उद्धत रीक्षोंकी लम्बी-लम्बी सटाओंसे उसका आकार भयंकर हो रहा था ॥१२२॥ कहीं बन्दरोंके लाल-लाल मुँहोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो कमलोंके वनसे ही युक्त हो और कहीं गेंडा हाथियोंके द्वारा खण्डित साल आदि वृत्तोंसे जो पानी भर रहा था उससे सुगन्ध फैल रही थी ॥१२३॥ कहीं बिजली रूपी लताओंसे आलिङ्गित मेघोंकी सन्तति उत्पन्न हो रही थी और कहीं सूर्यके समान देदीप्यमान शिखरोंसे आकाश प्रकाशमान हो रहा था ॥१२४॥ जिनके लम्बे चौड़े सघन वृत्त सुगन्धित फूलोंसे ऊँचे उठे हुए थे ऐसे वनोंसे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो पाण्डुक-वनको जीतना ही चाहता हो ॥१२५॥ दशाननने उस पर्वतपर उतरकर उन महामुनिके दर्शन किये । वे महामुनि ध्यानरूपी समुद्रमें निमग्न थे और तेजके द्वारा चारों ओर मण्डल बाँध रहे थे ॥१२६॥ दिग्गजोंके शुण्डादण्डके समान उनकी दोनों भुजाएँ नीचेकी ओर लटक रही थीं और उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दो सर्पोंसे आवेष्टित चन्दनका बड़ा वृत्त ही हो ॥१२७॥ वे आतापन योगमें शिलापीठके ऊपर निश्चल बठे थे और प्राणियोंके प्रति ऐसा संशय उत्पन्न कर रहे थे कि ये जीवित हैं भी या नहीं ॥१२८॥ तदनन्तर 'यह बालि है' ऐसा जानकर दशानन पिछले वैरका स्मरण करता हुआ क्रोधाग्निसे प्रज्वलित हो उठा ॥१२९॥ जो ओंठ चबा रहा था, जिसकी आवाज अत्यन्त कर्कश थी, और जो अत्यन्त देदीप्यमान आकारका धारक था ऐसा दशानन भृकुटी बाँधकर बड़ी निर्भयताके साथ मुनिराजसे कहने लगा ॥१३०॥ कि अहो ! तुमने यह बड़ा अच्छा तप करना प्रारम्भ किया है कि अब भी अभिमानसे मेरा विमान

१. परिसरत् म० । २. वनेनैव म० । ३. खड्गि^३क्षतस्यन्दि म० । खड्गि^३क्षतस्पर्शं म० । ४. संभवध्वनि-सन्तति म० । ५. शिखरद्योतिताम्बरम् म० ।

अथ विज्ञाय जयिन दशवक्त्र दिवाकरः । नेत्रयोगोचरीभावं भयादिव समत्यजत् ॥४०२॥
 सन्ध्यारागेण चच्छन्न समस्त भुवनान्तरम् । सजातेनानुरागेण कैकसेयादिवोरुणा ॥४०३॥
 ध्वस्तसंध्येन च व्याप्त ध्वान्तेन क्रमतो नभः । दशास्यस्येव कालेन कर्तुमेतेन सेवनम् ॥४०४॥
 सम्मेदभूधरस्यान्ते तत् संस्थलिभूभृत । चक्रार शिविरं कुचाववतीर्य नभस्तलात् ॥४०५॥
 घनौघादिव निर्घातः प्रावृषेण्यादथ ध्वनिः । येन तत्सकल सैन्य कृत साध्वसपूरितम् ॥४०६॥
 भङ्गमालानवृक्षाणा चक्रुः स्तम्भेरमोत्तमा । हेपित सप्तयश्चोच्चैस्त्कर्णा स्फुरच्च ॥४०७॥
 किं किमेतदिति क्षिप्र जगाद च दशाननः । अपराधनिभेनार्यं मर्तुं कोऽद्य समुद्यत ॥४०८॥
 नून वैश्रवण प्राप्त सोमो वा रिपुचोदितः । विश्रब्ध वा स्थित मत्वा ममान्य शत्रुगोचर ॥४०९॥
 तदादिष्टं प्रहस्तोऽय त देग समुपागत । अपश्यत्पर्वताकार लीलायुक्तमनेकपम् ॥४१०॥
 निवेदितं ततस्नेन दशास्थाय सविस्मयम् । महाराशिमिवाव्दाना देव पश्य मतङ्गजम् ॥४११॥
 ईक्षितः पूर्वमप्येव दन्तिवृन्दारको मया । इन्द्रेणाप्युज्जितो धर्तुमसमर्थेन वारणः ॥४१२॥
 मन्ये पुरन्दरस्यापि दुर्ग्रहोऽय सुदुस्तहः । गजः क्षिप्रत तुङ्गाजा शेषाणां प्राणधारिणाम् ॥४१३॥
 ततः प्रहस्य विश्रब्ध जगाद धनदार्दन । आत्मनो युज्यते कर्तुं न प्रहस्त प्रशसनम् ॥४१४॥

अथानन्तर संध्या काल आया और सूर्य डूब गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्यने दशाननको विजयी जानकर भयसे ही उसके नेत्रोंका गोचर-स्थान छोड़ दिया था ॥४०२॥ संध्याकी लालिमासे समस्त लोक व्याप्त हो गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो दशाननसे उत्पन्न हुए बहुत भारी अनुरागसे ही व्याप्त हो गया था ॥४०३॥ क्रम-क्रमसे संध्याको नष्ट कर काला अन्धकार आकाशमें व्याप्त हो गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो दशाननकी सेवा करनेके लिए ही व्याप्त हुआ था ॥४०४॥ तदनन्तर दशाननने आकाशसे उतरकर सम्मेदाचलके समीप संस्थलि नामक पर्वतके ऊपर अपना डेरा डाला ॥४०५॥

अथानन्तर—जिस प्रकार वर्षाकालीन मेघोंके समूहसे वज्रका शब्द निकलता है इसी प्रकार कहींसे ऐसा भयंकर शब्द निकला कि जिसने समस्त सेनाको भयभीत कर दिया ॥४०६॥ वड़े-वड़े हाथियोंने अपने आलानभूत वृक्ष तोड़ डाले और घोड़े कान खड़े कर फरूरी लेते हुए हिनहिनाने लगे ॥४०७॥ वह शब्द सुनकर दशानन शीघ्रतासे बोला कि यह क्या है ? क्या है ? अपराधके वहाने मरनेके लिए आज कौन उद्यत हुआ है ? ॥४०८॥ जान पड़ता है कि वैश्रवण आया है अथवा शत्रुसे प्रेरित हुआ सोम आया है अथवा मुझे निश्चिन्त रूपसे ठहरा जानकर शत्रु पक्षका कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ आया है ॥४०९॥ तदनन्तर दशाननकी आज्ञा पाकर प्रहस्त नामा मन्त्री उस स्थान पर गया जहाँसे कि वह शब्द आ रहा था । वहाँ जाकर उसने पर्वतके समान आकारवाला, क्रीडा करता हुआ एक हाथी देखा ॥४१०॥ वहाँसे लौटकर प्रहस्तने वड़े आश्चर्यके साथ दशानन को सूचना दी कि हे देव । मेघोंकी महाराशिके समान उस हाथीको देखो ॥४११॥ ऐसा जान पड़ता है कि इस हाथीको मैंने पहले भी कभी देखा है, इन्द्र विद्याधर भी इसे पकड़नेमें समर्थ नहीं था इसी लिए उसने इसे छोड़ दिया है, अथवा इन्द्र विद्याधरकी बात जाने दो साक्षात् देवेन्द्र भी इसे पकड़नेमें असमर्थ है, इसे कोई सहन नहीं कर सकता । नहीं जान पड़ता कि यह हाथी है या समस्त प्राणियोंका एकत्रित तेजका समूह है ? ॥४१२-४१३॥ तब दशाननने हँसकर कहा कि हे प्रहस्त । यद्यपि अपनी प्रशंसा स्वयं करना ठीक नहीं है फिर भी मैं इतना तो कहता ही हूँ कि यदि मैं इस हाथीको क्षणभरमें न पकड़ लूँ तो वाजूवन्दसे पीड़ित अपनी इन दोनों भुजाओंको काट

एतावत्तु ब्रवीम्येतौ भुजौ केयूरपीडितौ । छिनद्भि न क्षणादेनं गृह्णाम्यनेकपम् ॥४१५॥
 ततः कामगमारुह्य विमान पुष्पकामिधम् । गत्वा पश्यति त नाग सल्लक्षणसमन्वितम् ॥४१६॥
 स्निग्धेन्द्रनीलसंकाश राजीवप्रभतालुकम् । दीर्घवृत्तौ सुधाफेनवलत्तौ विभ्रत रदौ ॥४१७॥
 हस्तानां ससकं तुङ्गं दशकं परिणाहतः । आयामतश्च नवक मधुपिङ्गललोचनम् ॥४१८॥
 निमग्नवशमग्राङ्गुलमायतबालधिम् । द्वाविष्टकरमत्यन्तस्निग्धपिङ्गनखाङ्कुरम् ॥४१९॥
 वृत्तपीनमहाकुम्भ सुप्रतिष्ठादिघ्नमूर्जितम् । अन्तर्मधुरधीरोरुगर्जितं विनयस्थितम् ॥४२०॥
 गलद्गण्डस्थलामोदसमाकृष्टालिवेणिकम् । कुर्वन्त दुन्दुभिध्वान कर्णतालान्तताडनैः ॥४२१॥
 भग्नावकाशमाकाश कुर्वाणमिव पार्थवात्^१ । लीलां विदधतं चित्तचक्षुश्चोरणकारिणीम् ॥४२२॥
 दृष्ट्वा च तं परां प्रीतिं प्राप रत्नश्रवःसुतः । कृतार्थमिव चात्मान मेने हृष्टतनूरुहः ॥४२३॥
 ततो विमानमुज्जित्वा बद्ध्वा परिकरं दृढम् । शङ्ख तस्य पुरो दध्मौ शब्दपूरितविष्टपम् ॥४२४॥
 ततः शङ्खस्वनोद्भूतचित्तक्षोभः सगर्जितः । करी दशमुखोद्देश चलितो बलगर्वितः ॥४२५॥
 वेगादभ्यायतस्यास्य पिण्डीकृत्य सितांशुकम् । उत्तरीयं च चिक्षेप क्षिप्रं विभ्रमदक्षिणः ॥४२६॥
 दन्ती जिघ्रति त यावत्तावदुत्पत्य गण्डयोः । अस्पृशद्यत्तमर्दस्त भृङ्गौघध्वनिचण्डयोः ॥४२७॥
 करेण वेष्टितु यावच्चक्रे वाञ्छां मतङ्गजः । तावद्वष्टान्तरेणासौ निःसृतो लाघवान्वितः ॥४२८॥
 अङ्गेषु च चतुर्ध्वस्य स्पृशन् दन्ततले मुहु । भ्रान्तिविद्युच्चलश्रक्ने प्रेङ्खणं रदनाग्रयोः ॥४२९॥

डाल्लू ॥४१४-४१५॥ तदनन्तर वह इच्छानुसार चलनेवाले पुष्पक विमानपर सवार हो, जाकर उत्तम लक्षणोसे युक्त उस हाथीको देखता है ॥४१६॥ वह हाथी चिकने इन्द्रनील मणिके समान था, उसका तालु कमलके समान लाल था, वह लम्बे, गोल तथा अमृतके फेनके समान सफेद दाँतोको धारण कर रहा था ॥४१७॥ वह सात हाथ ऊँचा, दश हाथ चौड़ा और नौ हाथ लम्बा था । उसके नेत्र मधुके समान कुछ पीतवर्णके थे ॥४१८॥ उसकी पीठकी हड्डी मांसपेशियोंमे निमग्न थी, उसके शरीरका अगला भाग ऊँचा था, पूँछ लम्बी थी, सँड़ विशाल थी, और नखरूपी अङ्कुर चिकने तथा पीले थे ॥४१९॥ उसका मस्तक गोल तथा स्थूल था, उसके चरण अत्यन्त जमे हुए थे, वह स्वयं बलवान् था, उसकी विशाल गर्जना भीतरसे मधुर तथा गम्भीर थी और वह विनयसे खड़ा था ॥४२०॥ उसके गण्डस्थलसे जो मद चूरहा था उसकी सुगन्धिके कारण भ्रमरोकी पङ्क्तिर्याँ उसके समीप खिंची चली आ रहीं थी । वह कर्णरूपी तालपत्रोकी फटकारसे दुन्दुभिके समान विशाल शब्द कर रहा था ॥४२१॥ वह अपनी स्थूलताके कारण आकाशको मानो निरवकाश कर रहा था और चित्त तथा नेत्रोको चुरानेवाली क्रीड़ा कर रहा था ॥४२२॥ उस हाथीको देख दशानन परम प्रीतिको प्राप्त हुआ । उसने अपने आपको कृतकृत्य-सा माना और उसका रोम-रोम हर्षित हो उठा ॥४२३॥ तदनन्तर दशाननने विमान छोड़कर अपना परिकर मजबूत बाँधा और उसके सामने शब्दसे लोकको व्याप्त करनेवाला शङ्ख फूँका ॥४२४॥ तत्पश्चात् शङ्खके शब्दसे जिसके चित्तमें क्षोभ उत्पन्न हुआ था तथा जो बलके गर्वसे युक्त था ऐसा हाथी गर्जना करता हुआ दशाननके सम्मुख चला ॥४२५॥ जब हाथी वेगसे दशाननके सामने दौड़ा तो घूमनेमे चतुर दशाननने उसके सामने अपना सफेद चदर धरियाकर फेंक दिया ॥४२६॥ हाथी जब तक उस चदरको सूँघता है तब तक दशाननने उल्ललकर भ्रमरसमूहके शब्दोसे तीक्ष्ण उसके दोनों कपोलोका स्पर्श कर लिया ॥४२७॥ हाथी जब तक दशाननको सँड़से लपेटनेकी इच्छा करता है कि तब तक शीघ्रतासे युक्त दशानन उसके दाँतोके बीचसे बाहर निकल गया ॥४२८॥ घूमनेमे बिजलीके समान चञ्चल दशानन उसके चारो ओरके अङ्गोंका स्पर्श करता था । बार-बार दाँतोपर टक्कर लगाता था और कभी खीसोपर

१. पृथोर्भावः पार्थवं तस्मात् स्थौल्यात्, पार्थवां (१) म० ।

अथास्य प्रथमारब्धः सविलासं दशाननः । विनीतश्च स्थितो दन्ती सच्छिष्य इव तत्त्वणात् ॥४३०॥
 ततः सकुमुमा मुक्ताः साधुवादाः सुदुः सुरैः । सगच्छा च महामोद प्राप्ता खेचरवाहिनी ॥४३१॥
 त्रिलोकमण्डनाभिस्थया प्रापाय दशवेकत्रतः । त्रिलोक्यं मण्डित तेन यतो मेने स मोदवान् ॥४३२॥
 महोन्मवः कृतस्तस्य लाभं परम दन्तिनः । नृत्यद्भिः पर्वते रम्ये खेचरं पुष्पसंकुलं ॥४३३॥
 तथैषा जाग्रतामेव मर्यादामात्रकारणम् । कृतः प्रभाततूर्येण नादो गह्वरपेगलः ॥४३४॥
 दिवसेन ततो विम्व रवेः कलगमद्गलम् । उपनीत दशास्याय मेवाकांशलवेदिना ॥४३५॥
 ततः सुखासनासीने विहितस्त्राङ्गकर्मणि । स्थिते दशमुखे दन्तिकथया खेचरावृते ॥४३६॥
 सहसा त्रियतः प्राप्त पुरुष पुरु वेपथुः । स्वेदविन्दुसमाकीर्णः सभ्रान्तः खेदमुदहन् ॥४३७॥
 सप्रहाग्घगः साश्रुर्दृग्गयज्जर्जरां तनुम् । व्यज्ञापयच्च कृच्छ्रेण ललाटे धारयन् करी ॥४३८॥
 दशमेऽहि दिनादस्माच्चित्ते कृत्वा भवद्वयलम् । अलंकारपुरावासान्निध्योसाहतांशधिकान् ॥४३९॥
 निजगोत्रक्रमायात नगरं किं कुमंजकम् । गृहीतुं भ्रातरौ यातौ सूर्यचरजसाधुभौ ॥४४०॥
 महाभिमानमम्पन्नौ महाबलसमन्वितौ । विश्रव्यो भवतो गर्वांमन्यमानौ तृण जगत् ॥४४१॥
 पुताभ्यां चोदितः क्षुब्धो नितान्तं त्रिपुलो जनः । अवस्कन्देन मंपत्य प्रचक्रे किङ्कलुण्टनम् ॥४४२॥
 कृतान्तस्य ततो योद्ध्युमुषिता मत्सत्तमा । स्वप्नवद्यत्पुरोद्विष्ट (१) हेतित्याधृतपाणयः ॥४४३॥

मृला मूलने लगता था ॥४२६॥ तदनन्तर दशानन विलासपूर्वक उसकी पीठपर चढ़ गया और हाथी उसी क्षण उत्तम शिष्यके समान विनीतभावसे खड़ा हो गया ॥४३०॥ उसी समय देवोंने फूलोंकी वर्षा की, बार-बार धन्यवाद दिये, और विद्याधरोकी सेना कल-कल करती हुई परम हर्षको प्राप्त हुई ॥४३१॥ वह हाथी, दशाननसे 'त्रिलोकमण्डन' इस नामको प्राप्त हुआ । यथार्थ में उस हाथीसे तीनों लोक मण्डित हुए थे इसलिए दशाननन बड़े हर्षसे उसका 'त्रिलोकमण्डन' नाम सार्थक माना था ॥४३२॥ फूलोंसे व्याप्त उस रमणीय पर्वतपर नृत्य करते हुए विद्याधरोने उस श्रेष्ठ हाथीके मिलनेका महोत्सव किया था ॥४३३॥

इस हाथीके प्रकणसे यद्यपि सब लोग जाग रहे थे तो भी रात्रि और दिवसकी मर्यादा ब्रतलानेके लिए प्रभानकालीन तुरहीने ऐसा जोरदार शब्द किया कि वह पर्वतकी प्रत्येक गुफामें गूँज उठा ॥४३४॥ तदनन्तर सूर्य विम्वका उदय हुआ सो ऐसा जान पड़ता था मानो सेवाकी चतुर्गर्भको जाननेवाले दिवसने दशाननके लिए मङ्गल-कलश ही समर्पित किया हो ॥४३५॥

तदनन्तर दशानन शारीरिक क्रियाएँ कर सोफापर बैठा था । साथ ही अन्य विद्याधर भी हाथीकी चर्चा करते हुए उसे घेरकर बैठे थे ॥४३६॥ उसी समय आकाशसे उतरकर एक पुरुष वहाँ आया । वह पुरुष अत्यन्त क्रौंफ रहा था, पसीनेकी बूँदोंसे व्याप्त था, खेदको धारण कर रहा था, प्रहाग्जन्य धावोंसे सहित था, आँसू छोड़ रहा था और अपना जर्जर शरीर दिखला रहा था । उसने हाथ जोड़ मस्तकसे लगा बड़े दुःखके साथ निवेदन किया ॥४३७-४३८॥ कि हे देव ! आजसे दश दिन पहले हृदयमें आपके बलका भरोसाकर सूर्यरज और ऋत्तरज दोनों भाई, अपनी वंश-परम्परासे चले आये किष्कु नगरको लेनेके लिए बड़े उत्साहसे अलंकारपुर अर्थात् पाताल लकासे निकलकर चले थे ॥४३९-४४०॥ दोनों ही भाई महान् अभिमानसे युक्त, बड़ी भागी सेनासे सहित तथा निःशङ्क थे । वे आपके गर्वसे संसारको तृणके समान तुच्छ मानते थे ॥४४१॥ इन दोनों भाइयोंकी प्रेरणासे अत्यन्त चौभको प्राप्त हुए बहुतेसे लोग एक साथ आक्रमणकर किष्कुपुरको लूटने लगे ॥४४२॥ तदनन्तर जिनके हाथोंमें नाना प्रकारके शस्त्र चमक

१. - मास्य म० । २. दन्ती म० । ३. खेचरावृतः म० । ४. - मुच्छिता म० । ५. स्वप्नवद्यत्पुरो दृष्ट म० ।

ततस्तेषा महान् जातो मध्येशर्वरि सयुगः । अन्योन्यशस्त्रसंपातकृतभूरिजनक्षयः ॥४४४॥
 श्रुत्वा कलकलध्वान स्वय योद्धुमथादरात् । यमः क्रोधेन निष्क्रान्तः सक्षुब्धान्वनदारुणः ॥४४५॥
 आयातमात्रमेणैव तेन दुस्सहतेजसा । अस्मदीय बल भग्नं विविधायुधवित्ततम् ॥४४६॥
 अथासौ कथयन्नेवं दूतो मूर्च्छामुपागतः । वीजितश्च पटान्तेन प्रबोध पुनरागतः ॥४४७॥
 किमेतदिति पृष्ठश्च हृदयस्थकरोऽवदत् । जानामि देव तत्रैव वर्तेऽहमिति मूर्च्छितः ॥४४८॥
 ततस्तत इति प्रोक्ते ततो विस्मयवाहिना । रत्नश्रवःसुतेनासौ विश्रम्य पुनरब्रवीत् ॥४४९॥
 ततो नाथ बलं दृष्ट्वा नितान्तार्तरवाकुलम् । निजमृत्तरजा भग्न वत्सलो योद्धुमुत्थितः ॥४५०॥
 चिर च कृतसग्रामो यमेनातिबलीयसा । चेतसा भेदमप्राप्तो गृहीतः शत्रुवञ्चितः ॥४५१॥
 उत्थितो युध्यमानेऽस्मिन्नथ सूर्यरजा अपि । चिरं कृतरणो गाढप्रहारो मूर्च्छितो भृशम् ॥४५२॥
 उद्यम्य चिप्रमात्मीयैः सामन्तैर्मेखला वनम् । नीत्वा स श्वासमानीत, शीतचन्दनवारिणा ॥४५३॥
 यमेन स्वयमात्मानं सत्यमेवावगच्छता । कारित यातनास्थान वैतरण्यादि पूर्वबहिः ॥४५४॥
 ततो ये निर्जितास्तेन सयतीन्द्रेण वा जिताः । प्रेषिताः दुःखमरण प्राप्यन्ते तत्र ते नराः ॥४५५॥
 वृत्तान्त तमह दृष्ट्वा कथमप्याकुलाकुलः । समूतो दयितो भृत्यः क्रमादृत्तरजःकुले ॥४५६॥
 नाम्ना शाखावली पुत्रः सुश्रेणीरणदत्तयोः । कृत्वा पलायन प्राप्तो भवतस्त्रातुरन्तिकम् ॥४५७॥

रहे थे ऐसे यम नामा दिक्पालके उत्तम योद्धा युद्ध करनेके लिए उठे सो मध्य रात्रिमें उन सबके बीच बड़ा भारी युद्ध हुआ । उस युद्धमे परस्परके शस्त्र प्रहारसे अनेक पुरुषोका क्षय हुआ ॥४४३-४४४॥ अथानन्तर बड़ी गौरसे उनका कल-कल शब्द सुनकर यम दिक्पाल स्वयं क्रोधसे युद्ध करनेके लिए निकला । उस समय वह यम लोभको प्राप्त हुए समुद्रके समान भयंकर जान पड़ता था ॥४४५॥ जिसका तेज अत्यन्त दुःसह था ऐसे यमने आते हीके साथ हमारी सेनाको नाना प्रकारके शस्त्रोसे घायलकर भग्न कर दिया ॥४४६॥ अथानन्तर वह दूत इस प्रकार कहता कहता बीचमे ही मूर्च्छित हो गया । वस्त्रके छोरसे हवा करनेपर पुनः सचेत हुआ ॥४४७॥ यह क्या है ? इस प्रकार पूछे जानेपर उसने हृदयपर हाथ रखकर कहा कि हे देव ! मुझे ऐसा जान पड़ा कि मैं वहाँ पर हूँ । उसी दृश्यको सामने देख मैं मूर्च्छित हो गया ॥४४८॥

तदनन्तर आश्चर्यको धारण करनेवाले रावणने पूछा कि 'फिर क्या हुआ ?' इस प्रश्नके उत्तरमे वह कुछ विश्रामकर फिर कहने लगा ॥४४९॥ कि हे नाथ ! जब ऋक्षरजने देखा कि हमारी सेना अत्यन्त दुःख पूर्ण शब्दोसे व्याकुल होती हुई पराजित हो रही है—नष्ट हुई जा रही है तब स्नेह युक्त हो वह युद्ध करनेके लिए स्वयं उद्यत हुआ ॥४५०॥ वह अत्यन्त बलवान् यमके साथ चिर काल तक युद्ध करता रहा । युद्ध करते-करते उसका हृदय नहीं टूटा था फिर भी शत्रुने छलसे उसे पकड़ लिया ॥४५१॥ तदनन्तर जब ऋत्तरज युद्ध कर रहा था उसी समय सूर्यरज भी युद्धके लिए उठा । उसने भी चिरकाल तक युद्ध किया पर अन्तमे वह शस्त्रकी गहरी चोट खा कर मूर्च्छित हो गया ॥४५२॥ आत्मीय लोग उसे उठा कर शीघ्र ही मेखला नामक वन मे ले गये । वहाँ वह चन्दन मिश्रित शीतल जलसे श्वासको प्राप्त हो गया अर्थात् शीतलोपचार से उसको मूर्च्छा दूर हुई ॥४५३॥ लोकपाल यमने अपने आपको सचमुच ही यमराज समझ कर नगरके बाहर वैतरणी नदी आदि कष्ट देनेके स्थान बनवाये ॥४५४॥ तदनन्तर उसने अथवा इन्द्र विद्याधरने जिन्हें युद्धमें जीता था उन सबको उसने उस कष्टदायी स्थानमे रक्खा सो वे वहाँ दुःख पूर्वक मरणको प्राप्त हो रहे हैं ॥४५५॥ इस वृत्तान्तको देख मैं बहुत ही व्याकुल हूँ । मैं ऋत्तरजकी वंशपरम्परासे चला आया प्यारा नौकर हूँ । शाखावली मेरा नाम है, मैं सुश्रेणी और रणदत्तका पुत्र हूँ । आप चूँकि रक्षक हो इसलिए किसी तरह भाग कर

इति स्वपक्षदौःस्थित्यमवगम्य मयोदितम् । देव प्रमाणमत्रार्थं कृत्यह स्वन्निवेदनात् ॥४५८॥
 व्रणभङ्ग ततस्तस्य कर्तुमादिश्य सादरम् । उच्चचाल महाक्रोधः स्मित कृत्वा दशाननम् ॥४५९॥
 जगाद चोद्यतान् क्लेशमहार्णवमुपागतान् । वैतरण्यादिनिचिक्षान् वारयाम्यसुधारिणम् ॥४६०॥
 अग्रस्कन्धेन चोदाराः प्रहस्तप्रमुखा नृपाः । प्रवृत्ताः शस्त्रतेजोभिः कुर्वाणाञ्ज्वलितं नभः ॥४६१॥
 विचित्रवाहनारूडाश्छत्रध्वजसमाकुलाः । तूर्यनादसमुद्भूतमहोत्साहा महौजसः ॥४६२॥
 नाथा गगनयात्राणां चितिं प्राप्ताः पुरान्तिकाम् । शोभया गृहपङ्कतीनां परम विस्मय गताः ॥४६३॥
 दिशि किष्कुपुरस्याथ दक्षिणस्या दशाननः । ददृशं नरकावासगतीक्षिप्त्वा नृसहृतीः ॥४६४॥
 कृत्वा नरकपालानां ध्वसनं दुःखसागरात् । उत्तारितास्ततः सर्वे बन्धुनेवामुना जनाः ॥४६५॥
 श्रुत्वा परबल प्राप्त साटोपो नाम वीर्यवान् । निर्ययौ सर्वसैन्येन प्रक्षुब्ध इव सागरः ॥४६६॥
 द्वीपैर्गिरिनिर्भामैर्द्वानधारान्धकारिभिः । तुरङ्गैश्च चलच्चारुचामरप्राप्तमूपणैः ॥४६७॥
 रथैरादित्यसकाशैर्ध्वजपङ्क्तिविभूषितैः । पिनद्धकवचैः शस्त्रैर्भट्टैर्वीरैरधिष्ठितैः ॥४६८॥
 ततस्त स्यन्दनारूढो हसन् यमभट क्षणात् । भङ्ग विभीषणो निन्ये वाणै रणविशारदः ॥४६९॥
 यमस्य किङ्करा दीना कुर्वाणाः खमायतम् । वाणैः समाहताश्चक्रुः क्षिप्रं क्वापि पलायनम् ॥४७०॥

आपके पास आया हूँ ॥ ४५६-४५७ ॥ इस प्रकार अपने पक्षके लोगोंकी दुर्दशा जान कर मैंने आपसे कही है । इस विषयसे अब आप ही प्रमाण हैं अर्थात् जैसा उचित समझें सो करें । मैं तो आपसे निवेदन कर कृतकृत्य हो चुका ॥४५८॥ तदनन्तर महा-क्रोधी रावणने अपने पक्षके लोगोंको बड़े आदरसे आदेश दिया कि इस शाखावलीके घाव ठीक किये जावें । तदनन्तर मुसकराता हुआ वह उठा और साथ ही उठे अन्य लोगोंसे कहने लगा कि मैं कष्टरूपी महासागरमे पड़े तथा वैतरणी आदि कष्टदायी स्थानों मे डाले गये लोगों का उद्धार करूँगा ॥४५९-४६०॥ प्रहस्त आदि बड़े-बड़े राजा सेनाके आगे दौड़े । वे शस्त्रोंके तेज से आकाशको देदीप्यमान कर रहे थे ॥४६१॥ नाना प्रकारके वाहनों पर सवार थे, छत्र और ध्वजाओंको धारण करने वाले थे । तुरहीके शब्दोंसे उनका बड़ा भारी उत्साह प्रकट हो रहा था और वे महातेजस्वी थे ही ॥४६२॥ इस प्रकार विद्याधरोके अधिपति आकाशसे उतर कर पृथिवी पर आये और नगरके समीप महलोकी पंक्तिकी शोभा देख परम आश्चर्यको प्राप्त हुए ॥४६३॥ तदनन्तर रावणने किष्कुपुर नगरकी दक्षिण दिशामे कृत्रिम नरकके गर्तमें पड़े मनुष्योंके समूहको देखा ॥४६४॥ देखते ही उसने नरककी रक्षा करने वाले लोगोंको नष्ट किया और जिस प्रकार बन्धुजन अपने इष्ट लोगोंको कष्टसे निकालते हैं उसी प्रकार उसने सब लोगोंको नरकसे निकाला ॥४६५॥ तदनन्तर शत्रुसेनाको आया सुनकर बड़े भारी आडम्बरको धारण करने वाला, शक्ति-शाली यम नाम लोकपालका साटोप नामका प्रमुख भट युद्ध करने के लिए अपनी सब सेनाके साथ बाहर निकला । उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो क्षोभको प्राप्त हुआ सागर ही हो ॥४६६॥ पहाड़के समान ऊँचे, भयंकर और मदकी धारासे अन्धकार फैलाने वाले हाथी, चलते हुए सुन्दर चामररूपी आभूषणोंको धारण करने वाले घोड़े, सूर्यके समान देदीप्यमान तथा ध्वजाओंकी पंक्तिसे सुशोभित रथ, और कवच धारण करने वाले एवं शस्त्रोंसे युक्त शूर वीर योद्धा इस प्रकार चतुरङ्ग सेना उसके साथ थी ॥४६७-४६८॥ तदनन्तर रथ पर आरूढ एवं रण कला में निपुण विभीषणने हँसते-हँसते ही वाणोंके द्वारा उस साटोपको क्षणभरमें मार गिराया ॥४६९॥ यमके जो दीन हीन किङ्कर थे वे भी वाणोंसे ताड़ित हो आकाशको लम्बा करते हुए

१. कृती + अहम्, कृत्योऽह म० । कृतोऽहं तन्निवेदनात् क०, ख० । २. तथा म० । ३. हसने सुभट म० । ४. दीन क०, ख० ।

मोचितान् नारकात् श्रुत्वा साटोपं चावसादितम् । यमो यम इव क्रूरो महाशस्त्रोद्वेगतः ॥४७१॥
 रथोत्साहः समारूढ्य चाप कोपं च धारयन् । उच्छ्रितेन प्रतापेन ध्वजेन च महाबलः ॥४७२॥
 आकुलासितसर्पाभङ्गकुटीकुटिलालकः । चक्षुपात्यन्तरक्तेन दहन्निव जगद्वनम् ॥४७३॥
 प्रतिबिम्बैरिवात्मीयैः सामन्तैः कृतवेष्टनः । योद्धु वेगान्निचक्राम छादयन् तेजसा नभः ॥४७४॥
 ततस्त निर्गतं दृष्ट्वा विनिवार्य विभीषणम् । दशाननो रण कर्तुमुत्थितः कोपमुद्वहन् ॥४७५॥
 साटोपव्यसनेनातिदीपितोऽथ यमः समम् । दशास्येन रण कर्तुमारमे भीषणाननः ॥४७६॥
 दृष्ट्वा च तं ततो भीता जाता राक्षसवाहिनी । दशाननसमीप सा हुडौके मन्दचेष्टिता ॥४७७॥
 रथारूढस्ततस्तस्य दशास्योऽभिमुख ययौ । विमुञ्चन् शरसघातं मुञ्चतः शरसंहतीः ॥४७८॥
 ततस्तयोः शरैरुन्न भीमनिस्वनकारिभिः^३ । नभो घनैरिवाशेष घनवद्धकदम्बकैः ॥४७९॥
 कैकसीनन्दनेनाथ शरेण कृतताडनः । भूमौ ग्रह इवापुण्यः पपात यमसारथिः ॥४८०॥
 ताडितस्तीक्ष्णबाणेन कृतान्तोऽप्यरथीकृतः । उत्पपात रवेर्मागमन्तर्हिततनुः क्षणात् ॥४८१॥
 ततः सान्तःपुरः पुत्रसहितोऽमात्यसंयुतः । कम्पमानतनुर्भीत्या यातोऽसौ रथनूपुरम् ॥४८२॥
 नमस्कृत्य च सभ्रान्त इन्द्रमेवमभापत । शृणु विज्ञापनं देव कृतं मे यमलीलया ॥४८३॥
 प्रसीद व्रज वा कोप हर वा जीवन विभो । कुरु वा वाञ्छित यत्ते यमतां न करोम्यहम् ॥४८४॥

शीघ्र ही कहीं भाग खड़े हुए ॥४७०॥ जब यम नाम लोकपालको पता चला कि सूर्यरज ऋक्षरज आदिको नरकसे छुड़ा दिया है तथा साटोप नामक प्रमुख भटको मार डाला है तब यमराजके समान क्रूर तथा महाशस्त्रोको धारण करने वाला वह यम लोकपाल बड़े वेगसे रथ पर सवार हो युद्ध करने के लिए बाहर निकला । वह धनुष तथा क्रोधको धारण कर रहा था, बड़े हुए प्रताप और ऊँची उठी ध्वजासे युक्त था, महाबलवान् था, काले सर्पके समान भयंकर भौहोंसे उसका ललाट कुटिल हो रहा था, वह अपने लाल-लाल नेत्रोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो जगत् रूपी वनको जला ही रहा हो । अपने ही प्रतिबिम्बके समान दिखने वाले अन्य सामन्त उसे घेरे हुए थे तथा तेजसे वह आकाशको आच्छादित कर रहा था ॥४७१-४७४॥ तदनन्तर यम लोकपालको बाहर निकला देख दशाननने विभीषणको मना किया और स्वयं ही क्रोधको धारण करता हुआ युद्ध करनेके लिए उठा ॥४७५॥ साटोपके मारे जानेसे जो अत्यन्त देदीप्यमान दिख रहा था ऐसे भयंकर मुखको धारण करनेवाले यमने दशाननके साथ युद्ध करना शुरु किया ॥४७६॥ यमको देख राक्षसोकी सेना भयभीत हो उठी, उसकी चेष्टाएँ मन्द पड़ गईं और वह निरुत्साह हो दशाननके समीप भाग खड़ी हुई ॥४७७॥ तदनन्तर रथपर बैठा हुआ दशानन बाणोंकी वर्षा करता हुआ यमके सम्मुख गया । यम भी वाणोंकी वर्षा कर रहा था ॥४७८॥ तदनन्तर सघन मण्डल बाँधनेवाले मेघोंसे जिस प्रकार समस्त आकाश व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार उन दोनोंके भयंकर शब्द करनेवाले वाणोंसे समस्त आकाश व्याप्त हो गया ॥४७९॥ अथानन्तर दशाननके बाणकी चोट खाकर यमका सारथि पुण्य हीन ग्रहके समान भूमिपर गिर पड़ा ॥४८०॥ यम लोकपाल भी दशाननके तीक्ष्ण बाणसे ताडित हो रथरहित हो गया । इस कार्यसे वह इतना घबड़ाया कि क्षण भरमे छिपकर आकाशमें जा उड़ा ॥४८१॥ तदनन्तर भयसे जिसका शरीर काँप रहा था ऐसा यम अपने अन्तःपुर, पुत्र और मन्त्रियोंको साथ लेकर रथनूपुर नगरमें पहुँचा ॥४८२॥ और बड़ी घबराहटके साथ इन्द्रको नमस्कारकर इस प्रकार कहने लगा कि हे देव ! मेरी बात सुनिये । अब मुझे यमराजकी लीलासे प्रयोजन नहीं है ॥४८३॥ हे नाथ ! चाहे आप प्रसन्न हो, चाहे क्रोध करे, चाहे मेरा जीवन हरण करे अथवा चाहे जो आपकी

१. महाशस्त्राटवीं गत. म० (महाशस्त्रोतिवेगतः) । २. दृष्ट्वा च म० । ३. भीमनिश्चलकारिभिः म० ।

युद्धे वैश्रवणो येन निर्जितः पुस्तैजसा । अहमप्यमुना नीतो भङ्गं कृतरणश्चिरम् ॥४८५॥
 नृपं वीरसेनेव वपुस्तस्य महान्मनः । दुरीच्यो व्योममव्यस्थमवितेव निद्रापन्नः ॥४८६॥
 इति श्रुत्वा सुरादीशं संग्रामाय कृतोद्यतिः । निरुद्धो मन्त्रिवर्गेण नय याथान्यवेदिना ॥४८७॥
 जगात् च स्मितं श्रुत्वा मानुलं क्व न यास्यति । भयं सुब्र सुविश्रब्धो भवास्मिन्नासने सुपम् ॥४८८॥
 जामानुरथ वाक्येन परिग्यज्य रिपोर्भयम् । पुरं सुरवरोदगीतमच्युवाम यमः सुर्वा ॥४८९॥
 विधायान्तकसन्मानं सुरेशोऽन्तःपुरं यथा । कामभोगमसुद्रेऽज्ञौ तत्र मग्नो महामदः ॥४९०॥
 दशास्यत्ररितं तस्यै यथेतपतिनोदितम् । वनवासो धनपतेर्भद्रिनो यश्च संयुगे ॥४९१॥
 सर्वमैश्वर्यमत्तस्य विन्मृतं तस्य तच्चगान । अभ्यद्रपटिनं शास्त्रं यथाम्यमनवर्जितम् ॥४९२॥
 कृतोपलम्भं स्वप्नेऽपि ज्ञायते वस्तुलेगतः । निरन्वयं तु तस्येदं विस्मृतं पूर्वचोदितम् ॥४९३॥
 प्राप्य वा सुरसंगीतपुरस्य पतिनां यमः । तिसस्मार परिप्राप्तं परिभूतिं दशाननान् ॥४९४॥
 मेने च मम सर्वश्रीर्दुहिता रूपशालिनी । सा च गीर्वाणनायस्य प्राणेशोऽपि गरीयसी ॥४९५॥
 अन्यन्तमन्तरद्भोज्य मस्वन्धो महता मह । अतो जन्म कृत्रार्थं मे प्राप्य शत्रुप्रतीच्यताम् ॥४९६॥
 ततो महोदयोसाहः श्रीमानुद्वामितान्तकः । नगरं सूर्यरजमे दृष्ट्वा किष्किन्धमज्ञकम् ॥४९७॥
 तथार्चरजमे किष्कपुरं परममंपदम् । प्राप्य गीत्रक्रमाजाते नगरे तौ सुग्न स्थितौ ॥४९८॥

इच्छा हो सो करें परन्तु अब मैं यमपना अर्थान् यम नामा लोकपालका कार्य नहीं करेगा ॥४८५॥
 विशाल तेजका धारण करनेवाले जिस योधाने पहले युद्धमे वैश्रवणको जीता था उसी योद्धा
 दशाननने मुझे भी पराजित किया है । यद्यपि मैं चिर काल तक उसके साथ युद्ध करता रहा
 पर स्थिर नहीं रह सका ॥४८६॥ उस महात्माका शरीर ऐसा जान पड़ता है मानो वीर रससे
 ही बना हो । वह आकाशके मध्यमे स्थित ग्रीष्मकालीन नूर्यके समान दुर्निर्गद्य है अर्थात्
 उसकी ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देख सकता है ॥४८६॥ यह सुनकर इन्द्र युद्धके लिए
 उद्यत हुआ परन्तु नीतिकी यथार्थनाको जाननेवाले मन्त्रिमण्डलने उसे रोक दिया ॥४८७॥
 इन्द्र, यमका जामाता था सो यमकी बात सुन मन्द हास्य करते हुए उसने कहा कि हे मानुल !
 दशानन कहीं जायगा ? तुम भयको छोड़ो और निश्चिन्त होकर इस आसनपर सुखसे
 बैठो ॥४८८॥ इस प्रकार जामाताके वचनसे शत्रुका भय छोड़कर यम इन्द्रके द्वारा वतलाये
 हुए नगरमे सुखसे रहने लगा ॥४८९॥ बहुत भारी गर्वको धारण करनेवाला इन्द्र यमका सन्मान
 कर अन्तःपुरमें चला गया और वहाँ जाकर कामभोग रूपी समुद्रमे निमग्न हो गया ॥४९०॥
 यमने दशाननका जो चरित्र इन्द्रके लिए कहा था तथा युद्धमें दशाननसे पराजित होकर
 वैश्रवणको जो वनवाम करना पड़ा था, ऐश्वर्यके मदमें मस्त रहनेवाले इन्द्रके लिए वह सब
 श्रृण भ्रममें उस प्रकार विन्मृत हो गया जिस प्रकार कि पहले पढ़ा शास्त्र अभ्यास न करनेपर
 विस्मृत हो जाता है ॥४९१-४९२॥ न्यूनमे उपलब्ध वस्तुका कुछ तो भी स्मरण रहता है
 परन्तु इन्द्रके लिए पूर्व कथित बातका निर्मूल विस्मरण हो गया ॥४९३॥ इधर इन्द्रका यह हाल
 हुआ उधर यम सुरसंगीत नामा नगरका स्वामित्व पाकर दशाननमे प्राप्त हुए निरस्कारको
 विलकुल भूल गया ॥४९४॥ वह मानता था कि मेरी पुत्री सर्वश्री अत्यन्त रूपवती है और
 इन्द्रको प्राणसे भी अधिक प्रिय है ॥४९५॥ इस प्रकार एक बड़े पुरुषके साथ मेरा अन्तर्ज्ञ
 सम्बन्ध है इसलिए इन्द्रका सन्मान पाकर मेरा जन्म कृतकृत्य अर्थात् सफल हुआ है ॥४९६॥

तदनन्तर महान् अभ्युदय और उत्साहका धारण करनेवाले दशाननने यमको हटाकर
 किष्किन्ध नामा नगर सूर्यरजके लिए दिया ॥४९७॥ और ऋक्षरजके लिए परम सन्धिको

ते शक्रनगराभिख्ये पुरे काञ्चनसद्मनी^१ । उचितस्वामिसंयुक्ते जग्मतुः परमां श्रियम् ॥४६६॥
 सौमालिरपि विभ्राण. श्रिय कीर्ति च भूयसीम् । प्रत्यवस्थितसामन्तै. प्रणमद्भिः समुत्तमः ॥५००॥
 पूर्यमाण. सदा सेव्यैर्विभवैः प्रतिवासरम् । बन्धुः कुमुदखण्डानां मितपक्षे करैरिव ॥५०१॥
 रत्नढामाकुल तुङ्ग शृङ्गपट्टिचिराजितम् । आरूढ्य पुष्पक चारु विमानं कामगत्वरम् ॥५०२॥
 युक्तः परमधैर्येण प्राप्तपुण्यफलोदयः । त्रिकूटशिखरं भूत्या परया प्रस्थितः कृत्वा ५०३॥
 ततो रत्नोगणास्तस्य प्रमोद परम श्रिता. । चित्रालङ्कारसम्पन्ना वरीयोवस्त्रधारिणः ॥५०४॥
 जय नन्द चिर जीव वर्धस्त्रोदेहि सन्ततम् । इति मङ्गलवाक्यानि प्रयुञ्जाना महारवाः ॥५०५॥
 सिंहशार्दूलमातङ्गवाजिहसादिसश्रिता. । नाना विभ्रमसयुक्ताः प्रमोदविकचेक्षणाः ॥५०६॥
 विभ्राणास्त्रिदशकार तेजोग्याप्तविहायसः । आलोकितसमस्ताशाः काननाद्रिसमुद्रगाः ॥५०७॥
 अदृष्टपारगम्भीर महाप्राहसमाकुलम् । तमाञ्चवनसंकाश गिरितुङ्गोर्मिसहतिम् ॥५०८॥
 रसातलमिवानेकनागनायकभीषणम् । नानारत्नकरत्रातरञ्जितोद्देशराजितम् ॥५०९॥
 पश्यन्तो विस्मयापूर्णाः समुद्र विविधाद्भुतम् । अचुजगमुरहो हांति मुहुर्मुखरिताननाः ॥५१०॥

धारण करनेवाला किष्कुपुर नगर दिया । इस प्रकार सूर्यरज और ऋक्षरज दोनों ही अपनी कुलपरम्परासे आगत नगरोको पाकर सुखसे रहने लगे ॥४६८॥ जिनकी शोभा इन्द्रके नगरके समान थी, और जिनमे सुवर्णमय भवन बने हुए थे ऐसे वे दोनों नगर योग्य स्वामीसे युक्त होकर परम लक्ष्मीको प्राप्त हुए ॥४६९॥ बहुत भारी लक्ष्मी और कीर्तिको धारण करनेवाले दशाननने कृतकृत्य होकर बड़े वैभवके साथ त्रिकूटाचलके शिखरकी ओर प्रस्थान किया । उस समय शत्रु राजा प्रणाम करते हुए उससे मिल रहे थे । वह स्वयं उत्तम था और जिस प्रकार शुक्ल पक्षमें चन्द्रमा किरणोंसे प्रतिदिन पूर्ण होता रहता है उसी प्रकार वह भी प्रतिदिन सेवनीय वैभवसे पूर्ण होता रहता था । रत्नमयी मालाओंसे युक्त, ऊँचे शिखरोकी पंक्तिसे सुशोभित, सुन्दर और इच्छानुसार गमन करनेवाले पुष्पक विमानपर आरूढ़ होकर वह जा रहा था । वह परम धैर्यसे युक्त था तथा पुण्यके फलस्वरूप अनेक अभ्युदय उसे प्राप्त थे ॥५००-५०३॥

तदनन्तर परम हर्षको प्राप्त, नाना अलङ्कारोंसे युक्त एवं उत्तमोत्तम वस्त्र धारण करनेवाले राक्षसोंके भुण्डके भुण्ड जोर-जोरसे निम्नाङ्कित मङ्गल वाक्योंका उच्चारण कर रहे थे कि हे देव ! तुम्हारी जय हो, तुम समृद्धिको प्राप्त होओ, चिरकाल तक जीते रहो, बढ़ते रहो और निरन्तर अभ्युदयको प्राप्त होते रहो ॥५०४-५०५॥ वे राक्षस, सिंह, शार्दूल, हाथी, घोड़े तथा हंस आदि वाहनोपर आरूढ़ थे । नाना प्रकारके विभ्रमोंसे युक्त थे । हर्षसे उनके नेत्र फूल रहे थे । वे देवों जैसी आकृतिको धारण कर रहे थे । अपने तेजसे उन्होंने दिशाओंको व्याप्त कर रक्खा था । उनकी प्रभासे समस्त दिशाएँ जगमगा रहीं थी और वे वन, पर्वत तथा समुद्र आदि सर्व स्थानोंमे चल रहे थे ॥५०६-५०७॥ जिसका किनारा नहीं दीख रहा था, जो अत्यन्त गहरा था, बड़े-बड़े ग्राह—मगर-मच्छोंसे व्याप्त था, तमाल वनके समान श्याम था, पर्वतों जैसी ऊँची-ऊँची तरङ्गोंके समूह उठ रहे थे, जो रसातलके समान अनेक बड़े-बड़े नागों—सर्पोंसे भयङ्कर था, और नाना-प्रकारके रत्नोंकी किरणोंके समूहसे अनुरक्त स्थलोंसे सुशोभित था ऐसे अनेक आश्चर्योंसे युक्त समुद्रको देखते हुए वे राक्षस आश्चर्यसे भर रहे थे । अहो, ही, आदि आश्चर्यव्यञ्जक शब्दोंसे उनके मुख बार-बार मुखरित हो रहे थे । इस प्रकार अनेक राक्षस दशाननके पीछे-पीछे चल रहे थे ॥५०८-५१०॥

अथ भास्वन्महाशालां गम्भीरपरिखावृत्तान् । कुन्दशुभ्रैर्महानीलनीलैर्जालककुक्षिपु ॥५११॥
 पद्मरागारुणैरुद्धैः क्वचिन्पुष्पमणिप्रभैः । गरुत्ममणिसंकाशैरन्यत्र निचितां गृहैः ॥५१२॥
 शोभमानां निसर्गेण पुनश्च कृतभूषणाम् । रत्नोनाथागमे भक्तैः पौरैरद्भुतसंमदैः ॥५१३॥
 अत्यन्तमधिकां कुर्वन् शोभां गिरिनिभैर्गजैः । महाप्रासादसंकाशैः स्यन्दनै रत्नरत्नैः ॥५१४॥
 भस्ववृन्दैः क्वणद्धेमचक्रैश्चलचामरैः । विमानैः शिखरारूढदूराकाशैर्वहुप्रभैः ॥५१५॥
 छत्रैः शशाङ्कसंकाशैर्ध्वजैरुद्धूतकोटिभिः । वन्दिवृन्दारकौषेण कृतमङ्गलनिस्वनः ॥५१६॥
 वीणवैणुविमिश्रेण शङ्खनादानुगामिना । तूर्यनादेन निःशेषं दिङ्मनोविदितात्मना ॥५१७॥
 प्रविवेश निजार्माशो लङ्कां शङ्खाविवर्जितः । त्रिदशेश इवोदारो दशास्यः शासिता हितः ॥५१८॥
 ततो गोत्रक्रमायातनाथदर्शनलालसाः । गृहीत्वार्घ्यं^१ फलैः पुष्पैः पत्रै रत्नैश्च कल्पितम् ॥५१९॥
 गृहीतभूषणाल्यन्तचारुवस्त्रादिसंपदः । नृत्यद्भिर्गणिकासङ्घै रन्विता नेत्रहारिभिः ॥५२०॥
 सर्वे पौराः समागत्य प्रयुक्ताशीर्गिरो मुहुः । आनर्तुः सनमस्कारा यथावृद्धपुरस्सराः ॥५२१॥
 विसर्जिताश्च ते तेन संप्राप्तप्रतिमाननाः^२ । यथास्त्वं निलयं जगमुस्तद्गुणोक्तिगताननाः ॥५२२॥
 अथ तद्गवनं तस्य कौतुकन्यासबुद्धिभिः । नारीभिः कृतभूषाभिः पूरितं तद्दिदृक्षुभिः ॥५२३॥
 गवाक्षाभिमुखाः काश्चित्तराविसर्त्तवाससः । अन्योऽन्यवाधविच्छिन्नमुक्ताहारविभूषणाः ॥५२४॥

अथानन्तर जिसमें बड़ी-बड़ी शालाएँ देदीप्यमान हो रहीं थीं, जो गम्भीर परिखासे आवृत थीं, जो झरोखोंमें लगे हुए मणियोंसे कहीं तो कुन्दके समान सफेद, कहीं महानील मणियोंके समान नील, कहीं पद्मरागमणिके समान लाल, कहीं पुष्परागमणियोंके समान प्रभास्वर और कहीं गरुडमणियोंके समान गहरे नील वर्णवाले महलोंसे व्याप्त थीं। जो स्वभावसे ही सुशोभित थीं फिर राजसोंके अधिपति दशाननके शुभागमनके अवसरपर आश्चर्यकारी हर्षसे भरे भक्त नागरिकजनोंके द्वारा और भी अधिक सुशोभित की गईं थीं ऐसी अपनी लङ्का नगरीमें हितकारी उदार शासक दशाननने निःशङ्क हो इन्द्रके समान प्रवेश किया। प्रवेश करते समय दशानन, पर्वतोंके समान ऊँचे-ऊँचे हाथियों, बड़े-बड़े महलोंके समान रत्नोंसे रञ्जित रथों, जिनकी लगामके स्वर्णभयी छल्ले शब्द कर रहे थे एवं जिनके आजूबाजू चमर ढोले जा रहे थे ऐसे घोड़ों, जिनकी शिखरें दूर तक आकाशमें चली गईं थीं ऐसे रङ्गविरङ्गे विमानों, चन्द्रमाके समान उज्ज्वल छत्रों, और जिनका अञ्जल आकाशमें दूर-दूर तक फहरा रहा था ऐसी ध्वजाओंसे लङ्काकी शोभाको अत्यन्त अधिक बढ़ा रहा था। उत्तमोत्तम चारणोंके झुण्ड मङ्गल शब्दोंका उच्चारण कर रहे थे। वीणा, बाँसुरी और शङ्खोंके शब्दसे मिश्रित तुरहीकी विशालध्वनिसे समस्त दिशा और आकाश व्याप्त हो रहे थे ॥५११-५१८॥

तदनन्तर कुलक्रमसे आगत स्वामीके दर्शन करनेकी जिनकी लालसा बढ़ रही थी, जिन्होंने आभूषण तथा अत्यन्त सुन्दर वस्त्रादि सम्पदाएँ धारण कर रक्खी थीं और जो नृत्य करती हुई नयनाभिराम गणिकाओंके समूहसे युक्त थे, ऐसे समस्त पुरवासी जन, फलों फूलों, पत्तों और रत्नोंसे निर्मित अर्घ्य लेकर चार-चार आशीर्वादका उच्चारण करते हुए दशाननके समक्ष आये। उन पुरवासियोंने वृद्धजनोंको अपने आगे कर रक्खा था। उन्होंने आते ही दशाननको नमस्कार कर उसकी पूजा की ॥५१९-५२१॥ दशाननने सबका सन्मान कर उन्हें विदा किया और सब अपने मुखोंसे उसीका गुणगान करते हुए अपने-अपने घर गये ॥५२२॥ अथानन्तर जिनकी बुद्धि कौतुकसे व्याप्त हो रही थी और जिन्होंने तरह-तरहके आभूषण धारण कर रक्खे थे ऐसी उसकी दर्शनाभिलाषी स्त्रियोंसे दशाननका घर भर गया ॥५२३॥ उन स्त्रियोंमें कितनी ही स्त्रियाँ झरोखोंके सम्मुख आ रही थीं। शीघ्रताके कारण उनके वस्त्र खुल रहे थे और परस्परकी

१. गृहीतार्घ्यं म० । २. प्रतिमानताः म० । ३. त्वरां विश्रस्त-म० ।

पीनस्तनकृतान्योन्यपीडनाञ्चलकुण्डलाः । रणकारि तुलाकोटिवाचालचरणद्वया ॥५२५॥
 किं न पश्यसि हा मातः पार्वती भव दुर्भगे । देहि मार्गं ब्रजामुष्मादपि नारि न शोभसे ॥५२६॥
 निगदन्त्येवमादीनि विक्रान्त्रुहाननाः । मुक्त्वा व्यापारजातानि तमैस्सन्त पुराङ्गनाः ॥५२७॥
 पुरचूडामणौ गेहे स्वस्मिन् सत्कृतभूषणे । सुखं सान्तः पुरस्तस्यौ कृतान्तस्य विमर्दकः ॥५२८॥
 शेषा अपि यथास्थान स्थिता विद्याधराधिपा । प्राप्नुवन्तो महानन्दं सततं त्रिदशा इव ॥५२९॥

द्रुतविलम्बितवृत्तम्

विविधरत्नसमागमसम्पद. प्रवलशत्रुसमूलविमर्दनम् ।
 सकलविष्टपगामि यशः सित भवति निर्मितनिर्मलकर्मणाम् ॥५३०॥
 रिपव उग्रतरा विपयाह्वया अपनयन्ति भुवस्त्रितये स्मृतिम् ।
 बहिरवस्थितशत्रुगण. पुनः सततमानमते पदनन्तरम् ॥५३१॥
 इति विचिन्त्य न युक्तमुपासितुं विपयशत्रुगणं पुरुचेतसः ।
 अवदमेति जनस्तमसा ततं न तु रवे. किरणैरवभासितम् ॥५३२॥

इत्यार्षे रविपेणाचार्यं प्रोक्ते पद्मचरिते दशग्रीवाभिधानं नामाष्टमं पर्व ॥८॥

घक्काधूमिसे उनके मोतियोके हार तथा अन्य आभूषण टूट-टूटकर गिर रहे थे ॥५२४॥ कितनी ही स्त्रियों अपने स्थूल स्तनोसे एक दूसरेको पीड़ा पहुँचा रही थीं और उससे उनके कुण्डल हिल रहे थे । कितनी ही स्त्रियोंके दोनो पैर रत्नमुन करते हुए नूपुरोंसे भङ्कृत हो रहे थे ॥५२५॥ कोई स्त्री सामने खड़ी दूसरी स्त्रीसे कह रही थी कि हे माता ! क्या देख नहीं रही हो ? अरी दुर्भगे ! जरा बगलमे हो जा, मुझे भी रास्ता दे दे । कोई कह रही थी कि अरी भली आदमिन ! तू यहाँसे चली जा, तू यहाँ शोभा नहीं देती ॥५२६॥ इत्यादि शब्द वे स्त्रियाँ कर रहीं थीं । उस समय उनके मुखकमल हर्षसे खिल रहे थे । वे अन्य सब काम छोड़कर एक दशाननको ही देख रहीं थीं ॥५२७॥ इस प्रकार यमका मानमर्दन करनेवाला दशानन, लङ्का नगरीमे स्थित चूडामणिके समान मनोहर अपने सुसज्जित महलमे अन्तःपुर सहित सुखसे रहने लगा ॥५२८॥ इसके सिवाय अन्य विद्याधर राजा भी देवोंके समान निरन्तर महा आनन्दको प्राप्त हुए यथायोग्य स्थानोंमे रहने लगे ॥५२९॥

गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! जो निर्मल कार्य करते हैं उन्हें नाना-प्रकारके रत्नादि सम्पदाओंकी प्राप्ति होती है, उनके प्रवल शत्रुओंका समूह नष्ट होता है और समस्त संसारमे फैलनेवाला उज्ज्वल यश उन्हें प्राप्त होता है ॥५३०॥ पद्मेन्द्रियोंके विषय सबसे प्रवल शत्रु हैं सो जो निर्मल कार्य करते हैं उनके ये प्रवल शत्रु भी तीनों लोकोंमे अपनी स्मृति नष्ट कर देते हैं अर्थात् इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं कि उनका स्मरण भी नहीं रहता । इसी प्रकार ब्राह्मणमे स्थित होनेवाला जो शत्रुओंका समूह है वह भी निर्मल कार्य करनेवाले मनुष्योंके चरणोंके समीप निरन्तर नमस्कार करता रहता है । भावार्थ—निर्मल कार्य करनेवाले मनुष्योंके अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों ही शत्रु नष्ट हो जाते हैं ॥५३१॥ ऐसा विचारकर हे श्रेष्ठ चित्तके धारक पुरुषो ! विषयरूपी शत्रु समूहकी उपासना करना उचित नहीं है । क्योंकि उनकी उपासना करनेवाला मनुष्य अन्धकारसे युक्त नरकरूपी गर्तमे पड़ता है न कि सूर्यकी किरणोंसे प्रकाशमान उत्तम स्थानको प्राप्त होता है ॥५३२॥

इसप्रकार आर्य नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्यनिर्मित पद्मचरित ग्रन्थमे दशाननका कथन करनेवाला ऋष्टम पर्व समाप्त हुआ ॥८॥

नवमं पर्व

अथ सूर्यरजा^१ पुत्र बालिसञ्जमजीजनत् । इन्द्रमालिन्यभिख्यायां गुणसम्पूर्णोपिति ॥१॥
 परोपकारिणं नित्यं तथा शीलयुतं बुधम् । दत्त धीर श्रिया युक्त शूर ज्ञानसमन्वितम् ॥२॥
 कलाकलापसंयुक्त सम्यग्दृष्टिं महाबलम् । राजनीतिविद वीर कृपादीकृतचेतसम् ॥
^२विद्यासमूहसम्पन्न कान्तिमन्तं सुतेजर्सम् ॥३॥

विरलस्तादृशां लोके पुरुषाणां समुद्रवः । चन्दनानामिवोदारः प्रभावः प्रथितात्मनाम् ॥४॥
 समस्तजिनविम्बाना नमस्कारार्थमुद्यतः । त्रिकालतीर्णसदेहो भक्त्या युक्तोऽप्युदारया ॥५॥

चतुःसमुद्रपर्यन्तं जम्बूद्वीप क्षणेन यः । त्रिपरिक्षिप्य किष्किन्ध नगर पुनरागमत् ॥६॥

ईदृक्पराक्रममाधारः शत्रुपक्षस्य मर्दकः । पौरनेत्रकुमुद्वत्याः शशाङ्क शङ्कयोष्कितः ॥७॥

किष्किन्धनगरे रम्ये चित्रप्रासादतोरणे । विद्वज्जनसमाकीर्णं द्विपवाजिवराकुले ॥८॥

नानासव्यवहाराभिरापणालीभिराकुले । रमे कल्पे तथैशाने रत्नमालः सुरोत्तमः ॥९॥

अनुक्रमाच्च तस्याभूत् सुग्रीवाभिख्ययानुजः । वीरो धीरो मनोज्ञेन युक्तो रूपेण सन्नयः ॥१०॥

अथानन्तर सूर्यरजने अपनी चन्द्रमालिनी नामक गुणवती रानीमें बाली नामका पुत्र उत्पन्न किया ॥१॥ वह पुत्र परोपकारी था, निरन्तर शीलव्रतसे युक्त रहता था, विद्वान् था, कुशल था, धीर था, लक्ष्मीसे युक्त था, शूर-वीर था, ज्ञानवान् था, कलाओंके समूहसे युक्त था, सम्यग्दृष्टि था, महाबलवान् था, राजनीतिका जानकार था, वीर था, दयालु था, विद्याओंके समूहसे युक्त था, कान्तिमान् था और उत्तम तेजसे युक्त था ॥२-३॥ जिस प्रकार लोकमें उत्कृष्ट चन्दनकी उत्पत्ति विरल अर्थात् कहीं-कहीं ही होती है उसी प्रकार बाली जैसे उत्कृष्ट पुरुषोंका जन्म भी विरल अर्थात् कहीं-कहीं होता है ॥४॥ जिसका समस्त सन्देह दूर हो गया था ऐसा बाली उत्कृष्ट भक्तिसे युक्त होकर तीनो ही काल समस्त जिन-प्रतिमाओंकी वन्दना करनेके लिए उद्यत रहता था ॥५॥ जिसकी चारो दिशामें समुद्र घिरा हुआ है ऐसे जम्बूद्वीपकी वह क्षण भरमें तीन प्रदक्षिणाएँ देकर अपने किष्किन्ध नगरमें वापिस आ जाता था ॥६॥ इस प्रकारके अद्भुत पराक्रमका आधारभूत बाली शत्रुओंके पक्षका मर्दन करनेवाला था, पुरवासी लोगोंके नेत्र रूपी कुमुदिनियोंको विकसित करनेके लिए चन्द्रमाके समान था और निरन्तर शङ्कासे दूर रहता था ॥७॥ जहाँ रंग-विरंगे महलके तोरणद्वार थे, जो विद्वज्जनोंसे व्याप्त था, एकसे एक बढ़कर हाथियों और घोड़ोंसे युक्त था, और अनेक प्रकारके व्यापारोंसे युक्त बाजारोंसे सहित था ऐसे मनोहर किष्किन्ध नगरमें वह बाली इस प्रकार क्रीड़ा करता था जिस प्रकार कि ऐशान स्वर्गमें रत्नोंकी माला धारण करनेवाला इन्द्र क्रीड़ा क्रिया करता है ॥८-९॥

अनुक्रमसे बालीके सुग्रीव नामका छोटा भाई उत्पन्न हुआ । सुग्रीव भी अत्यन्त धीर

१. सूर्यरजा म० । सूर्यरजः ख० । २. चन्द्रमालिन्य-म० । ३. दयाशील म० । यथाशील- म० ।
 ४ बुधाः क० । ५. शूर ज्ञानसमन्वितम् म० । ६. सम्यग्दृष्टिं महाबलम् म० । ७. विद्यासमूहसम्पन्नं कान्तिमन्तं
 सुतेजर्सम् क०, ख०, म० । ८. एष श्लोकः षट्पादात्मकः, रामायणमहाभारतादियु षट्पादात्मका अपि
 अनुष्टुप्श्लोका दृश्यन्ते । ९. पुरुषाणां च समुद्रवः म० । १०. त्रिकाले क० । ११. त्रिः परीत्य म०, म
 पुस्तके एष श्लोकः 'त्रिकालतीर्णं सदेह—इत्यारभ्य-पुनरागमत्' पर्यन्तं षट्पादात्मको वर्तते । १२. शत्रुपक्ष-
 विमर्दकः ख० ।

विज्ञेयौ बालिसुग्रीवौ किष्किन्धकुलभूपणौ । तयोस्तु भूपणीभूता विनयप्रमुखा गुणाः ॥११॥
 सुग्रीवानन्तरा कन्या रूपेणाप्रतिमा भुवि । श्रीप्रभेति समुद्रभूता क्रमशः श्रीरिव स्वयम् ॥१२॥
 किष्कुप्रमोदनगरे हरिकान्ताख्ययोपिति^१ । क्रमाद्रत्नरजाः पुत्रौ नलनीलावजीजनत् ॥१३॥
 वितीर्णस्वजनानन्दौ रिपुशङ्कावितारिणौ । उदात्तगुणसभारौ भूतौ तौ किष्कुमण्डनौ ॥१४॥
 यौवनश्रियमालोक्य सुतस्य स्थितिपालिनीम् । विपमिश्राजसदृशान्विदित्वा विपयान् बुधः ॥१५॥
 वितीर्य बालये राज्य धर्मपालनकारणम् । सुग्रीवाय च सचेष्टो युवराजपदं कृती ॥१६॥
 अवगम्य पर स्वं च जनं साम्येन सज्जनः । चतुर्गति जगज्ज्ञात्वा महादुःखनिपीडितम् ॥१७॥
 मुनेः पिहितमोहस्य शिष्यः सूर्यरजा अभूत् । यथोक्तचरणाधारः शरीरेऽपि गतस्पृहः ॥१८॥
 नभोवदमलस्वान्तः सङ्गमुक्तः समीरवत् । विजहार स निष्क्रोधो धरण्यां मुक्तिलालसः ॥१९॥
 अथ बालेध्रुवा नाम्ना साध्वी पाणिगृहीत्यभूत् । अङ्गनानां शतस्याप प्राधान्यं या गुणोदयात् ॥२०॥
 तथा सह महैश्वर्यं सोऽन्वभूच्चारुविभ्रमः । श्रीवानराङ्गमुकुटः पूजिताङ्गः खगाधिपः ॥२१॥
 अत्रान्तरं छलान्वेषी मेघप्रभशरीरजः । हर्तुमिच्छति तां कन्यां लङ्केशस्य सहोदराम् ॥२२॥
 यदैव तेन सा दृष्टा सर्वगात्रमनोहरा । तदा प्रभृत्यय देहमधत्तानङ्गपीडितम् ॥२३॥

वीर, नीतिज्ञ एवं मनोहर रूपसे युक्त था ॥१०॥ बाली और सुग्रीव-दोनो ही भाई किष्किन्ध नगरके कुलभूषण थे और विनय आदि गुण उन दोनोके आभूषण थे ॥११॥ सुग्रीवके बाद श्रीप्रभा नामकी कन्या उत्पन्न हुई जो पृथिवीमे रूपसे अनुपम थी तथा साक्षात् श्री अर्थात् लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी ॥१२॥

सूर्यरजका छोटा भाई ऋत्नरज किष्कुप्रमोद नामक नगरमें रहता था । सो उसने वहाँ हरिकान्ता नामक रानीसे क्रमसे नल और नील नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥१३॥ ये दोनो ही पुत्र आत्मीय जनोंको आनन्द प्रदान करते थे, शत्रुओंको भय उत्पन्न करते थे, उत्कृष्ट गुणोंसे युक्त थे और किष्कुप्रमोद नगरके मानो आभूषण ही थे ॥१४॥ विद्वान् कुशल एवं समीचीन चेष्टाओंको धारण करनेवाले सूर्यरजने जब देखा कि पुत्रकी यौवन लक्ष्मी कुल-भर्यादाका पालन करनेमें समर्थ हो गई है, तब उसने पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंको विपमिश्रित अन्नके समान त्याज्य समझकर धर्म रक्षाका कारणभूत राज्य बालीके लिए दे दिया और सुग्रीवको युवराज बना दिया ॥१५-१६॥ सत्पुरुष सूर्यरज स्वजन और परिजनको समान जान तथा चतुर्गति रूपे संसारको महा दुःखोंसे पीड़ित अनुभवकर पिहितमोह नामक मुनिराजका शिष्य हो गया । जिनेन्द्र भगवान्ने मुनियोंका जैसा चारित्र्य बतलाया है सूर्यरज वैसे ही चारित्र्यका आधार था । वह शरीरमे भी निःस्पृह था । उसका हृदय आकाशके समान निर्मल था, वह वायुके समान निःसङ्ग था, क्रोध रहित था और केवल मुक्तिकी ही लालसा रखता हुआ पृथिवीमें विहार करता था ॥१७-१८॥

अथानन्तर बालीकी ध्रुवा नामकी शीलवती स्त्री थी । वह ध्रुवा अपने गुणोंके अभ्युदयसे उसकी अन्य सौ स्त्रियोंमे प्रधानताको प्राप्त थी ॥२०॥ जिसके मुकुटमे वानरका चिह्न था, तथा विद्याधर राजा जिसकी आज्ञा बड़े सन्मानके साथ मानते थे ऐसा सुन्दर विभ्रमको धारण करने वाला बाली उस ध्रुवा रानीके साथ महान् ऐश्वर्यका अनुभव करता था ॥२१॥ इसी बीचमें मेघप्रभका पुत्र खरदूपण जो निरन्तर छलका अन्वेषण करता था दशाननकी बहिन चन्द्रनखाका अपहरण करना चाहता था ॥२२॥ जिसका सर्व शरीर सुन्दर था ऐसी चन्द्रनखाको जिस समयसे खरदूपणने देखा था उसी समयसे उसका

आवल्यां प्रवराज्जातां कन्यां नाम्ना तनूदरीम् । गत. ^१स्तेनयितुं यावद्धर्मस्य परिमर्दकः ॥२४॥
 ज्ञात्वाथ ^३निष्प्रभिस्तावल्लङ्का वीतदशाननाम् । सुख चन्द्रनखां जहे विद्यामायाप्रवीणधीः ॥२५॥
 शूरी किं कुरुतामत्र भानुकर्णविभीषणौ । यत्रारिश्छिद्रमासाद्य कन्यां हरति मायया ॥२६॥
 पृष्ठतश्च ^४तत सैय गच्छताभ्या निवर्तितम् । जीवन्नेष रणे शक्तो गृहीतु नेति चेतसा ॥२७॥
 शुश्राव चागतो वार्ता तादृशी कैकसीसुतः । जगाम च ^५दुरीच्यत्व कोपवेशात् सुभीषणात् ॥२८॥
 तत आगमनोद्भूतश्रमप्रस्वेदविन्दुषु । स्थितेष्वेव पुनर्गन्तुमुद्यतो मानचोदित ॥२९॥
 महाय खड्गमेरु च जग्राहान्यपराद्मुखः । अन्तरङ्ग स एवैक सग्रामे वीर्यशालिनाम् ॥३०॥
 तावन्मन्दोदरीं वद्ध्वा करद्वयसरोरुहम् । व्यज्ञापयदिति व्यक्तज्ञातलौकिकसंस्थितिः ॥३१॥
 कन्या नाम प्रभो देया परस्माद्येव निश्चयात् । उत्पत्तिरेव तासां हि तादृशी सार्वलौकिकी ॥३२॥
 खेचराणा सहस्राणि सन्ति तस्य चतुर्दश । ये वीर्यकृतसन्नाहा समरादनिवर्तिनः ॥३३॥
 बहून्यस्य सहस्राणि विद्यानां दर्पशालिनः । सिद्धानीति न कि लोकाद्भवता श्रवणे कृतम् ॥३४॥
 प्रवृत्ते दारुणे युद्धे भवतोः समशौर्ययोः । सन्देह एव जायेत जयस्यान्यतर प्रति ॥३५॥
 कथञ्चिच्च हतेऽप्यस्मिन् कन्याहरणदूषिता । अन्यस्मै नैव विश्राण्या केवलं ^६विधवीभवेत् ॥३६॥
 कि च सूर्यरजोमुक्ते त्वत्पुरे ^७प्रत्यवस्थितम् । अलंकारोदये नाम्ना चन्द्रोदरनभश्चरम् ॥३७॥

शरीर कामसे पीडित हो गया था ॥२३॥ एक दिन यमका मान मर्दन करनेवाला दशानन राजा प्रवरकी आवली रानीसे समुत्पन्न तनूदरी नामा कन्या का अपहरण करनेके लिए गया था ॥२४॥ सो विद्या और माया दोनोंमें ही कुशल खरदूषणने लङ्काको दशाननसे रहित जान कर चन्द्रनखाका सुखपूर्वक—अनायास ही अपहरण कर लिया ॥२५॥ यद्यपि शूरवीर भानुकर्ण और विभीषण दोनों ही लकामे विद्यमान थे पर जब शत्रु मायासे छिद्र पाकर कन्याका अपहरण कर रहा था तब वे क्या करते ? ॥२६॥ उसके पीछे जो सेना जा रही थी भानुकर्ण और विभीषणने उसे यह सोचकर लौटा लिया कि यह जिन्दा युद्धमे पकड़ा नहीं जा सकता ॥२७॥ लङ्कामे वापिस आने पर दशाननने जब यह बात सुनी तो भयंकर क्रोधसे वह दुरीच्य हो गया अर्थात् उसकी ओर देखना कठिन हो गया ॥२८॥ तदनन्तर बाहरसे आनेके कारण उत्पन्न परिश्रमसे उसके शरीर पर पसीने की जो बूँदे उत्पन्न हुई थी वे सूख नहीं पाई थीं, कि अभिमानसे प्रेरित हो वह पुनः जानेके लिए उद्यत हो गया ॥२९॥ उसने अन्य किसीकी अपेक्षा न कर सहायताके लिए सिर्फ एक तलवार अपने साथ ली, सो ठीक ही है क्योंकि युद्धमें शक्तिशाली मनुष्योंका अन्तरङ्ग सहायक वही एक तलवार होती है ॥३०॥ ज्योही दशानन जानेके लिए उद्यत हुआ त्योही स्पष्ट रूपसे लोककी स्थिति को जानने वाली मन्दोदरी दोनों हस्त-कमल जोडकर इस प्रकार निवेदन करने लगी ॥३१॥ कि हे नाथ ! निश्चयसे कन्या दूसरेके लिए ही दी जाती है क्योंकि समस्त संसारमे उनकी उत्पत्ति ही इस प्रकारकी होती है ॥३२॥ खरदूषणके पास चौदह हजार विद्याधर हैं जो अत्यधिक शक्तिशाली तथा युद्धसे कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं ॥३३॥ इसके सिवाय उस अहंकारीको कई हजार विद्याएँ सिद्ध हुई हैं यह क्या आपने लोगोसे नहीं सुना ? ॥३४॥ आप दोनों ही समान शक्तिके धारक हो अतः दोनोंके बीच भयंकर युद्ध होने पर एक दूसरेके प्रति विजयका सन्देह ही रहेगा ॥३५॥ यदि किसी तरह वह मारा भी गया तो हरणके दोषसे दूषित कन्या दूसरेके लिए नहीं दी जा सकेगी, उसे तो मात्र विधवा ही रहना पड़ेगा ॥३६॥ इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि तुम्हारे अलंकारोदय

१. चोरयितुम् । गतस्ते नयितुम् म० । २. रावणः । ३. खरदूषणः । ४. गर्तं म० । ५. गच्छताभ्या म० । ६. दुरीच्यत्व म० । ७. अविधवा विधवा सपद्यमाना भवेदिति विधवीभवेत् । विधवा भवेत् म०, व० विधवीकृता ख० । ८. प्रत्यवस्थितः व० ।

निर्वास्यासौ स्थित सार्धं तव स्वत्वा महाबल । उपकारित्वमेतस्मान्संप्राप्त स्वजन. स ते ॥३८॥
 ततो दृशाननोऽवादीत् प्रिये युद्धाद् विभेमि न । स्थितस्त्वद्वचने किन्तु शेषैरेवास्मि कार्ग्वं ॥३९॥
 अथ चन्द्रोदरे कालं प्राप्ते कर्मनियोगत । वनितास्यानुराधाख्या वराकी शरणोऽङ्किता ॥४०॥
 इतश्चेतश्च विद्याया बलेनाथ विवजिता । अन्तर्वन्ता वने भीमे बभ्राम हरिणी यथा ॥४१॥
 अचूत च सुतं कान्तं मणिकान्तमहीधरे । मृदुपल्लवपुण्यौवच्छन्ने समशिलातले ॥४२॥
 ततोऽसौ क्रमतो वृद्धिं नातो विपिनवासया । उद्विग्नचित्तया मात्रा तदाशास्थितजीवया ॥४३॥
 चतोऽयं प्रतिपद्मे गर्भं पुत्र विराधित. । ततो विराधिताभिद्वयां प्रापितो भोगवर्जित. ॥४४॥
 न तस्य गौरवं चक्रे कश्चिदप्यवनौ नरः । प्रच्युतस्य निजस्थानात् केशस्येवोत्तमाङ्गतः ॥४५॥
 प्रतिकर्तुमशक्तोऽसौ वैरं चित्तेन धारयन् । आचारागतवृत्तिस्यो देशान् पर्याटि वाञ्छितान् ॥४६॥
 रेमे वर्षधराप्रेषु काननेषु च चात्सु । तथात्तिशयदेशेषु गार्वाणागमनेषु च ॥४७॥
 ध्वजच्छत्रादिरभ्येषु संकुलेषु गजादिभिः । वीराणां विभ्रमं पश्यन् संग्रामेषु समं सुरं ॥४८॥
 नगर्यामय लङ्कायां सुरेशस्येव तिष्ठत. । परान् प्राप्नुवतो भोगान् दशवक्त्रस्य भास्वतः ॥४९॥
 प्रतिकूलितवानाज्ञा वालिर्वल्समन्वित. । विद्याभिरद्भुत कर्म कुर्वताभित्पासित. ॥५०॥
 दशास्येन ततो दूतः प्रेषितोऽस्मै महामति । जगाद वानरार्धांगं स्वामिनो नानमुद्वहन् ॥५१॥

नगरको जब राजा सूर्यरजने छोड़ा था तब चन्द्रोदर नामा विद्याधर तुम्हारी इच्छाके प्रतिकूल उस नगरमें जम गया था सो उसे निकाल कर महाबलवान् खरदूषण तुम्हारी बहिनके साथ उसमें रह रहा है इस प्रकार तुम्हारे स्वजन उससे उपकारको भी प्राप्त हुए हैं ॥३६-३८॥ यह कह कर जब मन्दोदरी चुप हो रही तब दशाननने कहा कि हे प्रिये ! यद्यपि मैं युद्धसे नहीं डरता हूँ तो भी अन्य कारणों को देखता हुआ मैं तुम्हारे वचनोंमें स्थित हूँ अर्थात् तुम्हारे कहे अनुसार उसका पीछा नहीं करता हूँ ॥३९॥

अथानन्तर कर्मोंके नियोगसे चन्द्रोदर विद्याधर कालको प्राप्त हुआ सो उसकी दीन-हीन अनुराधा नामकी गर्भवती स्त्री शरण रहित हो तथा विद्याके बलसे शून्य हो हरिणोंकी नाई भयंकर वनमें इधर-उधर भटकने लगी ॥४०-४१॥ वह भटकती-भटकती मणिकान्त नामक पर्वत पर पहुँची । वहाँ उसने कोमल पल्लव और फूलोंके समूहसे आच्छादित समशिलातल पर एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया ॥४२॥ तदनन्तर जिसका चित्त निरन्तर उद्विग्न रहता था, और पुत्रको आशा से ही जिसका जीवन स्थित था ऐसी उस वनवासिनी माताने क्रम-क्रमसे उस पुत्रको बड़ा किया ॥४३॥ चूँकि शत्रुने उस पुत्रको गर्भमें ही विराधित किया था इसलिए भोगोंसे रहित उस पुत्रका माताने विराधित नाम रखा ॥४४॥ जिसप्रकार अपने स्थान—मस्तकसे च्युत हुए केशका कोई आदर नहीं करता उसी प्रकार उस विराधितका पृथिवी पर कोई भी आदर नहीं करता था ॥४५॥ वह शत्रुसे बदला लेनेमें समर्थ नहीं था इसलिए मनमें ही वैर धारण करता था और कुलपरम्परागत आचारका पालन करता हुआ इच्छित देशोंमें घूमता रहता था ॥४६॥ वह कुलाचलोंके ऊपर, मनोहर वनोंमें तथा जहाँ देवोंका आगमन होता था ऐसे अतिशयपूर्ण स्थानों में क्रीड़ा किया करता था ॥४७॥ वह स्वजा, छत्र आदिसे सुन्दर तथा हाथियों आदिसे व्याप्य देवोंके साथ होनेवाले युद्धोंमें वीर मनुष्योंकी चेष्टाएँ देखता हुआ घूमता फिरता था ॥४८॥

अथानन्तर उक्तप्र भोगोंको प्राप्त करता हुआ देदीयमान दशानन लङ्कानगरीमें इन्द्रके समान रहता था ॥४९॥ सो आश्चर्यजनक कार्य करने वाली विद्याओंसे सेवित बलवान् वाली उसकी आज्ञाका अतिक्रम करने लगा ॥५०॥ तदनन्तर दशाननने वालीके पास महाबुद्धिमान् दूत भेजा । सो स्वामीके गर्वको धारण करता हुआ दूत वालीके पास जाकर कहने लगा कि दशानन इस

अनन्यमर्दश' धेत्रे भरतेऽस्मिन् प्रतापवान् । महावज्रो महानेत्रा श्रीमाद्ययत्रिगारदः ॥५०॥
 महाप्रापनमन्यत्र उग्रदण्डो महोदय' । आज्ञापयति देवस्त्रां गजुमर्दो दशाननः ॥५१॥
 यमागतिं मसुद्रास्य भवतोऽर्करजा' पिता । यत्र किष्किन्धनायत्रे स्थापितो वानरान्वये ॥५२॥
 विस्तृत्य सुदृढं वृथं न त्वं जनयितु' पन्थ । कुर्ये प्रत्यवस्थानमिति सौधो न युज्यते ॥५३॥
 पिनुस्ते सदृशीं प्रीतिमत्रिकां वा कर्गम्यहम् । अद्याप्येहि प्रगामं मे कुन स्यातुं यथामुत्तम् ॥५४॥
 स्वमारं च प्रयच्छेमा श्रीप्रमास्त्यां मया मद्र । सन्धनं प्राप्य ते सर्वं मत्रिप्यति मुक्तावहम् ॥५५॥
 इत्युक्ते विसृज्य ज्ञात्रा बालिं प्रणमनं प्रति । आनन्य विकारैग दूतः पुनरुदाहरत् ॥५६॥
 किमत्र बहुनेनेन कुरु गान्वाभृग श्रुतो । मदीयं निश्चितं वाक्यमण्डलच्छात्रिदम्बितः ॥५७॥
 कुरु मर्जी कर्ं दातुमादानुं वायुवं कर्ग । गृहाग चामरं शीघ्रं ककुभां वा कदम्बकम् ॥६०॥
 शिगे नमय चापं वा नयाज्ञां कर्गधरताम् । मीर्वां वा दुम्भहागवामामर्जीविन्दायिनीम् ॥६१॥
 मन्दाडनं रजां मूर्तिं शिखमयवा कुरु । वदयाङ्गलिमुद्रवृथ्य करिणां वा महाचयम् ॥६२॥
 विमुञ्चेषुं यन्त्रिं वा मर्जेकं वेत्रकुन्तरो । पश्य मेऽद्भिन्नखे वक्रमयवा खड्गदपणे ॥६३॥
 तत्र. पर्यवाप्येन दूतन्योदधुनमानस । नाम्ना व्याघ्रविलम्बीति वभाग मद्रमत्तमः ॥६४॥
 समन्तधरगोप्यापिरागक्रमगुणोदय । बालिद्वो न किं यातः कर्गजाहं कुरवस' ॥६५॥

भरत क्षेत्रमें अपनी शान्ती नहीं रखता । वह अतिशय प्रतापी, महाबलवान्, महातेजस्वी, लक्ष्मणमन्त्र, नीतिमें निपुण, महासाधन सम्पन्न, उग्रदण्ड देने वाला, महान् अभ्युदयसे युक्त, और गजुओंका मान मर्दन करनेवाला है । वह तुम्हें आज्ञा देता है कि ॥५१-५३॥ मैंने उस रूपी शत्रुको हटाकर आपके पिता मृगजको वानरवंशमें किष्किन्धपुरके राजपद पर स्थापित किया था ॥५४॥ तुम उस उग्रकागको मूलकर पिताके विरुद्ध कार्य करते हो । हे सत्पुरुष ! तुम्हें ऐसा करना योग्य नहीं है ॥५५॥ मैं तेरे साथ पिताके समान अथवा उससे भी अधिक प्यार करता हूँ । तू आज भी आ और सुखपूर्वक रहनेके लिए मुझे प्रणामकर ॥५६॥ अथवा अपनी श्रीप्रभा नामक बहिन मेरे लिए प्रदान कर । यथार्थमें मेरे साथ सम्बन्ध प्राप्त कर लेनेसे तेरे लिए समस्त पदार्थ सुखदायक हो जावेंगे ॥५७॥ इतना कहनेपर भी बाली दशाननको नमस्कार करनेसे विसुग रहा । तब सुक्की विकृतिसे रोष प्रकट करता हुआ दूत फिर कहने लगा कि अरे वानर ! इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाभ है ? तू मेरे निश्चित वचन सुन, तू व्यर्थ ही थोड़ी-सी लज्जा पाकर विडम्बता कर रहा है ॥५८-५९॥ तू अपने दोनों हाथोंको या तो कर देनेके लिए तैयार कर या शस्त्र ग्रहण करनेके लिए तैयार कर । तू या तो शीघ्र ही चामर ग्रहण कर अथवा दास बनकर दशाननके लिए चामर टोल या दिशामण्डलको ग्रहण कर अथवा दिशाओंके अन्त तक भाग जा ॥६०॥ तू या तो शिगको मंत्र कर या वनुषको नम्रीभूत कर । या तो आज्ञाको कानोंमें पूर्ण कर या अमहनीय शब्दोंसे युक्त तथा अपना जीवन प्रदान करनेवाली वनुषकी डोरीको कानोंमें पूर्ण कर अथवा कानों तक वनुषकी डोरी लीच ॥६१॥ या तो मेरी चरणरजको मन्त्ररूप धारण कर अथवा शिगकी रक्षा करनेवाला टोप मन्त्ररूप धारण कर । या तो श्रमा माँगनेके लिए हाथ जोड़कर अङ्गुलियाँ बाँध या हाथियोंका बड़ा भाग समूह एकत्रित कर ॥६२॥ या तो बाण छोड़ या पृथिवीको प्राप्त कर । या तो वेत्र ग्रहण कर या माला ग्रहण कर । या तो मेरे चरणोंके नखोंमें अपना मुख देख या तलवार रूपी वर्णममें मुझ देख ॥६३॥ तदनन्तर दूतके कठोर वचनोंसे जिसका मन उद्वृत्त हो रहा था ऐसा व्याघ्र-विलम्बी नामका प्रसुप्त चोड़ा कहने लगा ॥६४॥ किरे दूत ! जिसके पराक्रम आदि गुणोंका

१. अनन्यमर्दशे म० । लक्ष्य ल० । २. कुरुते म० । ३. सार्धेन म० । ४. विडम्बित म० । ५. चारं म०, न० । ६. कर्गः सर्वासामिति कर्गजाहम् तस्य मूले कृष्णव्राह्मिणी इति जाहन् प्रत्यम् ।

यद्येवं भाषते^१ व्यक्त गृहीतो वा ग्रहेण सः । त्व तु स्वस्थः किमित्येव दूताधम विकृत्यसे ॥६६॥
 क्रोधमूर्च्छित इत्युक्त्वा दुःप्रेक्ष्यैः स्पष्टवेपथुः । गृह्णानः सायक रुद्धो बालिनेति च चोदितः ॥६७॥
 कि दूतेन वराकेण हृतेन प्रेषकारिणा । कुर्वन्त्येते हि नार्थीयवचसः प्रतिशब्दकम् ॥६८॥
 दशास्यस्यैव कर्तव्यं यदभिप्रायमाश्रितम् । आयुर्नूनमियत्तस्य कुरुते यत्कुभाषितम् ॥६९॥
 ततो भीतो^२ भृश दूतो गत्वा वृत्तान्तवेदनात् । दशास्यस्य परं क्रोध चक्रे दुःसहतेजसः ॥७०॥
 सैन्यावृतश्च सनद्य प्रस्थितस्त्वरया पुरम् । परमाणुभिरारब्धः स हि दर्पमयैरिव ॥७१॥
 ततः परबलध्वानं श्रुत्वा व्योमपिधायिनम् । निर्गन्तुं मानस चक्रे बालिः सग्रामदक्षिणः ॥७२॥
 तावत्सागरवृद्ध्यादिमन्त्रिभिरन्यशालिभिः । ज्वलत्क्रोधेन नीतोऽसाविति वागम्बुभिः शमम् ॥७३॥
 अकारणेन देवाल विग्रहेण क्षमां कुरु । अनेके हि क्षय याताः स्वच्छन्द संयुगप्रियाः ॥७४॥
 अर्ककीर्तिभुजाधारा रक्ष्यमाणाः सुरैरपि । अष्टचन्द्राः क्षय प्राप्ता मेघेश्वरशरोत्करैः ॥७५॥
 बहुसैन्यं दुरालोकमसिरत्नगदाधरम् । अतुलां सशयतुलां ततो नारोदुमर्हसि ॥७६॥
 जगादेति ततो बालिर्युक्तं नात्मप्रशसनम् । तथापि परमार्थं वो मन्त्रिणः कथयाम्यहम् ॥७७॥
 भ्रूलतोक्षेपमात्रेण दशवक्त्रं ससैन्यकम् । शक्तोऽस्मि कणशं कर्तुं वामपाणितलाहत्तम् ॥७८॥

अभ्युदय समस्त पृथिवीमे व्याप्त हो रहा है ऐसा बाली राजा क्या दुष्ट राक्षसके कर्णमूलको प्राप्त नहीं हुआ है ? अर्थात् उसने बालीका नाम क्या अभी तक नहीं सुना है ? ॥६५॥ यदि वह राक्षस ऐसा कहता है तो वह निश्चित ही भूतोसे आक्रान्त है । अरे अधम दूत ! तू तो स्वस्थ है फिर क्यों इस तरह तारीफ हॉक रहा है ? ॥६६॥ इस प्रकार कहकर व्याघ्रविलम्बी क्रोधसे मूर्च्छित हो गया । उसकी ओर देखना भी कठिन हो गया । उसका शरीर स्पष्ट रूपसे कौपने लगा । इसी दशामे वह दूतको मारनेके लिए बाण उठाने लगा तो बालीने कहा ॥६७॥ कि कथित बातको कहनेवाले बेचारे दूतके मारनेसे क्या लाभ है ? यथार्थमे ये लोग अपने स्वामीके वचनोकी प्रतिध्वनि ही करते है ॥६८॥ जो कुछ मनमे आया हो वह दशाननका ही करना चाहिए । निश्चय ही दशाननकी आयु अल्प रह गई है इसीलिए तो वह कुवचन कह रहा है ॥६९॥

तदनन्तर अत्यन्त भयभीत दूतने जाकर सब समाचार दशाननको सुनाये और दुःसह तेजके धारक उस दशाननके क्रोधको वृद्धिगत किया ॥७०॥ वह बड़ी शीघ्रतासे तैयार हो सेना साथ ले किष्किन्धपुरकी ओर चला सो ठीक ही है क्योंकि उसकी रचना अहकारके परमाणुओसे ही हुई थी ॥७१॥ तदनन्तर आकाशको आच्छादित करनेवाला शत्रुदलका कल-कल शब्द सुनकर युद्ध करनेमे कुशल बालिने महलसे बाहर निकलनेका मन किया ॥७२॥ तब क्रोधसे प्रज्वलित बालिको सागरवृद्धि आदि नीतिज्ञ मन्त्रियोने वचनरूपी जलके द्वारा इस प्रकार शान्त किया कि हे देव ! अकारण युद्ध रहने दो, क्षमा करो, युद्धके प्रेमी अनेको राजा अनायास ही क्षयको प्राप्त हो चुके है ॥७३-७४॥ जिन्हें अर्ककीर्तिकी भुजाओका आलम्बन प्राप्त था तथा देव भी जिनकी रक्षा कर रहे थे ऐसे अष्टचन्द्र विद्याधर जयकुमारके बाणोंके समूहसे क्षयको प्राप्त हुए थे ॥७५॥ साथ ही जिसे देखना कठिन था, तथा जो उत्तमोत्तम तलवार और गदाओंको धारण करनेवाली थी ऐसी बहुत भारी सेना भी नष्ट हुई थी इसलिए संशयकी अनुपम तराजूपर आरूढ़ होना उचित नहीं है ॥७६॥ मन्त्रियोके वचन सुनकर बालीने कहा कि यद्यपि अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं है तथापि हे मन्त्रिगणो ! यथार्थ बात आपलोगोंको कहता हूँ ॥७७॥ मैं सेना सहित दशाननको भ्रुकुटि रूपी लताके उल्लेखमात्रसे बायें हस्ततलकी चपेटसे

१. भाषसे म०, ख०, क० । २. दुःप्रेक्ष्यः म० । ३. गृह्णानं म० । ४. भीती म० । ५. क्रोधः म० । ६. मेघेश्वरशरोत्करैः ख०, जयकुमारबाणसमूहैः ।

किं तर्हि दास्य कृत्वा क्रोधाग्निज्वलित मन । कर्मणा येन लभ्यन्ते भोगा क्षणविज्वरा ॥७६॥
 प्राप्य तान् कदलीस्तम्भनिस्सारान् मोहवाहिता । पतन्ति नरके जीवा महादुःखमहाकुले ॥८०॥
 हिंसित्वा जन्तुसघात नितान्त प्रियजीवितम् । दुःखं कृतसुखाभिर्यं प्राप्यते तेन को गुणः ॥८१॥
 अरघद्वयटीयन्त्रसदृशाः प्राणघ्राणिः । शब्दवद्वमहाकूपे अमन्यत्यन्तदुःखिता ॥८२॥
 पादद्वयं जिनेन्द्राणां भवनिर्गमकारणम् । प्रणम्य कथमन्यस्य क्रियते प्रणतिर्मया ॥८३॥
 प्रबुद्धेन सता चैव कृता संस्था मया पुरा । अन्य न प्रणमामीति जिनपादाञ्जयुगमत ॥८४॥
 भङ्गं करोमि नास्याया न च प्राणिनिपातनम् । गृह्णामि सङ्गनिर्मुक्तां प्रव्रज्या मुक्तिदायिनीम् ॥८५॥
 यां करो वरनाराणां कृता स्तनतगेचिता । भुजौ चालिङ्गिता चारुत्नकेश्यूरलक्षणां ॥८६॥
 अनातेर्यं प्रयुक्ते तौ पुरयोऽञ्जलियन्त्रने । ऐश्वर्यं कीदृशं तस्य जीवितं वा हतात्मनः ॥८७॥
 इत्युक्त्वाहूय सुग्रीवमुवाच शृणु बालक । कुरु तस्य नमस्कार मा वो राज्यप्रतिष्ठितः ॥८८॥
 स्वसारं यच्छ मा वास्मै न ममानेन कारणम् । एषोऽस्मि निर्गतोऽद्यैव पथ्यं यत्तव तानुरु ॥८९॥
 इत्युक्त्वा निर्गतो गेहाद् बभूव च निरम्बरः । पार्श्वे गगनचन्द्रस्य गुरोर्गुणगरीयम् ॥९०॥
 परमार्थहितस्वान्तं मंप्राप्तपरमौदयं । एकभावरतो वीरः सम्यग्दर्शननिर्मलः ॥९१॥
 सम्यग्ज्ञानाभियुक्तामा सम्यक्चारित्रतत्परः । अनुप्रेक्षाभिरात्मानं भावयन्मोहवर्जितः ॥९२॥

ही चूर्ण करनेमें समर्थ हूँ ॥७८॥ फिर कठिन मनको क्रोधाग्निसे प्रज्वलित किया जाय तो कहना ही क्या है ? फिर भी मुझे उस कर्मकी आवश्यकता नहीं जिससे कि क्षण-भङ्गुर भोग प्राप्त होते हैं ॥७६॥ मोही जीव केलाके स्तम्भके समान नि सार भोगोंको प्राप्तकर महादुःखसे भरे नरकमें पड़ते हैं ॥८०॥ जिन्हें अपना जीवन अत्यन्त प्रिय है ऐसे जीवोंके समूहको मारकर सुख नामको धारण करनेवाला दुःख ही प्राप्त होता है, अतः उससे क्या लाभ है ? ॥८१॥ ये प्राणी अरहट (गहट) की घटीके समान अत्यन्त दुखी होते हुए संसार रूपा कूपमें निरन्तर घूमते रहते हैं ॥८२॥ संसारसे निकलनेमें कारणभूत जिनेन्द्र भगवान्के चरण युगलको नमस्कार कर अव मैं अन्य पुरुषके लिए नमस्कार कैसे कर सकता हूँ ? ॥८३॥ जब पहले मुझे सम्यग्ज्ञान प्राप्त हुआ था तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिनेन्द्रदेवके चरण-कमलोंके सिवाय अन्य किसीको नमस्कार नहीं करूँगा ॥८४॥ मैं न तो इस प्रतिज्ञाका भङ्ग करना चाहता हूँ और न प्राणियोंकी हिंसा ही । मैं तो मोक्ष-प्रदान करनेवाली निर्ग्रन्थ दीक्षा ग्रहण करता हूँ ॥८५॥ जो हाथ उत्तमोत्तम स्त्रियोंके स्तनतटका स्पर्श करनेवाले थे तथा मनोहर रत्नमयी वाजूवन्दोसे सुशोभित जो भुजाएँ उत्तमोत्तम स्त्रियोंका आलिङ्गन करनेवाली थीं उन्हें जो मनुष्य शत्रुओंके समक्ष अञ्जलि बर्षनेमें प्रयुक्त करता है उस अधमका ऐश्वर्य कैसा ? और जीवन कैसा ? ॥८६-८७॥ इस प्रकार कहकर उसने छोटे भाई सुग्रीवको बुलाकर कहा कि हे बालक ! नू राज्यपर प्रतिष्ठित होकर दशाननको नमस्कार कर अथवा न कर और इसके लिए अपनी वहिन दे अथवा न दे, मुझे इससे प्रयोजन नहीं । मैं तो आज ही घरसे बाहर निकलता हूँ । जो तुम्हें हितकर मालूम हो वह कर ॥८८-८९॥ इतना कहकर वाली घरसे निकल गया और गुणासे श्रेष्ठ गगनचन्द्र गुरुके समीप दिगम्बर हो गया ॥९०॥ अब तो उसने अपना मन परमार्थमें ही लगा रक्खा था । उसे अनेक ऋद्धि आदि अभ्युदय प्राप्त हुए थे । वह एक शुद्ध भावमें ही सदा रत रहता था, परीपहोंके सहन करनेमें शूरवीर था, सम्यग्दर्शनसे निर्मल था अर्थात् शुद्ध सम्यग्दृष्टि था, उसकी आत्मा सदा सम्यग्ज्ञानमें लीन रहती थी, वह सम्यक् चारित्रमें तत्पर रहता था और मोहसे रहित हो अनुप्रेक्षाओंके द्वारा आत्माका चिन्तन करता रहता था ॥९१-९२॥ मूढम जीवोंसे रहित तथा निर्मल आचारके धारी महामुनियोंसे सेवित धर्मारोधनके योग्य भूमियोंमें ही वह विहार करता था । वह जीवों-

१ सूक्ष्मासु मद्दियुक्तासु धर्मानुगुणभूमिषु । मुनिभिर्विमलाचारैः सेवितासु महात्मभिः ॥६३॥
 विहरन् सर्वजीवानां दयमानः पिता यथा । बाह्येन तपसान्तःस्थं वद्ध्यन् सततं तपः ॥६४॥
 आवासतां महर्द्दीनां परिप्राप्तः प्रशान्तधीः । तपःश्रिया परिष्वक्तः परया कान्तदर्शनः ॥६५॥
 उच्चैरुच्चैर्गुणस्थानसोपानारोहणोद्यतः । भिन्नाध्यात्माखिलग्रन्थग्रन्थिर्ग्रन्थविवर्जितः ॥६६॥
 श्रुतेन सकलं पश्यन् कृत्याकृत्यं महागुणः । महासंवरसंपन्नः शातयन् कर्मसन्ततिम् ॥६७॥
 प्राणधारणमात्रार्थं भुञ्जानः सूत्रदेशितम् । धर्मार्थं धारयन् प्राणान् धर्मं मोक्षार्थमर्जयन् ॥६८॥
 आनन्दं भव्यलोकस्य कुर्वन्नुत्तमावक्रमः । चरितेनोपमानत्वं जगामासौ तपस्विनाम् ॥६९॥
 दशग्रीवाय सुग्रीवो वितीर्य श्रीप्रभां सुखी । चकारानुमतस्तेन राज्यमागतमन्वयात् ॥१००॥
 विद्याधरकुमार्यो या द्यावाभूमौ मनोहराः । दशाननः समस्तास्ताः परिणिन्ये पराक्रमात् ॥१०१॥
 नित्यालोकेश्च नगरे नित्यालोकस्य देहजाम् । श्रीदेवीलब्धजन्मानं नाम्नारत्नावलीं सुताम् ॥१०२॥
 उपयम्य पुरीं यातो निजां परमसंमदः । नभसा मुकुटन्यस्तरत्नरश्मिविराजितां ॥१०३॥
 सहसा पुष्पकं स्तम्भभारमानसचञ्चलम् । मेरोरिव तटं प्राप्य सुमहद्वायुमण्डलम् ॥१०४॥
 तस्योच्छिन्नगतेः शब्दे भग्ने घण्टादिजन्मनि । वैलच्यादिव संजातं मौनं पिण्डिततेजसः ॥१०५॥
 भग्नप्रवृत्तिमालोक्य विमानं कैकसीसुतः । कः कोऽत्र भो इति क्षिप्रं वभाण क्रोधदोषितः ॥१०६॥
 मारीचस्तत आचक्षौ सर्ववृत्तान्तकोविदः । शृणु देवैप कैलासे स्थितः प्रतिमया मुनिः ॥१०७॥

पर पिताके समान दया करता था । बाह्य तपसे अन्तरङ्ग तपको निरन्तर बढ़ाता रहता था ॥६३-६४॥ बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंकी आवासताको प्राप्त था अर्थात् उसमें बड़ी-बड़ी ऋद्धियाँ निवास करती थीं, प्रशान्त चित्त था, उत्कृष्ट तप रूपी लक्ष्मीसे आलिङ्गित था, अत्यन्त सुन्दर था ॥६५॥ ऊँचे-ऊँचे गुणस्थान रूपी सीढ़ियोंके चढ़ने में उद्यत रहता था, उसने अपने हृदयमें समस्त ग्रन्थोंकी ग्रन्थियाँ अर्थात् कठिन स्थल खोल रक्खे थे, समस्त प्रकारके परिग्रहसे रहित था ॥६६॥ वह शास्त्रके द्वारा समस्त कृत्य और अकृत्यको समझता था । महागुणवान् था, महासंवरसे युक्त था, और कर्मोंकी सन्ततिको नष्ट करनेवाला था ॥६७॥ वह प्राणोंको रक्षाके लिए ही आग-मोक्त विधिसे आहार ग्रहण करता था, धर्मके लिए ही प्राण धारण करता था और मोक्षके लिए ही धर्मका अर्जन करता था ॥६८॥ वह भव्य जीवोंको सदा आनन्द उत्पन्न करता था, उत्कृष्ट पराक्रमका धारी था और अपने चारित्रसे तपस्वीजनोंका उपमान हो रहा था ॥६९॥

इधर सुग्रीव दशाननके लिए श्रीप्रभा वहिन देकर उसकी अनुमतिसे सुखपूर्वक वंशपरम्परागत राज्यका पालन करने लगा ॥१००॥ पृथ्वीपर विद्याधरोंकी जो सुन्दर कुमारियाँ थीं दशाननने अपने पराक्रमसे उन सबके साथ विवाह किया ॥१०१॥ अथानन्तर एक बार दशानन नित्यालोक नगरमें राजा नित्यालोककी श्रीदेवीसे समुत्पन्न रत्नावली नामकी पुत्रीको विवाह कर बड़े हर्षके साथ आकाश मार्गसे अपनी नगरीकी ओर आ रहा था । उस समय उसके मुकुटमें जो रत्न लगे थे उनकी किरणोंसे आकाश सुशोभित हो रहा था ॥१०२-१०३॥ जिस प्रकार बड़ा भारी वायुमण्डल मेरुके तटको पाकर सहसा रुक जाता है उसी प्रकार मनके समान चञ्चल पुष्पक विमान सहसा रुक गया ॥१०४॥ जब पुष्पक विमानकी गति रुक गई और घण्टा आदिसे उत्पन्न होने वाला शब्द भंग हो गया तब ऐसा जान पड़ता था मानो तेजहीन होनेसे लज्जा के कारण उसने मौन ही ले रक्खा था ॥१०५॥ विमानको रुका देख दशाननने क्रोधसे दमकते हुए कहा कि अरे यहां कौन है ? कौन है ? ॥१०६॥ तब सर्व वृत्तान्तको जानने वाले मारीचने कहा कि हे देव ! सुनो, यहाँ कैलास पर्वत पर एक मुनिराज प्रतिमा योगसे विराजमान हैं ॥१०७॥

१. सूक्ष्मप्राणिरहितासु । २. तपसान्तस्थं म० । ३. परिक्रमात् म० । ४. रम्भावलीं म० । ५. विराजिताम् म० । ६. जगाम । ७. शब्दभग्ने ।

आदित्याभिमुखस्तस्य करानात्मकरैः किरन् । समे शिलातले रत्नस्तम्भाकारोऽवतिष्ठते ॥१०८॥
 कोऽप्ययं सुमहान् वीर सुघोरं धारयस्तप । मुक्तिमाकाङ्क्षति क्षिप्रं वृत्तान्तोऽयमतोऽभवत् ॥१०९॥
 निवर्तयाम्यतो देशाद्विमानं विर्विलम्बितम् । मुनेरस्य प्रभावेन यावन्नायाति खण्डज ॥११०॥
 श्रुत्वा मारीचवचनमथ कैलासभूधरम् । ईचाञ्चक्रे यमध्वस स्वपराक्रमगर्वितम् ॥१११॥
 नानाधातुसमाकीर्णं गणैर्युक्तं सहस्रशः । सुवर्णघटनारम्यं पदपक्तिभिराचितम् ॥११२॥
 प्रकृत्यनुगतैर्युक्तं विकारैर्विलसयुतम् । स्वरैवहुविधैः पूर्णं लब्धव्याकरणोपमम् ॥११३॥
 तीक्ष्णैः शिखरसघातैः खण्डयन्तमिवाभ्रम् । उत्सर्पच्छीकरैः स्पष्टं हसन्तमिव निर्भरैः ॥११४॥
 मकरन्दसुरामत्तमध्वतपरैर्धितम् । गालोघवितताकाशं नानानोकहसकुलम् ॥११५॥
 सर्वर्तुजमनोहारिकुसुमाद्विमिराचितम् । चरत्प्रमोदवस्त्वसहस्रसदुपत्यकम् ॥११६॥
 औषधत्रासदूरस्थव्यालजालसमाकुलम् । मनोहरेण गन्धेन दधत् यौवनं सदा ॥११७॥
 शिलाविस्तोर्णहृदयं स्थूलवृत्तमहाभुजम् । गुहागम्भीरवदनमपूर्वपुराकृतिम् ॥११८॥

ये सूर्यके सम्मुख विद्यमान हैं और अपनी किरणोंसे सूर्यकी किरणोंको इधर-उधर प्रक्षिप्त कर रहे हैं । समान शिलातल पर ये रत्नोंके स्तम्भके समान अवस्थित हैं ॥१०८॥ घोर तपश्चरणको धारण करने वाले ये कोई महान् वीर पुरुष हैं और शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं । इन्हींसे यह वृत्तान्त हुआ है ॥१०९॥ इन मुनिराजके प्रभावसे जब तक विमान खण्ड-खण्ड नहीं हो जाता है, तब तक शीघ्र ही इस स्थानसे विमानको लौटा लेता हूँ ॥११०॥ अथानन्तर मारीचके वचन सुनकर अपने पराक्रमके गर्वसे गर्वित दशाननने कैलास पर्वतकी ओर देखा ॥१११॥ वह कैलास पर्वत व्याकरणको उपमा प्राप्त कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार व्याकरण भू आदि अनेक धातुओं से युक्त है उसी प्रकार वह पर्वत भी सोना चाँदी आदि अनेक धातुओंसे युक्त था । जिसप्रकार व्याकरण हजारों गणों—शब्द समूहोंसे युक्त है उसी प्रकार वह पर्वत भी हजारों गणों अर्थात् साधु समूहोंसे युक्त था । जिस प्रकार व्याकरण सुवर्ण अर्थात् उत्तमोत्तम वर्णोंकी घटनासे मनोहर है उसी प्रकार वह पर्वत भी सुवर्ण अर्थात् स्वर्णकी घटनासे मनोहर था । जिस प्रकार व्याकरण पदों अर्थात् सुवन्त तिङन्त रूप शब्दसमुदायसे युक्त है उसी प्रकार वह पर्वत भी अनेक पदों अर्थात् स्थानों या प्रत्यन्त पर्वतों अथवा चरणचिह्नोंसे युक्त था ॥११२॥ जिस प्रकार व्याकरण प्रकृति अर्थात् मूल शब्दोंके अनुरूप विकारों अर्थात् प्रत्ययादि जन्य विकारोंसे युक्त है उसी प्रकार वह पर्वत भी प्रकृति अर्थात् स्वाभाविक रचनाके अनुरूप विकारोंसे युक्त था । जिस प्रकार व्याकरण विल अर्थात् मूलसूत्रोंसे युक्त है उसीप्रकार वह पर्वत भी विल अर्थात् ऊपरपृथिवी अथवा गर्त आदिसे युक्त था । और जिस प्रकार व्याकरण उदात्त-अनुदात्त-स्वरित आदि अनेक प्रकारके स्वरोसे पूर्ण है उसी प्रकार वह पर्वत भी अनेक प्रकारके स्वरो अर्थात् प्राणियोंके शब्दोंसे पूर्ण था ॥११३॥ वह अपने तीक्ष्ण शिखरोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशके खण्ड ही कर रहा था । और ऊपरकी ओर उड़लते हुए छींटोंसे युक्त निर्भरोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो हँस ही रहा हो ॥११४॥ मकरन्द रूपी मदिरासे मत्त भ्रमरोंके समूहसे वह पर्वत कुछ बढ़ता हुआ सा जान पड़ता था । शालाओंके समूहसे उसने आकाशको व्याप्त कर रक्खा था । साथ ही नाना प्रकारके वृक्षांसे व्याप्त था ॥११५॥ वह सर्व ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाले पुष्प आदिसे व्याप्त था तथा उसकी उपत्यकाओंमें हर्षसे भरे हजारों प्राणी चलते-फिरते दिख रहे थे ॥११६॥ वह पर्वत औषधियोंके भयसे दूर स्थित सर्पोंके समूहसे व्याप्त था तथा मनोहर सुगन्धिसे ऐसा जान पड़ता था मानो सदा यौवनको ही धारण कर रहा हो ॥११७॥ बड़ी-बड़ी शिलाएँ ही उसका

१. गुणै- व० । २. विलम्-उपर मूलसूत्रं च (टिप्पणम्) । ३. -मिवाधरम् म० । ४. परिस्थितम् ख० ।

शरत्पयोधराकारतटसघातसकटम् । क्षीरेणेव जगत्सर्वं जालयन्त करोत्करैः ॥११९॥
 क्वचिद्विश्रब्धससुप्तमृगाधिपदरोमुखम् । क्वचित्सुप्तशयुश्वासवाताधूर्णितपादपम् ॥१२०॥
 क्वचित्परिसरक्रीडकुरङ्गककदम्बकम् । क्वचिन्मत्तद्विपत्रातकलिताधित्यकावनम् ॥१२१॥
 क्वचित्पुलकिताकार प्रसूनप्रकराचितम् । क्वचिद्वृक्षसटाभारैरुद्धतैर्भौषणाकृतिम् ॥१२२॥
 क्वचित्पद्मवनेनेव युक्तं शाखामृगाननैः । क्वचित्खड्गि^३क्षतस्यन्दि^३सालादिसुरभीकृतम् ॥१२३॥
 क्वचिद्विद्युल्लताशिलेष्टसभवद्घनसन्ततिम् । क्वचिद्विवाकराकारशिखरोद्घोतिताम्बरम् ॥१२४॥
 पाण्डुकस्येव कुर्वाण विजिगीषा क्वचिद्वनैः । सुरभिप्रसवोत्तुङ्गविस्तीर्णघनपादपैः ॥१२५॥
 अवतीर्णश्च तत्रासावपश्यत्त महासुनिम् । ध्यानार्णवसमाविष्ट तेजसाबद्धमण्डलम् ॥१२६॥
 आशाकरिकराकारप्रलम्बितभुजद्वयम् । पद्मगाभ्यामिवाशिलेष्टं महाज्वन्दनपादपम् ॥१२७॥
 आतापनशिलापीठमस्तकस्थं सुनिश्चलम् । कुर्वाण प्राणिविषयं संशय प्राणधारिणम् ॥१२८॥
 ततो बालिरसावेष इति ज्ञात्वा दशाननः । अतीतं सस्मरन् वैर जज्वाल क्रोधवह्निना ॥१२९॥
 बद्ध्वा च शृकुटीं भीमां दष्टोष्ठः प्रखरस्वरः । वभाण भासुराकारो मुनिमेव सुनिर्भयः ॥१३०॥
 अहो शोभनमारब्ध त्वया कर्तुमिदं तपः । यदद्याप्यभिमानेन विमानं स्तम्भयते मम ॥१३१॥

लम्बा चौड़ा वृक्षः स्थल था, बड़े-बड़े वृक्ष ही उसकी महाभुजाएँ थीं और गुफाएँ ही उसका गंभीर मुख थीं इस प्रकार वह पर्वत अपूर्व पुरुषकी आकृति धारण कर रहा था ॥११८॥ वह शरद्ऋतुके बादलोके समान सफेद-सफेद किनारोके समूहसे व्याप्त था तथा किरणोके समूहसे ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त संसारको दूधसे ही धो रहा हो ॥११९॥ कहीं उसकी गुफाओंमें सिंह निःशङ्क होकर सो रहे थे और कहीं सोये हुए अजगरोकी श्वासोच्छ्वासकी वायुसे वृक्ष हिल रहे थे ॥१२०॥ कहीं उसके किनारोके वनोंमें हरिणोका समूह क्रीड़ा कर रहा था और कहीं उसकी अधित्यकाके वनोंमें मदोन्मत्त हाथियोंके समूह स्थित थे ॥१२१॥ कहीं फूलोके समूहसे व्याप्त होनेके कारण ऐसा जान पड़ता था मानो उसके रोमाञ्च ही उठ रहे हों और कहीं उद्धत रीक्षोकी लम्बी-लम्बी सटाओसे उसका आकार भयंकर हो रहा था ॥१२२॥ कहीं बन्दरोके लाल-लाल मुँहोसे ऐसा जान पड़ता था मानो कमलोके वनसे ही युक्त हो और कहीं गेडा हाथियोंके द्वारा खण्डित साल आदि वृक्षोसे जो पानी भर रहा था उससे सुगन्ध फैल रही थी ॥१२३॥ कहीं बिजली रूपी लताओसे आलिङ्गित मेघोकी सन्तति उत्पन्न हो रही थी और कहीं सूर्यके समान देदीप्यमान शिखरोसे आकाश प्रकाशमान हो रहा था ॥१२४॥ जिनके लम्बे चौड़े सघन वृक्ष सुगन्धित फूलोसे ऊँचे उठे हुए थे ऐसे वनोंसे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो पाण्डुक-वनको जीतना ही चाहता हो ॥१२५॥ दशाननने उस पर्वतपर उत्तरकर उन महामुनिके दर्शन किये । वे महामुनि ध्यानरूपी समुद्रमें निमग्न थे और तेजके द्वारा चारों ओर मण्डल बँध रहे थे ॥१२६॥ दिग्गजोके शुण्डादण्डके समान उनकी दोनों भुजाएँ नीचेकी ओर लटक रही थीं और उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दो सर्पोसे आवेष्टित चन्दनका बड़ा वृक्ष ही हो ॥१२७॥ वे आतापन योगमें शिलापीठके ऊपर निश्चल बठे थे और प्राणियोंके प्रति ऐसा संशय उत्पन्न कर रहे थे कि ये जीवित हैं भी या नहीं ॥१२८॥ तदनन्तर 'यह बालि है' ऐसा जानकर दशानन पिछले वैरका स्मरण करता हुआ क्रोधाग्निसे प्रज्वलित हो उठा ॥१२९॥ जो ओठ चबा रहा था, जिसकी आवाज अत्यन्त कर्कश थी, और जो अत्यन्त देदीप्यमान आकारका धारक था ऐसा दशानन भ्रुकुटी बँधकर बड़ी निर्भयताके साथ मुनिराजसे कहने लगा ॥१३०॥ कि अहो ! तुमने यह बड़ा अच्छा तप करना प्रारम्भ किया है कि अब भी अभिमानसे मेरा विमान

१. परिसरत् म० । २. वनेनैव म० । ३. खड्गकृतस्यन्दि म० । खड्गकृतस्पर्श व० । ४. सभवध्वनि-सन्तति म० । ५. शिखरद्योतिताम्बरम् म० ।

क्व धर्मं क्व च सक्रोधो वृथा श्राम्यसि दुर्मते । इच्छस्येकत्वमाधातुममृतस्य विपस्य च ॥१३२॥
 तस्मादपनयाम्येन दर्पमद्य तत्रोद्धतम् । कैलासनगमुन्मूल्य क्षिपाम्यवधौ समं त्वया ॥१३३॥
 ततोऽसौ सर्वविद्याभिध्यांताभिस्तत्क्षणाद्भूत । विकृत्य सुमहदरूप सुरेन्द्र इव भीषणम् ॥१३४॥
 महाबाहुवनेनान्धध्वान्त कृत्वा समन्तत । प्रविष्टो धरणीं भित्त्वा पाताल पातकोद्यत ॥१३५॥
 आरेभे च समुद्धर्तु भुजैर्भूरिपराक्रम । क्रोधप्रचण्डरक्ताक्षो हुङ्कारमुखरानन ॥१३६॥
 ततो विषकणक्षेपिलम्बमानोरगाधर । केसरिकमसप्राप्तभ्रश्यन्मत्तमत्तङ्गजः ॥१३७॥
 सभ्रान्तनिश्चलोकर्णसारङ्गककद्रम्बक । स्फुटितोद्देश निष्पीतशुटिताखिलनिर्झर । ॥१३८॥
 पर्यस्यदुद्धतारवमहानोकहसहति । स्फुटीकृतशिलाजालसन्धिशब्दैः सुदु स्वर ॥१३९॥
 पतद्विक्रपापाणरवापूरितविष्टप । चलितश्चालयन् क्षोणीं भृश कैलासपर्वत ॥१४०॥
 स्फुटितावनिर्पीताम्बु प्राप शोप नदीपति । ऊहु. स्वच्छतया मुक्ता विपरीत समुद्रगाः ॥१४१॥
 त्रस्ता व्यलोकयन्नागा. प्रमथाः पृथुविस्मयाः । किं किमेतदहो हा-हा-हु-हीति प्रसृतस्वरा ॥१४२॥
 जहुरप्सरसो भीता लताप्रवरमण्डपम् । वयसा निवहा. प्राप्ता कृतकोलाहला नम. ॥१४३॥
 पातालादुत्थितै. क्रूरैरदृष्टहासैरनन्तरै. । दशवक्त्रै. समं दिग्भि पुस्फोटे च नभस्तलम् ॥१४४॥

रोका जा रहा है ॥१३१॥ धर्म कहां और क्रोध कहां ? अरे दुर्बुद्धि ! तू व्यर्थ ही श्रम कर रहा है और अमृत तथा विपको एक करना चाहता है ॥१३२॥ इसलिए मैं तेरे इस उद्धत अहङ्कार को आज ही नष्ट किये देता हूँ । तू जिस कैलास पर्वतपर बैठा है उसे उखाड़कर तेरे ही साथ अभी समुद्रमें फेंकता हूँ ॥१३३॥ तदनन्तर उसने समस्त विद्याओंका ध्यान किया जिससे आकर उन्होंने उसे घेर लिया । अब दर्शाननने इन्द्रके समान महाभयङ्कर रूप बनाया और महा बाहु रूपी वनसे सब ओर सघन अन्धकार फैलाता हुआ वह पृथिवीको भेदकर पातालमें प्रविष्ट हुआ । पाप करनेमें वह उद्यत था ही ॥१३४-१३५॥ तदनन्तर क्रोधके कारण जिसके नेत्र अत्यन्त लाल हो रहे थे, और जिसका मुख क्रोधसे मुखरित था ऐसे प्रबल पराक्रमी दर्शाननने अपनी भुजाओंसे कैलासको उठाना प्रारम्भ किया ॥१३६॥ आखिर, पृथिवीको अत्यन्त चञ्चल करता हुआ कैलास पर्वत स्वस्थानसे चलित हो गया । उस समय वह कैलास विषकणोंको छोड़नेवाले लम्बे-लम्बे लटकते हुए साँपोंको धारण कर रहा था । सिंहोंकी चपेटमें जो मत्त हाथी आ फँसे थे वे छूटकर अलग हो रहे थे । घबड़ाये हुए हरिणोंके समूह अपने कानोंको ऊपरकी ओर निश्चल खड़ाकर इधर-उधर भटक रहे थे । फटी हुई पृथिवीने भरनोका समस्त जल पी लिया था इसलिए उनकी धाराएँ टूट गई थीं । बड़े-बड़े वृक्षोंका जो समूह टूट-टूटकर चारों ओर गिर रहा था उससे बड़ा भारी शब्द उत्पन्न हो रहा था । शिलाओंके समूह चटककर चट-चट शब्द कर रहे थे इससे वहाँ भयङ्कर शब्द हो रहा था । और बड़े-बड़े पत्थर टूट-टूटकर नीचे गिर रहे थे तथा उससे उत्पन्न होनेवाले शब्दोंसे समस्त लोक व्याप्त हो रहा था ॥१३७-१४०॥ विदीर्ण पृथिवीने समुद्रका सब जल पी लिया था इसलिए वह सूख गया था । समुद्रकी ओर जाने वाली नदियाँ स्वच्छतासे रहित होकर उल्टी बहने लगी थीं ॥१४१॥ प्रमथ लोग भयभीत होकर दिशाओंकी ओर देखने लगे तथा बहुत भारी आश्चर्यमें निमग्न हो 'यह क्या है ? क्या है ? हा हा हूँ ही आदि शब्द करने लगा ॥१४२॥ अप्सराओंने भयभीत होकर उत्तमोत्तम लताओंके मण्डप छोड़ दिये और पक्षियोंके समूह कलकल शब्द करते हुए आकाशमें जा उड़े ॥१४३॥ पातालसे लगातार निकलनेवाले दर्शाननके दशमुखोंकी अदृष्टाससे दिशाओंके साथ-साथ आकाश फट पड़ा ॥१४४॥

१. महाबाहुवनेनाथ म० । २. निष्पीत ख० । ३. सत्त्वैः सदुश्चर' म० । ४. भुक्त्वा म० ।
 ५. मण्डपात् म० ।

तत सर्वर्तकाभिख्यवायुनेवाकुलीकृते । भुवने भगवान् बालिरवधिज्ञातराक्षसः ॥१४५॥
 अप्राप्तः पीडन स्वस्थ धीरः कोपविवर्जितः । तथावस्थितसर्वाङ्गश्रेतसीद न्यवेशयत् ॥१४६॥
 कारित भरतेनेद जिनायतनमुत्तमम् । सर्वरत्नमयं तुङ्ग बहुरूपविराजितम् ॥१४७॥
 प्रत्यह भक्तिसयुक्तैः कृतपूजं सुरासुरैः । मा विनाशि चलत्यस्मिन् पर्वते भिन्नपर्वणि ॥१४८॥
 ध्यात्वेति चरणाङ्गुष्ठपीडित गिरिमस्तकम् । चकार शोभनध्यानाददूरीकृतचेतनः ॥१४९॥
 ततो महाभराक्रान्तभग्नबाहुवनो भृशम् । दुःखाकुलश्चलद्भक्तस्पष्टमञ्जुललोचनः ॥१५०॥
 भग्नमौलिशिरोगाढं निविष्टधरणीधरः । निमज्जद्भूतलन्यस्तजानुर्निर्भुग्नजङ्घकः ॥१५१॥
 सद्यः प्रगलितस्वेदधाराधौतरसातलः । बभूव सकुचद्गात्रः कूर्माकारो दशाननः ॥१५२॥
 रव च सर्वयत्नेन कृत्वा रावितवान् जगत् । यतस्ततो गतः पश्चाद्वावणाख्यां समस्तगाम् ॥१५३॥
 श्रुत्वा त दीनभाराव स्वामिनः पूर्वमश्रुतम् । विद्याधरवधूलोको विललाप समाकुलः ॥१५४॥
 मूढाः सनद्धुमारब्धाः सभ्रान्ताः सचिवा वृथा । पुनः पुनः स्वलद्वाचो गृहीतगलदायुधाः ॥१५५॥
 मुनिवीर्यप्रभावेण सुरदुन्दुभयोऽनदन् । पपात सुमनोवृष्टिः खमाच्छाद्य सषट्पदा ॥१५६॥
 ननृतुर्गगने क्रीडाशीला देवकुमारकाः । गीतध्वनिः सुरस्त्रीणां वशानुगतमुद्ययौ ॥१५७॥

तदनन्तर जब समस्त संसार संवर्तक नामक वायुसे ही मानो आकुलित हो गया था तब भगवान् वालि मुनिराजने अवधिज्ञानसे दशानन नामक राक्षसको जान लिया ॥१४५॥ यद्यपि उन्हें स्वयं कुल भी पीड़ा नहीं हुई थी और पहलेकी तरह उनका समस्त शरीर निश्चल रूपसे अवस्थित था तथापि वे धीरवीर और क्रोधसे रहित हो अपने चित्तमें इस प्रकार विचार करने लगे कि ॥१४६॥ चक्रवर्ती भरतने ये नाना प्रकारके सर्वरत्नमयी ऊँचे-ऊँचे जिन-मन्दिर बनवाये हैं । भक्तिसे भरे सुर और असुर प्रतिदिन इनकी पूजा करते हैं सो इस पर्वतके विचलित हो जानेपर कहीं ये जिन-मन्दिर नष्ट न हो जावें ॥१४७॥ ऐसा विचारकर शुभध्यानके निकट ही जिनकी चेतना थी ऐसे मुनिराज बालीने पर्वतके मस्तकको अपने पैरके अङ्गुठेसे दबा दिया ॥१४८-१४९॥ तदनन्तर जिसकी भुजाओंका वन बहुत भारी बोझसे आक्रान्त होनेके कारण अत्यधिक टूट रहा था, जो दुखसे आकुल था, जिसकी लाल-लाल मनोहर आँखे चञ्चल हो रही थीं ऐसा दशानन अत्यन्त व्याकुल हो गया । उसके शिरका मुकुट टूटकर नीचे गिर गया और उस नङ्गे शिरपर पर्वतका भार आ पड़ा । नीचे धँसती हुई पृथिवीपर उसने घुटने टेक दिये । स्थूल होनेके कारण उसकी जङ्घाएँ मांसपेशियोंमे निमग्न हो गईं ॥१५०-१५१॥ उसके शरीरसे शीघ्र ही पसीनाकी धारा बह निकली और उससे उसने रसातलको धो दिया । उसका सारा शरीर कल्लुएके समान सङ्कुचित हो गया ॥१५२॥ उस समय चूँकि उसने सर्व प्रयत्नसे चिल्लाकर समस्त संसारको शब्दायमान कर दिया था इसलिए वह पीछे चलकर सर्वत्र प्रचलित 'रावण' इस नामको प्राप्त हुआ ॥१५३॥ रावणकी स्त्रियोंका समूह अपने स्वामीके उस अश्रुतपूर्व दीन हीन शब्दको सुनकर व्याकुल हो विलाप करने लगा ॥१५४॥ मन्त्री लोग किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये । वे युद्धके लिए तैयार हो व्यर्थ ही इधर-उधर फिरने लगे । उनके वचन बार-बार बीचमे ही स्वलित हो जाते थे और हथियार उनके हाथसे छूट जाते थे ॥१५५॥ मुनिराजके वीर्यके प्रभावसे देवोंके दुन्दुभि बजने लगे और भ्रमर सहित फूलोंकी वृष्टि आकाशको आच्छादित कर पड़ने लगी ॥१५६॥ क्रीडा करना जिनका स्वभाव था ऐसे देव कुमार आकाशमें नृत्य करने लगे और देवियोंकी संगीत ध्वनि वंशीकी

१. एष श्लोकः म० पुस्तके नास्ति । २. शिरोगाढं व० । ३. सनद्ध-म० । ४. सुदुन्दुभयो म० । ५. सषट्पदाः म० ।

ततो मन्द्रोदरी दीना ययात्रेति मुनीश्वरम् । प्रणम्य भर्तृभिर्ना मे प्रयच्छाद्भुतविक्रम ॥१५८॥
 ततोऽनुकम्पयाद्गुण महासुनिरश्लथत् । रावणोऽपि विमुच्याद्वि क्लेशकान्तरतो निरैत् ॥१५९॥
 गत्वा च प्रणतिं कृत्वा क्षमयित्वा पुनः पुनः । योगेण स्तोतुमारब्धः परिज्ञाततपोवत् ॥१६०॥
 जिनेन्द्रचरणौ मुक्त्वा करोमि न नमस्कृतिम् । अन्यस्येति त्वयोक्त यत्सामर्थ्यस्यास्य तत्फलम् ॥१६१॥
 अहो निश्चयसम्पन्नं तपसस्ते महद्भलम् । भगवत् येन शक्तोऽसि त्रैलोक्यं कर्तुमन्यथा ॥१६२॥
 इन्द्राणामपि मामर्थ्यमादृशं नाय नेक्ष्यते । यादृक् तप समृद्धानां सुनीनामल्पयत्नजम् ॥१६३॥
 अहो गुणा अहोरूपमहोक्तान्तिरहो बलम् । अहो दीप्तिरहो धैर्यमहो शीलमहो तपः ॥१६४॥
 त्रैलोक्यादथ निःशेषं वस्त्वाह्वय मनोहरम् । कर्मभिः सुकृताधारं शरीरं तव निर्मितम् ॥१६५॥
 सामर्थ्येनामुना युक्तस्यक्तवानामि यत्क्षितिम् । इदमन्यद्भुतं कर्म कृतं सुपुरुष त्वया ॥१६६॥
 पृथिवस्य ते कर्तुं यदसाद्यु मयेप्सितम् । तदशक्तस्य सजात पापबन्धाय केवलम् ॥१६७॥
 धिक्शरीरमिदं चतो वचश्च मम पापिनः । वृत्तावभिमुखं जातं यदसत्यामल पुरा ॥१६८॥
 भवाद्दशा नृत्नानां महिधाना च दुर्विशाम् । अन्तरं विगतद्वेषं मेरुसर्पपयोरिव ॥१६९॥
 मया विपद्यमानाय दत्ताः प्राणास्त्वया मुने । अपकारिणि यस्येयं मतिस्तस्य किमुच्यताम् ॥१७०॥
 शृणोमि वैमि पश्यामि समारं दुःखभावकम् । पापस्तथापि निर्वेदं विषयेभ्यो न याम्यहम् ॥१७१॥
 पुण्यवन्तो महासत्त्वा मुक्तिलक्ष्मीसमीपगा । तारुण्ये विषयास्यक्त्वा स्थिता ये मुक्तिवर्त्मनि ॥१७२॥

मधुर ध्वनिके साथ सर्वत्र उठने लगी ॥१५७॥ तदनन्तर मन्द्रोदरीने दीन होकर मुनिराजको प्रणामकर याचना की कि हे अद्भुत पराक्रमके धारी ! मेरे लिए पतिभिन्ना दीजिए ॥१५८॥ तत्र महामुनिने दया वश पैरका अगूठा ढीला कर लिया और रावण भी पर्वतको जहाँका तहाँ छोड़ क्लेश रूपा अटवीसे बाहर निकला ॥१५९॥ तदनन्तर जिसने तपका बल जान लिया था ऐसे रावणने जाकर मुनिराजको प्रणामकर बार-बार क्षमा माँगी और इस प्रकार स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥१६०॥ कि हे पूज्य ! आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिनेन्द्र देवके चरणोंको छोड़कर अन्यके लिए नमस्कार नहीं करूँगा यह उसीकी सामर्थ्यका फल है ॥१६१॥ हे भगवन् ! आपके तपका महाफल निश्चयसे सम्पन्न है इसीलिए तो आप तीन लोकको अन्यथा करनेमें समर्थ हैं ॥१६२॥ तपसे समृद्ध मुनियोंकी थोड़े ही प्रयत्नसे उत्पन्न जैसी सामर्थ्य देखी जाती है हे नाथ ! वैसी सामर्थ्य इन्द्रोंकी भी नहीं देखी जाती है ॥१६३॥ आपके गुण, आपका रूप आपकी कान्ति, आपका बल, आपकी दीप्ति, आपका धैर्य, आपका शील और आपका तप सभी आश्चर्यकारी हैं ॥१६४॥ ऐसा जान पड़ता है मानो कर्मोंने तीनों लोकोंसे समस्त सुन्दर पदार्थ ला ला कर पुण्यके आधारभूत आपके शरीरकी रचना की है ॥१६५॥ हे सत्पुरुष ! उस लोकोत्तर सामर्थ्यसे युक्त होकर भी जो आपने पृथिवीका त्याग किया है यह अत्यन्त आश्चर्यजनक कार्य है ॥१६६॥ ऐसी सामर्थ्यसे युक्त आपके विषयमें जो मैंने अनुचित कार्य करना चाहा था वह मुझ असमर्थके लिए केवल पाप-बन्धका ही कारण हुआ ॥१६७॥ मुझ पापीके इस शरीरको, हृदयको और वचनको धिक्कार है कि जो अयोग्य कार्य करनेके सन्मुख हुए ॥१६८॥ हे द्वेष रहित ! आप जैसे नर रत्नो और मुझ जैसे दुष्ट पुरुषोंके बीच उतना ही अन्तर है जितना कि मेरु और सरसोंके बीच होता है ॥१६९॥ हे मुनिराज ! मुझ मरते हुएके लिए आपने प्राण प्रदान किये हैं सो अपकार करनेवाले पर जिसकी ऐसी बुद्धि है उसके विषयमें क्या कहा जावे ? ॥१७०॥ मैं सुनता हूँ, जानता हूँ और देखता हूँ कि संसार केवल दुःखका अनुभव करानेवाला है फिर भी मैं इतना पापी हूँ कि विषयोसे वैराग्यको प्राप्त नहीं होता ॥१७१॥ जो तरुण अवस्थामें ही

१. एष श्लोकः क० ए० पुस्तकयोर्नास्ति । २. भर्तृभिन्ना म० । ३. -रशश्लथन् म० । ४. दुःखाटवीतः ।
 ५. वृत्तान्ताभिमुखं जातं यदमत्यमल पुरा क० । ६. दुष्टप्रजानाम् ।

इति स्तुत्वा मुनि भूयः प्रणम्य त्रिःप्रदक्षिणम् । नितान्त स्व च निन्दित्वा शृङ्कारमुखराननः ॥१७३॥
 उपकण्ठ मुनेश्चैत्यभवन त्रपयान्वितः । विरक्तो विषयासङ्गे प्रविष्टः कैकसीसुतः ॥१७४॥
 अनादरेण विक्षिप्य चन्द्रहासमसि भुवि । आवृतो निजनारीभिश्चक्रे जिनवरार्चनम् ॥१७५॥
 निष्कृष्य च स्नसातन्त्रीं भुजे वीणामवीवदत् । भक्तिनिर्भरभावश्च जगौ स्तुतिशतैर्जिनम् ॥१७६॥
 नमस्ते देवदेवाय लोकालोकावलोकने । तेजसातीतलोकाय कृतार्थाय महात्मने ॥१७७॥
 त्रिलोककृतपूजाय नष्टमोहमहारये । वाणीगोचरतामुक्तगुणसघातधारिणे ॥१७८॥
 महेश्वर्यसमेताय विमुक्तिपथदेशिने । सुखकाष्ठासमृद्धाय दूरीभूतकुवस्तवे ॥१७९॥
 निःश्रेयसस्य भूतानां हेतवेऽभ्युदयस्य च । महाकल्याणमूलाय वेधसे सर्वकर्मणाम् ॥१८०॥
 ध्याननिर्दग्धपापाय जन्मविध्वंसकारिणे । गुरवे गुरुमुक्ताय प्रणतायानतात्मने ॥१८१॥
 आद्यन्तपरिमुक्ताय सतताद्यन्तयोगिने । अज्ञातपरमार्थाय परमार्थावबोधिने ॥१८२॥
 सर्वशून्यप्रतिज्ञाय सर्वास्तिक्योर्पदेशिने । सर्वक्षणिकपचाय कृत्स्ननित्यत्वदर्शिने ॥१८३॥
 पृथक्त्वैकत्ववादाय सर्वानेकान्तदेशिने । जिनेश्वराय सर्वस्मा एकस्मै शिवदायिने ॥१८४॥

विषयोंको छोड़कर मोक्ष-मार्गमें स्थित हुए हैं वे पुण्यात्मा हैं, महाशक्तिशाली हैं, और मुक्ति लक्ष्मीके समीपमें विचरनेवाले हैं ॥१७२॥ इस प्रकार स्तुतिकर उसने मुनिराजको प्रणामकर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, अपने आपकी बहुत निन्दाकी और दुःख वश मुँहसे सू सू शब्दकर रुदन किया ॥१७३॥ मुनिराजके समीप जो जिन-मन्दिर था लज्जासे युक्त और विषयोसे विरक्त रावण उसीके अन्दर चला गया ॥१७४॥ वहाँ उसने चन्द्रहास नामक खड्गको अनादरसे पृथिवीपर फेंक दिया और अपनी स्त्रियोसे युक्त होकर जिनेन्द्रदेवकी पूजा की ॥१७५॥ उसके भाव भक्तिमे इतने लीन हो गये थे कि उसने अपनी भुजाकी नाड़ी रूपी तन्त्रीको खींचकर वीणा बजाई और सैकड़ों स्तुतियोंके द्वारा जिनराजका गुणगान किया ॥१७६॥ वह गा रहा था कि नाथ ! आप देवोंके देव हो, लोक और अलोकको देखनेवाले हो, आपने अपने तेजसे समस्त लोकको अतिक्रान्त कर दिया है, आप कृतकृत्य है, महात्मा है । तीनो लोक आपकी पूजा करते हैं, आपने मोह रूपी महा शत्रुको नष्ट कर दिया है, आप वचनागोचर गुणोंको समूहको धारण करनेवाले हैं । आप महान् ऐश्वर्यसे सहित हैं, मोक्षमार्गका उपदेश देनेवाले हैं, सुखकी परम सीमासे समृद्ध हैं, आपने समस्त कुत्सित वस्तुओंको दूर कर दिया है । आप प्राणियोंके लिए मोक्ष तथा स्वर्गके हेतु है, महाकल्याणोंके मूल कारण हैं, समस्त कार्योंके विधाता हैं । आपने ध्यानाग्निके द्वारा समस्त पापोंको जला दिया है, आप जन्मका विध्वंस करनेवाले हैं, गुरु हैं, आपका कोई गुरु नहीं है, सब आपको प्रणाम करते हैं और आप स्वयं किसीको प्रणाम नहीं करते । आप आदि तथा अन्तसे रहित हैं, आप निरन्तर आदि तथा अन्तिम योगी है, आपके परमार्थको कोई नहीं जानता पर आप समस्त परमार्थको जानते हैं । आत्मा रागादिक विकारोंसे शून्य है ऐसा उपदेश आपने सबके लिए दिया है, 'आत्मा है' 'परलोक है' इत्यादि आस्तिक्य वादका उपदेश भी आपने सबके लिए दिया है, पर्यायार्थिकनयसे संसारके समस्त पदार्थ क्षणिक हैं इस पक्षका निरूपण आपने जहाँ किया है वहाँ द्रव्यार्थिक नयसे समस्त पदार्थोंको नित्य भी आपने दिखलाया है । हमारी आत्मा समस्तपर पदार्थोंसे पृथक् अखण्ड एक द्रव्य है ऐसा कथन आपने किया है, आप सबके लिए अनेकान्त धर्मका प्रतिपादन करनेवाले हैं, कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेवालोंमे श्रेष्ठ हैं, सर्व पदार्थोंको जाननेवाले होनेसे सर्व रूप हैं, अखण्ड चैतन्य पुञ्जके धारक होनेसे एक रूप है और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥१७७-१८४॥

१. विमुक्तपथ -म० । २. दूरीभूत-दुरीहित ब० । ३. न ज्ञातः परमार्थो यस्य स तस्मै । ४. देशिने म० । ५. -मादाय क०, ब० । ६. -दर्शिने क० ।

ऋषभाय नमो नित्यमजिताय नमो नम । सभवाय नमोऽज्जमभिनन्दनरूढये ॥१८५॥
 नम सुमतये पद्मप्रभाय सतत नम. । सुपार्श्वाय नम. शश्वन्नमश्चन्द्रसमत्विपे ॥१८६॥
 नमोऽस्तु पुष्पदन्ताय शीतलाय नमो नम । श्रेयसे वासुपूज्याय नमो लब्धात्मतेजसे ॥१८७॥
 विमलाय नमस्त्रेधा नमोऽनन्ताय सन्ततम् । नमो धर्माय सौख्यानां नमो मूलाय शान्तये ॥१८८॥
 नम. कुन्थुजिनेन्द्राय नमोऽरस्वामिने सदा । नमो मल्लिमहेशाय नम. सुव्रतदायिने ॥१८९॥
 अन्येभ्यश्च भविष्यद्भ्यो भूतेभ्यश्च सुभावत. । नमोऽस्तु जिननाथेभ्य श्रमणेभ्यश्च सर्वदा ॥१९०॥
 नम सम्यक्त्वयुक्ताय ज्ञानायैकान्तनाशिने । दर्शनाय नमोऽज्ज सिद्धेभ्योऽनारत नम ॥१९१॥
 पवित्राप्यचरारण्येव लङ्कास्वामिनि गायति । चलित नागराजस्य विष्टर धरणश्रुते ॥१९२॥
 ततोऽवधिकृतालोकस्तोपविस्तारितेक्षण । स्फुरत्फणामणिच्छायादूरध्वस्ततमश्रय. ॥१९३॥
 सकलामलतारेशप्रसन्नमुखशोभितः । पातालादुद्ययौ क्षिप्र नागराजः सुमानस. ॥१९४॥
 विधाय च नमस्कार जिनेन्द्राणा विधानत । पूजा च ध्यानसंजातसमस्तद्रव्यसपदम् ॥१९५॥
 जगाद् रावण साधो साधुगीतमिदं त्वया । जिनेन्द्रस्तुतिसम्बद्ध रोमहर्षणकारणम् ॥१९६॥
 पश्य तोपेण मे जात पुलकं घनकर्कशम् । पातालस्थस्य यच्छान्तिर्नाद्यापि प्रतिपद्यते १९७॥
 राक्षसेश्वर धन्योऽसि यं स्तोपि जिनपुङ्गवान् । बलादाकृष्य भावेन त्वदीयेनाहमाहृत ॥१९८॥
 वर वृर्णांष्व तुष्टोऽस्मि तव भक्त्या जिनान्प्रति । दृढाम्यभोप्सित वस्तु सद्य कुनरदुर्लभम् ॥१९९॥
 तत कैलासकम्पेन प्रोक्तोऽसौ विदितो मम । धरणो नागराजस्त्व पृष्टस्तावन्निवेदय ॥२००॥

ऋषभ, अजित, सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयोनाथ, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, सौख्योके मूल कारण शान्तिनाथ, कुन्थु जिनेन्द्र, अरनाथ, मल्लि महाराज और मुनिसुव्रत भगवान् इन वर्तमान तीर्थकरोंको मन वचन कायसे नमस्कार हो । इनके सिवाय जो अन्य भूत और भविष्यत् काल सम्बन्धी तीर्थकर हैं उन्हें नमस्कार हो । साधुओंके लिए सदा नमस्कार हो । सम्यक्त्व सहित ज्ञान और एकान्तवाङ्को नष्ट करनेवाले दर्शनके लिए निरन्तर नमस्कार हो, तथा सिद्ध परमेश्वरके लिए सदा नमस्कार हो ॥१८५-१९१॥ लङ्काका स्वामी रावण जब इस प्रकारके पवित्र अक्षर गा रहा था तब नागराज धरणेन्द्रका आसन कम्पायमान हुआ ॥१९२॥ तदनन्तर उत्तम हृदयको धारण करनेवाला नागराज शीघ्र ही पातालसे निकलकर बाहर आया । उस समय अवधिज्ञानरूपी प्रकाशसे उसकी आत्मा प्रकाशमान थी, सन्तोषसे उसके नेत्र विकसित हो रहे थे, ऊपर उठे हुए फणामें जो मणि लगे हुए थे उनकी कान्तिसे वह अन्धकारके समूह दूर हटा रहा था और पूर्ण तथा निर्मल चन्द्रमाके समान प्रसन्न मुखसे शोभित था ॥१९३-१९४॥ उसने आकर जिनेन्द्र भगवान्को नमस्कार किया और तदनन्तर ध्यान मात्रसे ही जिसमे समस्त द्रव्य रूपी सम्पदा प्राप्त हो गई थी ऐसी विधिपूर्वक पूजा की ॥१९५॥ पूजाके बाद उसने रावणसे कहा कि हे सत्पुरुष ! तुमने जिनेन्द्रदेवकी स्तुतिसे सम्बन्ध रखनेवाला यह बहुत अच्छा गीत गाया है । तुम्हारा यह गीत रोमाञ्च उत्पन्न होनेका कारण है ॥१९६॥ देखो, सन्तोषके कारण मेरे शरीरमे सघन एवं कठोर रोमाञ्च निकल आये हैं । मैं पातालमे रहता था फिर भी तुम्हें अब भी शान्ति प्राप्त नहीं हो रही है ॥१९७॥ हे राक्षसेश्वर ! तू धन्य है जो जिनेन्द्र भगवान्की इस प्रकार स्तुति करता है । तेरी भावनामे मुझे बलपूर्वक खींचकर यहाँ बुलाया है ॥१९८॥ जिनेन्द्रदेवके प्रति जो तेरी भक्ति है उससे मैं बहुत सन्तुष्ट हुआ हूँ । तू वर माँग, मैं तुम्हें शीघ्र ही कुपुरुषोंकी दुर्लभ इच्छित वस्तु देता हूँ ॥१९९॥ तदनन्तर कैलासको कम्पित करनेवाले रावणने कहा कि मुझे मालूम है—आप नागराज धरणेन्द्र हैं । सो

जिनवन्दनया तुल्य किमन्यद्विद्यते शुभम् । वस्तु यत्प्रार्थयिष्येऽह भवन्त दातुमुद्यतम् ॥२०१॥
 ततो निगदित नागपतिना शृणु रावण । जिनेन्द्रवन्दनात्तुल्य कल्याण नैव विद्यते ॥२०२॥
 ददाति परिनिर्वाणसुख या समुपासिता । जिननत्या तथा तुल्य न भूत न भविष्यति ॥२०३॥
 ततो दशमुखेनोक्त नास्ति चेजिनवन्दनात् । अधिकं किंत्वतः प्राप्ते तस्मिन् याचे महामते ॥२०४॥
 उक्त च नागपतिना सत्यमेतत्सुचेष्टितम् । असाध्यं जिनभक्तेर्यत्साधु तन्नैव विद्यते ॥२०५॥
 त्वादशा मादशा ये च वासवाद्यैश्च सन्निभाः । सपद्यन्ते सुखाधारा सर्वे ते जिनभक्तितः ॥२०६॥
 आस्तां तावदिदं स्वल्पं व्याधाति भवज सुखम् । मोक्षजं लभ्यते भक्त्या जिनानामुत्तम सुखम् ॥२०७॥
 नितान्त यद्यपि त्यागी महाविनयसंगतः । वीर्यवानुत्तमैश्वर्यो भवान् गुणविभूषितः ॥२०८॥
 महर्शन तथाप्येतत्तव मा भूदनर्थकम् । अमोघमिति याचेऽह भवन्त ग्रहणं प्रति ॥२०९॥
 अमोघविजया नाम शक्ति रूपविकारिणीम् । विद्या गृहाण लङ्केश मा वर्धा प्रणय मम ॥२१०॥
 एकया दशया कस्य कालो गच्छति सज्जन^१ । विपदोऽनन्तरा सपत् संपदोऽनन्तरा विपत् ॥२११॥
 अतो विपदि जातायामासन्नायां कुतोऽपि ते । कुर्वती परसबाधं पालिकेय भविष्यति ॥२१२॥
 आसता मानुपास्तावद्विभ्यत्यस्याः सुरा अपि । वह्निज्वालापरीतायाः शक्तेर्विपुलशक्तयः ॥२१३॥
 अशक्नुवन्स्ततः कर्तुं प्रणयस्यास्य भक्षणम् । गृहीतृलाघव लेभे कृच्छ्रात् कैलासकम्पन ॥२१४॥
 कृत्वाञ्जलिं नमस्यां च सभापितदशानन^२ । जगाम धरणः स्थान निज प्रकटसमदः ॥२१५॥

मैं आपसे ही पूछता हूँ भला आप ही बतलाइए ॥२००॥ कि जिन-वन्दनाके समान और कौनसी शुभ वस्तु है जिसे देनेके लिए उद्यत हुए आपसे मैं माँगूँ ॥२०१॥ तब नागराजने कहा कि हे रावण ! सुन, जिनेन्द्र-वन्दनाके समान और दूसरी वस्तु कल्याणकारी नहीं है ॥२०२॥ जो जिन-भक्ति अच्छी तरह उपासना करनेपर निर्वाण सुख प्रदान करती है उसके तुल्य दूसरी वस्तु न तो हुई है और न होगी ॥२०३॥ यह सुन रावणने कहा कि जब जिनेन्द्र-वन्दनासे बढ़कर और कुछ नहीं है और वह मुझे प्राप्त है तब हे महाबुद्धिमान् ! तुम्हीं कहो इससे अधिक और किस वस्तुकी याचना तुमसे करूँ ॥२०४॥ नागराजने फिर कहा कि तुम्हारा यह कहना सच है । वास्तवमे जो वस्तु जिन-भक्तिसे असाध्य हो वह है ही नहीं ॥२०५॥ तुम्हारे समान, हमारे समान और इन्द्र आदिके समान जो भी सुखके आधार हैं वे सब जिन-भक्तिसे ही हुए हैं ॥२०६॥ यह संसारका सुख तो अत्यन्त अल्प तथा वाधासे सहित है अतः इसे रहने दो, जिन-भक्तिसे तो मोक्षका भी उत्तम सुख प्राप्त हो जाता है ॥२०७॥ यद्यपि तू त्यागी है, महाविनयसे युक्त है, वीर्यवान् है, उत्तम ऐश्वर्यसे सहित है और गुणोसे विभूषित है तथापि तेरे लिए मेरा जो अमोघ दर्शन हुआ है वह व्यर्थ न हो इसलिए मैं तुमसे कुछ ग्रहण करनेकी याचना करता हूँ ॥२०८-२०९॥ हे लङ्केश ! जिससे मनचाहे रूप बनाये जा सकते हैं ऐसी अमोघविजया शक्ति नामकी विद्या मैं तुम्हे देता हूँ सो ग्रहण कर, मेरा स्नेह खण्डित मत कर ॥२१०॥ हे भलेमानुष ! एक ही दशामे किसका काल बीतता है ? विपत्तिके बाद सम्पत्तिके और सम्पत्तिके बाद विपत्ति सभीको प्राप्त होती है ॥२११॥ इसलिए यदि कदाचित् किसी कारणवश विपत्ति तेरे समीप आयगी तो यह विद्या शत्रुको वाधा पहुँचाती हुई तेरी रक्षक होगी ॥२१२॥ मनुष्य तो दूर रहें अग्निकी ज्वालाओंसे व्याप्त इस शक्तिसे विपुल शक्तिके धारक देव भी भयभीत रहते हैं ॥२१३॥ आखिर, रावण नागराजके इस स्नेहको भङ्ग नहीं कर सका और उसने बड़ी कठिनाईसे ग्रहण करनेवालेकी लघुता प्राप्त की ॥२१४॥ तदनन्तर हाथ जोड़कर और पूजाकर रावणसे वार्तालाप करता हुआ नागराज बड़े हर्षसे अपने स्थानपर

मासमात्रं दशास्योऽपि स्थित्वा कैलासमूर्धनि । प्रणिपत्य जिन देग प्रययावभिवान्छितम् ॥२१६॥
 विज्ञाय मनसः क्षोभादात्मान वद्धदुःकृतम् । प्रायश्चित्त गुरोर्देश गत्वा वालिरशिप्रियत् ॥२१७॥
 निर्गतस्त्रान्तशल्यश्च बभूव सुखितः पुनः । वालिर्नियमनं कृत्वा यथा विष्णुर्महामुनि ॥२१८॥
 चारित्राद् गुप्तितो धर्मादनुप्रेक्षणत सदा । समितिभ्य पराभूते. परीपहगणस्य च ॥२१९॥
 महासवरमासाद्य कर्मापूर्वमनर्जयन् । नागयन्स्तपसा चान्त प्राप्त केवलसंगतम् ॥२२०॥
 कर्माष्टकविनिर्मुक्तो ययौ त्रैलोक्यमस्तकम् । सुर निरुपमं यस्मिन्नवसानविवर्जितम् ॥२२१॥
 इन्द्रियाणा जये शक्तो यस्तेनास्मि पराजित । इति विज्ञाय लङ्केश. साधूना प्रणतोऽभवत् ॥२२२॥
 सम्यग्दर्शनसम्पन्नो दृढभक्तिजिनेश्वरे । अनुसः परमैर्भोगैरतिष्ठत् स यथेप्सितम् ॥२२३॥

रथोद्धतावृत्तम्

वालिचेष्टितमिदं शृणोति यो भावतत्परमतिः शुभो जनः ।
 नेप याति परतः पराभव प्राप्नुते च रविभासुरं पदम् ॥२२४॥

इत्यापे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते वालिनिर्वाणाभिधानं नाम नवम पर्व ॥६॥



चला गया ॥२१५॥ रावण भी एक माह तक कैलास पर्वतपर रहकर तथा जिनेन्द्रदेवको नम-
 स्कार कर इच्छित स्थलको चला गया ॥२१६॥ मुनिराज वालिने मनमे क्षोभ उत्पन्न होनेसे अपने
 आपको पाप कर्मका बन्ध करनेवाला समझ गुरुके पास जाकर प्रायश्चित्त ग्रहण किया ॥२१७॥
 जिस प्रकार विष्णुकुमार महामुनि प्रायश्चित्त कर सुखी हुए थे उसी प्रकार वालि मुनिराज भी
 प्रायश्चित्त द्वारा हृदयकी शल्य निकल जानेसे सुखी हुए ॥२१८॥ चारित्र, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा,
 समिति और परीपह सहन करनेसे वालि मुनिराज महासंवरको प्राप्त हुए। नवीन कर्मोंका
 अर्जन उन्होंने बन्द कर दिया और पहलेके सञ्चित कर्मोंका तपके द्वारा नाश करना शुरू किया।
 इस तरह संवर और निर्जराके द्वारा वे केवलज्ञानको प्राप्त हुए ॥२१९-२२०॥ अन्तमें आठ-
 कर्मोंको नष्टकर वे तीन लोकके उस शिखरपर जा पहुँचे जहाँ अनन्त सुख प्राप्त होता है
 ॥२२१॥ जो इन्द्रियोको जीतनेमें समर्थ है मैं उससे हारा हूँ यह जानकर अब रावण
 साधुओंके समक्ष नम्र रहने लगा ॥२२२॥ जो सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न था, और जिनेन्द्र देवमें
 जिसकी दृढ भक्ति थी ऐसा रावण परम भोगोसे वृत्त न होता हुआ इच्छानुसार रहने लगा
 ॥२२३॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! जो उत्तम मनुष्य शुभभावांमें
 तत्पर होता हुआ वालि मुनिके इस चरित्रको सुनता है वह कभी परसे पराभवको प्राप्त नहीं
 होता और मूर्यके समान देदीप्यमान पदको प्राप्त होता है ॥२२४॥

इस प्रकार आर्पणामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्य विरचित पद्मचरितमें वालि-
 निर्वाणका कथन करनेवाला नवम पर्व पूर्ण हुआ ॥६॥



१. प्रतिपत्य म० । २ शल्यस्य म० । ३. अनुप्रेषणतः म०, ख० । ४. -मनिर्जयन् म० ।
 ५. चान्तप्राप्तः केवलसगमम् म० । चान्तमन्ते केवलसगमः क० ।

दशमं पर्व

एव तावदिदं वृत्तं तव श्रेणिक वेदितम् । अतः परं प्रवक्ष्यामि शृणु ते परमीहितम् ॥१॥
हुताशनशिखस्यासीत् सुता ज्योतिःपुरे वरा । हीसज्ञायां समुत्पन्ना योषिति स्त्रीगुणान्विता ॥२॥
सुतारेति गता ख्यातिं शोभया सकलावनो । पद्मनासं परित्यज्य लक्ष्मीरिव समागता ॥३॥
चक्राङ्गतनयोऽपश्यत् पर्यटन् स्वेच्छयान्यदा । तां साहसगतिर्नाम्ना दुष्टोऽनुमतिसंभवः ॥४॥
ततोऽसौ कामशल्येन शल्यितोऽत्यन्तदुःखितः । सुतारां मनसा नित्यमुवाहोन्मत्तविभ्रमः ॥५॥
उपर्युपरि यातैश्च तां स दूतैरयाचत । सुग्रीवोऽपि तथैवैतां याचते स्म मनोहराम् ॥६॥
द्वैधीभावमुपेतेन हुताशनशिखेन च । पृष्टो मुनिर्महाज्ञानो निश्चयव्याकुलात्मना ॥७॥
उक्तञ्च मुनिचन्द्रेण न साहसगतिश्चिरम् । जीविष्यति चिरायुस्तु सुग्रीवः परमोदयः ॥८॥
चक्राङ्गपक्षसप्रीत्या हुताशस्तु विनिश्चयः । दीपो वृषो गजेन्द्रो च निमित्तमकरोद् दृढम् ॥९॥
ततो मुनिगिरि ज्ञात्वा नियतामृतोपमाम् । सुग्रीवाय सुता दत्तानीयं पित्रा समङ्गलम् ॥१०॥
कृत्वा पाणिगृहीतां तां सुग्रीवः पुण्यसंचयः । इयाय कामविषय सारवत्तं सुसंपदम् ॥११॥
ततः क्रमात्तयोः पुत्रौ जातौ रूपमहोत्सवौ । ज्यायानङ्गोऽनुजस्तस्य प्रथितोऽङ्गदसज्ञया ॥१२॥

अथानन्तर—गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इस तरह तुमने वालीका वृत्तान्त जाना । अब इसके आगे तेरे लिए सुग्रीव और सुताराका श्रेष्ठ चरित कहता हूँ सो सुन ॥१॥ ज्योतिःपुर नामा नगरमें राजा अग्निशिखकी रानी ही देवीके उदरसे उत्पन्न एक सुतारा नामकी कन्या थी । शोभासे समस्त पृथिवीमें प्रसिद्ध थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो कमलरूपी आवासको छोड़कर लक्ष्मी ही आ गई हो ॥२-३॥ एक दिन राजा चक्राङ्क और अनुमति रानीसे उत्पन्न साहसगति नामक दुष्ट विद्याधर अपनी इच्छासे इधर-उधर भ्रमण कर रहा था सो उसने सुतारा देखी ॥४॥ उसे देखकर वह कामरूपी शल्यसे विद्ध होकर अत्यन्त दुःखी हुआ । वह सुताराको निरन्तर अपने मनमें धारण करता था और उन्मत्त जैसी उसकी चेष्टा थी ॥५॥ इधर वह एकके बाद एक दूत भेजकर उसकी याचना करता था उधर सुग्रीव भी उस मनोहर कन्याकी याचना करता था ॥६॥ 'अपनी कन्या दो में से किसे दूँ' इस प्रकार द्वैधीभावको प्राप्त हुआ राजा अग्निशिख निश्चय नहीं कर सका इसलिए उसकी आत्मा निरन्तर व्याकुल रहती थी । आखिर महाज्ञानी मुनिराजसे पूछा ॥७॥ तब महाज्ञानी मुनिचन्द्रने कहा कि साहसगति चिर काल तक जीवित नहीं रहेगा—अल्पायु है और सुग्रीव इसके विपरीत परम अभ्युदयका धारक तथा चिरायु है ॥८॥ राजा अग्निशिख, साहसगतिके पिता चक्राङ्कका पक्ष प्रबल होनेसे मुनिचन्द्रके वचनोंका निश्चय नहीं कर सका तब मुनिचन्द्रने दो दीपक, दो वृष और गजराजोको निमित्त बनाकर उसे अपनी वातका दृढ़ निश्चय करा दिया ॥९॥ तदनन्तर मुनिराजके अमृत तुल्य वचनोंका निश्चय कर पिता अग्निशिखने अपनी पुत्री सुतारा लाकर मङ्गलाचार पूर्वक सुग्रीवके लिए दे दी ॥१०॥ जिसका पुण्यका संचय प्रबल था ऐसा सुग्रीव उस कन्याको विवाहकर बड़ी सम्पदाके साथ श्रेष्ठ कामोपभोगको प्राप्त हुआ ॥११॥ तदनन्तर सुग्रीव और सुताराके क्रमसे दो पुत्र उत्पन्न हुए । दोनों ही अत्यन्त सुन्दर थे । उनमेंसे बड़े पुत्रका नाम अङ्ग था और छोटा पुत्र अङ्गदके नामसे प्रसिद्ध था ॥१२॥

१. पर्व म० । २. ज्योतिःपुरे म०, व० । ३. दुष्टानुमति म० । ४. युक्तं च म० । ५. नीत्वा म० । ६. सुसंपदम् म०, क०, ख० ।

अद्यापि नैव निर्लज्जश्चक्राङ्कस्य शरीरजः । परित्यजति तत्राशा धिङ्मनोभवदूषिताम् ॥१३॥
 दध्यौ^१ चेति स कामाग्निदग्धो निस्सारमानसः । केनोपायेन ता कन्या लप्स्ये निर्वृतिदायिनीम् ॥१४॥
 कदा नु वदन तस्या शोभाजितनिशाकरम् । चुम्बिष्यामि स्फुरच्छोणच्छ्विच्छृङ्गरदच्छुद्रम् ॥१५॥
 क्रीडिष्यामि कदा सार्धं तथा नन्दनवत्सि । कदा वाप्स्यामि तत्पीनस्तनस्पर्शसुखोत्सवम् ॥१६॥
^३इत्यभिधायतस्तस्य तत्समागमकारणम् । सस्मार सेमुखीविद्यामाकृतेः परिवर्तिनीम् ॥१७॥
 हिमवन्त ततो गत्वा गुहामाश्रित्य दुर्गामाम् । आराधयितुमारेभे दुःखित प्रियमित्रवत् ॥१८॥
 अत्रान्तरे विनिष्क्रान्तो दिशो जेतुं दशाननः । बभ्राम धरणीं पश्यन् गिरिकान्तारभूषिताम् ॥१९॥
 जित्वा विद्याधराधीशान् द्वीपान्तरगतान् वशी । भूयो न्ययोजयत् स्वेषु राष्ट्रेषु पृथुशासनः ॥२०॥
 वशीकृतेषु तस्यासीत् खर्गसिंहेषु मानसम् । पुत्रेऽपि महेच्छा हि तुष्यन्त्यानतिमात्रतः ॥२१॥
 रत्नसामन्वये योऽभूद्'यो वा शाखासृगान्वये । उद्वल खेचराधीशः सर्वं त वशमानयत् ॥२२॥
 महासाधनयुक्तस्य व्रजतोऽस्य विहायसा । वेगमास्तमप्यन्ये खेचराः सोढुमत्तमा ॥२३॥
 सन्ध्याकाराः सुवेलश्च हेमापूर्णाः^४ सुयोधनाः । हंसद्वीपाः परिह्लादा इत्याद्या जनताधिपाः ॥२४॥
 गृहीतप्राभृता गत्वा नेमुस्त मूर्धपाणयः । आश्रयिताः सुवाणीभिस्तथावस्थितसम्पदः ॥२५॥

राजा चक्राङ्कका पुत्र साहसगति इतना निर्लज्ज था कि वह अब भी सुताराकी आशा नहीं छोड़ रहा था सो आचार्य कहते हैं कि इस कामसे दूषित आशाको धिक्कार हो ॥१३॥ जो कामाग्निसे जल रहा था ऐसा, सारहीन मनका धारक साहसगति निरन्तर यही विचार करता रहता था कि मैं सुख देनेवाली उस कन्याको किस उपायसे प्राप्त कर सकूँगा ॥१४॥ जिसने अपनी शोभासे चन्द्रमाको जीत लिया है और जिसका ओठ स्फुरायमान लाल कान्तिसे आच्छादित है ऐसे उसके मुखका कब चुम्बन करूँगा ? ॥१५॥ नन्दनवनके मध्यमें उसके साथ कब क्रीडा करूँगा, और उसके स्थूल स्तनोंके स्पर्शजन्य सुखोत्सवको कब प्राप्त होऊँगा ॥१६॥ इस प्रकार उसके समागमके कारणोंका ध्यान करते हुए उसने रूप बदलनेवाली सेमुखी नामक विद्याका स्मरण किया ॥१७॥ जिस प्रकार प्रिय मित्र अपने दुःखी मित्रकी निरन्तर आराधना करता है उसी प्रकार साहसगति हिमवान् पर्वतपर जाकर उसकी दुर्गम गुहाका आश्रय ले उस विद्याकी आराधना करने लगा ॥१८॥

अथानन्तर इसी बीचमे रावण दिग्विजय करनेके लिए निकला सो पर्वत और वनोंसे विभूषित पृथिवीको देखता हुआ भ्रमण करने लगा ॥१९॥ विशाल आज्ञाको धारण करनेवाले जितेन्द्रिय रावणने दूसरे-दूसरे द्वीपोंमे स्थित विद्याधर राजाओंको जीतकर उन्हें फिरसे अपने-अपने देशोंमे नियुक्त किया ॥२०॥ जिन विद्याधर राजाओंको वह वशमें कर चुका था उन सब पर उसका मन पुत्रोंके समान स्निग्ध था अर्थात् जिस प्रकार पिताका मन पुत्रोंपर स्नेह पूर्ण होता है उसी प्रकार दशाननका मन वशीकृत राजाओंपर स्नेहपूर्ण था । सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुष नमस्कार मात्रसे सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥२१॥ राजसवंश और वानरवंशमे जो भी उद्धत विद्याधर राजा थे उन सबको उसने वशमे किया था ॥२२॥ बड़ी भारी सेनाके साथ जब रावण आकाशमार्गसे जाता था तब उसकी वेगजन्य वायुको अन्य विद्याधर सहन करनेमें असमर्थ ही जाते थे ॥२३॥ सन्ध्याकार, सुवेल, हेमापूर्णा, सुयोधन, हंसद्वीप और परिह्लाद आदि जो राजा थे वे सब भेट ले-लेकर तथा हाथ जोड़ मस्तकसे लगा-लगाकर उसे नमस्कार करते थे और रावण भी अच्छे-अच्छे वचनोंसे उन्हें सन्तुष्ट कर उनकी सम्पदाओंको पूर्ववत्

१. चेतसि म० । २. नन्दनवनमध्ये । ३. इत्यभिधावतस्तस्य म० । ४. हेमापूर्णाश्च योधना. क०, व० । ५. तथावसितसम्पद. म० ।

श्रिता येऽपि सुदुर्गाणि स्थानान्यम्बरगाधिपाः । नमितास्तेऽपि तत्पादौ शोभनैः पूर्वकर्मभिः ॥२६॥
 बलानां हि समस्तानां बलं कर्मकृतं परम् । तस्योदये स कं जेतुं न समर्थो नरेश्वरः ॥२७॥
 अथेन्द्रजितये गन्तुं प्रवृत्तेनामुना स्मृता । स्वसात्यन्तघनस्नेहात् पारम्पर्याच्च तत्पतिः ॥२८॥
 प्रस्थितश्च स तं देशं श्रुतः स्वस्त्रा समुत्कया । प्राप्तः स्थितः समासन्ने देशे प्रीतिसमुत्कटः ॥२९॥
 ततश्चरमयामादौ क्षपायाः शयितः सुखम् । कैकसेय्या^३ परप्रीत्या बोधितः खरदूषणः ॥३०॥
 ततो निर्गत्य तेनासावलङ्कारोदयात् पुरात् । दशवक्त्रो महाभक्त्या पूजितः परमोत्सवैः ॥३१॥
 रावणोऽपि स्वसुः प्रीत्या चक्रेऽस्य प्रतिपूजनम् । प्रायो हि सोदरस्नेहात् परः स्नेहो न विद्यते ॥३२॥
 चतुर्दशसहस्राणि कामरूपविकारिणाम् । दर्शितानि दशास्थाय तेन ज्योमविचारिणाम् ॥३३॥
 दूषणाख्यश्च सेनायाः पतिरात्मसमः कृती । शूरो गुणसमाकृष्टसर्वसामन्तमानसः ॥३४॥
 एतैश्च प्रस्थितः साकं कृतसर्वास्त्रकौशलैः । आवृतोऽसुरसंघातैः पातालाच्चामरो यथा ॥३५॥
 हिडम्बो हैहिडो डिम्बो विकटस्त्रिजटो हयः । माकोटः सुजटटङ्कः किष्किन्धाधिपतिस्तथा ॥३६॥
 त्रिपुरो मलयो हेमपालकोलवसुन्धराः । नानायानसमारूढा नानाशस्त्रविराजिताः ॥३७॥
 एवमाद्यैः खगाधीशैरापुपूरे स निर्गतः । विद्युद्भिर्धनुर्द्युक्तैर्धनौघैः श्रावणो यथा ॥३८॥
 सहस्रमधिकं जातं विहायस्तलचारिणाम् । अचौहिणीप्रमाणानां कैलासोत्लासकारिणः ॥३९॥

अवस्थित रखता था ॥२४-२५॥ जो विद्याधर राजा अत्यन्त दुर्गम स्थानोंमें रहते थे उन्होंने भी उत्तमोत्तम शिष्टाचारके साथ रावणके चरणोंमें नमस्कार किया था ॥२६॥ आचार्य कहते हैं कि सब बलोंमें कर्मोंके द्वारा किया हुआ बल ही श्रेष्ठ बल है सो उसका उदय रहते हुए रावण किससे जीतनेके लिए समर्थ नहीं हुआ था ? अर्थात् वह सभीको जीतनेमें समर्थ था ॥२७॥

अथानन्तर—रावण रथनूपुर नगरके राजा इन्द्र विद्याधरको जीतनेके लिए प्रवृत्त हुआ सो उसने इस अवसरपर अपनी बहिन चन्द्रनखा और उसके पति खरदूषणका बड़े भारी स्नेहसे स्मरण किया ॥२८॥ प्रस्थानकर पाताललङ्काके समीप पहुँचा । जब बहिनको इस बातका पता चला कि प्रीतिसे भरा हमारा भाई निकट ही आकर स्थित है तब वह उत्कण्ठासे भर गई ॥२९॥ उस समय रात्रिका पिछला पहर था और खरदूषण सुखसे सो रहा था सो चन्द्रनखाने बड़े प्रेमसे उसे जगाया ॥३०॥ तदनन्तर खरदूषणने अलङ्कारोदयपुर (पाताललङ्का) से निकलकर बड़ी भक्ति और बहुत भारी उत्सवसे रावणकी पूजा की ॥३१॥ रावणने भी बदलेमें प्रीतिपूर्वक बहिनकी पूजा की सो ठीक ही है क्योंकि संसारमें भाईके स्नेहसे बढ़कर दूसरा स्नेह नहीं है ॥३२॥ खरदूषणने रावणके लिए इच्छानुसार रूप बदलनेवाले चौदह हजार विद्याधर दिखलाये ॥३३॥ जो अत्यन्त कुशल था, शूरवीर था और जिसने अपने गुणोंसे समस्त सामन्तोंके मनको अपनी ओर खींच लिया था ऐसे खरदूषणको रावणने अपने समान सेनापति बनाया ॥३४॥ जिस प्रकार असुरोंके समूहसे आवृत चामरेन्द्र पातालसे निकलकर प्रस्थान करता है उसी प्रकार रावणने सर्वप्रकारके शस्त्रोंमें कौशल प्राप्त करनेवाले खरदूषण आदि विद्याधरोंके साथ पाताललङ्कासे निकलकर प्रस्थान किया ॥३५॥ हिडम्ब, हैहिड, डिम्ब, विकट, त्रिजट, हय, माकोट, सुजट, टङ्क, किष्किन्धाधिपति, त्रिपुर, मलय, हेमपाल, कोल और वसुन्धर आदि राजा नाना प्रकारके वाहनोंपर आरूढ़ होकर साथ जा रहे थे । ये सभी राजा नाना प्रकारके शस्त्रोंसे सुशोभित थे ॥३६-३७॥ जिस प्रकार विजली और इन्द्रधनुषसे युक्त मेघोंके समूहसे सावनका माह भर जाता है उसी प्रकार उन समस्त विद्याधर राजाओंसे दशानन भर गया था ॥३८॥ इस प्रकार

१. नरेश्वर म० । २. स्मृतः म०, ख० । ३. चन्द्रनखा । ४. माकोटस्त्रिजटटङ्कः म० । ५. कैलासोत्लासकारिणाम् म० ।

अमराणां सहस्रेण प्रत्येकं कृतपालनै । रत्नैरनुगतो नानागुणसघातधारिभि ॥४०॥
 चन्द्ररश्मिचयाकारैश्चामरैरुपवीजित । समुच्छ्रितसितच्छत्रश्चारूपमहाभुज* ॥४१॥
 पुष्पकाग्र समारूढो मन्दरस्थरविद्युति । तिग्माशुमालिनो मार्गं छान्द्यन् यानसम्पदा ॥४२॥
 इन्द्रध्वसनमाधाय मानसे पुरुविक्रम. । प्रयाणकैरभिप्रैतै. प्रयाति स्म दशानन ॥४३॥
 नानारत्नकृतच्छायं चामरोर्मिसमाकूलम् । तद्वण्डमीनसघातं छत्रावर्तशताचितम् ॥४४॥
 वाजिमातङ्गपादातग्रहयघातभीषणम् । उल्लसच्छकल्लोलमकरोत् स खमर्णवम् ॥४५॥
 तुङ्गैर्वर्हिणपिच्छ्रौघशिरोभिर्भासुरैर्ध्वजै । वज्रैरिव क्वचिद् व्याप्तं सुत्रामोपायनैर्नभ ॥४६॥
 नानारत्नकृतोद्योतैस्तुङ्गशृङ्गविराजितै । सचरत्सुरलोकाभं विमाननिवहै क्वचित् ॥४७॥
 पृथ्व्या कि मगधार्वाण गिरात्र परिकीर्णया । मन्ये तत्सैन्यमालोक्य विभुयुद्धिदशा अपि ॥४८॥
 इन्द्रजिन्मेघवाहश्च कुम्भकर्णो विभीषण । खरदूषणनामा च निकुम्भ कुम्भसञ्जक ॥४९॥
 एते चान्ये च बहवः स्वजना रणकोविदा । सिद्धविद्यामहाभास. शस्त्रशास्त्रकृतश्रया ॥५०॥

कैलासको कम्पित करनेवाले रावणके कुछ अधिक एक हजार अक्षौहिणी प्रमाण विद्याधरोकी सेना इकट्ठी हो गई थी ॥३६॥ प्रत्येकके हजार-हजार देव जिनकी रक्षा करते थे और जो नाना गुणोंके समूहको धारण करनेवाले थे ऐसे रत्न उसके साथ चलते थे ॥४०॥ चन्द्रमाकी किरणोंके समूहके समान जिनका आकार था ऐसे चमर उसपर ढोले जा रहे थे । उसके शिरपर सफेद छत्र लग रहा था और उसकी लम्बी-लम्बी भुजाएँ सुन्दर रूपको धारण करनेवाली थीं ॥४१॥ वह पुष्पक विमानके अग्रभागपर आरूढ़ था जिससे मेरुपर्वतपर स्थित सूर्यके समान कान्तिको धारण कर रहा था । वह अपनी मानरूपी सम्पत्तिके द्वारा सूर्यका मार्ग अर्थात् आकाशको आच्छादित कर रहा था ॥४२॥ प्रबल पराक्रमका धारी रावण मनमें इन्द्रके विनाशका संकल्प कर इच्छानुकूल प्रयाणकोसे निरन्तर आगे बढ़ता जाता था ॥४३॥ उस समय वह आकाशको ठीक समुद्रके समान बना रहा था क्योंकि जिस प्रकार समुद्रमें नानाप्रकारके रत्नोंकी कान्ति व्याप्त होती है उसी प्रकार आकाशमें नाना प्रकारके रत्नोंकी कान्ति फैल रही थी । जिस प्रकार समुद्र तरङ्गोंसे युक्त होता है उसी प्रकार आकाश चामररूपी तरङ्गोंसे युक्त होता था । जिस प्रकार समुद्रमें मीन अर्थात् मछलियोंका समूह होता है उसी प्रकार आकाशमें दण्डरूपी मछलियोंका समूह था । जिस प्रकार समुद्र सैकड़ों आवतों अर्थात् भ्रमरोंसे सहित होता है उसी प्रकार आकाश भी छत्ररूपी सैकड़ों भ्रमरोंसे युक्त था । जिस प्रकार समुद्र मगरमच्छोंके समूहसे भयङ्कर होता है उसी प्रकार आकाश भी घोड़े हाथी और पैदल योद्धारूपी मगरमच्छोंसे भयङ्कर था तथा जिस प्रकार समुद्रमें अनेक कल्लोल अर्थात् तरङ्ग उठते रहते हैं उसी प्रकार आकाशमें भी अनेक शस्त्ररूपी तरङ्ग उठ रहे थे ॥४४-४५॥ जिनके अग्रभागपर मयूरपिच्छोंका समूह विद्यमान था ऐसी चमकीली ऊँची ध्वजाओंसे कहीं आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो इन्द्रनीलमणियोंसे युक्त हीरोसे ही व्याप्त हो ॥४६॥ जिनमें नाना प्रकारके रत्नोंका प्रकाश फैल रहा था और जो ऊँचे-ऊँचे शिखरोंसे सुशोभित थे ऐसे विमानोंके समूहसे आकाश कहीं चलते-फिरते स्वर्गलोकके समान जान पड़ता था ॥४७॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि मगधेश्वर । इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या ? मुझे तो ऐसा लगता है कि रावणकी सेना देखकर देव भी भयभीत हो रहे थे ॥४८॥ जिन्हें विद्यारूपी महाप्रकाश प्राप्त था और शस्त्र तथा शास्त्रमें जिन्होंने परिश्रम किया था ऐसे इन्द्रजित्, मेघवाहन, कुम्भकर्ण, विभीषण, खरदूषण, निकुम्भ और कुम्भ, ये तथा इनके सिवाय युद्धमें कुशलमें अन्य अनेक आत्मीयजन रावणके पीछे-पीछे चल रहे थे । ये सभी लोग

१ मन्दरस्थिर-विद्युति. म० । मन्दरस्थितविद्युति ख०, क० । २. इन्द्रध्वस समाधाय ख०, क० ।

३. तद्वण्डमान म० । ४. सुरलोकात् म० ।

महासाधनसपत्ना ह्येयन्त' सुरश्रियम् । अनुजगमुरतिप्रीता रावण पृथुकीर्णयः ॥५१॥
 ततो विन्ध्यान्तिके तस्य जगामास्त दिवाकरः । वैलष्यादिव निच्छायो जितो रावणतेजसा ॥५२॥
 'उत्तमाङ्गे च विन्ध्यस्य तेन सैन्य निवेशितम् । विद्यावलसमुद्भूतैर्नानाकृतसमाश्रयम् ॥५३॥
 प्रदीप इव चानीतः क्षपया तस्य भीतया । करदूरीकृतध्वान्तपटलो रोहिणीपति ॥५४॥
 तारागणशिर'पुष्पा शशाङ्गवदना निशा । प्राप्ता वराङ्गनेवैत विमलाम्बरधारिणी ॥५५॥
 सकथाभिर्विचित्राभिव्यापारैश्च तथोचितैः । सुखेन रजनी नीता निद्रया च नभश्चरैः ॥५६॥
 ततः प्रभातनूर्येण मङ्गलैश्च प्रवोधित' । चकार रावणः कर्म सकल तनुगोचरम् ॥५७॥
 भ्रान्त्वेव भुवन सर्वमदृष्टान्य समाश्रयम् । पुनः शरणमायातो रावण पद्मवान्धव ॥५८॥
 ततो नानाशकुन्तौघैः कुर्वन्निर्मधुरस्वरम् । सभापणमिव भ्रष्टमर्यादा कुर्वतीमयम् ॥५९॥
 ददर्श नर्मदां फेनपटलैः सस्मितामिव । शुद्धस्फटिकसकाशसलिलां द्विपभूपिताम् ॥६०॥
 तरङ्गभ्रूविलासाद्यामावर्तन्तमनाभिकाम् । विस्फुरच्छफरीनेत्रां पुलिनोरुकलत्रिकाम् ॥६१॥
 नानापुष्पसमाकीर्णां विमलोदकवाससम् । वराङ्गनामिवालोक्य महाप्रीतिमुपागतः ॥६२॥
 उग्रनक्रकुलाक्रान्ता गंभीरा वेगिनी क्वचित् । क्वचित्च प्रस्थितां मन्द क्वचित्कुण्डलगामिनीम् ॥६३॥
 नानाचेष्टितसपूर्णां कौतुकन्यासमानसः । अवतीर्णः स ता भीमां रमणीया च सादरः ॥६४॥

वड़ी-वड़ी सेनाओसे सहित थे, इन्द्रकी लक्ष्मीको लजाते थे, अत्यन्त प्रीतिसे युक्त थे और विशाल कीर्तिके धारक थे ॥४६-५१॥

तदनन्तर जब रावण विन्ध्याचलके समीप पहुँचा तब सूर्य अस्त हो गया सो रावणके तेजसे पराजित होनेके कारण लज्जासे ही मानो प्रभाहीन हो गया था ॥५२॥ सूर्यास्त होते ही उसने विन्ध्याचलके शिखरपर सेना ठहरा दी । वहाँ विद्याके बलसे सेनाको नाना प्रकारके आश्रय प्राप्त हुए थे ॥५३॥ किरणोंके द्वारा अन्धकारके समूहको दूर करनेवाला चन्द्रमा उदित हुआ सो मानो रावणसे डरी हुई रात्रिने उत्तम दीपक ही लाकर उपस्थित किया था ॥५४॥ तारागण ही जिसके शिरके पुष्प थे, चन्द्रमा ही जिसका मुख था, और जो निर्मल अम्बर (आकाश) रूपी अम्बर (वस्त्र) धारण कर रही थी ऐसी उत्तम नायिकाके समान रात्रि रावणके समीप आई ॥५५॥ विद्याधरोंने नाना प्रकारकी कथाओसे, योग्य व्यापारोंसे तथा अनुकूल निद्रासे वह रात्रि व्यतीत की ॥५६॥ तदनन्तर प्रातःकालकी तुरही और वन्दीजनोंके माङ्गलिक शब्दोंसे जागकर रावणने शरीर सम्बन्धी समस्त कार्य किये ॥५७॥ सूर्योदय हुआ सो मानो सूर्य समस्त जगह भ्रमणकर अन्य आश्रय न देख पुनः रावणकी शरणमें आया ॥५८॥

तदनन्तर रावणने नर्मदा नदी देखी । नर्मदा मधुर शब्द करनेवाले नाना पक्षियोंके समूहके साथ मानो अत्यधिक वार्तालाप ही कर रही थी ॥५९॥ फेनके समूहसे ऐसी जान पड़ती थी मानो हँस ही रही हो । उसका जल शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल था और वह हाथियोंसे सुशोभित थी ॥६०॥ वह नर्मदा तरङ्ग रूपी भ्रुकुटीके विलाससे युक्त थी, आवर्त रूपी नाभिसे सहित थी, तैरती हुई मल्लिरियों ही उसके नेत्र थे, दोनों विशाल तट ही स्थूल नितम्ब थे, नाना फूलोंसे वह व्याप्त थी और निर्मल जल ही उसका वस्त्र था । इस प्रकार किसी उत्तम नायिकाके समान नर्मदाको देख रावण महाप्रीतिको प्राप्त हुआ ॥६१-६२॥ वह नर्मदा कहीं तो उग्र मगरमच्छोंके समूहसे व्याप्त होनेके कारण गम्भीर थी, कही वेगसे बहती थी, कही मन्द गतिसे बहती थी और कही कुण्डलकी तरह टेढ़ी-मेढ़ी चालसे बहती थी ॥६३॥ नाना चेष्टाओसे भरी हुई थी, तथा भयंकर होने पर भी रमणीय थी । जिसका चित्त कौतुकसे व्याप्त था ऐसे रावणने बड़े आदरके साथ उस नर्मदा नदीमें प्रवेश किया ॥६४॥

माहिष्मतीपुरेशोऽथ बलेन प्रथितो भुवि । सहस्ररश्मिरप्येतामद्गतीर्णोऽन्यथा दिशा ॥६५॥
 सहस्ररश्मिरैवैप सत्य परमसुन्दर' । सहस्र तस्य दाराणा यदत्यन्तसुतेजमाम् ॥६६॥
 जलयन्त्राणि चित्राणि कृतानि वरशिल्पिभिः । समाश्रित्य स रेमेऽस्यामद्भुतानां विधायक ॥६७॥
 सागरस्यापि नरोद्भुमम्भः शक्तैर्नरैर्वृत । यन्त्रसवाहनाभिज्ञैः स्वेच्छयास्या चचार स ॥६८॥
 जले यन्त्रप्रयोगेण क्षणेन विष्टते सति । 'भ्रमन्ति पुलिने नार्यो नानाक्रीडनकोविदा' ॥६९॥
 कलत्रनिविडारिल्लष्टसुसूक्ष्मविमलांशुका' । चभूवुः सत्रपा 'दृष्टा रमणेन वराङ्गनाः ॥७०॥
 'विगतालेपना काचित् कुचौ नखपदाङ्कितौ । दर्शयन्ती चकारेर्ष्यां प्रतिपन्नस्य कामिनी ॥७१॥
 काचित् दृश्यसमस्ताङ्गा वरयोपित् त्रपावती । अभिप्रिय निचिक्षेप कराभ्या जलमाकुला ॥७२॥
 प्रतिपन्नस्य दृष्टान्या जघने करजक्षती । लीलाकमलनालेन जघान प्रसदा प्रियम् ॥७३॥
 काचित् कोपवती मौनं गृहीत्वा निश्चला स्थिता । पत्या पादप्रणामेन दयिता तोपमाहता ॥७४॥
 यावत्प्रसादयत्येकां तावदेत्यपरा रूपम् । यथाऋथचिदानिन्ये तोषं सर्वाः पुनर्नृप ॥७५॥
 दर्शनात् स्पर्शनात् कोपात् प्रसादाद्विचिधोद्वितात् । प्रणामाद्वारिनिक्षेपादवतसकताडनात् ॥७६॥
 वञ्चनादशुक्राक्षेपान्मेखलादामवन्धनात् । पलायनान्महारावात् सपर्कान् कुचकम्पनात् ॥७७॥
 हासाद्भूषणनिक्षेपात् प्रेरणाद् भूविलासतः । अन्तर्धानात् समुद्भूतेरन्यस्माच्च सुविभ्रमात् ॥७८॥
 रेमे बहुरस तस्या स मनोहरदर्शन' । आवृतो वरनारीभिर्देवीभिरिव वासव ॥७९॥

अथानन्तर जो अपने बलसे पृथिवीपर प्रसिद्ध था ऐसा माहिष्मतीका राजा सहस्र-
 रश्मि भी उसी समय अन्य दिशासे नर्मदामे प्रविष्ट हुआ ॥६५॥ यह सहस्ररश्मि यथार्थमे परम
 सुन्दर था क्योंकि उत्कृष्ट कान्तिको धारण करनेवाली हजारों स्त्रियों उसके साथ थीं ॥६६॥
 उसने उत्कृष्ट कलाकारोंके द्वारा नाना प्रकारके जलयन्त्र वनवाये थे सो उन सबका आश्रय कर
 आश्चर्यको उत्पन्न करनेवाला सहस्ररश्मि नर्मदामें उतरकर नाना प्रकारकी क्रीड़ा कर रहा था ॥६७॥
 उसके साथ यन्त्र निर्माणको जाननेवाले ऐसे अनेक मनुष्य थे जो समुद्रका भी जल रोकनेमें
 समर्थ थे फिर नदीकी तो बात ही क्या थी । इस प्रकार अपनी इच्छानुसार वह नर्मदामे भ्रमण कर
 रहा था ॥६८॥ यन्त्रोंके प्रयोगसे नर्मदाका जल क्षण भरमे रुक गया था इसलिए नाना प्रकारकी
 क्रीड़ामें निपुण स्त्रियों उसके तटपर भ्रमण कर रही थीं ॥६९॥ उन स्त्रियोंके अत्यन्त पतले और
 उज्ज्वल वस्त्र जलका सम्बन्ध पाकर उनके नितम्ब स्थलोसे एक दम शिल्ल हो गये थे इसलिए जब
 पति उनकी ओर आँख उठाकर देखता था तब वे लज्जासे गड़ जाती थीं ॥७०॥ शरीरका लेप
 धुल जानेके कारण जो नखचतोंसे चिह्नित स्तन दिखला रही थी ऐसी कोई एक स्त्री अपनी सौतके
 लिए ईर्ष्या उत्पन्न कर रही थी ॥७१॥ जिसके समस्त अङ्ग दिख रहे थे ऐसी कोई उत्तम स्त्री
 लनाती हुई दोनों हाथोंसे बड़ी आकुलताके साथ पतिकी ओर पानी उछाल रही थी ॥७२॥ कोई
 अन्य स्त्री सौतके नितम्ब स्थलपर नखचत देखकर क्रीडाकमलकी नालसे पतिपर प्रहार कर रही
 थी ॥७३॥ कोई एक स्वभावकी क्रोधिनी स्त्री मौन लेकर निश्चल खड़ी रह गई थी तब पतिने
 चरणोंमें प्रणामकर उसे किसी तरह संतुष्ट किया ॥७४॥ राजा सहस्ररश्मि जब तक एक स्त्रीको
 प्रसन्न करता था तब तक दूसरी स्त्री रोपको प्राप्त हो जाती थी । इस कारण वह समस्त स्त्रियोंको
 बड़ी कठिनाईसे संतुष्ट कर सका था ॥७५॥ उत्तमोत्तम स्त्रियोंसे घिरा, मनोहर रूपका धारक
 वह राजा, किसी स्त्रीकी ओर देखकर, किसीका स्पर्श कर, किसीके प्रति कोप प्रकट कर, किसीके
 प्रति अनेक प्रकारकी प्रसन्नता प्रकट कर, किसीको प्रणाम कर, किसीके ऊपर पानी उछाल कर,
 किसीको कर्णाभरणसे ताड़ित कर, किसीका धोखेसे वस्त्र खींचकर, किसीको मेखलासे बाँधकर,

१. भवन्ति क०, ख० । २. दृष्टा म० । ३. विगतालेखना म० । ४. तावत् + एति + अपरा,
 तावदेत्य परा रूपम् म० ।

पतिताञ्च सिकतापृष्ठे नालकारान् पुनः स्त्रियः । आचकाद्भ्रुर्महाचित्ता निर्मात्यस्त्रगुणानिव ॥८६॥
 काचिच्चन्दनलेपेन चकार धवलं जलम् । अन्या कुङ्कुमपङ्केन द्रुतचामीकरप्रभम् ॥८७॥
 धौतताम्बूलरागामधराणां सुयोपिताम् । चक्षुषां व्यञ्जनानां च लक्ष्मीरभवदुत्तमा ॥८८॥
 पुनश्च यन्त्रनिर्मुक्तवारिमध्ये यथेप्सितम् । रेमे सम वरस्त्रीभिर्नरेशः स्मरहेतुभिः ॥८९॥
 क्रोढन्तीभिर्जले स्त्रीभिर्भूषणानां वरो रवः । शकुन्तेष्विव विन्यस्तः कूलकीलालचारिणु ॥९०॥
 रावणोऽपि सुख स्नात्वा वसानो धौतवाससी । विधाय प्रयतो मौलिं शुक्लकर्पटसयुतम् ॥९१॥
 निर्युक्तैः सर्वदा पुम्भिरुद्यमानां प्रयत्नतः । प्रतिमामर्हतो रत्नहेमनिर्मितविग्रहाम् ॥९२॥
 तरङ्गिणीनवे रम्ये पुलिने शुभ्रभासुरे । सिकतारचितोत्तुङ्गपीठवन्धविराजिते ॥९३॥
 वैदूर्यदण्डिकासक्तमुक्ताफलवितानके । सर्वोपकरणव्यग्रपरिवर्गसमावृते ॥९४॥
 स्थापयित्वा घनामोदसमाकृष्टमधुव्रतैः । धूपैरालेपनैः पुष्पैर्मनोज्ञैर्वहुभक्तिभिः ॥९५॥
 विधाय महती पूजां सन्निविष्टः पुरोऽवनौ । सगर्भं वदन चक्रे पूतैः स्तुत्यर्चरैश्चिरम् ॥९६॥
 अकस्मादथ पूरेण हता पूजा समन्ततः । फेनबुद्बुदयुक्तेन क्लृपेण तरस्विना ॥९७॥

किसीके पाससे दूर हटकर, किसीको भारी डाँट दिखाकर, किसीके साथ सम्पर्क कर, किसीके स्तनोमे कम्पन उत्पन्न कर, किसीके साथ हँसकर, किसीके आभूषण गिराकर, किसीको गुदगुदाकर, किसीके प्रति भौंह चलाकर, किसीसे छिपकर, किसीके समक्ष प्रकट होकर तथा किसीके साथ अन्य प्रकारके विभ्रम दिखाकर नर्मदा नदीमे वड़े आनन्दसे उस तरह क्रीड़ा कर रहा था जिस प्रकार कि देवियोंके साथ इन्द्र क्रीड़ा किया करता है ॥७६-७६॥ उदार हृदयको धारण करनेवाली उन स्त्रियोंके जो आभूषण बालूके ऊपर गिर गये थे उन्होंने निर्माल्यकी मालाके समान फिर उन्हें उठानेकी इच्छा नहीं की थी ॥८०॥ किसी स्त्रीने चन्दनके लेपसे पानीको सफेद कर दिया था तो किसोने केशरके द्रवसे उसे सुवर्णके समान पीला बना दिया था ॥८१॥ जिनकी पानकी लालिमा धुल गई थी ऐसे स्त्रियोंके आँठ तथा जिनका काजल छूट गया था ऐसे नेत्रोंकी कोई अद्भुत ही शोभा दृष्टि गोचर हो रही थी ॥८२॥ तदनन्तर यन्त्रके द्वारा छोड़े हुए जलके बीचमे वह राजा, काम उत्पन्न करनेवाली अनेक उत्कृष्ट स्त्रियोंके साथ इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगा ॥८३॥ उस समय तटके समीपवर्ती जलमे विचरण करनेवाले पक्षी मनोहर शब्द कर रहे थे सो ऐसा जान पड़ता था मानो जलके भीतर क्रीड़ा करनेवाली स्त्रियोंने अपने आभूषणोंका शब्द उनके पास धरोहर ही रख दिया हो ॥८४॥

उधर यह सब चल रहा था इधर रावणने भी सुखपूर्वक स्नानकर धुले हुए उत्तम वस्त्र पहिने और अपने मस्तकको बड़ी सावधानीसे सफेद वस्त्रसे युक्त किया ॥८५॥ जिसे नियुक्त मनुष्य सदा बड़ी सावधानीसे साथ लिये रहते थे ऐसी स्वर्ण तथा रत्न निर्मित अर्हन्त भगवान्की प्रतिमाको रावणने नदीके उस तीर पर स्थापित कराया जो कि नदीके बीच नया निकला था, मनोहर था, सफेद तथा देदीप्यमान था, बालूके द्वारा निर्मित ऊँचे चबूतरेसे सुशोभित था, जहाँ वैदूर्यमणिकी छड़ियोंपर चन्दोवा तानकर उसपर मोतियोंकी झालर लटकाई गई थी, और जो सब प्रकारके उपकरण इकट्ठे करनेमे व्यग्र परिजनोंसे भरा था ॥८६-८८॥ प्रतिमा स्थापित कर उसने भारी सुगन्धिसे भ्रमरोंको आकर्षित करनेवाले धूप, चन्दन, पुष्प तथा मनोहर नैवेद्यके द्वारा बड़ी पूजा की और सामने बैठकर चिर काल तक स्तुतिके पवित्र अक्षरोंसे अपने मुखको सहित किया ॥८९-९०॥

अथानन्तर रावण पूजामे निमग्न था कि अचानक ही उसकी पूजा सब ओरसे फेन

१. कञ्जलरहितानाम् । २. निर्मुक्ति—क०, ख० । निर्मुक्तम० । ३. सुरहेतुभिः क०, ख० । स्तरहेतुभिः म०, व० । ४. मूल म० । ५. तरङ्गिणीजवे म० । ६. सगर्भवदन म० ।

ततो दशाननः क्षिप्रं गृहीत्वा^१ प्रतियातनाम् । क्रुद्धो जगाद् किन्वेतदिति विज्ञायतामरम् ॥६२॥
 ततोऽनुसृत्य वेगेन नरैः प्रतिनिवृत्य च । निवेदितमिदं नाथ कोऽप्यय पुरुषो महान् ॥६३॥
 मध्येललामनारीणां ललामपरमोदयः । दूरस्थेन नृलोकेन वेष्टितः खड्गधारिणा ॥६४॥
 नानाकाराणि यन्त्राणि बृहन्ति सुबहूनि च । विद्यन्ते तस्य नून तैः कृतमेतद्विचेष्टितम् ॥६५॥
 व्यवस्थामात्रक तस्य पुरुषा इति नो^२ मतिः ।^३ भवष्टम्भस्तु यस्तस्य स एवान्यस्य दुःसहः ॥६६॥
 वार्तया श्रूयते कोऽपि शक्रः स्वर्गो तथा गिरौ । अयं तु वीक्षितोऽस्माभिः शुनासीर^४ समक्षतः ॥६७॥
 श्रुत्वा संकुचितभ्रूश्च रव मुरजसभवम् । वीणावशादिभिर्युक्तं जयशब्दविमिश्रितम् ॥६८॥
 गजवाजिनराणाञ्च ध्वानमाज्ञपयन् नृपान् । त्वरितं गृह्यतामेप दुरात्मेति दशानन ॥६९॥
 दत्त्वा चाज्ञां पुनश्चक्रे पूजां रोधसि सत्तमाम् । रत्नकाञ्चननिर्माणैः पुष्पैर्जिनवराकृतौ ॥१००॥
 शोषामित्र दशास्याज्ञां कृत्वा शिरसि सभ्रमात् । अभ्यमित्र समञ्जदा^५ प्रसन्नवर्णोमगाधिपाः ॥१०१॥
 दृष्ट्वा परत्रल प्राप्त सहस्रकिरणः क्षणात् । क्षुब्धो दत्त्वाभयं स्त्रीणां निर्जंगाम जलाशयात् ॥१०२॥
 ततः कलकल श्रुत्वा विदित्वा च नरोधतः । सनह्य निर्ययुर्वीरा माहिष्मत्या^६ ससभ्रमम् ॥१०३॥
 गजवाजिसमारूढाः पादातेन समावृता । रथारूढाश्च सामन्ता विविधायुधधारिणः ॥१०४॥
 सहस्रकिरण प्राप्ता नितान्तमनुरागिणः । ऋतवः क्रमनिर्मुक्ताः सम्मेदमिव पर्वतम् ॥१०५॥
 आपतन्तीं ततो दृष्ट्वा विद्याधरवरूथिनीम् । सहस्ररश्मिसामन्तास्त्यक्त्वा जीवितलोभिताम् ॥१०६॥

तथा ववूलोसे युक्त, मलिन एवं वेगशाली जलके पूरसे नष्ट हो गई ॥६१॥ तब रावणने शीघ्र ही प्रतिमा ऊपर उठाकर कुपित हो लोगोसे कहा कि मालूम करो क्या बात है ? ॥६२॥ तदनन्तर लोगोने वेगसे जाकर और वापिस लौटकर निवेदन किया कि हे नाथ ! आभूषणोंसे परम अम्युदयको प्रकट करनेवाला कोई मनुष्य सुन्दर स्त्रियोंके बीच बैठा है । तलवारको धारण करनेवाले मनुष्य दूर खड़े रहकर उसे घेरे हुए हैं । नाना प्रकारके बड़े-बड़े यन्त्र उसके पास विद्यमान हैं । निश्चय ही यह कार्य उन सब यन्त्रोंका किया है ॥६३-६५॥ हमारा ध्यान है कि उसके पास जो पुरुष हैं वे तो व्यवस्था मात्रके लिए हैं यथार्थमें उसका जो बल है वही दूसरोंके लिए दुःखसे सहन करने योग्य है ॥६६॥ लोक-कथासे सुना जाता है कि स्वर्गमें अथवा सुमेरु पर्वतपर इन्द्र नामका कोई व्यक्ति रहता है पर हमने तो यह साक्षात् ही इन्द्र देखा है ॥६७॥ उसी समय रावणने वीणा वाँसुरी आदिसे युक्त तथा जय-जय शब्दसे निश्चित मृदङ्गका शब्द सुना । साथ ही हाथी घोड़े और मनुष्योंका शब्द भी उसने सुना । सुनते ही उसकी भौंह चढ़ गई । उसी समय उसने राजाओंको आज्ञा दी कि इस दुष्टको शीघ्र ही पकड़ा जाय ॥६८-६९॥ आज्ञा देकर रावण फिर नदीके किनारे रत्न तथा सुवर्ण निर्मित पुष्पोसे जिन-प्रतिमाकी उत्तम पूजा करने लगा ॥१००॥ विद्याधर राजाओने रावणकी आज्ञा शोषाक्षतके समान मस्तकपर धारण की और तैयार हो वे शीघ्र ही शत्रुके सम्मुख दौड़ पड़े ॥१०१॥

तदनन्तर शत्रुदलको आया देख सहस्ररश्मि क्षण भरमें लुभित हो गया और स्त्रियोंको अभय देकर शीघ्र ही जलाशयसे बाहर निकला ॥१०२॥ तत्पश्चात् कल-कल सुनकर और जन समूहसे सब समाचार जानकर माहिष्मतीके वीर शीघ्र ही तैयार हो बाहर निकल पड़े ॥१०३॥ जिस प्रकार वसन्त आदि ऋतुएँ सम्मेदाचलके पास एक साथ आ पहुँचती हैं उसी प्रकार नाना तरह के शस्त्रोंको धारण करनेवाले बहुत भारी अनुरागसे भरे सामन्त सहस्ररश्मिके पास एक साथ आ पहुँचे । वे सामन्त हाथियों घोड़ों और रथोंपर सवार थे तथा पैदल चलनेवाले सैनिकोंसे युक्त थे ॥१०४-१०५॥ परस्पर एक दूसरेकी रक्षा करनेमें तत्पर तथा उत्साहसे भरे सहस्र-

१. प्रतिमा । २. अस्माकम् । ३. बलम् । ४. शक्तः म० । ५. प्रत्यक्षम् । ६. ध्वनिमाज्ञापयन् म० ।

।वरचरय घनव्यूहमन्योऽन्यं पालनोद्यता । विनापि भर्तृवाक्येन सोत्साहा योद्ध्युत्थिताः ॥१०७॥
 बले च राक्षसेशस्य रण कर्तुं समुद्यते । विचेरुर्म्वरे वाच. सुराणामिति सत्वरः ॥१०८॥
 अहो महानयं वीरैरन्यायः कर्तुमीप्सित. । भूगोचरैः सम योद्ध्युत्थिता यन्नभश्चरा. ॥१०९॥
 अमी भूगोचरा स्वल्पा वराका ऋजुचेतसः । विद्यामायाकृतोऽत्यन्त बहवश्च नभश्चरा. ॥११०॥
 इति श्रुत्वाथ खे गच्छं पुनरुत्तं समाकुलम् । त्रपायुक्ता भुव याताः खेचराः साधुवृत्तयः ॥१११॥
 असिबौगगदाप्रासैरथ जघ्नुः परस्परम् । नुत्यप्रतिभटारब्धे रणे रावणमानवा. ॥११२॥
 रथिनो रथिभिः सार्धं तुरङ्गास्तुरगैरसौ । साकं गजैर्गजा सत्रा पादात् च पदातिभिः ॥११३॥
 न्यायेन योद्ध्युमारब्धा. क्रमान्तीतपराजयाः । शस्त्रसंपातैर्निष्पेपसमुत्थापितवह्नयः ॥११४॥
 भङ्गासन्न ततः सैन्य निज वीच्य परैर्द्रुतम् । सहस्ररश्मिरारुह्य रथमुद्धं समागत ॥११५॥
 किरीटी क्वचची चापि तेजो विभ्रदनुत्तमम् । विद्याधरयल दृष्ट्वा स न विभ्ये मनागपि ॥११६॥
 स्वामिनाधिष्ठिताः सन्तस्ततः प्रत्यागतौजसः । उद्गूर्णविस्फुरच्छत्रा विस्मृततत्तवेदनाः ॥११७॥
 प्रविष्टा रक्षसां सैन्य रणशौण्डा महीचराः । स्तम्बेरमा इन्नोद्धूतमदा गम्भीरमर्णवम् ॥११८॥
 ततः सहस्रकिरणो विभ्राण कोपमुन्नतम् । परांश्चिक्षेप वाणौघैर्घनानिव सदागतिः ॥११९॥
 प्रतीहारेण चाट्यातमिति कैलासकम्पिने । देव पश्य नरेन्द्रेण केनाप्येतेन ते बलम् ॥१२०॥

रश्मिके सामन्तोंने जब विद्याधरोकी सेना आती देखी तो वे जीवनका लोभ छोड़ भेषव्यूहकी रचनाकर स्वामीकी आज्ञाके बिना ही युद्ध करनेके लिए उठ खड़े हुए ॥१०६-१०७॥ इधर जब रावणकी सेना युद्ध करनेके लिए उद्यत हुई तब आकाशमे सहसा देवताओंके निम्नाङ्कित वचन विचरण करने लगे ॥१०८॥ देवताओंने कहा कि अहो ! वीर लोग यह बड़ा अन्याय करना चाहते है कि भूमिगोचरियोके साथ विद्याधर युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए हैं ॥१०९॥ ये बेचारे भूमिगोचरी थोड़े तथा सरल चित्त हैं और विद्याधर इनके विपरीत विद्या तथा मायाको करनेवाले एवं संख्याने बहुत हैं ॥११०॥ इस प्रकार आकाशमे बार-बार कहे हुए इस आकुलता पूर्ण शब्दको सुनकर अच्छी प्रवृत्तिवाले विद्याधर लज्जासे युक्त होते हुए पृथिवीपर आ गये ॥१११॥ तदनन्तर समान योद्धाओंके द्वारा प्रारम्भ किये हुए युद्धमे रावणके पुरुष परस्पर तलवार, बाण, गदा और भाले आदिसे प्रहार करने लगे ॥११२॥ रथोंके सवार रथोंके सवारोंके साथ, घुड़-सवार घुड़सवारोंके साथ, हाथियोंके सवार हाथियोंके सवारोंके साथ, और पैदल सैनिक पैदल सैनिकोंके साथ युद्ध करने लगे ॥११३॥ जिन्हे क्रम-क्रमसे पराजय प्राप्त हो रहा था और जिनके शस्त्र समूहकी टक्करसे अग्नि उत्पन्न हो रही थी ऐसे योद्धाओंने न्यायपूर्वक युद्ध करना शुरू किया ॥११४॥ जब सहस्ररश्मिने अपनी सेनाको शीघ्र ही नष्ट होनेके निकट देखा तब उत्तम रथपर सवार हो तत्काल आ पहुँचा ॥११५॥ उत्तम किरीट और क्वचको धारण करनेवाला सहस्ररश्मि उत्कृष्ट तेजको धारण करता था इसलिए विद्याधरोकी सेना देख वह जरा भी भयभीत नहीं हुआ ॥११६॥ तदनन्तर स्वामीसे सहित होनेके कारण जिनका तेज पुनः वापिस आ गया था, जिनके ऊपर खुले हुए छत्र लग रहे थे और जिन्होंने वाचोंका कष्ट भुला दिया था ऐसे रणनिपुण भूमिगोचरी राक्षसोंकी सेनामें इस प्रकार घुस गये जिस प्रकार कि मदोन्मत्त हाथी गहरे समुद्रमे घुस जाते हैं ॥११७-११८॥ जिस प्रकार वायु मेघोंको उड़ा देता है उसी प्रकार अत्यधिक क्रोधको धारण करनेवाला सहस्ररश्मि वाणोंके समूहसे शत्रुओंको उड़ाने लगा ॥११९॥ यह देख द्वारपालने रावणसे निवेदन किया कि हे देव ! देखो

धानुषेण रथस्थेन पश्यता तृणवज्रगत । योजन यावदध्वान शरीरैरपसारितम् ॥१२१॥
 ततोऽभिमुखमायात तमालोक्य यमार्हणः । आरुह्य त्रिजगद्भूपनामानं मत्तवारणम् ॥१२२॥
 परैरालोकितो भीतैर्विमुक्तशरसहतिः । सहस्रकिरण चक्रे विरथ दुःसहद्युतिः ॥१२३॥
 ततः सहस्रकिरण समारुह्य द्विपोत्तमम् । अभीषाय पुन क्रुद्धस्तरसा राक्षसाधिपम् ॥१२४॥
 सहस्ररश्मिना मुक्ता बाणा निर्भिद्य कङ्कटम् । अङ्गानि दशवक्त्रस्य विभिदुर्निशिताननाः ॥१२५॥
 रत्नश्रवःसुतेनास्तान्वाणानाकृष्य देहतः । सहस्रकिरणो हास कृवेत्यवददुञ्जतम् ॥१२६॥
 अहो रावण धानुष्को महानसि कुतस्तव । उपदेशोऽयमायातो गुरोः परमकौशलात् ॥१२७॥
 वत्स तावदनुर्वेदमधीष्व कुरु च श्रमम् । ततो मया सम युद्ध करिष्यसि नयोज्जितः ॥१२८॥
 ततः परुषवाक्येन प्राप्तः सरम्ममुत्तमम् । विभेद यत्तमद्वस्त कुन्तेनालिकपट्टके ॥१२९॥
 गलद्गुधिरधारोऽसौ घूर्णमाननिरीक्षणः । मोह गत्वा समाश्वस्तो यावद् गृह्णाति सायकम् ॥१३०॥
 तावदुत्पत्यवेगेन तमष्टापदकम्पन^१ । अनुज्जितर्महाधैर्यं जीवग्राह गृहीतवान् ॥१३१॥
 नीतः स्वनिलय वदध्वा खगैर्दृष्टः सविस्मयै । यदि नामोत्पतेत् सोऽपि केन गृह्येत जन्तुना ॥१३२॥
 सहस्ररश्मिवृत्तान्तादिव नीतिमुपागतः । सहस्ररश्मिरैदस्त सन्ध्याप्राकारवेष्टितः ॥१३३॥
 दशवक्त्रविमुक्तेन कोपेनेव च भूरिणा । तमसा पिहितो लोकः सदसत्समताकृता ॥१३४॥

जगत्को तृणके समान तुच्छ देखनेवाले, रथपर बैठे धनुषधारी इस किसी राजाने बाणोंके समूह से तुम्हारी सेनाको एक योजन पीछे खदेड़ दिया है ॥१२०-१२१॥ तदनन्तर सहस्ररश्मिको सम्मुख आता देख दशानन त्रिलोकमण्डन नामक हाथीपर सवार हो चला । शत्रु जिसे मयभीत होकर देख रहे थे तथा जिसका तेज अत्यन्त दुःसह था ऐसे रावणने बाणोंका समूह छोड़कर सहस्ररश्मिको रथग्रहित कर दिया ॥१२२-१२३॥ तव सहस्ररश्मि उत्तम हाथीपर सवार हो क्रुद्ध होता हुआ वेगसे पुनः रावणके सम्मुख आया ॥१२४॥ इधर सहस्ररश्मिके द्वारा छोड़े हुए पैने बाण कवचको भेदकर रावणके अङ्गोंको विदीर्ण करने लगे ॥१२५॥ उधर रावणने सहस्ररश्मिके प्रति जो बाण छोड़े थे उन्हें वह शरीरसे खींचकर हँसता हुआ जोरसे बोला ॥१२६॥ कि अहो रावण ! तुम तो बड़े धनुर्धारी मालूम होते हो । यह उपदेश तुम्हें किस कुशल गुरुसे प्राप्त हुआ है ? ॥१२७॥ अरे छोकोड़े ! पहले धनुर्वेद पढ़ और अभ्यास कर, फिर मेरे साथ युद्ध करना । तू नीतिसे रहित जान पड़ता है ॥१२८॥ तदनन्तर उक्त कठोर वचनोसे बहुत भारी क्रोधको प्राप्त हुए रावणने एक भाला सहस्ररश्मिके ललाटपर मारा ॥१२९॥ जिमसे रुधिरकी धारा बहने लगी तथा आँखें घूमने लगीं । मूर्छित हो पुनः सावधान होकर जब तक वह बाण ग्रहण करता है तब तक रावणने वेगसे उछलकर उस धैर्यशालीको जीवित ही पकड़ लिया ॥१३०-१३१॥ रावण उसे बाँधकर अपने डेरेपर ले गया । विद्याधर उसे बड़े आश्चर्यसे देख रहे थे । वे सोच रहे थे कि यदि यह किसी तरह उछलकर छूटता है तो फिर इसे कौन पकड़ सकेगा ? ॥१३२॥

तदनन्तर संध्यारूपी प्राकारसे वेष्टित होता हुआ सूर्य अस्त हो गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो सहस्ररश्मिके इस वृत्तान्तसे उसने कुछ नीतिको प्राप्त किया था अर्थात् शिक्षा ग्रहण की थी ॥१३३॥ अच्छे और बुरेको समान करनेवाले अन्धकारसे लोक आच्छादित हो गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो रावणके द्वारा छोड़े हुए बहुत भारी क्रोधसे ही आच्छादित हुआ

१. रावणः । २. त्रिलोकमण्डननामधेयम् । ३. श्रुतिः ख० । ४. नयोऽभक्तः म० । ५. भालतटे । ६. समास्त्रस्थो म० । ७. कैलासकम्पनो रावणः । ८. महो धैर्यं म०, व०, क० । ९. सूर्यः, सहस्ररश्मिः + ऐत् + अस्तम् । ऐत् = अगच्छत् ।

ततो रणादिव प्राप्तमत्यन्तविमलं यशः । शशाङ्कविम्बमुद्यत्तं तमोहरणपण्डितम् ॥१३५॥
 व्रणमङ्गविधानेन भटानां वीर्यवर्णनैः । गवेयणैश्च भिन्नानां निद्रया चाक्षतान्मनाम् ॥१३६॥
 गता राजसत्सैन्यस्य रजनी सा ययाययम् । विबुद्धश्च दगत्रोवः प्रभातहतवृत्तम् ॥१३७॥
 ततो वार्तामिव ज्ञानुं दृगवन्नस्य भास्करः । विभ्राणः परमं राग कम्पमानः समागतः ॥१३८॥
 शतवाहुरथ श्रुत्वा सुतं वद्धं निरम्बरः । जह्वाचारणलब्धीशो महाबाहुर्महातपा ॥१३९॥
 रजनीपतिवक्रान्तो वीरस्तिग्ममरीचिवत् । नेत्रवत् स्वैर्यसम्पन्नो धीरो रत्नालयो यथा ॥१४०॥
 कृतप्रत्यङ्गकर्माणं सभामध्यसुखत्यितम् । प्रशान्तमानसः प्राप रावणं लोकवत्सलम् ॥१४१॥
 दूरादेव ततो दृष्ट्वा मुनिं कैलासकम्पनम् । अभ्युत्सर्थां प्रणामं च चक्रे भूमिस्थमस्तकम् ॥१४२॥
 वरासनोपविष्टे च यतौ भूमावुपाविशत् । करद्वय मनासाद्य विनयानतविग्रहः ॥१४३॥
 जगाद चेति भगवन् कृतकृत्यस्य विद्यते । न तवागमने हेतुर्विहाय मम पावनम् ॥१४४॥
 ततः प्रशंसनं कृत्वा कुलवीर्यविभूतिभिः । चरन्निवामृतं वाचा जगादेति दिगम्बरः ॥१४५॥
 आयुमन्निदमस्त्येव शुभसङ्कल्पतस्तव । नान्तरायकमेतत्तु वदामि यदिदं शृणु ॥१४६॥
 पराभिव्रजमात्रेण क्षत्रियाणां कृतार्थता । यतः सहस्रकिरणं ततो सुखममाङ्गजम् ॥१४७॥
 संप्रथार्यं तत सार्धमिद्वितैरेषं मन्त्रिभिः । उवाच वैकसीपुत्रः प्रणतो मुनिपुङ्गवम् ॥१४८॥

हो ॥१३६॥ तदनन्तर अन्यकारके हरनेमे निपुण चन्द्रमाका विम्ब उदित हुआ सो ऐसा जान पड़ता था मानो युद्धसे उत्पन्न हुआ रावणका अत्यन्त निर्मल यश ही हो ॥१३५॥ उस समय कोई तो घायल सैनिकोंके घावोंपर मरहमपट्टी लगा रहे थे, कोई योद्धाओंके पराक्रमका वर्णन कर रहे थे, कोई गुमे हुए सैनिकोंकी तलाश कर रहे थे और कोई, जिन्हें वाव नहीं लगे थे सो रहे थे। इस प्रकार यथायोग्य कार्योंसे रावणकी सेनाकी रात्रि व्यतीत हुई। प्रभात हुआ तो प्रभात सम्बन्धी तुरहीके शब्दसे रावण जागृत हुआ ॥१३६-१३७॥ तदनन्तर परम रागको धारण करता हुआ मूर्ख क्रोपता-क्रोपता उदित हुआ सो ऐसा जान पड़ता था मानो रावणका समाचार जाननेके लिए उदित हुआ हो ॥१३८॥

अथानन्तर सहस्ररश्मिके पिता शतवाहु, जो दिगम्बर थे, जिन्हें जह्वाचारण ऋद्धि प्राप्त थी जो महाबाहु, महातपस्वी, चन्द्रमाके समान सुन्दर, सूर्यके समान तेजस्वी, मेरुके समान स्थिर और समुद्रके समान गम्भीर थे, पुत्रको वैया सुनकर रावणके समीप आये। उस समय रावण अपने शरीरसम्बन्धी कार्योंसे निपटकर सभाके बीचमें सुखसे बैठे था और मुनिराज शतवाहु प्रशान्तचित्त एवं लोगोसे स्नेह करनेवाले थे ॥१३९-१४०॥ रावण, मुनिराजको दूरसे ही देखकर खड़ा हो गया उसने सामने जाकर तथा पृथ्वीपर मस्तक टेककर नमस्कार किया ॥१४१॥ जब मुनिराज उत्कृष्ट प्रासुक आसनपर विराजमान हो गये तब रावण पृथ्वीपर दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया। उस समय उसका सारा शरीर विनयसे नम्रीभूत था ॥१४२॥ रावणने कहा कि हे भगवन् ! आप कृतकृत्य हैं अतः मुझे पवित्र करनेके सिवाय आपके यहाँ आनेमें दूसरा कारण नहीं है ॥१४३॥ तब कुल, वीर्य और विभूतिके द्वारा रावणकी प्रशंसा कर वचनोसे अमृत झराते हुए की तरह मुनिराज कहने लगे कि ॥१४४॥ हे आयुष्मन् ! तुम्हारे शुभ संकल्पसे यही बात है फिर भी मैं एक बात कहता हूँ सो सुन ॥१४५॥ यतश्च शत्रुओंका पराभव करने मात्रसे क्षत्रियोंके कृतकृत्यपना हो जाता है अतः तुम मेरे पुत्र सहस्ररश्मिको छोड़ दो ॥१४६॥ तदनन्तर रावणने मन्त्रियोंके साथ इशारोंसे सलाहकर नम्र हो मुनिराजसे कहा कि हे नाथ ! मेरा निम्नप्रकार-निवेदन है। मैं इस समय राजलक्ष्मीसे उन्मत्त एवं हमारे पूर्वजोंका

विज्ञापयामि नाथाहं प्रस्थितः खेचराधिपम् । वर्गीकृतं श्रिया मत्तं कृतास्मत्पूर्वजागसम् ॥१४६॥
 तत्र याते हि रेवायां रम्यायां जिनपूजनम् । मया तदस्थचक्रेण कृतं विमलमैकते ॥१५०॥
 सैहोपकरणैश्चासौ नीता पूजा सुरहसा । सहसा पयसा यन्त्ररचितेनास्य भोगिनः ॥१५१॥
 ततो मया जिनेन्द्राचार्यस्त्वोद्भूतमहारुपा । कृत कर्मैवमर्थेन न विना द्वेषिमानवान् ॥१५२॥
 न चानेनोदितं मह्यं संप्राप्तय प्रमादिना । यथा ज्ञात मया नेदं क्षम्यतामिति मानिना ॥१५३॥
 भूचरान्मानुषान्पञ्जेतु यो न शक्तः स खेचरान् । कथं ज्ञेयामि विद्यामि, कृतनानाविचेष्टितान् ॥१५४॥
 वर्गीकरोम्यतस्तावद्भूचरान्मानगालिन । ततो विद्याधराधीन सोपानक्रमयोगतः ॥१५५॥
 ततो वर्गीकृतस्यास्य मुक्तिर्न्याय्यं च किं पुनः । भवत्स्वाज्ञां प्रयच्छत्सु पुण्यवद्दृश्यमूर्तिषु ॥१५६॥
 अथेन्द्रजित्वाचेद साधु द्वेन भाषितम् । को वा नयविदं नार्थं मुक्त्वा जानाति भाषितुम् ॥१५७॥
 ततो दशमुखादिशो मारीचोऽधिकृतैर्नरैः । आनाययत्सहस्राशु नगनसायकपाणिभिः ॥१५८॥
 तातस्य चरणौ नत्वा भूमौ चामावुपाविणत् । सम्मान्य च दशास्येन विरोपेणेति भाषितः ॥१५९॥
 अथ प्रभृति मे भ्राता तुरीयस्त्वं महाबल । ज्ञेयामि भवता साकं कृताखण्डलविभ्रमम् ॥१६०॥
 स्वयंप्रभा च ते दास्ये मन्दोदर्या, कर्नायमीम् । कृत यद्भवता तच्च प्रमाण मे वराकृते ॥१६१॥
 महस्त्ररश्मिरूपे च धिद् मे राज्यमशाश्वतम् । आपातमात्ररम्यांश्च विपयान् दुःखभूयसः ॥१६२॥

अपराध करनेवाले विद्याधराधिपति इन्द्रको वश करनेके लिए प्रयाण कर रहा हूँ ॥१४८-१४९॥
 सो इस प्रयाणकालमें मनोहर रेवा नदीके किनारे चक्ररत्न रखकर मैं बालूके निर्मल चवूतरेपर
 जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करनेके लिए बैठा था सो इस भोगी—विलासी सहस्ररश्मिके यन्त्ररचित
 वेगशाली जलसे उपकरणोंके साथ-साथ मेरी वह सब पूजा अचानक वह गई ॥१५०-१५१॥
 जिनेन्द्र भगवान्की पूजाके नष्ट हो जानेसे मुझे बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ सो इस क्रोधके कारण
 ही मैंने यह कार्य किया है । प्रयोजनके बिना मैं किसी मनुष्यसे द्वेष नहीं करता ॥१५२॥ जब
 मैं पहुँचा तब इस मानी एवं प्रमादीने यह भी नहीं कहा कि मुझे ज्ञान नहीं था अतः क्षमा
 कीजिए ॥१५३॥ जो भूमिगोचरी मनुष्योंको जीतनेके लिए समर्थ नहीं है वह विद्याओंके द्वारा
 नाना प्रकारकी चेष्टाएँ करनेवाले विद्याधरोंको कैसे जीत सकेगा ? ॥१५४॥ यही सोचकर मैं
 पहले अहंकारी भूमिगोचरियोंको वश कर रहा हूँ । उसके बाद श्रेणीके क्रमसे विद्याधराधिपति
 इन्द्रको वश करूँगा ॥१५५॥ इसे मैं वश कर चुका हूँ अतः इसको छोड़ना न्यायोचित ही है फिर
 जिनके दर्शन केवल पुण्यवान् मनुष्योंको ही हो सकते हैं ऐसे आप आज्ञा प्रदान कर रहे हैं अतः
 कहना ही क्या है ? ॥१५६॥ तदनन्तर रावणके पुत्र इन्द्रजित्ने कहा कि आपने विलकुल ठीक
 कहा है सो उचित ही है क्योंकि आप जैसे नीतिज्ञ राजाको छोड़कर दूसरा ऐसा कौन कह
 सकता है ? ॥१५७॥

तदनन्तर रावणका आदेश पाकर मारीच नामा मन्त्रीने हाथमें नंगी तलवार लिये हुए
 अधिकारी मनुष्योंके द्वारा सहस्ररश्मिको सभामें बुलवाया ॥१५८॥ सहस्ररश्मि पिताके चरणोंमें
 नमस्कारकर भूमिपर बैठ गया । रावणने क्रोध रहित होकर बड़े सन्मानके साथ उससे कहा ॥१५९॥
 कि आजसे तुम मेरे चौथे भाई हो । चूँकि तुम महाबलवान् हो अतः तुम्हारे साथ मैं इन्द्रकी
 विद्वम्बना करनेवाले राजा इन्द्रको जीतूँगा ॥१६०॥ मैं तुम्हारे लिए मन्दोदरीकी छोटी वहिन
 स्वयंप्रभा दूँगा । हे सुन्दर आकृतिके धारक ! तुमने जो किया है वह मुझे प्रमाण है ॥१६१॥
 सहस्ररश्मि बोला कि मेरे इस क्षणमङ्गुर राज्यको धिक्कार है । जो प्रारम्भमें रमणीय दिखते

१. जाने ख०, क० । २. महोपकरणै- म०, व० । ३. अपहृता । ४. कथितम् । ५. भवत्सु + आज्ञा ।
 ६. आपातरम्याश्च विपयान्श्चाद्दुःखभूयसः क०, ख० ।

स्वर्गं धिक्च्युतियोगेन धिग्देहं दुःखभाजनम् । धिद् मां वञ्चितमत्यन्तं चिरकालं क्लृप्तमभिः ॥१६३॥
 तत्करोमि पुनर्येन न पतामि भवार्णवे । गतिष्वत्यन्तदुःखासु निर्विण्णः पर्यटन्नहम् ॥१६४॥
 उवाचेति दशास्यश्च ननु प्रवयसां नृणाम् । प्रव्रज्या शोभते भद्र त्वं च प्रत्यग्रयौवन । ॥१६५॥
 सहस्रांशुस्वाचेति नैव मृत्युर्विवेकवान् । शरद्धन इवाकस्माद्देहो नाश प्रपद्यते ॥१६६॥
 यदि नाम भवेत् सारः कश्चिद्भोगेषु रावण । तातेनैव न मे त्यक्तास्ते स्युरुत्तमबुद्धिना ॥१६७॥
 इत्युक्त्वा तनये न्यस्य राज्यं परमनिश्चयः । क्षमितो दशवक्त्रेण प्राव्रजत्पितुरन्तिके ॥१६८॥
 तेन चाभिहितः पूर्वमयोध्यायाः पतिः सुहृत् । अनरण्योऽनगारत्वं प्रपत्स्येऽह यदा तदा ॥१६९॥
 तुभ्यं वेदयितास्मीति तथाय तेन भाषितः । ज्ञापनार्थमतोऽनेन तस्मै सप्रेषिता नराः ॥१७०॥
 ततोऽसौ कथिते पुम्भिः श्रुत्वा वाष्पाकुलेक्षणः । विललाप चिरं स्मृत्वा गुणांस्तस्य महात्मनः ॥१७१॥
 विषादे च गते मान्द्यमित्युवाच महाबुधः । बन्धुस्तस्य समायातो रिपुवेषेण रावणः ॥१७२॥
 ऐश्वर्यपञ्जरान्तस्थो विषयैर्मोहितश्चिरम् । येनात्यन्तानुकूलेन नरपत्नी विमोचितः ॥१७३॥
 माहिष्मतीपतिर्धन्यः साम्प्रतं यो भवार्णवम् । तितीर्षति यमध्वंसबोधपोतसमाश्रितः ॥१७४॥
 कृतार्थः साम्प्रतं जातो यदन्तेऽत्यन्तदुःखदम् । पाप राज्याख्यमुज्जित्वा व्रत जैनेश्वरं श्रितः ॥१७५॥

हैं और अन्तमे जो दुःखोंसे बहुल होते हैं उन विषयोको धिक्कार है ॥१६२॥ उस स्वर्गके लिए धिक्कार है जिससे कि च्युति अवश्यम्भावी है । दुःखके पात्र स्वरूप इस शरीरको धिक्कार है और जो चिरकाल तक दुष्ट कर्मोंसे ठगा गया ऐसे मुझे भी धिक्कार है ॥१६३॥ अब तो मैं वह काम करूँगा जिससे कि फिर संसारमे नहीं पड़ूँ । अत्यन्त दुःखदायी गतियोंमें घूमता-घूमता मैं बहुत खिन्न हो चुका हूँ ॥१६४॥ इसके उत्तरमे रावणने कहा कि हे भद्र ! दीक्षा तो वृद्ध मनुष्योंके लिए शोभा देती है अभी तो तुम नव यौवनसे सम्पन्न हो ॥१६५॥ सहस्ररश्मिने रावणकी बात काटते हुए बीचमे ही कहा कि मृत्युको ऐसा विवेक थोड़ा ही है कि वह वृद्ध जनको ही ग्रहण करे यौवन वालेको नहीं । अरे ! यह शरीर शरद्भ्रतुके बादलके समान अकस्मात् ही नष्ट हो जाता है ॥१६६॥ हे रावण ! यदि भोगोंमे कुछ सार होता तो उत्तम बुद्धिके धारक पिताजीने ही उनका त्याग नहीं किया होता ॥१६७॥ ऐसा कहकर उसने दृढ़ निश्चयके साथ पुत्रके लिए राज्य सौंपा और दशाननसे क्षमा याचनाकर पिता शतबाहुके समीप दीक्षा धारण कर ली ॥१६८॥ सहस्ररश्मिने अपने मित्र अयोध्याके राजा अनरण्यसे पहले कह रक्खा था कि जब मैं दिगम्बर दीक्षा धारण करूँगा तब तुम्हारे लिए खबर दूँगा और अनरण्यने भी सहस्ररश्मिसे ऐसा ही कह रक्खा था सो इस कथनके अनुसार सहस्ररश्मिने खबर देनेके लिए अनरण्यके पास आदमी भेजे ॥१७०॥ गये हुए पुरुषोंने जब अनरण्यसे सहस्ररश्मिके वैराग्यकी वार्ता कही तो उसे सुनकर उसके नेत्र आँसुओं से भर गये । उस महापुरुषके गुणोंका स्मरणकर वह चिर काल तक विलाप करता रहा ॥१७१॥ जब विषाद कम हुआ तो महाबुद्धिमान् अनरण्यने कहा कि उसके पास रावण क्या आया मानो शत्रुके वेषमे भाई ही उसके पास आया ॥१७२॥ वह रावण कि जिसने अत्यन्त अनुकूल होकर विषयोसे मोहित हो चिरकाल तक ऐश्वर्य रूपी पिजड़ेके अन्दर स्थित रहनेवाले इस मनुष्य रूपी पत्नीको मुक्त किया है ॥१७३॥ माहिष्मतीके राजा सहस्ररश्मिको धन्य है जो रावणके सम्यग्ज्ञान रूपी जहाजका आश्रय ले संसार रूपी सागरको तैरना चाहता है ॥१७४॥ जो अन्तमे अत्यन्त दुःख देनेवाले राज्य नामक पापको छोड़कर जिनेन्द्र प्रणीत व्रतको प्राप्त हुआ है अब

१. सुवियोगेन व० । द्युतियोगेन म० । २. प्रव्रज्या म० । ३. ततो नैव न मे म० । तातेनैव हि मे ख०, क० । ४. यमध्वस क०, ख० । यमध्वसेन रावणेन निमित्तेन बोधपोत सम्यग्ज्ञानतरणिं समाश्रितः प्राप्तः इत्यर्थः ।

अभिनन्द्येति सविग्नः क्षिप्त्वा लक्ष्मीं शरीरजे^१ । सुतेन ज्यायसा साकमनरण्योऽभवन्मुनिः ॥१७६॥

रथोद्धतावृत्तम्

येन केनचिदुदात्तकर्मणा कारणेन रिपुणेत्तरेण वा ।
निर्मितेन समवाप्यते मतिः श्रेयसी न तु^२ निकृष्टकर्मणा ॥१७७॥
यः प्रयोजयति मानस शुभे यस्य तस्य परमं स बान्धव ।
भोगवस्तुनि तु यस्य मानस य करोति परमारिरस्य स^३ ॥१७८॥
भावयन्निति सहस्रद्वीधितिं योऽनरण्यनृपतिं शृणोति च ।
^४सयुतं श्रमगशीलसपदा स ब्रजत्यमलतां यथा रविः ॥१७९॥

इत्यार्षे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते दशग्रीवप्रस्थाने सहस्ररश्म्यनरण्य-श्रमण्याभिधानं
नाम दशमं पर्व ॥१०॥



उसकी कृत-कृत्यताका क्या पूछता ॥१७५॥ इस प्रकार सहस्ररश्मिकी प्रशंसाकर अनरण्य भी संसारसे भयभीत हो पुत्रके लिए राज्यलक्ष्मी सौंप बड़े पुत्रके साथ मुनि हो गया ॥१७६॥

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! जब उत्कृष्ट कर्मका निमित्त मिलता है तब शत्रु अथवा मित्र किसीके भी द्वारा इस जीवको कल्याणकारी बुद्धि प्राप्त हो जाती है पर जब तक निकृष्ट कर्मका उदय रहता है तब तक प्राप्त नहीं होती ॥१७७॥ जो जिसके मनको अच्छे कार्यमें लगा देता है यथार्थ में वही उसका बान्धव है और जो जिसके मनको भोगोप-भोगकी वस्तुओंमें लगाता है वही उसका वास्तविक शत्रु है ॥१७८॥ इस प्रकार सहस्ररश्मिका ध्यान करता हुआ जो मनुष्य मुनियोंके समान शीलरूपी सम्पदासे युक्त राजा अनरण्यका चरित्र सुनता है वह सूर्यके समान निर्मलताको प्राप्त होता है ॥१७९॥

इस प्रकार आर्पणामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्यके द्वारा कथित पद्मचरितमें दशाननके प्रयाणके समय राजा सहस्ररश्मि और अनरण्यकी दीक्षाका वर्णन करनेवाला दशम पर्व पूर्ण हुआ ॥१०॥



एकादशं पर्व

अथ कैलाससहोभो यान् यान् मानवतो नृपान् । शृणोति धरणीधातांस्तांस्तान्सर्वाननीनमत् ॥१॥
वशीकृतैश्च सन्मान प्रापितैर्वेष्टितो नृपैः । पश्यन् स्फीतपुरामुर्वी सुभूमश्चक्रभृद्यथा ॥२॥
नानादेशसमुत्पन्नैर्नानाकारैर्नैर्वृतः । नानाभूपाधरैर्नानाभापैर्विविधवाहनैः ॥३॥
कारयन् जीर्णचैत्यानां सस्कारान् परमां तथा । पूजां देवाधिदेवानां जिनेन्द्राणां सुभाविताम् ॥४॥
ध्वसयन् जिनविद्वेषकारिणः खलमानवान् । दुर्विधान् करुणायुक्तो धनेन परिपूरयन् ॥५॥
सम्यग्दर्शनसशुद्धान् वत्सलः पूजयन्नान् । प्रणमन् श्रमणान् भक्त्या रूपमात्रश्रितानपि ॥६॥
उदीची प्रस्थितः काष्ठा प्रताप दुस्सहं किरन् । यथोत्तरायणे भानुः पुण्यकर्मानुभावतः ॥७॥
बलवांश्च श्रुतस्तेन राजा राजपुराधिपः । अभिमान परं विभ्रत्परप्रणतिवर्जितः ॥८॥
जन्मप्रभृति दुश्चेतां लौकिकोन्मार्गमोहितः । प्रविष्टः प्राणिविध्वंसं यज्ञदीक्षाख्यपातकम् ॥९॥
अथ यज्ञध्वनिं श्रुत्वा श्रेणिको गणपालिनम् । इत्यपृच्छद् विभो तावदास्ता रावणकीर्तनम् ॥१०॥
उत्पत्तिं भगवन्नस्य यज्ञस्येच्छामि वेदितुम् । प्रवृत्तो दारुणो यस्मिन् जनो जन्तुविनाशने ॥११॥
उवाच च गणाधीशः शृणु श्रेणिक शोभनम् । भवता पृष्टमेतेन बहवो मोहिता जनाः ॥१२॥

अथानन्तर रावणने पृथ्वीपर जिन-जिन राजाओको मानी सुना उन सबको नम्रीभूत किया ॥१॥ जिन राजाओको इसने वश किया था उनका सम्मान भी किया और ऐसे उन समस्त राजाओसे वेष्टित होकर उसने बड़े-बड़े ग्रामोंसे सहित पृथ्वीको देखते हुए सुभूमचक्रवर्तीके समान भ्रमण किया ॥२॥ इसके साथ नाना देशोंमें उत्पन्न हुए नाना आकारके मनुष्य थे । वे मनुष्य नाना प्रकारके आभूषण पहने हुए थे, नाना प्रकारकी उनकी चेष्टाएँ थीं और नाना प्रकारके वाहनोपर वे आरूढ़ थे ॥३॥ वह जीर्ण मन्दिरोंका जीर्णोद्धार कराता जाता था और देवाधिदेव जिनेन्द्रदेवकी बड़े भावसे पूजा करता था ॥४॥ जैनधर्मके साथ द्वेष रखनेवाले दुष्ट मनुष्योंको नष्ट करता था और दरिद्र मनुष्योंको दयासे युक्त हो धनसे परिपूर्ण करता था ॥५॥ सम्यग्दर्शनसे शुद्ध जनोकी बड़े स्नेहसे पूजा करता था और जो मात्र जैनमुद्राको धारण करनेवाले थे ऐसे मुनियोंको भी भक्तिपूर्वक प्रणाम करता था ॥६॥ जिस प्रकार उत्तरायणके समय सूर्य दुःसह प्रताप बिखेरता हुआ उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान करता है उसी प्रकार रावणने भी पुण्य कर्मके उदयसे दुःसह प्रताप बिखेरते हुए उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान किया ॥७॥

अथानन्तर रावणने सुना कि राजपुरका राजा बहुत बलवान् है । वह बहुत भारी अहंकारको धारण करता हुआ कभी किसीको प्रणाम नहीं करता है ॥८॥ जन्मसे ही लेकर दुष्ट चित्त है, लौकिक मिथ्या मार्गसे मोहित है, और प्राणियोंका विध्वंस करानेवाले यज्ञ दीक्षा नामक महापापको प्राप्त है अर्थात् यज्ञक्रियामें प्रवृत्त है ॥९॥ तदनन्तर यज्ञका कथन सुन राजा श्रेणिकने गौतम गणधरसे पूछा कि हे विभो ! अभी रावणकी कथा रहने दीजिए । पहले मैं इस यज्ञकी उत्पत्ति जानना चाहता हूँ कि जीवोंका विघात करनेवाले जिस यज्ञमें दुष्टजन प्रवृत्त हुए हैं ॥१०-११॥ तब गणधर बोले कि हे श्रेणिक ! सुन, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है इस यज्ञके द्वारा बहुतसे जन मोहित हो रहे हैं ॥१२॥

१. चक्रवद्यथा म० । २. शीर्ण क०, ख०, म० । ३. सभावितः क०, ख० । सुभाविताम् म० । ४. दरिद्रान् । ५. जन्मनः प्रभृति म० । ६. दुश्चेतो-क०, ख० । ७. जना म० ।

विनीतायां महानासीदिश्वकुलभूषण । ययातिर्नाम राजास्य सुरकान्तेति भामिनी ॥१३॥
 वसुर्नामाभवत्तस्य गुरोर्योग्य स चापित । नाम्नां क्षीरकदम्बस्य यस्य स्वस्तिमती प्रिया ॥१४॥
 अन्यदारण्यकं शास्त्रं सर्वशास्त्रविशारदं । अध्यापयत्यसी शिष्यान्वारदादीन् वनान्तरे ॥१५॥
 अथ चारणसाधूना प्रस्थिताना विहायसा । पुत्रेण यतिना प्रोक्तमेवं कारुण्यकारिणा ॥१६॥
 चतुर्णां प्राणिनामेपामेको नरकभागिति । श्रुत्वा क्षीरकदम्बस्तद्वचो भोतोऽभवद् मृगम् ॥१७॥
 ततोऽन्तेवासिनस्तेन प्रेषिता स्वस्वमालयम् । यद्युम्नुष्टा यथा वत्सा मुक्ता दामकदम्बनात् ॥१८॥
 स्वस्तिमत्यथ पप्रच्छ पुत्र पर्वतसन्नकम् । च तवासौ पिता पुत्र येनैकाको त्वमागत ॥१९॥
 पश्चादेतीति तेनोक्तमिति तस्यै जगाद स । तदागम च कादृशत्यास्तस्या यातमह चयम् ॥२०॥
 नायात स दिनान्तेऽपि यदा तिमिरगह्वरे । तदा शोकभराक्रान्ता पतितासौ महीतले ॥२१॥
 चक्रवाकीव दुःखार्ता विलापं चाकरोदिति । हा हता मन्दभाग्यास्मि प्राणाना स्वामिनोऽज्जिता ॥२२॥
 पापेन केनचिन्मृत्युं किमसौ प्रापितो भवेत् । किं वा देशान्तरं यात कान्त केनापि हेतुना ॥२३॥
 सर्वशास्त्रार्थकुशलः किं वा वैराग्यमाश्रित । सर्वमहान् परिन्थय्य प्रव्रज्यां समशिश्रियत् ॥२४॥
 विलापमिति कुर्वन्त्यास्तस्याः सा रजनी गता । अन्वेष्टु पितरं चादावह पर्वतको गत ॥२५॥
 दृष्ट्वा सरित्तयोद्याने दिनैः कैश्चिद् गुहं मुनिम् । गुरो मद्दसमेतस्य ममीपे विनयस्थितम् ॥२६॥
 आरादेव निवृत्त्यास्थन्मातर च पिता मम । विप्रलब्धोऽभवन्नग्न श्रमणैस्तत्परायणैः ॥२७॥

अयोध्यानगरीमे इक्ष्वाकुकुलका आभूषण स्वरूप एक ययाति नामका राजा था और सुरकान्ता नामकी उसकी रानी थी ॥१३॥ उन दोनोंके वसु नामका पुत्र हुआ । जब वह पढ़नेके योग्य हुआ तब क्षीरकदम्बक नामक गुरुके लिए सौंपा गया । क्षीरकदम्बकी स्त्रीका नाम स्वस्तिमती था ॥१४॥ किसी एक दिन सर्वशास्त्रोंमें निपुण क्षीरकदम्बक, वनके मध्यमें नारद आदि शिष्योंको आरण्यकशास्त्र पढ़ा रहा था ॥१५॥ वहीं आकाशमार्गसे विहार करनेवाले चारण मुनियोंका संघ विराजमान था । उनमेंसे एक दयालु मुनिने इस प्रकार कहा कि इन चार प्राणियोंमें से एक नरकको प्राप्त होगा । मुनिके वचन सुन क्षीरकदम्बक अत्यन्त भयभीत हो गया ॥१६-१७॥ तदनन्तर उसने नारद पर्वत और वसु इन तीनों शिष्योंको अपने-अपने घर भेज दिया और वे शिष्य भी वन्दनसे छोड़े गये वल्लङ्गोंके समान सन्तुष्ट होते हुए अपने-अपने घर गये ॥१८॥ जब पर्वत अकेला ही घर पहुँचा तब उसकी माता स्वस्तिमतीने पूछा कि हे पुत्र ! तुम्हारे पिता कहाँ हैं ? जिससे कि तुम अकेले ही आये हो ॥१९॥ पर्वतने माताको उत्तर दिया कि उन्होंने कहा था कि पीछे आते हैं । पतिके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए स्वस्तिमतीका दिन समाप्त हो गया ॥२०॥ जब दिनका विलकुल अन्त हो गया और सघन अन्धकार फैल चुका फिर भी वह नहीं आया तब स्वस्तिमती शोकके भारसे आक्रान्त हो पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥२१॥ वह दुःखसे पीड़ित हो चकवीके समान इस प्रकार विलाप करने लगी कि हाय-हाय मैं बड़ी मन्दभाग्य हूँ जो पतिके द्वारा छोड़ी गई ॥२२॥ क्या मेरा पति किसी पापी मनुष्यके द्वारा मृत्युको प्राप्त हुआ है अथवा किसी कारण परदेशको चला गया है ? ॥२३॥ अथवा समस्त शास्त्रोंमें कुशल होनेसे वैराग्यको प्राप्त हो सर्व परिग्रहका त्यागकर मुनिदीक्षाको प्राप्त हुआ है ? ॥२४॥ इस प्रकार विलाप करते-करते स्वस्तिमतीकी रात्रि भी व्यतीत हो गई । जब प्रातःकाल हुआ तब पर्वत पिताको खोजनेके लिए गया ॥२५॥ लगातार कुछ दिनों तक खोज करनेके बाद पर्वतने देखा कि हमारे पिता नदीके तटवर्ती उद्यानमें मुनि होकर विद्यमान हैं । सङ्घसहित गुरुके समीप विनयसे बैठे हैं ॥२६॥ उसने दूरसे ही लौटकर मातासे कहा कि मेरा पिता नग्नमुनियों और उनके भक्तों द्वारा

१. नामा क०, ख० । २. विशारदं म०, व० । ३. प्रथिताना म० । ४. दामकदम्बनात् म० ।

५. पश्चादागति क०, ख० । ६. अन्वेष्ट म० ।

ततो निश्चयविज्ञातवदसङ्गमु-खिता । करान्यां नृशमानानां स्तनावहलुद्व स्वनम् ॥२८॥
 नारदस्तन्मथ श्रुत्वा वृत्तान्तं धर्मवन्मलः । द्रष्टुमाणादुपाख्यायौ चणं शोकसमाकुलः ॥२९॥
 नं ईदृशं सुतरां चक्रे स्तनताडनरोदनम् । निसर्गोऽप्यं यदास्तस्य पुरः शोको विवर्धते ॥३०॥
 जगाद् नान्द्रो नातः किं शोकं कुरुते वृथा । कुरुते शोकंऽप्युना नासावागच्छति विशुद्धयी. ॥३१॥
 कर्मगानुगृहीतोऽसौ चारुणा चारुचेष्टितः । जीविनं चञ्चलं ज्ञान्ना यस्तपः कर्तुमुद्यतः ॥३२॥
 तनुवां बोध्यमानानां शोकस्त्वस्या गतः क्रमात् । द्विपती च सुवाना च नर्तारं सा म्यिता गृहे ॥३३॥
 पृतस्मादेव चोदन्ताद् यथातिन्वत्त्वकोविदः । राज्यभारं वसोन्यस्य वनूय श्रमणो महान् ॥३४॥
 मुनवतिष्टोऽभवद् राजा पृथिव्यां प्रथितो वसुः । नमस्तुतिकविस्तीर्गशिलास्यहरिविष्टरः ॥३५॥
 नमं पर्वतकेनाय नारदस्यान्यदामवव । कथयं शास्त्रवत्त्वार्थनिरूपणगयगा ॥३६॥
 जगाद् नारदोऽर्हकिः सर्वज्ञः सर्वदर्शिनिः । द्विविधो विदितो धर्मः सुचमोदारविशेषतः ॥३७॥
 हिंसायां चतृतात् स्त्रैयात् स्मरसङ्गात् परिग्रहात् । विरतेर्वसुद्विष्टं भावनाभिः समन्विनन् ॥३८॥
 विरतिं सर्वतः कर्तुं ये शक्तास्ते महाव्रतन् । सेवन्तेऽगुत्रतं शेषां जन्तवो गृहमाश्रिता. ॥३९॥
 संविनागोऽनिर्यातां च तेषामुक्तो जिनाधिपः । यज्ञाल्यावन्म्यितास्तस्मिन् मंदैः पात्रादिभिर्युतै. ॥४०॥

प्रवारित हो नष्ट हो गया है ॥२७॥ तदनन्तर स्वस्तिमतीने जब निश्चयसे यह जान लिया कि अब पतिका समागम मुझे प्राप्त नहीं होनेवाला है तब वह अत्यन्त दुःखी हुई । वह दोनों हाथोंसे स्तनोंको पीटती एवं जोरसे चिल्लाती हुई रुदन करने लगी ॥२८॥ यह वृत्तान्त सुन धर्मस्नेही नारद शोकसे व्याकुल होता हुआ अपनी गुणतीको देखनेके लिए आया ॥२९॥ उसे देख वह और भी अधिक नत पीटकर रोने लगी सो ठीक ही है क्योंकि यह स्वामाविक व्रत है कि आमजनको समस्त शोक बढ़ने लगता है ॥३०॥ नारदने कहा कि हे माताजी ! व्यर्थ ही शोक क्यों करती हो ? क्योंकि इस समय शोक करनेसे निर्मल बुद्धिके धारक गुरुजी वापिस नहीं आवेंगे ॥३१॥ सुन्दर चेष्टाओंके धारक गुरुजीपर पुण्यकर्मने बड़ा अनुग्रह किया है कि जिससे वे जीवनको चञ्चल जानकर तप करनेके लिए उद्यत हुए हैं ॥३२॥ इस प्रकार नारदके समझानेपर उसका शोक क्रम-क्रमसे हलका हो गया । स्वस्तिमती कभी तो पतिको निन्दा करती थी कि वे एक अन्धलाको असहाय ढोड़कर चल दिये और कभी उनके गुणोंका चिन्तन कर स्तुति करती थी कि इनकी निर्लेपता कितनी उच्चकोटिकी थी । इस प्रकार निन्दा और स्तुति करती हुई वह बरजें रहने लगी ॥३३॥

इसी वदनासे तस्वींका जानकार ययाति राजा भी वसुके लिए राज्यभार सौंपकर महा-
 मुनि हो गया ॥३४॥ नर्वान राजा वसुकी पृथिवीपर बड़ी प्रतिष्ठा बड़ी । आकाशरूढिककी
 लन्दी चौड़ी शिलार उसका सिंहासन स्थित था सो लोकमें ऐसी प्रसिद्धि हुई कि सत्यके बल-
 पर वसु आकाशमें निरावार स्थित है ॥३५॥ अथानन्तर एक दिन नारदकी पर्वतके साथ
 शास्त्रका वास्तविक अर्थ प्रकट करनेपर वसु निन्तलिखित चर्चा हुई ॥३६॥ नारदने कहा कि
 सबको जानने देखनेवाले अर्हन्त भगवान्ने अगुत्रत और महाव्रतके भेदसे धर्म दो प्रकारका
 कहा है ॥३७॥ हिंसा, मूठ, चोरी, झुगाल और परिग्रह इन पाँच पापोंसे विरक्त होनेको व्रत कहते
 हैं । यह व्रत प्रत्येक व्रतकी पाँच-पाँच भावनाओंसे सहित होता है ॥३८॥ जो उक्त पापोंका
 सर्वदश त्याग करनेमें समर्थ हैं वे महाव्रत ग्रहण करते हैं और जो धरजें रहते हैं ऐसे शेषजन
 अगुत्रत धारण करते हैं ॥३९॥ जिनके भगवान्ने गृहस्थोंका एक व्रत अतिथिसंविभाग वदलाया

१. दृश म० । २. कुरुदन् । ३. द्विपतीव क०, म०, व० । ४. द्विष्टिः (१) म० ।

५. अगुत्रतश्चावशिष्टः । ६. हिंस्र म० । ७. लोका म० । ८. वारसंगन् म० ।

अजैर्यष्ट्यमित्यस्य वाक्यस्यार्थो दयापरैः । अय मुनिभिराख्यातो ग्रन्थार्थग्रन्थिभेदिभि ॥४१॥
 अजास्ते जायते येषां नाङ्कुरः सति कारणे । सस्याना यजन कार्यमेतैरिति विनिश्चय ॥४२॥
 अजाः पशव उद्दिष्टा इति पर्वतकोऽवदत् । तेषामालम्बन कार्यं तत्र यागोऽभिधीयते ॥४३॥
 नारदः कुपितोऽनोचत्ततः पर्वतक खलम् । मैव वोच पतस्येव नरके घोरवेदने ॥४४॥
 प्रतिज्ञा चाकरोदेवमावयोर्योऽवसीदति । वसु प्राश्निकमासाद्य तस्य जिह्वा लिङ्गित्यते ॥४५॥
 भतिक्रान्ता वसु द्रष्टुं वेलाद्य श्वो विनिश्चयः । भवितेत्यभिधायागात् पर्वतो मातुरन्तिकम् ॥४६॥
 तस्यै चाकथयन्मूल कलहस्याभिमानवान् । ततो जगाद सा पुत्र त्वया निगदित मृषा ॥४७॥
 कुर्वतोऽनेकशो न्याख्या मया तव पितुः श्रुतम् । अजा. किलाभिधीयन्ते ब्रीहयो येऽप्ररोहका ॥४८॥
 देशान्तर प्रयातेन मांसभक्षणकारिणा । मानाच्च वितथ प्रोक्त तवेद दुःखकारणम् ॥४९॥
 रसनाच्छेदन पुत्र नियत ते भविष्यति । अपुण्या किं करिष्यामि पतिपुत्रविवर्जिता ॥५०॥
 सस्मार सा पुरा प्रोक्ता वसुना गुरुदक्षिणाम् । न्यासभूतां गता चाशु वसोरन्तकमाकुला ॥५१॥
 उपाध्यायीति चोदारमादर विदधे वसुः । प्रणम्य च सुखासीना पप्रच्छ रचित्ताञ्जलिः ॥५२॥
 उपाध्यायि नियच्छाज्ञामायाता येन हेतुना । सर्वं सम्पादयाम्याशु दुःखितेव च इश्यते ॥५३॥
 उवाच स्वस्तिमत्येव नित्य पुत्रास्मि दुःखिता । प्राणनाथपरित्यक्ता का चा स्त्री सुखमृच्छति ॥५४॥

है जो पात्रादिके भेदसे अनेक प्रकारका है । यज्ञका अन्तर्भाव इसी अतिथिसंविभाग व्रतमें होता है ॥४०॥ ग्रन्थोंके अर्थकी गोंठ खोलनेवाले दयालु मुनियोंने 'अजैर्यष्ट्यम्' इस वाक्यका यह अर्थ बतलाया है ॥४१॥ कि अज उस पुराने धानको कहते हैं जिसमें कि कारण मिलनेपर भी अङ्कुर उत्पन्न नहीं होते । ऐसे धानसे ही यज्ञ करना चाहिए ॥४२॥ नारदकी इस व्याख्याको सुनकर तमककर पर्वत बोला कि नहीं अज नाम पशुका है अतः उनकी हिंसा करनी चाहिए यही यज्ञ कहलाता है ॥४३॥ इसके उत्तरमें नारदने कुपित होकर दुष्ट पर्वतसे कहा कि ऐसा मत कहो क्योंकि ऐसा कहनेसे भयङ्कर वेदनावाले नरकमें पड़ोगे ॥४४॥ अपने पत्नीकी प्रबलता सिद्ध करते हुए नारदने यह प्रतिज्ञा भी की कि हम दोनों राजा वसुके पास चले, वहाँ जो पराजित होगा उसकी जिह्वा काट ली जावे ॥४५॥ 'आज राजा वसुके मिलनेका समय निकल चुका है इसलिए कल इस बातका निश्चय होगा' इतना कहकर पर्वत अपनी माताके पास गया ॥४६॥ अभिमानकी पर्वतने कलहका मूल कारण माताके लिए कह सुनाया । इसके उत्तरमें माताने कहा कि हे पुत्र ! तूने मिथ्या बात कही है ॥४७॥ अनेकों बार व्याख्या करते हुए तेरे पितासे मैंने सुना है कि अज उस धानको कहते हैं कि जिसमें अङ्कुर उत्पन्न नहीं होते ॥४८॥ तू देशान्तरमें जाकर मांस भक्षण करने लगा इसलिए अभिमानसे तूने यह मिथ्या बात कही है । यह बात तुम्हें दुःखका कारण होगी ॥४९॥ हे पुत्र ! निश्चित ही तेरी जिह्वाका छेद होगा । मैं अभागिनी पति और पुत्रसे रहित होकर क्या करूँगी ? ॥५०॥ उसी क्षण उसे स्मरण आया कि एक बार राजा वसुने मुझे गुरु दक्षिणा देना कहा था और मैंने उसे धरोहरके रूपमें उन्हींके पास रख दिया था । स्मरण आते ही वह तत्काल घबड़ाई हुई राजा वसुके पास पहुँची ॥५१॥ 'यह हमारी गुरानी है' यह विचारकर राजा वसुने उसका बहुत सत्कार किया, उसे प्रणाम किया और जब वह आसनपर सुखसे बैठ गई तब हाथ जोड़कर विनयसे पूछा ॥५२॥ कि हे गुरानी ! मुझे आज्ञा दीजिए । जिस कारण आप आई हैं मैं उसे अभी सिद्ध करता हूँ । आप दुःखी सी क्यों दिखाई देती है ? ॥५३॥ इसके उत्तरमें स्वस्तिमतीने कहा कि हे पुत्र ! मैं तो निरन्तर दुःखी

१. स च म० । २. विधीयते म० । ३. लिङ्गिते । निङ्गन्त्यते म० । ४. दृष्ट म० । ५. व्याख्या म० । ६. ये प्ररोहकाः म० । ७. सस्मार च क०, ख० । सस्मार पुरा म० । ८. न्याय-म० । ९. उपाध्यायीति म० ।

सम्बन्धो द्विविधो यौनः शास्त्रीयश्च तयोः परम् । शास्त्रीयमेव मन्येऽहमयं मलविवर्जितः ॥५५॥
 अतो नाथस्य मे शिष्यः पुत्र एव भवानपि । ^१पश्यन्ती भवतो लक्ष्मी करोमि घृतिमात्मनः ॥५६॥
^२दक्षिणा च गृहाणेति पुत्र प्रोक्त त्वया सुत । मया चोक्त गृहीष्यामि कालेऽन्यस्मिन्निति स्मर ॥५७॥
 सत्यं वदन्ति राजानः पृथिवीपालनोद्यताः । ऋषयस्ते हि भाग्यन्ते ये स्थिता जन्तुपालने ॥५८॥
^३सत्येन श्रावितः स त्वं मह्य तां यच्छ दक्षिणाम् । इत्युक्तश्चावदद्राजा विनयानतमस्तकः ॥५९॥
 अत्र ते वचनादद्य करोम्यथ जुगुप्सितम् । वद यत्ते स्थित चित्ते मा कृया मतिमन्यथा ॥६०॥
 तमुदन्त ततोऽशेष निवेद्यास्मै जगाद सा । पुत्रस्यानृतमप्येतदनुमान्य त्वया मम ॥६१॥
 जानतापि ततो राज्ञा नीतेन स्थिरता पुनः । मूढसत्यगृहीतेन प्रतिपन्न तयोदितम् ॥६२॥
 पुनरुक्त प्रियं भूरि भाषित्वाशीः पुरस्सरम् । आनच्छं निरुय तुष्टा भृशं स्वस्तिमती ततः ॥६३॥
 अथान्यस्य दिनस्यादौ गतौ नारदपर्वतौ । समीपं क्षितिपालस्य कुतूहलजनावृतौ ॥६४॥
 चतुर्विधो जनपदो नाना प्रकृतयस्तथा । सामन्ता मन्त्रिणश्चाशु विविशुर्जल्पमण्डलम् ॥६५॥
 ततस्तयोः सतां मध्ये विवादः सुमहानभूत् । ग्रीहयोऽजा विवीजा ये पशवश्चेति वस्तुनि ॥६६॥
 ततस्ताभ्यां वसुः पृष्टो यदुपाध्याय उक्तवान् । तत्त्व वद महाराज सत्येन श्रावितो भवान् ॥६७॥
 यदेतत्पर्वतेनोक्त तदुपाध्याय उक्तवान् । इत्युक्ते स्फटिक यात वसोः क्षिप्र महीतले ॥६८॥

रहती हूँ क्योंकि पतिके द्वारा छोड़ी हुई कौन सी स्त्री सुख पाती है ? ॥५४॥ सम्बन्ध दो प्रकार का है एक योनिसम्बन्धी और दूसरा शास्त्रसम्बन्धी । इन दोनोंमें मैं शास्त्रीय सम्बन्धको ही उत्तम मानती हूँ क्योंकि यह निर्दोष सम्बन्ध है ॥५५॥ चूँकि तुम मेरे पतिके शिष्य हो अतः तुम भी मेरे पुत्र हो । तुम्हारी लक्ष्मीको देखते हुए मुझे सन्तोष होता है ॥५६॥ हे पुत्र ! एक बार तुमने कहा था कि दक्षिणा ले लो तब मैंने कहा था कि फिर किसी समय ले लूँगी । स्मरण करो ॥५७॥ पृथिवीकी रक्षा करनेमें तत्पर राजा लोग सदा सत्य बोलते हैं । यथार्थमें जो जीवोंकी रक्षा करनेमें तत्पर हैं वे ही ऋषि कहलाते हैं ॥५८॥ तुम सत्यके कारण जगत्में प्रसिद्ध हो अतः मेरे लिए वह दक्षिणा दो । गुरानोंके ऐसा कहनेपर राजा वसुने विनयसे मस्तक झुकाते हुए कहा ॥५९॥ कि हे माता ! तुम्हारे कहनेसे मैं आज घृणित कार्य भी कर सकता हूँ । जो बात तुम्हारे मनमें हो सो कहो अन्यथा विचार मत करो ॥६०॥ तदनन्तर स्वस्तिमतीने उसके लिए नारद और पर्वतके विवादका सब वृत्तान्त कह सुनाया और साथ ही इस बातकी प्रेरणा की कि यद्यपि मेरे पुत्रका पक्ष मिथ्या ही है तो भी तुम इसका समर्थन करो ॥६१॥ राजा वसु यद्यपि शास्त्रके यथार्थ अर्थको जानता था पर स्वस्तिमतीने उसे बार-बार प्रेरणा देकर अपने पक्षमें स्थिर रक्खा । इस तरह मूर्ख सत्यके वश हो राजाने उसकी बात स्वीकृत कर ली ॥६२॥ तदनन्तर स्वस्तिमती राजा वसुके लिए बार-बार अनेकों प्रिय आशीर्वाद देकर अत्यन्त सन्तुष्ट होती हुई अपने घर गई ॥६३॥

अथानन्तर दूसरे दिन प्रातःकाल ही नारद और पर्वत राजा वसुके पास गये । कुतूहलसे भरे अनेकों लोग उनके साथ थे ॥६४॥ चार प्रकारके जनपद, नाना प्रजाजन, सामन्त और मन्त्री लोग शीघ्र ही उस वादस्थलमें आ पहुँचे ॥६५॥ तदनन्तर सज्जनोंके बीच नारद और पर्वतका बड़ा भारी विवाद हुआ उनमेंसे नारद कहता था कि अजका अर्थ बीज रहित धान है और पर्वत कहता था कि अजका अर्थ पशु है ॥६६॥ जब विवाद शान्त नहीं हुआ तब उन्होंने राजा वसुसे पूछा कि हे महाराज ! इस विषयमें गुरु क्षीरकदम्बकने जो कहा था सो आप कहो । आप अपनी सत्यवादितासे प्रसिद्ध हैं ॥६७॥ इसके उत्तरमें राजा वसुने कहा कि पर्वतने

१. पश्यन्तो म० । २. दक्षिणा च गृहीष्यामि पुरा प्रोक्तं च या सुत म० । ३. ऋषयस्तेहि (१) म० । ४. सत्येव म० । ५. कुतूहल- म० ।

नाज्ञामीव किल तदोक्तं स्फटिकं गगने तत्र । स्थितं सिंहासनं^१ तस्य विवेकेति ततोऽवदत्त ॥६६॥
 वसो वितथसामर्थ्यात्तत्र सिंहासनं गतम् । भूमिमद्यापि ते युक्तं परमार्थनिवेदनम् ॥७०॥
 ततो मोहमदाविष्टस्तदैव पुनरन्यत्रान् । प्रविष्टो घर्णा मद्यं सिंहासनसमन्वित ॥७१॥
 महापापमग्नान्तो हिंसाधर्मप्रवर्तनात् । गतन्तमन्तमोऽनित्या पृथिवीं धोन्वेदनाम् ॥७२॥
 ततो विग्ं विग्ं भ्वनिं प्रायो जान् कल्पकलो महान् । जनानां पापसीतानामुद्विश्य वसुपर्वतां ॥७३॥
 संग्राहो नारदः पूजामहिमाचारदेशनात् । एवमेव हि सर्वेषां यतो धर्मस्ततो जयः ॥७४॥
 पापः पर्वतको लोके विग्विग्वडममाहृत । दुःखितः शेषयन् देहमकरोन् कुत्सितं तपः ॥७५॥
 कालं कृत्वाभवत् क्रूरो राज्ञ्यः पुनर्विक्रमः । अपमानं च^३ मन्मार विग्वण्डाधिकमानमन^४ ॥७६॥
 अविन्नयच्च लोकेन नमानेन पराभवः । हृवस्तत कल्प्यामि प्रतिक्रमास्य दुःखदम् ॥७७॥
 वितानं^५ दग्मभ्रितं कृत्वा कर्म करोमि तन् । यत्रानन्तो वनो याति तिर्यङ्नरकदुर्गतां ॥७८॥
 ततो मानुषवेपथो वामन्क्रान्थन्नुत्रक । क्रमण्डल्वडमालादिनानोपकरणावृतः ॥७९॥
 हिंसाकर्मपरं शास्त्रं वारं क्रूरजनप्रियम् । असीधानः सुदुष्टात्मा नितान्तामङ्गलस्वरम् ॥८०॥
 तापमान् दुर्विधानं दुदधा सूत्रकृदादिकांस्तथा । व्यामोहयितुमुद्युक्तो हिंसाधर्मण निर्दयः ॥८१॥
 तस्य पशं ततः पशुः प्राणिनो मूढमानसा । भविष्यद्दुःखसंभारा गल्भा इव पावके ॥८२॥

जो कहा है वही गुप्ते कदा था । इनका कहते ही राजा वसुका स्फटिक पृथिवीपर गिर पड़ा ॥६६॥
 लोग उस स्फटिकको नहीं जानते थे इसलिए यही समझते थे कि राजा वसुका सिंहासन आकाशमें
 निगाधार स्थित है ॥६६॥ नारदने राजाको सन्बोधते हुए कहा कि वसो ! मिथ्या पक्षका समर्थन
 करनेसे तुम्हारा सिंहासन पृथिवीपर आ पड़ा है । अतः अब भी सत्य पक्षका समर्थन करना तेरे
 लिए उचित है ॥७०॥ परन्तु राजा वसु तो मोह रूपी मदिराके नशामे इतना निमग्न था कि
 उसने फिर भी वही बात कही । इस पापके फल स्वरूप राजा वसु शीघ्र ही सिंहासनके साथ ही
 साथ पृथिवीमें धंस गया ॥७१॥ हिंसाधर्मकी प्रवृत्ति चलानेसे वह बहुत भारी पापके भारसे आक्रान्त
 हो बहूत भारी वेदनावाली तमस्तम प्रभानामक सातवीं पृथिवीमें गया ॥७२॥ तदनन्तर पापसे
 भयभीत मनुष्य राजा वसु और पर्वतको लच्यकर विक्र-विक्र कहने लगे जिससे बड़ा भारी कोला-
 हल उत्पन्न हुआ ॥७३॥ अहिंसापूर्ण आचारका उपदेश देनेके कारण नारद सन्मानको प्राप्त हुआ ।
 सब लोगोंके सुखसे यही शब्द निकल रहे थे कि 'यतो धर्मन्ततो जय' जहाँ धर्म वहाँ विजय ॥७४॥
 पार्थी पर्वत, लोकमें विक्रार रूपी दण्डकी चोट खाकर दुःखी हो शरीरको सुखाता हुआ कुतप
 करने लगा ॥७५॥ अन्तमें मरणकर प्रबल पराक्रमका धारक दुष्ट राजस हुआ । उसे पूर्व पर्यायमें
 जो अपमान और विक्रार रूपी दण्ड प्राप्त हुआ था उसका मरण हो आया ॥७६॥ वह विचार
 करने लगा कि लोगोंने मेरा पराभव किया था इसलिए मैं इसका दुःखनाशी बदला लूँगा ॥७७॥
 मैं कष्ट पूर्ण शान्त्र रचकर ऐसा कार्य करूँगा कि जिनमें आसक्त हुए मनुष्य तिर्यञ्च अथवा
 नरक जैसी दुर्गतियोंमें जावेगे ॥७८॥ तदनन्तर उस राक्षसेने मनुष्यका वेप रक्खा बाँधे कन्धेपर
 यज्ञोपवीत पहिना और हाथमें कमण्डलु तथा अक्षमाला आदि उपकरण लिये ॥७९॥ इस प्रकार
 हिंसा कार्यकी प्रवृत्ति करानेमें तत्पर तथा क्रूर मनुष्योंको प्रिय भयावह शास्त्रका अत्यन्त
 अमाङ्गलिक स्वरमें उच्चारण करता हुआ वह दुष्ट राजस पृथिवीपर भ्रमण करने लगा ॥८०॥ वह
 स्वभावसे निर्दय था तथा बुद्धिहीन तापसियों और ब्राह्मणोंको मोहित करनेमें सदा तत्पर
 रहता था ॥८१॥ तदनन्तर जिन्हें भविष्यमें दुःख प्राप्त होनेवाला था ऐसे मूर्ख प्राणी उसके

१. सिंहासने म० । २. कनिस्तावजातः म० । ३. संस्मार म० । ४. विवान-डग्मभ्रितं म०
 षडमन्त (१) ख० । ५. यत्रानन्तो म० ।

तेभ्यो जगाद् यज्ञस्य विधानार्थमह स्वयम् । ब्रह्मा लोकमिमं प्राप्नो येन सृष्ट चराचरम् ॥८३॥
 यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव मयादरात् । यज्ञो हि भूयै स्वर्गस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥८४॥
 सौत्रामणिविधानेन सुरापानं न दुष्यति । अग्न्यागमनं कार्यं यज्ञे गोसवनामनि ॥८५॥
 मातृमेधे वधो मातुः पितृमेधे वधः पितुः । अन्तर्वेदि विधातव्यं दोषस्तत्र न विद्यते ॥८६॥
 आशुशुचिमाधाय^१ पृष्ठे कूर्मस्य तर्पयेत् । हविषा जुह्वकाख्याय स्वाहेत्युक्त्वा प्रयत्नतः ॥८७॥
 यदा न प्राप्तुयात् कूर्मं तदा शुद्धद्विजन्मनः । खलतेः पिङ्गलाभस्य विक्लवस्य शुचौ जले ॥८८॥
 आस्यदध्नेऽवतीर्णस्य मस्तके कूर्मसन्निभे । प्रज्वाल्य ज्वलनं दीप्तमाहुतिं निक्षिपेद् द्विजः ॥८९॥
 सर्वं पुरुष एवेद् यद्भूतं यद्भविष्यति । ईशानो^२ अमृतत्वस्य यदन्नेनातिरोहति ॥९०॥
 एवमेकत्र पुरुषे किं केनात्र विपाद्यते । कुरुतातो यथाभीष्टं यज्ञे प्राणिनिपातनम् ॥९१॥
 मांसस्य भक्षणं तेषां कर्तव्यं यज्ञकर्मणि । र्यायजूकेन पूतं हि देवोद्देश्येन तत्कृतम् ॥९२॥
 एवमप्रकारमत्यन्तपापकर्मं प्रदर्शयन् । प्राणिनः प्रवर्णांश्चक्रे राक्षसो धरणीतले ॥९३॥
 श्रद्धधानास्ततो भूत्वा जन्तवः सुखवाञ्छया । हिंसायज्ञस्थलीं भूमिं^३ दीक्षितां प्रविशन्ति ये ॥९४॥
 काष्ठभारं यथा सर्वं प्राध्वकृत्य स तान् दृढम् । भयोद्भूतमहाकम्पान् चलत्तारकलोचनान् ॥९५॥
 पृष्ठस्कन्धशिरोजङ्घा^४ पादाग्रस्थान्विधाय खम् । उत्पपात पतद्रक्तधारानिकरदुःखितान् ॥९६॥

पक्षमें इस प्रकार पढ़ने लगे जिस प्रकार कि अग्निपर पतंगे पड़ते हैं ॥८२॥ वह उन लोगोसे कहता था कि मैं वह ब्रह्मा हूँ जिसने इस चराचर विश्वकी रचना की है । यज्ञकी प्रवृत्ति चलानेके लिए मैं स्वयं इस लोकमें आया हूँ ॥८३॥ मैंने बड़े आदरसे स्वयं ही यज्ञके लिए पशुओकी रचना की है । यथार्थमे यज्ञ स्वर्गकी विभूति प्राप्त करानेवाला है इसलिए यज्ञमें जो हिंसा होती है वह हिंसा नहीं है ॥८४॥ सौत्रामणि नामक यज्ञमे मदिरा पीना दोषपूर्ण नहीं है और गोसव नामक यज्ञमे अग्न्या अर्थात् परस्त्रीका भी सेवन किया जा सकता है ॥८५॥ मातृमेध यज्ञमे माताका और पितृमेध यज्ञमे पिताका वध वेदीके मध्यमें करना चाहिए इसमें दोष नहीं है ॥८६॥ कछुएकी पीठपर अग्नि रखकर जुह्वक नामक देवको बड़े प्रयत्नसे स्वाहा शब्दका उच्चारण करते हुए साकल्यसे संतृप्त करना चाहिए ॥८७॥ यदि इस कार्यके लिए कछुआ न मिले तो एक गंजे शिरवाले पीले रङ्गके शुद्ध ब्राह्मणको पवित्र जलमें मुख प्रमाण नीचे उतारे अर्थात् उसका शरीर मुख तक पानीमे डूबा रहे ऊपर केवल कछुआके आकार मस्तक निकला रहे उस मस्तकपर प्रचण्ड अग्नि जलाकर आहुति देना चाहिए ॥८८-८९॥ जो कुछ हो चुका है अथवा जो आगे होगा जो अमृतत्वका स्वामी है अर्थात् देवपत्नीय है और जो अन्नजीवी है अर्थात् भूचारी है वह सब पुरुष ही है ॥९०॥ इस प्रकार जब सर्वत्र एक ही पुरुष है तब किसके द्वारा कौन मारा जाता है ? अर्थात् कोई किसीको नहीं मारता इसलिए यज्ञमें इच्छानुसार प्राणियोंकी हिंसा करो ॥९१॥ यज्ञमें यज्ञ करनेवालेको उन जीवोंका मांस खाना चाहिए क्योंकि देवताके उद्देश्यसे निर्मित होनेके कारण वह मांस पवित्र माना जाता है ॥९२॥ इस प्रकार अत्यन्त पापपूर्ण कार्य दिखाता हुआ वह राक्षस पृथिवी तलपर प्राणियोंको यज्ञादि कार्योंमे निपुण करने लगा ॥९३॥ तदनन्तर उसकी वाताका विश्वासकर जो लोग सुखकी इच्छासे दीक्षित हो हिंसामयी यज्ञकी भूमिमें प्रवेश करते थे उन सबको वह लकड़ियोंके भारके समान मजबूत बाँधकर आकाशमें उड़ जाता था । उस समय उनके शरीर भयसे काँप उठते थे, उनकी आँखोंकी पुतलियाँ घूमने लगती थीं । उन्हें वह उल्टाकर ऐसा झुकाता था कि उनकी जङ्घाएँ पीठ तथा ग्रीवापर और पैरके पञ्जे शिर पर आ लगते थे

१. -मादाय म० । २. हविष्यजुह्वकाख्याय म० । ३. खलवाटस्य । ४. मुखप्रमाणे । ५. मृतस्तस्य क०, ज० । ६. किं कि नात्र क० । ७. कुरुत + अतो । ८. याजकेन म० । ९. श्रद्धधानस्ततो म० । १०. दीक्षिताः क० । ११. जङ्घान् म० ।

ततस्ते विस्वरोदार क्रोशन्तोऽभिदधुः स्वरम् । किमर्थं देव रुष्टोऽसि येनास्मान् हतुमुद्यत ॥६७॥
 प्रसीद सुञ्च निर्दोषान्स्मान् देव महाबल । भवदाज्ञां वय सर्वा कुर्म प्रणतमूर्तयः ॥६७॥
 ततो वभाण तान् रक्ष यथैत्र पशवो हताः । भवन्निरिभूति स्वर्गं तथा यूय मया हता ॥६९॥
 हृत्युक्त्वा विजने काश्चिद् द्वीपेऽन्यस्मिन्निरक्षिपत्^३ । महार्णवे परानन्यान्कूरप्राणिगणान्तरे ॥१००॥
 एकानास्फालयन् क्षोणीधरमूर्ध्नि शिलातले । कुर्वन् बहुविध शब्द वासांसि रजको यथा ॥१०१॥
 दुःखेन मरणावस्थां प्राप्तास्ते व्रस्तचेतसः । पितरौ तनयान् आतन् स्मरन्तो मृत्युमापिता ॥१०२॥
 तद्व्यापादितशोषा ये मूढाः कुमन्थकन्थया । रक्षसा दर्शितो हिंसायज्ञस्त्वैर्वृद्धिमाहृत ॥१०३॥
 हिंसायज्ञमिम घोरमाचरन्ति न ये जनाः । दुर्गतिं ते न गच्छन्ति महादुःखविधायिनीम् ॥१०४॥
 उदाहृतो मया यस्ते हिंसायज्ञसमुद्भवः । श्रेणिकेन पुराज्ञासीत् प्राज्ञो रत्नश्रवःसुतः ॥१०५॥
 अथ राजपुर प्राप्नो रावणः स्वर्गसन्निभम् । बहिर्यस्य मरुत्ताख्यो यज्ञवाटे^४ स्थितो नृपः ॥१०६॥
 हिंसाधर्मप्रवीणश्च सवर्तो नाम विश्रुतः । ऋत्विक् तस्मै ददौ कृत्स्नमुपदेश यथाविधि ॥१०७॥
 सूत्रकण्ठाः पृथिव्यां ये सर्वे तेऽत्र निमन्त्रिताः । पुत्रदारादिभिः सार्धमागता^५ लोभवाहिताः ॥१०८॥
 सा तैर्यज्ञमहो सर्वा वेदमहलनिःस्वनै । लाभाकाङ्क्षा प्रसन्नास्यैर्वृता क्षुभ्यत्सुभूरिभिः ॥१०९॥

तथा पड़ती हुई खूनकी धाराओसे वे बहुत दुःखी हो जाते थे ॥६४-६६॥ इस कार्यसे वे सब बहुत भयंकर शब्द करते हुए चिल्लाते थे और कहते थे कि हे देव ! तुम किस लिए रुष्ट हो गये हो जिससे हम सबको मारनेके लिए उद्यत हुए हो ॥६७॥ हे देव ! तुम महाबलवान् हो, प्रसन्न होओ, हम सब निर्दोष हैं अतः हम लोगोंको छोड़ो । हम सब आपके समक्ष नतशरीर हैं और आप जो आज्ञा देंगे उस सबका पालन करेंगे ॥६८॥ तदनन्तर राजस उनसे कहता था कि जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा मारे हुए पशु स्वर्ग जाते हैं उसी प्रकार मेरे द्वारा मारे गये आप लोग भी स्वर्ग जावेंगे ॥६९॥ ऐसा कहकर उसने कितने ही लोगोंको जहाँ मनुष्योंका सद्भाव नहीं था ऐसे दूसरे द्वीपोंमें डाल दिया । कितने ही लोगोंको समुद्रमें फेंक दिया, कितने ही लोगोंको सिंहादिक दृष्ट जीवांके मध्य डाल दिया और जिस प्रकार धोबी अनेक प्रकारके शब्द करता हुआ शिलातलपर वस्त्र पछाड़ता है उसी तरह कितने ही लोगोंको घुमा-घुमाकर पर्वतकी चोटीपर पछाड़ दिया ॥१००-१०१॥ दुःखसे वे मरणासन्न अवस्थाको प्राप्त हो गये थे, उन सबके चित्त भयभीत थे, और अन्तमे माता पिता पुत्र और भाई आदिका स्मरण करते हुए मृत्युको प्राप्त हो गये ॥१०२॥ जो मरनेसे वाकी वचे थे वे मिथ्या शास्त्र रूपी कन्यासे मोहित थे अतः उन्होंने राजसके द्वारा दिखलाये हुए हिंसायज्ञकी वृद्धि की ॥१०३॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! जो मनुष्य इस भयंकर हिंसायज्ञको नहीं करते वे महा दुःख देनेवाली दुर्गतिमें नहीं जाते है ॥१०४॥ हे श्रेणिक ! मैंने यह तेरे लिए हिंसायज्ञकी उत्पत्ति कही । रावण इसे पहलेसे ही जानता था ॥१०५॥

अथानन्तर रावण, स्वर्गकी तुलना करनेवाले उस राजपुर नगरमें पहुँचा जहाँ मरुत्वान् नामका राजा नगरके बाहर यज्ञशालामे बैठा था ॥१०६॥ हिंसाधर्ममे प्रवीण संवर्त नामका प्रसिद्ध ब्राह्मण उस यज्ञका प्रधान याजक था जो राजाके लिए विधिपूर्वक सब उपदेश दे रहा था ॥१०७॥ पृथ्वीमे जो ब्राह्मण थे वे सब इस यज्ञमें निमन्त्रित किये गये थे इसलिए लोभके वशीभूत हो स्त्री पुत्रादिके साथ वहाँ आये थे ॥१०८॥ लाभकी आशासे जिनके मुख प्रसन्न थे

१. विश्वरोदार म०, व०, क०, ख० । २. ऋ गतौ इत्यस्य लङ्बहुवचने रूपम् । बहुलं छन्दसीत्येव सिद्धे 'अर्तिपिपत्यांश्चेतीत्व-विधानादय भाषायामपि । 'अभ्यासस्यासवर्णे' इतीयद् इयति, इयूतः, इयूति । गच्छन्तीत्यर्थः । रियति म० । ३. निरक्षिपेत् म० । ४. मीयूति म० । मीप्रति क०, ख० । ५. रक्षिता ख० । ६. पास्त म० । ७. श्रेणिकेन ख० । ८. मरुत्ताख्यो म० । ९. यज्ञवादे क०, ख । १०. लोकाहिताः म० ।

उपनीताश्च तत्रैव पशवो दीनमानसाः । वराकाः शतशो बद्धाः श्वसत्कुक्षिपुटा भयात् ॥११०॥
 नारदोऽथान्तरे तस्मिन्निच्छया नभसा व्रजन् । अपश्यद् घनपृष्ठस्थो जन तं तत्र सगतम् ॥१११॥
 अचिन्तयच्च दृष्टेवं विस्मयाकुलमानसः । कुर्वन् विभ्रममङ्गस्य कुतूहलसमुद्भवम् ॥११२॥
 एतत्सुनगर कस्य कस्य चैयमनीकिनी । इयं च सागराकारा प्रजा^३ कस्मादिह स्थिता^४ ॥११३॥
 नगराणि जनौघाश्च वरूथिन्यश्च भूरिशः । मयेक्षाञ्चक्रिरे जातु नेदग्दष्टो जनोत्करः ॥११४॥
 कुतूहलाद्रिति ध्यात्वाऽवतीर्णोऽसौ विहायसः । कर्मैतदेव तस्यासीद्यत्कुतूहलदर्शनम् ॥११५॥
 पप्रच्छ मागधेशोऽथ भगवन् कः स नारदः । उत्पत्तिर्वा कुतस्तस्य गुणा वा तस्य कौटशा^५ ॥११६॥
 जगाद च गणाधीश श्रेणिक ब्राह्मणोऽभवत् । नाम्ना ब्रह्मरुचिस्तस्य कूर्मी नाम कुटुम्बिनी ॥११७॥
 तापसेन सता तेन श्रितेन वनवासिताम् । एतस्य^६माहितो गर्भं फलमूलादिवृत्तिना ॥११८॥
 वीतसङ्गास्तमुद्देशमथाजग्मुर्महर्षयः । यान्तो मार्गवशात्^७ क्वापि मयमासक्तमानसा ॥११९॥
 विश्वमु ज्ञण तस्मिन्नाश्रमे श्रमनोऽदिनि ।^८अपश्यन् दम्पती तौ च स्वाकारौ कर्मगर्हितौ ॥१२०॥
 आपाण्डुरशरीरां च दृष्ट्वा योपा पृथुस्तनीम् । कृणा गर्भभरम्लाना श्वसन्ती पद्मगोमित्र ॥१२१॥
 ससारप्रकृतिज्ञानां श्रमणानां महान्मनाम् । कृपया संवभूवैतौ^९ वसं बोधयितु मतिः ॥१२२॥
 तेषां मध्ये ततो ज्येष्ठो जगाद मधुर यतिः । कष्टं पश्यत नर्त्यन्ते कर्मभिर्जन्तवः कथम् ॥१२३॥
 त्यक्त्वा धर्मधिया वन्धून् संसारोत्तरणाशया । स्वय खलीकृतोऽरण्ये किमात्मा तापस त्वया ॥१२४॥

तथा जो वेदका मङ्गलपाठ कर रहे थे ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणोंसे यज्ञकी समस्त भूमि आवृत होकर क्षोभको प्राप्त हो रही थी ॥१०६॥ सैकड़ों दीनहीन पशु भी वहाँ लाकर बाँधे गये थे । भयसे उन पशुओंके पेट दुःखकी साँसे भर रहे थे ॥११०॥ उसी समय अपनी इच्छासे आकाशमें भ्रमण करते हुए नारदने वहाँ एकत्रित लोगोंका समूह देखा ॥१११॥ उसे देख नारद आश्चर्यसे चकित हो, कुतूहलजनित शरीरकी चेष्टाओंको धारण करता हुआ इस प्रकार विचार करने लगा ॥११२॥ यह उत्तम नगर कौन है ? यह किसकी सेना है ? और यह सागरके आकार किसकी प्रजा यहाँ किस प्रयोजनसे ठहरी हुई है ? ॥११३॥ मैंने बहुतसे नगर, बहुतसे लोगोंके समूह और बहुत सारी सेनाएँ देखी पर कभी ऐसा जनसमूह नहीं देखा ॥११४॥ ऐसा विचारकर नागद कुतूहलवश आकाशसे नीचे उतरा सो ठीक ही है क्योंकि कुतूहल देखना ही उसका खास काम है ॥११५॥ यह सुनकर राजा श्रेणिकने गौतमस्वामीसे पूछा कि भगवन् ! वह नारद कौन है ? उसकी उत्पत्ति किससे हुई है और उसके कैसे गुण हैं ? ॥११६॥ इसके उत्तरमें गणधर कहने लगे कि श्रेणिक ! ब्रह्मरुचि नामका एक ब्राह्मण था और उसकी कूर्मी नामक स्त्री थी ॥११७॥ ब्राह्मण तापस होकर वनमें रहने लगा और फल तथा कन्दमूल आदि भक्षण करने लगा । ब्राह्मणी भी इसके साथ रहती थी सो ब्राह्मणने इसमें गर्भ धारण किया ॥११८॥ अथानन्तर किसी दिन संयमके धारक निर्ग्रन्थमुनि कहीं जा रहे थे सो मार्गवश उस स्थानपर आये ॥११९॥ और श्रमको दूर करनेवाले उस आश्रममें थोड़ी देरके लिए विश्राम करने लगे । उसी आश्रममें उन मुनियोंने उस ब्राह्मण दम्पतीको देखा जिनका कि आकार तो उत्तम था पर कार्य निन्दनीय था ॥१२०॥ जिसका शरीर पीला था, स्तन स्थूल थे, जो दुर्बल थी, गर्भके भारसे म्लान थी और साँसे भरती हुई सर्पिणीके समान जान पड़ती थी ऐसी स्त्रीको देखकर संसारके स्वभावको जाननेवाले उदार हृदय मुनियोंके मनमें दयावश उक्त दम्पतीको धर्मोपदेश देने का विचार उत्पन्न हुआ ॥१२१-१२२॥ उन मुनियोंके बीचमें जो बड़े मुनि थे वे मधुर शब्दोंमें उपदेश देने लगे । उन्होंने कहा कि बड़े खेदकी बात है देखो, ये प्राणी कर्मोंके द्वारा कैसे नचाये जाते हैं ? ॥१२३॥ हे तापस ! तूने

१. -थान्तरे यस्मिन्नि- म० । २. अपश्यद्घान- म० । ३. प्रजाः म० । ४. स्थिताः म० । ५. कस्मैचिदेव ख० । ६. केऽपि म० । ७. अपश्य म० । ८. दम्पती ।

भद्र प्रव्रजितो जात' कस्ते भेदो गृहस्थत । चारित्र्य प्रतियातस्य केवल वेपमन्यथा ॥१२५॥
 यथा हि छर्दित नात्र भुज्यते मानुषै पुनः । तथा त्यक्तेषु कामेषु न कुर्वन्ति मतिं बुधाः ॥१२६॥
 त्यक्त्वा लिङ्गी पुनः पापो घोषित यो निपेवते । सुभीमाश्रमरण्यान्यां वृकता स 'समश्नुते ॥१२७॥
 सर्वारम्भस्थितः कुर्वन्नब्रह्म मदनिर्भरः । दीक्षितोऽस्मीति यो वेत्ति स्व नितान्त स मोहवान् ॥१२८॥
 ईर्ष्यामन्मथदग्धस्य दुष्टदृष्टेर्दुरामनः । आरम्भे वर्तमानस्य प्रव्रज्या वद कीदृशी ॥१२९॥
 कुट्ट्या गर्वितो लिङ्गी विषयास्त्रमानसः । युवब्रह्म तपस्वीति मिथ्यावादी कथ व्रती ॥१३०॥
 सुखासनविहारः सन् सदाकशिपुसक्तधीः । सिद्धमन्यो विमूढात्मा जनोऽय स्वस्य वञ्चक' ॥१३१॥
 'दर्यमाने यथागारे' कथञ्चिदपि नि सृत । तत्रैव पुनरात्मान प्रक्षिपेन्मूढमानस ॥१३२॥
 यथा च विवर प्राग्य निष्क्रान्तः पञ्जरात् खगः । निवृत्य प्रविशेद् भूयस्तत्रैवाज्ञानचोदित ॥१३३॥
 तथा प्रव्रजितो भूत्वा यो यातीन्द्रियवश्यताम् । निन्दित स भवेत्लोके न च स्वार्थं समश्नुते ॥१३४॥
 ध्येयमेकाप्रचित्तेन सर्वग्रन्थविवर्जिना । मुनिना ध्यायते तत्त्व सारम्भैर्न भवद्विधै ॥१३५॥
 प्राणिनो ग्रन्थमज्ञेन रागद्वेषसमुद्भव । रागात् सजायते कामो द्वेषान्नुविनाशनम् ॥१३६॥
 कामक्रोधाभिभूतस्य मोहेनाक्रम्यते मनः । कृत्याकृत्येषु मूढस्य मतिर्न स्याद्विवेकिनी ॥१३७॥

संसार सागरसे पार होनेकी आशासे धर्म समझ भाई-बन्धुओंका त्यागकर स्वयं अपने आपको इस वनके मध्य क्या कष्टमें डाला है ? ॥१२४॥ अरे भलेमानुष ! तूने प्रव्रज्या धारण की है पर तुझमें गृहस्थसे भेद ही क्या है ? तूने जो चारित्र्य धारण किया था उसके तू प्रतिकूल चल रहा है । केवल वेप ही तेरा दूसरा है पर चारित्र्य तो गृहस्थ जैसा ही है ॥१२५॥ जिस प्रकार मनुष्य वमन किये हुए अन्नको फिर नहीं खाते है उसी प्रकार विज्ञान जिन विषयोंका परित्याग कर चुकते है फिर उनकी इच्छा नहीं करते ॥१२६॥ जो लिङ्गधारी साधु एक बार स्त्रीका त्यागकर पुनः उसका सेवन करता है वह पापी है और मरकर भयङ्कर अटवीमें भेडिया होता है ॥१२७॥ जो सब प्रकारके आरम्भमें स्थित रहता हुआ, अब्रह्म सेवन करता हुआ और नशामें निमग्न रहता हुआ भी 'मै नीजित हूँ' ऐसा अपने आपको जानता है वह अत्यन्त मोही है ॥१२८॥ जो ईर्ष्या और कामसे जल रहा है, जिसकी दृष्टि दुष्ट है, जिसकी आत्मा दूषित है, और जो आरम्भमें वर्तमान है अर्थात् जो सब प्रकारके आरम्भ करता है उसकी प्रव्रज्या कैसी ? तुम्हीं कहो ॥१२९॥ जो कुट्टासे गर्वित है, मिथ्यावेशधारी है, और जिसका मन विषयोंके आधीन है फिर भी अपने आपको तपस्वी कहता है वह मूठ बोलनेवाला है वह व्रती कैसे हो सकता है ? ॥१३०॥ जो सुखपूर्वक उठता-बैठता और विहार करता है तथा जो सदा भोजन एवं वस्त्रोंमें बुद्धि लगाये रखता है फिर भी अपने आपको सिद्ध मानता है वह मूर्ख अपने आपको धोखा देता है ॥१३१॥ जिस प्रकार जलते हुए मकानसे कोई किसी तरह बाहर निकले और फिरसे अपने आपको उसी मकानमें फेंक दे तो वह मूर्ख ही समझा जाता है ॥१३२॥ अथवा जिस प्रकार कोई पत्नी छिद्र पाकर पिजड़ेसे बाहर निकल आवे और अज्ञानसे प्रेरित हो पुनः उसीमें लौट आवे तो यह उसकी मूर्खता ही है ॥१३३॥ उसी प्रकार कोई मनुष्य दीक्षित होकर पुनः इन्द्रियोंकी आधीनताको प्राप्त हो जावे तो वह लोकमें निन्दित होता है और आत्मकल्याणको प्राप्त नहीं होता ॥१३४॥ जिनका चित्त एकाग्र है ऐसे सर्वपरिग्रहका त्याग करनेवाले मुनि ही ध्यान करने योग्य तत्त्वका ध्यान कर सकते हैं तुम्हारे जैसे आरम्भी मनुष्य नहीं ॥१३५॥ परिग्रहको सगतिसे प्राणीके रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है । रागसे काम उत्पन्न होता है और द्वेषसे जीवोंका विघात होता है ॥१३६॥ जो काम और क्रोधसे अभिभूत हो रहा है उसका मन मोहसे

१. प्राप्नोति । २. व्यवभिचार । कुर्वन् न ब्रह्म- म० । ३. भोजनाच्छादनमग्नमनाः । ४. दह्यमानो व० । ५. यथाङ्गारै, ख० । ६. तत्रैव ज्ञान- म० । ७. कृत्याकृत्येषु म० ।

यत्किञ्चित्कुर्वतस्तस्य कर्मोपार्जयतोऽशुभम् । संसारसागरे घोरे भ्रमणं न निवतते ॥१३८॥
 एतान् संसर्गजान् दोषान्विदित्वाशु विपश्चितः । वैराग्यमधिगच्छन्ति नियम्यात्मानमात्मना ॥१३९॥
 एवं संबोधितो वाक्यैः परमार्थोपदेशनैः । उपेतः ^१श्रामणीं दीक्षां ^२मोहाद् ब्रह्मरुचिश्च्युतः ॥१४०॥
 निरक्षेपमतिः कूर्म्या महावैराग्यसम्मतः ^३ । विजहार सुखं सार्धं गुरुणा गुरुवत्सलः ॥१४१॥
 सापि शुद्धमतिः कूर्मी कर्मणः कृष्णतश्च्युता । ज्ञात्वा रागवशं जन्तोः संसारपरिवर्तनम् ॥१४२॥
 कुमारसङ्गमुत्सृज्य जिनभक्तिपरायणा । सिंहीव शोभतेऽरण्ये भर्त्रा विरहिता सती ॥१४३॥
 मासे च दशमे धीरा प्रसूता दारकं शुभम् । अचिन्तयच्च वीचयैनं ज्ञातकर्म विचेष्टिता ॥१४४॥
 संपर्कोऽयमनर्थोऽसौ कथितो यन्महर्षिभिः । तस्मान्मुक्त्वाधुना सङ्गं करोमि हितमात्मने ॥१४५॥
 अनेनापि भवे स्वस्मिन्यः कर्मविधिरर्जितः । फलं तस्य शिशुर्भोक्ता मनोज्ञमर्थवेतरत् ॥१४६॥
 अरण्यान्यां समुद्रे वा स्थितं वारातिपञ्जरे । स्वयंकृतानि कर्माणि रक्षन्ति न परो जनः ॥१४७॥
 यः पुनः प्राप्तकालः स्यार्जनन्यङ्गतोऽपि सः । हियते मृत्युना जीवः स्वकर्मवशतां गतः ॥१४८॥
 एवं विदिततत्त्वा सा बुद्धयातिनिरपेक्षया । वालकं विपिने त्यक्त्वा तापसी वीतमत्सरा ॥१४९॥
 आनच्छार्ङ्गलोकनगरे चान्त्यार्यामिन्दुमालिनीम् । शरणं भूरिसंवेगाद् ^४भूतार्या चारुचेष्टिता ॥१५०॥

आक्रान्त हो जाता है और जो करने योग्य तथा न करने योग्य कर्मोंके विषयमें मूढ़ है उसकी बुद्धि विवेकयुक्त नहीं हो सकती ॥१३७॥ जो मनुष्य इच्छानुसार चाहे जो कार्य करता हुआ अशुभ कर्मका उपार्जन करता है इस भयंकर संसार सागरमें उसका भ्रमण कभी भी बन्द नहीं होता ॥१३८॥ ये सब दोष संसर्गसे ही उत्पन्न होते हैं ऐसा जानकर विद्वान् लोग अपने आपके द्वारा अपने आपका नियन्त्रण कर वैराग्यको धारण करते हैं ॥१३९॥ इस प्रकार परमार्थका उपदेश देनेवाले वचनोंसे संबोधा गया ब्रह्मरुचि ब्राह्मण मिथ्यात्वसे च्युत हो दैगम्बरी दीक्षाको प्राप्त हुआ और अपनी कूर्मी नामक स्त्रीसे निःस्पृह हो महावैराग्यसे युक्त होता हुआ गुरुके साथ सुखपूर्वक विहार करने लगा । उसका गुरुस्नेह ऐसा ही था ॥१४०-१४१॥ कूर्मीने भी जान लिया कि जीवका संसारमें जो परिभ्रमण होता है वह रागके वश ही होता है । ऐसा जानकर वह पाप कार्यसे विरत हो शुद्धाचारमें निमग्न हो गई ॥१४२॥ वह मिथ्यामार्गीयोंका संसर्ग छोड़कर सदा जिन-भक्तिमें ही तत्पर रहने लगी और पतिसे रहित होनेपर भी निर्जन वनमें सिंहीनीके समान सुशोभित होने लगी ॥१४३॥ उस धैर्यशालिनीने दशवें मासमें शुभ पुत्र उत्पन्न किया । पुत्रको देखकर कर्मोंकी चेष्टाको जाननेवाली कूर्मीने विचार किया ॥१४४॥ कि चूँकि महर्षियोंने इस संपर्कको अनर्थका कारण कहा था इसलिए मैं इस संपर्क अर्थात् पुत्रकी संगतिको छोड़कर आत्माका हित करती हूँ ॥१४५॥ इस शिशुने भी अपने भवान्तरमें जो कर्मोंकी विधि अर्जित की है उसीका यह अच्छा या बुरा फल भोगेगा ॥१४६॥ घनघोर अटवी, समुद्र अथवा शत्रुओंके पिंजड़ेमें स्थित जन्तुकी अपने आपके द्वारा किये हुए कर्म ही रक्षा करते हैं अन्य लोग नहीं ॥१४७॥ जिसका काल आ जाता है ऐसा स्वकृत कर्मोंकी आधीनताको प्राप्त हुआ जीव माताकी गोदमें स्थित होता हुआ भी मृत्युके द्वारा हर लिया जाता है ॥१४८॥ इस प्रकार तत्त्वको जाननेवाली तापसीने निरपेक्ष बुद्धिसे उस वालकको वनमें छोड़ दिया । तदनन्तर मत्सरा भावसे रहित

१. दैगम्बरीम् । २. क०, ख०, म० पुस्तकेषु 'मोहाद् ब्रह्मरुचिश्च्युतः' इति पाठ उपलभ्यते, न० पुस्तके तु प्राग् 'मोहाद्ब्रह्मरुचिश्च्युतः', इत्येव पाठः स्वीकृतः पश्चात्केनापि टिप्पणकर्त्रा मोहात्—इति पाठः शोधितः ।
 ३. सम्पदः म० । ४. यो महर्षिभिः क०, ख०, व० । ५. भवेद्यस्मिन् म० । ६. मभवेतरम् म० । मथवेतरं क०, ख०, व० । ७. स्वयं म० । ८. जन्मन्यङ्गतो- म० । ९. कान्त्यार्यामिन्दु क०, ख०, म० । १०. भूरिसंवेगा म० । ११. चारुचेष्टिता आर्या भूता = वभूवेति भावः ।

सत्कर्मा बालकश्चासौ रोदनादिविवर्जितः । व्रजज्ञिर्नभसा दृष्टः सुरैर्जृम्भकसञ्ज्ञैः ॥१५१॥
 गृहीत्वा च कृपायुक्तैरादरात् परिपालितः । अध्यापितश्च शास्त्राणि सरहस्यान्यशेषत ॥१५२॥
 लेभे च लब्धवर्णं सन् विद्यामाकाशगामिनीम् । यौवन च पर प्राप्त स्थितिञ्चाणुव्रतीं वृढाम् ॥१५३॥
 दृष्ट्वा च मातरं चिह्नैः प्रत्यभिज्ञानकारिणीम् । तत्प्रीत्योपेत्य निर्ग्रन्थ सम्यग्दर्शनतत्परः ॥१५४॥
 प्राप्य क्षुल्लकचारित्रं जटामुकुटमुद्ग्रहन् । अवद्वारसमो जातो न गृहस्थो न सयत ॥१५५॥
 यश्च कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्य्यात्यन्तवत्सलः । कलहप्रेक्षणाकाङ्क्षी गीतचुञ्चु प्रभाववान् ॥१५६॥
 पूजितो राजलोक्स्य परैरन्याहतायतिः । चचार रोदसीं नित्यं कुतूहलगतेक्षण ॥१५७॥
 देवैः सवर्धितत्वाच्च देवसन्निभविभ्रमः । देवर्षिः प्रथितः सोऽभूद्विद्या विद्योत्तिताद्भुत ॥१५८॥
 कथञ्चित्संचरश्चासाविच्छया तां मखावनीम् । समीप गगनोद्देशस्थितोऽपश्यज्जनाकुलाम् ॥१५९॥
 दृष्ट्वा च तान् पश्यन् बद्धान् समारंश्लष्टोऽनुकम्पया । अवतीर्णो मखक्षोणीं जह्पाकपथपण्डितः ॥१६०॥
 उवाचेति मरुत्वञ्च किं प्रारब्धमिदं नृप । हिंसन प्राणिवर्गस्य द्वारं दुर्गतिगामिनाम् ॥१६१॥
 उवाचासावय वेत्ति सर्वशास्त्रार्थकोविदः । ऋत्विग्ं मम यदेतेन कर्मणा प्राप्यते फलम् ॥१६२॥

होकर वह बड़ी शान्तिसे आलोक नगरमे इन्द्रमालिनी नामक आर्यिकाकी शरणमे गई और उनके पास बहुत भारी संवेगसे उत्तम चेष्टाकी धारक आर्यिका हो गई ॥१४६-१५०॥

अथानन्तर—आकाशमे जृम्भक नामक देव जाते थे सो उन्होंने रोदनादि क्रियासे रहित उस पुण्यात्मा बालकको देखा ॥१५१॥ उन दयालु देवोंने आदरसे ले जाकर उसका पालन किया और उसे रहस्य सहित समस्त शास्त्र पढ़ाये ॥१५२॥ विद्वान् होनेपर उसने आकाशगामिनी विद्या प्राप्त की और परम यौवन प्राप्तकर अत्यन्त दृढ़ अणुव्रत धारण किये ॥१५३॥ उसने चिह्नोंसे पहिचाननेवाली माताके दर्शन किये और उसकी प्रीतिसे अपने पिता निर्ग्रन्थ गुरुके भी दर्शन कर सम्यग्दर्शन धारण किया ॥१५४॥ कुल्लकका चारित्र प्राप्तकर वह जटारूपी मुकुटको धारण करता हुआ अवद्वारके समान हो गया अर्थात् न गृहस्थ ही रहा और न मुनि ही किन्तु उन दोनोंके मध्यका हो गया ॥१५५॥ वह कन्दर्प कौत्कुच्य और मौखर्य्यसे अधिक स्नेह रखता था, कलह देखनेकी सदा उसे इच्छा बनी रहती थी, वह संगीतका प्रेमी और प्रभावशाली था ॥१५६॥ राजाओके समूह उसका सम्मान करते थे, उसके आगमनमे कभी कोई रुकावट नहीं करते थे अर्थात् वह राजाओके अन्तःपुर आदि सुरक्षित स्थानोंमें भी बिना किसी रुकावटके आ जा सकता था । और निरन्तर कुतूहलोपर दृष्टि डालता हुआ आकाश तथा पृथिवीमें भ्रमण करता रहता था ॥१५७॥ देवोंने उसका पालन पोषण किया था इसलिए उसकी सब चेष्टाएँ देवोंके समान थीं । वह देवर्षि नामसे प्रसिद्ध था और विद्याओसे प्रकाशमान तथा आश्चर्यकारि था ॥१५८॥

अपनी इच्छासे संचार करता हुआ वह नारद किसी तरह राजपुर नगरकी यज्ञशालाके समीप पहुँचा और वहाँ पास ही आकाशमे खड़ा होकर मनुष्योंसे भरी हुई यज्ञभूमिको देखने लगा ॥१५९॥ वहाँ बँधे हुए पशुओंको देखकर वह दयासे युक्त हो यज्ञभूमिमे उतरा । वाद-विवाद करनेमे वह पण्डित था ही ॥१६०॥ उसने राजा मरुत्वान्से कहा कि हे राजन् ! तुमने यह क्या प्रारम्भ कर रक्खा है ? तुम्हारा यह प्राणिसमूहकी हिंसाका कार्य दुर्गतिमे जानेवालोंके लिए द्वारके समान है ॥१६१॥ इसके उत्तरमे राजाने कहा कि इस कार्यसे मुझे जो फल प्राप्त होगा वह समस्त शास्त्रोंका अर्थ जाननेमें निपुण यह याजक (पुरोहित) जानता है ॥१६२॥

१. सरहस्याप्यशेषतः म०, व० । २. अणुव्रतानामियम् आणुव्रती ताम् । ३. वृढाम् म० । ४ न यतिर्न गृहस्थः किन्तु तयोर्मध्यगतः अवद्वारसमः । ५. कान्दर्प- ख०, म० । ६. गीतेन वित्तो गीतचुञ्चुः 'तेन वित्त-श्चुञ्चुपक्षणपौ' इति चुञ्चुप्रात्ययः । गीतचञ्चु. म०, क०, ख०, व० । ७ मरुतञ्च म० ।

आर्तिजीन ततोऽत्रादीदहो माणवक त्वया । किमिदं प्रस्तुत दृष्टं सर्वज्ञैर्दुःखकारणम् ॥१६३॥
 संवर्तः कुपितोऽत्रोचदहोऽत्यन्तविमूढता । यदत्यन्तमसबद्धं भापसे हेतुवर्जितम् ॥१६४॥
 भवतो यो मतः कोऽपि सर्वज्ञो रागवर्जितः । वैकृत्वाद्युपपत्तिभ्यो नासावेवं तथेतरः ॥१६५॥
 अशुद्धैः कर्तृभिः प्रोक्तं वचनं स्यान्मलीमसम् । अनोदृशञ्च नो कश्चिदुपपत्तेरभावतः ॥१६६॥
 तस्मादकर्तृकोः वेदः प्रमाण स्यादतीन्द्रिये । वर्णत्रयस्य यज्ञे च कर्म तेन प्रकीर्तितम् ॥१६७॥
 अपूर्वाख्यो ध्रुवो धर्मो यागेन प्रकटीकृतः । प्रयच्छति फल स्वर्गे मनोज्ञविषयोत्थितम् ॥१६८॥
 अन्तर्वेदि पशूनां च प्रत्यवायाय नो वधः । शास्त्रेण चोदितो यस्माद्यायाद्यागादिसेवनम् ॥१६९॥
 पशूना च वितानार्थं कृता सृष्टिः स्वयंभुवा । तस्मात्तदर्थसर्गाणां को दोषो विनिपातने ॥१७०॥
 इत्युक्ते नारदोऽत्रोचदवधं निखिल त्वया । भाषितं शृणु दुर्ग्रन्थभावनादूषितात्मना ॥१७१॥
 यदि सर्वप्रकारोऽपि सर्वज्ञो नास्ति स त्रिधा । शब्दार्थबुद्धिभेदेन स्ववाचा स्थितितो हताः ॥१७२॥
 अथ शब्दश्च बुद्धिश्च विद्यतेऽर्थस्तु नेप्यते । नैवमेतत्त्रयं दृष्ट यस्मात् सर्वगवादिषु ॥१७३॥
 असत्यर्थं नितान्तं च कुरुते क्व पद मतिः । शब्दो वा स तथाभूतो ब्रजेद्धीवाग्व्यतिक्रमम् ॥१७४॥

नारदने याजकसे कहा कि अरे बालक ! तू ने यह क्या प्रारम्भ कर रक्खा है ? सर्वज्ञ भगवान् ने तेरे इस कार्यको दुःखका कारण देखा है ॥१६३॥ नारदकी बात सुन संवर्त नामक याजकने कुपित होकर कहा कि अहो तेरी बड़ी मूर्खता है जो इस तरह बिना किसी हेतुके अत्यन्त असंबद्ध बात बोलता है ॥१६४॥ तुम्हारा जो यह मत है कि कोई पुरुष सर्वज्ञ वीतराग है सो वह सर्वज्ञ वक्ता आदि होनेसे दूसरे पुरुषके समान सर्वज्ञ वीतराग सिद्ध नहीं होता । क्योंकि जो सर्वज्ञ वीतराग है वह वक्ता नहीं हो सकता और जो वक्ता है वह सर्वज्ञ वीतराग नहीं हो सकता ॥१६५॥ अशुद्ध अर्थात् रागी द्वेषी मनुष्योंके द्वारा कहे हुए वचन मलिन होते हैं और इनसे विलक्षण कोई सर्वज्ञ है नहीं, क्योंकि उसका साधक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता । इसलिए अकर्तृक वेद ही तीन वर्णोंके लिए अतीन्द्रिय पदार्थके विषयमे प्रमाण है । उसीमे यज्ञ कर्मका कथन किया है । यज्ञके द्वारा अपूर्व नामक ध्रुवधर्म प्रकट होता है जो जीवको स्वर्गमे इष्ट विषयोसे उत्पन्न फल प्रदान करता है ॥१६६-१६८॥ वेदीके मध्य पशुओंका जो वध होता है वह पापका कारण नहीं है क्योंकि उसका निरूपण शास्त्रमे किया गया है इसलिए निश्चिन्त होकर यज्ञ आदि करना चाहिए ॥१६९॥ ब्रह्माने पशुओंकी सृष्टि यज्ञके लिए ही की है इसलिए जो जिस कार्यके लिए रचे गये है उस कार्यके लिए उनका विघात करनेमे दोष नहीं है ॥१७०॥ संवर्तके इतना कह चुकनेपर नारदने कहा कि तूने सब मिथ्या कहा है । तेरी आत्मा मिथ्या शास्त्रोंकी भावनासे दूषित हो रही है इसीलिए तूने ऐसा कहा है सुन ॥१७१॥ तू कहता है कि सर्वज्ञ नहीं है सो यदि सर्व प्रकारके सर्वज्ञका अभाव है तो शब्दसर्वज्ञ, अर्थसर्वज्ञ और बुद्धि सर्वज्ञ इस प्रकार सर्वज्ञके तीन भेद तूने स्वयं अपने शब्दों द्वारा क्यों कहे ? स्ववचनसे ही तू बाधित होता है ॥१७२॥ यदि तू कहता है कि शब्दसर्वज्ञ और बुद्धिसर्वज्ञ तो है पर अर्थसर्वज्ञ कोई नहीं है तो यह कहना नहीं बनता क्योंकि गो आदि समस्त पदार्थोंमे शब्द अर्थ और बुद्धि तीनों साथ ही साथ देखे जाते हैं ॥१७३॥ यदि पदार्थका बिलकुल अभाव है तो उसके बिना बुद्धि और शब्द कहाँ टिकेंगे अर्थात् किसके आश्रयसे उस प्रकारकी बुद्धि होगी और उस प्रकार शब्द बोला जावेगा । और उस प्रकारका अर्थ बुद्धि और वचनके व्यतिक्रमको प्राप्त हो

१. होतारम् । आर्तिजीनं क०ख० । अर्तिजीनं म० । २. होता । सधर्ता म० । ३. यत्कृत्वाद्युप (?) ।
 ४. स्यादतीन्द्रियैः म० । ५. यज्ञार्थम् । ६. कुत्सितम् । ७. स्ववाचा स्थानतो हताः म०, स्ववाचास्था
 हतोहता ख० ।

बुद्धे सर्वज्ञ इत्येव व्यवहारो गुणागतः । मुख्यापेक्षो यथा चैत्रे सिद्धशब्दप्रवर्तनम् ॥१७५॥
 एतेन चानुमानेन प्रतिज्ञेय विरोधिनी । अभावश्च ममात्यन्तं प्रसिद्धिं न क्वचिद्गतः ॥१७६॥
 सर्वज्ञ सर्वहृक् क्वासौ यस्यैप महिमा भुवि । 'दिवि ब्रह्मपुरे ह्येष 'व्योम्नात्मा सुप्रतिष्ठित' ॥१७७॥
 आगमेन तवानेन विरोधं याति सगरः । अनेकान्ते च साध्यैऽर्थे भवेत्सिद्ध प्रसाधकम् ॥१७८॥
 वक्तृत्व सर्वथाऽयुक्तं न पर प्रतिसिध्यति । असिद्ध च भवेत् स्वस्य स्याद्वादेन समागतम् ॥१७९॥
 'नासावभिमतोऽस्माक वक्तृत्वाद्देवदत्तवत् । इत्याद्यपि भवेत्सिद्ध विरुद्ध साधन यतः ॥१८०॥
 प्रजापत्यादिभिश्चायमुपदेशो न निश्चयः । 'तेऽप्येवमिति चैतेभ्यो दोषवानागमो भवेत् ॥१८१॥
 एक यो वेद तेन स्याज्ज्ञातं सत्तात्मनाखिलम् । अतः साध्यविहीनोऽय दृष्टान्तो गदितस्त्वया ॥१८२॥
 अथ चैकान्तयुक्तोक्तिदृष्टान्तो वो यतस्ततः । साध्यसाधनवैकल्यमुदाहार्यं सधर्मणि ॥१८३॥
 श्रुत्वा वस्तुन्यदृष्टे च प्रमाणं वेदमागतम् । न समाश्रयण युक्तं हेतोः सर्वज्ञदूषणे ॥१८४॥

जायगा ॥१७४॥ बुद्धिमे जो सर्वज्ञका व्यवहार होता है वह गौण है और गौण व्यवहार सदा मुख्यकी अपेक्षा करके प्रवृत्त होता है । जिस प्रकार चैत्रके लिए सिद्ध कहना मुख्य सिद्धकी अपेक्षा रखता है उसी प्रकार बुद्धिसर्वज्ञ वास्तविक सर्वज्ञकी अपेक्षा रखता है ॥१७५॥ इस प्रकार इस अनुमानसे तुम्हारी 'सर्वज्ञ नहीं है' इस प्रतिज्ञामें विरोध आता है तथा हमारे मतमें सर्वथा अभाव माना नहीं गया है ॥१७६॥ 'पृथिवीमें जिसकी महिमा व्याप्त है ऐसा यह सर्वदर्शी सर्वज्ञ कहाँ रहता है' इस प्रश्नके उत्तरमें कहा गया है कि दिव्य ब्रह्मपुरमें आकाशके समान निर्मल आत्मा सुप्रतिष्ठित है ॥१७७॥ तुम्हारे इस आगमसे भी प्रतिज्ञावाक्य विरोधको प्राप्त होता है । यदि सर्वथा सर्वज्ञका अभाव होता तो तुम्हारे आगममें उसके स्थान आदिकी चर्चा क्यों की जाती ? और इस प्रकार साध्य अर्थके अनेकान्त हो जानेपर अर्थात् कथञ्चित् सिद्ध हो जानेपर वह हमारे लिए सिद्धसाधन है क्योंकि यही तो हम कहते हैं ॥१७८॥ सर्वज्ञके अभावमे तुमने जो वक्तृत्व हेतु दिया है सो वक्तृत्व तीन प्रकारका होता है—सर्वथाअयुक्त-वक्तृत्व, युक्त वक्तृत्व और सामान्य वक्तृत्व । उनमेसे सर्वथाअयुक्तवक्तृत्व तो बनता नहीं, क्योंकि प्रतिवादीके प्रति वह सिद्ध नहीं है । यदि स्वाद्वादसम्मत वक्तृत्व लेते हो तो तुम्हारा हेतु असिद्ध हो जाता है, क्योंकि इससे निर्दोष वक्ताकी सिद्धि हो जाती है । दूसरे आपके जैमिनि आदिक वेदार्थ वक्ता हम लोगोको भी इष्ट नहीं हैं । वक्तृत्व हेतुसे देवदत्तके समान वे भी सदोष वक्ता सिद्ध होते हैं, इसलिए आपका यह वक्तृत्व हेतु विरुद्ध अर्थको सिद्ध करनेवाला होनेसे विरुद्ध हो जाता है ॥१७९-१८०॥ तथा प्रजापति आदिके द्वारा दिया गया यह उपदेश प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वे भी देवदत्तादिके समान रागी द्वेषी ही हैं और ऐसे रागी द्वेषी पुरुषोसे जो आगम कहा जावेगा वह भी सदोष ही होगा अतः निर्दोष आगमका तुम्हारे यहाँ अभाव सिद्ध होता है ॥१८१॥ एकको जिसने जान लिया उसने सद्रूपसे अखिल पदार्थ जान लिये, अतः सर्वज्ञके अभावकी सिद्धिमें जो तुमने दूसरे पुरुष का दृष्टान्त दिया है उसे तुमने ही साध्यविकल कह दिया है, क्योंकि वह चूँकि एकको जानता है इसलिए वह सबको जानता है इसकी सिद्धि हो जाती है ॥१८२॥ दूसरे तुम्हारे मतसे सर्वथा युक्त वचन बोलनेवाला पुरुष दृष्टान्त रूपसे है नहीं, अतः आपको दृष्टान्तमे साध्यके अभावमे साधनका अभाव दिखलाना चाहिए । अर्थात् जिस प्रकार आप अन्वय दृष्टान्तमें अन्वयव्याप्ति करके घटित बतलाते हैं उसी प्रकार व्यतिरेक दृष्टान्तमे व्यतिरेकव्याप्ति भी घटित करके बतलानी चाहिए । तभी साध्यकी सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं ॥१८३॥ तथा आपके यहाँ सुनकर अदृष्ट वस्तुके

१. दिव्यब्रह्मपुरे म० । २. व्योम्नात्मा म० । ३. आगमेनानुमानेन ख० । ४. न शोचति ततोऽस्माक ख० । ५. तथैवमिति ज० । ६. सधर्मिणि म०, क०, ख० ।

वक्तृत्वस्य विरोधो वा सर्वज्ञत्वेन कः समम् । सति सर्वज्ञतायोगे वक्ता हि सुतरां भवेत् ॥१८५॥
 यो न ज्ञेत् स किं वक्ति वराको मतिदुर्विधः । व्यतिरेकाविनाभावो भावाच्च स्यान्न साधनम् ॥१८६॥
 स्वपक्षोऽयमविद्येय तथा 'रागादिक मलम् । क्षीयतेऽल क्वचिद्धेतोर्धातुहेममल यथा ॥१८७॥
 अस्मदादिमते 'धर्मा अपेक्षितविपर्यया । धर्मत्वादुत्पलद्रव्ये यथा नीलविशेषणम् ॥१८८॥
 कर्त्रभावश्च, वेदस्य युक्त्यभावाच्च युज्यते । कर्तृमत्त्वे तु संसाध्ये दृश्यवद्धेतुमभवः ॥१८९॥
 'युक्तिश्च, 'कर्तृमान् वेदः पदवाक्यादिरूपतः । 'विधेयप्रतिषेधार्थयुक्तत्वान्मैत्रकाव्यवत् ॥१९०॥
 ब्रह्मप्रजापतिप्रायः पुरुषेभ्यश्च सभवः । श्रूयते वेदशास्त्रस्य नापनेतु स शक्यते ॥१९१॥
 स्यात्ते मतिर्न कर्तारः प्रवक्तारः श्रुते' स्मृताः । तथा नाम प्रवक्तारो रागद्वेषादिभिर्युताः ॥१९२॥

विषयमे वेदमे प्रमाणता आती है, अतः वक्तृत्व हेतुके वलसे सर्वज्ञके विषयमे दूषण उपस्थित करनेमें इसका आश्रय करना उचित नहीं है अर्थात् वेदार्थका प्रत्यक्ष ज्ञान न होनेसे उसके वलसे सर्वज्ञके अभावकी सिद्धि नहीं की जा सकती ॥१८४॥ फिर थोड़ा विचार तो करो कि सर्वज्ञताके साथ वक्तृत्वका क्या विरोध है ? मैं तो कहता हूँ कि सर्वज्ञताका सुयोग मिलनेपर यह पुरुष अधिक वक्ता अपने आप हो जाता है ॥१८५॥ जो वैचारा स्वयं नहीं जानता है वह बुद्धिका दरिद्र दूसरोके लिए क्या कह सकता है ? अर्थात् कुछ नहीं । इस प्रकार व्यतिरेक और अविनाभावका अभाव होनेसे वह साधक नहीं हो सकता ॥१८६॥ हमारा पक्ष तो यह है कि जिस प्रकार कि मुवर्णादिक धातुओका मल किसीमे विलकुल ही क्षीण हो जाता है उसी प्रकार यह अविद्या अर्थात् अज्ञान और रागादिक मल कारण पाकर किसी पुरुषमे अत्यन्त क्षीण हो जाते हैं । जिसमें क्षीण हो जाते हैं वही सर्वज्ञ कहलाने लगता है ॥१८७॥ हमारे सिद्धान्तसे पदार्थोंके जो धर्म अर्थात् विशेषण हैं वे अपनेसे विरुद्ध धर्मकी अपेक्षा अवश्य रखते हैं जिस प्रकार कि उत्पल आदिके लिए जो नील विशेषण दिया जाता है उससे यह सिद्ध होता है कि कोई उत्पल ऐसा भी होता है जो कि नील नहीं है । इसी प्रकार पुरुषके लिए जो आपके यहाँ असर्वज्ञ विशेषण है वह सिद्ध करता है कि कोई पुरुष ऐसा भी है जो असर्वज्ञ नहीं है अर्थात् सर्वज्ञ है । यथार्थमे विशेषणकी सार्थकता सम्भव और व्यभिचार रहते ही होती है जैसा कि अन्यत्र कहा गया है 'सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणमर्थवत् । न शैत्येन न चौष्ण्येन वह्निः क्वापि विशिष्यते ।' अर्थात् सम्भव और व्यभिचारके कारण ही विशेषण सार्थक होता है । अग्निके लिए कहीं भी शीत विशेषण नहीं दिया जाता क्योंकि वह सम्भव नहीं है इसी प्रकार कहीं भी उष्ण विशेषण नहीं दिया जाता क्योंकि अग्नि सर्वत्र उष्ण ही होती है । इसी प्रकार तुम्हारे सिद्धान्तानुसार यदि पुरुष असर्वज्ञ ही होता तो उसके लिए असर्वज्ञ विशेषण देना निरर्थक था । उसकी सार्थकता तभी है जब किसी पुरुषको सर्वज्ञ माना जावे ॥१८८॥ 'वेदका कोई कर्ता नहीं है' यह बात युक्तिके अभावमें सिद्ध नहीं होती अर्थात् अकर्तृत्वकी सङ्गति नहीं बैठती जब कि 'वेदका कर्ता है' इस विषयमें अनेक हेतु सम्भव हैं । जिस प्रकार दृश्यमान घट पटादि पदार्थ सहेतुक होते हैं उसी प्रकार 'वेद सकर्ता है' इस विषयमें भी अनेक हेतु सम्भव हैं ॥१८९॥ चूँकि वेद पद और वाक्यादि रूप हैं तथा विधेय और प्रतिषेध्य अर्थसे युक्त हैं अतः कर्तृमान् है किसीके द्वारा बनाया गया है । जिस प्रकार मैत्रका काव्य पदवाक्य रूप होनेसे सकर्तृक है उसी प्रकार वेद भी पदवाक्य रूप होनेसे सकर्तृक है ॥१९०॥ इसके साथ लोकमें यह सुना जाता है कि वेदकी उत्पत्ति ब्रह्मा तथा प्रजापति आदि पुरुषोंसे हुई है सो इस प्रसिद्धिका दूर क्रिया जाना शक्य नहीं है ॥१९१॥ सम्भवतः तुम्हारा यह विचार हो कि ब्रह्मा आदि वेदके

१. यागादिक म० । २. धर्मे आपेक्षित विपर्ययः म०, ख०, व० । ३. युक्तेश्च म० । युक्तश्च ख० ।
 ४. कृत्रिमो ख० । ५. विधेयप्रतिषेधार्थं म० ।

सुमर्वज्ञाश्च किं कुर्युरन्यथा ग्रन्थदेशनम् । अर्थस्य चान्यथाख्यान प्रमाणं तन्मतं यतः ॥१९३॥
 चातुर्विध्यं च यजाल्या तत्र युक्तमहेतुकम् । ५ज्ञान देहविशेषस्य न च श्लोकाग्निमसभवात् ॥१९४॥
 दृश्यते जातिभेदस्तु यत्र तत्रास्य सभव । मनुष्यहस्तिवालेयगोवाजिप्रभृतौ यथा ॥१९५॥
 न च जात्यन्तररूपेण पुरुषेण स्त्रिया क्वचित् । क्रियते गर्भमभूतिर्विप्रादीना तु जायते ॥१९६॥
 अग्न्याया रासभेनास्ति संभवोऽस्येति चेन्न स । नितान्तमन्यजातिस्थः ६ शफादितनुसाम्यतः ॥१९७॥
 यदि वा तद्देव स्याद् द्वयोर्विसदृश सुतः । नात्र दृष्ट तथा तस्माद् गुणैर्वर्णव्यवस्थितिः ॥१९८॥
 मुखान्द्रिमभवश्चापि ब्रह्मणो योऽभिधीयते । निर्हेतुः स्वगेहेऽसौ शोभते भापमाणक ॥१९९॥
 ऋषिशृङ्गादिकानां च मानवानां प्रकीर्त्यते । ब्राह्मण्य गुणयोगेन न तु तद्योनिसभवात् ॥२००॥
 बृहत्त्वाद् भगवान् ब्रह्मा नैभ्यस्तस्य ये जनाः । भक्ताः सन्तस्तु पश्यन्ति ब्राह्मणास्ते प्रकीर्तिताः ॥२०१॥
 क्षत्रियास्तु क्षत्राणाद् वैश्या शिल्पप्रवेगनात् । श्रुतात् सदागमाद् ये तु दुतास्ते शूद्रसञ्जिता ॥२०२॥

कर्ता नहीं है किन्तु प्रवक्ता अर्थात् प्रवचन करनेवाले है तो वे प्रवचनकर्ता आपके मतसे राग द्वेषादिसे युक्त ही ठहरेगे ॥१९२॥ और यदि सर्वज्ञ है तो वे ग्रन्थका अन्यथा उपदेश कैसे देगे और अन्यथा व्याख्यान कैसे करेगे, क्योंकि सर्वज्ञ होनेसे उनका मत प्रमाण है । इस प्रकार विचार करनेपर सर्वज्ञकी ही सिद्धि होती है ॥१९३॥

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रके भेदसे जो जातिके चार भेद हैं वे विना हेतुके युक्तिसङ्गत नहीं है । यदि कहो कि वेदवाक्य और अग्निके संस्कारसे दूसरा जन्म होनेके कारण उनके देहविशेषका ज्ञान होता है सो यह कहना भी युक्त नहीं है ॥१९४॥ हाँ जहाँ-जहाँ जाति-भेद देखा जाता है वहाँ-वहाँ शरीरमें विशेषता अवश्य पाई जाती है जिस प्रकार कि मनुष्य, हाथी, गधा, गाय, घोड़ा आदिमें पाई जाती है ॥१९५॥ इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि अन्य जातीय पुरुषके द्वारा अन्य जातीय स्त्रीमें गर्भोत्पत्ति नहीं देखी जाती परन्तु ब्राह्मणादिकमें देखी जाती है । इससे सिद्ध है कि ब्राह्मणादिकमें जातिवैचित्र्य नहीं है ॥१९६॥ इसके उत्तरमें यदि तुम कहो कि गधेके द्वारा घोड़ीमें गर्भोत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए उक्त युक्ति ठीक नहीं है ? तो ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि गधा और घोड़ा दोनों अत्यन्त भिन्न जातीय नहीं है क्योंकि एक खुर आदिकी अपेक्षा उनके शरीरमें समानता पाई जाती है ॥१९७॥ अथवा दोनोंमें भिन्नजातीयता ही है यदि ऐसा पक्ष है तो दोनोंकी जो सन्तान होगी वह विसदृश ही होगी जैसे कि गधा और घोड़ीके समागमसे जो सन्तान होगी वह न घोड़ा ही कहलावेगी और न गधा ही । किन्तु खच्चर नामकी धारक होगी किन्तु इस प्रकार सन्तानकी विसदृशता ब्राह्मणादिमें नहीं देखी जाती इससे सिद्ध होता है कि वर्णव्यवस्था गुणोंके आधीन है जातिके आधीन नहीं है ॥१९८॥ इसके अतिरिक्त जो यह कहा जाता है कि ब्राह्मणकी उत्पत्ति ब्रह्माके मुखसे हुई है, क्षत्रियकी उत्पत्ति भुजासे हुई है, वैश्यकी उत्पत्ति जंघासे हुई है और शूद्रकी उत्पत्ति पैरसे हुई है सो ऐसा हेतुहीन कथन करनेवाला अपने घरमें ही शोभा देता है सर्वत्र नहीं ॥१९९॥ तथा ऋषिशृङ्गा आदि मानवोंमें जो ब्राह्मणता कही जाती है वह गुणोंके संयोगसे कही जाती है ब्राह्मण योनिमें उत्पन्न होनेसे नहीं कही जाती ॥२००॥ वास्तवमें समस्त गुणोंके वृद्धिगत होनेके कारण भगवान् ऋषभदेव ब्रह्मा कहलाते हैं और जो सत्पुरुष उनके भक्त हैं वे ब्राह्मण कहे जाते हैं ॥२०१॥ क्षत्र अर्थात् विनाशसे त्राण अर्थात् रक्षा करनेके कारण क्षत्रिय कहलाते हैं, शिल्प अर्थात् वस्तुनिर्माण या व्यापारमें प्रवेश करनेसे लोग वैश्य कहे जाते हैं और

१ चान्यथाख्यान ख० । अर्थस्येवान्यथाख्यान व० । २ तन्मय क०, व० । ३ तत्र म० । ४. जान देह—म० 'ज' जानदेहस्य शेषस्य न च—ख० । ५. न श्लोकाग्निमसभवात् क० । ६ जातिस्थशफादि म० । ७. वृषभजिनेन्द्रः ।

न जातिर्गर्हिता काचिद्गुणाः कल्याणकारणम् । व्रतस्यमपि चाण्डालं न देवा ब्राह्मणं विदुः ॥२०३॥
 विद्याविनयममन्ते ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः ॥२०४॥
 जानुर्वर्णं यथान्यत्र चाण्डालादिविगणम् । सर्वसाधारभेदेन प्रसिद्धिं सुवने गतम् ॥२०५॥
 अपूर्वास्त्यश्च धर्मो न व्यज्यते यागकर्मणा । नित्यन्वाट् व्योमवद् व्यक्तेरित्यो वा वटादिवत् ॥२०६॥
 फलं रूपपरिच्छेदः प्रदीपव्यक्त्यनन्तरम् । दृष्टं यथेह चापूर्ववल्किलं फलं भवेत् ॥२०७॥
 शास्त्रेण चोदितत्वाच्च वेदीमध्ये पशोर्वधः । प्रत्यवायाय जेत्येतदयुक्तं येन तच्छृणु ॥२०८॥
 वेदागमस्य शास्त्रन्वसमिदं शास्त्रमुच्यते । तद्वि यन्मातृवन्द्यान्नि यवस्मै जगते हितम् ॥२०९॥
 प्रायश्चित्तं च निर्दोषं वक्तुं कर्मणि नोचितम् । अत्र तूक्तं नतो दृष्टं तच्चेदमभिधीयते ॥२१०॥
 राजानं हन्त्यानां सोमं वीरं वा नाकवामिनाम् । सोमेन यो यजेत्तस्य दक्षिणा द्वादशं शतम् ॥२११॥
 शोधयन्नत्र देवानां शतं वीरं प्रतर्पणम् । प्राणानां दश कुर्वन्ति यज्ञादग्न्यामनस्तुना ॥२१२॥
 द्वादशी दक्षिणा या तु दक्षिणा मैव केवलम् । इतराणां च दोषाणां व्यापारो विनिवर्तने ॥२१३॥

श्रुत अर्थान् प्रशान्त आगमसे जो दूर रहते हैं वे शूद्र कहलाते हैं ॥२०२॥ कोई भी जाति निन्दनीय नहीं है- गुण ही कल्याण करनेवाले हैं। यही कारण है कि व्रत धारण करनेवाले चाण्डालको भी गणधरादि देव ब्राह्मण कहते हैं ॥२०३॥ विद्या और विनयसे सन्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चाण्डाल आदिके विषयमें जो समदर्शी हैं वे पण्डित कहलाते हैं अथवा जो पण्डितजन हैं वे इन सबमें समदर्शी होते हैं ॥२०४॥ इस प्रकार ब्राह्मणादिक चार वर्ण और चाण्डाल आदि विशेषणोंका जितना अन्य वर्णन है वह सब आचारके भेदसे ही संसारमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ है ॥२०५॥

इसके पूर्व तुमने कहा था कि यज्ञसे अपूर्व अथवा अद्भुत नामका धर्म व्यक्त होता है सो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि अपूर्व धर्म तो आकाशके समान नित्य है वह कैसे व्यक्त होगा ? और यदि व्यक्त होता ही है तो फिर वह नित्य न रहकर घटादिके समान अनित्य होगा ॥२०६॥ जिस प्रकार दीपकके व्यक्त होनेके बाद रूपका ज्ञान उसका फल होता है उसी प्रकार स्वर्गादिकी प्राप्ति उसी फल भी अपूर्वधर्मके व्यक्त होनेके बाद ही होना चाहिए पर ऐसा नहीं है ॥२०७॥

तुमने कहा है कि वेदीके मध्यमें पशुओंका जो वध होता है वह शास्त्र निरूपित होनेसे पापका कारण नहीं है सो ऐसा कहना अयुक्त है उसका कारण सुनो ॥२०८॥ सर्वप्रथम तो वेद शास्त्र है यही बात असिद्ध है क्योंकि शास्त्र वह कहलाता है जो माताके समान समस्त संसारके लिए हितका उपदेश दे ॥२०९॥ जो कार्य निर्दोष होता है उसमें प्रायश्चित्तका निरूपण करना उचित नहीं है परन्तु इस यात्रिक हिसामें प्रायश्चित्त कहा गया है इसलिए वह सद्दोष है। उस प्रायश्चित्तका कुछ वर्णन यहाँ किया जाता है ॥२१०॥ जो सोमयज्ञमें सोम अर्थान् चन्द्रमाके प्रतीक रूप सोम लतासे यज्ञ करता है जिसका तात्पर्य होता है कि वह देवोंके वीर सोम राजाका हतन करता है उसके इस यज्ञकी दक्षिणा एकसौ बारह गौ है ॥२११॥ इन एकसौ बारह दक्षिणाओंमेंसे सौ दक्षिणाएँ देवोंके वीर सोमका शोधन करती हैं, दस दक्षिणाएँ प्राणोंका तर्पण करती हैं- ग्यारहवीं दक्षिणा आत्माके लिए है और जो बारहवीं दक्षिणा है वह केवल दक्षिणा ही

१. मन्त्रिर्वायते म० । २. 'अस्माकं सोमो राजा' इति श्रुत्या विशेषणविशेष्यभावः । ३. द्वादशा क० । 'गवां शतं द्वादशं वाऽक्तिनामति' का० श्रौ० १०।२।१० । 'यथारम्भं द्वादश द्वादशाद्येभ्यः पद् पद् द्विती-
 केभ्यश्चतुर्वधश्चतसृणांयेभ्यस्त्रिंशत् इतरेभ्यः । कल्याणनर्थात्तद्वत्. १०।२।२१ । ४. शुभा क० ।

१ तथा च यत्पशुर्मायुर्मृतोरोदवाहना (१) । पादाभ्यामेनसस्तस्माद्विश्वस्मान्मुञ्च^३ त्वनल^४ ॥२१४॥
 एवमादि च बह्वेव गदित दोपनोदनम् । आगमेन ततोऽन्येन व्यभिचारोऽत्र विद्यते ॥२१५॥
 पशोर्मध्ये वधो वेधा प्रत्यवायाय कश्यते । तस्य दुःखनिमित्तत्वाद् यथा व्याघ्रकृतो वध ॥२१६॥
 स्वयमुवा च लोकस्य सर्गो नेयति सत्यताम् । विचार्यमाणमेतद्धि पुराणतृणदुर्वलम् ॥२१७॥
 कृतार्थो यद्यसौ सृष्टौ तस्या किं स्यात्प्रयोजनम् । क्रीडेति चेत्कृतार्थोऽसौ न भवत्यर्भको यथा ॥२१८॥
 साक्षादेव रतिं कस्मान्न सृजेत् स विनेतरैः । सृजतो वास्य के भावा ब्रजेयु करणादिताम् ॥२१९॥
 किञ्चोपकारिणः केचित् केचिद्वास्यापकारिणः । सुखिनः कुरुते काश्चिद् येन काश्चिच्च दुःखिन ॥२२०॥
 अथ नैव कृतार्थोऽसावेवं तर्हि स नेश्वरः । कर्मणा परतन्त्रत्वाद् यथा कश्चिद् भवद्विध ॥२२१॥
 सुबुद्धिनरयत्नोत्थसस्थानाः कमलादयः । विशिष्टाकारयुक्तत्वाद् रथ वेश्मादयो यथा ॥२२२॥
 यद्बुद्धिपूर्वका एते भविष्यन्ति स ईश्वरः । इत्येतच्च न सम्यक्त्वं ब्रजत्येकान्तवादिन ॥२२३॥

है । अन्य दक्षिणाओका व्यापार तो दोपोंके निवारण करनेमे होता है ॥२१२-१३॥ तथा पशु यज्ञमे यदि पशु यज्ञके समय शब्द करे या अपने अगले दोनो पैरोंसे छाती पीटे तो हे अनल । तुम मुझे इससे होनेवाले समस्त दोषसे मुक्त करो ॥२१४॥ इत्यादि रूपसे जो दोपोंके बहुतसे प्राथमिकत कहे गये हैं उनके त्रिपयमे अन्य आगमसे प्रकृतमे विरोध दिखाई देता है ॥२१५॥

जिस प्रकार व्याधके द्वारा किया हुआ वध दुःखका कारण होनेसे पापबन्धका निमित्त है उसी प्रकार वेदीके बीचमे पशुका जो वध होता है वह भी उसे दुःखका कारण होनेसे पापबन्धका ही निमित्त है ॥२१६॥

‘ब्रह्माके द्वारा लोककी सृष्टि हुई है’ यह कहना भी सत्य नहीं है क्योंकि विचार करनेपर ऐसा कथन जीर्णनृणके समान निस्सार जान पड़ता है ॥२१७॥ हम पूछते हैं कि जब ब्रह्मा कृतकृत्य है तो उसे सृष्टिकी रचना करनेसे क्या प्रयोजन है ? कहो कि क्रीडावश वह सृष्टिकी रचना करता है तो फिर कृतकृत्य कहीं रहा ? जिस प्रकार क्रीडाका अभिलाषी बालक अकृतकृत्य है उसी प्रकार क्रीडाका अभिलाषी ब्रह्मा भी अकृतकृत्य कहलायगा ॥२१८॥ फिर ब्रह्मा अन्य पदार्थोंके बिना स्वयं ही रतिको क्यों नहीं प्राप्त हो जाता ? जिससे सृष्टि निर्माणकी कल्पना करनी पडी । इसके सिवाय एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब ब्रह्मा सृष्टिकी रचना करता है तो इसके सहायक करण अधिकरण आदि कौनसे पदार्थ हैं ? ॥२१९॥ फिर संसारमे सब लोग एक सद्दश नहीं हैं, कोई सुखी देखे जाते हैं और कोई दुखी देखे जाते हैं । इससे यह मानना पडेगा कि कोई लंग तो ब्रह्माके उपकारी हैं और कोई अपकारी हैं । जो उपकारी हैं उन्हें यह सुखी करता है और कोई अपकारी हैं उन्हें यह दुःखी करता है ॥२२०॥ इस सब विसंवादसे बचनेके लिए यदि यह माना जाय कि ईश्वर कृतकृत्य नहीं है तो वह कर्मोंके परतन्त्र होनेके कारण ईश्वर नहीं कहलावेगा जिस प्रकार कि आप कर्मोंके परतन्त्र होनेके कारण ईश्वर नहीं है ॥२२१॥ जिस प्रकार रथ मकान आदि पदार्थ विशिष्ट आकारसे सहित होनेके कारण किसी बुद्धिमान् मनुष्यके प्रयत्नसे निर्मित माने जाते हैं उसी प्रकार कमल आदि पदार्थ भी विशिष्ट आकारसे युक्त होनेके कारण किसी बुद्धिमान् मनुष्यके प्रयत्नसे रचित होना चाहिए । “जिसकी बुद्धिसे इन सबकी रचना होती है वही ईश्वर है” इस अनुमानसे सृष्टिकर्ता ईश्वरकी सिद्धि होती है सो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि एकान्तवादीका उक्त अनुमान समीचीनताको प्राप्त नहीं

१. तथापि ख० । २. माय म० । ३. मुञ्चातनलः म० । ४. नल क० । ‘यत्पशुर्मायुर्मृतोरो वा पद्विराहते । अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान् मुञ्चत्व हसः । (काल्यायन श्रौतसूत्र २५।६) १३। ५. च नैव ख० ।

सुबुद्धिनरयत्नोत्था' सर्वथा न रथादयः । व्यवस्थित यतस्तत्र द्रव्य चैवोपजन्यते ॥२२४॥
 क्लेशाद्विद्युक्ता चास्य व्यश्नुते तत्तत्कादिवत् । नामकर्म च मैव स्यादीश्वरो यस्त्वयेष्यते ॥२२५॥
 विशिष्टाकारसन्नद्धमीश्वरस्य पुनर्वपु । ईश्वरान्तरयत्नोत्थमिष्यतेऽतो न निश्चयः ॥२२६॥
 अपरेश्वरयत्नोत्थमथैतदपि कल्प्यते । सत्येवमनवस्था स्यान्न च स्वस्याभिसर्जनम् ॥२२७॥
 शरीरमथ नैवास्य विद्यते नैप सर्जक' । अमूर्तत्वाद् यथाकाशं तत्त्ववद् वा सविग्रह' ॥२२८॥
 यजनार्थं च सृष्टाना पञ्जा वाहनादिकम् । क्रियमाण विरुद्धयेत तद्धि स्तेय प्रकल्प्यते ॥२२९॥
 अत कर्मभिरेवेद रागादिभिहपाजितै । वैचित्र्य व्यश्नुते विश्वमनादौ भवसागरे ॥२३०॥
 कर्म किं पूर्वमाहोस्त्रिच्छरीरमिति नेदृशः । युक्त प्रश्नो भवेऽनादौ बीजपादपर्यया ॥२३१॥
 अन्तोऽपि तर्हि न स्याच्चेत्तन्न बीजविनाशत । दृष्टा हि पादपोद्भूतेरसंभूतिरिदं तथा ॥२३२॥
 तस्माद् द्विष्टेन केनापि प्राणिना पापकर्मणा । कुप्रन्धरचना कृत्वा यज्ञकर्म प्रवर्तितम् ॥२३३॥
 सप्राप्तोऽसि कुले जन्म दुद्धिमानसि मानवः । निवर्तस्व ततः पापादेतस्माद् व्याधकर्मण ॥२३४॥
 यदि प्राणिवधः स्वर्गसप्राप्तौ कारणं भवेत् । ततः शून्यो भवेदेप लोकोऽहपैरेव चामरैः ॥२३५॥

है ॥२२०-२२३॥ विचार करनेपर जान पड़ता है कि रथ आदि जितने पदार्थ हैं वे सब एकान्तसे बुद्धिमान् मनुष्यके प्रयत्नसे ही उत्पन्न होते हैं ऐसी बात नहीं है । क्योंकि रथ आदि वस्तुओंमें जो लकड़ी आदि पदार्थ अवस्थित है वही रथादि रूप उत्पन्न होता है ॥२२४॥ जिस प्रकार रथ आदिके बनानेमें वड़ई आदिको क्लेश उठाना पड़ता है उसी प्रकार ईश्वरको भी सृष्टिके बनानेमें क्लेश उठाना पड़ता होगा । इस तरह उसके सुखी होनेमें बाधा प्रतीत होती है । यथार्थमें तुम जिसे ईश्वर कहते हो वह नाम कर्म है ॥२२५॥ एक प्रश्न यह भी उठता है कि ईश्वर सशरीर है या अशरीर ? यदि अशरीर है तो उससे मूर्तिक पदार्थोंका निर्माण सम्भव नहीं है । यदि सशरीर है तो उसका वह विशिष्टाकारवाला शरीर किसके द्वारा रचा गया है ? यदि स्वयं रचा गया है तो फिर दूसरे पदार्थ स्वयं क्यों नहीं रचे जाते ? यदि यह माना जाय कि वह दूसरे ईश्वरके यत्नसे रचा गया है तो फिर यह प्रश्न उपस्थित होगा कि उस दूसरे ईश्वरका शरीर किसने रचा ? इस तरह अनवस्था दीप उत्पन्न होगा । इस विसंवादसे बचनेके लिए यदि यह माना जाय कि ईश्वरके शरीर है ही नहीं तो फिर अमूर्तिक होनेसे वह सृष्टिका रचयिता कैसे होगा ? जिस प्रकार अमूर्तिक होनेसे आकाश सृष्टिका कर्ता नहीं है उसी प्रकार अमूर्तिक होनेसे ईश्वर भी सृष्टिका कर्ता नहीं हो सकता । यदि वड़ईके समान ईश्वरको कर्ता माना जाय तो वह सशरीर होगा न कि अशरीर ॥२२६-२२८॥

और तुमने जो कहा कि ब्रह्माने पशुओंकी सृष्टि यज्ञके लिए ही की है सो यदि यह सत्य है तो फिर पशुओंसे बोझा ढोना आदि काम क्यों लिया जाता ? इसमें विरोध आता है विरोध ही नहीं यह तो चोरी कहलावेगी ॥२२९॥ इससे यह सिद्ध होता है कि रागादि भावोंसे उपार्जित कर्मोंके कारण ही समस्त लोग अनादि संसारसागरमें विचित्र दशाका अनुभव करते हैं ॥२३०॥ कर्म पहले होता है कि शरीर पहले होता है ? ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं है क्योंकि इन दोनोंका सम्बन्ध बीज और वृक्षके समान अनादि कालसे चला आ रहा है ॥२३१॥ कर्म और शरीरका सम्बन्ध अनादि है इसलिए इसका कभी अन्त नहीं होगा ऐसा कहना भी उचित नहीं है क्योंकि जिस प्रकार बीजके नष्ट हो जानेसे वृक्षकी उत्पत्तिका अभाव देखा जाता है उसी प्रकार कर्मके नष्ट होनेसे शरीरका अभाव भी देखा जाता है ॥२३२॥ इसलिए पाप कार्य करनेवाले किसी द्वेषी पुरुषने खोटे शास्त्रकी रचनाकर इस यज्ञ कार्यको प्रचलित किया है ॥२३३॥ तुम उच्च कुलमें उत्पन्न हुए हो और बुद्धिमान् मनुष्य हो इसलिए शिकारियोंके कार्यके समान इस पाप कार्यसे विरत होओ ॥२३४॥ यदि प्राणियोंका वध स्वर्ग प्राप्तिका कारण होता तो थोड़े ही दिनोंमें

प्राप्तेन वापि किं तेन च्युतिर्यस्मात् पुनर्भवेत् । दुःखेन च समासक्तसुखं स्वल्पं च ब्राह्मजम् ॥२३६॥
यदि प्राणिवधाद् ब्रह्मलोकं गच्छन्ति मानवाः । तस्यानुमननात् कस्मात् पतितो नरके वसु ॥२३७॥
उत्तिष्ठ भो वसो स्वर्गं व्रजेति कृतनिस्वनै । सूत्रकण्ठैर्दुराचारै स्वपराशुभकारिभि ॥२३८॥
स्वपत्नानुमतिप्रतिरेक्ष्युष्याद्यापि यद्द्विजै । आहुतिं क्षिप्यते वह्नौ नितान्तं क्रूरमानसै ॥२३९॥
पिप्टेनापि पशु कृत्वा निघ्नन्तो नरकं गता । संकल्पादशुभात् कैव कथेतरपशोर्वधे ॥२४०॥
यज्ञकल्पनया नैव किञ्चिदस्ति प्रयोजनम् । अथापि स्यात्तथाप्येव न कर्तव्या बुधोत्तमै ॥२४१॥
यजमानो भवेदात्मा शरीरं तु वितर्दिका । पुण्ड्रागस्तु संतोष परित्यागस्तथा हवि ॥२४२॥
सूर्धजा एव दर्भाणि दक्षिणा प्राणिरक्षणम् । प्राणायाम सित ध्यानं यस्य सिद्धपद फलम् ॥२४३॥
सन्त्यं यूपस्तपो वह्निर्मानसं चपलं पशु । समिधश्च हृषीकाणि धर्मयज्ञोऽयमुच्यते ॥२४४॥
यज्ञेन क्रियते वृषिर्देवानामिति चेन्मति । 'तत्र तेषां यतोऽस्त्येव दिव्यमन्नं यथेप्सितम्' ॥२४५॥
स्पर्गतो रसतो रूपाद्गन्धाद्येषा मनोहरम् । अन्नमस्ति किमेतेन तेषां मासादिवस्तुना ॥२४६॥
शुक्रगोणितसभृतममेध्य कृमिसभवम् । दुर्गन्धदर्शनं मास भक्षयन्ति कथं सुरा ॥२४७॥
त्रयोऽनयो वपुष्येव ज्ञानदर्शनजाडराः । दक्षिणाग्न्यादिविज्ञानं कार्यं तेष्वेव सूरिभिः ॥२४८॥

यह संसार शून्य हो जाता ॥२३५॥ और फिर उस स्वर्गके प्राप्त होनेसे भी क्या लाभ है ? जिससे फिर च्युत होना पड़ता है । यथार्थमे ब्राह्म पदार्थोंसे जो सुख उत्पन्न होता है वह दुःखसे मिला हुआ तथा परिमाणमे थोड़ा होता है ॥२३६॥ यदि प्राणियोंका वध करनेसे मनुष्य स्वर्ग जाते हैं तो फिर प्राणिवधकी अनुमति मात्रसे वसु नरकमे क्या पड़ा ? ॥२३७॥ वसु नरक गया है इसमे प्रमाण यह है कि दुराचारी, निज और परका अकल्याण करनेवाले दुष्टचेता ब्राह्मण, अपने पक्षके समर्थनसे प्रसन्न हो आज भी 'हे वसो ! उठो, स्वर्ग जाओ' इस प्रकार जोर-जोरसे चिल्लाते हुए अग्निमे आहुति डालते हैं । यदि वसु नरक नहीं गया होता तो उक्त मन्त्र द्वारा आहुति देनेकी क्या आवश्यकता थी ? ॥२३८-२३९॥ चूर्णके द्वारा पशु बनाकर उसका घात करनेवाले लोग भी नरक गये हैं फिर अशुभ संकल्पसे साक्षात् अन्य पशुके वध करनेवाले लोगोंकी तो कथा ही क्या है ? ॥२४०॥ प्रथम तो यज्ञकी कल्पनासे कोई प्रयोजन नहीं है अर्थात् यज्ञकी कल्पना करना ही व्यर्थ है दूसरे यदि कल्पना करना ही है तो विद्वानोंको इस प्रकारके हिंसायज्ञकी कल्पना नहीं करनी चाहिए ॥२४१॥ उन्हें धर्मयज्ञ ही करना चाहिए । आत्मा यजमान है, शरीर वेदी है, संतोष साकल्य है, त्याग होम है, मस्तकके बाल कुशा हैं, प्राणियोंकी रक्षा दक्षिणा है, शुक्लव्यान प्राणायाम है, सिद्धपदकी प्राप्ति होना फल है, सत्य बोलना स्तम्भ है, तप अग्नि है, चञ्चल मन पशु है और इन्द्रियों समिधाएँ हैं । इन सबसे यज्ञ करना चाहिए यही धर्मयज्ञ कहलाता है ॥२४२-२४४॥ यज्ञसे देवोंकी वृत्ति होती है यदि ऐसा तुम्हारा स्याल है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि देवोंको तो मनचाहा दिव्य अन्न उपलब्ध है ॥२४५॥ जिन्हें स्पर्श, रस, गन्ध और रूपकी अपेक्षा मनोहर आहार प्राप्त होता है उन्हें इस मासादि घृणित वस्तुसे क्या प्रयोजन है ? ॥२४६॥ जो रज और वीर्यसे उत्पन्न है, अपवित्र है, कीड़ाका उत्पत्तिस्थान है तथा जिसकी गन्ध और रूप दोनों ही अत्यन्त कुत्सित हैं ऐसे मासको देव लोग किस प्रकार खाते हैं अर्थात् किसी प्रकार नहीं खाते ॥२४७॥ ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और जठराग्नि इस तरह तीन अग्नियों शरीरमें सदा विद्यमान रहती हैं, विद्वानोंको उन्हींमे दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि और आहवनीयाग्नि इन तीन अग्नियोंकी स्थापना करना

१. -मतप्रति- म० । २ शरीरस्तु वितर्दिक. म० । ३. यूपस्ततो म० । ४ तत्र म० ।
५. यथेप्सितम् म० ।

सुरा यदि हुतेनाग्नौ तृप्तिं यान्ति बुभुक्षिताः । 'स्वतो नाम ततो देवास्तृप्तिं किमिति नागता' ॥२४६॥
 ब्रह्मलोकात्किलागत्य दुर्गन्धं योनिज वपुः । चखाद् ध्वाङ्क्षगोमायुसारमेयसमो भवेत् ॥२५०॥
 लालाक्लिन्ने मुखे क्षिप्तं कथं वाञ्छं द्विजातिभिः । विट्पूर्णाकुक्षिसप्रोप्तं तर्पयेत् स्वर्गवासिनः ॥२५१॥
 एव ततो गदन्त तमनेकान्तदिवाकरम् । देवर्षितेजसा दीप्तं शास्त्रार्थज्ञानजन्मना ॥२५२॥
 ऋत्विक्पराजयोद्भूतक्रोधसभारकम्पिताः । वेदार्थाभ्यसनात्यन्तदयानिमुक्तमानसाः ॥२५३॥
 आशीविषसमाशेषदृष्टतारकलोचनाः । आवृत्य सर्वतः क्षुब्धाः कृत्वा कलकलं महत् ॥२५४॥
 बद्ध्वा परिकरं पापाः सूत्रकण्ठाः समुद्धताः । हस्तपादादिभिर्हन्तुं वायसा इव कौशिकम् ॥२५५॥
 नारदोऽपि ततः कांश्चिन्मुष्टिसुदगरताडनैः । पाण्डिनिर्घातपातैश्च कांश्चिदन्यान् यथागतान् ॥२५६॥
 शस्त्रायमाणैर्निःशेषैर्गात्रैरेव सुदुःसहैः । द्विजान् जघान कुर्वाणो रेचकं भ्रमणं बहून् ॥२५७॥
 अथ धनं स चिरात्स्त्रिभ्रजः क्रूरैर्बहुभिरावृतः । गृहीतः सर्वगात्रेषु भक्षन्नाकुलतां पराम् ॥२५८॥
 पक्षीव निविड बद्धः पाशकैरतिदुःखितः । वियदुत्पतनाशक्तः सप्राप्तः प्राणसशयम् ॥२५९॥
 एतस्मिन्नन्तरे दूतो दाशवक्त्रः समागतः । हन्यमानमिमं दृष्ट्वा प्रत्यभिज्ञाय नारदम् ॥२६०॥
 निवृत्य त्वरयात्यन्तमेव रावणमब्रवीत् । यस्यान्तिकं महाराज दूतोऽहं प्रेषितस्त्वया ॥२६१॥

चाहिए ॥२४८॥ यदि भूखे देव होम किये गये पदार्थसे तृप्तिको प्राप्त होते हैं तो वे स्वयं ही क्यों नहीं तृप्तिको प्राप्त हो जाते, मनुष्योंके होमको माध्यम क्यों बनाते हैं ? ॥२४६॥ जो देव ब्रह्मलोकसे आकर योनिसे उत्पन्न होनेवाले दुर्गन्ध युक्त शरीरको खाता है वह कौए, शृगाल और कुत्तेके समान है ॥२५०॥

इसके सिवाय तुम श्राद्धतर्पण आदिके द्वारा मृत व्यक्तियोंकी तृप्ति मानते हो सो जरा विचार तो करो । ब्राह्मण लोग लारसे भीगे हुए अपने मुखमें जो अन्न रखते हैं वह मलसे भरे पेटमें जाकर पहुँचता है । ऐसा अन्न स्वर्गवासी देवताओको तृप्त कैसे करता होगा ? ॥२५१॥ इस प्रकार शास्त्रोके अर्थज्ञानसे उत्पन्न, देवर्षिके तेजसे देदीप्यमान, उक्त कथन करते हुए नारदजी अनेकान्तके सूर्यके समान जान पड़ते थे ॥२५२॥ ब्राह्मणोंने उन्हें सब ओरसे घेर लिया । उस समय वे ब्राह्मण याजककी पराजयसे उत्पन्न क्रोधके भारसे कम्पित थे, वेदार्थका अभ्यास करनेके कारण उनके हृदय दयासे रहित थे ॥२५३॥ सर्पके समान उनकी आँखोंकी पुतलियों सबको दिख रही थीं और लुभित हो सब ओरसे बड़ा भारी कल-कल कर रहे थे ॥२५३-२५४॥ वे सब ब्राह्मण कमर कसकर हस्तपादादिकसे नारदको मारनेके लिए ठीक उस तरह तैयार हो गये जिस प्रकार कि कौए उल्लूको मारनेके लिए तैयार हो जाते हैं ॥२५५॥ तदनन्तर नारद भी उनमेंसे कितने ही लोगोंको मुड्डियोरूपी मुद्गरोंकी मारसे और कितने ही लोगोंको एड़ीरूपी वज्रपातसे मारने लगा ॥२५६॥ उस समय नारदके समस्त अवयव अत्यन्त दुःसह शस्त्रोके समान जान पड़ते थे उन सबसे उसने घूम-घूमकर बहुतसे ब्राह्मणोंको मारा ॥२५७॥ अथानन्तर चिरकाल तक ब्राह्मणोंको मारता हुआ खेद खिन्न हो गया उसे बहुतसे दुष्ट ब्राह्मणोंने घेर लिया, वे उसे समस्त शरीरमें मारने लगे जिससे वह परम आकुलताको प्राप्त हुआ ॥२५८॥ जिस प्रकार जालसे कसकर बंधा पक्षी अत्यन्त दुखी हो जाता है और आकाशमें उड़नेमें असमर्थ होता हुआ प्राणोके संशयको प्राप्त होता है ठीक वही दशा उस समय नारदकी थी ॥२५९॥

इसी बीचमें रावणका दूत आ रहा था सो उसने पिटते हुए नारदको देखकर पहिचान लिया ॥२६०॥ उसने शीघ्र ही लौटकर रावणसे इस प्रकार कहा कि हे महाराज ! मुझ दूतको आपने जिसके पास भेजा था वह अकेला ही राजाके देखते हुए बहुतसे दुष्ट ब्राह्मणोंके द्वारा उस

राज्ञः पश्यत एवास्य नारदो बहुभिर्द्विजैः । एकाकी हन्यते क्रूरैः शलभैरिव पन्नग ॥२६२॥
 अशक्तस्तत्र राजानमहं दृष्ट्वा भयार्दितः । निवेदयितुमायातो वृत्तान्तमिति दारुणम् ॥२६३॥
 तमुदन्तं तत श्रुत्वा रावण कोपमागतः । वितानघरणीं गन्तु प्रवृत्तो जविवाहनः ॥२६४॥
 यमीररंहसश्चास्य पुरं सप्रस्थिता नरा । परिवारविनिर्मुक्तखड्गा सूक्कारभासिता ॥२६५॥
 निमेषेण मखक्षोणीं प्राप्ता दर्शनमात्रतः । व्यमोचयन् दयायुक्ता नारद शत्रुपञ्जरात् ॥२६६॥
 निखिशनरवृन्दैश्च रक्षिता पशुसहति । मोचिता तै सहकारं चक्षुर्निक्षेपमात्रतः ॥२६७॥
 भज्यमानस्ततो यूपस्ताड्यमानैर्द्विजातिभिः । पशुभिर्मुच्यमानैश्च जात साराविर्णं महत् ॥२६८॥
 अब्रह्मण्यकृतारावास्ताड्यन्ते तावदेकशः । यावन्निपतिता भूमौ विश्वे^१ निस्पन्दविग्रहा^२ ॥२६९॥
 भटैश्च^३ पर्यचोद्यन्त यथा^४ वो दुःखमप्रियम् । सुखं च दयित^५ तद्वत्पशूनामपि दृश्यताम् ॥२७०॥
 यथा हि जीवितं कान्तं त्रैलोक्यस्यापि भावतः । भवतात् सर्वजन्तूनामियमेव^६ व्यवस्थितिः ॥२७१॥
 भवता ताड्यमानानां कष्टा तावदिय व्यथा । शस्त्रैर्विशस्यमानानां पशूना तु किमुच्यताम् ॥२७२॥
 दुष्कृतस्याधुना पापाः सहध्वं फलमागतम् । येन नो पुनरप्येव कुरुध्व पुरुपाधमाः ॥२७३॥
 सुत्रामापि समं देवैर्यथायाति तथापि न । अस्मत्स्वामिनि व क्रुद्धे जायते परिरक्षणम् ॥२७४॥
 अश्वैर्मतङ्गजैस्तस्यै रथस्थैर्गगनस्थितैः । भूमिस्थैः पुरुषैरखैराहन्यन्ते द्विजातयः ॥२७५॥

तरह मारा जा रहा है जिस प्रकार कि बहुतसे दुष्ट पतंगे किसी साँपको मारते हैं ॥२६१॥-२६२॥
 मैं शक्तिहीन था और राजाको वहाँ देख भयसे पीड़ित हो गया इसलिए यह दारुण वृत्तान्त
 आपसे कहनेके लिए दौड़ा आया हूँ ॥२६३॥ यह समाचार सुनते ही रावण क्रोधको प्राप्त हुआ
 और वेगशाली वाहनपर सवार हो यज्ञभूमिमें जानेके लिए तत्पर हुआ ॥२६४॥ वायुके समान
 जिनका वेग था, जो म्यानोंसे निकली हुई नंगी तलवारें हाथमें लिये थे और सू सू शब्दसे
 सुशोभित थे ऐसे रावणके सिपाही पहले ही चल दिये थे ॥२६५॥ वे पलभरमें यज्ञभूमिमें जा
 पहुँचे । वहाँ जाकर उन दयालु पुरुषोंने दृष्टिमात्रसे नारदको शत्रुरूपी पिंजड़ेसे मुक्त करा दिया
 ॥२६६॥ क्रूर मनुष्य जिस पशुओंके झुण्डकी रक्षा कर रहे थे उसे उन्होंने आँखके इशारे मात्रसे
 छुड़वा दिया ॥२६७॥ यज्ञके खम्भे तोड़ डाले, ब्राह्मणोंको पिटाई लगाई और पशुओंको
 बन्धनसे छोड़ दिया । इन सब कारणोंसे वहाँ बड़ा भारी कोलाहल मच गया ॥२६८॥ 'अत्रह्राण्यं'
 'अत्रह्राण्यं' की रट लगानेवाले एक-एक ब्राह्मणको इतना पीटा कि जब तक वे निश्चेष्ट शरीर होकर
 भूमिपर गिर न पड़े तब तक पीटते ही गये ॥२६९॥ रावणके योद्धाओंने उन ब्राह्मणोंसे पूछा कि
 जिस प्रकार आप लोगोंको दुःख अप्रिय लगता है और सुख प्रिय जान पड़ता है उसी तरह इन
 पशुओंको भी लगता होगा ॥२७०॥ जिस प्रकार तीन लोकके समस्त जीवोंको हृदयसे अपना जीवन
 अच्छा लगता है उसी प्रकार इन समस्त जन्तुओंकी भी व्यवस्था जाननी चाहिए ॥२७१॥ आप
 लोगोंको जो पिटाई लगी है उससे आप लोगोंकी यह कष्टकारी अवस्था हुई है फिर शस्त्रोंसे मारे
 गये पशुओंकी क्या दशा होती होगी सो आप ही कहो ॥२७२॥ अरे पापी नीच पुरुषो ! इस
 समय तुम्हारे पापका जो फल प्राप्त हुआ है उसे सहन करो जिससे फिर ऐसा न करोगे ॥२७३॥
 देवोंके साथ इन्द्र भी यहाँ आ जाय तो भी हमारे स्वामीके क्रुपित रहते तुम लोगोंकी रक्षा
 नहीं हो सकती ॥२७४॥ हाथी, घोड़े, रथ, आकाश और पृथिवीपर जो भी जहाँ स्थित था वह

१. पश्यतः सतः । २. यज्ञभूमिम् । ३. कोशवर्हिर्गतकृपाणाः । ४. . भासिनः म० । ५. विमोच-
 यन् म० । ६. दयायुक्तो म० । ७. वधाय धृता रक्षिताः पशुसहतीः म० । ८. मोचितास्तैः म० । ९. कलकलम् ।
 १०. विप्राः म०, व० । ११. पर्यचोद्यन्त क० । १२. युष्माकम् । १३. प्रियम् । १४. भवता क०, ख०, व०
 म० । १५. -जन्तूना नियमे च व्यवस्थितिः ख० ।

अब्रह्मण्यमहो राजन् हा मातर्यज्ञपालये । जीवामि मुञ्च मां नैव करिष्यामि पुनर्भटाः ॥२७६॥
 एवंविधमलदीन विलपन्तो विचेष्टितम् । गण्डूपदा इव प्राप्ता समताड्यन्त ते भटैः ॥२७७॥
 हन्यमान ततो दृष्ट्वा^३ सूत्रकण्ठकदम्बकम् । सहस्रकिरणप्राहमित्यवोचत नारदः ॥२७८॥
 कल्याणमस्तु ते राजन् येनाह मोचितस्त्वया । हन्यमान इमैर्व्याधैः सूत्रकण्ठैर्दुरात्मभिः ॥२७९॥
 अवश्यमेवमेतेन भवितव्यं यतस्ततः । कुर्वेतेषा दयां क्षुद्रा जीवन्तु प्रियजीविताः ॥२८०॥
^४ज्ञात किं न तथोत्पन्नाः कुपाखण्डा यथा नृप । शृण्वस्याभवसर्पिण्यां तुरीयसमयागमे ॥२८१॥
 ऋपभो नाम विख्यातो बभूव त्रिजगन्नतः । कृत्वा कृतयुग येन कलानां कल्पितं शतम् ॥२८२॥
 जातमात्रश्च यो देवैर्नीत्वा^५ मन्दरमस्तकम् । क्षीरोदवारिणा तुष्टैरभिपिक्तो महाद्युतिः ॥२८३॥
 ऋपभस्य विभोर्दिव्यं चरित पापनोदनम् । स्थित लोकत्रय व्याप्य पुराणं^६ न श्रुतं त्वया ॥२८४॥
 भर्ता बभूव कौमारः स भुवो भूतवत्सलः । गुणांस्तस्य क्षमो वक्तु न सुरेन्द्रोऽपि विस्तरात् ॥२८५॥
 उद्वहन्ती स्तनौ तुङ्गौ विन्ध्यप्रालेयपर्वतौ । आर्यदेशमुखी रम्यां^७ नगरीवल्लयैर्युताम् ॥२८६॥
 अन्धिकास्त्रीगुणां नीलसत्काननशिरोरुहाम् । नानारत्नकृतच्छायामत्यन्तप्रवणा सतीम् ॥२८७॥
 यः परित्यज्य भूभार्यां मुमुक्षुर्भवसकटम् । प्रतिपेदे विशुद्धात्मा श्रामण्य जगते हितम् ॥२८८॥

वहींसे शत्रु द्वारा ब्राह्मणोंको मार रहा था ॥२७५॥ और ब्राह्मण चिल्ला रहे थे कि 'अब्रह्मण्यम्' बड़ा अनर्थ हुआ । हे राजन् ! हे माता यज्ञपालि ! हमारी रक्षा करो । हे योद्धाओ ! हम जीवित रह सके इसलिए छोड़ दो, अब ऐसा नहीं करेंगे' ॥२७६॥ इस प्रकार दीनताके साथ अत्यन्त विलाप करते हुए वे ब्राह्मण केंचुए जैसी दशाको प्राप्त थे फिर भी रावणके योद्धा उन्हें पीटते जाते थे ॥२७७॥ तदनन्तर ब्राह्मणोंके समूहको पीटता देख नारदने रावणसे इस प्रकार कहा ॥२७८॥ कि हे राजन् ! तुम्हारा कल्याण हो । मैं इन दुष्ट शिकारी ब्राह्मणोंके द्वारा मारा जा रहा था जो आपने मुझे इनसे छुड़ाया ॥२७९॥ यह कार्य चूँकि ऐसा ही होना था सो हुआ अब इनपर दया करो । ये क्षुद्र जीव जीवित रह सके ऐसा करो, अपना जीवन इन्हें प्रिय है ॥२८०॥ हे राजन् ! इन कुपाखण्डियोंकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है ? यह क्या आप नहीं जानते-हैं । अच्छा सुनो मैं कहता हूँ । इस अवसर्पिणी युगका जब चौथा काल आनेवाला था तब भगवान् ऋषभदेव तीर्थंकर हुए । तीनों लोकोंके जीव उन्हें नमस्कार करते थे । उन्होंने कृत युगकी व्यवस्था कर सैकड़ों कलाओंका प्रचार किया ॥२८१-२८२॥ जिस समय ऋषभदेव उत्पन्न हुए थे उसी समय देवोंने सुमेरु पर्वतके मस्तकपर ले जाकर सन्तुष्ट हो क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक किया था । वे महाकान्तिके धारक थे ॥२८३॥ भगवान् ऋषभदेवका पापापहारी चरित्र तीनों लोकोंमें व्याप्त होकर स्थित है क्या तुमने उनका पुराण नहीं सुना ? ॥२८४॥ प्राणियोंके साथ स्नेह करनेवाले भगवान् ऋषभदेव कुमार-कालके बाद इस पृथिवीके स्वामी हुए थे । उनके गुण इतने अधिक थे कि इन्द्र भी उनका विस्तारके साथ वर्णन करनेमें समर्थ नहीं था ॥२८५॥ जब उन्हें वैराग्य आया और वे संसाररूपी सङ्कटको छोड़नेकी इच्छा करने लगे तब जो विन्ध्याचल और हिमाचलरूपी उन्नत स्तनोंको धारण कर रही थी, आर्य देश ही जिसका मुख था, जो नगरीरूपी चूड़ियोंसे युक्त होकर बहुत मनोहर जान पड़ती थी, समुद्र ही जिसकी करधनी थी, हरे भरे वन जिसके शिरके बाल थे, नाना रत्नोंसे जिसकी कान्ति बढ़ रही थी और जो अत्यन्त निपुण थी ऐसी पृथिवी रूपी स्त्रीको छोड़कर उन्होंने

१. पालये म० । २. जीव विमुञ्च मा नैव ख० । ३. विप्रसमूहम् । ४. रावणम् । ५. अपाणिनीय एष प्रयोगः । ६. कुरु + एतेषां । ७. ज्ञान म० । ८. चतुर्थकालागमे । ९. त्रिजगतोन्नतः (?) म० । १०. मन्दिर-म० । सुमेरुशिखरम् । ११. पुराणा म० । १२. नगरीं वल्लयै -म० ।

स्थितो वर्षसहस्रं च वज्राङ्गो स्थिरयोगभृत् । प्रलम्बितमहाबाहुः प्राप्तभूमिजटाचयः ॥२८६॥
 स्वामिनश्चानुरागो गृहीतोऽप्रपीपहैः । कच्छाद्यैर्नग्नता मुक्ता वल्कलादिसमाश्रितम् ॥२८७॥
 अज्ञातपरमार्थैस्तैः क्षुधादिपरिपीडितैः । फलाद्याहारसतुष्टैः प्रणीतास्तापसादयः ॥२८९॥
 ऋषभस्य तु सजात केवल सर्वभासनम् । महान्यग्रोधवृत्तस्य स्थितस्यासन्नगोचरे ॥२९२॥
 तत्प्रदेशे कृता देवैस्तस्मिन् काले त्रिभोर्यत । पूजा तेनैव मार्गेण लोकोऽद्यापि प्रवर्तते ॥२९३॥
 प्रतिमाश्च सुरैस्तस्य तस्मिन्देसे सुमानसैः । स्थापिता रम्यचैत्येषु मनुजैश्च महोत्सवैः ॥२९४॥
 भरतेनास्य पुत्रेण सृष्टा ये चक्रवर्तिना । पुरा मरीचिना ये च प्रमादस्मययोगतः ॥२९५॥
 त्रिसर्पणमिमे सूत्रकण्ठास्तु भुवने गता । प्राणिनां दुःखदा यद्वत्सलिले विपविन्दव ॥२९६॥
 उद्वृत्तकुटुकाचारैर्वहुदम्भैः कुलिङ्गकैः^१ । प्रचण्डदण्डैरत्यन्तं तैरिदं मोहितं जगत् ॥२९७॥
 जातं शश्वत्प्रवृत्तात्किरूकर्मतमश्रितम् । प्रनष्टकुटुतालोकं साध्वसत्कारतत्परम् ॥२९८॥
 एकविंशतिवारान् ये निधनं प्रापिताः क्षितौ । सुभूमचक्रिणा प्राप्ता न नितान्तमभावताम् ॥२९९॥
 ते कथं वदं शाम्यन्ते त्वया विप्रा दृशानन । उपशाम्यान्तया किञ्चिन्न कृत्यं प्राणिर्हिसया ॥३००॥
 जिनैरपि कृतं नैतत्सर्वज्ञैर्निःकुमार्गकम् । जगत् किमुत शक्येत कर्तुमस्मद्विधेर्जनैः ॥३०१॥

विशुद्धात्मा हो जगत्के लिए हितकारी मुनिपद धारण किया था ॥२८६-२८८॥ उनका शरीर वज्रमय था, वे स्थिर योगको धारणकर एक हजार वर्ष तक खड़े रहे । उनकी बड़ी-बड़ी भुजाएँ नीचेकी ओर लटक रही थीं और जटाओंका समूह पृथिवीको छू रहा था ॥२८९॥ स्वामीके अनुरागसे कच्छ आदि चार हजार राजाओंने भी उनके साथ नग्न व्रत धारण किया था परन्तु कठिन परीपहांसे पीड़ित होकर अन्तमें उन्होंने वह व्रत छोड़ दिया और वल्कल आदि धारण कर लिये ॥२९०॥ परमार्थको नहीं जाननेवाले उन राजाओंने क्षुधा आदिसे पीड़ित होनेपर फल आदिके आहारसे सन्तोष प्राप्त किया । उन्हीं भ्रष्ट लोगोंने तापस आदि लोगोकी रचना की ॥२९१॥ जब भगवान् ऋषभदेव महा वट वृक्षके समीप विद्यमान थे तब उन्हें समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान प्रकट हुआ ॥२९२॥ उस समय उस स्थानपर चूँकि देवोंके द्वारा भगवान्की पूजा की गई थी इसलिए उसी पद्धतिसे आज भी लोग पूजा करनेमें प्रवृत्त हैं अर्थात् आज जो वट वृक्षकी पूजा होती है उसका मूल स्रोत भगवान् ऋषभदेवके केवलज्ञानकल्याणक से है ॥२९३॥ उत्तम हृदयके धारक देवोंने उस स्थानपर उनकी प्रतिमा स्थापित की तथा महान् उत्सवोंसे युक्त मनुष्योंने मनोहर चैत्यालयोंमें उनकी प्रतिमाएँ विराजमान कीं ॥२९४॥ भगवान् ऋषभदेवके पुत्र भरत चक्रवर्तिने तथा इनके पुत्र मरीचिने पहले प्रमाद और अहङ्कारके योग से जिन ब्राह्मणोंकी रचना की थी वे पानीमें विषकी घूँटोंके समान प्राणियोंको दुःख देते हुए संसारमें सर्वत्र फैल गये ॥२९५-२९६॥ जिन्होंने कुत्सित आचारकी परम्परा चलाई है, जो अनेक प्रकारके कपटोंसे युक्त हैं, जो नाना प्रकारके खोटे-खोटे वेप धारण करते हैं और प्रचण्ड—अत्यन्त तीक्ष्ण दण्डके धारक हैं ऐसे इन ब्राह्मणोंने इस संसारको मोहित कर रक्खा है—भ्रममें डाल रक्खा है ॥२९७॥ यह समस्त संसार निरन्तर प्रवृत्त रहनेवाले अत्यन्त क्रूर कार्यरूपी अन्धकारसे व्याप्त है, इसका पुण्य रूपी प्रकाश नष्ट हो चुका है और साधुजनोका अनादर करनेमें तत्पर है ॥२९८॥ इस पृथिवीपर सुभूम चक्रवर्तिने इक्कीस बार इन ब्राह्मणोंका सर्वनाश किया फिर भी ये अत्यन्तभावको प्राप्त नहीं हुए ॥२९९॥ इसलिए हे दृशानन ! तुम्हारे द्वारा ये किस तरह शान्त किये जा सकेंगे—सो तुम्ही कहो । तुम स्वयं उपशान्त होओ । इस प्राणिहिंसासे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥३००॥ जब सर्वत्र जिनेन्द्र भी इस संसारको कुमार्गसे रहित नहीं कर सके

१ प्रवृत्तकुत्सिताचारैः । २. बहुदम्भैः म० । ३. कुलिङ्गकैः ख० । ४. साधुसत्कार- क०, ख०, म० ।
 ५. उपशान्तो भव । ६. कृतिम् -ख० । ७. शक्यते म० ।

निश्चिपुत्र्य पुण्याणि 'समेतानि मधुव्रतै' । तुष्टाश्च विविधालापांश्चक्रुस्तद्वर्णनामिति ॥३३०॥
 अयं स रावणो येन जितो मौतृष्वसुः सुत' । यमश्च यश्च कैलास समुत्क्षेसु समुद्यत' ॥३३१॥
 नीतः सहस्ररश्मिश्च राज्यभारविमुक्तताम् । मरुत्वस्य च विध्वस्तो वितानः शौर्यशालिना ॥३३२॥
 अहो समागमः साधुः कृतोऽय कर्मभिश्चिरात् । रूपस्य केकसीसूनौ गुणानां च जनोत्सवः ॥३३३॥
 योपित्पुण्यवती सोऽय धृतो गर्भे ययोत्तमः । पिताप्यसौ कृतार्थत्व प्राप्तः कृत्वास्य सभवम् ॥३३४॥
 श्लाघ्यः स बन्धुलोकोऽपि यस्याय प्रेमगोचरः । अनेनोपयतां यास्तु तासां स्त्रीणां किमुच्यते ॥३३५॥
 आलापमिति कुर्वन्त्यस्तावदैक्षन्त तां स्त्रियः । गोचरत्वमवापायं यावद्विततचक्षुषाम् ॥३३६॥
 गते तस्मिन्मनश्चौरे चक्षुर्गोचरतात्ययम् । मुहूर्तमभवन्नार्य' । पुस्तकर्मगता इव ॥३३७॥
 तेनापहतचित्तानां वाञ्छन्तीनां मनोगतम् । कर्तुमन्यदभूत्कर्म कियताचिदनेहसा ॥३३८॥
 बभूवेति दशग्रीवे देशे तत्सगमोऽङ्गिते । नारीणां पुरुषाणां च त्यक्तान्याशेषसंकथा ॥३३९॥
 विषये नगरे ग्रामे घोषे वा ये प्रधानताम् । भजन्ते पुरुषास्ते तमुपायनभृतोऽगमन् ॥३४०॥
 गत्वा जनपदांश्चैवमुपनीय यथोचितम् । रचिताञ्जलयो नत्वा परितुष्टा व्यजिज्ञपन् ॥३४१॥
 नन्दनादिषु रम्याणि यानि द्रव्याणि पार्थिव । सुलभत्वं प्रपन्नानि तव तान्यपि चिन्तनात् ॥३४२॥
 महाविभवपात्रस्य किमपूर्वं भवेत्तव । उपनीय प्रमोद ते यत्कुर्मो द्रविण वयम् ॥३४३॥

करनेवाली स्त्रियां परस्पर एक दूसरेको पीडा पहुँचाती हुई प्रारब्ध समस्त कार्योको छोड़ कर झरोखोमे आ डटी थीं ॥३२२-३२६॥ वे संतुष्ट होकर मौरोसे सहित फूल रावण पर फेंक रही थी और विविध प्रकारके शब्दोसे उसका इस प्रकार वर्णन कर रही थीं ॥३३०॥ कोई कह रही थी कि देखो यह वही रावण है जिसने मौसीके लड़के वैश्रवण और यमको जीता था । जो कैलास पर्वतको उठानेके लिए उद्यत हुआ था । जिसने सहस्ररश्मिको राज्यभारसे विमुक्त किया था यह बड़ा पराक्रमी है ॥३३१-३३२॥ अहो बड़े आश्चर्यकी बात है कि कर्मोंने चिर काल बाद रावणमे रूप तथा अनेक गुणोका लोकानन्दकारी समागम किया है । अर्थात् जैसा इसका सुन्दर रूप है वैसे ही इसमे गुण विद्यमान है ॥३३३॥ वह स्त्री पुण्यवती है जिसने इस उत्तम पुत्रको गर्भमे धारण किया है और वह पिता भी कृतकृत्यपनाको प्राप्त है जिसने इसे जन्म दिया है ॥३३४॥ वे बन्धुजन प्रशंसनीय हैं जिनका कि यह प्रेमपात्र है जो स्त्रियां इसके साथ विवाहित हैं उनका तो कहना ही क्या है ? ॥३३५॥ वार्तालाप करती हुई स्त्रियां उसे तब तक देखतीं रही जब तक कि वह उनके विस्तृत नेत्रोंका विषय रहा अर्थात् नेत्रोंके ओझल नहीं हो गया ॥३३६॥ मनको चुराने वाला रावण जब नेत्रोंसे अदृश्य हो गया तब मुहूर्त भरके लिए स्त्रियां चित्र लिखितकी तरह निश्चेष्ट हो गईं ॥३३७॥ रावणके द्वारा उन स्त्रियोंका चित्त हरा गया था इसलिए कुछ दिन तक तो उन का यह हाल रहा कि उनके मनमे कुछ कार्य था और वे कर बैठती थीं कोई दूसरा ही कार्य ॥३३८॥ रावण जिस देशका समागम छोड़ आगे बढ़ जाता था उस देशके स्त्री पुरुषोंमें एक रावणकी ही कथा शेष रह जाती थी अन्य सबकी कथा छूट जाती थी ॥३३९॥ देश, नगर, ग्राम अथवा अहीरोकी बस्तीमे जो पुरुष प्रधानताको प्राप्त थे वे उपहार ले लेकर रावणके समीप गये ॥३४०॥ जनपदोंमें रहनेवाले लोग यथा योग्य भेंट लेकर रावणके पास गये और हाथ जोड़ नमस्कार कर सन्तुष्ट होते हुए निम्न प्रकार निवेदन करने लगे ॥३४१॥ उन्होंने कहा कि हे राजन् ! नन्दन आदि वनोमे जो भी मनोहर द्रव्य हैं वे इच्छा करने मात्रसे ही आपको सुलभ है अर्थात् अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं ॥३४२॥ चूंकि आप महाविभवके पात्र हैं इसलिए ऐसा कौनसा

१. समेधानि म० । २. विविधालापाश्चक्रु-म० । ३. वैश्रवणः । ४. मरुत्वस्य म० । ५. परिणीता विवाहिता इत्यर्थः । ६. दैक्ष्यन्त म० । दैक्ष्यं गताः स्त्रियः क०, ख० । ७. दारुनिर्मिता ख० । ८. तेनोपहत-म० ।

तथापि शून्यहस्तानामस्माक तव दर्शनम् । न युक्तमिति यत्किञ्चिदुपादाय समागता- ॥३४४॥
 जिनेन्द्र प्रापित पूजाममरै कनकाश्रुजै । द्रुमपुष्पादिभि क्लृप्त पूज्यतेऽस्मद्विधैर्जनैः ॥३४५॥
 नानाजनपदैरेव^१ सामन्तैश्च महर्षिभि । पूजित प्रतिसन्मानं तेषां चक्रे प्रियोदितै^२ ॥३४६॥
 परा प्रीतिमवापामां पश्यन् रम्या वसुन्धराम् । कान्तामिव निजा नानारत्नालङ्कारशालिनीम् ॥३४७॥
 मद्ग देगेन येनासौ ययौ मार्गवशाद्विभु । अकृष्टपच्यसस्याद्य तत्रासीद् वसुधातलम् ॥३४८॥
 प्रमोद परम विश्रज्जनोऽस्य धरणीतलम् । अनुरागाम्भसा कीर्तिमभ्यसिञ्चत् सुनिर्मलाम् ॥३४९॥
 कृपीबलजनाश्रवमूत्रु पुण्यजुपो वयम् । येन देगमिम प्राप्नो देवो रत्नश्रवसुत- ॥३५०॥
 अन्यथा कृपिमत्ताना रूक्षाङ्गाना कुवाससाम् । वहतां कर्कशस्पर्शं पाणिपादं सवेदनम् ॥३५१॥
 क्लेशात् कालो गतोऽस्माक सुखस्वाडविवर्जितः । प्रभावाडस्य भव्यस्य साम्प्रत वयर्माश्वरा ॥३५२॥
 पुण्येनानुगृहीतास्ते देगा सम्पत्समाश्रिता । येषु कल्याणममारो विचरत्येष रात्रणः ॥३५३॥
 कृत्य किं वान्यवैर्ये न ममर्या दुःखनोदने । अयमेव महाबन्धु सर्वेषा प्राणिनामभूत् ॥३५४॥
 अनुराग गुणैरेव स लोकस्य प्रवर्धयन् । चकार तस्य हेमन्त निदाव च सुरप्रदम् ॥३५५॥
 धामनां चेतनास्तावद्योऽपि भावा विचेतना । तेषु भीता इवामुष्माद् वमूवुर्लोकसौख्यदाः ॥३५६॥
 तावच्च व्रजनस्तस्य प्रादुरार्माद्वनागमः । अभ्युत्थान दगास्यस्य कुर्वन्निव ससभ्रमः ॥३५७॥
 वलाकाविद्युदिन्द्रास्त्रकृतभूपा घनाघना । महानीलगिरिच्छाया कुर्वन्त पटुनिस्वनम् ॥३५८॥

अपूर्व धन है जिसे भेंट देकर हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं ॥३४३॥ फिर भी हम लोगोको खाली हाथ आपका दर्शन करना उचित नहीं है इसलिए कुछ तो भी लेकर समीप आये हैं ॥३४४॥ देवोंने जिनेन्द्र भगवान्की सुवर्ण कमलोंसे पूजा की थी तो क्या हमारे जैसे लोग उनकी साधारण वृक्षांके फूलोंसे पूजा नहीं करते ? अर्थात् अवश्य करते हैं ॥३४५॥ इस प्रकार नाना जनपदवासी और बड़ी-बड़ी सम्पदाओंको धारण करनेवाले सामन्तोंने रावणकी पूजा की तथा रावणने भी प्रिय वचन कहकर वदलेमें उनका सन्मान किया ॥३४६॥ नाना रत्नमयी, अलङ्कारो से सुशोभित अपनी स्त्रीके समान सुन्दर पृथिवीको देखता हुआ रावण परम प्रीतिको प्राप्त हुआ ॥३४७॥ रावण मार्गके कारण जिस-जिस देशके साथ समागमको प्राप्त हुआ था वहाँकी पृथिवी अकृष्टपच्य धान्यसे युक्त हो गई थी ॥३४८॥ परम हर्षको धारण करनेवाले लोग रावणके द्वारा छोड़े हुए पृथिवीतलको तथा उसकी अत्यन्त निर्मल कीर्तिको अनुराग रूपी जलसे सींचते थे ॥३४९॥ किसान लोग इस प्रकार कह रहे थे कि हम लोग बड़े पुण्यात्मा हैं जिससे कि रावण इस देशमें आया ॥३५०॥ हम लोग अब तक खेतीमें लगे रहे, हम लोगोका सारा शरीर सूखा हो गया । हमें फटे पुराने वस्त्र पहिननेको मिले, हम कठोर स्पर्श और तीव्र वेदनासे युक्त हाथ-पैरोंको धारण करते रहे और आज तक कभी सुखसे अच्छा भोजन हमें प्राप्त नहीं हुआ । इस तरह हम लोगोका काल बड़े क्लेशसे व्यतीत हुआ परन्तु इस भव्य जीवके प्रभावसे हम लोग इस समय सर्व प्रकारसे सम्पन्न हो गये हैं ॥३५१-३५२॥ जिन देशोंमें यह कल्याणकारी रावण विचरण करता है वे देश पुण्यसे अनुगृहीत तथा सम्पत्तिसे सुशोभित हैं ॥३५३॥ मुझे उन भाइयोंसे क्या प्रयोजन जो कि दु ख दूर करनेमें समर्थ नहीं हैं । यह रावण ही हम सब प्राणियों का बड़ा भाई है ॥३५४॥ इस प्रकार गुणोंके द्वारा लोगोके अनुरागको बढ़ाते हुए रावणने हेमन्त और ग्रीष्म ऋतुको भी लोगोके लिए सुखदायी बना दिया था ॥३५५॥ चेतन पदार्थ तो दूर रहे जो अचेतन पदार्थ थे वे भी मानो रावणसे भयभीत होकर ही लोगोके लिए सुखदायी हो गये थे ॥३५६॥ रावणका प्रयाण जारी था कि इतनेमें वर्षा ऋतु आ गई जो ऐसी जान पड़ती थी मानो हर्षके साथ रावणकी अगवानी करनेके लिए ही आई थी ॥३५७॥ वलाका विजली

१. जनपदैरेव म० । २. सुनिर्मलम् ख०, व०, म० ।

हेमकक्षाभृतः कम्बुध्वजभूपितविग्रहाः । प्रहिताभा व^१ शक्रेण रावणस्य गजा इव ॥३५६॥
 दिशोऽन्धकारिताः सर्वा जीमूतपटलैस्तथा । रात्रिन्दिवस्य न ज्ञातो भेद एव यथा जनैः ॥३६०॥
 अथवा युक्तमेवेद कर्तुं मलिनताभृताम् । यत्प्रकाशतमोयुक्तान् कुर्वन्ति भुवने समान् ॥३६१॥
 भूमिजीमूतससक्ताः स्थूला विच्छेदवर्जिताः । नाज्ञायन्त घना धारा उत्पतन्ति पतन्ति च ॥३६२॥
 मानसे मानसम्भारो मानिनीभिश्चिर धृतः । पट्टनो मेघरटितात् क्षणेन ध्वसमागतः ॥३६३॥
 घनध्वनितविग्रस्ता मानिन्यो रमण भृशम् । आलिलिङ्ग रणत्कारि वलयकुलबाहवः ॥३६४॥
 शीतला मृदवो धाराः पथिकानां घनोज्झिता । द्रष्टृणा समतां जग्मुः कुर्वन्त्यो मर्मदारणम् ॥३६५॥
 भिन्न धाराकदम्बेन हृदयं दूरवर्तिनः । चक्रेणैव सुतीक्ष्णेन पथिकस्याकुलात्मनः ॥३६६॥
 नीतो^३ नवेन नीपेन^४ मूढतां पथिको यथा । पुस्तकर्मसमो जातो वराकः क्षणमात्रकम् ॥३६७॥
 क्षीरोदपायिनो मेघा प्रविष्टा इव धेनुषु । अन्यथा क्षीरधारास्ताश्चरुः सततं कथम् ॥३६८॥
 वर्षाणां समये तस्मिन्न बभूवुः कृपीबलाः । समाकुलाः प्रभावेण रावणस्य महाधनाः ॥३६९॥
 अन्नमेकस्य हेतोर्यत्कुटुम्बिन्या प्रसाधितम् । भुज्यमानं कुटुम्बेन न तन्निष्ठासुपागमत् ॥३७०॥
 महोत्सवो दशग्रीवो बभूव प्राणधारिणाम् । पुण्यसपूर्णदेहाना सौभाग्य केन कथ्यते ॥३७१॥
 इन्दीवरचयश्यामः स्त्रीणामौत्सुक्यमाहरन्^५ । साक्षादिव बभूवासौ वर्षाकालो महाध्वनिः ॥३७२॥

और इन्द्रधनुषसे शोभित, महानीलगिरिके समान काले-काले मेघ जोरदार गर्जना करते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सुवर्णमालाओको धारण करनेवाले शङ्ख और पताकाओंसे सुशोभित हाथी ही इन्द्रने रावणके लिए उपहारमे भेजे हों ॥३५८-३५९॥ मेघोंके समूहसे समस्त दिशाएँ इस प्रकार अन्धकार युक्त हो गई थीं कि लोगोंको रात-दिनका भेद ही नहीं मालूम होता था ॥३६०॥ अथवा जो मलिनताको धारण करनेवाले हैं उन्हें ऐसा ही करना उचित है कि वे संसार में प्रकाश और अन्धकारसे युक्त सभी पदार्थोंको एक समान कर देते हैं ॥३६१॥ पानीकी बड़ी मोटी धाराएँ रुकावटरहित पृथिवी और आकाशके बीचमे इस तरह संलग्न हो रही थीं कि पता ही नहीं चलता था कि ये मोटी धाराएँ ऊपरको जा रही है या ऊपरसे नीचे फिर रही हैं ॥३६२॥ मानवती स्त्रियोंने जो मानका समूह चिरकालसे अपने मनमे धारण कर रक्खा था वह मेघोंकी जोरदार गर्जनासे क्षण भरमे नष्ट हो गया था ॥३६३॥ जिनकी भुजाएँ रुनभुन करनेवाली चूड़ियोंसे युक्त थीं ऐसी मानवती स्त्रियों मेघगर्जनासे डरकर पतिका गाढ़ आलिङ्गन कर रही थीं ॥३६४॥ मेघोंके द्वारा छोड़ी हुई जलकी धाराएँ यद्यपि शीतल और कोमल थीं तथापि वे पथिक जनोका मर्म विदारण करती हुई दर्शकोंकी समानताको प्राप्त हो रही थीं ॥३६५॥ जिसकी आत्मा अत्यन्त व्याकुल थी ऐसे दूरवर्ती पथिकका हृदय धाराओंके समूहसे इस प्रकार खण्डित हो गया था मानो अत्यन्त पैनेचक्रसे ही खण्डित हुआ हो ॥३६६॥ कदम्बके नये फूलसे बेचारा पथिक इतना अधिक मोहित हो गया कि वह क्षणभरके लिए मिट्टीके पुतलेके समान निश्चेष्ट हो गया ॥३६७॥ ऐसा जान पड़ता था कि क्षीरसमुद्रसे जल ग्रहण करनेवाले मेघ मानो गायोंके भीतर जा घुसे थे । यदि ऐसा न होता तो वे निरन्तर दूधकी धाराएँ कैसे झराते रहते ? ॥३६८॥ उस समयके किसान रावणके प्रभावसे महाधनवान् हो गये थे इसलिए उस वर्षाके समय भी वे व्याकुल नहीं हुए थे ॥३६९॥ घरकी मालकिन एक व्यक्तिके लिए जो भोजन तैयार करती थी उसे सारा कुटुम्ब खाता था फिर भी वह समाप्त नहीं होता था ॥३७०॥ इस प्रकार रावण समस्त प्राणियोंके लिए महोत्सव स्वरूप था सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यात्मा जीवोंका सौभाग्य कौन कह सकता है ? ॥३७१॥ रावण नील कमलोंके समूहके समान श्याम

१. व पादपूर्तौ । प्रहिता भान्ति शक्रेण म० । २. मेघरटितान् म० । ३. वनेन पीतेन म० ।

४. कदम्बकुसुमेन । ५. कुटुम्बेन तन्निष्ठा समुपागमत् म० । ६. -माहरत् म० ।

गर्जितेन पयोदानां रावणस्येव शासनात् । घोषणेन कृता सर्वे प्रणतिः पतिभिर्नृणाम् ॥३७३॥
 कन्या दृष्टिहराः प्रापुर्दशवक्त्र स्वयवरा । भूगोचराः परित्यक्तगगना इव विद्युतः ॥३७४॥
 रेमिरे तास्तमासाद्य महीधरणतत्परम् । पयोधरभराक्रान्ता सदर्पा इव भूभृत्तम् ॥३७५॥
 जिगीषोर्यश्चमर्दस्य द्वष्टैव परमां ह्युतिम् । भास्वान् पलायितः क्वापि त्रपात्राससमाकुल ॥३७६॥
 दशाननस्य यद्वक्त्र तदेव कुरुते क्रियाम् । मदीयामिति मत्वेव जगाम क्वापि चन्द्रमा ॥३७७॥
 दशवक्त्रस्य वक्त्रेण जित ज्ञात्वा निज पतिम् । भयेनेव समाक्रान्तास्ताराः क्वापि पलायिताः ॥३७८॥
 सुरक्तं पाणिचरण कैकसेयस्य योपिताम् । विदित्वेव त्रपायुक्ता तिरोऽभूदब्जसहतिः ॥३७९॥
 रशनाविद्युता युक्ता रक्ताशुकसुरायुथा । नार्यः पयोधराक्रान्तास्तस्य वर्षा इवाभवन् ॥३८०॥
 आमोद रावणो जज्ञे केतकीनां न योपिताम् । निःश्वासमस्ताकृष्टगुणद्भ्रमरपङ्क्तिना ॥३८१॥

मन्दाक्रान्तावृत्तम्

भार्गारथ्यास्तटमतितरा रम्यमासाद्य दूर
 प्रान्तोद्भूतप्रचुरविलसत्कान्तिशोष विशालम् ।
 नानापुष्पप्रभवनिविडघ्राणसरोधिगन्ध
 क्षोणीवन्धुर्जलदसमय सर्वसौख्येन निन्ये ॥३८२॥

वर्ण था और जोरदार शब्द करता था इससे ऐसा जान पड़ता था मानो स्त्रियोको उत्सुक करता हुआ साक्षात् वर्षाकाल ही हो ॥३७२॥ मेघोकी गर्जनाके बहाने मानो रावणका आदेश पाकर ही समस्त राजाओंने रावणको नमस्कार किया था ॥३७३॥ नेत्रोंको हरण करनेवाली भूमि-गोचरियोकी अनेक कन्याएँ रावणको प्राप्त हुईं सो ऐसी जान पड़ती थीं मानो आकाशको छोड़कर विजलियों ही उसके पास आईं हो ॥३७४॥ जिस प्रकार पयोधरभराक्रान्ता अर्थात् मेघोके समूहसे युक्त उत्तम वर्षाएँ किसी पर्वतको पाकर क्रीडा करती हैं उसी प्रकार पयोधरभराक्रान्ता अर्थात् स्तनोके भारसे आक्रान्त कन्याएँ पृथिवीका भार धारण करनेमें समर्थ रावणको पाकर क्रीडा करती थी ॥३७५॥ वर्षा ऋतुमें सूर्य छिप गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो विजया-भिलापी रावणकी उत्कृष्ट कान्ति देख लज्जा और भयसे व्याकुल होता हुआ कहीं भाग गया था ॥३७६॥ चन्द्रमाने देखा कि जो काम मैं करता हूँ वही रावण का मुख करता है ऐसा मानकर ही मानो वह कहीं चला गया था ॥३७७॥ तारा भी अन्तर्हित हो गये थे सो ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओंने देखा कि रावणके मुखसे हमारा स्वामी—चन्द्रमा जीत लिया गया है इस भयसे युक्त होकर ही वे कहीं भाग गईं थी ॥३७८॥ रावणकी स्त्रियोके हाथ और पैर हमसे कहीं अधिक लाल हैं ऐसा जानकर ही मानो कमलोका समूह लजाता हुआ कहीं छिप गया था ॥३७९॥ जो मेखला रूपी विजलीसे युक्त थीं तथा रङ्ग-विरङ्गे वस्त्र रूपी इन्द्रधनुषको धारण कर रही थीं और पयोधर अर्थात् स्तनो (पक्षमें मेघों) से आक्रान्त थीं ऐसी रावणकी स्त्रियों ठीक वर्षा ऋतुके समान जान पड़ती थीं ॥३८०॥ जिसने गूँजती हुई भ्रमरपङ्क्तिको आकृष्ट किया था ऐसे श्वासोच्छ्वासकी वायुसे रावण केतकीके फूल और स्त्रियोकी गन्धको अलग-अलग नहीं पहिचान सका था ॥३८१॥ जिसके दूर-दूर तक प्रचुर मात्रामे सुन्दर घास उत्पन्न हुई थी और जहाँ नाना फूलोंसे समुत्पन्न गन्ध घ्राणको व्याप्त कर रही थी ऐसे गङ्गा नदीके लम्बे चौड़े सुन्दर तटको पाकर रावणने सुखपूर्वक वर्षा काल व्यतीत किया ॥३८२॥ गौतम स्वामी राजा

१. स्तनभारावणताः पत्ने मेघसमूहाक्रान्ताः । २. रावणस्य । ३. रसना विद्युता युक्ता म० ।
 ४. क्रान्ता तस्य म० । ५. शिष्य म० । सख्य ख० । सेव्य क० । ६. रावणः ।

नाम श्रुत्वा प्रणमति जन. पुण्यभाजां नराणां-

चारुस्त्रीणां निखिलविषयप्राप्तिसङ्घा भवन्ति ।

उत्पद्यन्ते परमविभवा विस्मयानां निवासाः

शैत्यं यायाद् रविरपि ततः पुण्यवन्धे यत्तद्ध्वम् ॥३८३॥

इत्यार्षे रविपेणाचार्यं प्रोक्ते पद्मचरिते मरुत्वयज्ञध्वंसन-

पदानुगामिधानं नामैकादश पर्व ॥११॥



श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! पुण्यात्मा मनुष्योंका नाम सुनकर ही लोग उन्हें प्रणाम करने लगते हैं, अनेक विषयोंको प्राप्त करानेवाले सुन्दर स्त्रियोंके समूह उन्हें प्राप्त होते रहते हैं, आश्चर्य के निवासभूत अनेक ऐश्वर्य उनके घर उत्पन्न होते हैं और कहीं तक कहा जाय सूर्य भी उनके प्रभावसे शीतल हो जाता है इसलिए सबको पुण्यवन्धके लिए प्रयत्न करना चाहिए ॥३८३॥

इस प्रकार आर्पनाससे प्रसिद्ध रविपेणाचार्यके द्वारा कथित पद्मचरितमें राजा मरुत्वके यज्ञके विध्वंसका वर्णन करनेवाला चारहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥११॥



द्वादशं पर्व

तत्राथ मन्त्रिभिः सार्धं चक्रेऽसौ संप्रधारणम् । कस्मै तु दीयतामेपा कन्येति रहसि स्थितः ॥१॥
 इन्द्रेण सह सग्रामे जीविते नास्ति निश्चयः । अतो वरं कृतं बालापाणिग्रहणमङ्गलम् ॥२॥
 तन्न चिन्तापरं ज्ञात्वा कन्यावरगवेपणे । हरिवाहनराजेन सूनुं रौहानितोऽन्तिकम् ॥३॥
 दृष्ट्वा तं सुन्दराकारं प्रणतं तोपमागतः । दशाननः सुतां चास्मै दातुं चक्रे मनोरथम् ॥४॥
 उचिते चासने तस्मिन्नासीने सचिवान्विते । अचिन्तयद्दशग्रीवो नयशास्त्रविशारदः ॥५॥
 मथुरानगरीनाथं सुगोत्रो हरिवाहनः । अस्मद्गुणगणोत्कीर्तिसततासक्तमानसः ॥६॥
 अस्य च प्राणभूतोऽयं बन्धूनां च मधुः सुतः । श्लाघ्यो विनयसम्पन्नो योग्यः प्रीत्यनुवर्तने ॥७॥
 ज्ञात्वा चेतीव वृत्तान्तमयं सुन्दरविभ्रमः । प्रख्यातगुणसघातं परिप्राप्तो मदन्तिकम् ॥८॥
 ततो मधोरिदं प्राह मन्त्री देव तवाग्रतः । अस्य दुःखेन वर्ण्यन्ते गुणा विक्रमशालिनः ॥९॥
 तथापि भवतु ज्ञाता स्वामिनोऽस्य यथात्मना । इत्यावेदयितुं किञ्चिक्वियते प्रक्रमो मया ॥१०॥
 आमोद परमं विभ्रत्सर्वलोकमनोहरः । मधुशब्दमयं धत्ते यथार्थं पृथिवीगतम् ॥११॥
 गुणा एतावतैवारयं ननु पर्याप्तवर्णना । असुरेन्द्रेण यद्दत्तं शूलरत्नं महागुणम् ॥१२॥
 यत्प्रत्यरिबलं क्षिप्तममोघं भासुरं भृशम् । द्विपत्सहस्रं नीत्वान्तं करं प्रतिनिवर्तते ॥१३॥

अथानन्तर—उसी गङ्गा तटपर रावणने एकान्तमे मन्त्रियोके साथ सलाह की कि यह कृत-
 चित्रा कन्या किसके लिए दी जाय ? ॥१॥ इन्द्रके साथ संग्राममे जीवित रहनेका निश्चय नहीं है
 इसलिए कन्याका विवाह रूप मङ्गल कार्य प्रथम ही कर लेना योग्य है ॥२॥ तब रावणको
 कन्याके योग्य वर खोजनेमे चिन्तातुर जानकर राजा हरिवाहनने अपना पुत्र निकट बुलाया ॥३॥
 सुन्दर आकारके धारक उस विनयवान् पुत्रको देखकर रावणको बड़ा सन्तोष हुआ और उसने
 उसके लिए पुत्री देनेका विचार किया ॥४॥ जब वह मन्त्रियोके साथ योग्य आसनपर बैठ गया
 तब नीतिशास्त्रका विद्वान् रावण इस प्रकार विचार करने लगा कि यह मथुरा नगरीका राजा
 हरिवाहन उच्चकुलमे उत्पन्न हुआ है, ईसका मन सदा हमारे गुण-कथन करनेमे आसक्त
 रहता है और यह इसका तथा इसके बन्धुजनोका प्राणभूत मधु नामका पुत्र है । यह अत्यन्त
 प्रशंसनीय, विनयसंपन्न और प्रीतिके निर्वाह करनेमे योग्य है ॥५-७॥ यह वृत्तान्त जानकर ही
 मानो इसकी चेष्टाएँ सुन्दर हो रही हैं । इसके गुणोका समूह अत्यन्त प्रसिद्ध है । यह मेरे समीप
 आया सो बहुत अच्छा हुआ ॥८॥ तदनन्तर राजा मधुका मन्त्री बोला कि हे देव ! आपके आगे
 इस पराक्रमीके गुण बड़े दुःखसे वर्णन किये जाते हैं अर्थात् उनका वर्णन करना सरल नहीं
 है ॥९॥ फिर भी आप कुछ जान सके इसलिए कुछ तो भी वर्णन करनेका प्रयत्न करता हूँ ॥१०॥
 सब लोगोके मनको हरण करनेवाला यह कुमार वास्तविक मधु शब्दको धारण करता है क्योंकि
 यह सदा मधु जैसी उत्कृष्ट गन्धको धारण करनेवाला है ॥११॥ इसके गुणोका वर्णन इतनेसे ही
 पर्याप्त समझना चाहिए कि असुरेन्द्रने इसके लिए महागुणशाली शूलरत्न प्रदान किया है ॥१२॥
 ऐसा शूलरत्न कि जो कभी व्यर्थ नहीं जाता, अत्यन्त देदीप्यमान है और शत्रुसेनाकी ओर

१. 'राजाहःसखिभ्यष्ट्च' इति टच् समासान्तः । २ आह्वान प्रापितः आह्वानितः । ३. अस्मद्गुणगणे
 कीर्ति- म०, ख० । ४. प्रीत्यनुवर्तते म०, व०, ख० । प्रीतेरनुवर्तनं तस्मिन् । ५. गुणपर्याप्तवर्णना म० ।
 ६. नीत्वा त म० ।

क्रिययैव च देवोऽस्य गुणान् ज्ञास्यति वाचिरात् । वाचा हि प्रकटीकारस्तेषां हास्यस्य कारणम् ॥१४॥
 तदस्य युक्तये बुद्धिं करोतु परमेश्वरः । सम्बन्धं भवतो लब्ध्वा कृतार्थोऽयं भविष्यति ॥१५॥
 इत्युक्ते निश्चितो बुद्ध्या जामातासौ निरूपितः । समस्त च यथायोग्यं कृत्यं तस्य प्रकल्पितम् ॥१६॥
 चिन्तितप्राप्तनिःशेषकारणश्च तयोरभूत् । विवाहविधिरत्यन्तप्रीतलोकप्रसमाकुलः ॥१७॥
 पुष्पलक्ष्मीमिव प्राप्य दुराख्यानां समागतः । आमोद जगतो हृद्यं मधुस्तां नेत्रहारिणीम् ॥१८॥
 इन्द्रभूतिमिहोद्देशे प्रत्युत्पन्नकुनूहलः । अपृच्छन्मगधाधीशः कृन्वाभिनवमादरम् ॥१९॥
 असुराणामधीशेन मधवे केन हेतुना । शूलरत्नं मुनिश्रेष्ठ ! दत्तं दुर्लभसद्गमम् ॥२०॥
 इत्युक्तः पुरुणा युक्तन्तेजसा धर्मवत्सलः । शूलरत्नस्य सप्राप्तेः कारणं गौतमोऽवदत् ॥२१॥
 धातकीलक्ष्मणिर्द्वीपे क्षेत्रे चैरावतश्रुता । शतद्वारपुरेऽभूतां मित्रे सुप्रेमवन्धने ॥२२॥
 एकः सुमित्रनामासीदपरः प्रभवश्रुतिः । उपाध्यायकुले चैतां जातावतिविचक्षणौ ॥२३॥
 सुमित्रस्याभवद् राज्यं सर्वसामन्तसेवितम् । पुण्योपार्जितसत्कर्मप्रभावात् परमोदयम् ॥२४॥
 दरिद्रकुलसंभूतः कर्मभिर्दुष्कृतैः पुरा । सुमित्रेण महास्नेहात्प्रभवोऽपि कृतः प्रभुः ॥२५॥
 सुमित्रोऽथान्यद्वारण्ये हतो दुष्टेन वाजिना । दृष्टो द्विरददद्रेण म्लेच्छेन स्वैरचारिणा ॥२६॥
 आनीयासौ ततः पत्नीं संप्राप्य समयं ददम् । पत्या म्लेच्छवरुथिन्यास्तनयां परिणायितः ॥२७॥

फंका जाय जो हजारों शत्रुओंको नष्टकर हाथमें वापिस लौट आता है ॥१३॥ अथवा आप कार्यके द्वारा ही शीघ्र इसके गुण जानने लगेंगे । वचनोके द्वारा उनका प्रकट करना हास्यका कारण है ॥१४॥ इसलिए आप इसके साथ पुत्रीका सम्बन्ध करनेका विचार कीजिए । आपका सम्बन्ध पाकर यह कृतकृत्य हो जायगा ॥१५॥ मन्त्रीके ऐसा कहनेपर राजाउने उसे बुद्धि पूर्वक अपना जामाता निश्चित कर लिया और जामाताके यथायोग्य सब कार्य कर दिये ॥१६॥ इच्छा करते ही जिसके समस्त कारण अनायास मिल गये थे ऐसा उन दोनोंका विवाह अत्यन्त प्रसन्न लोगोसे व्याप्त था अर्थात् उनके विवाहोत्सवमें प्रीतिसे भरे अनेक लोक आये थे ॥१७॥ मधुनाम उस राजकुमारका था और वसन्तऋतुका भी । इसी प्रकार आमोदका अर्थ सुगन्धि है और हर्ष भी । सो जिस प्रकार वसन्तऋतु नेत्रोंको हरण करने वाली अकथनीय पुष्पसम्पदाको पाकर जगत्प्रिय सुगन्धिको प्राप्त होती है उसीप्रकार राजकुमार मधु भी नेत्रोंको हरण करनेवाली कृतचित्राको पाकर परम हर्षको प्राप्त हुआ था ॥१८॥

इसी अवसर पर जिसे कुतूहल उत्पन्न हुआ था ऐसे राजा श्रेणिकने फिरसे नमस्कार कर गौतमस्वामीसे पूछा ॥१९॥ कि हे मुनिश्रेष्ठ ! असुरेन्द्रने मधुके लिए दुर्लभ शूलरत्न किस कारण दिया था ? ॥२०॥ श्रेणिकके ऐसा कहने पर विशाल तेजसे युक्त तथा धर्मसे स्नेह रखने वाले गौतम स्वामी शूलरत्नकी प्राप्तिका कारण कहने लगे ॥२१॥ उन्होंने कहा कि धातकीखण्ड द्वीपके ऐरावतक्षेत्र सम्बन्धी शतद्वार नामक नगरमें प्रीतिरूपी बन्धनसे बंधे दो मित्र रहते थे ॥२२॥ उन में से एकका नाम सुमित्र था और दूसरेका नाम प्रभव । सो ये दोनों एक गुरुकी चटशालामें पढ़ कर बड़े विद्वान् हुए ॥२३॥ कई एक दिनमें पुण्योपार्जित सत्कर्मके प्रभावसे सुमित्रको सर्व सामन्तोंसे सेवित तथा परम अभ्युदयसे युक्त राज्य प्राप्त हुआ ॥२४॥ यद्यपि प्रभव पूर्वोपार्जित पापकर्मके उदयसे दरिद्र कुलमें उत्पन्न हुआ था तथापि महान्स्नेहके कारण सुमित्रने उसे भी राजा बना दिया ॥२५॥

अथानन्तर एक दिन एक दुष्ट घोड़ा राजा सुमित्रको हरकर जंगलमें ले गया सो वहाँ अपनी इच्छासे भ्रमण करनेवाले द्विरदद्रे नाम म्लेच्छोके राजाने उसे देखा ॥२६॥ द्विरद-

१. कृतान्तस्य म० । २. दुराख्यानां व० । दूरान्मान समागतः क०, ख० । ३. दुष्कुलै-म० । ४. पत्नी क०, व०, म० । ५. -विरुथिन्या म० ।

तां च कन्या समासाद्य साक्षादिव वनश्रियम् । वनमालाश्रुतिं तत्र स्थितोऽसौ भासमात्रकम् ॥२८॥
 अनुज्ञातस्ततस्तेन शतद्वारपुरोत्तमम् । प्रस्थितः कान्तया साक वृतः शबरसेनया ॥२९॥
 गवेषणे विनिष्कान्तः प्रभवोऽथ तदैक्षत । कान्तया सहितं मित्र स्मरस्येव पताकया ॥३०॥
 चक्रे च मित्रभार्याया मानस पापकर्मणः । उदयाक्षटनिःशेषकृत्याकृत्यविचेतनः ॥३१॥
 मनोभवशरीरुग्रस्ताड्यमानः समन्ततः । अवाप न क्वचित्सौख्य मनसा भृशमाकुलः ॥३२॥
 ज्येष्ठो व्याधिसहस्राणा मदनो मतिसूदनः । येन संग्राप्यते दुःख नरैरक्षतविग्रहैः ॥३३॥
 प्रधानं दिवसाधीशः सर्वेषां ज्योतिषा यया । तथा समस्तरोगाणा मदनो मूर्ध्नि वर्तते ॥३४॥
 विचिन्तोऽसि किमित्येवमित्युक्त सुहृदा च सः । जगाद सुन्दरीं दृष्ट्वा विवल्बत्वस्य कारणम् ॥३५॥
 श्रुत्वा प्राणसमस्यास्य दुःख स्वस्त्रीनिमित्तकम् । तामाशुप्राहिणोन् प्राज्ञः सुमित्रो मित्रवत्सल ॥३६॥
 प्रैक्ष्य च प्रभववागार गवाक्षे गूढविग्रहः । स तामैक्षत किं कुर्यादियमस्येति तत्परः ॥३७॥
 अचिन्तयच्च यद्येषा भवेन्नास्यानुकूलिका । ततो निग्रहमेतस्याः कर्तास्मि सुविनिश्चितम् ॥३८॥
 अथेतस्याश्रुत्वा भूत्वा काम सपादयिष्यति । ततो ग्रामसहस्रेण पूजयिष्यामि सुन्दरीम् ॥३९॥
 समीपं प्रभवस्यापि वनमाला च सोत्सुका । प्रदोषसमये स्पष्टे^३ ताराप्रकरमण्डिते ॥४०॥
 आसीना चासने रम्ये पुरोदोषविवर्जितः । तामपृच्छदहो भद्रे का त्वमित्युक्त्वाद्दरः ॥४१॥
 ततो विवाहपर्यन्त तस्याः श्रुत्वा विचेष्टितम् । प्रभवो निष्प्रभो जातो निर्वेद च गतः परम् ॥४२॥

दंष्ट्र उसे अपनी पत्नी (भीलोकी वस्ती) में ले गया और एक पक्की शर्त कर उसने अपनी पुत्री राजा सुमित्रको विवाह दी ॥२७॥ जो साक्षात् वनलक्ष्मीके समान जान पड़ती थी ऐसी वनमाला नामा कन्याको पाकर राजा सुमित्र वहाँ एक माह तक रहा ॥२८॥ तदनन्तर द्विरददंष्ट्रकी आज्ञा ले कर वह अपनी कान्ताके साथ शतद्वार नगरकी ओर वापिस आ रहा था । भीलोकी सेना उसके साथ थी ॥२९॥ इधर प्रभव अपने मित्रकी खोजके लिए निकला था सो उसने कामदेवकी पताका के समान सुशोभित कान्तासे सहित मित्रको देखा ॥३०॥ पापकर्मके उदयसे जिसके समस्त करने और न करने योग्य कार्योंका विचार नष्ट हो गया था ऐसे प्रभवने मित्रकी स्त्रीमे अपना मन किया ॥३१॥ सब ओरसे कामके तोड़ण वाणोसे ताडित होने के कारण उसका मन अत्यन्त व्याकुल हो रहा था इसलिए वह कहीं भी सुख नहीं पा रहा था ॥३२॥ बुद्धिको नष्ट करने वाला काम हजारों वीमारियोंमे सबसे बड़ी वीमारी है क्योंकि उससे मनुष्योंका शरीर तो नष्ट होता नहीं है पर वे दुःख पाते रहते हैं ॥३३॥ जिस प्रकार मूर्ख समस्त ज्योतिषियोंमे प्रधान है उसी प्रकार काम समस्त रोगोमे प्रधान है ॥३४॥ 'वेचैन क्यो हो रहे हो' इस तरह जब मित्रने वेचैनीका कारण पूछा तब उसने सुन्दरीको देखना ही अपनी वेचैनीका कारण कहा ॥३५॥ मित्रवत्सल सुमित्रने जब सुना कि मेरे प्राणतुल्य मित्रको जो दुःख हो रहा है उसमें मेरी स्त्री ही निमित्त है तब उस बुद्धिमानने उसे प्रभवके घर भेज दिया और आप झरोखेमें छिपकर देखने लगा कि देखे यह वनमाला इसका क्या करती है ॥३६-३७॥ साथ ही वह यह भी सोचता जाता था कि यदि यह वनमाला इसके अनुकूल नहीं हुई तो मैं निश्चित ही इसका निग्रह करूँगा अर्थात् इसे दण्ड दूँगा ॥३८॥ और यदि अनुकूल हो कर इसका मनोरथ पूर्ण करेगी तो हजार ग्राम देकर इस सुन्दरी की पूजा करूँगा ॥३९॥ तदनन्तर जब रात्रिका प्रारम्भ हो गया और आकाशमे ताराओके समूह छिटक गये तब वनमाला बड़ी उत्कण्ठाके साथ प्रभवके समीप पहुँची ॥४०॥ वनमालाको उसने सुन्दर आसनपर बैठाया और स्वयं निर्दोष भावसे उसके सामने बैठ गया । तदनन्तर उसने बड़े आदरके साथ उससे पूछा कि हे भद्रे ! तू कौन है ? ॥४१॥ वनमालाने विवाह तकका सब समाचार कह सुनाया । उसे सुनकर प्रभव प्रभाहीन हो गया और परम निर्वेदको प्राप्त हुआ ॥४२॥

अचिन्तयच्च हा कष्ट मया मित्रस्य कामिनी । किमपि प्रार्थिता कर्तुं धिङ्मासुच्छिन्नचेतनम् ॥४३॥
पापाद्स्मान्मुक्तेऽहमृते स्वस्य विपादनात् । किं वा कलङ्कयुक्तेन जीवितेन ममाधुना ॥४४॥
इति संचिन्त्य मूर्धानं स्व लुलुप्य चकर्ष सः । कोणतः सौयकं सान्द्रच्छायादिग्धनिगन्तरम् ॥४५॥
उपकण्ठं च कण्ठस्य यावदेनं चकार सः । निपत्य सहसा तावत्सुमित्रेण न्यरुध्यते ॥४६॥
जगत् च त्वरायुक्तं परिष्वज्य स तं सुहृद् । आत्मघातितया दोषं प्राज्ञः किं नाम बुध्यसे ॥४७॥
'आमगर्भेषु दुःखानि प्राप्नुवन्ति चिरं जनाः' । ये शरीरस्य कुर्वन्ति स्वस्याविधिनिपातनम् ॥४८॥
इत्युक्त्वा सुहृद्, खड्गं करान्ताग्न्यं सुचेतया । सान्निवतश्च चिरं वाक्यैर्मनोहरणकारिभिः ॥४९॥
ईदृशो च तयोः प्रीतिग्न्योऽन्यगुणयोजिता । प्राप्स्यन्त्यन्तमहो कष्टं संसारः सारवर्जितः ॥५०॥
पृथक् पृथक् प्रपद्यन्ते सुखदुःखकरौ गतिम् । जीवाः स्वकर्मसंपन्नाः कोऽत्र कस्य सुहृज्जनः ॥५१॥
अन्यदाय त्रिवृद्धात्मा श्रमणन्व समाश्रितः । ईशानकल्प ईशत्वं सुमित्रः प्राप्तवान् सुखी ॥५२॥
ततश्च्युत्वेह संभूतो द्वीपे जम्बूद्वान्तिके । हरिवाहनराजस्य मथुरायां सुरः पुरि ॥५३॥
माधव्यास्तनयो नाम्ना मधुः स मधुमोहितः । नमसो हरिवंशस्य यश्चन्द्रन्वमुपागतः ॥५४॥
मिथ्यादृक् प्रभवो मृत्वा दुःखमासाद्य दुर्गतां । विप्रवाचसोरभूत् पुत्रो ज्योतिष्मत्यां शिखिश्रुतिः ॥५५॥
'श्रमणन्वधरः कृत्वा तपः कष्टं निदानतः' । दैत्यानामधिपो जातश्चमराट्योऽधमामरः ॥५६॥
ततोऽवधिहृतालोकं स्पृत्वा पूर्वभवान् निजान् । गुणान् सुमित्रमित्रस्य चक्रे मनसि निर्मलान् ॥५७॥

वह विचार करने लगा कि हाय-हाय बड़े कष्टकी बात है कि मैंने मित्रकी स्त्रीसे कुछ तो भी करनेकी इच्छा की। मुझ अविधेकीके लिए धिक्कार है ॥४३॥ आत्मघातके सिवाय अन्य तरह मैं इस पापसे मुक्त नहीं हो सकता। अथवा मुझे अब इस कलङ्की जीवनसे प्रयोजन ही क्या है? ॥४४॥ ऐसा विचारकर उसने अपना मस्तक काटनेके लिए म्यानसे तलवार खींची। उसकी वह तलवार अपनी सधन कान्तिसे दिशाओंके अन्तरालको व्याप्त कर रही थी। ॥४५॥ वह इस तलवारको कण्ठके पास ले ही गया था कि सुमित्रने सहसा लपककर उसे रोक दिया ॥४६॥ सुमित्रने शीघ्रतासे मित्रका आलिङ्गन कर कहा कि तुम तो पण्डित हो, आत्मघातसे जो दोष होता है उसे क्या नहीं जानते हो? ॥४७॥ जो मनुष्य अपने शरीरका अविधिसे घात करते हैं वे चिरकाल तक कच्चे गर्भमें दुख प्राप्त करते हैं अर्थात् गर्भ पूर्ण हुए बिना ही असमय में मर जाते हैं ॥४८॥ ऐसा कहकर उसने मित्रके हाथसे तलवार छीनकर नष्ट कर दी और चिर काल तक उसे मनोहारी वचनोंसे समझाया ॥४९॥ आचार्य कहते हैं कि परम्परके गुणोंसे सम्बन्ध रखनेवाली उन दोनों मित्रोंकी प्रीति इस तरह अन्तको प्राप्त होगी इससे जान पड़ता है कि यह संसार असार है ॥५०॥ अपने-अपने कर्मोंसे युक्त जीव सुख-दुःख उत्पन्न करनेवाली पृथक्-पृथक् गतिको प्राप्त होते हैं इसलिए इस संसारमें कौन किसका मित्र है? ॥५१॥ तदनन्तर जिसकी आत्मा प्रवृद्ध थी ऐसा राजा सुमित्र मुनि दीक्षा धारणकर अन्तमें ऐशान स्वर्गका अधिपति हो गया ॥५२॥ वहाँसे च्युत होकर जम्बूद्वीपकी मथुरा नगरीमें राजा हरिवाहनकी माधवी रानीसे मधु नामका पुत्र हुआ। यह पुत्र मधुके समान मोह उत्पन्न करनेवाला था और हरिवंश रूपी आकाशमें चन्द्रमाके समान सुशोभित था ॥५३-५४॥ मिथ्यादृष्टि प्रभव मरकर दुर्गतिमें दुःख भोगता रहा और अन्तमें विश्वावसुकी ज्योतिष्मती स्त्रीके शिखी नामा पुत्र हुआ ॥५५॥ सो द्रव्यलिङ्गी मुनि हो महातपकर निदानके प्रभावसे असुरोंका अधिपति चमरेन्द्र हुआ ॥५६॥ तदनन्तर अवधिज्ञानके द्वारा अपने पूर्व भवोंका स्मरणकर सुमित्र नामक मित्रके निर्मल

१. मारणात् । २. खड्गम् । ३. निर्दन्ते मं० । ४. दोषः म० । ५. अपरिपूर्णगर्भेषु । ६. करात्तस्य म० । ७. मथुरापुरी पुरि क०, ल० । ८. श्रवणत्व- म० ।

सुमित्रराजचरित स्मर्यमाण सुपेशलम् । असुरेन्द्रस्य हृदय^१ चकर्त्त करपत्रवत् ॥५८॥
 दध्यौ चेति पुनर्भद्रः सुमित्रोऽसौ महागुण । आसीन्मम महामित्र सहायः सर्ववस्तुषु ॥५९॥
 तेन सार्धं मया विद्या गृहीता गुरुवेशमनि । दरिद्रकुलसभूतस्तेनाहं स्वसमः कृतः ॥६०॥
 आत्मीया तेन मे^२ पत्नी द्वेषवर्जितचेतसा । प्रेषिता पापचित्तस्य वितृष्णेन दयावता ॥६१॥
 ज्ञान्वा वयस्यपत्नीति परमुद्वेगमागत । शिर स्वमसिना छिन्दंस्तेनाह परिरक्षित ॥६२॥
 अश्रद्धधञ्जिनेन्द्राणां शासन पञ्चता गतः । प्राप्तोऽस्मि दुर्गतौ दुःख स्मरणेनापि दुःसहम् ॥६३॥
 निन्दन साधुवर्गस्य सिद्धिमार्गानुवर्तिनः । यत्कृत तस्य तत्प्राप्त फल दुःखास्तु योनिषु ॥६४॥
 स चापि चरित^३ कृत्वा निर्मल सुखमुत्तमम् । ऐशाननिलये भुक्त्वा च्युतोऽय वतंते मधु ॥६५॥
 उपकारसमाकृष्टस्ततोऽसौ भवनास्त्रिजात् । निर्जंगाम क्षणोद्धृतपरप्रेमाद्र्मानस ॥६६॥
 दृष्ट्वादरेण कृत्वा च महारत्नादिपूजनम् । शूलरत्न ददावस्मै सहस्रान्तकसञ्चितम् ॥६७॥
 शूलरत्न स तत्प्राप्य परा प्रीति गतः क्षितौ । अस्त्रविद्याधिराजश्च सिंहवाहनजोऽभवत् ॥६८॥
 एतन्मधोरुपाख्यानमर्धाते यः शृणोति वा । दीप्तिमर्थं पर चायुः सोऽधिगच्छति मानव ॥६९॥
 सामन्तानुगतोऽथासौ मूर्खत्वमखनाशकृत् । प्रभाव प्रथयँल्लोके प्रवणीकृतविद्विपम् ॥७०॥
 सवत्सरान् दशाष्टौ च विहरक्षनिताद्भुतम् । भुवने जनितप्रेग्नि देवेन्द्रस्त्रिदिवे यथा ॥७१॥

गुणोंका हृदयमे चिन्तवन करने लगा ॥५७॥ ज्यो ही उसे सुमित्र राजाके मनोहर चरित्रका स्मरण आया ज्योही वह करोंतके समान उसके हृदयको विदीर्ण करने लगा ॥५८॥ वह विचार करने लगा कि सुमित्र बड़ा ही भला और महागुणवान् था । वह समस्त कार्योंमें सहायता करनेवाला मेरा परम मित्र था ॥५९॥ उसने मेरे साथ गुरुके घर विद्या पढी थी । मैं दरिद्रकुल मे उत्पन्न हुआ था सो उसने मुझे अपने समान धनवान् बना लिया था ॥६०॥ मेरे चित्तमें पाप समाया सो द्वेषरहित चित्तके धारक उस दयालुने तृष्णारहित होकर मेरे पास अपनी स्त्री भेजी ॥६१॥ 'यह मित्रकी स्त्री है' ऐसा जानकर जब मैं परम उद्वेगको प्राप्त होता हुआ तलवारसे अपना शिर काटनेके लिए उद्यत हुआ तो उसीने मेरी रक्षा की थी ॥६२॥ मैंने जिनके शासनकी श्रद्धा बिना मरकर दुर्गतिमें ऐसे दुःख भोगे कि जिनका स्मरण करना भी दुःसह है ॥६३॥ मैंने मोक्षमार्गका अनुवर्तन करनेवाले साधुओंके समूहकी जो निन्दा की थी उसका फल अनेक दुःखदायी योनियोंमें प्राप्त किया ॥६४॥ और वह सुमित्र निर्मल चारित्रिका पालनकर ऐशान स्वर्गमें उत्तम सुखका उपभोग करनेवाला इन्द्र हुआ तथा अब वहाँसे च्युत होकर मधु हुआ है ॥६५॥ इस प्रकार क्षणभरमें उत्पन्न हुए परम प्रेमसे जिसका मन आर्द्र हो रहा था ऐसा चमरेन्द्र सुमित्र मित्रके उपकारोंसे आकृष्ट हो अपने भवनसे बाहर निकला ॥६६॥ उसने बड़े आदरके साथ मिलकर महारत्नोंसे मित्रका पूजन किया और उसके लिए सहस्रान्तक नामक शूलरत्न भेटमें दिया ॥६७॥ हरिवाहनका पुत्र मधु चमरेन्द्रसे शूलरत्न पाकर पृथिवीपर परम प्रीतिको प्राप्त हुआ और अस्त्रविद्याका स्वामी कहलाने लगा ॥६८॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन् ! जो मनुष्य मधुके इस चरित्रको पढ़ता अथवा सुनता है वह विशाल दीप्ति, श्रेष्ठ धन और उत्कृष्ट आयुको प्राप्त होता है ॥६९॥

अथानन्तर अनेक सामन्त जिसके पीछे-पीछे चल रहे थे ऐसा रावण लोकमें शत्रुओंको वशीभूत करनेवाला अपना प्रभाव फैलाता और अनेक आश्चर्य उत्पन्न करता हुआ प्रेमसे भरे संसारमें अठारह वर्ष तक इस प्रकार भ्रमण करता रहा जिस प्रकार कि इन्द्र स्वर्गमें भ्रमण करता

१. चिच्छेद । २. मर्दर्थम् । ३. श्रुत्वा म० । ४. भुवनान्नि- म० । ५. महारत्नातिपूजनम् म० ।
 ६. सहस्रांशक ख० । सहस्रान्तिक म० । ७. रावण. । ८. प्रलय म० ।

मुञ्जन्नारासमुद्रस्य धरणीं धरणीपतिः । चिरेण जिनचैत्याढ्य प्रापाष्टापदभूधरम्^१ ॥७२॥
 प्रसन्नसलिला तत्र भाति मन्दाकिनी भृशम् । महिषी सिन्धुनाथस्य कनकाब्जरजस्तता ॥७३॥
 सन्निवेश्य समीपेऽस्या वाहिनी परमाप ताम् । मनोज्ञ रमण चक्रे कैलासस्य स कुक्षिपु ॥७४॥
 नुनुदु. खेचरा. खेद भूचराश्च यथाक्रमम् । मन्दाकिन्याः सुखस्पर्शसलिले स्फटिकामले ॥७५॥
 न मेरुपल्लवापास्तलोठनोपात्तपांशवः । स्नपिताः सप्तय. पीतपयसो^२ विनयस्थिताः ॥७६॥
 शीकराद्रितदेहत्वाद् प्राहिताः सुघन रजः । तटिन्यस्तमहाखेदा स्नपिताः कुक्षराश्रिरम् ॥७७॥
 स्मृतवानु बालिवृत्तान्त नमस्कृतजिनालयः । यमध्वसः स्थितः कुर्वश्चेष्टां धर्मानुगामिनीम् ॥७८॥
 अथ योऽसौ सुरेन्द्रेण नियुक्तो नलकूबरः । लोकपालतया ख्यातः पुरे दुर्लङ्घ्यसन्नके ॥७९॥
^३उपगत्य स विज्ञाय रावण चरवर्गतः । जिगीपथा समायात सैन्यसागरवर्तिनम् ॥८०॥
 लेखारोपितवृत्तान्त प्राहिणोदाशुगामिनम् । खेचर सुरनाथाय त्रासाध्यासितमानसः ॥८१॥
^४मन्दर प्रस्थितायास्मै वन्दितु जिनपुङ्गवान् । प्रणम्य लेखवाहेन लेखोऽवस्थापितः पुरः ॥८२॥
 वाचयित्वा च त कृत्वा हृदयेऽर्थमशेषतः । आज्ञापयत् सुराधीशो^५ वस्त्विदं लेखदानतः ॥८३॥
 यत्नात्तावदिहास्व^६ त्वममोघास्यस्य पालकः । जिनानां पाण्डुके कृत्वा वन्दनां यावदेभ्यहम् ॥८४॥

है ॥७०-७१॥ तदनन्तर रावण क्रम-क्रमसे समुद्रकी निकटवर्तिनी भूमिको छोड़ता हुआ चिरकाल के बाद जिनमन्दिरोसे युक्त कैलास पर्वतपर पहुँचा ॥७२॥ वहाँ स्वच्छ जलसे भरी समुद्रकी पत्नी एवं सुवर्ण कमलोकी परागसे व्याप्त गङ्गा नदी अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥७३॥ सो उसके समीप ही अपनी विशाल मेना ठहराकर कैलासकी कन्दराओमें मनोहर क्रीड़ा करने लगा ॥७४॥ पहले विद्याधर और फिर भूमिगोचरी मनुष्योंने यथाक्रमसे गङ्गा नदीके स्फटिकके समान स्वच्छ सुखकर स्पर्शवाले जलमें अपना खेद दूर किया था अर्थात् स्नानकर अपनी थकावट दूर की थी ॥७५॥ पृथ्वीपर लोटनेके कारण लगी हुई जिनकी धूलि नमेरुवृत्तके नये-नये पत्तोंसे झाड़कर दूर कर दी गई थी और पानी पिलानेके बाद जिन्हें खूब नहलाया गया था ऐसे छोड़े विनयसे खड़े थे ॥७६॥ जल के छीटोसे गीला शरीर होनेके कारण जिनपर बहुत गाढ़ी धूलि जमी हुई थी तथा नदीके द्वारा जिनका बड़ा भारी खेद दूर कर दिया गया था ऐसे हाथियोंको महावतोंने चिरकाल तक नहलाया था ॥७७॥ कैलासपर आते ही रावणको बालिका वृत्तान्त स्मृत हो उठा इसलिए उसने समस्त चैत्यालयोंको बड़ी सावधानीसे नमस्कार किया और धर्मानुकूल क्रियाओंका आचरण किया ॥७८॥

अथानन्तर इन्द्रने दुर्लङ्घ्यपुर नामा नगरमें नलकूबरको लोकपाल बनाकर स्थापित किया था सो गुप्तचरोसे जब उसे यह मालूम हुआ कि सेना रूपी सागरके मध्य वर्तमान रहनेवाला रावण जीतनेकी इच्छासे निकट ही आ पहुँचा है तब उसने भयभीतचित्त होकर पत्रमें सब समाचार लिख एक शीघ्रगामी विद्याधर इन्द्रके पास पहुँचाया ॥७९-८१॥ सो इन्द्र जिस समय जिन-प्रतिमाओंकी वन्दना करनेके लिए सुमेरु पर्वतपर जा रहा था उसी समय पत्रवाहक विद्याधरने प्रणामकर नलकूबरका पत्र उसके सामने रख दिया ॥८२॥ इन्द्रने पत्र बॉचकर तथा समस्त अर्थ हृदयमें धारणकर प्रतिलेख द्वारा आज्ञा दी कि मैं जबतक पाण्डुकवनमें स्थित जिन-प्रतिमाओंकी वन्दनाकर वापिस आता हूँ तबतक तुम बड़े यत्नसे रहना । तुम अमोघ अस्रके धारक

१. कैलासगिरिम् । २. रजस्तथा म० । ३. पल्लवायास्त म० । ४. नमिताः म० । ५. विनया-स्थिताः म० । ६. तटिन्या नद्या अस्तो महाखेदो येषा ते । तटिन्यस्तमहाभेदाः क०, ख० । तटिन्यस्तमहाखेदाः ब० । ७. समीपं । ८. मेरुम् । मन्दिरं म०, ब० । ९. वास्त्विद म० । १०. इह + आस्व । -दिहास्व म० । -दिहस्थ ब० ।

इति संदिश्य गर्वेण सेनामगणयन् द्विप' । गतोऽसौ पाण्डुकोद्यान वन्दनासक्तमानसः ॥८५॥
 समस्तासमेतश्च प्रयत्नान्नलकूबर' । पुरस्याचिन्तयद् रक्षामिति कर्तव्यतत्परः ॥८६॥
 योजनानां शतं तुङ्गः प्राकारो विद्यया कृतः । वज्रशाल इति ख्यातः परिधिस्त्रिगुणान्वितः ॥८७॥
 रावणेन च विज्ञाय नगरं शत्रुगोचरम् । गृहीतुं प्रेषितो दण्डः प्रहस्तोऽनीकिनीपतिः ॥८८॥
 निवृत्य रावणायासावाख्यह्वेन न शक्यते । गृहीतुं तत्पुरं तुङ्गप्राकारकृतवेष्टनम् ॥८९॥
 पश्य दृश्यत एवायं दिक्षु सर्वासु दारुणः । शिखरी विवरी दद्याकरालास्यशयूपमः ॥९०॥
 दृष्टमानमिवोदार कीचकानां घनं वनम् । स्फुलिङ्गराशिदुष्प्रेक्ष्यज्वालालसमाकुलम् ॥९१॥
 दद्याकरालवेतालरूपाण्यस्य नरान् बहुज्ज । हरन्त्युदारयन्त्राणि योजनाभ्यन्तरस्थितान् ॥९२॥
 तेषां वक्त्राणि ये प्राप्ता यन्त्राणां प्राणिनां गणा' । तेषां जन्मान्तरे भूयः शरीरेण समागमः ॥९३॥
 इति विज्ञाय कर्तव्यस्त्वया कुशलसगमः । उपायो विजिगीषुत्वं क्रियते दीर्घदर्शिनौ ॥९४॥
 निःसर्पणमर' तावदस्माद्देशाद् विराजते । सशयः परमोऽप्यत्र दृश्यते दुर्निराकृतः ॥९५॥
 ततः कैलासकुक्षिस्था दशवक्त्रस्य मन्त्रिण' । उपायं चिन्तयाञ्चकुर्नयशास्त्रविशारदा' ॥९६॥
 अथ रम्भागुणाकारा नलकूबरकामिनी । उपरम्भेति विख्याता शुभ्रावान्ते दशाननम् ॥९७॥
 पूर्वमेव गुणै रक्ता तत्रोत्कण्ठा परामसौ । जगाम रजनीनाथे यथा कुमुदसहति ॥९८॥

हो ॥८३-८४॥ ऐसा सन्देश देकर जिसका मन वन्दनामे आसक्त था ऐसा इन्द्र गर्ववश शत्रुकी सेनाको कुछ नहीं गिनता हुआ पाण्डुकवन चला गया ॥८५॥ इधर समयानुसार कार्य करनेमें तत्पर रहनेवाले नलकूबरने समस्त आप्तजनोके साथ मिलकर बड़े प्रयत्नसे नगरकी रक्षाका उपाय सोचा ॥८६॥ उसने सौ योजन ऊँचा और तिगुनी परिधिसे युक्त वज्रशाल नामा कोट, विद्याके प्रभावसे नगरके चारो ओर खड़ा कर दिया ॥८७॥ यह नगर शत्रुके आधीन है ऐसा जानकर रावणने दण्ड वसूल करनेके लिए प्रहस्त नामा सेनापति भेजा ॥८८॥ सो उसने लौटकर रावणसे कहा कि हे देव ! शत्रुका नगर बहुत ऊँचे प्राकारसे घिरा हुआ है इसलिए वह नहीं लिया जा सकता है ॥८९॥ देखो वह भयङ्कर प्राकार यहाँ से ही समस्त दिशाओमें दिखाई दे रहा है । वह बड़ी ऊँची शिखरो और गम्भीर विलोसे युक्त है तथा जिसका मुख दाँदोंसे भयङ्कर है ऐसे अजगरके समान जान पड़ता है ॥९०॥ उड़ते हुए तिलगोसे जिनकी ओर देखना भी कठिन है ऐसी ज्वालाओके समूहसे वह प्राकार भरा हुआ है तथा बॉसोके जलते हुए किसी सघन बड़े वनके समान दिखाई देता है ॥९१॥ इस प्राकारमें भयङ्कर दाँदोंको धारण करनेवाले वेतालो के समान ऐसे-ऐसे विशाल यन्त्र लगे हुए हैं जो एक योजनके भीतर रहनेवाले बहुतसे मनुष्यों को एक साथ पकड़ लेते हैं ॥९२॥ प्राणियोंके जो समूह उन यन्त्रोंके मुखमें पहुँच जाते हैं फिर उसके शरीरका समागम दूसरे जन्ममें ही होता है ॥९३॥ ऐसा जानकर आप नगर लेनेके लिए कोई कुशल उपाय सोचिए । यथार्थमें दीर्घदर्शी मनुष्यके द्वारा ही विजिगीषुपना किया जाता है अर्थात् जो दीर्घदर्शी होता है वही विजिगीषु हो सकता है ॥९४॥ इस स्थानसे तो शीघ्र ही निकल भागना शोभा देता है क्योंकि यहाँ पर जिसका निरावरण नहीं किया जा सकता ऐसा बहुत भारी संशय विद्यमान है ॥९५॥ तदनन्तर कैलासकी गुफाओंमें बैठे रावणके नीतिनिपुण मन्त्री उपायका विचार करने लगे ॥९६॥

अथानन्तर जिसके गुण और आकार रम्भा नामक अप्सराके समान थे ऐसी नलकूबरकी उपरम्भा नामक प्रसिद्ध स्त्री ने सुना कि रावण समीप ही आकर ठहरा हुआ है ॥९७॥ वह रावणके गुणोंसे पहले ही अनुरक्त थी इसलिए जिस प्रकार कुमुदोकी पंक्ति चन्द्रमाके विषयमें

१. गृहीत प्रेषितो दण्डः प्रहस्तो नाकिनीपतिः म० । २. स्थित म० । स्थिता ख० । ३. दर्शिता म०, दर्शिता ख०, व० । दर्शिनः ज० । ४. शीघ्रम् ।

सखीं विचित्रमालाख्यामेकान्ते चेत्यभाषत । शृणु सुन्दरि काऽस्त्यन्या^१ सखी प्राणसमा मम ॥६६॥
समानं ख्याति येनातः सखिशब्दः प्रवर्तते । अतो न मे मतेभेदं कर्तुमर्हसि शोभने ॥१००॥
नियमात् कुरूपे यस्मादक्षे मत्कार्यसाधनम् । ततो ब्रवीमि सख्यो हि जीवितालम्बनं परम् ॥१०१॥
एवमुक्त्वा जगादासौ क्रिमेवं देवि भाषसे । मृत्याहं विनियोक्तव्या त्वया ब्रान्दितकर्मणि ॥१०२॥
न करोमि स्तुतिं स्वस्य सा हि लोकैऽतिनिन्दिता । एतावन्नु ब्रवीम्येषा सिद्धिरेवास्मि रूपिणी ॥१०३॥
वद विश्रब्धिका भूत्वा यत्ते मनसि वर्तते । मयि सत्यां वृथा खेदः स्वामिन्या धार्यते त्वया ॥१०४॥
उपरम्भा ततोऽवादीश्वश्वत्यायतमन्थरम् । पद्मामे चन्द्रमःकान्तं करे न्यस्य कपोलकम् ॥१०५॥
निष्क्रान्तस्तम्भितान् वर्णान् प्रेरयन्ती पुनः पुनः । आरूढपतित धाण्यै कृच्छ्राग्निदधती मनः ॥१०६॥
नखि बाल्यत भारभ्य रावणे मन्मनो गतम् । लोकावतायिनस्तस्य गुणाः कान्ता मया श्रुताः ॥१०७॥
अग्रगल्भतया प्राप्ता साहमप्रियसङ्गमम् । वहामि परमप्रीतेः पश्चात्तापमनारतम् ॥१०८॥
जानामि च तथा नैतत्प्रशस्यमिति रूपिणि । तथापि मरणं सोढुं नास्मि शक्ता सुभाषिते ॥१०९॥
सोऽयमासन्नदेशस्थो वर्तते मे मनोहरः । कथंचिदमुना योगं प्रसीद कुरु मे सखि ॥११०॥
एषा नमामि ते पादावित्युक्त्वा तावदुद्यता । गिरो नमयितुं तावत्सत्या तत्सभ्रमाद्घृतम् ॥१११॥

उत्कण्ठाको प्राप्त रहती हैं उसी प्रकार वह भी रावण के विषयमे परम उत्कण्ठाको प्राप्त हुई ॥६८॥
उसने एकान्तमे विचित्रमाला नामक सखीसे कहा कि हे सुन्दरि, सुन । तुझे छोड़कर मेरी प्राण-
तुल्य दूसरी सखी कौन है ? ॥६६॥ जो समान वात कहे वहीं सखी शब्द प्रवृत्त होता है अर्थात्
समान वात कहनेवाली ही सखी कहलाती है इसलिए हे शोभने ! तू मेरी मनसाका भेद
करनेके योग्य नहीं है ॥१००॥ हे चतुरे ! तू अवश्य ही मेरा कार्य सिद्ध करती है इसलिए तुझसे
कहती हूँ । यथार्थमे सखियाँ ही जीवनका बड़ा आलम्बन हैं—सबसे बड़ा सहारा हैं ॥१०१॥
ऐसा कहनेपर विचित्रमालाने कहा कि हे देवि ! आप ऐसा क्यों कहती है । मैं तो आपकी दासी
हूँ, मुझे आप इच्छित कार्यमे लगाइये ॥१०२॥ मैं अपनी प्रशंसा नहीं करती क्योंकि लोकमे उसे
निन्दनीय बताया है पर इतना अवश्य कहती हूँ कि मैं साक्षात् रूपधारिणी सिद्धि ही हूँ ॥१०३॥
जो कुछ तुम्हारे मनमे हो उसे नि शङ्क होकर कहो मेरे रहते आप खेद व्यर्थ ही उठा रही
हैं ॥१०४॥ तदनन्तर उपरम्भा लम्बी और धीमी साँस लेकर तथा कमल तुल्य हथेलीपर चन्द्रमा
के समान सुन्दर कपोल रखकर कहने लगी ॥१०५॥ जो अक्षर उपरम्भाके मुखसे निकलते थे वे
लज्जाके कारण बीच-बीचमे रुक जाते थे अतः वह उन्हें बार-बार प्रेरित कर रही थी—तथा
उसका मन घृष्टताके ऊपर बार-बार चढ़ता और बार-बार गिरता था सो उसे वह बड़े कष्टसे
घृष्टताके ऊपर स्थित कर रही थी ॥१०६॥ उसने कहा कि हे सखि ! बाल्य अवस्थासे ही मेरा मन
रावणमे लगा हुआ है । यद्यपि मैंने उसके समस्त लोकमे फैलनेवाले मनोहर गुण सुने हैं तो भी मैं
उसका समागम प्राप्त नहीं कर सकी । किन्तु उसके विपरीत भाग्यकी मन्दतासे मैं नलकृवरके
साथ अप्रिय संगमको प्राप्त हुई हूँ सो अप्रीतिके कारण निरन्तर भारी पश्चात्तापको धारण करती
रहती हूँ ॥१०७-१०८॥ हे रूपिणि ! यद्यपि मैं जानती हूँ कि यह कार्य प्रशंसनीय नहीं है तथापि
हे सुभाषिते ! मैं मरण सहन करनेके लिए भी समर्थ नहीं हूँ ॥१०९॥ मेरे मनको हरण करनेवाला
वह रावण इस समय निकट ही स्थित है इसलिए हे सखि ! मुझपर प्रसन्न हो और इसके साथ
किसी तरह मेरा समागम करा ॥११०॥ 'यह मैं तेरे चरणोमे नमस्कार करती हूँ' इतना कहकर
ल्योही वह शिर भुक्तानेके लिए उद्यत हुई त्योंही सखीने बड़ी शीघ्रतासे उसका शिर बीचमे पकड़

१. कास्त्यन्यसखी ख०, म० । २. निन्दिता. म० । ३. निश्चिन्ता । ४. चन्द्रवल्लुन्दर । ५. मे मनो
म० । ६. लोकावगायिनः म० । लोकविस्तारिणः । ७. परम्+अप्रीतेः । परमं प्रीतेः ख०, व०, म० ।
८. नमयितं म० । ९. सभ्रमाद्घृतम् म० ।

वरं स्वामिनि कामं ते साधयामि क्षणादिति । गदित्वा निर्गता गेहाद् दूती ज्ञाताखिलस्थिति ॥११२॥
 साम्भोजीमृतसंकाशसूक्ष्मवस्त्रावगुण्डिता । समुत्पत्य क्षणात्प्राप वसति रक्षसा प्रभो ॥११३॥
 अन्तःपुर प्रविष्टा च प्रतीहार्या निवेदिता । कृत्वा प्रणतिमासीना दत्ते सविनयासने ॥११४॥
 ततो जगाद् देवस्य भुवन सकल गुणं । दोषसङ्गोष्कवैर्न्यासं यत्तद्युक्तं तवेदम् ॥११५॥
 उदारो विभवो यस्ते याचकास्तर्पयन् भुवि । कारणेनापुना वेद्मि सर्वेषां त्वा हिते स्थितम् ॥११६॥
 आकारस्यास्य जानामि न ते प्रार्थनमज्जनम् । भूतिर्भवद्विद्याना हि 'परोपकृतिकारणम् ॥११७॥
 न त्वमुत्मारिताशं परिवर्गो विभो क्षणम् । अवधानस्य दानेन प्रसाद् कर्तुमर्हसि ॥११८॥
 तथा कृते तत कर्णं दणवक्रस्य सा जगौ । सकल पूर्ववृत्तान्तं सर्ववृत्तान्तवेदिनी ॥११९॥
 ततः पित्राय पाणिभ्यां श्रवणौ पुत्तपोत्तम । बुन्धन् शिरश्चिरं चक्षुःसकोचं परमानयन् ॥१२०॥
 विचित्रवनितावाञ्छाचिन्तापिन्नमति, क्षणम् । वमूव केकसीसुनुः सदाचारपरायण ॥१२१॥
 जगाद् च स्मिन् कृत्वा भद्रे चेतसि ते कथम् । स्थितमीदृगितं वस्तु पापसंगमकारणम् ॥१२२॥
 ईदृशो याचितेऽन्यन्त दरिद्र किं करोम्यहम् । अभिमानं परित्यज्य तथेदमुदितं त्वया ॥१२३॥
 विधवा भर्तृमयुक्ता प्रमदा कुलवालिका । वेश्या च रूपयुक्तापि परिहार्या प्रयत्नत ॥१२४॥
 विरोधवदितं कर्म परत्रेह च जन्मनि । लोकद्वयपरिभ्रष्टः कीदृशो वद मानवः ॥१२५॥

लिया ॥१११॥ 'हे स्वामिनी ! मैं आपका मनोरथ शीघ्र ही सिद्ध करती हूँ' यह कहकर सब विधितिको जाननेवाली दूती घरसे बाहर निकली ॥११२॥ सजल मेघके समान सूक्ष्म वस्त्रका धूँधट धारण करनेवाली दूती आकाशमें उड़कर क्षणभरमें रावणके डेरमें जा पहुँची ॥११३॥ द्वारपालीके द्वारा सूचना देकर वह अन्तःपुरमें प्रविष्ट हुई । वहाँ प्रणामकर, रावणके द्वारा दिये आसनपर विनयसे बैठी ॥११४॥ तदनन्तर कहने लगी कि हे देव ! आपके निर्दोष गुणोंसे जो समस्त संसार व्याप्त हो रहा है वह आपके समान प्रभावक पुरुषके अनुरूप ही है ॥११५॥ चूँकि आपका उदार वैभव पृथिवीपर याचकोंको संतुष्ट कर रहा है इस कारण मैं जानती हूँ कि आप सबका हित करनेमें तत्पर हैं ॥११६॥ मैं खूब समझती हूँ कि इस आकारको धारण करनेवाले आप मेरी प्रार्थनाको भङ्ग नहीं करेंगे । यथार्थमें आप जैसे लोगोंकी सम्पदा परोपकारका ही कारण है ॥११७॥ हे विभो ! आप क्षणभरके लिए समस्त परिजनको दूर कर दीजिये और ध्यान देकर मुझपर प्रसन्नता कीजिए ॥११८॥ तदनन्तर जब सर्व परिजन दूर कर दिये गये और विलकुल एकान्त हो गया तब सब वृत्तान्त जाननेवाली दूतीने रावणके कानमें पहलेका सब समाचार कहा ॥११९॥

तदनन्तर दूतीकी बात सुन रावणने दोनों हाथोंसे दोनों कान ढक लिये । वह चिर काल तक शिर हिलाता रहा और नेत्र सकोड़ता रहा ॥१२०॥ सदाचारमें तत्पर रहनेवाला रावण परस्त्रीकी वाञ्छा सुन चिन्तासे क्षणभरमें खिन्न चित्त हो गया ॥१२१॥ उसने हँसते हुए कहा कि हे भद्रे ! पापका संगम करानेवाली यह ऐसी बात तुम्हारे मन आई ही कैसे ? ॥१२२॥ तू ने यह बात अभिमान छोड़कर कही है । ऐसी याचनाके पूर्ण करनेमें मैं अत्यन्त दरिद्र हूँ, क्या करूँ ? ॥१२३॥ चाहे विधवा हो, चाहे पतिसे सहित हो, चाहे कुलवती हो और चाहे रूपसे युक्त वेश्या हो परन्तु मात्रका प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए ॥१२४॥ यह कार्य इस लोक तथा परलोक दोनों ही जगह विरुद्ध है । तथा जो मनुष्य दोनों लोकोंसे भ्रष्ट हो गया वह मनुष्य

१. परोपकृतिकारिणाम् ख० । परोपकृतिर्कर्मणाम् क० । २. परमानयत् म०, व० । ३. कुलवालिके

नरान्तरमुखक्लेदपूर्णेऽन्याङ्गविमर्दिते । उच्छिष्टभोजने भोक्तु^१ भद्रे वाञ्छति को नरः ॥१२६॥
 मिथो विभीषणायैदं प्रीत्यानेनाथ वेदितम् । नयज्ञः स जगादैव सततं मन्त्रिगणाग्रणीः ॥१२७॥
 देव प्रक्रम एवायमीदृशो वर्तते यतः । अलीकमपि वक्तव्य राज्ञा नयवता सदा ॥१२८॥
 तुष्टाभ्युपगमात् किञ्चिदुपायं कथयिष्यति । उपरम्भा परिप्राप्तौ विश्रम्भ परमागता ॥१२९॥
 ततस्तद्वचनात्तेन दूती ऋञ्जानुगामिना । इत्यभाष्यत तन्नाम भद्रे यदुचितं त्वया ॥१३०॥
 वराक्री मद्गतप्राणा वर्तते सा सुदु खिता । रक्षणीया ममोदारा भवन्ति हि दयापराः ॥१३१॥
 ततश्चानय तां गत्वा प्राणैर्यावन्न मुच्यते । प्राणिना रक्षणे धर्मः श्रूयते प्रकटो भुवि ॥१३२॥
^२इत्युक्त्वा ^३परिदृष्टा सा गत्वा तामानयत् क्षणात् । आदरश्च ^४महानस्याः कृतो यमविमर्दिना ॥१३३॥
 ततो मदनसंप्राप्तौ सा तेनैवमभाष्यत । दुर्लङ्घनगरे देवि रन्तु मम परा स्पृहा ॥१३४॥
 अटव्यामिह किं सौख्य किं वा मदनकारणम् । तथा कुरु यथैतस्मिस्त्वया सह पुरे रमे ॥१३५॥
 ततस्तत्तस्य कौटिल्यमविज्ञाय स्मरातुरा । स्त्रीणां स्वभावमुग्धत्वात्पुरस्यागमनाय सा ॥१३६॥
 ददावाशालिकां विद्यां प्राकारत्वेन कल्पिताम् । व्यन्तरैः कृतरक्षाणि नानास्त्राणि च सादरा ॥१३७॥
 अपयातश्च शालोऽस्तौ विद्यालाभादनन्तरम् । स्थित प्रकृतिशालेन केवलेनावृतं पुरम् ॥१३८॥
 बभूव रावणः साक सैन्येन महतान्तिक^५ । पुरस्य^६ निन्द श्रुत्वा क्षुब्धश्च नलकूबरः ॥१३९॥

ही क्या सो तू ही कह ॥१२५॥ हे भद्रे ! दूसरे मनुष्यके मुखकी लारसे पूर्ण तथा अन्य मनुष्यके अङ्गसे मर्दित जूठा भोजन खानेकी कौन मनुष्य इच्छा करता है ? ॥१२६॥

तदनन्तर रावणने यह बात प्रीतिपूर्वक विभीषणसे भी एकान्तमे कही सो नीतिको जाननेवाले एवं निरन्तर मन्त्रिगणोमे प्रमुखता धारण करनेवाले विभीषणने इस प्रकार उत्तर दिया ॥१२७॥ कि हे देव ! चूँकि यह कार्य ही ऐसा है अतः सदा नीतिके जाननेवाले राजाको कभी मूठ भी बोलना पड़ता है ॥१२८॥ सम्भव है स्वीकारकर लेनेसे सन्तोपको प्राप्त हुई उपरम्भा उत्कट विश्वास करती हुई, किसी तरह नगर लेनेका कोई उपाय बता दे ॥१२९॥ तदनन्तर विभीषणके कहनेसे कपटका अनुसरण करनेवाले रावणने दूतीसे कहा कि हे भद्रे ! तूने जो कहा है वह ठीक है ॥१३०॥ चूँकि उस बेचारीके प्राण मुझमे अटक रहे है और वह अत्यन्त दुःखसे युक्त है अतः मेरे द्वारा रक्षा करनेके योग्य है । यथार्थमें उदार मनुष्य दयालु होते हैं ॥१३१॥ इसलिए जब तक प्राण उसे नहीं छोड़ देते हैं तब तक जाकर उसे ले आ । 'प्राणियोंकी रक्षा करनेमे धर्म है' यह बात पृथिवीपर खूब सुनी जाती है ॥१३२॥ इतना कहकर रावणके द्वारा विद्या की हुई दूती क्षणभरमे जाकर उपरम्भाको ले आई । आनेपर रावणने उसका बहुत आदर किया ॥१३३॥

तदनन्तर कामके वशीभूत हो जब उपरम्भा रावणके समीप पहुँची तब रावणने कहा कि हे देवि ! मेरी उत्कट इच्छा दुर्लङ्घननगरमें ही रमण करने की है ॥१३४॥ तुम्हीं कहो इस जङ्गलमे क्या सुख है ? और क्या कामवर्धक कारण है ? हे देवि ! ऐसा करो कि जिससे मैं तुम्हारे साथ नगरमे ही रमण करूँ ॥१३५॥ स्त्रियाँ स्वभावसे ही मुग्ध होती है इसलिए उपरम्भा रावणकी कुटिलताको नहीं समझ सकी । निदान, उसने कामसे पीडित हो उसे नगरमे आनेके लिए आशालिका नामकी वह विद्या जो कि प्राकार बनकर खड़ी हुई थी, तथा व्यन्तर देव जिनकी रक्षा किया करते थे ऐसे नाना शस्त्र बड़े आदरके साथ दे दिये ॥१३६-१३७॥ विद्या मिलते ही वह मायामय प्राकार दूर हो गया और उसके अभावमे वह नगर केवल स्वाभाविक प्राकारसे ही आवृत रह गया ॥१३८॥ रावण बड़ी भारी सेना लेकर नगरके निकट पहुँचा सो

१. वक्तु म० । २. इत्युक्त्वा म०, व०, क० । ३. परिदृष्टा क०, म०, व० । ४. महा तस्याः म० । ५. मदनसंप्राप्तौ क०, ख०, म० । ६. निकटस्थः । ७. निन्दनं म० ।

तमदृष्ट्वा ततः शालं लोकपालो विषादवान् । गृहीतमेव नगर मेने यच्चविमर्दिना ॥१४०॥
 तथापि पौरुषं विभ्रद् योद्धुं श्रमभरेण सः । निष्क्रान्तोऽत्यन्तविक्रान्तं सर्वं सामन्तवेष्टितं ॥१४१॥
 ततो महति सग्रामे प्रवृत्ते शस्त्रसङ्कुले । अदृष्टपद्मिनीनायकिरणे क्रूरनिःस्वने ॥१४२॥
 विभीषणेन वेगेन निपात्य नलकूबरं । गृहीतं कूबरं भङ्गत्वा स्यन्दनस्याङ्घ्रिताडनात् ॥१४३॥
 सहस्रकिरणे कर्म दशवक्त्रेण यत्कृतम् । विभीषणेन क्रुद्धेन तत्कृतं नलकूबरे ॥१४४॥
 देवासुरभयोत्पादे दहं चक्रं च रावण । त्रिदशाधिपसम्बन्धिं प्राप नाम्ना सुदर्शनम् ॥१४५॥
 उपरम्भा दशास्येन रहसीदमयोदिता । विद्यादानाद् गुरुत्वं मे वर्तते प्रवराङ्गने ! ॥१४६॥
 जीवति प्राणनाथे ते न युक्तं कर्तुमीदृशम् । ममापि सुतरामेव न्यायमार्गोपदेशिनः ॥१४७॥
 समाश्रवास्य ततो नीतो भार्यान्त नलकूबर । शस्त्रदारितसन्नाहं दृष्टविद्यतविग्रहः ॥१४८॥
 अनेनैव समं भर्ता भुङ्क्ष्व भोगान् यथेप्सितात् । कामवस्तुनि को भेदो मम वास्य च भोजने ॥१४९॥
 मलीमसा च मे कीर्तिं कर्मदं कुर्वतो भवेत् । अपरोऽपि जन कर्म कुर्वतिदं मया कृतम् ॥१५०॥
 सुताकाशध्वजस्यासि सभूता विमले कुले । संजाता मृदुकान्तायां शीलं रक्षितुमर्हसि ॥१५१॥
 उच्यमानेति सा तेन नितान्त व्रपयान्विता । स्वमर्तरे ऋश चक्रे मानसं प्रतिबोधिनी ॥१५२॥
 व्यभिचारमविज्ञाय कान्ताया नलकूबरं । रेमे तथा समं प्राप्तः सन्मानं दशवक्त्रत १५३॥

उसका कलकल सुनकर नलकूबर क्षोभको प्राप्त हुआ ॥१३६॥ तदनन्तर उस मायामय प्राकारको न देखकर लोकपाल नलकूबर बड़ा दुःखी हुआ । यद्यपि उसने समझ लिया था कि अब तो हमारा नगर रावणने ले ही लिया तो भी उसने उद्यम नहीं छोड़ा । वह पुरुषार्थको धारण करता हुआ बड़े श्रमसे युद्ध करनेके लिए बाहर निकला । अत्यन्त पगाकामी सब सामन्त उसके साथ थे ॥१४०-१४१॥ तदनन्तर जो शस्त्रोसे व्याप्त था, जिसमे सूर्यकी किरणें नहीं दिख रही थीं और भयंकर कठोर शब्द हो रहा था ऐसे महायुद्धके होनेपर विभीषणने वेगसे उल्लङ्घकर पैरके आघातसे रथका धुरा तोड़ दिया और नलकूबरको जीवित पकड़ लिया ॥१४२-१४३॥ रावणने राजा सहस्ररश्मिके साथ जो काम किया था वही काम क्रोधसे भरे विभीषणने नलकूबरके साथ किया ॥१४४॥ उसी समय रावणने देव और असुरोको भय उत्पन्न करनेसे समर्थ इन्द्र सम्बन्धी सुदर्शन नामका चक्ररत्न प्राप्त किया ॥१४५॥

तदनन्तर रावणने एकान्तमें उपरम्भासे कहा कि हे प्रवराङ्गने ! विद्या देनेसे तुम मेरी गुरु हो ॥१४६॥ पतिके जीवित रहते तुम्हें ऐसा करना योग्य नहीं है और नीतिमार्गका उपदेश देनेवाले मुझे तो बिलकुल ही योग्य नहीं है ॥१४७॥ तत्परचात् शस्त्रोसे विदारित कवचके भीतर जिसका अक्षत शरीर दिख रहा था ऐसे नलकूबरको वह समझाकर स्त्रीके पास ले गया ॥१४८॥ और कहा कि इस भर्ताके साथ मन चाहे भोग भोगो । काम सेवनके विषयमे मेरे और इसके साथ उपभोगमे विशेषता ही क्या है ? ॥१४९॥ इस कार्यके करनेसे मेरी कीर्ति मलिन हो हो जायगी और मैंने यह कार्य किया है इसलिए दूसरे लोग भी यह कार्य करने लग जावेंगे ॥१५०॥ तुम राजा आकाशध्वज और मृदुकान्ताकी पुत्री हो, निर्मल कुलमे तुम्हारा जन्म हुआ है अतः शीलकी रक्षा करना ही योग्य है ॥१५१॥ रावणके ऐसा कहनेपर वह अत्यधिक लज्जित हुई और प्रतिबोधको प्राप्त हो अपने पतिसे ही संतुष्ट हो गई ॥१५२॥ इधर नलकूबरको अपनी स्त्रीके व्यभिचारका पता नहीं चला इसलिए रावणसे सन्मान प्राप्तकर वह पूर्ववत् उसके साथ रमण करने लगा ॥१५३॥

१. समभरेण ख०, म०, व० । २. विक्रान्तं क०, व०, म० । ३. सामन्तशतवेष्टितं क०, व०, म० ।
 ४. निपात्य ख०, म० । ५. प्रापनाम्ना म०, व० । ६. भार्यां ता ख०, म०, व० । ७. विष्ट ख०, म०, व० ।
 ८. चास्य म० । ९. भोगे । १०. सम चक्रे म० ।

रावणः सयुगे लब्ध्वा परध्वंसात्परं यशः । वर्धमानश्रिया प्राप विजयार्धगिरेर्महाम् ॥१५४॥
 अभ्यर्णं रावण श्रुत्वा शक्रः प्रचलितुं ततः । देवानास्थानसंप्राप्तान् समस्तानिदमभ्यधात् ॥१५५॥
 वस्वशिवप्रमुखा देवाः सनह्यन्तं किमासताम् । विश्रब्ध कुरुत प्राप्तः प्रभुरेप स रक्षसाम् ॥१५६॥
 इत्युक्त्वा जैनकोद्देशं सप्रधारयितु ययौ । उपविष्टो नमस्कृत्य धरण्या विनयान्वितः ॥१५७॥
 उवाच च विधातव्य किमस्मिन्नन्तरे मया । प्रबलोऽयमरिः प्राप्तो बहुशो विजिताहितः ॥१५८॥
 आत्मकार्यविरुद्धोऽयं तातात्यन्तं मया कृतः । अनयः स्वल्प एवासौ प्रलय यत्र लम्बितः ॥१५९॥
 उत्तिष्ठतो मुख भङ्क्तुमधरेणापि शक्यते । कण्टकस्यापि यत्नेन परिणाममुपेयुषः ॥१६०॥
 उत्पत्तावेव रोगस्य क्रियते ध्वंसनं सुखम् । व्यापी तु बद्धमूलः स्याद्बुध्वं स क्षेत्रियोऽर्थवा ॥१६१॥
 अनेकशः कृतोद्योगस्तस्यास्मि विनिपातने । निवारितस्त्वया व्यर्थ येन चान्तिर्मया कृता ॥१६२॥
 नयमार्गं प्रपन्नेन मयेद तात भाष्यते । मर्यादैपैति पृष्टोऽसि न त्वशक्तोऽस्मि तद्वधे ॥१६३॥
 स्मयरोषविमिश्रं तच्छ्रुत्वा वाक्य सुतेरितम् । सहस्राशोऽगदत् पुत्र त्वरावानिति मा स्म भूः ॥१६४॥
 तावद्विसृश्य कार्याणि प्रवरैर्मन्त्रिभिः सह । जायते विफल कर्माप्रेक्षापूर्वकारिणाम् ॥१६५॥
 भवत्यर्थस्य ससिद्धयै केवलं च न पौरुषम् । कर्पकस्य विना वृष्ट्या का सिद्धिः कर्मयोगिनः ॥१६६॥
 समानमहिमानानां पठतां च समादरम् । अर्थभाजो भवन्त्येके नापरे कर्मणां वशात् ॥१६७॥

तदनन्तर रावण युद्धमें शत्रुके संहारसे परम यशको प्राप्त करता हुआ बढ़ती हुई लक्ष्मीके साथ विजयार्ध गिरिकी भूमिमें पहुँचा ॥१५४॥ अथानन्तर इन्द्रने रावणको निकट आया सुन सभामण्डपमें स्थित समस्त देवोंसे कहा ॥१५५॥ कि हे वस्वशिव आदि देव जनो ! युद्धकी तैयारी करो, आप लोग निश्चिन्त क्यों बैठो हो ? यह राक्षसोका स्वामी रावण यहाँ आ पहुँचा है ॥१५६॥ इतना कहकर इन्द्र पितासे सलाह करनेके लिए उसके स्थानपर गया और नमस्कार कर विनयपूर्वक पृथिवीपर बैठ गया ॥१५७॥ उसने कहा कि इस अवसरपर मुझे क्या करना चाहिए । जिसे मैंने अनेक बार पराजित किया पुनः स्थापित किया ऐसा यह शत्रु अब प्रबल होकर यहाँ आया है ॥१५८॥ हे तात ! मैंने आत्म कार्यके विरुद्ध यह बड़ी अनीति की है कि जब यह शत्रु छोटा था तभी इसे नष्ट नहीं कर दिया ॥१५९॥ उठते हुए कण्टकका मुख एक साधारण व्यक्ति भी तोड़ सकता है पर जब वही कण्टक परिपक्व हो जाता है तब बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है ॥१६०॥ जब रोग उत्पन्न होता है तब उसका सुखसे विनाश किया जाता है पर जब वह रोग जड़ बाँधकर व्याप्त हो जाता है तब मरनेके बाद ही उसका प्रतिकार हो सकता है ॥१६१॥ मैंने अनेक बार उसके नष्ट करनेका उद्योग किया पर आपके द्वारा रोक दिया गया । आपने व्यर्थ ही मुझे क्षमा धारण कराई ॥१६२॥ हे तात ! नीतिमार्गका अनुसरण कर ही मैं यह कह रहा हूँ । बड़ोंसे पूछकर कार्य करना यह कुलकी मर्यादा है और इसलिए ही मैंने आपसे पूछा है । मैं उसके मारनेमें असमर्थ नहीं हूँ ॥१६३॥

अहंकार और क्रोधसे मिश्रित पुत्रके वचन सुनकर सहस्रारने कहा कि हे पुत्र ! इस तरह उतावला मत हो ॥१६४॥ पहले उत्तम मन्त्रियोंके साथ सलाह कर क्योंकि बिना विचारे कार्य करनेवालोका कार्य निष्फल हो जाता है ॥१६५॥ केवल पुरुषार्थ ही कार्यसिद्धिका कारण नहीं है क्योंकि निरन्तर कार्य करनेवाले—पुरुषार्थी किसानके वर्षाके विना क्या सिद्ध हो सकता है ? अर्थात् कुछ नहीं ॥१६६॥ एक ही समान पुरुषार्थ करनेवाले और एक ही समान आदरसे

१. प्रचलितं म० । २. विश्वाश्व म० । ३. सनह्यन्त किमासनम् म० । ४. जैनकादेश म० ।
 ५. तवात्यन्तं मया कृतः म० । ततोत्यन्त मया कृतः ब० । तातात्यन्तमयाकृतः ख० । ६. क्षेत्रियोऽथवा क०, ख०,
 म०, ब० । शरीरान्तरे चिकित्स्यः अप्रतीकार्य इत्यर्थः 'क्षेत्रियच् परक्षेत्रे चिकित्स्यः' । ७. नयमार्गप्रयत्नेन क०,
 नयमार्गप्रयत्नेन ख० । ८. स्मयरोषविमुक्त म० । ९. कृष्ट्या म० ।

एव गतेऽपि सधानं रावणेन सम कुह । तस्मिन् सति जगत्सर्वं विध्वंसोद्घृतकण्टकम् ॥१६८॥
 रूपिणीं च सुतां तस्मै यच्छ रूपवती सुताम् । एव सति न दोषोऽस्ति तथावस्था च राजताम्^१ ॥१६९॥
 त्रिविक्तधिषणेनासाविति पित्रा प्रचोदित^२ । रोपरागिवगोर्दारगोणक्षु. क्षणाद्भूत्^३ ॥१७०॥
 रोपञ्जलनसतापसजातस्वेदसन्तति । वमाण भासुर् शक्र स्फोटयन्निव स गिरा ॥१७१॥
 वध्यस्य दीयते कन्येत्येतत्तात वव युज्यते । प्रकृष्टवयसा पुसां धीर्यात्वेवाथवा क्षयम् ॥१७२॥
 वद केनाधरस्तस्माद्दहं जनक वस्तुना । अत्यन्तकातर वाक्य येनेद भापित त्वया ॥१७३॥
 रवेरपि कृतस्पर्श पादैर्मूर्ध्नाति^४ खिद्यते । योगे स कथमन्यस्य तुङ्ग प्रणतिमाचरेत् ॥१७४॥
 पौरुषेणाधिकन्तावदेतस्मात्त्रितरामहम् । देव तस्यानुकूल ते कथ बुद्धाववस्थितम् ॥१७५॥
 विजिता ब्रह्मोऽनेन त्रिपत्ता इति चेन्मति । इतानेककुरङ्गं कि शयरो हन्ति नो हरिम् ॥१७६॥
 संग्रामे गन्धमपातजातञ्जलनजालके । वरं प्राणपरित्यागो न तु प्रतिनरानति. ॥१७७॥
 मोऽयमिन्द्रो दशास्यस्य राक्षसस्यानतिं गत । इति लोके च हास्यत्व न दृष्ट मे^५ कथं त्वया ॥१७८॥
 नमश्चरत्त्वसामान्य न च सन्धानकारणम् । वनगोचरसामान्य यथा सिंहशृगालयो ॥१७९॥
 इति ब्रुवत एवास्य गच्छ^६ पूरितविष्टप । प्रविष्ट^७ श्रोत्रयो शत्रुबलजो वासरानने ॥१८०॥

पढ़नेवाले छात्रोंमें से कुछ तो सफल हो जाते हैं और कुछ कर्मोंकी विचशतासे सफल नहीं हो पाते ॥१६७॥ ऐसी स्थिति आनेपर भी तुम रावणके साथ सन्धि कर लो क्योंकि सन्धिके होनेपर तुम ममन्त संसारको निष्कण्टक बना सकते हो ॥१६८॥ साथ ही तू रूपवती नामकी अपनी सुन्दरी पुत्री रावणके लिए दे दे । ऐसा करनेसे कुछ भी दोष नहीं है । बल्कि ऐसा करनेसे तेरी यही दशा बनी रहेगी ॥१६९॥

पवित्र बुद्धिके धारक पिताने इस प्रकार इन्द्रको समझाया अवश्य परन्तु क्रोधके समूहके कारण उसके नेत्र क्षण भरमें लाल-लाल हो गये ॥१७०॥ क्रोधाग्निके संतापसे जिसके शरीरमें पसीनेकी परम्परा उत्पन्न हो गई थी ऐसा देदीप्यमान इन्द्र अपनी वाणीसे मानो आकाशको फोड़ता हुआ बोला कि हे तात । जो वध करने योग्य है उसीके लिए कन्या दी जावे यह कहाँ तक उचित है ? अथवा वृद्ध पुरुषोंकी बुद्धि क्षीण हो ही जाती है ॥१७१-१७२॥ हे तात । कहो तो सही मैं किस बस्तुमें उससे हीन हूँ ? जिससे आपने यह अत्यन्त दीन वचन कहे हैं ॥१७३॥ जो मस्तकपर सूर्यकी किरणोंका स्पर्श होनेपर भी अत्यन्त खेदखिन्न हो जाता है वह उदार मानव मिलनेपर अन्य पुरुषके लिए प्रणाम किस प्रकार करेगा ? ॥१७४॥ मैं पुरुषार्थकी अपेक्षा रावणसे हर एक बातमें अधिक हूँ फिर आपकी बुद्धिमें यह बात कैसे बैठ गई कि भाग्य उसके अनुकूल है ? ॥१७५॥ यदि आपका यह ख्याल है कि इसने अनेक शत्रुओंको जीता है तो अनेक हरिणोंको मारनेवाले सिंहको क्या एक भील नहीं मार देता ? ॥१७६॥ शस्त्रोंके प्रहारसे जहाँ ज्वालाओंके समूह उत्पन्न हो रहे हैं ऐसे युद्धमें प्राण त्याग करना भी अच्छा है पर शत्रुके लिए नमस्कार करना अच्छा नहीं है ॥१७७॥ 'वह इन्द्र रावण राक्षसके सामने नम्र हो गया' इस तरह लोकमें जो मेरी हँसी होगी उस ओर भी आपने दृष्टि क्यों नहीं दी ? ॥१७८॥ 'वह विद्याधर है और मैं भी विद्याधर हूँ' इस प्रकार विद्याधरपनाकी समानता सन्धिके कारण नहीं हो सकती । जिस प्रकार सिंह और शृगालमें वनचारित्वकी समानता होनेपर भी एकता नहीं होती है उसी प्रकार विद्याधरपनाकी समानता होनेपर भी हम दोनोंमें एकता नहीं हो सकती ॥१७९॥ इस प्रकार प्रातःकालके समय इन्द्र पिताके समक्ष कह रहा था कि उसी समय ममन्त संसारको व्याप्त करनेवाला शत्रु सेनाका जोरदार शब्द उसके कानोंमें प्रविष्ट हुआ ॥१८०॥

१. राजते व० । राज्यता म० । राजता क० । २. प्रचोदितः म० । ३. वशोद्धार-म० । ४. १७० तमः श्लोकः स० पुस्तके नास्ति । ५. मूर्ध्नाभि- ख० । ६. यो मेरुः ख०, म० । ७. ते कथ मया म० । ८. प्रातःकाले ।

१ततोऽपकर्णनं कृत्वा पितु सन्नाहमण्डपम् । गत्वा सन्नाहसंज्ञार्थं त्र्यं तारमवीवदत् ॥१८१॥
 उपाहर गज शीघ्रं ससि पर्याणय द्रुतम् । मण्डलाग्रमितो देहि पटु चाहर कङ्कटम् ॥१८२॥
 धनुराहर धावस्त्र शिरस्त्राणमित कुरु । ३यच्छार्धवाहुका क्षिप्र देहि सायकपुत्रिकाम् ॥१८३॥
 चेद यच्छ सन्मायोगं मज्जमाशु रथं कुरु । एवमादि कृतारावं सुरलोऽश्रलोऽभवत् ॥१८४॥
 अथ क्षुब्धेषु वारेषु रटन्सु पटहेषु च । तुह्यं रणत्सु शङ्खेषु सान्द्रं गर्जत्सु दन्तिषु ॥१८५॥
 सुब्धन्सु दीर्घहुङ्कारं स्पृष्टवेत्रेषु ससिषु । सक्रीडत्सु रथौघेषु ज्याजाले पटु गुञ्जति ॥१८६॥
 भटानामट्टहासेन जयशब्देन वादिनाम् । अभूत्तदा जगत्सर्वं शब्देनेत्र विनिर्मितम् ॥१८७॥
 अभिभिस्तोमरैः पाशैर्ध्वजैश्छत्रैः शरासनैः । ककुभृद्वादिताः सर्वाः प्रभावोऽपहतो रवेः ॥१८८॥
 निष्क्रान्ताश्च सुसनद्धाः सुरा रभसरागिणः । गोपुरे कृतसघटा घण्टाभिर्वन्दन्तिनाम् ॥१८९॥
 स्यन्दनं परतो धेहि ५प्राप्तोऽयं मत्तवारण । आधोरण गज देशादस्मात्साग्य मत्वरम् ॥१९०॥
 स्तम्भितोऽसीह किं सादिन्नयाग्व द्रुतमग्रतः । मुञ्च मुग्धे निवर्तस्व कुरु ६मां मा ममाकुलम् ॥१९१॥
 एवमाद्रिसमालापा सत्वर मन्दिरात् सुराः । निष्क्रान्ता गर्वनिर्मुक्तशुभारभटगर्जिताः ॥१९२॥
 आलीने च यथा जातप्रतिपत्तं चमूमुखे । विपमाहतनूर्येण परमुत्साहमाहते ७ ॥१९३॥
 ततो राक्षससैन्यस्य मुखमङ्गः सुरैः कृतः । मुञ्चद्भिः शस्त्रमघातमन्तर्हितनभस्तलम् ॥१९४॥
 सेनामुत्खावसादेन कुपिता राक्षसास्ततः । अधूपुः पृतनावक्त्र निजमूर्जितविक्रमाः ॥१९५॥

तदनन्तर पिताकी बात अनसुनीकर वह आयुधशालामे गया और वहाँ युद्धकी तैयारीका संकेत करनेके लिए उसने जोरसे तुरही बजवाई ॥१८१॥ 'हाथी शीघ्र लाओ, घोड़ापर शीघ्र ही पलान बाँधो, तलवार यहाँ देओ, अच्छा-सा कवच लाओ, दौड़कर धनुष लाओ, शिरकी रक्षा करनेवाला टोप इधर बढाओ, हाथपर बाँधनेकी पट्टी शीघ्र देओ, छुरी भी जल्दी देओ, अरे चेद घोड़े जोत और रथको तैयार करो' इत्यादि शब्द करते हुए देव नामधारी विद्याधर इधर उधर चलने लगे ॥१८२-१८४॥ अथानन्तर—जब वीर सैनिक लुभित हो रहे थे, बाजे बज रहे थे, शङ्ख जोरदार शब्द कर रहे थे, हाथी वार-वार चिंघाड़ रहे थे, वेतके छूते ही घोड़े दीर्घ हुंकार छोड़ रहे थे, रथोंके समूह चल रहे थे और प्रत्यङ्गाओंके समूह जोरदार गुञ्जन कर रहे थे, तब योद्धाओंके अट्टहास और चारणोंके जयजयकारसे समस्त संसार ऐसा हो गया था मानो शब्दसे निर्मित हो ॥१८५-१८७॥ तलवारों, तोमरों, पाशों, ध्वजाओं, छत्रों और धनुषोंसे समस्त दिशाएँ आच्छादित हो गईं और सूर्यका प्रभाव जाता रहा ॥१८८॥ शीघ्रताके प्रेमी देव तैयार हो होकर बाहर निकल पड़े और हाथियोंके घंटाओंके शब्द सुन-सुनकर गोपुरके समीप धक्कम-धक्का करने लगे ॥१८९॥ 'रथको उधर खड़ा करो, इधर यह मदनोन्मत्त हाथी आ रहा है । अरे महावत ! हाथीको यहाँसे शीघ्र ही हटा । अरे सवार ! यहीं क्यों रुक गया ? शीघ्र ही घोड़ा आगे ले जा । अरी मुग्धे ! मुझे छोड़ तू लौट जा, व्यर्थ ही मुझे व्याकुल मत कर' इत्यादि वार्तालाप करते हुए शीघ्रतासे भरे देव, अपने-अपने मकानोंसे बाहर निकल पड़े । उस समय वे अहंकारके कारण शुभ गर्जना कर रहे थे ॥१९०-१९२॥ कभी धीमी और कभी जोरसे बजाई हुई तुरहीसे जिसका उत्साह बढ़ रहा था ऐसी सेना जब शत्रुके सम्मुख जाकर यथास्थान खड़ी हो गई तब आकाशको आच्छादित करने वाले शस्त्रसमूहको छोड़ते हुए देवोंने राक्षसोंकी सेना का मुख मङ्ग कर दिया अर्थात् उसके अग्र भागपर जोरदार प्रहार किया ॥१९३-१९४॥ सेनाके

१. तत्रोपकर्णयन् ख० । ततोपकर्णलं व० । ततोपकर्णभं म० । २. कवचम् । ३. यच्छार्धवाहुका म० ।
 ४. अश्वम् । ५. कृतारावं म०, ख० । ६. देहि म० । ७. मा मा म० । ८. गर्वनिर्मुक्तशुभारभट- म० ।
 गर्वनिर्मुक्तशुभारभट- ख०, व० । ९. यातप्रतिपत्तं ख० । १०. माहते म० ।

वज्रवेगः प्रहस्तोऽथ हस्तो मार्गत्र उड्ववः । वज्रवक्त्रः शुको धोरः सारणो गगनोज्ज्वल ॥१६६॥
 महाजटरं व्याघ्रकूरप्रचुरयस्तथा । सुसंनद्धा सुयानाश्च सुयन्त्राश्च पुरःस्थिता ॥१६७॥
 ततन्वैर्यतैः सैन्यं सुराणां वृगमात्रतः । कूर्तं विहृतविभ्रन्तशस्त्रमंगतशुक्रम् ॥१६८॥
 मन्वमानं ततः सैन्यवक्त्रं दृष्ट्वा महानुगा । उथिता योद्धुमन्युजकोपाट्टनिवज्रहा ॥१६९॥
 मेवमानी तडित्पिङ्गो ज्वलिताञ्जोऽग्निंज्वरः । पावकस्यन्दनायाश्च सुराः प्रकृता अयुः ॥२००॥
 उथाय गत्रमानैस्तैः सुब्रह्मिः शस्त्रमंहतिम् । अवष्टब्धाः समुद्रभूततीव्रकोपातिमानुर्ग ॥२०१॥
 ततो महं परिप्राणाश्चिं कृतमहाहवा । प्रत्येकं राजसा देवैर्वह्निः कृतवष्टनाः ॥२०२॥
 श्रवणैर्विव निक्षिप्तं राजसा वेगशाठियु । यत्रसुर्विगलच्छन्नशिथिलस्थितपागय ॥२०३॥
 परावृत्तान्धयान्यन्ये राजसा मानशालिनः । प्रागानमिसुत्रोन्मूता सुब्रन्त न तु नायकान् ॥२०४॥
 तत्राञ्जनादनाद् भग्नं दृष्ट्वा नद्रुनां वलम् । सुपुनहेन्द्रमेतस्य कपिकेतोर्महाबल ॥२०५॥
 उड्वः प्रसन्नकीर्त्यायां धारयन्नर्थसंगतान् । त्रासयन् द्विपतां सैन्यं वन्यन्य शिरसि न्यितम् ॥२०६॥
 रचना ब्रह्ममार्गं तेन तत्रे ह्यं वलम् । शूरैः पराङ्मुखं चक्रे निष्कामस्त्रिनन्तरम् ॥२०७॥
 अविमात्रं ततो मूर्ध्नि विजयार्थनिवाप्तिनाम् । सैन्यं प्राप्तं महोत्साहं नानाशस्त्रसुज्ज्वलम् ॥२०८॥
 दृष्ट्वैव क्रुपिलच्छान्त्य ध्वजे छत्रे च मीयगम् । अवान मानमे मेदं विजयार्थाद्विजं वलम् ॥२०९॥
 तत्रेन विशिखै पश्चात्सुरसेजशिवं चणान् । मित्रं कृतीर्थहृदयं यथा मन्मथविभ्रमः ॥२१०॥

अप्रभागका विनाश देव प्रबल पराक्रमके वाक्क राजस कृपित हो अपनी सेनाके आगे आ
 हंटे ॥१६५॥ वज्रवेग, प्रहस्त, हस्त, मार्गत्र, उड्वव, वक्रमुख, शुक्र, योग, सारण, गगनोज्ज्वल,
 महाजटर, सन्याभ्र और कूर आदि राजस आ आकर सेनाके सामने खड़े हो गये । ये सभी
 राजस कवच आदिसे युक्त थे, उत्तमोत्तम सवारियोंपर आलुह्ये और अच्छे-अच्छे शस्त्रोंसे
 युक्त थे ॥१६६-१६७॥ तदनन्तर इन ज्योती राजसोंने देवोंकी सेनाको वृगमात्रमें भाकर
 भयमान कर दिया । उसके छोड़े हुए अख-शस्त्र शत्रुओंके हाथ लगे ॥१६८॥ तब अपनी सेनाके
 अप्रभागको नष्ट होता देख बड़े-बड़े देव युद्ध करनेके लिए उठे । उस समय उन सबके शरीर
 अन्यन्त तीव्र क्रोधसे भर रहे थे ॥१६९॥ मेघमाली, तडित्पिङ्ग, ज्वलिताश्र, अग्निंज्वर और
 अग्निग्रथ आदि देव सामने आये ॥२००॥ जो शस्त्रोंके समूह की वर्षा कर रहे थे और उत्तम हुए
 तीव्र क्रोधसे अतिशय देदीप्यमान थे ऐसे देवोंने उठकर राजसोंको रोका ॥२०१॥ तदनन्तर
 चिंकाळ तक युद्ध करनेके बाद राजस भङ्गको प्राप्त हुए । एक-एक राजसको बहुतसे देवोंने घेर
 लिया ॥२०२॥ वेगशाली भैरवोंमें पड़े हुएके समान राजस इधर-उधर घूम रहे थे तथा उनके
 होले हाथोंसे शस्त्र छूट-छूटकर नीचे गिर रहे थे ॥२०३॥ कितने ही राजस युद्धसे पराङ्मुख हो
 गये पर जो अभिमानी राजस थे वे सामने आकर प्राण तो छोड़ रहे थे पर उन्हीं शस्त्र नहीं
 छोड़े ॥२०४॥ तदनन्तर देवोंकी विकट माग्से राजसोंकी सेनाको नष्ट होता देख वानरवंशी
 राजा महेंद्रका महाबलवान पुत्र, जो कि अत्यन्त चतुर था और प्रसन्नकीर्ति इस सार्यके नामको
 वागण करता था, युद्धके अप्रभागमें स्थित शत्रुओंकी सेनाको भयभीत करता हुआ सामने
 आय ॥२०५-२०६॥ अपनी सेनाकी रक्षा करते हुए उसने निरन्तर निकलनेवाले बाणोंसे शत्रुकी
 सेनाको पराङ्मुख कर दिया ॥२०७॥ विजयार्थ पर्वतपर रहनेवाले देवोंकी जो सेना नाना
 प्रकारके शस्त्रोंसे देदीप्यमान थी वह प्रथम तो प्रसन्नकीर्तिसे अत्यधिक महान् उत्साहको प्राप्त
 हुई ॥२०८॥ पर उसके बाद ही जब उसने उसकी ध्वजा और कर्त्रमें वानरका चिह्न देखा तो
 उसका मन टूक-टूक हो गया ॥२०९॥ तदनन्तर जिस प्रकार कामके बाणोंसे कुरुरका हृदय

१. सुसंनद्धाः २० । २. सुयानाश्च २० । ३. सुयन्त्राश्च २० । ४. विहृतविभ्रन्तं शस्त्रमंगतशुक्रम् २० ।
 ५. सैन्यं २० । ६. शिथिलस्थितपागय २० । ७. मई २० । ८. छत्रेण २० ।

ततोऽन्यदपि संप्राप्त सैन्य त्रिदशगोचरम् । कनकासिगदाशक्तिचापमुद्गरसंकुलम् ॥२११॥
 ततोऽन्तराल एवातिवीरो माल्यवतः सुतः । श्रीमालीति प्रतीतात्मा पुरोऽस्य समवस्थितः ॥२१२॥
 तेन ते क्षणमात्रेण सुराः सूर्यसमत्विपा^१ । क्व नीता इति न ज्ञाता मुञ्चता शरसहतीः ॥२१३॥
 दृष्ट्वा^२ तमभ्यमित्रीणमनिवार्यरय ततः । क्षोभयन्त द्विपा सैन्य महाग्राहमिवर्णवम् ॥२१४॥
 मत्तद्विपेन्द्रसघट्टितारतिमण्डलम् । करवालकरोदारभटमण्डलमध्यगम् ॥२१५॥
 अमी समुत्थिता देवा निज पालयितु बलम् । महाक्रोधपरीताङ्गाः समुल्लासितहेतयः ॥२१६॥
 शिखिकेशरिदण्डोग्रकनकप्रवरादयः । छादयन्तो नभो दूर प्रावृषेण्या इवाग्नुदाः ॥२१७॥
 स्वैस्त्रीयाश्च सुरेन्द्रस्य मृगचिह्नादयोऽधिकम् । दीप्यमाना रणोद्भूततेजसा सुमहाबलाः ॥२१८॥
 ततः श्रीमालिना तेषां शिरोभिः कमलैरिव । सशैवलैर्महीच्छ्नाशिङ्गन्नैश्चन्द्रार्ध^३सायकैः ॥२१९॥
 अचिन्तयत्ततः शक्रो येनैते नरपुङ्गवाः । कुमाराः क्षयमानीताः सममेभिर्वरैः^४ सुरैः ॥२२०॥
 तस्यास्य को रणे स्थातु पुरो बाण्डेद्विवौकसाम् । राक्षसस्य [महातेजो दुरीच्यस्यातिवीर्यवान् ॥२२१॥
 तस्मादस्य स्वय युद्धश्रद्धाध्वस करोम्यहम् । अपरानमरान् यावन्नयते नैव^५ पञ्चताम् ॥२२२॥
 इति ध्यात्वा समाश्वास्य] बल स त्रासकम्पितम् । योद्धु समुद्यतो यावत्त्रिदशानामधीश्वरः ॥२२३॥

खण्डित हो जाता है उसी प्रकार जिनसे अग्निकी देदीप्यमान शिखा निकल रही थी ऐसे प्रसन्न-कीर्तिके बाणोंसे देवोंकी सेना खण्डित हो गई ॥२१०॥ तदनन्तर देवोंकी और दूसरी सेना सामने आई । वह सेना कनक, तलवार, गदा, शक्ति, धनुष और मुद्गर आदि अस्त्र-शस्त्रोंसे युक्त थी ॥२११॥ तत्पश्चात् माल्यवान्का पुत्र श्रीमाली जो अत्यन्त वीर और निःशङ्कहृदय वाला था देवोंकी सेनाके आगे खड़ा हो गया ॥२१२॥ जिसकी सूर्यके समान कान्ति थी तथा जो निरन्तर बाणोंका समूह छोड़ रहा था ऐसे श्रीमालीने देवोंको क्षणमात्रमे कहीं भेज दिया इसका पता नहीं चला ॥२१३॥ तदनन्तर जो शत्रु पक्षकी ओरसे सामने खड़ा था, जिसका वेग अनिवार्य था, जो शत्रुओंकी सेनाको इस तरह क्षोभयुक्त कर रहा था जिस प्रकार की महाग्राह किसी समुद्रको क्षोभयुक्त करता है, जो अपना मदोन्मत्त हाथी शत्रुओं की सेना पर हूल रहा था और जो तलवार हाथमे लिये उद्वेगित योद्धाओंके बीचमे घूम रहा था ऐसे श्रीमालीको देख कर देव लोग अपनी सेनाकी रक्षा करनेके लिए उठे । उस समय उन सबके शरीर बहुत भारी क्रोधसे व्याप्त थे तथा उनके हाथोंमे अनेक शस्त्र चमक रहे थे ॥२१४-२१६॥ शिखी, केशरी, दण्ड, उग्र, कनक, प्रवर आदि इन्द्रके योद्धाओंने आकाशको दूर तक ऐसा आच्छादित कर लिया जैसा कि वर्षाऋतु के मेघ आच्छादित कर लेते हैं ॥२१७॥ इनके सिवाय मृगचिह्न आदि इन्द्रके भानेज भी जो कि रणसे समुत्पन्न तेजके द्वारा अत्यधिक देदीप्यमान और महाबलवान् थे, आकाशको दूर-दूर तक आच्छादित कर रहे थे ॥२१८॥ तदनन्तर श्रीमालीने अपने अर्द्धचन्द्राकार बाणोंसे काटे हुए उनके शिरोसे पृथिवीको इस प्रकार ढक दिया मानो शेवाल सहित कमलोंसे ही ढक दिया हो ॥२१९॥

अथानन्तर इन्द्रने विचार किया कि जिसने इन श्रेष्ठ देवोंके साथ-साथ इन नरश्रेष्ठ राजकुमारोंका क्षय कर दिया है तथा अपने विशाल तेजसे जिसकी ओर आँख उठाना भी कठिन है ऐसे इस राक्षसके आगे युद्धमे देवोंके बीच ऐसा कौन है जो सामने खड़ा होनेकी भी इच्छा कर सके ? इसलिए जब तक यह दूसरे देवोंको नहीं मारता है उसके पहले ही मैं स्वयं इसके युद्धकी श्रद्धाका नाश कर देता हूँ ॥२२०-२२२॥ ऐसा विचारकर देवोंका स्वामी इन्द्र भयसे

१. त्रिषः म० । २. तमभ्रमित्रीण म० । ३. भागिनेयाः । ४. चित्रचन्द्रार्ध म० । ५. शरैः ख० । ६. [] कोष्ठकान्तर्गत. पाठः क० पुस्तके नास्ति । ७. मृत्युम् ।

निपत्य पादयोस्तावज्जानुस्त्वष्टमहोतलः । तमुवाच महावीरो जयन्त इति विश्रुतः ॥२२४॥
 सत्येव मयि देवेन्द्र करोपि यदि संयुगम् । ततो भवत्कृतं जन्म त्वया मम निरर्थकम् ॥२२५॥
 वालकोऽङ्गे भेजन्क्रीडां पुत्रप्रीत्या यदीक्षितः । स्नेहस्यानृप्यमेतस्य जनयामि तवाधुना ॥२२६॥
 स त्वं निराकुलो भूत्वा तिष्ठ तात यथेप्सितम् । शत्रून् क्षणेन निःशेषानयं व्यापादयाम्यहम् ॥२२७॥
 नखेन प्राप्यते क्षेद्रं वस्तु यत्स्वल्पयत्नतः । व्यापारः परशोस्तत्र ननु तात निरर्थकः ॥२२८॥
 वारयित्वेत्यमौ तातं संयुगाय समुद्यतः । कोपावेशाच्छरीरेण असमान इवाम्बरम् ॥२२९॥
 प्रतिश्रीमालि चायासीदायासपरिवर्जितः । गुप्तः पवनवेगेन सैन्येनोज्ज्वलहेतिना ॥२३०॥
 श्रीमाली चापि संप्राप्तं चिराद्योग्यं प्रतिद्विपम् । दृष्ट्वा तुष्टो दधावास्य संमुखं सैन्यमध्यगः ॥२३१॥
 अमुञ्चतां ततः क्रद्धी शरासारं परस्परम् । कुमारो सतताकृष्टदृष्टकोदण्डमण्डलौ ॥२३२॥
 तयोः कुमारयोर्युद्धं निश्चलं पृतनाद्वयम् । ददर्श विस्मयप्राप्तमानसं रेखया स्थितम् ॥२३३॥
 कनकेन ततो भित्त्वा जयन्तो विरधीकृतः । श्रीमालिना स्वसैन्यस्य कुर्वता संमदं परम् ॥२३४॥
 मूर्च्छया पतिते तस्मिन् स्ववर्गस्यापतन्मनः । मूर्च्छायाश्च परित्यागादुत्थिते पुनरुत्थितम् ॥२३५॥
 आहत्य भिण्डिमालेन जयन्तेन ततः कृतः । श्रीमाली विरथो रोपात्प्रहारेणातिवर्द्धितात् ॥२३६॥
 ततः परबले तोपनिर्घोषो निर्गतो महान् । निजे च यातुधानस्य समाक्रन्दध्वनिर्बले ॥२३७॥

काँपती हुई सेवाको सान्त्वना देकर ज्योंही युद्धके लिए उठा त्योंही उसका महाबलवान् जयन्त नामका पुत्र चरणोंमें गिरकर तथा पृथिवीपर घुटने टेककर कहने लगा कि हे देवेन्द्र ! यदि मेरे रहते हुए आप युद्ध करते हैं तो आपसे जो मेरा जन्म हुआ है वह निरर्थक है ॥२२३-२२५॥ जब मैं बाल्य अवस्थामें आपकी गोदमें क्रीड़ा करता था और आप पुत्रके स्नेहसे वार-वार मेरी ओर देखते थे आज मैं उस स्नेहका बदला चुकाना चाहता हूँ उस ऋणसे मुक्त होना चाहता हूँ ॥२२६॥ इसलिए हे तात ! आप निराकुल होकर घर पर रहिये । मैं क्षणभरमें समस्त शत्रुओंका नाश कर डालता हूँ ॥२२७॥ हे तात ! जो वस्तु थोड़े ही प्रयत्नसे नखके द्वारा छेदी जा सकती है वहाँ परशुका चलाना व्यर्थ ही है ॥२२८॥ इस प्रकार पिताको मनाकर जयन्त युद्धके लिए उद्यत हुआ । उस समय वह क्रोधावेशसे ऐसा जान पड़ता था मानो शरीरके द्वारा आकाशको ही ग्रस रहा हो ॥२२९॥ पवनके समान वेगशाली एवं देदीप्यमान शस्त्रोंको धारण करनेवाली सेना जिसकी रक्षा कर रही थी ऐसा जयन्त विना किसी खेदके सहज ही श्रीमालीके संमुख आया ॥२३०॥ श्रीमाली चिर काल वाद रणके योग्य शत्रुको आया देख बहुत संतुष्ट हुआ और सेनाके बीच गमन करता हुआ उसकी ओर दौड़ा ॥२३१॥

तदनन्तर जिनके धनुर्मण्डल निरन्तर खिंचते हुए दिखाई देते थे ऐसे क्रोधसे भरे दोनों कुमारोंने एक दूसरेपर बाणोंकी वर्षा छोड़ी ॥२३२॥ जिनका चित्त आश्चर्यसे भर रहा था और जो अपनी-अपनी रेखाओंपर खड़ी थीं ऐसी दोनों ओरकी सेनाएँ निश्चल होकर उन दोनों कुमारोंका युद्ध देख रही थीं ॥२३३॥ तदनन्तर अपनी सेनाको हर्षित करते हुए श्रीमालीने कनक नामक हथियारसे जयन्तका रथ तोड़कर उसे रथरहित कर दिया ॥२३४॥ जयन्त मूर्च्छासे नीचे गिर पड़ा सो उसे गिरा देख उसकी सेनाका मन भी गिर गया और मूर्च्छा दूर होनेपर जब वह उठा तो सेनाका मन भी उठ गया ॥२३५॥ तदनन्तर जयन्तने भिण्डिमाल नामक शस्त्र चलाकर श्रीमालीको रथरहित कर दिया और अत्यन्त बड़े हुए क्रोधसे ऐसा प्रहार किया कि वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ा ॥२३६॥ तब शत्रुसेनामें बड़ा भारी हर्षनाद हुआ और इधर राक्षसोंके सेनामें

१. जनस्वष्ट म० । २. जनक्रीडां म० । ३. त्वयाहं फलमेतस्य । ४. यथेक्षितम् म० । ५. यसमान क० । ६. दधाव = धावति स्म । ७. स तदाकृष्ट म० । ८. पृतनीद्वयम् य० । ९. शर्मदं म० । संमतं ख० । १०. स्त्रीमालिर् म० । ११. वर्धितान् म० । १२. वभौ म० ।

गतमूर्च्छस्तु सक्रुद्ध श्रीमाली भृशभीषणः । किरन् प्रहरणघातं जयन्ताभिमुखो ययौ ॥२३८॥
 मुञ्चन्तौ हेतिजाल तौ कुमारौ रेजतुस्तराम् । सिंहाभिकाविवोद्धृतदीप्तकेसरसचयौ ॥२३९॥
 ततो माल्यवत पुत्रः सुरराजस्य सूनुना । स्तनान्तरे हतो गाढ गदया पतितो भुवि ॥२४०॥
 वदनेन ततो रक्त विमुञ्चन् धरणीं गतः । अस्तङ्गत इवाभाति कमलाकरवान्धवः ॥२४१॥
 हतश्रीमालिकं प्राप्य रथ वासवनन्दनः । दध्मौ शङ्ख मुदा भीता राक्षसाश्च विदुदुबुः ॥२४२॥
 माल्यवननयं दृष्ट्वा ततो निर्गतजीवितम् । जयन्तं च सुसन्नद्धं तोपमुक्तभटस्वनम् ॥२४३॥
 आम्वासयन्निज सैन्य पलायनपरायणम् । इन्द्रजित्समुखीभूतो जयन्तस्योत्कटो रुषा ॥२४४॥
 ततोऽभिभवने सक्त जनानां तं कलिं यथा । जयन्तमिन्द्रजिह्वक्रे जर्जरं चर्मवच्छरैः ॥२४५॥
 दृष्ट्वा च छिन्नवर्माणं रुधिरात्पविग्रहम् । जयन्त शरसघातैः प्राप्त शल्लिल्लुल्यताम् ॥२४६॥
 अमरेन्द्रः स्वयं योद्धुमुत्थितश्चाद्यन्नभः । नीरन्ध्रं वाहनैर्युरायुधैश्च चलत्करैः ॥२४७॥
 अवादीत् सारथिश्चैव रावणं सन्मतिश्रुतिः । अयं स देव सप्राप्तः स्वयं नाथो दिवोकसाम् ॥२४८॥
 चक्रेण लोकपालानां परितः कृतपालनः । मत्तैरावतपृष्ठस्थो मौलिरत्नप्रभावृतः ॥२४९॥
 पाण्डुरेणोपरिस्थेन छत्रेणावृतभास्करः । क्षुब्धेन सागरेणेव सैन्येन कृतवेष्टनः ॥२५०॥

रुदन शब्द सुनाई पड़ने लगा ॥२३७॥ जब मूर्च्छा दूर हुई तब श्रीमाली अत्यन्त क्रुपित हो शस्त्र-समूहकी वर्षा करता हुआ जयन्तके सन्मुख गया । उस समय वह अत्यन्त भयंकर दिखाई देता था ॥२३८॥ शस्त्रसमूहको छोड़ते हुए दोनों कुमार ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनकी चमकीली सटाओंका समूह उड़ रहा था ऐसे सिंहके दो बालक ही हो ॥२३९॥ तदनन्तर इन्द्रके पुत्र जयन्तने माल्यवानके पुत्र श्रीमालीके वक्ष स्थलपर गदाका ऐसा प्रहार किया कि वह पृथिवी पर गिर पड़ा ॥२४०॥ मुखसे खूनको छोड़ता पृथिवीपर पड़ा श्रीमाली ऐसा जान पड़ता था मानो अस्त होता हुआ सूर्य ही हो ॥२४१॥ श्रीमालीको मारनेके बाद जयन्तने रथपर सवार हो हर्षसे शङ्ख फूँका जिससे राक्षस भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे ॥२४२॥

तदनन्तर श्रीमालीको निष्प्राण और जिसके योद्धा हर्षनाद कर रहे थे ऐसे जयन्तको आगामी युद्धके लिए तत्पर देख रावणका पुत्र इन्द्रजित् अपनी भागती हुई सेनाको आश्वासन देता हुआ जयन्तके सन्मुख आया । उस समय वह क्रोधसे बड़ा विकट जान पड़ता था ॥२४३-२४४॥ तदनन्तर इन्द्रजित्ने कलिकालकी तरह लोगोंके अनादर करनेमें सलग्न जयन्तको अपने वाणोंसे कवचकी तरह जर्जर कर दिया अर्थात् जिस प्रकार वाणोंसे उसका कवच जर्जर किया था उसी प्रकार उसका शरीर भी जर्जर कर दिया ॥२४५॥ जिसका कवच टूट गया था, जिसका शरीर खूनसे लाल-लाल हो रहा था और जो गड़े हुए वाणोंसे सेहीकी तुलना प्राप्त कर रहा था ऐसे जयन्तको देखकर इन्द्र स्वयं युद्ध करनेके लिए उठा । उस समय इन्द्र अपने वाहनो और चमकते हुए तीक्ष्ण शस्त्रोंसे नीरन्ध्र आकाशको आच्छादित कर रहा था ॥२४६-२४७॥ इन्द्रको युद्धके लिए उद्यत देख सन्मति नामक सारथिने रावणसे कहा कि हे देव ! यह देवोंका अधिपति इन्द्र स्वयं ही आया है ॥२४८॥ लोकपालोंका समूह चारों ओरसे इसकी रक्षा कर रहा है, यह मदीन्मत्त ऐरावत हाथीपर सवार है, मुकुटके रत्नोंकी प्रभासे आवृत है, ऊपर लगे हुए सफेद छत्रसे सूर्यको ढक रहा है, तथा क्षोभको प्राप्त हुए महासागरके समान सेनासे घिरा हुआ

१. विवोद्धृत म० । २. हतः श्रीमाली येन स । हत श्रीमालिकः म०, क०, व० । ३. कवचवत् ।
 ४. 'शवावित्तु शल्पन्तल्लाम्नि शलली शल्लं शल्म' इत्यमरः । शलली 'सेही' इति हिन्दी । शलिलुल्यताम्
 व०, ख०, म०, व० ।

महाबलोऽयमेतस्य कुमारो नोचितो रणे । उद्यच्छ स्वयमेव त्व जहि गत्रोरहयुताम् ॥२५१॥
 ततोऽभिमुखमायान्त दृष्ट्वाखण्डलमूर्जितम् । संस्मृत्य मालिमरण श्रीमालिब्रद्वर्दीपितः ॥२५२॥
 दृष्ट्वा च शत्रुभिः पुत्र वेपथ्यमानं समन्तत । दधाव रावण क्रोधाद् रथेनानिलरहमा ॥२५३॥
 भटानामभवद्युद्धमेतयो रोमहर्षणम् । तुमुल गन्धमघातघनध्वान्तसमावृतम् ॥२५४॥
 तत गन्धकृतध्वान्ते रक्तनीहारवर्तिनि । अज्ञायन्त भटा शूरास्तारारावेण केवलम् ॥२५५॥
 प्रेरिता स्वामिनो भक्त्या 'पूर्वनाडरचोद्विता । प्रहारोत्थेन कोपेन भटा युयुधिरे भृगम् ॥२५६॥
 गदाभि शक्तिभि कुन्तैर्मुंमलैरसिभि गरैः । परिघैः कनकैश्चकैः करवालीभिरद्विपै ॥२५७॥
 शूलैः पाशैर्मुंशुण्डोभि कुठारैर्मुंद्रैर्धनैः । प्रावभिलाङ्गलैर्दण्डैः कौणैः सायकवेणुभि ॥२५८॥
 अन्यैश्च विविधैः शस्त्रैरन्योन्यच्छेदकारिभिः । करालमभवद् व्योम तदाघातोत्थितानलम् ॥२५९॥
 क्वचिद्प्रसदिति ध्वानो भवत्यन्यत्र श्रुदिति । क्वचिद्रणरणारावः क्वचिक्किणिकिणस्वनः ॥२६०॥
 त्रपत्रपायतेऽन्यत्र तथा दमदमायते । छमाद्धमायतेऽन्यत्र तथा पटपटायते ॥२६१॥
 छलछलायतेऽन्यत्र दहदहायते तथा । तटतटायतेऽन्यत्र तथा चटचटायते ॥२६२॥
 घग्घग्घवायतेऽन्यत्र रण शस्त्रोत्थितैः स्वरैः । गच्छात्मकमिवोद्भूत तदा त्वजिरमण्डलम् ॥२६३॥
 हन्यते वाजिना वार्जा वारणेन मतद्गज । तत्रस्थेन च तत्रस्थो रथेन ध्वस्यते रथः ॥२६४॥
 पटातिभिः मम युद्धं कर्तुं पाठातमुद्यतम् । यथा पुगोगतैकैकभटपाटनतत्परम् ॥२६५॥

है ॥२४६-२५०॥ यह चूँकि महाबलवान् है इसलिए कुमार इन्द्रजित् युद्ध करनेके लिए इसके योग्य नहीं है अतः आप स्वय ही उठिये और शत्रुका अहंकार नष्ट कीजिये ॥२५१॥

तदनन्तर बलवान् इन्द्रको सामने आता देख रावण वायुके समान वेगशाली रथसे सामने दौड़ा । उस समय रावण मालीके मरणका स्मरण कर रहा था और अभी हालमें जो श्रीमालीका बध हुआ था उससे देदीप्यमान हो रहा था । उस समय इन दोनों योद्धाओंका रोमाञ्चकारी भयङ्कर युद्ध हो रहा था । वह युद्ध शस्त्र समुदायसे उत्पन्न सघन अन्धकारसे व्याप्त था । गवणने देखा कि उसका पुत्र इन्द्रजित् सत्र ओरसे शत्रुओं द्वारा घेर लिया गया है अतः वह क्रुपित हो आगे दौड़ा ॥२५२-२५४॥ तदनन्तर जहाँ शस्त्रोंके द्वारा अन्धकार फैल रहा था और रुधिरका कुहरा छाया हुआ था ऐसे युद्धमें यदि शूरवीर योद्धा पहिचाने जाते थे तो केवल अपनी जोरदार आवाज से ही पहिचाने जाते थे ॥२५५॥ जिन योद्धाओंने पहले अपेक्षा भावसे युद्ध करना बन्द कर दिया था उनपर भी जब चोट पड़ने लगीं तब वे स्वामीकी भक्तिसे प्रेरित हो प्रहारजन्य क्रोधसे अत्यधिक युद्ध करने लगे ॥२५६॥ गदा, शक्ति, कुन्त, मुसल, कृपाण, वाण, परिघ, कनक, चक्र, छुरी, अंघ्रिप, शूल, पाश, भुशुण्डी, कुठार, मुद्गर, घन, पृथ्वर, लाङ्गल, दण्ड, कौण, बोंसके वाण, तथा एक दूसरेको काटनेवाले अन्य अनेक शस्त्रोंसे उस समय आकाश भयङ्कर हो गया था और शस्त्रोंके पारस्परिक आघातसे उसमें अग्नि उत्पन्न हो रही थी ॥२५७-२५९॥ उस समय कहीं तो प्रसद्-प्रसद्, कहीं शूद्-शूद्, कहीं रण-रण, कहीं किण-किण, कहीं त्रप-त्रप, कहीं दम-दम, कहीं छम-छम, कहीं पट-पट, कहीं छल-छल, कहीं टह-टह, कहीं तड़-तड़, कहीं चट-चट और कहीं घग्घ-घग्घकी आवाज आ रही थी । यथार्थ वात यह थी कि शस्त्रोंसे उत्पन्न स्वरोसे उस समय रणाङ्गण शब्दमय हो रहा था ॥२६०-२६३॥ घोड़ा घोड़ाको मार रहा था, हाथी हाथीको मार रहा था, घुड़सवार घुड़सवारको, हाथीका सवार हाथीके सवारको और रथ रथको नष्ट कर रहा था ॥२६४॥ जो जिसके सामने आया उसीको चीरनेमें

१. उत्तिष्ठ । २. गर्वम् । ३. तारणवेणु-व० । ४. पूर्वमारव म०, पूर्वमारव व० । ५. कर्वालिभि-
 रङ्घ्रिवैः म० ।

गजशूकृतनिस्सर्पच्छीकरासारं महतिः । शस्त्रपातसमुद्भूतधूमकेतुमशीशमन् ॥२६६॥
 प्रतिमागुरवो दन्ता अष्टा अपि गजाननात् । पतन्त कुर्वते भेदं भटपट्टकेरधोमुखा ॥२६७॥
 प्रहारं मुञ्च भो शूर मा भूः पुरुष कातरः । प्रहारं भटसिंहास्येः सहस्व मम साम्प्रतम् ॥२६८॥
 अथ मृतोऽसि मां प्राप्य गतिस्तव कुतोऽधुना । दुःशिक्षित न जानासि गृहीतुमपि सायकम् ॥२६९॥
 रक्षात्मानं व्रजामुष्माद् रणकण्डमुधा तव । कण्डूरेव न मे अष्टा क्षत स्वल्प त्वया कृतम् ॥२७०॥
 मुग्धैव जीवनं मुक्तं पण्डकेन प्रभोस्त्वया । किं गर्जसि फले व्यक्तिर्भटतायाः करोम्यहम् ॥२७१॥
 किं कम्पसे भंज स्थैर्यं गृहाण त्वरित शरम् । दृढमुष्टिं कुरु ममत्वङ्गोऽयं तव यास्यति ॥२७२॥
 एवमादिसमालापाः परमोत्साहवर्तिनाम् । भटानामाहवे जाताः स्वामिनामग्रतो मुहुः ॥२७३॥
 अलसः कस्यचिद्वाहुराहतो गदया द्विर्पा । बभूव विशदोऽन्यन्त क्षणनर्तनकारिणः ॥२७४॥
 प्रयच्छन्प्रतिपत्तस्य सायुकारं मुहुः शिरः । पपात कस्यचिद्द्वेगनिष्कामद्भूरिशोणितम् ॥२७५॥
 अभिद्यत शरैर्वचो भटानां न तु मानसम् । शिरः पपात नो मानः कान्तो मृत्युर्न जीवितम् ॥२७६॥
 कुर्वाणा यशसो रक्षां दत्त्वा वीरा महानसः । भटाः सकटमायाताः प्राणान् शस्त्रमृतोऽमुचन् ॥२७७॥
 त्रियमाणो भटः कश्चिच्छत्रुमारणकाङ्क्षया । पपात देहमाक्रम्य रिपोः क्रापेन पूरित ॥२७८॥
 च्युते शस्त्रान्तराघाताच्छस्त्रे कश्चिद्भटोत्तमः । मुष्टिसुद्वरघातेन चक्रे शत्रु गतासुकम् ॥२७९॥

तत्पर रहनेवाला पैदल सिपाहियोंका मुण्ड पैदल सिपाहियोंके साथ युद्ध करनेके लिए उद्यत था ॥२६५॥ हाथियोंकी शूत्कारके साथ जो जलके छींटोका समूह निकल रहा था वह शस्त्रपातसे उत्पन्न अग्निको शान्त कर रहा था ॥२६६॥ प्रतिमाके समान भारी-भारी जो दौत हाथियोंके मुखसे नीचे गिरते थे वे गिरते-गिरते ही अनेक योद्धाओंकी पट्टिका कचूमर निकाल देते थे ॥२६७॥ अरे शूर पुरुष ! प्रहार छोड़, कायर क्यों हो रहा है ? हे सैनिकशिरोमणे ! इस समय जरा मेरी तलवारका भी तो वार सहन कर ॥२६८॥ ले अव तू मरता ही है, मेरे पास आकर अव तो जा ही कहीं सकता है ? अरे दुःशिक्षित ! तलवार पकड़ना भी तो तुम्हें आता नहीं है, युद्ध करनेके लिए चला है ॥२६९॥ जा यहाँसे भाग जा और अपने आपकी रक्षा कर । तेरी रणकी खाज व्यर्थ है, तूने इतना थोड़ा घाव किया कि उससे मेरी खाज ही नहीं गई ॥२७०॥ तुम नपुंसकने स्वामीका वेतन व्यर्थ ही खाया है, चुप रह, क्यों गरज रहा है ? अवसर आनेपर शूरवीरता अपने आप प्रकट हो जायगी ॥२७१॥ कौंप क्यों रहा है ? जरा स्थिरताको प्राप्त हो, शीघ्र ही वाण हाथ में ले, मुट्टीको मजबूत रख, देख यह तलवार खिसक कर नीचे चली जायेगी ॥२७२॥ उस समय युद्धमें अपने-अपने स्वामियोंके आगे परमोत्साहसे युक्त योद्धाओंके वार-वार उल्लिखित वार्तालाप हो रहे थे ॥२७३॥ किसीकी भुजा आलस्यसे भरी थी—उठती ही नहीं थी पर जब शत्रुने उसमें गदाकी चोट जमाई तब वह क्षणभरमें नाच उठा और उसकी भुजा ठीक हो गई ॥२७४॥ जिससे बड़े वेगसे अत्याधिक खून निकल रहा था ऐसा किसीका शिर शत्रुके लिए वार-वार धन्यवाद देता हुआ नीचे गिर पड़ा ॥२७५॥ वाणोंसे योद्धाओंका वक्षस्थल तो खण्डित हो गया पर मन खण्डित नहीं हुआ । इसी प्रकार योद्धाओंका शिर तो गिर गया पर मान नहीं गिरा । उन्हें मृत्यु प्रिय थी पर जीवन प्रिय नहीं था ॥२७६॥ जो महातेजस्वी कुशल वीर थे उन्होंने सङ्कट आनेपर शस्त्र लिये यशकी रक्षा करते-करते अपने प्राण छोड़ दिये थे ॥२७७॥ कोई एक योद्धा मर तो रहा था पर शत्रुको मारनेकी इच्छासे क्रोधयुक्त हो जब गिरने लगा तो शत्रुके शरीर पर आक्रमण कर गिरा ॥२७८॥ शत्रुके शस्त्रकी चोटसे जब किसी योद्धाका शस्त्र

१. शीकराकार-म० । २. भटसहासेः म० । ३. क्लीबेन 'तृतीयाप्रकृतिः शब्दः क्लीबः पण्डो नपुंसके' इत्यमरः । पाण्डुकेन म०, पण्डुकेन क०, ख०, व० । ४. भव म० । ५. कुरुक्षेत्रं म० (?) । ६. द्विषः म० ।

आलिङ्गय मित्रवत्कश्चिहोभ्यां गाढ महाभट. । चकार विगलद्रक्तधार शत्रु विजीवितम् ॥२८०॥
 कश्चिच्चकार पन्थानमृजु निघ्नन् भटावलीम् । समरे पुरुषैरन्यैर्भयादकृतसङ्गमम् ॥२८१॥
 पतन्तोऽपि न पृष्ठस्य दर्शन भटसत्तमा. । वितेरुः प्रतिपक्षस्य गर्वोत्तानितवक्षस ॥२८२॥
 अश्वै रथैर्भटैर्नागैः पतद्भिरतिरहसा । अशवा रथा भटा नागा न्यपात्यन्त सहस्रश ॥२८३॥
 रजोभिः शस्त्रनिक्षेपसमुद्भूतैः सशोणितैः । दानाम्भसा च सच्छन्न शक्रचापैरभून्नम ॥२८४॥
 कश्चिक्त्रेण सरुध्य^१ वामेनान्त्राणि सङ्गट^२ । तरसा खड्गमुद्यम्य ययौ प्रत्यरि भीषण^३ ॥२८५॥
 कश्चिन्नितैः पुरीतद्भिर्वद्धा परिकर दृढम् । दष्टोष्टोऽभिययौ शत्रु दृष्टाग्रेपकनीनिकैः ॥२८६॥
 कश्चिक्कीलान्ममादाय निज रोपपरायणः । कराभ्यां द्विपतो मूर्ध्नि चिक्षेप गलितायुध. ॥२८७॥
 गृहीत्वा कीकस कश्चिन्नजि^४ छिन्नमरातिना । हुढौके त गलद्रक्तधाराशुकविराजितं ॥२८८॥
 पागेन कश्चिदानीय रिपु युद्धसमुत्सुक । मुमोच दूरनिमुक्त रणसभवसभ्रम^५ ॥२८९॥
 कश्चिच्च्युतायुध दृष्ट्वा प्रतिपक्षमनिच्छया । हुढौके शस्त्रमुज्जित्वा न्याय्यसग्रामतत्पर ॥२९०॥
 पिनाकाननलग्नेन रिपून् कश्चित्प्रतिद्विपा । जघान घनकीलालधारानिकरवर्षिणा ॥२९१॥
 कश्चिक्कवन्धतां प्राप्तः गिरसा स्फुटरहसा । मुन्वचस्तद्विशि कीलाल प्रतिपक्षमताडयत् ॥२९२॥

छूटकर नीचे गिर गया तब उसने मुट्टीरूपी मुद्गरकी मारसे ही शत्रुको प्राणरहित कर दिया ॥२७६॥ किसी महायोद्धाने मित्रकी तरह भुजाओंसे शत्रुका गाढ़ आलिङ्गन कर उसे निर्जीव कर दिया—आलिङ्गन करते समय शत्रुके शरीरसे खूनकी धारा वह निकली थी ॥२८०॥ किसी योद्धाने योद्धाओके समूहको मारकर युद्धमें अपना सीधा मार्ग बना लिया था । भयके कारण अन्य पुरुष उसके उस मार्गमें आड़े नहीं आये थे ॥२८१॥ गर्वसे जिनका वक्षःस्थल तना हुआ था ऐसे उत्तम योद्धाओने गिरते-गिरते भी शत्रुके लिए अपनी पीठ नहीं दिखलाई थी ॥२८२॥ बड़े वेगसे नीचे गिरनेवाले घोड़ों, रथों, योद्धाओं और हाथियोंने हजारों घोड़ों, रथों, योद्धाओं और हाथियोंको नीचे गिरा दिया था ॥२८३॥ शस्त्रोंके निक्षेपसे उठी हुई रुधिराक्त धूलि और हाथियोंके मटजलसे आकाश ऐसा व्याप्त हो गया था मानो इन्द्रधनुषसे ही आच्छादित हो रहा हो ॥२८४॥ कोई एक भयंकर योद्धा अपनी निकलती हुई आँतोंको वाये हाथसे पकड़कर तथा दाहिने हाथसे तलवार उठा बड़े वेगसे शत्रुके सामने जा रहा था ॥२८५॥ जो ओठ चाव रहा था तथा जिसके नेत्रीकी पूर्ण पुतलियों दिख रही थीं ऐसा कोई योद्धा अपनी ही आँतोंसे कमरको मजबूत कसकर शत्रुकी ओर जा रहा था ॥२८६॥ जिसके हथियार गिर गये थे ऐसे किसी योद्धाने क्रोधनिमग्न हो अपना खून दोनो हाथोंमें भरकर शत्रुके शिरपर डाल दिया था ॥२८७॥ जो निकलते हुए खूनकी धारासे लथपथ वस्त्रोंसे सुशोभित था ऐसा कोई योद्धा शत्रुके द्वारा काटी हुई अपनी हड्डी लेकर शत्रुके सामने जा रहा था ॥२८८॥ जो युद्धमें उत्सुक तथा युद्धकालमें उत्पन्न होनेवाली अनेक चेष्टाओंसे युक्त था ऐसे किसी योद्धाने शत्रुको पाशमें बँधकर दूर ले जाकर छोड़ दिया ॥२८९॥ जो न्यायपूर्ण युद्ध करनेमें तत्पर था ऐसे किसी योद्धाने जब देखा कि हमारे शत्रुके शस्त्र नीचे गिर गये हैं और वह निरस्त्र हो गया है तब वह स्वयं भी अपना शस्त्र छोड़कर अनिच्छासे शत्रुके सामने गया था ॥२९०॥ कोई योद्धा धनुषके अग्रभागमें लगे एवं खूनकी बड़ी मोटी धाराओकी वर्षा करनेवाले शत्रुके द्वारा ही दूसरे शत्रुओको मार रहा था ॥२९१॥ कोई एक योद्धा शिर कट जानेसे यद्यपि कवन्ध दशाको प्राप्त हुआ था तथापि उसने शत्रुकी दिशामें वेगसे उछलते हुए शिरके द्वारा ही रुधिरकी

१. सरुध्य म० । २. कनीनिकाः म० । ३. छन्न- म० । ४. विराजित व० । ५. त दिशि म० ।

१कृतोऽपि कस्यचिन्मूर्धा गर्वनिर्भरचेतसः । दष्टदन्तच्छ्रदोऽपसद्भुङ्कारमुखरश्चिरम् ॥२६३॥
 अन्येनाशीविषेणेव पततात्यन्तभीषणा । दृष्टिरुत्कानिभाक्षेपि प्रतिपत्तस्य विग्रहे ॥२६४॥
 अर्धकृत्त शिरोऽन्येन धृत्वा वामेन पाणिना । पातित प्रतिपत्तस्य शिरो विक्रमशालिना ॥२६५॥
 कश्चिद्विचिप्य कोपेन शस्त्रमप्राप्तशत्रुकम् । हन्तु परिघतुल्येन बाहुनैव समुद्यतः ॥२६६॥
 अराति मूर्च्छित कश्चित्सिपेच स्वासृजा भृशम् । शीतीकृतेन वस्त्रान्तवायुना सभ्रमान्वितः ॥२६७॥
 विश्रान्तं मूर्च्छया शूरैः शस्त्रघातैः सुखायितम् । मरणेन कृतार्थत्व मेने कोपेन कम्पितैः ॥२६८॥
 एव महति सग्रामे प्रवृत्ते भीतिभीषणे । भटानामुत्तमानन्दसंपादनपरायणे ॥२६९॥
 गजनासासमाकृष्टवीरकल्पिततत्करे । जवनाश्वखुराघातपतत्कर्तनोद्यते ॥३००॥
 सारथिप्रेरणाकृष्टरथविचर्तवाजिनि । जङ्घावष्टम्भसङ्क्रान्तचतकुम्भमहागजे ॥३०१॥
 परस्परजवाघातदलत्पाटातविग्रहे । भटोत्तमकराकृष्टपुच्छनिष्पन्दवाजिनि ॥३०२॥
 कराघातदलत्कुम्भिकुम्भनिष्पृतमौक्तिके । पतन्मातङ्गनिर्भररथाहतपतद्भटे ॥३०३॥

वर्षाकर शत्रुको मार डाला था ॥२६२॥ जिसका चित्त गर्वसे भर रहा था ऐसे किसी योद्धाका शिर यद्यपि कट गया था तो भी वह ओठोंको डशता रहा और हुंकारसे मुखर होता हुआ चिर काल बाद नीचे गिरा था ॥२६३॥ जो सौंपके समान जान पड़ता था ऐसे किसी योद्धाने गिरते समय उल्काके समान अत्यन्त भयंकर अपनी दृष्टि शत्रुके शरीरपर डाली थी ॥२६४॥ किसी पराक्रमी योद्धाने शत्रुके द्वारा आघे काटे हुए अपने शिरको बाये हाथसे थाम लिया और दाहिने हाथसे शत्रुका शिर काटकर नीचे गिरा दिया ॥२६५॥ किसी योद्धाका शस्त्र शत्रु तक नहीं पहुँच रहा था इसलिए क्रोधसे आकर उसने उसे फेंक दिया और अर्गलके समान लम्बी भुजासे ही शत्रुको मारनेके लिए उद्यत हो गया ॥२६६॥ किसी एक दयालु योद्धाने देखा कि हमारा शत्रु सामने मूर्च्छित पड़ा है जब उसे सचेत करनेके लिए जल आदि अन्य साधन न मिले तब उसने संभ्रमसे युक्त हो वस्त्रके छोरकी वायुसे शीतल किये गये अपने ही रुधिरसे उसे बार-बार सींचना शुरू कर दिया ॥२६७॥ क्रोधसे कौंपते हुए शूर वीर मनुष्योंको जब मूर्च्छा आती थी तब वे समझते थे कि विश्राम प्राप्त हुआ है, जब शस्त्रोकी चोट लगती थी तब समझते थे कि सुख प्राप्त हुआ और जब मरण प्राप्त होता था तब समझते थे कि कृतकृत्यता प्राप्त हुई है ॥२६८॥

इस प्रकार जब योद्धाओके बीच महायुद्ध हो रहा था, ऐसा महायुद्ध कि जो भयको भी भय उत्पन्न करनेवाला था तथा उत्तम मनुष्योंको आनन्द उत्पन्न करनेमे तत्पर था ॥२६९॥ जहाँ हाथी अपनी सूंडोमे कसकर वीर पुरुषोंको अपनी ओर खींचते थे पर वे वीर पुरुष उनकी सूँडे स्वयं काट डालते थे । जहाँ लोग घोड़ोंको काटनेके लिए उद्यत होते अवश्य थे पर वे वेग-शाली घोड़े अपने खुरोंके आघातसे उन्हें वहीं गिरा देते थे ॥३००॥ जहाँ घोड़े सारथियोंकी प्रेरणा पाकर रथ खींचते थे पर उनसे उनका शरीर घायल हो जाता था । जहाँ मस्तकरहित बड़े-बड़े हाथी पड़े हुए थे और लोग उनपर पैर रखते हुए चलते थे ॥३०१॥ जहाँ पैदल सिपाहियोंके शरीर एक दूसरेके वेगपूर्ण आघातसे खण्डित हो रहे थे । जहाँ उत्तम योद्धा अपने हाथोंसे घोड़ोंकी पूँछ पकड़कर इतने जोरसे खींचते थे कि वे निश्चल खड़े रह जाते थे ॥३०२॥ जहाँ हाथोंकी चोटसे हाथियोंके गण्डस्थल फट जाते थे तथा उनसे मोती निकलने लगते थे । जहाँ गिरते हुए हाथियोंसे रथ टूट जाते थे और उनकी चपेटमें आकर अनेक योद्धा घायल

कोलालपटलच्छत्रं गलत्रासाकटम्बके । गजकर्णसमुद्रभूततीव्राकुलसमीरणे ॥३०४॥
 उवाच सारथिं वीरः सुमति कैरुसीसुत । न किञ्चिदिव मन्वानो रण रणकुतूहली ॥३०५॥
 तस्यैव शक्रसञ्जस्य समुप्तो बाह्यतां रथः । असमानै किमत्रान्यैः सामन्तैस्तस्य मारितैः ॥३०६॥
 तृणतुल्येषु नामीषु मम शस्त्र प्रवर्तते । मनश्च सुमहावीरग्रासग्रहणघस्मरम् ॥३०७॥
 आखण्डलत्वमस्याद्य कृत क्षुद्राभिमानतः । करोमि मृत्युना दूर स्वविदम्बनकारिण ॥३०८॥
 अय शक्रो महानेते लोकपाला प्रकल्पिताः । अन्ये च मानुषा देवा नाकश्च धरणीधरः ॥३०९॥
 अहो लोकावहासस्य^३ मत्तस्य क्षुद्रया श्रिया । आत्मा विस्मृत एवास्य भ्रुकुसस्येव दुर्मतेः ॥३१०॥
 शुक्रशोणितमासास्थिमज्जादिघटिते चिरम् । उपित्वा जठरे पापस्त्रिदशमन्यता गत ॥३११॥
 विद्यावलेन यत्किञ्चित्कुर्वाणो धैर्यदुर्विधः । एष देवायतो ध्वाङ्क्षो वैनतेयायते यथा ॥३१२॥
 एवमुक्तेन शक्रस्य बल सम्मतिना^४ रथः । प्रवेशितो महाशूरसामन्तपरिपालितः ॥३१३॥
 पश्यन्निन्द्रस्य सामन्तान्युद्धाशक्तपलायितान् । ऋजुना चक्षुषा राजा कीटकोपमचेष्टितान् ॥३१४॥
 अशक्यं शशुभिर्धत्तुं कूलैः पूरो यथाम्भसः । चेतोवेगश्च सक्रोधो मिथ्यादृष्टिवताश्रितैः ॥३१५॥
 दृष्टातपत्रमेतस्य क्षीरोदावर्तपाण्डुरम् । नष्टं सुरबल क्वापि तमश्चन्द्रोदये यथा ॥३१६॥

होकर नीचे गिर जाते थे ॥३०३॥ जहाँ लोगोकी नासिकाओंके समूह पड़ते हुए खूनके समूहसे आच्छादित हो रहे थे अथवा जहाँ आकाश और दिशाओंके समूह खूनके समूहसे आच्छादित थे और जहाँ हाथियोंके कानोंकी फटकारसे प्रचण्ड वायु उत्पन्न हो रही थी ॥३०४॥ इस प्रकार योद्धाओंके बीच भयंकर युद्ध हो रहा था पर युद्धके कुतूहलसे भरा वीर रावण उस युद्धको ऐसा मान रहा था जैसा कि मानो कुछ ही न रहा हो । उसने अपने सुमति नामक सारथिसे कहा कि उस इन्द्रके सामने ही रथ ले जाया जाय क्योंकि जो हमारी समानता नहीं रखते ऐसे उसके अन्य सामन्तोंके मारनेसे क्या लाभ है ? ॥३०५-३०६॥ तृणके समान तुच्छ इन सामन्तोंपर न तो मेरा शस्त्र उठता है और न महा भटरूपी ग्रासके ग्रहण करनेमें तत्पर मेरा मन ही इनकी ओर प्रवृत्त होता है ॥३०७॥ अपने आपको विदम्बना करानेवाले इस विद्याधरने लुद्र अभिमानके वशीभूत हो अपने आपको जो इन्द्र मान रक्खा है सो इसके उस इन्द्रपनाको आज मृत्युके द्वारा दूर करता हूँ ॥३०८॥ यह बड़ा इन्द्र बना है, ये लोकपाल इसीने बनाये हैं । यह अन्य मनुष्योंको देव मानना है और विजयार्थ पर्वतको स्वर्ग समझता है ॥३०९॥ बड़े आश्चर्यकी बात है कि जिस प्रकार कोई दुर्बुद्धि नट उत्तम पुरुषका वेष धर अपने आपको भुला देता है उसी प्रकार यह दुर्बुद्धि लुद्र लक्ष्मीसे मत्त होकर अपने आपको भुला रहा है, तथा लोगोकी हँसीका पात्र हो रहा है ॥३१०॥ शुक्र, शोणित, मांस, हड्डी और मज्जा आदिसे भरे हुए माताके उदरमें चिर काल तक निवासकर यह अपने आपको देव मानने लगा है ॥३११॥ विद्याके बलसे कुछ तो भी करता हुआ यह अधीर व्यक्ति अपने आपको देव समझ रहा है जो इसका यह कार्य ऐसा है कि जिस प्रकार कौआ अपने आपको गरुड़ समझने लगता है ॥३१२॥ ऐसा कहते ही सुमति नामक सारथिने महाबलवान् सामन्तोंके द्वारा सुरक्षित रावणके रथको इन्द्रकी सेनामें प्रविष्ट कर दिया ॥३१३॥ वहाँ जाकर रावणने इन्द्रके उन सामन्तों को सरल दृष्टिसे देखा कि जो युद्धमें असमर्थ होकर भाग रहे थे, तथा कीड़ोंके समान जिनकी दयनीय चेष्टाएँ थीं ॥३१४॥ जिस प्रकार किनारे नीरके प्रवाहको नहीं रोक सकते हैं और जिस प्रकार मिथ्यादर्शनके साथ व्रताचरण करनेवाले मनुष्य क्रोध सहित मनके वेगको नहीं रोक पाते हैं उसी प्रकार शत्रु भी रावणको आगे बढ़नेसे नहीं रोक सके थे ॥३१५॥ जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता है उसी

१. गगनाशा- म० । २. विजयार्थगिरिः । ३. लोकावहासस्य म० । ४. सम्मतिना व० । ५. महाशूरः सामन्तः म० ।

इन्द्रोऽपि गजमारूढ. कैलासगिरिसञ्जिभम् । शरं समुद्धरंस्तूणादभीयाय दशाननम् ॥३१७॥
 शरानाकर्णमाकृष्टान् चिक्षेप च यमद्विषि । महीधर इवाम्भोदः स्थूलधारामहाचयम् ॥३१८॥
 दशवक्त्रोऽपि तान्वाणैराच्छिन्नान्तरवर्तिनः । ततस्तैर्गगनं चक्रे निखिलं मण्डपाकृतिम् ॥३१९॥
 आच्छिद्यन्त शरा वाणैरभिद्यन्त च भूरिशः । भीता इव रवेः पादाः क्वापि नष्टा निरन्वयाः ॥३२०॥
 अन्तरेऽस्मिन्नवद्वारगतिर्निशरगोचरम् । ननर्त कलहप्रेक्षासभूतपुरुसम्मदः ॥३२१॥
 असाध्य प्रकृतास्त्राणां ततो ज्ञात्वा दशाननम् । निक्षिप्तमस्त्रमाग्नेयं नाथेन स्वर्गवासिनाम् ॥३२२॥
 इन्धनत्व गतं तस्य खमेव विततात्मनः । धनुरादौ तु किं शक्य वक्तुं पुद्गलवस्तुनि ॥३२३॥
 कीचकानामिवोदारो दह्यमाने वने ध्वनिः । ज्वालावर्लीकरालस्य सवभूवाशुशुक्तेः ॥३२४॥
 ततस्तेनाकुल दृष्ट्वा स्वबलं कैकसीसुतः । चिक्षेप क्षेपनिर्मुक्तमस्त्रं वरुणलक्षितम् ॥३२५॥
 तेन क्षणसमुद्भूतमहार्जामूतराशिना । पर्वतस्थूलधारौघवर्षिणा रावशालिना ॥३२६॥
 रावणस्येव कोपेन विर्लानेन विहायसा । क्षणात्तद्धूमलक्ष्मास्त्र विध्यापितमशेषतः ॥३२७॥
 सुरेन्द्रेण ततोऽसर्जिं तामसास्त्रं समन्ततः । तेनान्धकारिता चक्रे ककुभां नभसा समम् ॥३२८॥
 ततस्तेन दशास्यस्य वितत सकल बलम् । स्वदेहमपि नापश्यत्कुतः शत्रोरनीकिनीम् ॥३२९॥
 ततो निजबल मूढ दृष्ट्वा रत्नश्रवःसुतः । प्रभास्त्रममुचत्कालवस्तुयोजनकोविदः ॥३३०॥

प्रकार क्षीरसमुद्रकी आवर्तके समान धवल रावणका छत्र देखकर देवोंकी सेना न जाने कहाँ नष्ट हो गई ॥३१६॥ कैलास पर्वतके समान ऊँचे हाथीपर सवार हुआ इन्द्र भी तरकससे वाण निकालता हुआ रावणके सम्मुख आया ॥३१७॥ जिस प्रकार मेघ बड़ी मोटी धाराओंके समूहको किसी पर्वतपर छोड़ता है उसी प्रकार इन्द्र भी कान तक खींचे हुए वाण रावणके ऊपर छोड़ने लगा ॥३१८॥ इधर रावणने भी इन्द्रके उन वाणोंको बीचमें ही अपने वाणोंसे छेद डाला और अपने वाणोंसे समस्त आकाशमे मण्डप-सा बना दिया ॥३१९॥ इस प्रकार वाणोंके द्वारा वाण छेदे भेदे जाने लगे और सूर्यकी किरणें इस तरह निर्मूल नष्ट हो गईं मानो भयसे कहीं जा छिपी हो ॥३२०॥ इसी समय युद्धके देखनेसे जिसे बहुत भारी हर्ष उत्पन्न हो रहा था ऐसा नारद जहाँ वाण नहीं पहुँच पाते थे वहाँ आनन्द विभोर हो नृत्य कर रहा था ॥३२१॥

अथाननन्तर जब इन्द्रने देखा कि रावण सामान्य शस्त्रोंसे साध्य नहीं है तब उसने आग्नेय वाण चलाया ॥३२२॥ वह आग्नेय वाण इतना विशाल था कि स्वयं आकाश ही उसका ईंधन बन गया, धनुष आदि पौद्रलिक वस्तुओंके विषयमे तो कहा ही क्या जा सकता है ? ॥३२३॥ जिस प्रकार बँसोंके वनके जलनेपर विशाल शब्द होता है उसी प्रकार ज्वालाओंके समूहसे भयङ्कर दिखनेवाली आग्नेय वाणकी अग्निसे विशाल शब्द हो रहा था ॥३२४॥ तदनन्तर जब रावणने अपनी सेनाको आग्नेय वाणसे आकुल देखा तब उसने शीघ्र ही वरुण अस्त्र चलाया ॥३२५॥ उस वाणके प्रभावसे तत्क्षण ही महामेघोंका समूह उत्पन्न हो गया । वह मेघसमूह पर्वतके समान बड़ी मोटी धाराओंके समूहकी वर्षा कर रहा था, गर्जनासे सुशोभित था और ऐसा जान पड़ता था मानो रावणके क्रोधसे आकाश ही पिघल गया हो । ऐसे मेघसमूहने इन्द्रके उस आग्नेय वाणको उसी क्षण सम्पूर्ण रूपसे बुझा दिया ॥३२६-३२७॥ तदनन्तर इन्द्रने तामस वाण छोड़ा जिससे समस्त दिशाओं और आकाशमे अन्धकार ही अन्धकार छा गया ॥३२८॥ उस वाणने रावणकी सेनाको इस प्रकार व्याप्त कर लिया कि वह अपना शरीर भी देखनेमे असमर्थ हो गई फिर शत्रुकी सेनाको देखनेकी तो बात ही क्या थी ? ॥३२९॥ तब अवसरके

१. तैर्वाणै ख० । ता म०, व०, क० । २. राच्छिदन्तरवर्तिनः ख०, व०, म० । राच्छिदन्तर- क०, छिदिर द्वैधीकरणे इत्यस्य लडि आत्मनेपदे रूपम्, आ उपसर्गेण सहितम् । ३. भ्रान्ता इव म० । ४. नारदः । ५. गोचरे व०, निस्सारगोचर म० । ६. लक्ष्मास म० । ७. काल-वल्ल-म० ।

तेन तन्निखिल ध्वान्तं विध्वस्तं क्षणमात्रतः । जिनशासनतत्त्वेन मत मिथ्यादृशामिव ॥३३१॥
 ततो यमविमर्देन कोपाग्नागच्छसुजिह्वितम् । वितेने गगन तेन भोगिभौ रत्नमासुरैः ॥३३२॥
 कामरूपनृतो वाणास्ते गत्वा वृत्रविद्विष । चेष्या रहित चक्रुः शरीरं कृतवेष्टना ॥३३३॥
 महानीलनिभैरेभिर्वल्याकारधारिभिः । जगामाकुलतां शक्रश्चलद्रसनर्भापणैः ॥३३४॥
 प्रथयावस्वतन्त्रचं कुलिशी व्यालचेष्टितः^१ । वेष्टितः कर्मजालेन यथा जन्तुर्मवोदर्थौ ॥३३५॥
 गरुडाश्च ततो द्रव्यौ सुरेन्द्रस्तदनन्तरम् । हेमपद्मप्रभाजालं पिङ्गता गगनं गतम् ॥३३६॥
 पञ्चवातेन तस्यानूक्षितान्तोदाररंहसा । ढोलारूढमिवाग्नेयं प्रेङ्खणप्रवणं बलम् ॥३३७॥
 स्पृष्ट्वा गरुडवातेन न ज्ञाता नागसायका । क्व गता इति विस्पष्टबन्धस्थानोपलक्षिता ॥३३८॥
 गल्मता कृताग्लेयो बन्धवलक्षणवर्जितः । बभूव दारुण शक्रो निडाघरविसन्निभ ॥३३९॥
 विमुक्त मर्पजालेन दृष्ट्वा शक्रं दृशाननः । आरूढस्त्रिजगद्भूधं चरद्दानं जयद्विर्षम् ॥३४०॥
 शक्रोऽऽन्यैरावतं रोपादस्यान्यासन्नमानयत् । ततो महदभूद्युद्धं दन्तिनो पुरदुर्षयो ॥३४१॥
 चरद्दानो स्फुट्टेमक्रन्नाविद्युदगुणान्वितौ । द्यतुस्ती घनाकारं सान्द्रगर्जितकारिणौ ॥३४२॥
 परस्पररदावातनिर्वातेरिव दारुणं । पतद्भिर्भुवनं कम्प प्रययौ शब्दपूरितम् ॥३४३॥
 पिण्डयित्वा स्थवीयान्सी करी चपलविग्रहौ । पुन प्रसारयन्तौ च ताडयन्तौ महारयौ ॥३४४॥

योग्य वस्तुकी योजना करनेमें निपुण रावणने अपनी सेनाको मोहग्रस्त देख प्रभास्त्र अर्थात् प्रकाशत्राण छोड़ा ॥३३०॥ सो जिस प्रकार जिन-शासनके तत्त्वसे मिथ्यादृष्टियोंका मत नष्ट हो हो जाता है उसी प्रकार उस प्रभास्त्रसे क्षणभरमें ही वह समस्त अन्धकार नष्ट हो गया ॥३३१॥ तदनन्तर रावणने क्रोधवश नागास्त्र छोड़ा जिससे समस्त आकाश रत्नोंसे देदीप्यमान सर्पोंसे व्याप्त हो गया ॥३३२॥ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले उन वाणोंने जाकर इन्द्रके शरीरको निश्चेष्ट कर दिया तथा सब उससे लिपट गये ॥३३३॥ जो महानीलमणिके समान श्याम थे, बलयका आकार धारण करनेवाले थे और चञ्चल जिह्वाओंसे भयङ्कर दिखते थे ऐसे सर्पोंसे इन्द्र बड़ी आकुलताको प्राप्त हुआ ॥३३४॥ जिस प्रकार कर्मजालसे घिरा प्राणो संसाररूपी सागरमें विवश हो जाता है उसी प्रकार व्याल अर्थात् सर्पोंसे घिरा इन्द्र विवशताको प्राप्त हो गया ॥३३५॥ तदनन्तर इन्द्रने गरुडाक्षका ध्यान किया जिसके प्रभावसे उसी क्षण आकाश सुवर्णमय पद्मोंकी कान्तिके समूहसे पीला हो गया ॥३३६॥ जिसका वेग अत्यन्त तीव्र था ऐसी गरुडके पद्मोंकी वायुसे रावणकी समस्त सेना ऐसी चञ्चल हो गई मानो हिंडोला ही मूल रही हो ॥३३७॥ गरुडकी वायुका स्पर्श होते ही पता नहीं चला कि नागवाण कहाँ चले गये । वे शरीरमें कहाँ-कहाँ बँधे थे उन स्थानोंका पता भी नहीं रहा ॥३३८॥ गरुडका आलिङ्गन होनेसे जिसके समस्त बन्धन दूर हो गये थे ऐसा इन्द्र श्रीधमऋतुके सूर्यके समान भयङ्कर हो गया ॥३३९॥ जब रावणने देखा कि इन्द्र नागपाशसे छूट गया है तब वह जिससे मद भर रहा था ऐसे त्रिलोकमण्डन नामक विजयी हाथी पर सवार हुआ ॥३४०॥ उधरसे इन्द्र भी क्रोधवश अपना ऐरावत हाथी रावणके निकट ले आया । तदनन्तर बहुत भारी गर्वको धारण करनेवाले दोनों हाथियोंमें महा-युद्ध हुआ ॥३४१॥ जिनसे मद भर रहा था, जो चमकती हुई स्वर्णकी मालारूपी विजलीके सहित थे, तथा जो लगातार विगाल गर्जना कर रहे थे ऐसे दोनों हाथी मेघका आकार धारण कर रहे थे ॥३४२॥ परम्परके दौलोंके आघातसे ऐसा लगता था मानो भयङ्कर वज्र गिर रहे हो और उनसे शब्दायमान हो समस्त संसार कम्पित हो रहा हो ॥३४३॥ जिनका शरीर अत्यन्त

१. भोगिनीस्त म० । सर्पैः । २. इन्द्रः । ३. व्यालचेष्टितः म० । ४. प्रेङ्खणप्रवण म० । ५. शक्रजालेन (?) म० । ६. जैत्रगजमित्यर्थः । जगद्विषम् म० । ७. पुरदुर्षयो म० । ८. कारणौ म० ।

दन्तिनौ दृष्टविस्पष्टतारकाक्रूरवीक्षणौ । चक्रतुः सुमहद्युद्धं स्तब्धकर्णौ महाबलौ ॥३४५॥
 तत उत्पन्न्य विन्यस्य पादमिन्द्रेभमूर्धनि । नितान्तं लाघवोपेतपादनिर्धूतसारथिः ॥३४६॥
 वङ्कांशुकेन देवेन्द्र सुहुरागवासयन्विभुः । आरोपयद्यमध्वंसो निजं ब्राह्मणमूर्जितः ॥३४७॥
 राक्षसाधिपपुत्रोऽपि गृहीत्वा वासवात्मजम् । समर्प्य किङ्करौघस्य सुरसैन्यस्य संमुखः ॥३४८॥
 धावमानो जयोद्भूतमहोत्साहः परंतप । उक्तो द्विपंतपेनैवं मरुत्वमखविद्विषा ॥३४९॥
 अलं वत्स । प्रयत्नेन निवर्तस्व रणाद्गत् । शिरो गृहीतमेतस्याः सेनाया गिरिवासिनाम् ॥३५०॥
 गृहीतेऽस्मिन् परिप्यन्दमत्र क कुरुते पर । क्षुद्रा जीवन्तु सामन्ता गच्छन्तु स्थानमीप्सितम् ॥३५१॥
 तन्दुलेषु गृहीतेषु ननु शालिन्कलापत । त्यागस्तुपपलालस्य क्रियते कारणाद् विना ॥३५२॥
 इत्युक्तं समरोत्साहादिन्द्रजिद्विनिवर्तनम् । चक्रे चक्रेण महता नृपाणां बद्धमण्डलः ॥३५३॥
 तत सुरबलं सर्वं विशीर्णं क्षणमात्रतः । शारदानामिवावृटानां वृन्दमत्यन्तमायतम् ॥३५४॥
 सैन्येन दशवक्त्रस्य जयशब्दो महान् कृत । पटुभि पटलैः शङ्खैर्भर्भरैर्वृन्दिना^३ गणैः ॥३५५॥
 शब्देन तेन विज्ञाय गृहीतममराधिपम् । सैन्यं राक्षसनाथस्य बभूवाकृलितोष्कितम् ॥३५६॥
 ततः परमया युक्तो विभूक्त्या कैकसांसुत । प्रतस्थे निर्वृतो लङ्कां साधनाच्छादिताम्बरः ॥३५७॥
 आदित्यरथ संकाशैरधैर्ध्वजविराजितैः । नानारत्नकरोद्भूतसुनासीरशरासनैः ॥३५८॥

चञ्चल था तथा वेग भारी था ऐसे दोनों हाथी अपनी मोटी सूँडोंको फैलाते सकोड़ते और ताड़ित कर रहे थे ॥३४४॥ साफ-साफ दिखनेवाली पुतलियोंसे जिनके नेत्र अत्यन्त क्रूर जान पड़ते थे, जिनके कान खड़े थे और जो महाबलसे युक्त थे ऐसे दोनों हाथियोंने बहुत भारी युद्ध किया ॥३४५॥

तदनन्तर शक्तिशाली रावणने उल्लरकर अपना पैर इन्द्रके हाथीके मस्तकपर रक्खा और बड़ी शीघ्रतासे पैरकी ठोकर देकर सारथिको नीचे गिरा दिया । बार-बार आन्धासन देते हुए रावणने इन्द्रको वस्त्रसे कसकर बाँध अपने हाथी पर चढ़ा लिया ॥३४६-३४७॥ उधर इन्द्रजित्ने भी जयन्तको बाँधकर किङ्करोके लिए सौंप दिया । तदनन्तर विजयसे जिसका उत्साह बढ़ रहा था तथा जो शत्रुओको संतप्त कर रहा था ऐसा इन्द्रजित् देवोंकी सेनाके सम्मुख दौड़ा । उसे दौड़ता देख शत्रुओको सन्ताप पहुँचानेवाले रावणने कहा कि हे वत्स ! अब प्रयत्न करना व्यर्थ है, युद्धके आदरसे निवृत्त होओ, विजयार्थवासी लोगोंकी इस सेनाका शिर अपने हाथ लग चुका है ॥३४८-३५०॥ इसके हाथ लग चुकनेपर दूसरा कौन हलचल कर सकता है ? ये जुद्ध-सामन्त जीवित रहें और अपने इच्छित स्थानपर जावे ॥३५१॥ जब धानके समूहसे चावल निकाल लिये जाते हैं तब झिलकाके समूहको अकारण ही छोड़ देते हैं ॥३५२॥ रावणके इस प्रकार कहने पर इन्द्रजित् युद्धके उत्साहसे निवृत्त हुआ । उस समय राजाओका बड़ा भारी समूह इन्द्रजित्को घेरे हुए था ॥३५३॥ तदनन्तर जिस प्रकार शरद्वस्तुके वादलोका बड़ा लम्बा समूह क्षणभरमे विशीर्ण हो जाता है उसी प्रकार इन्द्रकी सेना क्षणभरमे विशीर्ण हो गई—इधर-उधर विखर गई ॥३५४॥ रावणकी सेनामें उत्तमोत्तम पटल, शङ्ख, भर्भर वाजे तथा वन्दीजनोंके समूहके द्वारा बड़ा भारी जयनाद किया गया ॥३५५॥ उस जयनादसे इन्द्रको पकड़ा जानकर रावणकी सेना निराकुल हो गई ॥३५६॥

तदनन्तर परम विभूतिसे युक्त रावण, सेनासे आकाशको आच्छादित करता हुआ लङ्का की ओर चला । उस समय वह बड़ा संतुष्ट था ॥३५७॥ जो सूर्यके रथके समान थे, ध्वजाओंसे सुशोभित थे और नाना रत्नोंकी किरणोंसे जिनपर इन्द्रधनुष उत्पन्न हो रहे थे ऐसे रथ उसके

तुरङ्गैश्चलच्चारुचामरालीविभूषितै । नृत्यङ्गिरिव विस्त्रब्धकृतविभ्रमहारिभि ॥३५६॥
 महानिनदसघट्टै प्रवृत्तमदनिर्करैः । गर्जद्भिर्मधुरं नागैः पटपदालीनिपेवितैः ॥३६०॥
 अनुयानसमारूढैर्महासाधनखेचरैः । उपकण्ठ क्षणात्प्राप लङ्काया राक्षसाधिप ॥३६१॥
 ततो दृष्ट्वा समासन्न गृहीतार्था विनिर्ययुः । पुरस्य पालका पौरा बान्धवाश्च समुत्सुकाः ॥३६२॥
 कृतपूजस्ततः कैश्चित्पेपाश्चित्कृतपूजन ॥ नग्यमानोऽपरैः काश्चिद्व्यणमन्मदवर्जित ३६३॥
 दृष्ट्वा सन्मानयन् काश्चित्निगधया नतवत्सल । स्मितेन काश्चिद्वाचान्यान्परिज्ञातजनान्तर ॥३६४॥
 मनोहरा निसर्गेण विशेषेण विभूषिताम् । समुच्छ्रितसमुत्तुङ्गरत्ननिर्मिततोरणाम् ॥३६५॥
 मन्दानिलविधूतान्तबहुवर्णध्वजाकुलाम् । कुङ्कुमादिमनोज्ञाम्बुसिक्तनिःशेषभूतलाम् ॥३६६॥
 सर्वतुङ्गसुमन्यासराजमार्गविराजिताम् । अनेकभक्तिभिः पञ्चवर्णैश्चूर्णैरलङ्कृताम् ॥३६७॥
 द्वारदेशसुविन्यस्तपूर्णकुम्भा महाद्युतिम् । सरसैः पल्लवैर्बद्धमालां वस्त्रविभूषिताम् ॥३६८॥
 वृत्ती विद्याधरैर्देवैर्यथेन्द्रोऽन्यन्तभूरिभिः । सुखमासादयन् प्राज्य पूर्वोपार्जितकर्मणा ॥३६९॥
 आरूढ परमेकान्ते पुष्पके कामगामिनि । स्फुरन्मौलिमहारत्नकेयूरधरसङ्गज ॥३७०॥

साथ थे ॥३५८॥ जो हिलते हुए सुन्दर चमरोके समूहसे सुशोभित थे, निश्चिन्ततासे किये हुए अनेक विलासोसे मनोहर थे तथा नृत्य करते हुएसे जान पड़ते थे ऐसे घोड़े उसकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥३५९॥ जिनके गलेमें विशाल शब्द करनेवाले घंटा बँधे हुए थे, जिनसे मद्के निर्भरने भर रहे थे, जो मधुर गर्जना कर रहे थे तथा भ्रमरोंकी पंक्ति जिनकी उपासना कर रही थी ऐसे हाथी उसके साथ थे ॥३६०॥ इनके सिवाय अपनी-अपनी सवारियोंपर बैठे हुए बड़ी-बड़ी सेनाओंके अधिपति विद्याधर उसके साथ चल रहे थे । इन सबके साथ रावण क्षणभरमें ही लङ्काके समीप जा पहुँचा ॥३६१॥ तत्र रावणको निकट आया जान नगरकी रक्षा करनेवाले लोग पुरवासी और भाई-बान्धव उत्सुक हो अर्घ ले-लेकर बाहर निकले ॥३६२॥ तदनन्तर कितने ही लोगोंने रावणकी पूजा की तथा रावणने भी कितने ही वृद्धजनों की पूजा की । कितने ही लोगोंने रावणको नमस्कार किया और रावणने भी कितने ही वृद्धजनोंको मद्रहित हो नमस्कार किया ॥३६३॥ लोगोकी विशेषताको जाननेवाला तथा नम्र मनुष्योंसे स्नेह रखने वाला रावण कितने ही मनुष्योंको स्नेहपूर्ण दृष्टिसे सन्मानित करता था । कितने ही लोगोको मन्द मुसकानसे और कितने ही लोगोको मनोहर वचनोसे समाहृत कर रहा था ॥३६४॥

तदनन्तर जो स्वभावसे ही सुन्दर थी तथा उस समय विशेषकर सजाई गई थी, जिसमें रत्ननिर्मित बड़े ऊँचे-ऊँचे तोरण खड़े किये गये थे ॥३६५॥ जो मन्द-मन्द वायुसे हिलती हुई रंगविरंगी ध्वजाओंसे युक्त थी, केशर आदि मनोज्ञ वस्तुओंसे मिश्रित जलसे जहाँकी समस्त पृथिवी सींची गई थी ॥३६६॥ जो सब ऋतुओंके फूलोंसे व्याप्त राजमार्गोंसे सुशोभित थी, काले पीले नीले लाल हरे आदि पञ्चवर्णोंय चूर्णोंसे निर्मित अनेक बेल-बूटोंसे जो अलङ्कृत थी ॥३६७॥ जिसके दरवाजोपर पूर्ण कलश रक्खे गये थे, जो महाकान्तिसे युक्त थी, सरस पल्लवोंकी जिसमें बन्दनमालाएँ बाँधी गई थीं, जो उत्तमोत्तम वस्त्रोंसे विभूषित थी तथा जहाँ बहुत भारी उत्सव हो रहा था ऐसी लङ्कानगरीमें रावणने प्रवेश किया ॥३६८॥ जिस प्रकार अनेक देवोंसे इन्द्र घिरा होता है उसी प्रकार रावण भी अनेक विद्याधरोंसे घिरा था । उस समय वह अपने पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके प्रभावसे उत्तम सुखको प्राप्त हो रहा था ॥३६९॥ अत्यन्त सुन्दर तथा इच्छानुकूल गमन करनेवाले पुष्पक विमानपर सवार था । उसके मुकुटमें बड़े-बड़े रत्न

१. अनुयात समारूढैः म० । २. लङ्काया म० । ३. कृतपूजनस्ततः म० । ४. मनोहरान् ख०, व०
 ५. विशेषण- म० । ६. विभूषितान् व०, ख० ।

दधानो वक्षसा हारं प्रस्फुरद्विमलप्रभम् । वसन्त इव संजातकुसुमौघविराजितः ॥३७१॥
 वितृप्तिहर्षपूर्णाभिर्वंधूभिः कृतवीक्षणः । स्वयं मृदुसमुद्भूतचामराभिः ससंभ्रमम् ॥३७२॥
 नानावादित्रशब्देन जयशब्देन चारुणा । आनन्दितः सुवेश्याभिर्नृत्यन्तीभिः समन्वितः ॥३७३॥
 प्रविष्टो मुदितो लङ्कां समुद्भूतमहोत्सवाम् । भवनं च निज बन्धुभृत्यवर्गाभिनन्दितः ॥३७४॥

शिखरिणीच्छन्दः

सुसन्नद्वान् जित्वा तृणमिव समस्तानरिगणान्
 पुरोपात्तात् पुण्यात् समधिगतसुप्राज्यविभवः ।
 क्षयं प्राप्ते तस्मिन् विगलितरुचिभ्रष्टविभवो
 बभूवासौ शक्रो धिगतिचपलमानुषसुखम् ॥३७५॥
 असौ प्राप्तौ वृद्धिं दशमुखखगः पूर्वचरिता-
 च्छुभान्निर्धूयालं प्रबलमहितव्रातमखिलम् ।
 इति ज्ञात्वा भव्या जगति निखिलं कर्मजनितं
 विमुक्तान्यासङ्गा रविरुचिकरं यातु सुकृतम् ॥३७६॥
 इत्यार्षे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते इन्द्रपराभवा-
 मिधानं नाम द्वादशं पर्व ॥१२॥

देदीप्यमान हो रहे थे तथा उसकी भुजाएँ बाजूबन्दोसे सुशोभित थीं ॥३७०॥ जिसकी उज्ज्वल प्रभा सब ओर फैल रही थी ऐसे हारको वह वक्षःस्थलपर धारण कर रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो उत्पन्न हुए फूलोंके समूहसे सुशोभित वसन्त ऋतु ही हो ॥३७१॥ जो अतृप्तिकर हर्षसे पूर्ण थीं तथा धीरे-धीरे चमर ऊपर उठा रही थीं ऐसी स्त्रियाँ हाव-भाव पूर्वक उसे देख रही थीं ॥३७२॥ वह नाना प्रकारके बाजोंके शब्द तथा मनोहर जय-जयकारसे आनन्दित हो रहा था और नृत्य करती हुई उत्तमोत्तम वेश्याओसे सहित था ॥३७३॥ इस प्रकार उसने बड़ी प्रसन्नतासे, अनेक महोत्सवोंसे भरी लङ्कामे प्रवेश किया और बन्धुजन तथा भृत्य-समूहसे अभिनन्दित हो अपने भवनमें भी पदार्पण किया ॥३७४॥

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि जिसने पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके प्रभावसे, सब प्रकारकी तैयारीसे युक्त समस्त शत्रुओंको तृणके समान जीतकर उत्तम वैभव प्राप्त किया था ऐसा इन्द्र विद्याधर पुण्यकर्मके क्षीण होनेपर कान्तिहीन तथा विभवसे रहित हो गया सो इस अत्यन्त चञ्चल मनुष्यके सुखको धिक्कार है ॥३७५॥ तथा विद्याधर रावण अपने पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके प्रभावसे समस्त बलवान् शत्रुओंको निर्मूल नष्ट कर वृद्धिको प्राप्त हुआ । इस प्रकार संसारके समस्त कार्य कर्म जनित हैं ऐसा जानकर हे भव्यजनो ! अन्य पदार्थोंमें आसक्ति छोड़कर सूर्यके समान कान्तिको उत्पन्न करनेवाले एक पुण्य कर्मका ही संचय करो ॥३७६॥

इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्यके द्वारा कथित पद्मचरितमें इन्द्र विद्याधरके पराभवका वर्णन करनेवाला बारहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥१२॥

त्रयोदशं पर्व

ततः शक्रस्य सामन्ताः स्वामिदुःखसमाकुलाः । पुरस्कृतसहस्राराः प्राप्ता रावणमन्दिरम् ॥१॥
 प्रविष्टाश्च प्रतीहारज्ञापिता विनयान्विताः । प्रणम्य च स्थिता दत्तेष्वासनेषु यथोचितम् ॥२॥
 दृष्टोऽथ गौरवेणोचे सहस्रारो दशाननम् । जितस्तातस्त्वया शक्रो मुञ्चेदानीं गिरा मम ॥३॥
 ब्राह्मोः पुण्यस्य चोदात्त सामर्थ्यं दर्शितं त्वया । परगर्वापसाद हि समीहन्ते नराधिपाः ॥४॥
 इत्युक्ते लोकापालानां वदनेभ्यः समुत्थितः । शब्दोऽयमेव विस्पष्टः प्रतिनिःस्वनसनिभः ॥५॥
 लोकपालानथोवाच विहम्योद्वासितान्तकः । समयोऽस्ति विमुञ्चामि येन नाथ द्विवीकसाम् ॥६॥
 अद्य प्रभृति मे सर्वे यूय कर्म यथोचितम् । संमार्जनादि सेवध्व सर्वमन्तर्बहिःपुरः ॥७॥
 पुरीयं नारप्रत कृत्वा भवद्भिः प्रतिवासरम् । परागाशुचिपापाणतृणकण्टकवर्जिता ॥८॥
 गृहीत्वा कुम्भमिन्द्रोऽपि वारिणा मोदचारुणा । मही सिञ्चतु कर्मदमस्य लोके प्रकीर्त्यते ॥९॥
 पञ्चवर्णैश्च कुर्वन्तु पुण्यैर्गन्धमनोहरैः । सभ्रान्ता प्रकर देव्यः सर्वालङ्कारभूषिताः ॥१०॥
 समयेनामुना युक्ता यदि तिष्ठन्ति सादरा । विमुञ्चामि ततः शक्र कुतो निर्मुक्तिरन्यथा ॥११॥
 इत्युक्त्वा वीचमाणोऽसौ लोकपालांस्त्रयानतान् । जहास मुहुरासानां ताडयन् पाणिना करम् ॥१२॥
 ततो विनयनम्रः सन् सहस्रारमवोचत । सभाहृदयहारिण्या चरन्निव गिरामृतम् ॥१३॥
 यथा तात प्रतीच्यस्व वायवस्य तथा मम । अधिक वा ततः कुर्यां कथमाज्ञाविलङ्घनम् ॥१४॥

अथानन्तर स्वामीके दुःखसे आकुल इन्द्रके सामन्त, सहस्रारको आगे कर रावणके महलमें पहुँचे ॥१॥ द्वारपालके द्वारा समाचार देकर बड़ी विनयसे सवने भीतर प्रवेश किया और सब प्रणाम कर दिये हुए आसनोंपर यथायोग्य रीतिसे बैठ गये ॥२॥ तदनन्तर रावणने सहस्रारकी ओर वड़े गौरवसे देखा । तब सहस्रार रावणसे बोला कि तूने मेरे पुत्र इन्द्रको जीत लिया है अब मेरे कहनेसे छोड़ दे ॥३॥ तूने अपनी भुजाओं और पुण्यकी उदार महिमा दिखलाई सो ठीक ही है क्योंकि राजा दूसरेका अहंकार नष्ट करने की ही चेष्टा करते हैं ॥४॥ सहस्रारके ऐसा कहने पर लोकपालोके मुखसे भी यही शब्द निकला सो मानो उसके शब्द की प्रतिध्वनि ही निकली थी ॥५॥ तदनन्तर रावणने हँसकर लोकपालोसे कहा कि एक शर्त है उस शर्तसे ही मैं इन्द्रको छोड़ सकता हूँ ॥६॥ वह शर्त यह है कि आजसे लेकर तुम सब, मेरे नगरके भीतर और बाहर बुहारी देना आदि जो भी कार्य हैं उन्हें करो ॥७॥ अब आप सबको प्रतिदिन ही यह नगरी धूलि, अशुचिपदार्थ, पत्थर, तृण तथा कण्टक आदिसे रहित करनी होगी ॥८॥ तथा इन्द्र भी घड़ा लेकर सुगन्धित जलसे पृथिवी सींचे । लोकमे इसका यही कार्य प्रसिद्ध है ॥९॥ और सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित इनकी सभ्रान्त देवियों पञ्चवर्णके सुगन्धित फूलोंसे नगरी को सजावें ॥१०॥ यदि आपलोग आदरके साथ इस शर्तसे युक्त होकर रहना चाहते हैं तो इन्द्रको अभी छोड़े देता हूँ । अन्यथा इसका छूटना कैसे हो सकता है ? ॥११॥ इतना कह रावण लज्जासे मुँके हुए लोकपालोकी ओर देखता तथा आप्रजनोंके हाथको अपने हाथमे ताडित करता हुआ बार-बार हँसने लगा ॥१२॥

तदनन्तर उसने विनयावन्त होकर सहस्रारसे कहा । उस समय रावण सभाके हृदयको हरने वाली अपनी मधुर वाणीसे मानो अमृत ही भरा रहा था ॥१३॥ उसने कहा कि हे तात ! जिस प्रकार आप इन्द्रके पूज्य हैं उसी प्रकार मेरे भी पूज्य हैं, वल्कि उससे भी अधिक ।

१. पुरस्कृत्य व० । २. ब्रह्मोः ख० । ३. कृत्वा म० । ४. मह न ते म० ।

गुरुवः परमार्थेन यदि न स्युर्भवाद्दशाः । अधस्ततो धरित्रीयं ब्रजेन्मुक्ता धरैरिव ॥१५॥
 पुण्यवानस्मि यत्पूज्यो ददाति मम शासनम् । भवद्विधनियोगानां न पदं पुण्यवर्जिता ॥१६॥
 तदद्यारभ्य सच्चित्त्य मनोज्ञ क्रियता तथा । यथा शक्रस्य सौस्थित्यं जायते मम च प्रभो ॥१७॥
 अयं शक्रो मम भ्राता तुरीयः साम्प्रतं बली । एनं प्राप्य करिष्यामि पृथिवीं वीतकण्टकाम् ॥१८॥
 लोकपालास्तथैवास्य तच्च राज्यं यथा पुरा । ततोऽधिकं वा गृह्णातु विवेकेन किमावयो ॥१९॥
 आज्ञा च मम शक्रे वा दातव्या कृत्यवस्तुनि । गुरुभिः सा हि शोपेव रक्षालङ्कारकारणम् ॥२०॥
 आस्यतामिह वां छन्दादथवा रथनूपुरे । यत्र वेच्छत का भूमिर्भृत्ययोरावयोर्मता ॥२१॥
 इति प्रियवचोवारिसमार्द्राङ्कितमानसः । अवोचत सहस्रारस्ततोऽपि मधुर वचः ॥२२॥
 नूनं भद्रं समुत्पत्तिः सज्जनानां भवाद्दशाम् । सममेव गुणैः सर्वलोकाह्लादनकारिभिः ॥२३॥
 आयुष्मन्नस्य शौर्यस्य विनयोऽप्य तवोत्तमः । अलकारसमस्तेऽस्मिन् भुवने श्लाघ्यतां गतः ॥२४॥
 भवतो दर्शनेनेदं जन्म मे सार्थकं कृतम् । पितरौ पुण्यवन्तौ तौ त्वया यौ कारणीकृतौ ॥२५॥
 क्षमावता समर्थेन कुन्दनिर्मलकीर्तिना । दोषाणां सभवाशङ्का त्वया दूरमपाकृता ॥२६॥
 एवमेतद्यथा वक्षिं सर्वं सपद्यते त्वयि । ककुप्करिकराकारौ कुरुतः किं न ते भुजौ ॥२७॥
 किन्तु मातेव नो शक्या त्यक्तुं जन्मवसुन्धरा । सा हि क्षणाद्वियोगेन कुरुते चित्तमाकुलम् ॥२८॥

इसलिए मैं आपकी आज्ञाका उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ ? ॥१४॥ यदि यथार्थमे आप जैसे गुरुजन न होते तो यह पृथिवी पर्वतोसे छोड़ी गई के समान रसातलको चली जाती ॥१५॥ चूँकि आप जैसे पूज्यपुरुष मुझे आज्ञा दे रहे हैं अतः मैं पुण्यवान् हूँ । यथार्थमें आप जैसे पुरुषोंकी आज्ञाके पात्र पुण्यहीन मनुष्य नहीं हो सकते ॥१६॥ इसलिए हे प्रभो ! आज आप विचार कर ऐसा उत्तम कार्य कीजिए जिससे इन्द्र और मुझसे सौहार्द उत्पन्न हो जाय । इन्द्र सुखसे रहे और मैं भी सुखसे रह सकूँ ॥१७॥ यह बलवान् इन्द्र मेरा चौथा भाई है, इसे पाकर मैं पृथ्वीको निष्कण्टक कर दूँगा ॥१८॥ इसके लोकपाल पहलेकी तरह ही रहें तथा इसका राज्य भी पहलेकी तरह ही रहे अथवा उससे भी अधिक ले ले । हम दोनोंमें भेदकी आवश्यकता ही क्या है ? ॥१९॥ आप जिस प्रकार इन्द्रको आज्ञा देते हैं उसी प्रकार मुझमें करने योग्य कार्यकी आज्ञा देते रहें क्योंकि गुरुजनकी आज्ञा ही शेषाक्षतकी तरह रक्षा एवं शोभाको करनेवाली है ॥२०॥ आप अपने अभिप्रायके अनुसार यहाँ रहें अथवा रथनूपुर नगरमे रहें अथवा जहाँ इच्छा हो वहाँ रहे । हम दोनों आपके सेवक हैं हमारी भूमि ही कौन है ? ॥२१॥ इस प्रकारके प्रियवचन रूपी जलसे जिसका मन भीग रहा था ऐसा सहस्रार रावणसे भी अधिक मधुर वचन बोला ॥२२॥

उसने कहा कि हे भद्र ! आप जैसे सज्जनोंकी उत्पत्ति समस्त लोगोंको आनन्दित करनेवाले गुणोंके साथ ही होती है ॥२३॥ हे आयुष्मन् ! तुम्हारी यह उत्तम विनय इस संसारमे प्रशंसाको प्राप्त है तथा तुम्हारी इस शूरवीरताके आभूषणके समान है ॥२४॥ आपके दर्शनमे मेरे इस जन्मको सार्थक कर दिया । वे माता-पिता धन्य हैं जिन्हें तूने अपनी उत्पत्तिमें कारण बनाया है ॥२५॥ जो समर्थ होकर भी क्षमावान् है, तथा जिसकी कीर्ति कुन्दके फूलके समान निर्मल है ऐसे तूने दोषोंके उत्पन्न होनेकी आशङ्का दूर हटा दी है ॥२६॥ तू जैसा कह रहा है वह ऐसा ही है । तुझमें सर्व कार्य सम्भव हैं । दिग्गजकी सूँडके समान स्थूल तेरी भुजाएँ क्या नहीं कर सकती है ॥२७॥ किन्तु जिस प्रकार माता नहीं छोड़ी जा सकती उसी प्रकार जन्मभूमि भी नहीं

१. पुण्यवर्जितः म० । २. भृत्यवस्तुनि म० । ३. रक्षालङ्कार- म० । ४. सच्छन्दा म० । ५. नते म० ।
 मते क०, व० । ६. तातोऽपि माधुरं वचः म० । ७. सज्जनानां ख० । ८. कथयति । ९. सपाद्यते म० ।
 १०. किन्तु म० ।

भशक्ता स्वभुव त्यक्तु तत्र नो मित्रवान्धवा । चातका इव सोत्कण्ठास्तिष्ठन्त्यध्वावलोकित ॥२६॥
 कुलक्रमसमायातां सेवमानो ^१गुणालय । लङ्का यासि परा प्रीतिं ^२जन्मभूमिं किमुच्यताम् ॥३०॥
 तस्मात्तामेव गच्छामो ^३महाभोगोद्भवानिमम् । देवानामिष्य निर्विघ्न रक्षताद्भुवन चिरम् ॥३१॥
 इत्युक्त्वानुगतो दूर कैलासचोभकारिणा । सहस्रारो गतः सेन्द्रो लोकपालैः सम गिरिम् ॥३२॥
 यथास्व च स्थिताः सर्वे पूर्ववल्लोकपालिनः । भङ्गादसारता प्राप्ताश्रयन्त्रमया इव ॥३३॥
 विजयार्थजलोकेन दृश्यमाना महात्रयाः । नाज्ञासिषुः क्व गच्छाम इति भोगद्विपः सुरा ॥३४॥
 इन्द्रोऽपि न पुरे प्रीतिं लेभे नोद्यानभूमिषु । न दीर्घिकासु राजीवरजःपिङ्गरवारिषु ॥३५॥
 न दृष्टिमपि कान्तासु चक्रं प्रगुणवर्तिनीम् । तनौ तु सकला कैव त्रपानिर्भरचेतस ॥३६॥
^४अथाप्युद्विजमानस्य तस्य लोकोऽनुवर्तनम् । चकारान्यकथासङ्गं कुर्वन् भङ्गस्य विस्मृतिम् ॥३७॥
 अथैकस्तम्भमूर्धस्थे स्वसद्मान्तरवर्तिनि । गन्धमादनशृङ्गामे स्थितो जिनवरालये ॥३८॥
 बुधैः परिवृतो दध्याविति शक्रो निरादरम् । ^५वदन्नङ्ग गतच्छाय स्मरन् भङ्गमनारतम् ॥३९॥
 धिक्विद्यागोचरैरवर्यं विलीन यदिति क्षणात् । शारदानामिवाब्दानां वृन्दमत्यन्तमुन्नतम् ॥४०॥
 तानि शङ्खाणि ते नागास्ते भटास्ते तुरङ्गमाः । सर्वं तृणसम जात मम पूर्वं कृताद्भुतम् ॥४१॥

छोड़ी जा सकती क्योंकि वह क्षणभरके वियोगसे चित्तको आकुल करने लगती है ॥२८॥ हम अपनी भूमिको छोड़नेके लिए असमर्थ हैं क्योंकि वहाँ हमारे मित्र तथा भाई-बान्धव चातककी तरह उत्कण्ठासे युक्त हो मार्ग देखते हुए स्थित होंगे ॥२९॥ हे गुणालय ! आप भी तो अपनी कुल-परम्परासे चली आई लङ्काकी सेवा करते हुए परम प्रीतिको प्राप्त हो रहे हैं सो बात ही ऐसी है जन्म भूमिके विषयमें क्या कहा जाय ? ॥३०॥ इसलिए हम जहाँ महाभोगोंकी उत्पत्ति होती है अपनी उसी भूमिको जाते हैं । हे देवोंके प्रिय ! तुम चिर काल तक संसारकी रक्षा करो ॥३१॥

इतना कहकर सहस्रार इन्द्र नामा पुत्र तथा लोकपालोके साथ विजयार्थ पर्वतपर चला गया । रावण भेजनेके लिए कुछ दूर तक उसके साथ गया ॥३२॥ सब लोकपाल पहलेकी तरह ही अपने-अपने स्थानोपर रहने लगे परन्तु पराजयके कारण निःसार हो गये और चलते फिरते यन्त्रके समान जान पड़ने लगे ॥३३॥ बहुत भारी लज्जासे भरे देव लोगोंकी ओर जब विजयार्थ वासी लोग देखते थे तब वे यह नहीं जान पाते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं ? इस तरह देव लोग सदा भोगोसे उदास रहते थे ॥३४॥ इन्द्र भी न नगरमें, न बागवगीचोंमें, और न कमलोककी परागसे पीले जलवाली वापिकाओंमें ही प्रीतिको प्राप्त होता था अर्थात् पराजयके कारण उसे कहीं अच्छा नहीं लगता था ॥३५॥ अब वह स्त्रियोपर भी अपनी सरल दृष्टि नहीं डालता था फिर शरीरकी तो गिनती ही क्या थी ? उसका चित्त सदा लज्जासे भरा रहता था ॥३६॥ यद्यपि लोग अन्यान्य कथाओंके प्रसङ्ग छेड़कर उसके पराजय सम्बन्धी दुःखको भुला देनेके लिए सदा अनुकूल चेष्टा करते थे तो भी उसका चित्त स्वस्थ नहीं होता था ॥३७॥

अथानन्तर एक दिन इन्द्र, अपने महलकी भीतर विद्यमान, एक खम्भेके अग्रभागपर स्थित, गन्धमादन पर्वतके शिखरके समान सुशोभित जिनालयमें बैठा था ॥३८॥ विद्वान् लोग उसे घेरकर बैठे थे । वह निरन्तर पराजयका स्मरण करता हुआ शरीरको निरादर भावसे धारण कर रहा था । बैठे-बैठे ही उसने इस प्रकार विचार किया कि ॥३९॥ विद्याओंसे सम्बन्ध रखनेवाले इस ऐश्वर्यको धिक्कार है जो कि शरद् ऋतुके बादलोके अत्यन्त उन्नत समूहके समान क्षणभरमें विलीन हो गया ॥४०॥ वे शस्त्र, वे हाथी, और वे योद्धा, और वे घोड़े जो कि

१. गुणालया ख० । गुणालयः म० । २. जन्मभूमि. म० । ३. महाभागो भवावनिम् म० ।

४. अथाप्युद्विजमानसस्तस्य ख० । ५. वदन्नङ्ग म० ।

अथवा कर्मणामेतद्वैचित्र्य कोऽन्यथा नरः । कर्तुं शक्नोति तेषां हि सर्वमन्यद्बलाधरम् ॥४२॥
 नूनं पुराकृत कर्म भोगसम्पादनक्षमम् । परिक्षयं मम प्राप्तं येनैषा वर्तते दशा ॥४३॥
 वर समर प्वास्मिन्मृतः स्याच्छत्रुसकटे । नाकीर्तिर्यत्र जायेत सर्वविष्टपगामिनी ॥४४॥
 चरण शिरसि न्यस्य शत्रूणां येन जीवितम् । शत्रुणानुमतां सोऽहं सेवे लक्ष्मीं कथं हरिः ॥४५॥
 परित्यज्य सुखे तस्माद्भिलापं भवोद्भवे । निश्रेयसैपदप्राप्तिकारणानि भजाम्यहम् ॥४६॥
 रावणो मे महाबन्धुरागतः शत्रुवेपथुत् । येनासारसुखास्वादसक्तोऽस्मि परिवोधितः ॥४७॥
 अत्रान्तरे मुनिः प्राप्नो नाम्ना निर्वाणसङ्गमः । विहरन् क्वापि योग्यानि स्थानानि गुणवाससाम् ॥४८॥
 सहसा व्रजतस्तस्य गतिः^१ स्तम्भमुपागता । प्रणिधाय ततश्चक्षुरधोऽसौ चैत्यमैक्षत ॥४९॥
 प्रत्यक्षज्ञानसम्पन्नस्तस्मिंश्च जिनपुङ्गवम् । वन्दितुं नभसः शीघ्रमवतीर्णो महायतिः ॥५०॥
 सतोपेण च शक्रेण कृताभ्युत्थानपूजनः । चक्रे जिननमस्कार विधिना यतिसत्तमः ॥५१॥
 आसीनस्य ततो जोषं वन्दित्वा चरणौ मुनेः । पुरः स्थित्वा हरिश्चक्रे चिरमात्मनिगर्हणम् ॥५२॥
 सर्वसंसारवृत्तान्तवेदनात्यन्तकोविदैः । मुनिना परमैर्वाक्यैः^२ परिसान्त्वनमाहृतः ॥५३॥
 अपृच्छत् स भवं पूर्वमात्मनो मुनिपुङ्गवम् । स चैत्यकथयत्तस्मै गुणग्रामविभूषितः ॥५४॥
 चतुर्गतिगतानेकयोनिदुःखमहावने । भ्राम्यन् शिखापदाभिख्ये नगरे मानुषी गतिम् ॥५५॥
 प्राप्नो जीवः कुले जातो दरिद्रे स्त्रैणसंगतः । कुलवान्तेति विभ्राणा नामार्थेन समागतम् ॥५६॥

पहले मुझे आश्चर्य उत्पन्न करते थे आज सबके सब तृणके समान तुच्छ जान पड़ते हैं ॥४१॥
 अथवा कर्मोंकी इस विचित्रताको अन्यथा करनेके लिए कौन मनुष्य समर्थ है ? यथार्थमे अन्य
 सब पदार्थ कर्मोंके बलसे ही बल धारण करते हैं ॥४२॥ निश्चय ही मेरा पूर्वसंचित पुण्यकर्म जो
 कि नाना भोगोंकी प्राप्ति करानेमे समर्थ है परिक्षीण हो चुका है इसीलिए तो यह अवस्था हो रही
 है ॥४३॥ शत्रुके संकटसे भरे युद्धमे यदि मर ही जाता तो अच्छा होता क्योंकि उससे समस्त
 लोकमें फैलने वाली अपकीर्ति तो उत्पन्न नहीं होती ॥४४॥ जिसने शत्रुओंके शिरपर पैर रखकर
 जीवन वित्ताया वह मैं अब शत्रु द्वारा अनुमत लक्ष्मीका कैसे उपभोग करूँ ? ॥४५॥ इसलिए अब मैं
 संसार सम्बन्धी सुखकी अभिलाषा छोड़ मोक्षपदकी प्राप्तिके जो कारण है उन्हींकी उपासना
 करता हूँ ॥४६॥ शत्रुके वेशको धारण करने वाला रावण मेरा महाबन्धु बन कर आया था
 जिसने कि इस असार सुखके स्वादमे लीन मुझको जागृत कर दिया ॥४७॥

इसी बीचमें गुणो मनुष्योंके योग्य स्थानोंमे विहार करते हुए निर्वाणसंगम नामा चारण-
 ऋद्धि धारी मुनि वहाँ आकाशमार्गसे जा रहे थे ॥४८॥ सो चलते-चलते उनकी गति सहसा रुक
 गई । तदनन्तर उन्होंने जब नीचे दृष्टि डाली तो मन्दिरके दर्शन हुए ॥४९॥ प्रत्यक्ष ज्ञानके धारी
 महामुनि मन्दिरमें विराजमान जिन-प्रतिमा की वन्दना करनेके लिए शीघ्र ही आकाशसे नीचे
 उतरे ॥५०॥ राजा इन्द्रने बड़े संतोषसे उठकर जिनकी पूजा की थी ऐसे उन मुनिराजने विधि-
 पूर्वक जिनप्रतिमाको नमस्कार किया ॥५१॥ तदनन्तर जब मुनिराज जिनेन्द्रदेवकी वन्दना कर
 चुप बैठ गये तब इन्द्र उनके चरणोंको नमस्कार कर सामने बैठ गया और अपनी निन्दा करने
 लगा ॥५२॥ मुनिराजने समस्त संसारके वृत्तान्तका अनुभव करानेमे अतिशय निपुण उत्कृष्ट
 वचनोंसे उसे संतोष प्राप्त कराया ॥५३॥

अथानन्तर इन्द्रने मुनिराजसे अपना पूर्वभव पूछा सो गुणोंके समूहसे विभूषित मुनिराज
 उसके लिए इस प्रकार पूर्वभव कहने लगे ॥५४॥ हे राजन् ! चतुर्गति सम्बन्धी अनेक योनियोंके

१. सर्वमन्यद्बलाधरम् क० । २. भवेद्भुवि म० । ३. निश्रेयसः म० । ४. गतिस्तम्भ- म० ।
 ५. परिशान्तत्व ख० । ६. जीवं म० । ७. दरिद्रेस्त्रैण म० । ८. कुल कान्तेति म० ।

सा चिह्ना चिपिटो व्याधिशतसकुलविग्रहा । कथच्चिकर्मसयोगाल्लोकोच्छिष्टेन जीविता ॥५७॥
 दुश्चेला दुर्भंगा रूक्षा स्फुटिताङ्गा कुमूर्धजा । उत्त्रास्यमाना लोकेन लेभे सा शर्म न क्वचित् ॥५८॥
 मुहूर्तं परिवर्त्यान्न शरीरं च सुमानसा । जाता किपुरुषस्य स्त्री क्षीरधारेति नामत ॥५९॥
 च्युता च रत्ननगरे धरणीगोमुखाख्ययोः । विभ्रत्सहस्रभागाख्यां तनयोऽभूत्कुटुम्बिनोः ॥६०॥
 लब्ध्वा परमसम्यक्त्वमणुव्रतसमन्वित । पञ्चता प्राप्य शुक्राह्ने जातो विबुधसत्तम ॥६१॥
 च्युतो महाविदेहेऽथ नगरे रत्नसचये । गुणावल्यां मणेर्जातोऽमात्यात् सामन्तवर्धन ॥६२॥
 निष्क्रान्तो विभुना सार्धं महाव्रतधरोऽभवत् । अतितीव्रतया नित्यं तत्त्वार्थगतमानस ॥६३॥
 परीपहगणस्याल पोढा निर्मलदर्शनं । कषायरहितं प्रेत्य परं ग्रैवेयकं गतं ॥६४॥
 अहमिन्द्रं परं सौख्यं तत्र भुक्त्वा चिरं च्युतः । जातो हृदयसुन्दर्या सहस्राराख्यखेचरात् ॥६५॥
 पूर्वाभ्यासेन शक्रस्य सुखे ससक्तमानसः । इन्द्रस्त्व खेचराधीशो नगरे रथनूपुरे ॥६६॥
 स त्वमिन्द्र विपण्णं किं वृथैव परितप्यसे । विद्याधिको जितोऽस्मीति वहन्नात्मन्यनादरम् ॥६७॥
 *निर्बुद्धे ! कोद्रवानुप्त्वा शालीन् प्रार्थयसे वृथा । कर्मणामुचितं तेषां जायते प्राणिना फलम् ॥६८॥
 क्षीणं पुराकृतं कर्म तव भोगस्य साधनम् । हेतुना न बिना कार्यं भवतीति किमद्भुतम् ॥६९॥

दुःखरूपी महावनमें भ्रमण करता हुआ एक जीव शिखापदनामा नगरमें मनुष्य गतिको प्राप्त हो दरिद्र कुलमें उत्पन्न हुआ । वहाँ स्त्री पर्यायसे युक्त हो वह जीव 'कुलवान्ता' इस सार्थक नामको धारण करनेवाला हुआ ॥५५-५६॥ कुलवान्ताके नेत्र सदा कींचरसे युक्त रहते थे, उसकी नाक चपटी थी और उसका शरीर सैकड़ो वीमारियोसे युक्त था । इतना होने पर भी उसके भोजनका ठिकाना नहीं था वह कर्मोदयके कारण जिस किसी तरह लोगोंकी जूठन खाकर जीवित रहती थी ॥५७॥ उसके वस्त्र अत्यन्त मलिन थे, दौर्भाग्य उसका पीछा कर रहा था, सारा शरीर अत्यन्त रूक्ष था, हाथ पैर आदि अङ्ग फटे हुए थे, और छोटे केश बिखरे हुए थे । वह जहाँ जाती थी वही लोग उसे तंग करते थे इस तरह वह कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर सकती थी ॥५८॥ अन्त समय शुभमति हो उसने एक मुहूर्तके लिए अन्नका त्याग कर अनशन धारण किया जिससे शरीर त्यागकर किपुरुषनामा देवकी क्षीरधारा नामकी स्त्री हुई ॥५९॥ वहाँसे च्युत होकर रत्नपुर नगरमें धरणी और गोमुख नामा दम्पतीके सहस्रभाग नामक पुत्र हुआ ॥६०॥ वहाँ उत्कृष्ट सम्यग्दर्शन प्राप्तकर अणुव्रतोका धारी हुआ और अन्तमें मरकर शुक्र नामा स्वर्गमें उत्तम देव हुआ ॥६१॥ वहाँसे च्युत होकर महाविदेह क्षेत्रके रत्नसंचयनामा नगरमें मणिनामक मन्त्रीकी गुणावली नामक स्त्रीसे सामन्तवर्धन नामक पुत्र हुआ ॥६२॥ सामन्तवर्धन अपने राजाके साथ विरक्त हो महाव्रतका धारक हुआ । वहाँ उसने अत्यन्त कठिन तपश्चरण किया, तत्त्वार्थके चिन्तनमें निरन्तर मन लगाया, अच्छी तरह परीषह सहन किये, निर्मल सम्यग्दर्शन प्राप्त किया और कषायो पर विजय प्राप्त की । अन्त समय मर कर वह ग्रैवेयक गया सो अहमिन्द्र होकर चिरकाल तक वहाँके सुख भोगता रहा । अन्त समयमें वहाँसे च्युत हो रथनूपुर नगरमें सहस्रारनामक विद्याधरकी हृदयसुन्दरी रानीसे इन्द्र नामको धारण करनेवाला तू विद्याधरोका राजा हुआ है । पूर्व अभ्यासके कारण ही तेरा मन इन्द्रके सुखमें लीन रहा है ॥६३-६६॥ सो हे इन्द्र ! मैं विद्याओसे युक्त होता हुआ भी शत्रुसे हार गया हूँ, इस प्रकार अपने आपके विषयमें अनादरको धारण करता हुआ तू विपादयुक्त हो व्यर्थ ही क्यों सन्ताप कर रहा है ॥६७॥ अरे निर्बुद्धि ! तू कोदो बोककर धानकी व्यर्थ ही इच्छा करता है । प्राणियोंको सदा कर्मोंके अनुकूल ही फल प्राप्त होता है ॥६८॥ तुम्हारे भोगोपभोगका साधन जो पूर्वोपार्जित कर्म था वह अब

१. किलन्ने चक्षुषी यस्याः सा चिल्ला 'किलन्नस्य चिल् लश्चास्य चक्षुषी' इति वार्तिकम् । २. नता नासिका यस्याः सा चिपिटो 'इनच् पिटञ्चिक चि च' इति सूत्रम् । ३. अहमिन्द्र पर म० । ४. निर्बुद्धि-म० ।

निमित्तमात्रमेतस्मिन् रावणस्ते पराभवे । जन्मन्यत्रैव यत्कर्म कृत तेनैव लम्बितम् ॥७०॥
 किं न स्मरसि यत्पूर्वं क्रीडता दुर्नय कृतम् । ऐश्वर्यजनितो अष्टो मदस्ते स्मर साम्प्रतम् ॥७१॥
 चिरवृत्ततया बुद्धौ वृत्तान्तस्ते ^१स्वयं कृतः । नारोहति यतस्तस्माच्छृण्वेकाग्रचेतसा ॥७२॥
 अरिञ्जयपुरे बह्निवेगाख्यः खेचरोऽभवत् । स्वयंवरार्थमौहत्यां चक्रे वेगवतीसुताम् ॥७३॥
 तत्र विद्याधराः सर्वे यथाविभवशोभिताः । समागताः परित्यज्य ^३श्रेण्यावत्यन्तमुत्सुकाः ॥७४॥
 भवानपि गतस्तत्र युक्तः परमसपदा । अन्यश्चानन्दमालाख्यश्चन्द्रावर्तपुराधिपः ॥७५॥
 सत्यज्य खेचरान् सर्वान् पूर्वकर्मानुभावतः । कन्ययानन्दमालोऽसौ वृत्तः सर्वाङ्गकान्तया ॥७६॥
 परिणीय स ता भोगान् प्राप चिन्तितसंगतान् ^४ । यथामराधिपः स्वर्गं प्रतिवासरवर्द्धिनः ॥७७॥
 ततः प्रभृति कोपेन ^५त्वमीर्ष्याजेन भूरिणा । गृहीतो वैरितामस्य सप्राप्तोऽतिगरीयसीम् ॥७८॥
 ततोऽस्य सहसा बुद्धिरियं जाता स्वकर्मतः । देहोऽयमध्रुवः किञ्चित्कृत्यमेतेन नो मम ॥७९॥
 तपः करोमि ससारदुःख येन विनश्यति । का वा भोगेषु प्रत्याशा विप्रलम्भनकारिषु ॥८०॥
 अवधार्येदमत्यन्त विबुद्धेनान्तरात्मना । त्यक्त्वा परिग्रहं सर्वं चचार परमं तपः ॥८१॥
 हसावलीनदीतीरे स्थितः प्रतिमयान्यदा । स त्वया प्रत्यभिज्ञातो रथावर्तमहीधरे ॥८२॥
 दर्शनेन्धनसंवृद्धपूर्वक्रोपाग्निना ततः । त्वयासौ कुर्वता नमं गर्वेण हसितो मुहुः ॥८३॥

क्षीण हो गया है सो कारणके बिना कार्य नहीं होता है इसमें आश्चर्य ही क्या है ? ॥६६॥ तेरे इस पराभवमे रावण तो निमित्तमात्र है । तूने इसी जन्ममे कर्म किये हैं उन्हींसे यह पराभव प्राप्त हुआ है ॥७०॥ तूने पहले क्रीडा करते समय जो अन्याय किया है उसका स्मरण क्यों नहीं करता है ? ऐश्वर्यसे उत्पन्न हुआ तेरा मद चूँकि अब नष्ट हो चुका है इसलिए अब तो पिछली बातका स्मरण कर ॥७१॥ जान पड़ता है कि बहुत समय हो जानेके कारण वह वृत्तान्त स्वयं तेरी बुद्धिमें नहीं आ रहा है इसलिए एकाग्रचित्त होकर सुन, मैं कहता हूँ ॥७२॥

अरिजयपुर नगरमे बह्निवेग नामा विद्याधर राजा था सो उसने वेगवती रानीसे उत्पन्न आहल्या नामक पुत्रीका स्वयंवर रचा था ॥७३॥ उत्सुकतासे भरे तथा यथा योग्य वैभवसे शोभित समस्त विद्याधर उत्तर दक्षिण श्रेणी छोड़-छोड़कर उस स्वयंवरमे आये थे ॥७४॥ उत्कृष्ट सम्पदासे युक्त होकर आप भी वहाँ गये थे तथा चन्द्रावर्त नगरका राजा आनन्दमाल भी वहाँ आया था ॥७५॥ सर्वांगसुन्दरी कन्याने पूर्व कर्मके प्रभावसे समस्त विद्याधरोंको छोड़कर आनन्दमालको चरा ॥७६॥ सो आनन्दमाल उसे विवाहकर इच्छा करते ही प्राप्त होनेवाले भोगोंका उस तरह उपभोग करने लगा जिस तरह कि इन्द्र स्वर्गमे प्रति दिन वृद्धिको प्राप्त होनेवाले भोगोका उपभोग करता है ॥७७॥ ईर्ष्याजन्य बहुत भारी क्रोधके कारण तू उसी समयसे उसके साथ अत्यधिक शत्रुता करने लगा ॥७८॥ तदनन्तर कर्मोकी अनुकूलताके कारण आनन्दमाल को सहसा यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि यह शरीर अनित्य है अतः इससे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥७९॥ मैं तो तप करता हूँ जिससे संसार सम्बन्धी दुःखका नाश होगा । धोखा देनेवाले भोगोमें क्या आशा रखना है ? ॥८०॥ प्रबोधको प्राप्त हुई अन्तरात्मासे ऐसा विचारकर उसने सर्व परिग्रहका त्यागकर उत्कृष्ट तप धारण कर लिया ॥८१॥

एक दिन हंसावली नदीके किनारे रथावर्त नामा पर्वतपर वह प्रतिमा योगसे चिराजमान था सो तूने पहिचान लिया ॥८२॥ दर्शनरूपी ईन्धनसे जिसकी पिछली क्रोधाग्नि भड़क उठी

१. त्वया म० । २. साहल्या ख० । ३. श्रेण्यामत्यन्त म० । ४. सगता म० । ५. त्वमीर्ष्या येन ख०, म०, व० । ६. कुर्वता म० ।

आहल्यारमणः स त्व कामभोगातिवत्सलः । अधुना किं स्थितोऽस्येवमिति भाषणकारिणा ॥८४॥
 वेष्टितो रज्जुमि क्षोणीधरनिष्कम्पविग्रहः । तत्त्वार्थचिन्तनासङ्गनितान्तस्थिरमानसः ॥८५॥
 दृष्ट्वाभिभूयमान त त्वयास्य निकटस्थितः । कल्याणसङ्गको भ्राता साधु क्रोधेन दुःखितः ॥८६॥
 संहृत्य प्रतिमायोगमृद्धिप्राप्तः स ते ददौ । शापमेवमल दीर्घं निश्वस्योष्ण च दुःखितः ॥८७॥
 अय निरपराधः सस्त्वया यन्मुनिपुङ्गवः । तिरस्कृतस्तदत्यन्त तिरस्कारमवाप्स्यसि ॥८८॥
 निश्वासेनामितेनासीद्गधुमेव निरूपितः । सर्वश्रीसंज्ञया किन्तु शामितस्तव कान्तया ॥८९॥
 सम्यग्दृष्टिरल सा हि साधुपूजनकारिणी । मुनयोऽपि 'वचस्त्वस्या' कुर्वते साधुचेतसः ॥९०॥
 यदि नाम तथा साध्व्या नासौ नीतः शम भवेत् । ततस्तस्य स कोपाग्निः केन शक्येन वारितुम् ॥९१॥
 लोकत्रयेऽपि तन्नास्ति तपसा यन्न साध्यते । बलाना हि समस्तानां स्थित मूर्ध्नि तपोबलम् ॥९२॥
 न सा त्रिदशनाथस्य शक्तिः कान्तिद्युतिर्धृतिः । तपोधनस्य या साधोर्यथाभिमत्कारिणः ॥९३॥
 विधाय साधुलोकस्य तिरस्कार जना महत् । दुःखमत्र प्रपद्यन्ते तिर्यक्षु नरकेषु च ॥९४॥
 मनसापि हि साधुना पराभूति करोति यः । तस्य सा परम दुःख परत्रेह च यच्छति ॥९५॥
 यस्त्वाक्रोशति निर्ग्रन्थं हन्ति वा क्रूरमानसः । तत्र किं शक्यते वक्तु जन्तौ दुष्कृतकर्मणि ॥९६॥
 कायेन मनसा वाचा यानि कर्माणि मानवाः । कुर्वते तानि यच्छन्ति निकचानि फल ध्रुवम् ॥९७॥
 कर्मणामिति विज्ञाय पुण्यापुण्यात्मिका गतिम् । दृढा कृत्वा मर्ति धर्मे स्वमुत्तारय दुःखत ॥९८॥

थी ऐसे तूने क्रीड़ा करते हुए अहंकारवश उसकी बार-बार हँसी की थी ॥८३॥ तू कह रहा था कि अरे ! तू तो कामभोगका अतिशय प्रेमी आहल्याका पति है, इस समय यहाँ इस तरह क्यों बैठा है ? ॥८४॥ ऐसा कहकर तूने उन्हें रस्सियोंसे कसकर लपेट लिया फिर भी उनका शरीर पर्वतके समान निष्कम्प बना रहा और उनका मन तत्त्वार्थकी चिन्तनामें लीन होनेसे स्थिर रहा आया ॥८५॥ इसप्रकार आनन्दमाल मुनि तो निर्विकार रहे पर उन्हींके समीप कल्याण नामक दूसरे मुनि बैठे थे जो कि उनके भाई थे तेरे द्वारा उन्हें अनाहत होता देख क्रोधसे दुःखी हो गये ॥८६॥ वे मुनि ऋद्धिधारी थे तथा प्रतिमायोगसे विराजमान थे सो तेरे कुकृत्यसे दुःखी होकर उन्होंने प्रतिमायोगका संकोचकर तथा लम्बी और गरम श्वास भरकर तेरे लिए इस प्रकार शाप दी ॥८७॥ कि चूँकि तूने इन निरपराध मुनिराजका तिरस्कार किया है इसलिए तू भी बहुत भारी तिरस्कारको प्राप्त होगा ॥८८॥ वे मुनि अपनी अपरिमित श्वाससे तुझे भस्म ही कर देना चाहते थे पर तेरी सर्वश्रीनामक स्त्रीने उन्हें शान्त कर लिया ॥८९॥ वह सर्वश्री सम्यग्दर्शनसे युक्त तथा मुनिजनोकी पूजा करनेवाली थी इसलिए उत्तम हृदयके धारक मुनि भी उसकी बात मानते थे ॥९०॥ यदि वह साध्वी उन मुनिराजको शान्त नहीं करती तो उनकी क्रोधाग्निको कौन रोक सकता था ? ॥९१॥ तीनों लोकोमें वह कार्य नहीं है जो तपसे सिद्ध नहीं होता हो । यथार्थमें तपका बल सब बलोके शिरपर स्थित है अर्थात् सबसे श्रेष्ठ है ॥९२॥ इच्छानुकूल कार्य करनेवाले तपस्वी साधुकी जैसी शक्ति, कान्ति, द्युति, अथवा धृति होती है वैसी इन्द्रके भी सम्भव नहीं है ॥९३॥ जो मनुष्य साधुजनोका तिरस्कार करते हैं वे तिर्यञ्च गति और नरक गतिमें महान् दुःख पाते हैं ॥९४॥ जो मनुष्य मनसे भी साधुजनोका पराभव करता है वह पराभव उसे परलोक तथा इस लोकमें परम दुःख देता है ॥९५॥ जो दुष्ट चित्तका धारी मनुष्य निर्ग्रन्थ मुनिको गाली देता है अथवा मारता है उस पापी मनुष्यके विषयमें क्या कहा जाय ? ॥९६॥ मनुष्य मन वचन कायसे जो कर्म करते हैं वे छूटते नहीं हैं और प्राणियोंको अवश्य ही फल देते हैं ॥९७॥ इस प्रकार कर्मोके पुण्य पापरूप फलका विचारकर अपनी बुद्धि धर्ममें धारण

इत्युक्ते पूर्वजन्मानि स्मरन् विस्मय संगतः । शक्रः प्रणम्य निर्ग्रन्थमिदमाह महादरः ॥१६६॥
 भगवस्त्वत्प्रसादेन लब्ध्वा बोधिमनुत्तमाम् । साम्प्रत दुरित सर्वं मन्ये त्यक्तमिव क्षणात् ॥१००॥
 साधोः सगमनाह्लोके न किञ्चिद् दुर्लभ भवेत् । बहुजन्मसु न प्राप्ता बोधिर्येनाधिगम्यते ॥१०१॥
 इत्युक्त्वा वन्दितस्तेन मुनिर्यातो यथेप्सितम् । शक्रोऽपि परमं प्राप्नो निर्वेदं गृह्णासतः ॥१०२॥
 पुण्यकर्मोदयाज्ज्ञात्वा रावणं परमोदयम् । स्तुत्वा च वीर्यदृष्टाय महाभूमृत्तटचितौ ॥१०३॥
 जलबुद्बुदनिस्साराभवबुद्ध्य मनुष्यताम् । कृत्वा सुनिश्चला धर्मे मतिं निन्दन् दुरीहितम् ॥१०४॥
 श्रियमिन्द्रः सुते न्यस्य महात्मा रथनूपुरे । ससुतो लोकपालानां समूहेन समन्वितः ॥१०५॥
 दीक्षां जैनेश्वरी प्राप सर्वकर्मविनाशिनीम् । विशुद्धमानसोऽत्यन्त त्यक्तसर्वपरिग्रहः ॥१०६॥
 ततस्तत्तादृशेनापि भोगेनाप्युपलालितम् । वपुस्तस्य तपोभारमुवाहेतरदुर्वहम् ॥१०७॥
 प्रायेण महतां शक्तिर्यादृशा रौद्रकर्मणि । कर्मण्येवं विशुद्धेऽपि परमा चोपजायते ॥१०८॥
 दीर्घकाल तपस्तप्त्वा विशुद्धध्यानसगतः । कर्मणां प्रक्षयं कृत्वा निर्वाणं वासवोऽगमत् ॥१०९॥

दोधकवृत्तम्

पश्यत चित्रमिदं पुरुषाणां चेष्टितमूर्जितवीर्यसमृद्धम् ।

यच्चिरकालमुपार्जितभोगा यान्ति पुनः पदसुत्तमसौख्यम् ॥११०॥

करो और अपने आपको दुःखोसे बचाओ ॥६८॥ इस प्रकार मुनिराजके कहनेपर इन्द्रको अपने पूर्व जन्मांका स्मरण हो आया । उन्हें स्मरण करता हुआ वह आश्चर्यको प्राप्त हुआ । तदनन्तर बहुत भारी आदरसे भरे इन्द्रने निर्ग्रन्थ मुनिराजको नमस्कार कर कहा कि ॥६६॥ हे भगवन् ! आपके प्रसादसे मुझे उत्कृष्ट रत्नत्रयकी प्राप्ति हुई है इसलिए मैं मानता हूँ कि अब मेरे समस्त पाप मानो क्षण भरमे ही छूट जानेवाले हैं ॥१००॥ जो बोधि अनेक जन्मोमे भी प्राप्त नहीं हुई वह साधु समागमसे प्राप्त हो जाती है इसलिए कहना पड़ता है कि साधुसमागमसे संसारमे कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती ॥१०१॥ इतना कहकर निर्वाणसंगम मुनिराज तो उधर इन्द्रके द्वारा वन्दित हो यथेच्छ स्थानपर चले गये इधर इन्द्र भी गृह्णाससे अत्यन्त निर्वेदको प्राप्त हो गया ॥१०२॥ उसने जान लिया कि रावण पुण्यकर्मके उदयसे परम अभ्युदयको प्राप्त हुआ है । उसने महापर्वतके तटपर विद्यमान वीर्यदंष्ट्रकी वार-वार स्तुति की ॥१०३॥ मनुष्य पर्यायको जलके बबूलाके समान निःसार जानकर उसने धर्ममे अपनी बुद्धि निश्चल की । अपने पाप कार्योंकी वार-बार निन्दा की ॥१०४॥ इस प्रकार महापुरुष इन्द्रने रथनूपुर नगरमे पुत्रके लिए राज्य-सम्पदा सौंपकर अन्य अनेक पुत्रों तथा लोकपालोके समूहके साथ समस्त कर्मोंको करनेवाली जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली । उस समय उसका मन अत्यन्त विशुद्ध था तथा समस्त परिग्रहका उसने त्याग कर दिया था ॥१०५-१०६॥ यद्यपि उसका शरीर इन्द्रके समान लोकोत्तर भोगोसे लालित हुआ था तो भी उसने अन्यजन जिसे धारण करनेमे असमर्थ थे ऐसा तपका भार धारण किया था ॥१०७॥ प्रायः करके महापुरुषोंकी रुद्र कार्योंमे जैसी अद्भुत शक्ति होती है वैसी ही शक्ति विशुद्ध कार्योंमें भी उत्पन्न हो जाती है ॥१०८॥ तदनन्तर दीर्घ काल तक तपकर शुक्ल ध्यानके प्रभावसे कर्मोंका क्षयकर इन्द्र निर्वाण धामको प्राप्त हुआ ॥१०९॥

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि राजन् ! देखो, बड़े पुरुषोंके चरित्र अतिशय शक्तिसे सम्पन्न तथा आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले हैं । ये चिर काल तक भोगोका उपार्जन करते हैं

स्तोकमपीह न चाद्भुतमस्ति न्यस्य समस्तपरिग्रहसङ्गम् ।
यत्क्षणतो दुरितस्य विनाश ध्यानत्रलाजनयन्ति बृहन्त ॥१११॥

अर्जितमृत्युरूकालविधानादिन्धनराशिमुदारमशेषम् ।
प्राप्य परं क्षणतो महिमानं किं न दहत्यनिल. कणमात्र ॥११२॥

इत्यत्रगम्य जना सुविशुद्धं यत्परा करण वहतान्त ।
मृत्युदिनस्य न केचिदपेता ज्ञानरवे कुरुत प्रतिपत्तिम् ॥११३॥

इत्यार्षे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते इन्द्रनिर्वाणाभिधान नाम त्रयोदश पर्व ॥१३॥



और अन्तमे उत्तमसुखसे युक्त निर्वाण पदको प्राप्त हो जाते हैं ॥११०॥ इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है कि बड़े पुरुष समस्त परिग्रहका सग छोड़कर ध्यानके बलसे क्षणभरमें पापोंका नाश कर देते हैं ॥१११॥ क्या बहुत कालसे इकट्ठी की हुई ईन्धनकी बड़ी राशिको कणमात्र अग्नि क्षणभरमे विशाल महिमाको प्राप्त हो भस्म नहीं कर देती ? ॥११२॥ ऐसा जानकर हे भव्य जनो ! यत्नमें तत्पर हो अन्त करणको अत्यन्त निर्मल करो । मृत्युका दिन आनेपर कोई भी पीछे नहीं हट सकते अर्थात् मृत्युका अवसर आनेपर सबको मरना पड़ता है । इसलिए सम्यग्ज्ञान रूपी सूर्यकी प्राप्ति करो ॥११३॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्य कथित पद्मचरितमें इन्द्रके निर्वाणका कथन करनेवाला तेरहवों पर्व समाप्त हुआ ॥१३॥



चतुर्दशं पर्व

अथ नाकाधिपप्रस्थो भोगसंमूढमानसः । यथाभिमतनिवृत्तः परदुर्लभितक्रियः ॥१॥
 असीं देवाधिपग्राहो यातो मन्दरमन्यदा । जिनेन्द्रवन्दनां कृत्वा प्रत्यागच्छन्निजेच्छया ॥२॥
 विभक्तपर्वतान् पश्यन् वास्यानां विविधांहिपान् । सरितश्चातिचक्षुष्याः स्फटिकादपि निर्मला ॥३॥
 आद्रित्यभवनाकारविमानस्य विभूषणः । संगतः परया लक्ष्या लङ्कासङ्गमनोत्सुकः ॥४॥
 सहसा निनदं तुङ्ग शुभ्राव परुषेतरम् । पप्रच्छ च महाक्षुद्यो मारीचमत्तिसन्वरः ॥५॥
 अयि मारीच मारीच कुतोऽयं निनदो महान् । एताश्च ककुभः कस्मान्महारजतलोहिनाः ॥६॥
 ततो जगाद् मारीचो देव ! देवगमो मुनेः । महाकल्याणमंप्राप्तावेप कस्यापि वर्तते ॥७॥
 देवानामेय तुष्टानां नानामपानकारिणाम् । आकुलो मुवनव्यापी प्रशस्तः श्रूयते ध्वनिः ॥८॥
 एताश्च ककुभस्तेषां मुकुटादिमर्गचिभिः । निचिता दधते मासं कौसुम्भीमिव भास्वराम् ॥९॥
 सुवर्णपर्वनेऽमुष्मिन्नन्तवलसंज्ञया । कथितो मुनिरुत्पन्नं नृनं तस्याद्य केवलम् ॥१०॥
 ततस्तद् वचन श्रुत्वा सन्यग्दर्शनभावितः । पर पुरन्दरग्राहः प्रमोदं प्रतिपन्नवान् ॥११॥
 अवर्तार्णश्च त्वादेशादिप्रकृष्टान्महाद्युतिः । द्वितीय इव देवेन्द्रो वन्दनाय महामुनेः ॥१२॥
 वन्दिन्वा तुष्टुष्टु माधुनिन्द्रग्राह्यहस्तात् । आसीनाश्च यथास्थान वद्वाङ्गलिपुटां सुराः ॥१३॥

अथानन्तर जो इन्द्रके समान शोभाका धारक था, जिसका मन भोगोमें मूढ़ रहता था, जिसे इच्छानुसार कार्योकी प्राप्ति होती थी तथा जिसकी क्रियाएँ शत्रुओको प्राप्त होना कठिन था ऐसा रावण एक समय मेरुपर्वत पर गया था । वहाँ जिनेन्द्रदेवको वन्दना कर वह अपनी इच्छानुसार वापिस आ रहा था ॥१-२॥ मार्गमें वह भरतादि क्षेत्रोंका विभाग करनेवाले एवं अनेक प्रकारके वृजोंसे सुशोभित हिमवत् आदि पर्वतोंको तथा स्फटिकसे भी अधिक निर्मल एवं अत्यन्त सुन्दर नदियोंको देखता हुआ चला आ रहा था ॥३॥ सूर्यम्विवके आकार विमानको अलङ्कृत कर रहा था, उच्छुष्ट लक्ष्मीसे युक्त था तथा लङ्काकी प्राप्तिमें अत्यन्त उत्सुक था ॥४॥ अचानक ही उसने जोरदार कोमल शब्द सुना जिसे सुनकर वह अत्यन्त क्षुभित हो गया । उसने शीघ्र ही मारीचसे पूछा भी ॥५॥ अरे मारीच ! मारीच ! यह महाशब्द कहाँसे आ रहा है ? और दिशाएँ सुवर्णके समान लाल-पीली क्यों हो रहीं हैं ॥६॥ तब मारीचने कहा कि हे देव ! किसी महामुनिके महाकल्याणकर्मों सम्मिलित होनेके लिए यह देवोंका आगमन हो रहा है ॥७॥ सन्तोषसे भरे एवं नानाप्रकारसे गमन करनेवाले देवोंका यह संसारव्यापी प्रशस्त शब्द सुनाई दे रहा है ॥८॥ ये दिशाएँ उन्हींके मुकुट आदिको किरणोंसे व्याप्त होकर कुसुम्भ रङ्गकी देदीयमान कान्तिको धारण कर रही हैं ॥९॥ इस सुवर्णदीरि पर अत्यन्तवल नामक मुनिराज रहते थे जान पड़ता है उन्हें ही आज केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है ॥१०॥

तदनन्तर मारीचके वचन सुनकर सन्यग्दर्शनकी भावनासे युक्त रावण परम हर्षको प्राप्त हुआ ॥११॥ महाकान्तिको धारण करनेवाला रावण उन महामुनिकी वन्दना करनेके लिए दूरवर्ती आकाश प्रदेशसे इस प्रकार नीचे उतरा मानो दूसरा इन्द्र ही उतर रहा हो ॥१२॥ तत्पश्चान् इन्द्र आदि देवोंने हाथ जोड़कर मुनिराजको नमस्कार किया । स्तुति की और फिर सब यथास्थान

१. नाकाधिपप्रस्थो-न० । परदुर्लभितक्रियः क०, ख०, ङ० । ३. रावणः । ४. भरतादिक्षेत्राणाम् । ५. माधुयन् क० ।

रावणोऽपि नमस्कृत्य स्तुत्वा चोदात्तभक्तितः । विद्याधरजनाकीर्णः स्थित समुचितावनौ ॥१४॥
 ततश्चतुर्विधैर्देवैस्तिर्यग्भिर्मनुजैस्तथा । कृतगस मुनिश्रेष्ठः गिष्येणैवमपृच्छयत् ॥१५॥
 भगवान् ज्ञातुमिच्छन्ति धर्माधर्मफल जनाः । समस्ता मुक्तिहेतु च तन्सर्वं वक्तुमर्हथ ॥१६॥
 तत सुनिपुणं शुद्ध त्रिपुलार्थं मित्ताक्षरम् । अप्रष्टार्यं जगौ वाक्यं यति सर्वहितप्रियम् ॥१७॥
 कर्मणाष्टप्रकारेण सततैर्न निरादिना । वद्वेनान्तर्हिंतात्मीयशक्तिभ्राम्यति चेतन ॥१८॥
 सुभूरिलक्ष्मण्य्यासु यानिष्वनुभवन्सदा । वेदनीयं यथोपात्तं नानाकरणसंभवम् ॥१९॥
 रक्तो द्विष्टोऽथवा मूढो मन्दमध्यविपाकतः । कुलालचक्रवत्प्राप्तचतुर्गतिविचर्तन ॥२०॥
 बुध्यते स्वहितं नासौ ज्ञानावरणकर्मणा । मनुयतामपि प्राप्नोऽत्यन्तदुर्लभमगमाम् ॥२१॥
 रसस्पर्शपरिग्राहिहृषीकेशतां गतां । कृत्वातिनिन्दितं कर्म पापभारगुरुकृतां ॥२२॥
 अनेकोपायसंभूतमहादुःखत्रिधायिनि । पतन्ति नरके जीवाः प्रात्राण इव वारिणि ॥२३॥
 मातर पितर भ्रातृन् सुता पत्नीं सुहृजानान् । धनादिचोदिताः केचिद् विष्वन्निन्दितमानसाः ॥२४॥
 गर्भस्थानभक्तान् वृद्धास्तरुणान् योपितो नराः । ध्नन्ति केचिन्महाक्रूरा मनुपान् पक्षिणो मृगान् ॥२५॥
 स्थलजान् जलजान् धर्मच्युतचित्ताः कुमेधसः । मीत्वा^{१०} पतन्ति ते सर्वे नरके पुरवेदने ॥२६॥
 मधुघातकृतश्रण्डा^{११} श्राण्डाला वनटाहिनः । हिंसापरायणाः पापा कैवर्तायमलुब्धकाः ॥२७॥

वैठ गये ॥१३॥ विद्याधरोसे युक्त रावण भी बड़ी भक्तिसे नमस्कार एव स्तुतिकर योग्य भूमिमें
 वैठ गया ॥१४॥ तदनन्तर विनीत शिष्यके समान रावणने मुनिराजसे इस प्रकार पूछा कि
 हे भगवन् ! समस्त प्राणी धर्म-अधर्मका फल और मोक्षका कारण जानना चाहते हैं सो आप यह
 सब कहनेके योग्य हैं । रावणके इस प्रश्नकी चारो प्रकारके देवो मनुष्यो और तिर्यञ्चोने भारी
 प्रशंसा की ॥१५-१६॥ तदनन्तर मुनिराज निम्नप्रकार वचन कहने लगे । उनके वे वचन निपु-
 णतासे युक्त थे, शुद्ध थे, महाअर्थसे भरे थे, परिमित अक्षरोसे सहित थे, अखण्डनीय थे और
 सर्वहितकारी तथा प्रिय थे ॥१७॥

उन्होंने कहा कि अनादिकालसे वैधे हुए ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंसे जिसकी आत्मीय
 शक्ति छिप गई है ऐसा यह प्राणी निरन्तर भ्रमण कर रहा है ॥१८॥ अनेक लक्ष योनियोंमें
 नाना इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःखका सदा अनुभव करता रहता है ॥१९॥ कर्मोंका
 जब जैसा तीव्र मन्द या मध्यम उदय आता है वैसा रागी द्वेषी अथवा मोहो होता हुआ कुम्हारके
 चक्रके समान चतुर्गतिमें घूमता रहता है ॥२०॥ यह जीव अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य पर्यायको भी
 प्राप्त कर लेता है फिर भी ज्ञानावरण कर्मके कारण आत्महितको नहीं समझ पाता है ॥२१॥
 रसना और स्पर्शन इन्द्रियके वशीभूत हुए प्राणी अत्यन्त निन्दित कार्य करके पापके भारसे
 इतने बजनदार हो जाते हैं कि वे अनेक साधनोंसे उत्पन्न महादुःख देनेवाले नरकोमें उस प्रकार
 जा पड़ते हैं जिस प्रकार कि पानीमें पत्थर पड़ जाते हैं—डूब जाते हैं ॥२२-२३॥ जिनके मनकी
 सभी चिन्दा करते हैं ऐसे कितने ही मनुष्य धनादिसे प्रेरित होकर माता, पिता, भाई, पुत्री,
 पत्नी, मित्रजन, गर्भस्थ बालक, वृद्ध, तरुण एव स्त्रियोंको मार डालते हैं तथा कितने ही महादुष्ट
 मनुष्य मनुष्यों, पक्षियों और हरिणोंकी हत्या करते हैं ॥२४-२५॥ जिनका चित्त धर्मसे च्युत है
 ऐसे कितने ही दुर्बुद्धि मनुष्य स्थलचारी एवं जलचारी जीवोंको मारकर भयङ्कर वेदनावाले
 नरकमें पड़ते हैं ॥२६॥ मधुमक्खियोंका घात करनेवाले, तथा वनमें आग लगानेवाले दुष्ट

१. स भूरि- क० । २ -व्वनुभवत् ख०, म०, व० । ३ स्वहितान्नासी ख० । ४ संज्ञकम् म० ।
 ५ गतः म० । ६. कृत. म० । ७. ध्नन्ति निर्दयमानसाः ख० । ८. मानसाः म० । ९. धर्मगतचित्तान् कुचेतसः
 म० । १०. मारयित्वा । ११. कृतश्रामी म० ।

वितथव्याहृतासक्ताः परस्वहरणोद्यताः । पतन्ति नरके घोरे प्राणिनः शरणोज्झिताः ॥२८॥
 येन येन प्रकारेण कुर्वते मांसभक्षणम् । तेनैव ते विधानेन भक्षयन्ते नरके परैः ॥२९॥
 महापरिग्रहोपेता महारम्भाश्च ये जनाः । प्रचण्डाध्यवसायास्ते वसन्ति नरके चिरम् ॥३०॥
 साधूनां द्वेषकाः पापा मिथ्यादर्शनसगताः । रौद्रध्यानमृता जीवा गच्छन्ति नरकं ध्रुवम् ॥३१॥
 कुठारैरसिभिश्चक्रैः करपत्रैर्विदारिताः । अन्यैश्च विविधैः शस्त्रैस्तीक्ष्णतुण्डैश्च पक्षिभिः ॥३२॥
 सिंहैर्व्याघ्रैः श्वभिः सर्पैः शरभैर्वृश्चिकैर्वृकैः । अन्यैश्च प्राणिभिश्चित्रैः प्राप्यन्ते दुःखमुत्तमम् ॥३३॥
 नितान्तं ये तु कुर्वन्ति सङ्गं शब्दादिवस्तुनि । मायिनस्ते प्रपद्यन्ते तिर्यक्त्वं प्राणधारिणः ॥३४॥
 परस्परवधास्तत्र शस्त्रैश्च विविधैः कृताः । प्रपद्यन्ते महादुःखं वाहदोहादिभिस्तथा ॥३५॥
 सुप्तमेतेन जीवेन स्थलेऽम्भसि गिरौ तरौ । गहनेषु च देशेषु भ्राम्यता भवसकटे ॥३६॥
 एकद्वित्रिचतुःपञ्चद्विपीककृतसगतिः । अनादिनिधनो जन्तुः सेवते मृत्युजन्मनी ॥३७॥
 तिलमात्रोऽपि देशोऽसौ नास्ति यत्र न जन्तुना । प्राप्तं जन्म विनाशो वा ससारावर्तपातिना ॥३८॥
 मार्दवेनान्विताः केचिदार्जवेन च जन्तवः । स्वभावलब्धसतोपाः प्रपद्यन्ते मनुष्यताम् ॥३९॥
 क्षणमात्रसुखस्यार्थं हित्वा पापं प्रकुर्वते । श्रेयः परमसौख्यस्य कारणं मोहसगताः ॥४०॥
 आर्यां स्लेच्छांश्च तत्रापि जायन्ते पूर्वकर्मतः । तथा केचिद्धनेनाद्याः केचिदत्यन्तदुर्विधाः ॥४१॥

चाण्डाल, निरन्तर हिंसामें तत्पर रहनेवाले पापी कहार और नीच शिकारी, मूठ वचन बोलनेमें आसक्त एवं पराया धन हरण करनेमें उद्यत प्राणी शरण रहित हो भयङ्कर नरकमें पड़ते हैं ॥२७-२८॥ जो मनुष्य जिस-जिस प्रकारसे मांस भक्षण करते हैं नरकमें दूसरे प्राणी उसी-उसी प्रकारसे उनका भक्षण करते हैं ॥२९॥ जो मनुष्य बहुत भारी परिग्रहसे सहित हैं, बहुत बड़े आरम्भ करते हैं और तीव्र संकल्प-विकल्प करते हैं वे चिरकाल तक नरकमें वास करते हैं ॥३०॥ जो साधुओंसे द्वेष रखते हैं, पापी हैं, मिथ्यादर्शनसे सहित हैं, एवं रौद्रध्यानसे जिनका मरण होता है वे निश्चय ही नरकमें जाते हैं ॥३१॥ ऐसे जीव नरकमें कुल्हाड़ियों, तलवारों, चक्रों, करोतों, तथा अन्य अनेक प्रकारके शस्त्रोंसे चीरे जाते हैं । तीक्ष्ण चोचोवाले पक्षी उन्हें चूथते हैं ॥३२॥ सिंह, व्याघ्र, कुत्ते, सर्प, अष्टापद, बिच्छू, भेड़िया तथा विक्रियासे बने हुए विविध प्रकारके प्राणी उन्हें बहुत भारी दुःख पहुँचाते हैं ॥३३॥

जो शब्द आदि विषयोंमें अत्यन्त आसक्ति करते हैं ऐसे मायावी जीव तिर्यञ्च गतिको प्राप्त होते हैं ॥३४॥ उस तिर्यञ्च गतिमें जीव एक दूसरेको मार डालते हैं । मनुष्य विविध प्रकारके शस्त्रोंसे उनका घात करते हैं तथा स्वयं भार ढोना एवं दोहा जाना आदि कार्योंसे महा दुःख पाते हैं ॥३५॥ संसारके संकटमें भ्रमण करता हुआ यह जीव स्थलमें, जलमें, पहाड़पर, वृक्षपर, और अन्यान्य सघन स्थानोंमें सोया है ॥३६॥ यह जीव अनादिकालसे एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता हुआ जन्म-मरण कर रहा है ॥३७॥ ऐसा तिलमात्र भी स्थान बाकी नहीं है जहाँ संसाररूपी भँवरमें पड़े हुए इस जीवने जन्म और मरण प्राप्त न किया हो ॥३८॥

यदि कोई प्राणी मृदुता और सरलतासे सहित होते हैं तथा स्वभावसे ही सन्तोष प्राप्त करते हैं तो वे मनुष्य गतिको प्राप्त होते हैं ॥३९॥ मनुष्य गतिमें भी मोही जीव परम सुखके कारण भूत कल्याण मार्गको छोड़कर क्षणिक सुखके लिए पाप करते हैं ॥४०॥ अपने पूर्वोपार्जित कर्मोंके अनुसार कोई आर्य होते हैं और कोई स्लेच्छ होते हैं । कोई धनाढ्य होते हैं और कोई

मनोरथशतान्ये कुर्वते कर्मवेष्टिताः । कालं नयन्ति कृच्छ्रेण प्राणिनः परवेशमसु ॥४२॥
 विरूपा धनिनः केचिन्निर्धनाः रूपिणोऽपरे । केचिद्दीर्घायुषः केचिदत्यन्तस्तोकजीविनः ॥४३॥
 इष्टा यथास्विनः केचित्केचिदत्यन्तदुर्भगाः । केचिदाज्ञां प्रयच्छन्ति तामन्ये कुर्वते जनाः ॥४४॥
 प्रविशन्ति रणं केचित्केचिद्गच्छन्ति वारिणि । यान्ति देशान्तरं केचित्केचित्कृष्यादि कुर्वते ॥४५॥
 एवं तत्रापि वैचित्र्यं जायते सुखदुःखयोः । सर्वं तु दुःखमेवात्र सुखं तत्रापि कल्पितम् ॥४६॥
 सरागसयमा* केचित्सयमासयमास्तथा । अकामनिर्जरातश्च तपसश्च समोहतः ॥४७॥
 देवत्वं च प्रपद्यन्ते चतुर्भेदसमन्वितम् । केचिन्महर्द्धयोऽत्रापि केचिदल्पपरिच्छदा ॥४८॥
 स्थित्या द्युत्या प्रभावेण धिया सौख्येन लेश्यया । अभिमानेन मानेन ते पुनः कर्मसग्रहम् ॥४९॥
 कृत्वा चतुर्गतां नित्यं भवे भ्राम्यन्ति जन्तवः । अरघदृघटीयन्त्रसमानत्वमुपागताः ॥५०॥
 सकल्पपादशुभाद् दुःखं प्राप्नोति शुभतः सुखम् । कर्मणोऽष्टप्रकारस्य जीवो मोक्षमुपचयात् ॥५१॥
 दानेनापि प्रपद्यन्ते जन्तवो भोगभूमिषु । भोगान् पात्रविशेषेण वैश्वरूपमुपागताः ॥५२॥
 प्राणातिपातविरतं परिग्रहविवर्जितम् । उद्धमाचक्षते पात्रं रागद्वेषोन्मिक्तजिनाः ॥५३॥
 सम्यग्दर्शनसशुद्धं तपसापि विवर्जितम् । पात्रं प्रशस्यते मिथ्यादृष्टेः कायस्य शोधनाम् ॥५४॥
 आपद्भ्यः पाति यस्तस्मात्पात्रमित्यभिधीयते । सम्यग्दर्शनशक्त्या च त्रायन्ते मुनयो जनान् ॥५५॥
 दर्शनेन विशुद्धेन ज्ञानेन च यदन्वितम् । चारित्र्येण च तत्पात्रं परमं परिकीर्तितम् ॥५६॥

अत्यन्त दरिद्र होते हैं ॥४१॥ कर्मोंसे घिरे कितने ही प्राणी सैकड़ों मनोरथ करते हुए दूसरेके घरोंमें बड़ी कठिनाईसे समय विताते हैं ॥४२॥ कोई धनाढ्य होकर भी कुरूप होते हैं, कोई रूपवान् होकर भी निर्धन रहते हैं, कोई दीर्घायु होते हैं और कोई अल्पायु होते हैं ॥४३॥ कोई सबको प्रिय तथा यशके धारक होते हैं, कोई अत्यन्त अप्रिय होते हैं, कोई आज्ञा देते हैं और कोई उस आज्ञाका पालन करते हैं ॥४४॥ कोई रणमें प्रवेश करते हैं, कोई पानीमें गोता लगाते हैं, कोई विदेशमें जाते हैं और कोई खेती आदि करते हैं ॥४५॥ इस प्रकार मनुष्य गतिमें भी सुख और दुःखकी विचित्रता देखी जाती है । वास्तवमें तो सब दुःख ही है सुख तो कल्पना मात्र है ॥४६॥

कोई जीव सरागसंयम तथा सयमासंयमके धारक होते हैं, कोई अकाम निर्जरा करते हैं और कोई बालतप करते हैं, ऐसे जीव भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक इन चार भेदोंसे युक्त देव गतिमें उत्पन्न होते हैं सो वहाँ भी कितने ही महर्द्धियोंके धारक होते हैं और कितने ही अल्प ऋद्धियोंके धारक ॥४७-४८॥ स्थिति, कान्ति, प्रभाव, बुद्धि, सुख, लेश्या, अभिमान और मानके अनुसार वे पुनः कर्मोंका बन्धकर चतुर्गति रूप संसारमें निरन्तर भ्रमण करते रहते हैं । जिस प्रकार अरघटकी घड़ी निरन्तर घूमती रहती है इसी प्रकार ये प्राणी भी निरन्तर घूमते रहते हैं ॥४९-५०॥ यह जीव अशुभ सकल्पसे दुःख पाता है, शुभ सकल्पसे सुख पाता है और अष्टकर्मोंके ज्ञयसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥५१॥ पात्रकी विशेषतासे अनेक रूपताको प्राप्त हुए जीव दानके प्रभावसे भोग-भूमियोंमें भोगोंको प्राप्त होते हैं ॥५२॥ जो प्राणि-हिंसासे विरत परिग्रहसे रहित और राग द्वेषसे शून्य हैं उन्हें जिनेन्द्र भगवान्ने उत्तम पात्र कहा है ॥५३॥ जो तपसे रहित होकर भी सम्यग्दर्शनसे शुद्ध है ऐसा पात्र भी प्रशंसनीय है क्योंकि उससे मिथ्यादृष्टि दाताके शरीरकी शुद्धि होती है ॥५४॥ जो आपत्तियोंसे रक्षा करे वह पात्र कहलाता है (पातीति पात्रम्) इस प्रकार पात्र शब्दका निरुक्त्यर्थ है । चूँकि मुनि, सम्यग्दर्शनकी सामर्थ्यसे लोगोंकी रक्षा करते हैं अतः पात्र हैं ॥५५॥ जो निर्मल सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान

१. मनोरथशतान्ये म० । २. यथास्विनः म० (?) । ३. -मुपागतः म० । ४. प्रशस्तम्, उत्तमाश्चक्षते म० । ५. यदन्वितम् ख० ।

मानापमानयोस्तुल्यस्तथा यः सुखदुःखयोः । तृणकाञ्चनयोश्चैव साधुः पात्रं प्रशस्यते ॥५७॥
 सर्वग्रन्थविनिर्मुक्ता महातपसि ये रताः । श्रमणस्ते परं पात्रं तत्त्वध्यानपरायणाः ॥५८॥
 तेभ्यो भावेन यद्वत्तं शक्यता पानान्नभेषजम् । यथोपयोगमन्यच्च तद्यच्छति महाफलम् ॥५९॥
 क्षिप्तं यथैव सत्त्वेन बीजं तत्सपदं पराम् । प्रयच्छति तथा दत्तं सत्पात्रे शुद्धचेतसा ॥६०॥
 रागद्वेषादिभिर्युक्तं यत्तु पात्रं न तन्मतम् । प्रयच्छति फलं दूरं तत्र लाभविचिन्तितम् ॥६१॥
 क्षिप्तं यथोपरे बीजं न किञ्चित्तत्र जायते । मिथ्यादर्शनसयुक्तपापपात्रोद्यतं तथा ॥६२॥
 कृपादुद्धृतमेकस्मात्सलिलं प्रतिपद्यते । माधुर्यमिक्षुभिः पीतं निम्बपीतं तु तिक्तताम् ॥६३॥
 सरस्या जलमेकस्या गवात्तं पन्नगेन च । क्षीरभावमवाप्नोति विपत्ता च यथा तथा ॥६४॥
 विन्यस्तं भावतो दानं सम्यग्दर्शनभाविते । मिथ्यादर्शनयुक्ते तु शुभाशुभफलं भवेत् ॥६५॥
 दानान्धादिजनेभ्यस्तु करुणापरिचोदितम् । दानमुक्तं फलं तस्माद् यद्यपि स्यान्न रुत्तमम् ॥६६॥
 वदन्ति लिङ्गिनः सर्वे स्वानुकूलं प्रयत्नतः । धर्मं स तु विशेषेण परीच्य शुभमानसैः ॥६७॥
 द्रव्यं यदात्मतुल्येषु गृहस्थेषु विसृज्यते । कामक्रोधादियुक्तेषु तत्र का फलभोगिता ॥६८॥

और सम्यक्चारित्रसे सहित होता है वह उत्तम पात्र कहलाता है ॥५६॥ जो मान, अपमान, सुख दुःख और तृण-काञ्चनमे समान दृष्टि रखता है ऐसा साधु पात्र कहलाता है ॥५७॥ जो सब प्रकारके परिग्रहसे रहित हैं, महातपश्चरणमे लीन हैं और तत्त्वोंके ध्यानमें सदा तत्पर रहते हैं ऐसे श्रमण अर्थात् मुनि उत्तम पात्र कहलाते हैं ॥५८॥ उन मुनियोंके लिए अपनी सामर्थ्यके अनुसार भावपूर्वक जो भी अन्न, पान, औषधि अथवा उपयोगमे आनेवाले पीछी कमण्डलु आदि अन्य पदार्थ दिये जाते हैं वे महाफल प्रदान करते हैं ॥५९॥ जिस प्रकार उत्तम क्षेत्रमे बोया हुआ बीज अत्यधिक सम्पदा प्रदान करता है उसी प्रकार उत्तम पात्रके लिए शुद्ध हृदयसे दिया हुआ दान अत्यधिक सम्पदा प्रदान करता है ॥६०॥ जो राग द्वेष आदि दोषोंसे युक्त है वह पात्र नहीं है और न वह इच्छित फल ही देता है अतः उसके फलका विचार करना दूरकी बात है ॥६१॥ जिस प्रकार ऊपर जमीनमे बीज बोया जाय तो उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार मिथ्यादर्शनसे सहित पापी पात्रके लिए दान दिया जाय तो उससे कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता ॥६२॥ एक कुँसे निकाले हुए पानीको यदि ईखके पौधे पीते हैं तो वह माधुर्यको प्राप्त होता है और यदि नीमके पौधे पीते हैं तो कड़ुआ हो जाता है ॥६३॥ अथवा जिस प्रकार एकही तालाबमे गायने पानी पिया और साँपने भी । गायके द्वारा पिया पानी दूध हो जाता है और साँपके द्वारा पिया पानी विष हो जाता है उसी प्रकार एक ही गृहस्थसे उत्तम पात्रने दान लिया और नीच पात्रने भी । जो दान उत्तम पात्रको प्राप्त होता है उसका फल उत्तम होता है और जो नीच पात्रको प्राप्त होता है उसका फल नीचा होता है ॥६४॥ कोई-कोई पात्र मिथ्यादर्शनसे युक्त होने पर भी सम्यग्दर्शनकी भावनासे युक्त होते हैं ऐसे पात्रोंके लिए भावसे जो दान दिया जाता है उसका फल शुभ-अशुभ अर्थात् मिश्रित प्रकारका होता है ॥६५॥ दीन तथा अन्धे आदि मनुष्योंके लिए करुणा दान कहा गया है और उससे यद्यपि फलकी भी प्राप्ति होती है पर वह फल उत्तम फल नहीं कहा जाता ॥६६॥ सभी वेपधारी प्रयत्नपूर्वक अपने अनुकूल धर्मका उपदेश देते हैं पर उत्तम हृदयके धारक मनुष्योंको विशेषकर उसकी परीक्षा करनी चाहिए ॥६७॥ काम क्रोधादिसे युक्त तथा अपनी

१. यत्तु पात्रं न तन्मतम् म०, ख०, ज० । यत्तु पात्रं न तत्समम् व० । २. तत्र लाभविचिन्तितम् म० । ३. 'क्षिप्तं यद्वि रणे बीजं' म०, ख०, क० । ४. न किञ्चिदुपजायते म० । ५. मिथ्यादर्शनसयुक्तं पाप पात्रोद्यतं तथा न० ।

अहो महानय मोह^१ सर्वावस्थेषु यजना । स्वापतेय त्रिमुञ्चन्ति त्रिप्रलब्धा^२ कुणामनं ॥६६॥
 धिगस्तु तान् खलानेय जनो यत्रिप्रतारित । लोभात् कुग्रन्थकन्थाभिर्वराको नेयमानस ॥७०॥
 मृष्टवाद् बलकारि वान्मानं मध्यमुदाहृतम् । पापैर्दम्भप्रसिद्धर्थं परिमत्स्या च कीर्तिता ॥७१॥
 क्रूरास्ते दापयित्वा तद्गृहयित्वा च लोभिन । गच्छन्ति नरकं मार्धं दातृभिर्योरेवेदनम् ॥७२॥
 जीवदानं च यथोक्तं गृह्णाविर्दुर्दुरात्मभिः । ऋषिमन्यैस्तदत्यन्त निन्दित तत्त्ववेदिभिः ॥७३॥
 तस्मिन् हि दीयमानस्य वहनाङ्गनताडनैः । सम्पद्यते महादुःख तेनान्येषां च भूयसात् ॥७४॥
 भूमिदानमपि चित्तं तद्गतप्राणिपांडनात् । प्राणिघातनिमित्तेन पुण्य पाषाणत पय ॥७५॥
 सर्वेषामभयं तन्माहेय प्राणभृता सदा । ज्ञान भेषजमन्नञ्च वस्त्रादि च गतासुकम् ॥७६॥
 दानं निन्दितमप्येति प्रशंसा पात्रभेदत । शुक्तिपीत यथा वारि मुक्तीभवति निश्चयम् ॥७७॥
 पशुभूम्यादिकं दत्तं जिनानुद्दिश्य भावत । ददाति परमान् भोगानत्यन्तचिरकालान् ॥७८॥
 अन्तरङ्गं हि सकल्पः^३ कारणं पुण्यपापयो । त्रिना तेन बहिर्दानं वर्षं पर्वतमूर्धनि ॥७९॥
 वीतरागान् समस्तज्ञानतो ध्यात्वा जिनेश्वरान् । दानं यदीयते तस्य कः गत्तो भाषितु फलम् ॥८०॥
 आयुषग्रहणादन्ये देवा द्वेषमन्विता । रागिण कामिनीसङ्गाद् भूषणानां च धारणात् ॥८१॥

समानता रखनेवाले गृहस्थोंके लिए जो द्रव्य दिया जाता है उसका क्या फल भोगनेको मिलता है ? मो कहा नहीं जा सकता ॥६६॥ अहां ! यह कितना प्रबल मोह है कि मिथ्यामतोसे ठगाये गये लोग सभी अवस्थाओंवाले लोगोंको अपना धन दे देते हैं ॥६६॥ उन दुष्टजनोंको धिक्कार है जिन्होंने कि इस भोले प्राणीको ठग रक्खा है तथा लोभ दिखाकर मिथ्या शास्त्रोंकी चर्चासे उसके मनको विचलित कर दिया है ॥७०॥ मीठा तथा बलकारी होनेसे पापी मनुष्योंने मांसको भक्ष्य बताया है और अपना कपट वतानेके लिए जिनका मांस खाना चाहिए उनकी सख्या भी निर्धारित की है ॥७१॥ सो ऐसे दुष्ट लोभी जीव दूसरोंको मांस दिलाकर तथा स्वयं खाकर दाताओंके साथ-साथ भयङ्कर वेदनासे युक्त नरकमे जाते हैं ॥७२॥ लोभके वशीभूत, दुष्ट अभिप्रायसे युक्त तथा मूठ-मूठ ही अपने आपको ऋषि माननेवाले कितने ही लोगोंने हाथी, घोड़ा, गाय आदि जीवोंका दान भी बतलाया है पर तत्त्वके जानकार मनुष्योंने उसकी अत्यन्त निन्दा की है ॥७३॥ उसका कारण भी यह है कि जीव दानमे जो जीव दिया जाता है उसे बोझा डोना पड़ता है, नुकीली अरी आदिसे उसके शरीरको काँटा जाता है तथा लाठी आदिसे उसे पीटा जाता है इन कारणोंसे उसे महा दुःख होता है और उसके निमित्तसे बहुतसे अन्य जीवोंको भी बहुत दुःख उठाना पड़ता है ॥७४॥ इसी प्रकार भूमिदान भी निन्दनीय है क्योंकि उससे भूमिमे रहने वाले जीवोंको पीड़ा होती है । और प्राणिपीड़ाके निमित्त जुटाकर पुण्यकी इच्छा करना मानो पत्थरसे पानी निकालना है ॥७५॥ इसलिए समस्त प्राणियोंको सदा अभयदान देना चाहिए साथ ही ज्ञान, प्रामुक, औषधि, अन्न और वस्त्रादि भी देना चाहिए ॥७६॥ जो दान निन्दित बताया है वह भी पात्रके भेदसे प्रशंसनीय हो जाता है जिस प्रकार कि शुक्ति (सीप) के द्वारा पिया हुआ पानी निश्चयसे मोती हो जाता है ॥७७॥ पशु तथा भूमिका दान यद्यपि निन्दित दान है फिर भी यदि वह जिन-प्रतिमा आदिको उद्देश्य कर दिया जाता है तो वह दीर्घ काल तक स्थिर रहनेवाले उत्कृष्ट भाग प्रदान करता है ॥७८॥ भीतरका संकल्प ही पुण्य-पापका कारण है उसके बिना बाह्यमे दान देना पर्वतकी शिखरपर वर्षा करनेके समान है ॥७९॥ इसलिए वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र देवका व्यान कर जो दान दिया जाता है उसका फल कहनेके लिए कौन समर्थ है ॥८०॥ जिनेन्द्रके सिवाय

१. सर्वावस्थाषु । २. धनम् । ३. गर्वावदे. ख० । ४. तद्गतं प्राणि- म० । ५. ज्ञानभेषजमन्नं म० ख० । ६. अमुक्ता मुक्ता संपद्यते मुक्तीभवति । ७. सकल्पं क० ।

रागद्वेषानुमेयश्च तेषां मोहोऽपि विद्यते । तयोर्हि कारण मोहो दोषाः शेषास्तु तन्मयाः ॥८२॥
 मनुष्या एव ये केचिद्देवा भोजनभाजनम् । कपायतनत्र, काले देशकामादिसेविनः ॥८३॥
 पुत्रविधा कथं देवा दानगोचरतां गताः । अधमा यदि वा तुल्या फलं कुर्युर्मनोहरम् ॥८४॥
 दृष्टोऽपि तावद्वेषां विपाका शुभकर्मणः । कुत एव शिवस्थानं सम्प्राप्सिर्दुःखितात्मनाम् ॥८५॥
 तदेतत्सिक्तामुष्टिर्पाडनात्तैलवान्छितम् । विनाशन च तृष्णाया मेवनादाशुशुक्ले ॥८६॥
 पद्भुना नीयते पद्भुर्यदि देशान्तरं तत । एतेभ्यः विलश्यतो जन्तोर्देवेभ्यः जायते फलम् ॥८७॥
 पृथां तावद्विषं वार्ता देवानां पापकर्मणाम् । तद्भक्तानां तु दूरेण सत्पात्रत्वं न युज्यते ॥८८॥
 लोभेन चोदितः पापो जनो यज्ञे प्रवर्तते । कुर्वतो हि तथा लोको धनं तर्हि प्रयच्छति ॥८९॥
 नस्मादुद्दिश्य यद्दानं दीयते जिनपुङ्गवम् । सर्वदोषविनिर्मुक्तं तद्वदति फलं महत् ॥९०॥
 वाणिज्यसदृशो धर्मस्तत्रान्वेष्यात्पभूरिता । बहुना हि पराभूतिः क्रियतेऽल्पस्य वस्तुनः ॥९१॥
 यथा विषकण प्राप्तः सरसी नैव दुष्यति । जिनधर्मोद्यतस्यैवं हिसालेशो वृथोद्भवः ॥९२॥

जो अन्य देव हैं वे द्वेषी रागी तथा मोही हैं क्योंकि वे शस्त्र लिये रहते हैं इससे द्वेषी सिद्ध होते हैं और स्त्री साथमें रखते हैं तथा आभूषण धारण करते हैं इससे रागी सिद्ध होते हैं । राग-द्वेषके द्वारा उनके मोहका भी अनुमान हो जाता है क्योंकि मोह राग-द्वेषका कारण है । इस प्रकार राग-द्वेष और मोह ये तीन दोष उनमें सिद्ध हो गये वाकी अन्य दोष इन्हींके रूपान्तर हैं ॥८१-८२॥ लोभके जो कुछ मनुष्य देवके रूपमें प्रसिद्ध हैं वे साधारण जनके समान ही भोजनके पात्र हैं अर्थात् भोजन करते हैं, कपायसे युक्त हैं और अवसर पर आंशिक कामादिका सेवन करते हैं सो ऐसे देव दानके पात्र कैसे हो सकते हैं ? वे कितनी ही बातोंमें जब कि अपने भक्त जनोंसे गये गुजरे अथवा उनके समान ही हैं तब उन्हें उत्तम फल कैसे दे सकते हैं ? ॥८३-८४॥ यद्यपि वर्तमानमें उनके शुभ कर्मोंका उद्भय देखा जाता है तो भी उनसे अन्य दुःखी मनुष्योंको मोक्षकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? ॥८५॥ ऐसे कुदेवोंसे मोक्षकी इच्छा करना वाल्मीकी मुट्ठी पेरकर तैल प्राप्त करनेकी इच्छाके समान है अथवा अग्निकी सेवासे प्यास नष्ट करनेकी इच्छाके तुल्य है ॥८६॥ यदि एक लँगड़ा मनुष्य दूसरे लँगड़े मनुष्यको देशान्तरमें ले जा सकता हो तो इन देवोंसे दूसरे दुःखी जीवोंको भी फलकी प्राप्ति हो सकती है ॥८७॥ जब इन देवोंकी यह बात है तब पाप कार्य करनेवाले उनके भक्तोंकी बात तो दूर ही रही । उनमें सत्पात्रता किसी तरह सिद्ध नहीं हो सकती ॥८८॥ लोभसे प्रेरित हुए पापी जन यज्ञमें प्रवृत्त होते हैं और लोग ऐसा करने वालोंको दक्षिणा आदिके रूपमें धन देते हैं सो यह निर्दोष कैसे हो सकता है ? ॥८९॥ इसलिए जिनेन्द्र देवको उद्देश्यकर जो दान दिया जाता है वही सर्वदोष रहित है और वही महाफल प्रदान करता है ॥९०॥ धर्म तो व्यापारके समान है जिस प्रकार व्यापारमें सदा हीनाधिकताका विचार किया जाता है उसी प्रकार धर्ममें भी सदा हीनाधिकताका विचार रखना चाहिए अर्थात् हानि लाभपर दृष्टि रखना चाहिए । जिस धर्ममें पुण्यकी अधिकता हो और पापकी न्यूनता हो गृहस्थ उसे स्वीकृत कर सकता है क्योंकि अधिक वस्तुके द्वारा हीन वस्तुका पराभव हो जाता है ॥९१॥ जिस प्रकार विषका एक कण तालावमें पहुँचकर पूरे तालावको दूषित नहीं कर सकता उसी प्रकार जिनधर्मानुकूल आचरण करनेवाले पुरुषसे जो थोड़ी हिंसा होती है वह उसे दूषित नहीं कर सकती । उसकी वह अल्प हिंसा व्यर्थ रहती

१. केचिदेभ्यः म० । २. भजनभाजनम् ख० । पूजनभाजनम् म०, व० । ३. कालदेशकामादि-
 म०, ख०, व० । ४. दृष्टोऽपि ख०, म०, व०, ज० । ५. विपाके ख०, म०, व०, ज० । ६. शिवस्थानं संप्राप्तौ
 म० । शिवस्थानं प्राप्तौ ख० । शिवस्थानं संप्राप्तौ व० ।

प्रासादादि ततः कार्यं जिनानां भक्तितत्परैः । माख्यधूपप्रदीपादि सर्वं च कुशलैर्जनैः ॥६३॥
 स्वर्गं मनुष्यलोके च भोगानत्यन्तमुन्नतान् । जन्तवः प्रतिपद्यन्ते जिनानुद्दिश्य दानतः ॥६४॥
 तन्मार्गप्रस्थितानाञ्च दत्त दान यथोचितम् । करोति विपुलान् भोगान् गुणानामिति भाजनम् ॥६५॥
 यथाशक्ति ततो भक्त्या सम्यग्दृष्टिषु यच्छतः । दान तदेकमात्रास्ति शेष चोरैर्विलुण्ठितम् ॥६६॥
 स्थितं ज्ञानस्य साम्राज्ये केवल परिकीर्त्यते । निर्वाण तस्य सप्राप्त्युपैति ध्यानयोगतः ॥६७॥
 विमुक्ताशेषकर्माणं सर्ववाधाविवर्जिता । अनन्तसुखसम्पन्ना अनन्तज्ञानदर्शना ॥६८॥
 अशरीरा स्वभात्रस्था लोकमूर्ध्नि प्रतिष्ठिताः । प्रत्यापत्तिविनिर्मुक्ताः सिद्धा वक्तव्यवर्जिता ॥६९॥
 ३ गद्गापवनसवृद्धदुःखपावकमध्यगा । क्लिश्यन्ते ५ पापिनो नित्यं विना सुकृतवारिणा ॥१००॥
 पापान्धकारमध्यस्था कुदर्शनवशीकृता । बोध केचित्प्रपद्यन्ते धर्मादित्यमरीचिभिः ॥१०१॥
 अशुभायोमयात्यन्तं दृढपञ्जरमध्यगा । आशापाशवशा जीवा मुच्यन्ते धर्मबन्धुना ॥१०२॥
 सिद्धो व्याकरणालोकविन्दुसारैकदेशतः । धारणार्थो धृतो धर्मशब्दो वाचि परिस्थितः ॥१०३॥
 पतन्त दुर्गता यस्मात्सम्यगाचरितो भवन् । प्राणिन धारयत्यस्माद्धर्म इत्थमिधीयते ॥१०४॥
 लभिर्धातु स्मृतः प्राप्तिः सपर्क उच्यते । तस्य धर्मस्य यो लाभो धर्मलाभः स उच्यते ॥१०५॥

है ॥६२॥ इसलिए भक्तिमे तत्पर रहनेवाले कुशल मनुष्योंको जिन-मन्दिर आदि बनवाना चाहिए और माला धूप दीप आदि सत्रकी व्यवस्था करनी चाहिए ॥६३॥ जिनेन्द्र भगवान्को उद्देश्य कर जो दान दिया जाता है उसके फलस्वरूप जीव स्वर्ग तथा मनुष्यलोक सम्बन्धी उत्तमोत्तम भोग प्राप्त करते हैं ॥६४॥ सन्मार्गमें प्रयाण करनेवाले मुनि आदिके लिए जो यथा योग्य दान दिया जाता है वह उत्कृष्ट भोग प्रदान करता है । इस प्रकार यही दान गुणोंका पात्र है ॥६५॥ इसलिए सामर्थ्यके अनुसार भक्तिपूर्वक सम्यग्दृष्टि पुरुषोंके लिए जो दान देता है उसीका दान एक दान है बाकी तो चोरोंको धन लुटाना है ॥६६॥ केवलज्ञान ज्ञानके साम्राज्य पद पर स्थित है । ध्यानके प्रभावसे जब केवलज्ञानकी प्राप्ति हो चुकती है तभी यह जीव निर्वाणको प्राप्त होता है ॥६७॥ जिनके समस्त कर्म नष्ट हो चुकते हैं, जो सर्व प्रकारकी बाधाओंसे परे हो जाते हैं, जो अनन्त सुखसे सम्पन्न रहते हैं, अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन जिनकी आत्मामें प्रकाशमान रहते हैं, जिनके तीनो प्रकारके शरीर नष्ट हो जाते हैं, निश्चयसे जो अपने स्वभावमे ही स्थित रहते हैं और व्यवहारसे लोक-शिखरपर विराजमान हैं, जो पुनरागमनसे रहित है और जिनका स्वरूप शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता वे सिद्ध भगवान् हैं ॥६८-६९॥ लोभ रूपी पवनमे बड़े दुःख रूपी अग्निके बीचमें पड़े पापी जीव पुण्य रूपी जलके बिना निरन्तर क्लेश भोगते रहते हैं ॥१००॥ पापरूपी अन्धकारके बीचमें रहनेवाले तथा मिथ्यादर्शनके वशीभूत कितने ही जीव धर्मरूपी सूर्यकी किरणोंसे प्रबोधको प्राप्त होते हैं ॥१०१॥ जो अशुभभाव रूपी लोहेके मजबूत पिंजरेके मध्यमे रह रहे हैं तथा आशारूपी पाशके अधीन हैं ऐसे जीव धर्मरूपी बन्धुके द्वारा ही मुक्त किये जाते हैं—बन्धनसे छुड़ाये जाते हैं ॥१०२॥ जो लोकविन्दुसार नामक पूर्वका एक देश है ऐसे व्याकरणसे सिद्ध है कि जो धारण करे सो धर्म है । 'धरतीति धर्मः' इस प्रकार उसका निरुक्त्यर्थ है ॥१०३॥ और यह ठीक भी है क्योंकि अच्छी तरहसे आचरण किया हुआ धर्म दुर्गतिमें पडते हुए जीवको धारण कर लेता है—बचा लेता है इसलिए वह धर्म कहलाता है ॥१०४॥ लभ धातुका अर्थ प्राप्ति है और प्राप्ति संपर्कको कहते हैं, अतः

१. धूम म० । २ आनन्द- म० । ३. गृद्धा म० । ४. पापतः क०, ख०, म० । ५. अशुभभावरूप लोहनिर्मितसुदृढपञ्जरमध्यगताः । ६. धर्मपञ्जर म० । ७. धर्मबन्धना म० । ८. धर्मः ख० । ९ भवेत् म० । भवत् ख०, व० ।

जिनैरभिहितं धर्मं कथयामि समासत* । कांश्चित्तत्फलभेदांश्च शृणुतैकाग्रमानसाः ॥१०६॥
 हिंसातोऽलीकतः स्तेयान्मैथुनाद् द्रव्यसगमात् । विरतिर्व्रतमुद्दिष्ट विधेय तस्य धारणम् ॥१०७॥
 ईर्यावाक्यैपणादाननिक्षेपोत्सर्गरूपिका । समितिः पालन तस्या* कार्यं यत्नेन साधुना ॥१०८॥
 वाङ्मनःकायवृत्तीनामभावो^१ भ्रदिमाथवा । गुप्तिराचरण तस्या विधेय परमादरात् ॥१०९॥
 क्रोधो मानस्तथा माया लोभश्चेति महाद्विपः । कषाया यैरय लोकः संसारे^३ परिवर्त्यते ॥११०॥
 क्षमातो^४ मृदुतासङ्गाद्दृष्टियोगतः । विधेयो निग्रहस्तेषां सूत्रनिर्दिष्टकारिणा ॥१११॥
 धर्मपञ्चमिद् सर्वं व्रतादि परिकीर्तितम् । त्यागश्चोदितो धर्मो विशेषोऽस्य निवेदितः ॥११२॥
 रसनस्पर्शनघ्राणचक्षुःश्रोत्राभिधानतः^५ । प्रसिद्धानीन्द्रियाण्येषां निर्जयो धर्म उच्यते ॥११३॥
 उपवासोऽवमौदर्यं परिसंख्यानवृत्तिता । रसानां च परित्यागो विविक्त शयनासनम् ॥११४॥
 कायक्लेश इति प्रोक्त बाह्य पोढा तपः स्थितम् । तपसोऽभ्यन्तरस्यैतद्दृष्टिस्थानीयमिष्यते ॥११५॥
 प्रायश्चित्त विनीतिश्च वैयावृत्यकृतिस्तथा । स्वाध्यायेन च सम्बन्धो व्युत्सर्गो ध्यानमुत्तमम् ॥११६॥
 एतद्वाभ्यन्तर पोढा तपश्चरणमिष्यते । तपः समस्तमप्येतद्धर्म इत्यभिधीयते ॥११७॥
 धर्मेणानेन कुर्वन्ति भव्याः कर्मवियोजनम् । कर्म चाद्भुतमत्यन्तव्यवस्थापरिवर्तनम् ॥११८॥
 शक्नोति बाधितु सर्वान्मानुषानमरांस्तथा । लोकाकाश च संरोद्धु वपुषा विक्रियात्मना ॥११९॥
 एकग्रासत्वमानेतु त्रैलोक्य च महाबलः । अष्टभेदमहैश्वर्यं योग चाप्नोति दुर्लभम् ॥१२०॥

धर्मकी प्राप्तिको धर्मलाभ कहते हैं ॥१०५॥ अब हम जिन-भगवान्के द्वारा कहे हुए धर्मका संक्षेपसे निरूपण करते हैं। साथ ही उसके कुछ भेदों और उनके फलोंका भी निर्देश करेंगे सो तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥१०६॥ हिंसा मूठ चोरी कुशील और परिग्रहसे विरक्त होना सो व्रत कहलाता है। ऐसा व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए ॥१०७॥ ईर्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेपण और उत्सर्ग ये पाँच समित्तियाँ हैं। साधुको इनका प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए ॥१०८॥ वचन, मन और कायकी प्रवृत्तिका सर्वथा अभाव हो जाना अथवा उसमें कोमलता आ जाना गुप्ति है। इसका आचरण बड़े आदरसे करना चाहिए ॥१०९॥ क्रोध, मान माया और लोभ ये चार कषाय महाशत्रु हैं, इन्हींके द्वारा जीव संसारमें परिभ्रमण करता है ॥११०॥ आगमके अनुसार कार्य करनेवाले मनुष्यको क्षमासे क्रोधका, मृदुतासे मानका, सरलतासे मायाका और संतोपसे लोभका निग्रह करना चाहिए ॥१११॥ अभी ऊपर जिन व्रत समिति आदिका वर्णन किया है वह सब धर्म कहलाता है। इसके सिवाय त्याग भी विशेषधर्म कहा गया है ॥११२॥ स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण ये पाँच इन्द्रियाँ प्रसिद्ध हैं। इनका जीतना धर्म कहलाता है ॥११३॥ उपवास, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश ये छह बाह्यतप हैं। बाह्यतप अन्तरङ्ग तपकी रक्षाके लिए वृत्ति अर्थात् बाड़ीके समान हैं ॥११४-११५॥ प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान ये छह आभ्यन्तर तप हैं। यह समस्त तप धर्म कहलाता है ॥११६-११७॥ भव्य जीव इस धर्मके द्वारा कर्मोंका वियोजन अर्थात् विनाश तथा अनन्त व्यवसायोंको परिवर्तित करनेवाले अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं ॥११८॥ यह जीव धर्मके प्रभावसे ऐसा विक्रियात्मक शरीर प्राप्त करता है कि जिसके द्वारा समस्त मनुष्य और देवोंको बाधा देने तथा लोकाकाशको व्याप्त करनेमें समर्थ होता है ॥११९॥ धर्मके प्रभावसे यह जीव इतना महाबलवान् हो जाता है कि तीनों लोकोंको एक ग्रास बना सकता है। अणिमा, महिमा आदि आठ प्रकारके ऐश्वर्य तथा अनेक

१. -मभाव इति साधवा क०, ख०, व० । २. कषायायैरय म० । ३. परिवर्तते म०, ख० ।
 ४. मृदुतः सगाद्दृष्टिद्योगतः म० । ५. -भिधावतः म० । ६. बाह्य तपोऽभ्यन्तरतपसो रक्षणाय वृत्तितुल्यमस्तीति भावः । ७. एतदभ्यन्तरे म० ।

हन्ति तापं सहस्राशोस्तुपारत्वमुद्गुप्रभो । करोति पूरणं वृष्ट्या सर्वस्य जगतः क्षणात् ॥१२१॥
 भस्मता नयते लोकमाशीविपवदीक्षणात् । कुरुते मन्दरोत्क्षेप विक्षेपणमुदन्वताम् ॥१२२॥
 ज्योतिश्चक्रं समुद्धर्तुमिन्द्ररुद्रादिसाध्वसम् । रत्नकाञ्चनवर्षं च प्रावमघातसर्जनम् ॥१२३॥
 व्याधीनामतितीव्राणां शमनं पादपांसुना । नृणामद्भुतहेतूनां विभवानां समुद्भवम् ॥१२४॥
 जीवः करोति धर्मेण तथान्यदपि दुष्करम् । नैव किञ्चिदसाध्यत्वं धर्मस्य प्रतिपद्यते ॥१२५॥
 धर्मेण मरणं प्राप्ता ज्योतिश्चक्रतिरस्कृतिम् । कृत्वा कल्पान्प्रपद्यन्ते सौधर्मादीन् गुणालयान् ॥१२६॥
 सामानिका सुरा, केचिद्भवन्त्यन्ये सुराधिपा । अहमिन्द्रास्तथान्ये च कृत्वा धर्मस्य समग्रम् ॥१२७॥
 हेमस्फटिकवैडूर्यस्तम्भसभारनिर्मितान् । तद्भित्तिभासुरास्तुङ्गान् प्रासादान्वद्भूमिकान् ॥१२८॥
 अम्भोजदधिमध्वाट्टिविचित्रमणिक्लृष्टिमान् । मुक्ताकलापसयुक्तान् वातायनविराजितान् ॥१२९॥
 रुरुभिश्चमरैः सिंहैर्गजैरन्यैश्च चारुभिः । रूपनिश्चितपार्श्वभिर्वेदिकाभिरलकृतान् ॥१३०॥
 चन्द्रशालादिमिर्युक्तान् ध्वजमालाविभूषितान् । सोपाश्रयमनोहारिशयनासनसगतान् ॥१३१॥
 आतोद्यवरसम्पूर्णानिच्छासचारकारिणः । युक्तान्सत्परिवर्गेण पुण्डरीकादिलक्षितान् ॥१३२॥
 विमानप्रभृतीन् जीवा निलयान् वर्मकारिण । प्रपद्यन्तेऽर्कशीताशुदीप्तिकान्त्यभिभाविनः ॥१३३॥
 सुखनिद्राक्षये यद्वद्विबुद्धं विमलेन्द्रियम् । अचिरोदिततिग्माशुदीप्तकान्त्या सम विधो ॥१३४॥

दुर्लभ योग भी यह धर्मके प्रभावसे प्राप्त करता है ॥१२०॥ यह जीव धर्मके प्रभावसे सूर्यके सन्तापको और चन्द्रमाकी शीतलताको नष्ट कर सकता है तथा वृष्टिके द्वारा समस्त संसारको क्षणभरमें भर सकता है ॥१२१॥ यह धर्मके प्रभावसे आशीविप सौपके समान दृष्टिमात्रसे लोकको भस्म कर सकता है, मेरु पर्वतको उठा सकता है और समुद्रको विखेर सकता है ॥१२२॥ धर्मके ही प्रभावसे ज्योतिश्चक्रको उठा सकता है, इन्द्र रुद्र आदि देवोंको भयभीत कर सकता है रत्न और सुवर्णकी वर्षा कर सकता है, तथा पर्वतोंके समूहकी सृष्टि कर सकता है ॥१२३॥ धर्मके ही प्रभावसे अत्यन्त भयंकर वीमारियोंकी शान्ति अपने पैरकी धूलिसे कर सकता है तथा मनुष्योंको अन्य अनेक आश्चर्य कारक वैभवकी प्राप्ति करा सकता है ॥१२४॥ जीव धर्मके प्रभावसे और भी कितने ही कठिन कार्य कर सकता है । यथार्थमें धर्मके लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है ॥१२५॥ जो जीव धर्म पूर्वक मरण करते हैं वे ज्योतिश्चक्रको उल्लंघनकर गुणोंके निवास भूत सौधर्मादि स्वर्गोंमें उत्पन्न होते हैं ॥१२६॥ धर्मका उपार्जन कर कितने ही सामानिक देव होते हैं, कितने ही इन्द्र होते हैं, और कितने ही अहमिन्द्र बनते हैं ॥१२७॥ धर्मके प्रभावसे जीव उन महलोमें उत्पन्न होते हैं जो कि स्वर्ण, स्फटिक और वैडूर्य मणिमय खम्भोंके समूहसे निर्मित होते हैं जिनकी स्वर्णादिनिर्मित दीवाले सदा देदीप्यमान रहती हैं जो अत्यन्त ऊँचे और अनेक भूमियों (खण्डों) से युक्त होते हैं ॥१२८॥ जिनके फर्श पद्मराग, दधिराग तथा मधुराग आदि विचित्र-विचित्र मणियों से बने होते हैं, जिनमें मोतियोंकी मालाएँ लटकती रहती हैं, जो झरोखोंसे सुशोभित होते हैं ॥१२९॥ जिनके किनारोंपर हरिण, चमरी गाय, सिंह, हाथी तथा अन्यान्य जीवोंके सुन्दर-सुन्दर चित्र चित्रित रहते हैं ऐसी वेदिकाओंसे जो अलकृत होते हैं ॥१३०॥ जो चन्द्रशाला आदिसे सहित होते हैं, ध्वजाओं और मालाओंसे अलकृत रहते हैं तथा जिनकी कक्षाओंमें मनोहारी शय्याएँ और आसन विद्ये रहते हैं ॥१३१॥ धर्म धारण करनेवाले लोग ऐसे विमान आदि स्थानोंमें उत्पन्न होते हैं जो वादित्र आदि संगीतके साधनोंसे युक्त रहते हैं, इच्छानुसार जिनमें गमन होता है, जो उत्तम परिष्कारसे सहित होते हैं, कमल आदि प्रसाधन सामग्रीसे युक्त रहते हैं और अपनी प्रभासे सूर्यकी दीप्ति और चन्द्रमाकी कान्तिको तिरस्कृत करते रहते हैं ॥१३२-१३३॥ धर्मके प्रभावसे प्राणियोंको देव-भवनोंमें ऐसा वैक्रियिक

रजःस्वेदरुजामुक्तं स्वामोदममलं मृदु । श्रिया परमया युक्तं चक्षुष्यमुपपादजम् ॥१३५॥
 शरीर लभ्यते धर्मात् प्राणिभिः सुरसद्यसु । अलकाराश्च आचक्रतिरोहितदिगन्तराः ॥१३६॥
 सरोरुहदलस्पर्शचरणाः कान्तिवन्नखाः । तुलाकोटिकसदृशरत्नांशुकदशाननाः ॥१३७॥
 रम्भास्तम्भसमस्पर्शजङ्घान्तर्गतजानुकाः । काञ्चीगुणाञ्चितोदारनितम्बा द्विरदक्रमाः ॥१३८॥
 अनुदारवलीभङ्गतनुमध्यविराजिताः । नवोदितक्षपानाथप्रतिमस्तनमण्डलाः ॥१३९॥
 रत्नावलीप्रभाजालनिर्मुक्तघनचन्द्रिकाः । मालतीमार्दवोपेततनुवाहुलताभृतः ॥१४०॥
 महार्धमणिवाचालवलयकुलपाणयः । अशोकपल्लवस्पर्शकराङ्गुलिलगलप्रभाः ॥१४१॥
 कम्बुकण्ठा रदच्छायापिहितद्विजवाससः । लावण्यलिससर्वाशकपोलामलदर्पणाः ॥१४२॥
 लोचनान्तघनच्छायाकृतकर्णावतसकाः । मुक्तापरीतपद्माभिमणिसीमन्तभूषणाः ॥१४३॥
 भ्रमरासितसूक्ष्मातिमृदुक्वेशकलापिकाः । मृणालकोमलस्पर्शवपुषो मधुरस्वराः ॥१४४॥
 अत्यन्तमुपचारज्ञा नितान्तसुभगक्रियाः । नन्दनप्रभवामोदसमनिश्वाससौरभाः ॥१४५॥
 इङ्गितज्ञानकुशलाः पञ्चेन्द्रियसुखावहाः । कामरूपधरा धर्माध्याप्यन्तेऽप्सरसो दिवि ॥१४६॥

शरीर प्राप्त होता है जो कि सुखमय निद्राके दूर होनेपर जागृत हुए के समान जान पड़ता है, जिसकी इन्द्रियो अत्यन्त निर्मल होती हैं । जो तत्काल उदित सूर्यके समान देदीग्यमान होता है जो कान्तिसे चन्द्रमाकी तुलना प्राप्त करता है, रज, पसीना तथा वीमारीसे रहित होता है, अत्यन्त सुगन्धित निर्मल और कोमल होता है, उत्कृष्ट लक्ष्मीसे युक्त, नयनाभिराम और उपपाद जन्मसे उत्पन्न होता है । इसके सिवाय अपनी कान्तिके समूहसे दिगन्तरालको आच्छादित करनेवाले आभूषण भी प्राप्त होते हैं ॥१३४-१३६॥

धर्मके प्रभावसे स्वर्गसे ऐसी अप्सराएँ प्राप्त होती हैं जिनके कि चरणोंका स्पर्शन कमल दलके समान कोमल होता है, जिनके नख अत्यन्त कान्तिमान् होते हैं, जिनके लाल-लाल वल्लोंके अञ्जल नूपुरोंमें उलभते रहते हैं ॥१३७॥ जिनकी जङ्घाएँ केलेके स्तम्भके समान स्निग्ध स्पर्शसे युक्त होती हैं, जिनके घुटने मांस-पेशियोंसे अन्तर्निहित रहते हैं, जिनके स्थूल नितम्ब मेखलाओंसे सुशोभित होते हैं, जिनकी चाल हाथीकी चालके समान मस्तीसे भरी रहती है ॥१३८॥ जो सूक्ष्म त्रिवलिसे युक्त मध्यभागसे सुशोभित होती हैं, जिनके स्तनोंके मण्डल नवीन उदित चन्द्रमाके समान होते हैं ॥१३९॥ जिनकी रत्नावलीकी कान्तिसे सदा चोंदनी छिटकती रहती है, जो मालतीके समान कोमल और पतली भुजा रूपी लताओंको धारण करती है ॥१४०॥ जिनके हाथ महामूल्य मणियोंकी खनकती हुई चूड़ियोंसे सदा युक्त रहते हैं, अशोक पल्लवके समान कोमलता धारण करनेवाली जिनकी अङ्गुलियोंसे मानो कान्ति चूती रहती है ॥१४१॥ जिनके कण्ठ शङ्खके समान होते हैं, जिनके ओठ दाँतोंकी कान्तिसे आच्छादित रहते हैं, जिनके कपोल रूपी निर्मल दर्पणोंका समस्त भाग लावण्यसे संलिप्त रहता है ॥१४२॥ जिनके नयनान्तकी सघन कान्ति सदा कर्णाभरणकी शोभा बढ़ाया करती है, मोतियोंसे व्याप्त पद्मराग मणि, जिनकी मोंगको अलङ्कृत करते रहते हैं ॥१४३॥ जिनके केशोंके समूह भ्रमरके समान काले, सूक्ष्म और अत्यन्त कोमल हैं, जिनके शरीरका स्पर्श मृणालके समान कोमल है, जिनकी आवाज अत्यन्त मधुर है ॥१४४॥ जो सब प्रकारका उपचार जानती हैं, जिनकी समस्त क्रियाएँ अत्यन्त मनोहर हैं, जिनके श्वासोच्छ्वासकी सुगन्धि नन्दनवनकी सुगन्धिके समान है ॥१४५॥ जो अभिप्रायके समभक्तमे कुशल पञ्चेन्द्रियोंको सुख पहुँचानेवाली और इच्छानुसार रूपको धारण करनेवाली

१. सामोद म० । २. नयनाभिरामम् । ३. उपपादजन्मजातम् । ४. दिगन्तरम् म० । ५. संदृष्ट ख० । ६. तुलाकोटिकश्चहीतरक्तवस्त्रान्ताः । ७. गजगामिन्यः । ८. दन्तप्रमाच्छादिताधराः ।

संकल्पमात्रसंभूतसर्वोपकरणं पुरु । विषयोत्थं सुखं तामिः प्राप्नुवन्ति समं सुरा ॥१४७॥
 सुखं यन्त्रिदशवासे यच्च मानुषविष्टपे । फलं तद्द्रवितं सर्वं धर्मस्य जिनपुङ्गवै ॥१४८॥
 ऊर्ध्वाग्रोमध्यलोकेषु यो नाम सुखसञ्चितः । भोक्तृणां जायते भावः स सर्वो धर्मसंभवः ॥१४९॥
 दाता भोक्ता स्थितेः कर्ता यो नरः प्रतिवासरम् । रक्षते नृसहस्रौघैः सर्वं तद्दर्शनं फलम् ॥१५०॥
 यत्तत्सुरसहस्राणां हरिभूषणधारिणाम् । प्रसुत्वं कुरुते शक्रन्तत्फलं धर्मसंभवम् ॥१५१॥
 यन्मोहरिपुमुद्रास्य रत्नत्रयसमन्विताः । सिद्धस्थानं प्रपद्यन्ते शुद्धधर्मस्य तत्फलम् ॥१५२॥
 अप्राप्य मानुषं जन्म 'स च धर्मो न लभ्यते । तस्मान्मनुष्यमप्राप्तिं परमा सर्वजन्मसु ॥१५३॥
 राजा श्रेष्ठो मनुष्याणां मृगाणां केसरो यथा । पक्षिणां विनतापुत्र भवानां मानुषो भव ॥१५४॥
 सारस्त्रिभुवने धर्मः सर्वेन्द्रियसुखप्रदः । क्रियते मानुषे देहे ततो मनुजता परा ॥१५५॥
 नृणानां गालयः श्रेष्ठाः पादपानां च चन्दनाः । उपलानां च रत्नानि भवानां मानुषो भव ॥१५६॥
 उत्सर्पिणीसहस्राणि परिभ्रम्य क्रयञ्चनः । लभ्यते वा न वा जन्म मनुष्याणां शरीरिणा ॥१५७॥
 अवाप्य दुर्लभं तद्यः क्लेशनिर्मोक्षकारणम् । जनो न कुरुते धर्मं यात्यसौ दुर्गतीः पुनः ॥१५८॥
 पतितं तन्मनुष्यत्वं पुनर्दुर्लभसङ्गमम् । समुद्रसलिले नष्टं यथा रत्नं महारुणम् ॥१५९॥
 इहैव मानुषे लोके कृत्वा धर्मं यथोचितम् । स्वर्गादिषु प्रपद्यन्ते सर्वं प्राणभृतः फलम् ॥१६०॥
 सर्वज्ञोक्तमिदं श्रुत्वा भानुकर्णं ससमदः । भक्त्या प्रणम्य पञ्चाक्षं पर्यपृच्छत्कृताञ्जलि ॥१६१॥

हैं ॥१४६॥ देव लोग, उन अ-सराओके साथ जहाँ संकल्पमात्रसे ही समस्त उपकरण उपस्थित हो जाते हैं ऐसा विषयजन्य विशाल सुख भोगते हैं ॥१४७॥ अथवा मनुष्य लोकमें जो सुख प्राप्त होता है जिनेन्द्र देवने उस सबको धर्मका फल कहा है ॥१४८॥ ऊर्ध्व, मध्य और अधो लोकमें उपभोक्ताओंको जो भी सुख नामका पदार्थ प्राप्त होता है वह सब धर्मसे ही उत्पन्न होता है ॥१४९॥ दान देनेवाले, उपभोग करनेवाले, एवं मर्यादा स्थापित करनेवाले मनुष्यको जो हजारों मनुष्योंके भुण्ड रक्षा करते हैं वह सब धर्मसे उत्पन्न हुआ फल समझना चाहिए ॥१५०॥ मनोहर आभूषण धारण करनेवाले हजारों देवोंपर इन्द्र जो शासन करता है वह धर्मसे उत्पन्न हुआ फल है ॥१५१॥ सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रयसे युक्त जो पुरुष मोहरूपी शत्रुको नष्टकर मोक्ष स्थान प्राप्त करते हैं वह शुद्ध धर्मका फल है ॥१५२॥ मनुष्य-जन्मके विना अन्यत्र वह धर्म प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए मनुष्यभवकी प्राप्ति सब भवोंमें श्रेष्ठ है ॥१५३॥ जिस प्रकार मनुष्योंमें राजा, मृगोंमें सिंह, और पक्षियोंमें गरुड़ श्रेष्ठ है उसी प्रकार सब भवोंमें मनुष्यभव श्रेष्ठ है ॥१५४॥ तीनों लोकोंमें श्रेष्ठ एवं समस्त इन्द्रियोंको सुख देनेवाला धर्म मनुष्य शरीरमें ही किया जाता है इसलिए मनुष्य देह ही सर्व श्रेष्ठ है ॥१५५॥ जिस प्रकार नृणोंमें धान, वृक्षोंमें चन्दन और पत्थरोंमें रत्न श्रेष्ठ है उसी प्रकार सब भवोंमें मनुष्यभव श्रेष्ठ है ॥१५६॥ हजारों उत्सर्पिणियोंमें भ्रमण करनेके बाद यह जीव किसी तरह मनुष्य जन्म प्राप्त करता है और नहीं भी प्राप्त करता है ॥१५७॥ क्लेशोंसे छुटकारा देनेवाले उस मनुष्य जन्मको पाकर जो मनुष्य धर्म नहीं करता है वह पुनः दुर्गतियोंको प्राप्त होता है ॥१५८॥ जिस प्रकार समुद्रके पानीमें गिरा महामूल्य रत्न दुर्लभ हो जाता है उसी प्रकार नष्ट हुए मनुष्य-जन्मका पुनः पाना भी दुर्लभ है ॥१५९॥ इसी मनुष्य पर्यायमें यथायोग्य धर्मकर प्राणी स्वर्गादिकमें समस्त फल प्राप्त करते हैं ॥१६०॥

सर्वज्ञ देवके द्वारा कहे हुए इस उपदेशको सुनकर भानुकर्ण बहुत ही हर्षित हुआ । उसके नेत्र कमलके समान विकसित हो गये । उसने भक्तिपूर्वक प्रणामकर तथा हाथ जोड़कर पूछा

भगवन्न ममाद्यापि जायते प्राप्तवृत्तिता । अतो विधानतो धर्मं निवेदयितुमर्हसि ॥१६२॥
 ततोऽनन्तबलोऽवोचद्विशेषं^१ सौकृतं शृणु । संसाराद्येन मुच्यन्ते प्राणिनो भव्यतामृतः ॥१६३॥
 द्विविधो गदितो धर्मो महत्त्वादागवात्तथा । आद्योऽगारविमुक्तानामन्यश्च भववर्तिनाम् ॥१६४॥
 विसृष्टसर्वसङ्गानां श्रमणानां महात्मनाम् । कीर्तयामि समाचारं दुरितक्षोदनक्षमम् ॥१६५॥
 मते सुव्रतनाथस्य लीना^२ निखिलवेदिनः । मृत्युजन्मसमुद्भूतमहात्राससमन्विताः ॥१६६॥
 एरण्डसदृश ज्ञात्वा मनुष्यत्वमसारकम् । सङ्गेन^३ रहिता धन्या श्रमणत्वमुपाश्रिताः ॥१६७॥
 रता महत्त्वयुक्तेषु पञ्चसख्येषु साधवः । व्रतेष्वविग्रहत्यागात्तत्त्वाव्रगमतत्पराः ॥१६८॥
 समितिष्वपि तत्सख्यासगतासु सुचेतसः । अभियुक्ता महासत्त्वास्त्रिसख्यासु च गुप्तिषु ॥१६९॥
 अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यं यथोदितम् । येषामस्ति न तेषां स्यात्परिग्रहसमाश्रयः ॥१७०॥
 देहेऽपि ये न कुर्वन्ति निजे^४ रागं मनीषिणः । कः स्यात्परिग्रहस्तेषां यत्नास्तमितशायिनाम्^५ ॥१७१॥
 अपि वालाग्रमात्रेण पापोपार्जनकारिणा । ग्रन्थेन रहिता धीरा मुनयः सिंहविक्रमाः ॥१७२॥
^६समस्तप्रतिबन्धेन समीरणवदुष्किताः । खगानामपि सङ्गः स्यान्न तु तेषां मनागपि ॥१७३॥
 व्योमवन्मलसम्बन्धरहिताः श्लाघ्यचेष्टिताः । रजनीनाथवत्सौम्या दीप्ता दिवसनाथवत् ॥१७४॥
 निम्नगानाथगम्भीरा धीरा भूधरनाथवत् । भीतकूर्मवदत्यन्तगुप्तेन्द्रियकृदम्बकाः ॥१७५॥

कि ॥१६१॥ हे भगवन् ! अभी-जो उपदेश प्राप्त हुआ है उससे मुझे वृत्ति नहीं हुई है अतः भेद-प्रभेदके द्वारा धर्मका निरूपण कीजिए ॥१६२॥ तब अनन्तबल केवली कहने लगे कि अच्छा धर्मका विशेष वर्णन सुनो जिसके प्रभावसे भव्यप्राणी संसारसे मुक्त हो जाते हैं ॥१६३॥ महाव्रत और अणुव्रतके भेदसे धर्म दो प्रकारका कहा गया है । उनसेसे पहला अर्थात् महाव्रत गृहत्यागी मुनियोंके होता है और दूसरा अर्थात् अणुव्रत संसारवर्ती गृहस्थोंके होता है ॥१६४॥ अब मैं समस्त परिग्रहोसे रहित महान् आत्माके धारी मुनियोंका वह चरित्र कहता हूँ जो कि पापोंको नष्ट करनेमें समर्थ है ॥१६५॥ समस्त पदार्थोंको जाननेवाले मुनि सुव्रतनाथ तीर्थङ्करके तीर्थमें ऐसे कितने ही महापुरुष हैं जो जन्म-मरण सम्बन्धी महाभयसे युक्त हैं ॥१६६॥ ये मनुष्य पर्यायको एरण्ड वृक्षके समान निःसार जानकर परिग्रहसे रहित हो मुनिपदको प्राप्त हुए हैं ॥१६७॥ वे साधु सदा पञ्च महाव्रतोमें लीन रहते हैं और शरीर त्याग पर्यन्त तत्त्वज्ञानके प्राप्त करनेमें तत्पर होते हैं ॥१६८॥ शुद्ध हृदयको धारण करनेवाले ये धैर्यशाली मुनि पाँच समितियों और तीन गुप्तियोंमें सदा लीन रहते हैं ॥१६९॥ अहिंसा, सत्य, अचौर्य और आगमानुमोदित ब्रह्मचर्य उन्हींके होता है जिनके कि परिग्रहका आलम्बन नहीं होता ॥१७०॥ जो बुद्धिमान् जन अपने शरीरमें भी राग नहीं करते हैं और सूर्यास्त हो जाने पर यत्नपूर्वक विश्राम करते हैं उनके परिग्रह क्या हो सकता है ? अर्थात् कुछ नहीं ॥१७१॥ मुनि, पाप उपार्जन करनेवाले वालाग्रमात्र परिग्रहसे रहित होते हैं तथा अत्यन्त धीरवीर और सिंहके समान पराक्रमी होते हैं ॥१७२॥ ये वायुके समान सब प्रकारके प्रतिबन्धसे रहित होते हैं । पक्षियोंके तो परिग्रह हो सकता है पर मुनियोंके रज्जुमात्र भी परिग्रह नहीं होता ॥१७३॥ ये आकाशके समान मलके संसर्गसे रहित होते हैं, इनकी चेष्टाएँ अत्यन्त प्रशंसनीय होती हैं, ये चन्द्रमाके समान सौम्य और दिवाकरके समान देदीप्यमान होते हैं ॥१७४॥ ये समुद्रके समान गम्भीर, सुमेरुके समान धीरवीर, और भयभीत कछुएके समान समस्त इन्द्रियोंके समूहको अत्यन्त गुप्त रखनेवाले होते

१. सुकृतस्येद सौकृतम् । २. लीला- म० । ३. महत्त्वात् म० । ४. संज्ञेन म० । ५. श्रवणत्व- म०, व०, क० । ६. रागे म० । ७. यत्नास्तमित-म०, यशस्तमित-ख० । ८. यत्नेनास्तमिते शेरत इत्येवं शीलानाम् । ९. प्रतिबन्धरहितत्वेन ।

'क्षमया क्षमया तुल्या' कपायोद्रेकवर्जिता । अशीत्या गुणलक्षणां चतु सहितयान्विता ॥१७६॥
 अष्टादशजिनोद्दिष्टशीलचक्षुसमन्विता । अयन्ताद्यास्तपोभूत्या सिद्धाकाङ्क्षणतत्परा ॥१७७॥
 जिनोदितार्थसम्क्ता विदितापरशासना । श्रुतसागरपारस्था मुनयो यमधारिणः ॥१७८॥
 नियमानां विधातारः समुन्नद्धतयोष्किता । नानालब्धिकृतासङ्गा महामङ्गलमूर्तयः ॥१७९॥
 पूवगुणा समस्तस्य जगतः कृतमण्डना । श्रमणास्तनुकर्माण प्रयान्युत्तमदेवताम् ॥१८०॥
 द्वित्रैर्भवेश्च नि गेपं कल्प ध्यानवह्निना । निर्दह्य प्रतिपद्यन्ते सुख सिद्धसमाश्रितम् ॥१८१॥
 स्नेहपञ्जररुद्धानां गृहाश्रमनिवासिनाम् । धर्मोपाय प्रवक्ष्यामि शृणु द्वादशधा स्थितम् ॥१८२॥
 'व्रतान्यणूनि पञ्चैषा शिक्षा चोक्ता चतुर्विधा । गुणास्त्रयो यथाशक्तिनियमास्तु' सहस्रशः ॥१८३॥
 प्राणातिपाततः स्थूलाद्विरतिर्व्रितयाचर्या । ग्रहणात्परवित्तस्य परदारसमागमात् ॥१८४॥
 अनन्तायाश्च गर्द्धाया पञ्चसख्यमिद व्रतम् । भावना चैयमेतेषा कथिता जिनपुङ्गवै ॥१८५॥
 इष्टो यथात्मनो देहः सर्वेषा प्राणिना तथा । एव ज्ञात्वा सदा कार्या दया सर्वासुधारिणाम् ॥१८६॥
 एषं हि पराकाष्ठा धर्मस्योक्ता जिनाधिपैः । दयारहितचित्तानां धर्मः स्वल्पोऽपि नेप्यते ॥१८७॥
 वचनं परपीडाया हेतुन्व यत्प्रपद्यते । अर्लाकमेव तत्प्रोक्त सत्यमस्माद्विपर्यये ॥१८८॥
 वधादि कुरुते जन्मन्यस्मिंस्तेयमनुष्ठितम् । कर्तुं परत्र दु खानि विविधानि कुयोनिषु ॥१८९॥
 तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मतिमान् वर्जयेन्नरः । लोकद्वयविरोधस्य निमित्त क्रियते कथम् ॥१९०॥

हैं ॥१७५॥ ये क्षमाधर्मके कारण क्षमा अर्थात् पृथ्वीके तुल्य हैं, कपायोके उद्रेकसे रहित हैं और चौरामोलाख गुणांसे सहित हैं ॥१७६॥ जिनेन्द्र प्रतिपादित शीलके अठारहलाख भेदोंसे सहित हैं, तपरूपी विभूतिसे अत्यन्त सम्पन्न हैं तथा मुक्तिकी इच्छा करनेमें सदा तत्पर रहते हैं ॥१७७॥ ये मुनि जिनेन्द्रनिरूपित पदार्थोंमें लीन रहते हैं, अन्य धर्मोंके भी अच्छे जानकार होते हैं, श्रुतरूपी सागरके पारगामी और यमके धारी होते हैं ॥१७८॥ ये मुनि अनेक नियमोंके करनेवाले, उद्दण्डतासे रहित, नाना ऋद्धियोंसे सम्पन्न और महामङ्गलमय शरीरके धारक होते हैं ॥१७९॥ इस तरह जो पूर्वोक्त गुणोंको धारण करनेवाले हैं, समस्त जगत्के आभरण हैं और जिनके कर्म क्षीण हो गये हैं ऐसे मुनि उत्तम देव पदको प्राप्त होते हैं ॥१८०॥ तदनन्तर दो-तीन भवोंमें ध्यानाग्निके द्वारा समस्त कल्पताको जलाकर निर्वाण-सुखको प्राप्त कर लेते हैं ॥१८१॥

अब स्नेहरूपी पिंजड़ेमें रुके हुए गृहस्थाश्रमवासी लोगोंका चारह प्रकारका धर्म कहता हूँ सो सुनो ॥१८२॥ गृहस्थोंको पाँच अणुव्रत, चार शिक्षाव्रत, तीन गुणव्रत और यथाशक्ति हजारों नियम धारण करने पड़ते हैं ॥१८३॥ स्थूल हिंसा, स्थूल मूठ, स्थूल परद्रव्यग्रहण, परस्त्री समागम और अनन्ततृष्णासे विरत होना ये गृहस्थोंके पाँच अणुव्रत कहलाते हैं। इन व्रतोंकी रक्षाके लिए जिनेन्द्रदेवने निम्नाङ्कित भावनाका निरूपण किया है ॥१८४-१८५॥ गृहस्थको ऐसा जानकर कि जिस प्रकार मुझे अपना शरीर इष्ट है उसी प्रकार समस्त प्राणियोंको भी अपना-अपना शरीर इष्ट होता है सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए ॥१८६॥ जिनेन्द्रदेवने दयाको ही धर्मकी परम सीमा बतलाई है। यथार्थमें जिनके चित्त दयारहित हैं उनके थोड़ा भी धर्म नहीं होता है ॥१८७॥ जो वचन दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेमें निमित्त है वह असत्य ही कहा गया है, क्योंकि सत्य इससे विपरीत होता है ॥१८८॥ कौ गई चोरी इस जन्ममें वध, वन्धन आदि कराती है और मरनेके बाद कुयोनियोंमें नाना प्रकारके दुःख देती है ॥१८९॥ इसलिए बुद्धिमान्

१. क्षान्त्या । २. पृथिव्या । ३. सहस्रशीलयान्विताः ख० । शीलसहस्रचान्विताः व०, म० ।
 ४. निर्दह्य म० । ५. व्रतान्यमूनि म० । ६. शिक्षा म० । ७. निर्यमास्तु म० । ८. वितथा म० ।
 ९. सर्वप्राणिनाम् । १०. -मस्मद्विपर्यये म० ।

परिवर्ज्या भुजङ्गीव वनितान्धस्य दूरतः । सा हि लोभवशा पापा पुरुषस्य विनाशिका ॥१६१॥
 यथा च जायते दुःख रुद्धायामात्मयोषिति । नरान्तरेण सर्वेषामियमेव व्यवस्थितिः ॥१६२॥
 उदारश्च तिरस्कारः प्राप्यतेऽत्रैव जन्मनि । तिर्यङ्नरकयोर्दुःखं प्राप्यमेवातिदुस्सहम् ॥१६३॥
 प्रमाण कार्यमिच्छाया. सा हि दद्यान्निरकुशा । महाःदुःखमिहाख्येयौ भद्रकाञ्चनसङ्गौ ॥१६४॥
 विक्रेता वदरादीनां भद्रो दीनारमात्रकम् । द्रविण प्रत्यजानीत दृष्टातो^३ वर्त्मनि च्युतम् ॥१६५॥
^४प्रसेवकमितोऽगृह्णादीनार तु कुतूहली । तत्र काञ्चननामा तु सर्वमेव प्रसेवकम् ॥१६६॥
 दीनारस्वामिना राजा काञ्चनो वीक्ष्य नाशितः । स्वयमर्पितदीनारो भद्रस्तु परिपूजितः ॥१६७॥
 विगमोऽनर्थदण्डेभ्यो दिग्विदिकूपरिवर्जनम् । भोगोपभोगसख्यानं त्रयमेतद्गुणव्रतम् ॥१६८॥
 सामायिक^५ प्रयत्नेन प्रोषधानशन तथा । सविभागोऽतिथीनां च सल्लेखश्चायुपः क्षये ॥१६९॥
 संकेतो न तिथौ यस्य कृतो यश्चापरिग्रहः । गृहमेति गुणैर्युक्तः श्रमणः सोऽतिथिः स्मृतः ॥२००॥
 सविभागोऽस्य कर्तव्यो यथाविभवमादरात् । विधिना लोभमुक्तेन^६ भिक्षोपकरणादिभिः ॥२०१॥
 मधुनो मद्यतो मांसाद् धूततो रात्रिभोजनात् । वेश्यासंगमनाच्चास्य विरतिर्नियमः स्मृतः ॥२०२॥

मनुष्यको चाहिए कि वह चोरीका सर्व प्रकारसे त्याग करे । जो कार्य दोनो लोकमे विरोधका कारण है वह किया ही कैसे जा सकता है ? ॥१६०॥ परस्त्रीका सर्पिणीके समान दूरसे ही त्याग करना चाहिए क्योंकि वह पापिनी लोभके वशीभूत हो पुरुषका नाश कर देती है ॥१६१॥ जिस प्रकार अपनी स्त्रीको कोई दूसरा मनुष्य छेड़ता है और उससे अपने आपको दुःख होता है उसी प्रकार सभीकी यह व्यवस्था जाननी चाहिए ॥१६२॥ परस्त्री सेवन करनेवाले मनुष्यको इसी जन्ममें बहुत भारी तिरस्कार प्राप्त होता है और मरने पर तिर्यञ्च तथा नरकगतिके अत्यन्त दुःसह दुःख प्राप्त करने ही पड़ते हैं ॥१६३॥ अपनी इच्छाका सदा परिमाण करना चाहिए क्योंकि इच्छा पर यदि अङ्कुश नहीं लगाया गया तो वह महादुःख देती है । इस विषयमे भद्र और काञ्चनका उदाहरण प्रसिद्ध है ॥१६४॥ वैर आदिको वेचनेवाला एक भद्र नामक पुरुष था । उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक दीनारका ही परिग्रह रक्खूँगा । एक बार उसे मार्गमे पड़ा हुआ बटुआ मिला । उस बटुएमे यद्यपि बहुत दीनारों रक्खीं थी पर भद्रने अपनी प्रतिज्ञाका ध्यान कर कुतूहलवश उनमेसे एक दीनार निकाल ली । शेष बटुआ वहीं छोड़ दिया । वह बटुआ काञ्चन नामक दूसरे पुरुषने देखा तो वह सबका सब उठा लिया । दीनारोंका स्वामी राजा था जब उसने जाँच-पड़ताल की तो काञ्चनको मृत्युकी सजा दी गई और भद्रने जो एक दीनार ली वह स्वयं ही जाकर राजाको वापिस कर दी जिससे राजाने उसका सन्मान किया ॥१६५-१६७॥

अनर्थदण्डोका त्याग करना, दिशाओ और विदिशाओमे आवागमकी सीमा निर्धारित करना और भोगोपभोगका परिमाण करना ये तीन गुणव्रत हैं ॥१६८॥ प्रयत्न पूर्वक सामायिक करना, प्रोषधोपवास धारण करना, अतिथिसंविभाग और आयुका क्षय उपस्थित होनेपर सल्लेखना धारण करना ये चार शिक्षाव्रत हैं ॥१६९॥ जिसने अपने आगमनके विषयमे किसी तिथिका संकेत नहीं किया है, जो परिग्रहसे रहित है और सम्यग्दर्शनादि गुणोंसे युक्त होकर घर आता है ऐसा मुनि अतिथि कहलाता है ॥२००॥ ऐसे अतिथिके लिए अपने वैभवके अनुसार आदरपूर्वक लोभरहित हो भिक्षा तथा उपकरण आदि देना चाहिए यही अतिथिसंविभाग है ॥२०१॥ इनके सिवाय गृहस्थ मधु, मद्य, मांस, जुआ, रात्रिभोजन और वेश्यासमागमसे जो

१. अधिकः । २. महद्दुःख- म० । ३. दृष्टा तौ व० । ४. बटुआ इति हिन्दी । ५. प्रयत्नेन म० । ६. सल्लेखश्चायुपः म० । ७. युक्ताः म० । ८. लोभयुक्तेन म० ।

गृहधर्ममिम कृत्वा समाधिप्राप्तपञ्चतः । प्रपद्यते सुदेवत्वं च्युत्वा च सुमनुष्यताम् ॥२०३॥
 भवानामेवमष्टानामन्तः कृत्वा नुवर्तनम् । रत्नत्रयस्य निर्ग्रन्थो भूत्वा सिद्धिं समश्नुते ॥२०४॥
 नरत्वं दुर्लभं प्राप्य यथोक्ताचरणान्ममः । श्रद्धाति जिनोक्तं यं सोऽप्यासन्नशिवालय ॥२०५॥
 सम्यग्दर्शनलाभेन केवलेनापि मानव । सर्वलाभवरिष्ठेन दुर्गतित्रासमुद्धमति ॥२०६॥
 कुर्वते यो जिनेन्द्राणां नमस्कारं स्वभावतः । पुण्याधारः स पापस्य लवेनापि न युज्यते ॥२०७॥
 यं स्मरत्यपि भावेन जिनास्तस्याशुभं क्षयम् । सद्यः समस्तमायाति भवकोटिभिरजितम् ॥२०८॥
 प्रशस्ता सततं तस्य ग्रहाः स्वप्नाः शकुन्तयः । त्रैलोक्यसाररत्नं यो दधाति हृदये जितम् ॥२०९॥
 अर्हते नम इत्येतत्प्रयुञ्जे यो वचो जनः । भावात्तस्याचिरात् कृत्स्नकर्ममुक्तिरसंशया ॥२१०॥
 जिनचन्द्रकथारश्मिसंगमादेति फुल्लताम् । सिद्धियोग्यासुमत्त्वान्तं कुमुदं परमामर्लम् ॥२११॥
 अर्हत्सिद्धसुनिम्यो यो नमस्यां कुर्वते जनः । स परीतभवो ज्ञेयः सुशासनजनप्रिय ॥२१२॥
 जिनविम्बं जिनाकारं जिनपूजां जिनस्तुतिम् । यं करोति जनस्तस्य न किञ्चिद् दुर्लभं भवेत् ॥२१३॥
 नरनाथं कुटुम्बी वा धनाढ्यो दुर्विधोऽथवा । जनो धर्मेण यो युक्तः स पूज्यः सर्वविष्टये ॥२१४॥
 महाविनयसम्पन्ना कृत्याकृत्यविचक्षणः । जनाः गृहाश्रमस्थानां प्रधाना धर्मसंगमात् ॥२१५॥
 मधुमांससुराद्रीनामुपयोगं न कुर्वते । ये जनास्ते गृहस्थानां ललामत्वे प्रतिष्ठिता ॥२१६॥

विरक्त होता है उसे नियम कहा है ॥२०२॥ इस गृहस्थ धर्मका पालनकर जो समाधिपूर्वक मरण करता है, वह उत्तमदेव पर्यायको प्राप्त होता है और वहाँसे च्युत होकर उत्तम मनुष्यत्व प्राप्त करता है ॥२०३॥ ऐसा जीव अधिकसे अधिक आठ भवोंमें रत्नत्रयका पालनकर अन्तमें निर्ग्रन्थ हो सिद्धिपदको प्राप्त होता है ॥२०४॥ जो दुर्लभ मनुष्यपर्याय पाकर यथोक्त आचरण करनेमें असमर्थ है, केवल जिनेन्द्रदेवके द्वारा कथित आचरणकी श्रद्धा करता है वह भी निकट कालमें मोक्ष प्राप्त करता है ॥२०५॥ जिसका लाभ सब लाभोंमें श्रेष्ठ है ऐसे केवल सम्यग्दर्शनके द्वारा भी मनुष्य दुर्गतिके भयसे छूट जाता है ॥२०६॥ जो स्वभावसे ही जिनेन्द्र भगवान्को नमस्कार करता है वह पुण्यका आधार होता है तथा पापके अंशमात्रका भी उससे सम्बन्ध नहीं होता ॥२०७॥ नमस्कार तो दूर रहा जो जिनेन्द्र देवका भाव पूर्वक स्मरण भी करता है उसके करोड़ों भवोंके द्वारा संचित पाप कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ॥२०८॥ जो मनुष्य तीन लोकमें श्रेष्ठ रत्नस्वरूप जिनेन्द्र देवको हृदयमें धारण करता है उसके सब ग्रह, स्वप्न और शकुन्त की सूचना देनेवाले पक्षी सदा शुभ ही रहते हैं ॥२०९॥ जो मनुष्य 'अर्हते नमः' अर्हन्तके लिए नमस्कार हो, इस वचनका भाव पूर्वक उच्चारण करता है उसके समस्त कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं इसमें संशय नहीं है ॥२१०॥ जिनेन्द्र चन्द्रकी कथा रूपी किरणोंके समागमसे भव्य जीवका निर्मल हृदयरूपी कुमुद शीघ्र ही प्रफुल्ल अवस्थाको प्राप्त होता है ॥२११॥ जो मनुष्य अर्हन्त सिद्ध और मुनियोंके लिए नमस्कार करता है वह जिनशासनके भक्त जनोंसे स्नेह रखनेवाला अर्थात् संसार है अर्थात् शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करनेवाला है ऐसा जानना चाहिए ॥२१२॥ जो पुरुष जिनेन्द्र देवकी प्रतिमा वनवाता है, जिनेन्द्र देवका आकार लिखवाता है, जिनेन्द्र देवकी पूजा करता है अथवा जिनेन्द्रदेवकी स्तुति करता है उसके लिए संसारमें कुछ भी दुर्लभ नहीं होता ॥२१३॥ यह मनुष्य चाहे राजा हो चाहे साधारण कुटुम्बी, धनाढ्य हो चाहे दरिद्र, जो भी धर्मसे युक्त होता है वह समस्त संसारमें पूज्य होता है ॥२१४॥ जो महाविनयसे सम्पन्न तथा कार्य और अकार्यके विचारमें निपुण है वे धर्मके समागमसे गृहस्थोंमें प्रधान होते हैं ॥२१५॥ जो मनुष्य मधु मांस और मदिरा आदिका उपयोग नहीं करते हैं वे गृहस्थोंके आभूषण

१. समाधिप्राप्तमरणः । २. मध्ये । ३. गृहाः सर्वे शकुन्तयः म० । ४. त्रैलोक्यं साररत्नं म० ।
 ५. भव्यप्राणिहृदयकुमुदम् । ६. परमालयम् म० । ७. अलकारत्वे ।

शङ्कया काङ्क्षया युक्ता तथा ये विचिकित्सया । सुदूररहितात्मानः परदृष्टिप्रशसया ॥२१७॥
 अन्यशासनसबद्धसस्तवेन विवर्जिता । जन्तवस्ते गृहस्थानां प्रधानपदमाश्रिताः ॥२१८॥
 सुचारुवसनोऽन्यन्तसुरभिः प्रियदर्शनः । शस्यमानः पुरस्त्राभिर्याति यो वन्दितु जिनम् ॥२१९॥
 ईक्षमाणो महीं मुक्तविकारश्चारुभावनः । साधुकृत्यसमुद्युक्तः पुण्य तस्यान्तवर्जितम् ॥२२०॥
 तृणोपम परद्रव्य पश्यन्ति स्वसम परम् । परघोषां समा मातुर्ये ते धन्यतमा जनाः ॥२२१॥
 प्रतिपद्य कदा दीक्षां विहरिष्यामि मेदिनीम् । क्षययित्वा कदा कर्म प्रपत्स्ये सिद्धसंश्रयम् ॥२२२॥
 एव प्रतिदिन यस्य ध्यान विमलचेतसः । भीतानीव न कुर्वन्ति तेन कर्माणि सगतिम् ॥२२३॥
 सप्ताष्टजन्मभिः केचित्सिद्धिं गच्छन्ति जन्तवः । केचिदुग्रतपः कृत्वा द्वित्रैरेव सुचेतसः ॥२२४॥
 क्षिप्रं यान्ति महानन्दं मध्यमा भव्यजन्तवः । असमर्थास्तु विश्रम्य मार्गस्य यदि वेदकाः^१ ॥२२५॥
 अहोऽपि योजनशतमविद्वान् वर्त्म यो जनः । भ्राम्यतीष्टमवाप्नोति स पद न चिरादपि ॥२२६॥
 तथोग्रमपि कुर्वाणास्तपो वितयदर्शनाः । प्राप्नुवन्ति पद नैव जन्ममृत्युविधर्जितम् ॥२२७॥
 मोहान्धकारसङ्घने कपायोरगसंकुले । ते भ्रमन्ति भवारण्ये नष्टमुक्तिपथा जनाः ॥२२८॥
 न शील न च सम्यक्त्व न त्यागः साधुगोचरः । यस्य तस्य भवाम्भोधितरण जायते कथम् ॥२२९॥
 विन्ध्यस्य स्रोतसा नागा यत्रोहन्ते नगोज्ञताः^३ । वराकाः शशकास्तत्र चिर नीता विसशयम् ॥२३०॥
 मृत्युजन्मजरावर्तभवस्रोतो विवर्तिनः । कुतीर्थ्या यत्र नीयन्ते तद्भक्तेष्वत्र का कथा ॥२३१॥

पद पर स्थित हैं अर्थात् गृहस्थोके आभूषण हैं ॥२१६॥ जो शङ्का काङ्क्षा और विचिकित्सासे रहित है, जिनकी आत्मा अन्यदृष्टियोंकी प्रशंसासे दूर है और जो अन्य शासन सम्बन्धी स्तवनसे वर्जित हैं वे गृहस्थोके प्रधान पदको प्राप्त हैं ॥२१७-२१८॥ जो उत्तम वस्त्रका धारक है, जिसके शरीरसे सुगन्धि निकल रही है, जिसका दर्शन सबको प्रिय लगता है, नगरकी स्त्रियों जिसकी प्रशंसा कर रही है, जो पृथिवीको देखता हुआ चलता है, जिसने सब विकार छोड़ दिये हैं, जो उत्तम भावनासे युक्त है और अच्छे कार्योंके करनेमें तत्पर है ऐसा होता हुआ जो जिनेन्द्रदेवकी वन्दनाके लिए जाता है उसे अनन्त पुण्य प्राप्त होता है ॥२१९-२२०॥ जो पर द्रव्यको तृणके समान, पर पुरुषको अपने समान और परस्त्रीको माताके समान देखते हैं वे धन्य हैं ॥२२१॥ 'मैं दीक्षा लेकर पृथिवीपर कब विहार करूँगा ? और कब कर्मोंको नष्टकर सिद्धालयमें पहुँचूँगा' जो निर्मल चित्तका धारी मनुष्य प्रति दिन ऐसा विचार करता है कर्म भयभीत होकर ही मानो उसकी संगति नहीं करते ॥२२२-२२३॥ कोई-कोई गृहस्थ प्राणी, सात आठ भवोंमें मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और उत्तम हृदयको धारण करनेवाले कितने ही मनुष्य तीक्ष्ण तपकर दो तीन भवमें ही मुक्त हो जाते हैं ॥२२४॥ मध्यम भव्य प्राणी शीघ्र ही महान् आनन्द अर्थात् मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं पर जो असमर्थ हैं किन्तु मार्गको जानते हैं वे कुछ विश्राम करनेके बाद महा आनन्द प्राप्त कर पाते हैं ॥२२५॥ जो मनुष्य मार्गको न जानकर दिनमें सौ-सौ योजन तक गमन करता है वह भटकता ही रहता है तथा चिरकाल तक भी इष्ट स्थानको नहीं प्राप्त कर सकता है ॥२२६॥ जिनका श्रद्धान मिथ्या है ऐसे लोग उग्र तपश्चरण करते हुए भी जन्ममरणसे रहित पद नहीं प्राप्त कर पाते हैं ॥२२७॥ जो मोक्षमार्ग अर्थात् रत्नत्रयसे भ्रष्ट है वे मोहरूपी अन्धकारसे आच्छादित तथा कपाय रूपी सर्पोंसे व्याप्त संसार रूपी अटवीमें भटकते रहते हैं ॥२२८॥ जिसके न शील है, न सम्यक्त्व है, और न उत्तम त्याग ही है उसका संसार सागरसे संतरण किस प्रकार हो सकता है ? ॥२२९॥ विन्ध्याचलके जिस प्रवाहमें पहाड़के समान ऊँचे-ऊँचे हाथी वह जाते हैं उसमें बेचारे खरगोश तो निःसन्देह ही वह जाते हैं ॥२३०॥ जहाँ कुतीर्थका उपदेश देने वाले कुगुरु भी जन्म-

यथा तारयितुं शक्ता न शिला सलिले शिलाम् । तथा परिग्रहासक्ताः कुर्वीथ्याः शरणागतान् ॥२३२॥
 तपोनिर्दग्धपापा ये लघवस्तत्त्ववेदिनः^१ । त एव तारणे शक्ता जनानामुपदेशतः ॥२३३॥
 ससारसागरे भीमे रत्नद्वीपोऽयमुत्तमः । यदेतन्मानुष क्षेत्र^२ तद्धि दुःखेन लभ्यते ॥२३४॥
 तस्मिन्नियमरत्नानि गृहीतव्यानि धीमता । अवश्य देहमुत्सृज्य कर्तव्यो भवसक्रमः ॥२३५॥
 अतो यथात्र सूत्रार्थं कश्चित् सचूर्णयेन्मणीन् । विपर्ययं तथा धर्मरत्नानां चूर्णको जनः ॥२३६॥
 अनित्यत्वं शरीरादेरभावः शरणस्य च । अशुचित्वं तथान्यत्त्वमात्मनो देहपञ्जरात् ॥२३७॥
 एकत्वमथ ससारो लोकस्य च विचित्रता । आसन्नः सवरः पूर्वकर्मणा निर्जरा तथा ॥२३८॥
 बोधिदुर्लभताधर्मस्वाख्यातत्वं जिनेश्वरैः । द्वादशैवमनुप्रेक्षा^३ कर्तव्या हृदये सदा ॥२३९॥
 आत्मनः शक्तियोगेन धर्मं यो यादृशं भजेत् । स तस्य तादृशं भुङ्क्ते फलं देवादिभूमिषु ॥२४०॥
 एव वदन्नसौ पृष्टो भानुकर्णेन केवली । समेदं नियमं नाथं ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रतम् ॥२४१॥
 ततो जगद् भगवान्भानुकर्णावधारय । नियमश्च तपश्चेति द्वयमेतन्न भिद्यते ॥२४२॥
 तेन युक्तो जनः शक्त्या तपस्वीति निगद्यते । तत्र सर्वं प्रयत्नेन मतिः कार्या सुमेधसा ॥२४३॥
 स्वल्पं स्वल्पमपि प्राज्ञैः कर्तव्यं सुकृतार्जनम् । पतद्भिर्विन्दुभिर्जाता महानद्यः समुद्रगा ॥२४४॥
 अहो सुहूर्तमात्रं यं कुरुते भुक्तिवर्जनम् । फलं तस्योपवासेन समं मासेन जायते ॥२४५॥

जरा-मृत्युरूपी आवर्तोंसे युक्त संसार रूपी प्रवाहमें चक्कर काटते हैं, वहाँ उनके भक्तोंकी कथा ही क्या है ? ॥२३१॥ जिस प्रकार पानीमें पड़ी शिलाको शिला ही तारनेमें समर्थ नहीं है उसी प्रकार परिग्रही साधु शरणागत परिग्रही भक्तोंको तारनेमें समर्थ नहीं हैं ॥२३२॥ जो तपके द्वारा पापोंको जलाकर हलके हो गये हैं ऐसे तत्त्वज्ञ मनुष्य ही अपने उपदेशसे दूसरोंको तारने में समर्थ होते हैं ॥२३३॥ जो यह मनुष्य क्षेत्र है सो भयंकर ससार-सागरमें मानो उत्तम रत्नद्वीप है । इसकी प्राप्ति बड़े दुःखसे होती है ॥२३४॥ इस रत्नद्वीपमें आकर बुद्धिमान् मनुष्यको अवश्य ही नियम रूपी रत्न ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान शरीर छोड़कर पर्यायान्तरमें अवश्य ही जाना होगा ॥२३५॥ इस संसारमें जो विपर्ययोंके लिए धर्मरूपी रत्नोंका चूर्ण करता है वह वैसा ही है जैसा कि कोई सूत प्राप्त करने के लिए मणियोंका चूर्ण करता है ॥२३६॥ शरीरादि अनित्य है, कोई किसीका शरण नहीं है, शरीर अशुचि है, शरीर रूपी पिंजड़ेसे आत्मा पृथक् है, यह अकेला ही सुख दुःख भोगता है, संसारके स्वरूपका चिन्तन करना, लोक की विचित्रताका विचार करना, आसन्नके दुर्गुणोंका ध्यान करना, संवरकी महिमाका चिन्तन करना, पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्जराका उपाय सोचना ? बोधि अर्थात् रत्नत्रयकी दुर्लभताका विचार करना और धर्मका माहात्म्य सोचना—जिनेन्द्र भगवान्ने ये बारह भावनाएं कहीं हैं सो इन्हें सदा हृदय में धारण करना चाहिये ॥२३७-२३९॥ जो अपनी शक्तिके अनुसार जैसे धर्मका सेवन करता है वह देवादि गतियोंमें उसका वैसा ही फल भोगता है ॥२४०॥

इस प्रकार उपदेश देते हुए अनन्तबल केवलीसे भानुकर्णने पूछा कि हे नाथ ! मैं अब नियम तथा उसके भेदोंको जानना चाहता हूँ ॥२४१॥ इसके उत्तरमें भगवान्ने कहा कि हे भानुकर्ण ! ध्यान टेकर अवधारण करो । नियम और तप ये दो पदार्थ जुड़े-जुड़े नहीं हैं ॥२४२॥ जो मनुष्य नियमसे युक्त है वह शक्तिके अनुसार तपस्वी कहलाता है इसलिए बुद्धिमान् मनुष्यको सब प्रकारसे नियम अथवा तपमें प्रवृत्त रहना चाहिए ॥२४३॥ बुद्धिमान् मनुष्योंको थोड़ा-थोड़ा भी पुण्यका संचय करना चाहिए क्योंकि एक-एक वृद्धके पढनेसे समुद्र तक बहनेवाली बड़ी-बड़ी नदियों बन जाती हैं ॥२४४॥ जो दिनमें एक सुहूर्तके लिए भी भोजनका त्याग करता है उसे एक

तत्र स्वर्गे सहस्राणि समानां दश कीर्तितम् । मुञ्जानस्य जैनस्योद्यज्ञोऽङ्गं चित्तोपपादितम् ॥२४६॥
 श्रद्धधानो मत जैनं यः करोति पुरोदितम् । पत्यैस्तस्योपमानो यः कालः स्वर्गे महात्मनः ॥२४७॥
 च्युत्वा तत्र मनुष्यत्वे लभते भोगमुत्तमम् । यथोपवनया लब्धं तापसान्वयजातया ॥२४८॥
 दुःखिन्युपवनाऽबन्धुर्वदराद्युपजीविनी । आदरादीक्षिता राज्ञा मुहूर्तव्रतसंभवात् ॥२४९॥
 कुमारी व्रतकस्यान्ते परया द्रव्यसम्पदा । योजिता सुतरां जाता धर्मसन्निभमानसा ॥२५०॥
 जिनेन्द्रवचनं यस्तु कुरुतेऽन्तरवर्जितम् । अनन्तरमसौ सौख्यं परलोके गतोऽश्नुते ॥२५१॥
 मुहूर्तद्वितयं यस्तु न भुङ्क्ते प्रतिवासरम् । पद्योपवासिता तस्य जन्तोर्मासेन जायते ॥२५२॥
 मुहूर्तत्रिंशत् कृत्वा काले यावति तावति । आहारवर्जनं जन्तुरुपवासफलं भजेत् ॥२५३॥
 मुहूर्तयोजनं कार्यमेवमेवाष्टमादिषु । अधिकं तु फलं वाच्यं हेतुवृद्धयनुरूपतः ॥२५४॥
 अवाप्यास्य फलं नाके नियमस्य शरीरिणः । मनुष्यतां समासाद्य जायन्तेऽद्भुतचेष्टिताः ॥२५५॥
 लावण्यपङ्कलिप्तानां हारिभिन्नमकारिणाम् । भवन्ति कुलदाराणां पतयो धर्मशेषतः ॥२५६॥
 स्त्रियोऽपि स्वर्गतश्च्युत्वा मनुष्यभवमागताः । महापुरुषसंसेव्या यान्ति लक्ष्मीसमानताम् ॥२५७॥
 आदित्येऽस्तमनुप्राप्ते कुरुते योऽन्नवर्जनम् । भवेदभ्युदयोऽस्यापि सम्यग्दृष्टेर्विशेषतः ॥२५८॥
 अप्सरोमण्डलान्तःस्थो विमाने रत्नभासुरे । बहुपत्योपमं कालं धर्मेणानेन तिष्ठति ॥२५९॥

महीनेमे उपवासके समान फल प्राप्त होता है ॥२४५॥ संकल्प मात्रसे प्राप्त होनेवाले उत्कृष्ट भोगोंका उपभोग करते हुए इस जीवको कमसे कम दशहजार वर्ष तो लगते ही है ॥२४६॥ और जो जैनधर्मकी श्रद्धा करता हुआ पूर्वप्रतिपादित व्रतादि धारण करता है उस महात्माका स्वर्गमे कमसे कम एक पत्य प्रमाण काल वीतता है २४७॥ वहाँसे च्युत होकर वह मनुष्य गतिमे उस प्रकार उत्तम भोग प्राप्त करता है जिस प्रकार तापसवंशमे उत्पन्न हुई उपवनाने प्राप्त किये थे ॥२४८॥

एक उपवना नामकी दुःखिनी कन्या थी जो भाई-बन्धुओंसे रहित थी और बेर आदि खाकर अपनी जीविका करती थी । एक बार उसने मुहूर्त भरके लिए आहारका त्याग किया उस व्रतके प्रभावसे राजाने उसका बड़ा आदर किया तथा व्रतके अनन्तर उसे उत्कृष्ट धनसम्पदासे युक्त किया । इस घटनासे उसका मन धर्ममे अत्यन्त उत्साहित हो गया ॥२४९-२५०॥ जो मनुष्य निरन्तर जिनेन्द्रभगवान्के वचनोंका पालन करता है वह परलोकमें निर्वाध सुखका उपभोग करता है ॥२५१॥ जो प्रतिदिन दो मुहूर्तके लिए आहारका त्याग करता है उसे महीनेमें दो उपवासका फल प्राप्त होता है ॥२५२॥ इस प्रकार जो एक-एक मुहूर्त बढ़ाता हुआ तीस मुहूर्त तकके लिए आहारका त्याग करता है उसे तीन-चार आदि उपवासोंका फल प्राप्त होता है ॥२५३॥ तेल आदि उपवासोमे भी इसी तरह मुहूर्तकी योजना कर लेनी चाहिए । जो अधिक कालके लिए त्याग होता है उसका कारणके अनुसार अधिक फल कहना चाहिए ॥२५४॥ प्राणी स्वर्गमे इस नियमका फल प्राप्तकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं और वहाँ अद्भुत चेष्टाओंके धारक होते हैं ॥२५५॥ स्वर्गमे फल भोगनेसे जो पुण्य शेष बचता है उसके फलस्वरूप वे कुलवती स्त्रियोंके पति होते हैं जिनका कि शरीर लावण्यरूपी पङ्कसे लिप्त रहता है तथा जो मनको हरण करनेवाले हाव-भाव विभ्रम किया करती हैं ॥२५६॥ नियमवाली स्त्रियाँ भी स्वर्गसे चयकर मनुष्य भवमे आती हैं और महापुरुषोंके द्वारा सेवनीय होती हुई लक्ष्मीकी समानता प्राप्त करती हैं ॥२५७॥ जो सूर्यास्त होने पर अन्नका त्याग करता है उस सम्यग्दृष्टिको भी विशेष अभ्युदयकी प्राप्ति होती है ॥२५८॥ यह जीव इस धर्मके कारण रत्नोंसे जगमगाते विमानोमे अप्सराओंके

१. जनस्योर्ध्वं भोग म० । जनस्योर्द्धं व०, क० । २. इच्छामात्रेण प्राप्तम् । ३. तस्योपमानीयः म० । ४. -स्तमनप्राप्ते म० ।

मनुष्यरव समासाद्य दुर्लभ तत्परायणैः । महेशानस्य कर्तव्य जिनस्य समुपासनम् ॥२६०॥
यस्य काञ्चननिर्माणा योजन जायते मही । आसने जायते देवतिर्यग्मानुपसेविता ॥२६१॥
प्रातिहार्याणि यस्याष्टौ चतुर्विंशन्महाद्भुताः । सहस्रभास्कराकार रूप लोचनसौख्यदम् ॥२६२॥
भव्य. प्रणाममेतस्य यः करोति विचक्षणः । समुत्तरति कालेन स स्तोकेन भवार्णवम् ॥२६३॥
उपायमेतैमुज्झित्वा शान्तिप्राप्तौ शरीरिणाम् । नान्यः कश्चिदुपायोऽस्ति तस्मात्सेव्य. स यत्नत. ॥२६४॥
मार्गा गोदण्डकाकाराः सन्त्यन्येऽपि सहस्रशः । कुतीर्थसश्रितां येषु विमुह्यन्ति प्रमादिन. ॥२६५॥
न सम्यक्कृष्णा तेषु मधुमांसादिसेवनात् । जैने तु कणिकाप्यस्ति न दोषस्य प्ररूपणे ॥२६६॥
त्याज्यमेतत्पर लोके यत्प्रपीड्य दिवा क्षुधा । आत्मान रजनीभुक्त्या गमयत्यर्जित शुभम् ॥२६७॥
निशिभुक्तिरधर्मो यैर्धर्मत्वेन प्रकल्पित. । पापकर्मकठोराणां तेषां दुःखं प्रबोधनम् ॥२६८॥
दर्शनागोचरीभूते सूर्ये परमलालस । भुङ्क्ते पापमना जन्तुर्दुर्गतिं नावबुध्यते ॥२६९॥
मत्सिकाकीटकेशादि भक्षयते पापजन्तुना । तम.पटलसङ्गञ्जचक्षुषा पापबुद्धिना ॥२७०॥
डाकिनीप्रेतभूतादिकुत्सितप्राणिभिः समम् । भुङ्क्त तेन भवेद्येन क्रियते रात्रिभोजनम् ॥२७१॥
सारमेयाखुमार्जारप्रभृतिप्राणिभिः समम् । मांसाहारैर्भवेद्भुक्त तेन यो निशि वल्गते ॥२७२॥
अथवा किं प्रपञ्चेन पुलाकेनेह भाष्यते^१ । क्षपायामश्नता सर्व भवेदशुचि भक्षितम् ॥२७३॥

मध्यमे बैठकर अनेक पल्योपमकाल व्यतीत करता है ॥२५६॥ इसलिए दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाकर धर्ममे तत्पर रहनेवाले मनुष्योंको महाप्रभु श्रीजिनेन्द्र देवकी उपासना करनी चाहिए ॥२६०॥ जिनके आसनस्थ होने पर देव तिर्यञ्च और मनुष्योंसे सेवित एक योजनकी पृथ्वी स्वर्णमयी हो जाती है ॥२६१॥ जिनके आठ प्रातिहार्य और चौतीस महाअतिशय प्रकट होते हैं । तथा जिनका रूप हजार सूर्योंके समान देदीप्यमान एवं नेत्रोंको सुख देनेवाला होता है ॥२६२॥ ऐसे महाप्रभु जिनेन्द्र भगवान्को जो बुद्धिमान् भव्य प्रणाम करता है वह थोड़े ही समयमे संसार सागरसे पार हो जाता है ॥२६३॥ जीवोंको शान्ति प्राप्त करनेके लिए यह उपाय छोड़कर और दूसरा कोई उपाय नहीं है इसलिए यत्नपूर्वक इसीकी सेवा करनी चाहिए ॥२६४॥ इनके सिवाय कुतीर्थियोंसे सेवित गोदण्डकके समान जो अन्य हजारों मार्ग हैं उनमें प्रमादी जीव मोहित हो रहे हैं—यथार्थ मार्ग भूल रहे हैं ॥२६५॥ उन मार्गाभासोमे समीचीन दया तो नाममात्रको नहीं है क्योंकि मधुमांसादिका सेवन खुलेआम होता है पर जिनेन्द्रदेवकी प्ररूपणामें दोष की कणिका भी दृष्टिगत नहीं होती ॥२६६॥ लोकमे यह कार्य तो बिलकुल ही त्यागने योग्य है कि दिनभर तो भूखसे अपनी आत्माको पीड़ा पहुँचाते हैं और रात्रिको भोजन कर संचित पुण्यको तत्काल नष्ट कर देते हैं ॥२६७॥ रात्रिमे भोजन करना अधर्म है फिर भी इसे जिन लोगोने धर्म मान रक्खा है, उनके हृदय पापकर्मसे अत्यन्त कठोर हैं उनका समझना कठिन है ॥२६८॥ सूर्यके अदृश हो जानेपर जो लंपटी पापी मनुष्य भोजन करता है वह दुर्गतिको नहीं समझता ॥२६९॥ जिसके नेत्र अन्धकारके पटलसे आच्छादित हैं और बुद्धि पापसे लिप्त है ऐसे पापी प्राणी रातके समय मक्खी, कीड़े तथा बाल आदि हानिकारक पदार्थ खा जाते हैं ॥२७०॥ जो रात्रिमे भोजन करता है वह डाकिनी प्रेत भूत आदि नीच प्राणियोंके साथ भोजन करता है ॥२७१॥ जो रात्रिमे भोजन करता है वह कुत्ते चूहे बिल्ली आदि मांसाहारी जीवोंके साथ भोजन करता है ॥२७२॥ अथवा अधिक कहनेसे क्या ? संक्षेपमें यही कहा जा सकता है कि जो रातमे भोजन करता है

१. महातिशयाः । महाद्भुत म० । २. प्रणाम भावेन व० । ३. मेन—व० । ४. सचिता म० । ५. दुःखप्रबोधनम् म० । ६. प्रबन्धनम् क० । ७. दुर्गतिर्नावबुध्यते ख० । ८. भक्त म० । ९. भुङ्क्ते । वल्गते म० । १०. भाष्यते म०, क० ।

विरोचनेऽस्तसंसर्गं गते ये भुङ्क्षते जनाः । ते मानुषतया बद्धा पशवो गदिता बुधैः ॥२७४॥
 नक्त दिवा च भुङ्क्षानो विमुखो जिनशासने । कथं सुखी परत्र स्यान्निर्रतो नियमोऽस्मिन् ॥२७५॥
 दयामुक्तो जिनेन्द्राणां पापः कुत्सामुदाहरन् । अन्यदेह गतो जन्तुः पूतिगन्धमुखो भवेत् ॥२७६॥
 मांसं मद्यं निशाभुक्ति स्तेयमन्यस्य योषितम् । सेवते यो जनस्तेन भवे जन्मद्वयं हतम् ॥२७७॥
 हस्त्रायुर्वित्तमुक्तश्च व्याधिपीडितविग्रहः । परत्र सुखहीनः स्यान्नक्तं यः प्रत्यवश्यति ॥२७८॥
 प्राप्नोति जन्ममृत्युं च दीर्घकालमनन्तरम् । पच्यते गर्भवासेषु दुःखेन निशि भोजनात् ॥२७९॥
 वराहवृकमार्जारहसकाकादियोनियु । जायते सुचिर काल रात्रिभोजी कुदर्शनः ॥२८०॥
 उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः सहस्राणि कुयोनियु । आपनीपद्यते दुःखं कुधीर्यो निशि वल्भते ॥२८१॥
 अत्राप्य यो मत जैनं नियमेऽवतिष्ठते । अशेषं क्लिष्टपं दग्ध्वा सुस्थान सोऽधिगच्छति ॥२८२॥
 रत्नत्रितयसंपूर्णा अणुव्रतपरायणाः । तरणावुदिते भव्या भुङ्क्षते दोषवर्जितम् ॥२८३॥
 अपापास्तेऽधिगच्छन्ति विमानेशास्त्रिविष्टपाः । पर भोगं न ये रात्रौ भुङ्क्षते करुणा पराः ॥२८४॥
 ततश्च्युत्वा मनुष्यत्वं प्राप्य निन्दाविवर्जितम् । भुङ्क्षते चक्रवर्त्यादिविभवोपहनं सुखम् ॥२८५॥
 सौधर्मादिषु कल्पेषु मानसानीतकारणम् । प्राप्नुवन्ति पर भोगं सिद्धिं च शुभचैष्टिताः ॥२८६॥
 जगद्धिता महामात्या राजानः पीठमर्दिनः । समताः सर्वलोकस्य भवन्ति दिनभोजनात् ॥२८७॥
 धनवन्तो गुणोदाराः सुरूपा दीर्घजीविताः । जिनबोधिसमायुक्ताः प्रधानपदसंस्थिताः ॥२८८॥

वह सब अपवित्र पदार्थ खाता है ॥२७३॥ सूर्यके अस्त हो जानेपर जो भोजन करते हैं उन्हें विद्वानोंने मनुष्यतासे बंधे हुए पशु कहा है ॥२७४॥ जो जिनशासनसे विमुख होकर रात दिन चाहे जब खाता रहता है वह नियमरहित अत्रती मनुष्य परलोकमें सुखी कैसे हो सकता है ? ॥२७५॥ जो पापी मनुष्य दयारहित होकर जिनेन्द्र देवकी निन्दा करता है वह अन्य शरीरमें जाकर दुर्गन्धित मुखवाला होता है अर्थात् परभवमें उसके मुखसे दुर्गन्ध आती है ॥२७६॥ जो मनुष्य मांस मद्य रात्रिभोजन चोरी और परस्त्रीका सेवन करता है वह अपने दोनों भवोंको नष्ट करता है ॥२७७॥ जो मनुष्य रात्रिमें भोजन करता है वह पर-भवमें अल्पायु, निर्धन, रोगी और सुखरहित अर्थात् दुःखी होता है ॥२७८॥ रात्रिमें भोजन करनेसे यह जीव दीर्घ काल तक निरन्तर जन्म-मरण प्राप्त करता रहता है और गर्भवासमें दुःखसे पकता रहता है ॥२७९॥ रात्रिमें भोजन करनेवाला मिथ्यादृष्टि पुरुष शूकर, भेड़िया, त्रिलाच, हंस तथा कौआ आदि योनियोंमें दीर्घ काल तक उत्पन्न होता रहता है ॥२८०॥ जो दुर्वृद्धि रात्रिमें भोजन करता है वह हजारो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक कुयोनियोंमें दुःख उठाता रहता है ॥२८१॥ जो जैन धर्म पाकर उसके नियमोंमें अटल रहता है वह समस्त पापोंको जलाकर उत्तम स्थानको प्राप्त होता है ॥२८२॥ रत्नत्रयके धारक तथा अणुव्रतोंका पालन करनेमें तत्पर भव्य जीव सूर्योदय होनेपर ही निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं ॥२८३॥ जो दयालु मनुष्य रात्रिमें भोजन नहीं करते वे पापहीन मनुष्य स्वर्गमें विमानोंके अधिपति होकर उत्कृष्ट भोग प्राप्त करते हैं ॥२८४॥ वहाँसे च्युत होकर तथा उत्तम मनुष्य पर्याय पाकर चक्रवर्ती आदिके विभवसे प्राप्त होनेवाले सुखका उपभोग करते हैं ॥२८५॥ शुभ चेष्टाओंके धारक पुरुष सौधर्मादि स्वर्गोंमें मनमें विचार आते ही उपस्थित होने वाले उत्कृष्ट भोगों तथा अणिमा महिमा आदि आठ सिद्धियोंको प्राप्त होने हैं ॥२८६॥ दिनमें भोजन करनेसे मनुष्य जगत्का हित करने वाले महामन्त्री, राजा, पीठमर्द तथा सर्व लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं ॥२८७॥ धनवान्, गुणवान्, रूपवान्, दीर्घायुष्क, रत्नत्रयसे युक्त तथा प्रधान पद पर आसीन

१. निन्दाम् । २. भुङ्क्ते, प्रत्यवश्यति ख० । ३. सूर्ये । ४. मानुषातीतकारणं म०, मानुषानीत-कारणं व० ।

अमहत्तेजसः सख्ये^१ पुरादीनामधीश्वराः । विचित्रवाहनोपेताः सामन्तकृतपूजना ॥२८६॥
 भवनेशा सुरेशाश्च चक्राङ्गविभवाश्रिता । महालक्षणसम्पन्ना भवन्ति दिनभोजनात् ॥२८७॥
 आद्रित्यवत्प्रभावन्तश्चन्द्रवत्सौम्यदर्शनाः । अनस्तमितभोगाख्यास्ते येऽनस्तमितोद्यता ॥२८९॥
 अनाथा दुर्भगा मातृपितृभातृविवर्जिता । शोकदारिद्र्यसम्पूर्णा स्त्रियः स्युर्निशि भोजनात् ॥२९२॥
 रूक्षस्फुटितहस्तादिस्त्राङ्गाश्चिपिटनासिका । श्रीमत्सदर्शनाः क्लिन्नचक्षुषो दुष्टलक्षणा ॥२९३॥
 दुर्गन्धविग्रहा भग्नसुमहादशनच्छदाः । उखणश्रतय पिङ्गस्फुटिताग्रशिरोरुहा ॥२९४॥
 अलावृवीजसस्थानदशनाः शुक्लविग्रहाः । काणकुण्ठैगतच्छाया त्रिवर्णा परुषत्वच ॥२९५॥
 अनेकरोगसपूर्णमलिनाङ्घ्रिद्रवासस । कुत्सिताग्नजीविन्यः परकर्मसमाश्रिता ॥२९६॥
 उक्तकृत्प्रवण विग्र धनवन्धुविवर्जितम् । प्राप्नुवन्ति पति नार्यो रात्रिभोजनतत्परा ॥२९७॥
 दुःखभारसमाक्रान्ता बालवैयन्यसगताः । अम्बुकाष्ठादिवाहिन्यो दुःपूरोदरतत्पराः ॥२९८॥
 सर्वलोकपराभूता वाग्वासीनष्टचेतस । अङ्गव्रणशताधारा भवन्ति निशि भोजनात् ॥२९९॥
 उपगान्ताशया यास्तु नार्यः शीलसमन्विताः । साधुवर्गहिता रात्रिभोजनाद्विरतात्मिका ॥३००॥
 लभन्ते ता यथार्थाष्टं भोगं स्वर्गं समावृताः । परिवारेण मूर्धस्थपाणिना शासनैपिणा ॥३०१॥
 ततश्च्युताः स्फुरन्त्युच्चैः कुले विभवधारिणि । शुभलक्षणसपूर्णा गुणैः सर्वैः समन्विता ॥३०२॥
 कलाविशारदा नेत्रमानसस्नेहविग्रहाः । विमुञ्चन्त्योऽमृत वाचा ह्लादयन्त्योऽखिल जनम् ॥३०३॥

व्यक्ति भी दिनमें भोजन करने से ही होते हैं ॥२८८॥ जिनका तेज युद्धमें असह्य है, जो नगर आदिके अधिपति हैं, विचित्र वाहनसे सहित हैं तथा सामन्तगण जिनका सत्कार करते हैं ऐसे पुरुष भी दिनमें भोजन करनेसे ही होते हैं ॥२८९॥ इतना ही नहीं, भवनेन्द्र, देवेन्द्र, चक्रवर्ती और महालक्षणोसे सम्पन्न व्यक्ति भी दिनमें भोजन करने से ही होते हैं ॥२९०॥ जो रात्रिभोजन-त्यागव्रतमें उद्यत रहते हैं वे सूर्यके समान प्रभावान्, चन्द्रमाके समान सौम्य और स्थायी भोगोंसे युक्त होते हैं ॥२९१॥ रात्रिमें भोजन करने से स्त्रियों अनाथ, दुर्भाग्यशाली, मातापिता भाईसे रहित तथा शोक और दारिद्र्यसे युक्त होती हैं ॥२९२॥ जिनकी नाक चपटी है, जिनका देखना ग्लानि उत्पन्न करता है, जिनके नेत्र कीचड़से युक्त हैं, जो अनेक दुष्टलक्षणोंसे सहित हैं, जिनके शरीरसे दुर्गन्ध आती रहती है, जिनके आँठ फटे और मोटे हैं, कान खड़े हैं, शिरके बाल पीले तथा चटके हैं, दाँत तूँवड़ीके बीजके समान हैं और शरीर सफेद है, जो कानी, शिथिल तथा कान्तिहीन हैं, रूपरहित हैं, जिनका चर्म कठोर है । जो अनेक रोगोंसे युक्त तथा मलिन हैं, जिनके बख्ख फटे हैं, जो गन्दा भोजन खाकर जीवित रहती हैं, और जिन्हें दूसरेकी नौकरी करनी पड़ती है । ऐसी स्त्रियों रात्रि भोजनके ही पापसे होती हैं ॥२९३-२९६॥ रात्रिभोजनमें तत्पर रहनेवाली स्त्रियों वृत्ते नकटे और धन तथा भाई वन्धुओंसे रहित पतिको प्राप्त होती हैं ॥२९७॥ जो दुःखके भारसे निरन्तर आक्रान्त रहती हैं, बाल अवस्थामें ही विधवा हो जाती हैं, पानी लकड़ी आदि ढो ढो कर पेट भरती हैं, अपना पेट बड़ी कठिनाईसे भर पाती हैं, सब लोग जिनका तिरस्कार करते हैं, जिनका चित्त वचन रूपी बसूलासे नष्ट होता रहता है और जिनके शरीरमें सैंकड़ों घाव लगे रहते हैं, ऐसी स्त्रियों रात्रि भोजनके कारण ही होती हैं ॥२९८-२९९॥ जो स्त्रियों शान्त चित्त, शील सहित, मुनिजनोंका हित करनेवाली और रात्रि भोजनसे विरत रहती हैं वे स्वर्गमें यथेच्छ भोग प्राप्त करती हैं । शिरपर हाथ रखकर आद्वाकी प्रतीक्षा करनेवाले परिवारके लोग उन्हें सदा घेरे रहते हैं ॥३००-३०१॥ स्वर्गसे च्युत होकर वे वैभवशाली उच्च कुलमें उत्पन्न होती हैं, शुभ लक्षणोंसे युक्त तथा समस्त गुणोंसे सहित होती हैं ॥३०२॥ अनेक कलाओंमें

१. युद्धे । २. अभङ्गुरभोगयुक्ताः । ३. 'कुण्ठो मन्दः क्रियासु य.' इत्यमरः । ४. छिन्नकर्णम् । उक्त-श्रवण म०, व० । उक्तश्रवण ख० । ५. विरतात्मिका म० । ६. शासनैषिणः म० ।

भवन्त्युक्कण्ठया युक्तास्तासु विद्याधराधिपाः । हँरयो बलदेवाश्च तथा चक्राङ्कितध्रियः ॥३०४॥
 विद्युद्भक्तोत्पलच्छायाः स्फुरल्ललितकुण्डलाः । नरेन्द्रकृतसम्बन्धा भवन्ति दिनभोजनात् ॥३०५॥
 अन्न यथेप्सित तासां जायते भृत्यकल्पितम् । निशासु या न कुर्वन्ति भोजनं कठणापराः ॥३०६॥
 श्रीकान्तासुप्रभातुल्या सुभद्रासदृशस्तथा । लक्ष्मीसमत्विषो योपा भवन्ति दिनभोजनात् ॥३०७॥
 तस्मान्नरेण नार्या वा नियमस्येन चेतसा । वर्जनीया निशाभुक्तिरनेकापायसगता ॥३०८॥
 अत्यल्पेन प्रयासेन शर्मैवमुपलभ्यते । ततो भजत तं नित्यं स्वसुखं को न वाञ्छति ॥३०९॥
 धर्मो मूलं सुखोत्पत्तेरधर्मो दुःखकारणम् । इति ज्ञात्वा भजेद्धर्ममधर्मं च विवर्जयेत् ॥३१०॥
 आगोपालाङ्गनं लोके प्रसिद्धिमिदमागतम् । यथा धर्मेण शर्मैति विपरितेन दुःखितम् ॥३११॥
 धर्मस्य पश्य माहात्म्यं येन नाकच्युता नराः । उत्पद्यन्ते महाभोगा मनुष्यत्वे मनोहराः ॥३१२॥
 जलस्थलसमुद्भूतरत्नानां ते समाश्रयाः । औदासीन्यमपि प्राप्ता भवन्ति सुखिनः सदा ॥३१३॥
 सुवर्णवस्त्रसस्यादिभाण्डागाराणि मानवैः । रच्यन्ते सततं तेषां विचित्रायुधपाणिभिः ॥३१४॥
 प्रभूतं गोमहिष्यादिवारणास्तुरगा रथाः । भृत्या जनपदा ग्रामाः प्रासादा नगराणि च ॥३१५॥
 दासवगो विशाला श्रीर्विष्टरं हरिभिर्घृतम् । मानसस्येन्द्रियाणाञ्च विषयाहरणक्षमाः ॥३१६॥
 हर्षाविभ्रमगामिन्यो घनलावण्यविग्रहाः । माधुर्ययुक्तनिस्वानाः पीनस्तन्यः सुलक्षणाः ॥३१७॥
 चक्षुषां वागुरानुल्यास्तक्षण्यो हारिचेष्टिताः । नानालङ्कारधारिण्यो दास्यः पुण्यफलात्मिकाः ॥३१८॥

निपुण रहती हैं, उनके शरीर नेत्र और मनमे स्नेह उत्पन्न करनेवाले होते हैं, अपने वचनोसे मानो वे अमृत छोड़ती हैं, समस्त लोगोंको आनन्दित करती है ॥३०३॥ विद्याधराके अधिपति, नारायण, बलदेव और चक्रवर्ती भी उनमें उत्कण्ठित रहते हैं—उन्हें प्राप्त करनेके लिए उत्सुक रहते हैं ॥३०४॥ जिनके शरीरकी कान्ति विजली तथा लाल कमलके समान मनोहारी है, जिनके सुन्दर कुण्डल सदा हिलते रहते हैं, तथा राजाओंके साथ जिनके विवाह सम्बन्ध होते हैं ऐसी स्त्रियों दिनमें भोजन करनेसे ही होती है ॥३०५॥ जो दयावती स्त्रियों रात्रिमें भोजन नहीं करती हैं उन्हें सदा भृत्यजनोके द्वारा तैयार किया हुआ मनचाहा भोजन प्राप्त होता है ॥३०६॥ दिनमे भोजन करनेसे स्त्रियों श्रीकान्ता, सुप्रभा, सुभद्रा और लक्ष्मीके समान कान्ति युक्त होती हैं ॥३०७॥ इसलिए नर हो चाहे नारी, दोनोंको अपना चित्त नियममे स्थिरकर अनेक दुःखोसे सहित जो रात्रि भोजन है उसका त्याग करना चाहिए ॥३०८॥ इस प्रकार थोड़े ही प्रयाससे जब सुख मिलता है तो उस प्रयासका निरन्तर सेवन करो । ऐसा कौन है जो अपने लिए सुखकी इच्छा न करता हो ॥३०९॥ 'धर्म सुखोत्पत्तिका कारण है और अधर्म दुःखोत्पत्तिका' ऐसा जानकर धर्मकी सेवा करनी चाहिए और अधर्मका परित्याग ॥३१०॥ यह बात गोपालको तकमें प्रसिद्ध है कि धर्मसे सुख होता है और अधर्मसे दुःख ॥३११॥ धर्मका माहात्म्य देखो कि जिसके प्रभावसे प्राणीन्वर्गसे च्युत होकर मनुष्योमे उत्पन्न होते हैं और वहाँ महाभोगोसे युक्त तथा मनोहर शरीरके धारक होते हैं ॥३१२॥ वे जल तथा स्थलमे उत्पन्न हुए रत्नोके आधार होते हैं और उदासीन होनेपर भी सदा सुखी रहते हैं ॥३१३॥ ऐसे मनुष्योके स्वर्ण, वस्त्र तथा धान आदिके भाण्डारोंकी रत्नो हाथोमे विविध प्रकारके शस्त्र धारण करनेवाले लोग किया करते हैं ॥३१४॥ उन्हें अत्यधिक गाय भैंस आदि पशु, हाथी, घोड़े, रथ, पयादे, देश, ग्राम, महल, नौकरोके समूह, विशाल लक्ष्मी और सिंहासन प्राप्त होते हैं । साथ ही जो मन और इन्द्रियोके विषय उत्पन्न करनेमें समर्थ हैं, जिनकी चाल हंसीके समान विलास पूर्ण है, जिनका शरीर अत्यधिक सौन्दर्यसे युक्त है, जिनकी आवाज मीठी है, जिनके स्तन स्थूल हैं, जो अनेक शुभ लक्षणोसे युक्त हैं, जो नेत्रोको पराधीन करनेके लिए जालके समान हैं, तथा जिनकी चेष्टाएँ

१. नारायणाः । २. नियमस्तेन म० । ३. प्रसिद्ध -म० । ४. दुःखिता क०, ख०, म० ।
 ५. मनोरमचेष्टायुक्ताः । हारिचेष्टिताः म०, ख० ।

उपायं केचिदज्ञात्वा धर्मास्थ सुखमन्तते । मूढा तस्य समागमे न यतन्तेऽनुधारिण ॥३१६॥
 पापकर्मवगान्मान. केचिच्छ्रुत्वापि मानवा. । गर्मोपायं न मेवन्ते धर्मं दुष्कृततत्परा ॥३२०॥
 उपगान्ति गते केचिन्मन्त्रेष्टारोधिकर्मणि । अभिगम्य गुरुं वर्मं पृच्छन्त्युद्यतचेतस ॥३२१॥
 उपगान्तेरशुद्धस्य^१ कर्मणस्तद्गुरोर्वच । अर्थवज्जायते तेषु श्रेष्ठानुष्ठानकारियु ॥३२२॥
 इमं ये नियमं प्राज्ञा कुर्वते मुक्तदुष्कृताः । एके भवन्ति ते नाके द्वितीया वा महागुणा. ॥३२३॥
 समय येऽनगाराणां मुञ्जतेऽर्जास्य भक्ति. । तेषां स्वर्गं सुखप्रेक्षामाकाङ्क्षन्ति सुरा. सदा ॥३२४॥
 इन्द्रत्व देवसद्धानां ते प्रयान्ति सुतेजस । जना सामानिकर्त्तव्यं वा सपादितयथेप्सिता. ॥३२५॥
 न्यग्रोधस्य यथा स्वरूप बीजमुच्चैस्तर्भवेत् । तपोऽल्पमपि तद्दत्स्यान्महाभोगफलावहम् ॥३२६॥
 नम कुबेरकान्तस्य नेत्रवन्धनविग्रह. ।^२ धर्मसक्तमतिनित्यं जायते पूर्वधर्मत ॥३२७॥
 मुनिवैलास्रतो ढत्वा मुनेर्भिक्षा समागतः । रत्नवृष्टिं सहस्रास्थ. कुबेरदयितोऽभवत्^३ ॥३२८॥
 महाभण्डलत्रिख्यातो नामोदारपराक्रम । धनेन महता युक्तो भृत्यमण्डलमध्यग^४ ॥३२९॥
 पूर्णिमान्या यथा चन्द्र कान्तदर्शनविग्रह. । भुञ्जान. परमं भोगं सर्वगान्धार्यकोविद ॥३३०॥
 पूर्वधर्मानुभावेन पर निर्वेदमागतः । भर्मायाय महावीक्षा जिनेन्द्रमुर्वनिर्गताम् ॥३३१॥

मनोहर हैं ऐसी अनेक तरुण स्त्रियों और नाना अलङ्कार धारण करनेवाली दासियों पुण्यके फल-
 स्वरूप प्राप्त होती हैं ॥३१५-३१८॥ कितने ही मूर्ख प्राणी ऐसे हैं कि जो सुख-समूहकी प्राप्तिका
 कारण धर्म है उसे जानते ही नहीं हैं अतः वे उसके साधनके लिए प्रयत्न ही नहीं करते ॥३१६॥
 और जिनकी आत्मा पाप कर्मके वशीभूत है तथा जो पाप कर्मोंमें निरन्तर तत्पर रहते हैं ऐसे
 भी कितने ही लोग हैं कि जो धर्मको सुख प्राप्तिका साधन सुनकर भी उसका सेवन नहीं करते
 ॥३२०॥ उत्तम कार्योंके बाधक पापकर्मके उपशान्त हो जानेपर कुछ ही जीव ऐसे होते हैं कि
 जो उत्सुक चित्त हो गुरुके समीप जाकर धर्मका स्वरूप पूछते हैं ॥३२१॥ तथा पाप कर्मके
 उपशान्त होनेसे यदि वे जीव उत्तम आचरण करने लगते हैं तो उनमें सद्गुरुके वे वचन सार्थक
 हो जाते हैं ॥३२२॥ जो बुद्धिमान् मनुष्य पापका परित्याग कर इस नियमका पालन करते हैं वे
 स्वर्गमें महागुणोंके धारक होते हुए प्रथम अथवा द्वितीय होते हैं ॥३२३॥ जो मनुष्य भक्तिपूर्वक
 मुनियोंके भोजन करनेका समय वित्ताकर बादमें भोजन करते हैं स्वर्गमें देव लोग सदा उन्हें
 सुखी देखनेकी इच्छा करते हैं ॥३२४॥ उत्तम तेजको धारण करनेवाले वे पुरुष देवोंके समूहके
 इन्द्र होते हैं अथवा मनचाहे भोग प्राप्त करनेवाले सामानिक पदको प्राप्त करते हैं ॥३२५॥ जिस
 प्रकार वट वृक्षका छोटा-सा बीज आगे चलकर ऊँचा वृक्ष हो जाता है उसी प्रकार छोटा-सा
 तप भी आगे चलकर महाभोग रूपी फलको धारण करता है ॥३२६॥ जिसकी बुद्धि निरन्तर
 धर्ममें आसक्त रहती है ऐसा मनुष्य अपने पूर्वाचरित धर्मके प्रभावसे कुबेरकान्तके समान
 नेत्रोंको आकर्षित करनेवाले सुन्दर शरीरका धारक होता है ॥३२७॥ एक सहस्रभट नामका
 पुरुष था । उसने मुनिवैलास्रत धारण किया था अर्थात् मुनियोंके भोजन करनेका समय वीत जानेके
 बाद ही वह भोजन करता था । एक बार उसने मुनिके लिए आहार दिया । उसके प्रभावसे
 उसके घर रत्नवृष्टि हुई और वह मरकर परभवमें कुबेरकान्त सेठहुआ ॥३२८॥ जो कि भूमण्डलमें
 प्रसिद्ध, उत्कृष्ट पराक्रमी, महाधनसे युक्त और सेवक समूहके मध्यमें स्थित रहनेवाला था ॥३२९॥
 पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान उसका शरीर अत्यन्त सुन्दर था और वह उत्कृष्ट भोगोंको भोगता
 हुआ समस्त शास्त्रोंका अर्थ जाननेमें निपुण था ॥३३०॥ पूर्व धर्मके प्रभावसे ही उसने परम

१. रघर्मस्य म० । २. अद्वितीयाः । ३. धर्मं सक्तमति ख० । धर्मशक्तमति म० । ४. भवेत् म०,
 सहस्रभटो मुनेर्दानप्रभावात् कुबेरकान्तनामा श्रेष्ठो अभवत् । ५. चन्द्रकान्तदर्शन म० । चन्द्र कान्तिदर्शन
 ख०, व० । ६. मुञ्ज म० ।

अनगारमहर्षीणां वेलामर्चन्ति ये जनाः । भोगोत्सव प्रपद्यन्ते पर ते हरिषेणवत् ॥३३२॥
 मुनिवेलप्रतीच्यत्वाहुपाज्यं सुकृतं महत् । हरिषेणः परिप्राप्तो लक्ष्मीमत्यन्तमुन्नताम् ॥३३३॥
 मुनेरन्तिकमासाद्य समाधानप्रचोदिता । एकभक्त जना ये तु कुर्वते शुद्धदर्शनाः ॥३३४॥
 एकभक्तेन ते काल नीत्वा पञ्चत्वमागताः । उत्पद्यन्ते विमानेषु रत्नभाचक्रवर्तिषु ॥३३५॥
 नित्यालोकेषु ते तेषु विमानेषु सुचेतसः । रमन्ते सुचिरं कालमप्सरोर्मध्यवर्तिनः ॥३३६॥
 हारिणः कटकाधारप्रकोष्ठाः कटिसूत्रिण । मौलिमन्तो भवन्त्येते छत्रचामरिणोऽमराः ॥३३७॥
 उत्तमव्रतसक्ता ये चाणुव्रतधारिणः । शरीरमध्रुवं ज्ञात्वा प्रशान्तहृदया जनाः ॥३३८॥
 उपवासं चतुर्दश्यामष्टम्या च सुमानसाः । सेवन्ते ते निबध्नन्ति चिरमायुस्त्रिविष्टपे ॥३३९॥
 सौधर्मादिषु कल्पेषु यान्ति केचित्समुद्भवम् । अपरे त्वहमिन्द्रत्व मुक्तिमन्ये विशुद्धितः ॥३४०॥
 विनयेन परिष्वक्ता गुणशीलसमन्विताः । तपस्योजितस्वान्ता यान्ति नाकमसशयम् ॥३४१॥
 तत्र कामेन मुक्त्वासौ भोगान्प्राप्तो मनुष्यताम् । भुङ्क्ते राज्यं महज्जैनं मत च प्रतिपद्यते ॥३४२॥
 जिनशासनमासाद्य स क्रमात्साधुचेष्टितः । सर्वकर्मविमुक्तानामालय प्रतिपद्यते ॥३४३॥
 स्तुत्वा कालत्रये यस्तु नमस्यति जिन त्रिधा । शैलराजवदक्षोभ्यः कुर्तार्थमतवायुभिः ॥३४४॥

वैराग्यको प्राप्त हो जिनेन्द्र-प्रतिपादित दीक्षाको धारण किया था ॥३३१॥ जो मनुष्य अनगार महर्षियोंके कालकी प्रतीक्षा करते हैं वे हरिषेण चक्रवर्तीके समान उत्कृष्ट भोगोंको प्राप्त होते हैं ॥३३२॥ हरिषेणने मुनिवेलामें मुनिके आगमनकी प्रतीक्षा कर बहुत भारी पुण्यका सञ्चय किया था इसलिए वह अत्यन्त उन्नत लक्ष्मीको प्राप्त हुआ था ॥३३३॥

शुद्ध सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाले जो मनुष्य ध्यानकी भावनासे प्रेरित हो मुनिके समीप जाकर एकभक्त करते हैं अर्थात् एक बार भोजन करनेका नियम लेते हैं और एक भक्तसे ही समय पूराकर मृत्युको प्राप्त होते हैं वे रत्नोंकी कान्तिसे जगमगाते हुए विमानोमे उत्पन्न होते हैं ॥३३४-३३५॥ शुद्ध हृदयको धारण करनेवाले वे देव, निरन्तर प्रकाशित रहनेवाले उन विमानोमे अप्सराओके बीच बैठकर चिरकाल तक क्रीडा करते हैं ॥३३६॥ जो उत्तम हार धारण किये हुए हैं, जिनकी कलाइयोमे उत्तम कड़े सुशोभित हैं, जो कमरमे कटिसूत्र और शिरपर मुकुट धारण करते हैं, जिनके ऊपर छत्र फिरता है और पार्श्वमें चमर ढोले जाते हैं ऐसे देव, एक भक्त व्रतके प्रभावसे होते हैं ॥३३७॥

जो महाव्रत धारण करनेकी भावना रखते हुए वर्तमानमें अणुव्रत धारण करते हैं तथा शरीरको अनित्य समझकर जिनके हृदय अत्यन्त शान्त हो चुके हैं ऐसे जो मनुष्य हृदयपूर्वक अष्टमी और चतुर्दशीके दिन उपवास करते हैं वे स्वर्गकी दीर्घायुका वन्ध करते हैं ॥३३८-३३९॥ उनमेसे कोई तो सौधर्मादि स्वर्गोमे जन्म लेते हैं, कोई अहमिन्द्र पद प्राप्त करते हैं और कोई विशुद्धताके कारण मोक्ष जाते हैं ॥३४०॥ जो निरन्तर विनयसे युक्त रहते हैं, गुण और शीलव्रतसे सहित होते हैं तथा जिनका चित्त सदा तपमे लगा रहता है ऐसे मनुष्य निःसन्देह स्वर्ग जाते हैं वहाँ इच्छानुसार भोग भोगकर मनुष्य होते हैं, बड़े भारी राज्यका उपभोग करते हैं और जैनमतको प्राप्त होते हैं ॥३४१-३४२॥ जैनमतको पाकर क्रम-क्रमसे मुनियोंका चरित्र धारण करते हैं और उसके प्रभावसे सर्व कर्मरहित सिद्धोंका निकेतन प्राप्त कर लेते हैं ॥३४३॥

जो प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल इन तीनों कालोंमें मन, वचन, कायसे स्तुति कर जिन देवको नमस्कार करता है अर्थात् त्रिकाल वन्दनाका नियम लेता है वह सुमेरुपर्वतके

१. रमन्ते मय्यवर्तिनः म० । २. कटकाधाराः प्रकोष्ठाः म० । ३. ते न विनन्ति ख० । तेन वध्नन्ति म० ।

गुणालङ्कारसपन्न सुशीलसुरभीकृत । सर्वेन्द्रियहर भोगं भजते त्रिदशालये ॥३४५॥
 तत' कतिचिदावृत्ती. कृत्वा शुभगतिद्वये । प्रयाति परमं स्थान सर्वकर्मविवर्जित ॥३४६॥
 विपया हि समभ्यस्ताश्चिरं सकलजन्तुभि । ततस्त्वैर्मोहिता' कर्तुं विरतिं विभवो' न ते ॥३४७॥
 इदं तत्र परं चित्रं ये तान् दृष्ट्वा विपान्नवत् । निवाणकारण कर्म सेवन्ते पुरुषोत्तमा ॥३४८॥
 संसारे' भ्रमतो जन्तोरेकापि विरति कृता । सम्यग्दर्शनयुक्तस्य मुक्तेरायाति वीजताम् ॥३४९॥
 एकोऽपि नास्ति येषां तु नियम. प्राणधारिणाम् । पशवस्तेऽथवा भग्नकुम्भा गुणविवर्जिता ॥३५०॥
 गुणव्रतसमृद्धेन नियमस्येनै जन्तुना । भाष्य प्रसादयुक्तेन ससारतरणैपिणा ॥३५१॥
 दुष्कर्म ये न मुञ्चन्ति मानवा मतिदुर्विधा । भ्रमन्ति भवकान्तार जात्यन्धा इव ते चिरम् ॥३५२॥
 ततस्तेऽजन्तवैर्येन्दुवाङ्मरीचिसमागमात् । प्रमोद परमं प्राप्तास्तिर्यङ्मानवनाकजाः ॥३५३॥
 सम्यग्दर्शनमायाता' केचित्केचिदणुव्रतम् । महाव्रतधरा. केचिज्जाता विक्रमशालिन ॥३५४॥
 अथ धर्मरथाख्येन मुनिनाभापि रावण । गृहाण नियम भव्य कच्चिदित्यात्मगणकितः ॥३५५॥
 द्वीपोऽय धर्मरत्नानामेनगारमहेस्वर । गृह्यतामेकमप्यस्माद्रत्न नियमसंज्ञकम् ॥३५६॥
 किमर्थमेव'भास्ते त्वं चिन्ताभारवशीकृतः । महता हि ननु त्यागो न मतेः रोदकारणम् ॥३५७॥
 रत्नद्वीपं प्रविष्टस्य यथा भ्रमति मानसम् । इद वृत्त तथैवास्य परमाकुलतां गतम् ॥३५८॥

समान मिथ्यामत रूपी वायुसे सदा अक्षोभ्य रहता है ॥३४४॥ जो गुणरूपी अलङ्कारोसे सुशो-
 भित है तथा जिसका शरीर शीलव्रत रूपी चन्दनसे सुगन्धित है ऐसा वह पुरुष स्वर्गमें समस्त
 इन्द्रियोंको हरनेवाले भोग भोगता है ॥३४५॥ तदनन्तर मनुष्य और देव इन दो शुभगतियोंमें
 कुछ आवागमन कर सर्वकर्मरहित हो परम धाम (मोक्ष) को प्राप्त हो जाता है ॥३४६॥ चूँकि
 पञ्चेन्द्रियोंके विषय सब जीवोंके द्वारा चिरकालसे अभ्यस्त है इसलिए इनसे मोहित हुए प्राणी
 विरति (त्याग-आखड़ी) करनेके लिए समर्थ नहीं हो पाते हैं ॥३४७॥ यहाँ बड़ा आश्चर्य तो यही
 है कि फिर भी उत्तम पुरुष उन विषयोंको विषमिश्रित अन्नके समान देखकर मोक्ष प्राप्तिके साधक
 कार्यका सेवन करते हैं ॥३४८॥ संसारमें भ्रमण करनेवाले सम्यग्दृष्टि जीवको यदि एक ही विरति
 (आखड़ी) प्राप्त हो जाती है तो वह मोक्षका बीज हो जाती है ॥३४९॥ जिन प्राणियोंके एक
 भी नियम नहीं है वे पशु हैं अथवा रस्सीसे रहित (पक्षमें व्रतशील आदि गुणोंसे रहित) फूटे
 घड़ेके समान हैं ॥३५०॥ गुण और व्रतसे समृद्ध तथा नियमोंका पालन करनेवाले प्राणियोंको यदि
 वह संसारसे पार होनेकी इच्छा रखता है तो प्रसादरहित होना चाहिए ॥३५१॥ जो बुद्धिके
 दरिद्र मनुष्य दुष्कर्म—खोटे कार्य नहीं छोड़ते हैं वे जन्मान्ध मनुष्योंके समान चिरकाल तक
 संसाररूपी अटवीमें भटकते रहते हैं ॥३५२॥

तदनन्तर वहाँ जो भी तिर्यञ्च मनुष्य और देव विद्यमान थे वे उन अनन्तवल केवली
 रूपी चन्द्रमाके वचन रूपी किरणोंके समागमसे परम हर्षको प्राप्त हुए ॥३५३॥ उनमेंसे कोई तो
 सम्यग्दर्शनको प्राप्त हुए, कोई अणुव्रती हुए और कोई बलशाली महाव्रतोंके धारक हुए ॥३५४॥
 अथानन्तर धर्मरथ नामक मुनिने रावणसे कहा कि हे भव्य ! अपनी शक्तिके अनुसार कोई
 नियम ले ॥३५५॥ ये मुनिराज धर्मरूपी रत्नोंके द्वीप हैं सो इनसे अधिक नहीं तो कमसे कम
 एक ही नियम रूपी रत्न ग्रहण कर ॥३५६॥ इस प्रकार चिन्ताके चशीभूत होकर क्यों बैठा है ?
 निश्चयसे त्याग महापुरुषोंकी बुद्धिके खेदका कारण नहीं है अर्थात् त्यागसे महापुरुषोंको
 खिन्नता नहीं होती प्रत्युत प्रसन्नता होती है ॥३५७॥ जिस प्रकार रत्नद्वीपमें प्रविष्ट हुए पुरुषका
 चित्त 'यह लूँ या यह लूँ' इस तरह चञ्चल होकर घूमता है उसी प्रकार इस चारित्र्य रूपी द्वीपमें

अथास्य मानस चिन्ता समारूढेयमुत्कटा । भोगानुरक्तचित्तस्य व्याकुलत्वमुपेयुषः ॥३५६॥
 स्वभावेनैव मे शुद्धमन्यो गन्धमनोहरम् । स्वादु वृष्य परित्यक्तमांसादिमलसगमम् ॥३६०॥
 स्थूलप्राणिवधादिभ्यो विरतिं गृहवासिनाम् । एकामपि न शक्तोऽहं कर्तुं कान्यत्र सकथा ॥३६१॥
 मत्तेभसदृश चेतस्तद्वावत्सर्ववस्तुषु । हस्तेनेवात्मभावेन धत्तुं न प्रभवाम्यहम् ॥३६२॥
 हुताशनशिखा पेया वद्धव्यो वायुरंशुके । उल्लेसव्यो धराधीशो निर्ग्रन्थत्वमभीप्सता ॥३६३॥
 शूरोऽपि न समर्थोऽहं सेवितुं यत्तपोव्रतम् । अहो चित्रमिदं तद्ये धारयन्ति नरोत्तमाः ॥३६४॥
 किमेकमाश्रयाम्येत नियम शोभनामपि । अवष्टम्भामि नानिच्छामन्ययोपां बलादिभिः ॥३६५॥
 अथवा न ननु क्षुद्रे कुतः शक्तिरियं मयि । स्वस्याप्यस्य न शनोमि वोढुं चित्तस्य निश्चयम् ॥३६६॥
 यद्वा लोकत्रये नासौ विद्यते प्रमदोत्तमा । दृष्ट्वा मां विकलत्वं या न ब्रजेन्मन्मथार्दिता ॥३६७॥
 का वा नरान्तरालेषदूषितप्रमदातनौ । ओष्ठचर्मदधानाया परदन्तकृतव्रणम् ॥३६८॥
 दुर्गन्धायां स्वभावेन वर्चोराशौ भवेद्दृष्टिः । नरस्य दधतश्चित्तं मानसंस्कारभाजनम् ॥३६९॥
 अवधार्येतिभावेन प्रणम्यानन्तविक्रमम् । देवासुरसमच्च स प्रकाशमिदमभ्यधात् ॥३७०॥
 भगवन्न मया नारी परस्येच्छाविवर्जिता । गृहीतव्येति नियमो ममाय कृतनिश्चयः ॥३७१॥
 चतुःशरणमाश्रित्य भानुकर्णोऽपि कर्णवान् । इमं नियममातस्थे मन्दरस्थिरमानसः ॥३७२॥

प्रविष्ट हुए पुरुषका भी चित्त 'यह नियम लेँ या यह नियम लेँ' इस तरह परम आकुलताको प्राप्त हो घूमता रहता है ॥३५८॥

अथानन्तर जिसका चित्त सदा भोगोमे अनुरक्त रहता था और इसी कारण जो व्याकुलताको प्राप्त हो रहा था ऐसे रावणके मनमे यह भारी चिन्ता उत्पन्न हुई कि ॥३५६॥ मेरा भोजन तो स्वभावसे ही शुद्ध है, सुगन्धित है, स्वादिष्ट है, गरिष्ठ है और मांसादिके संसर्गसे रहित है ॥३६०॥ स्थूल हिंसा त्याग आदि जो गृहस्थोके व्रत है उनमेसे मैं एक भी व्रत धारण करनेमे समर्थ नहीं हूँ फिर अन्य व्रतोकी चर्चा ही क्या है ? ॥३६१॥ मेरा मन मदोन्मत्त हाथीके समान सर्व वस्तुओमे दौड़ता रहता है सो उसे मैं हाथके समान अपनी भावनासे रोकनेमे समर्थ नहीं हूँ ॥३६२॥ जो निर्ग्रन्थ व्रत धारण करना चाहता है वह मानो अग्निकी शिखाको पीना चाहता है, वायुको वस्त्रमे बाँधना चाहता है, और सुमेरुको उठाना चाहता है ॥३६३॥ वड़ा आश्चर्य है कि मैं शूर वीर होकर भी जिस तप एवं व्रतको धारण करनेमें समर्थ नहीं हूँ उसी तप एवं व्रतको अन्य पुरुष धारण कर लेते हैं। यथार्थमे वे ही पुरुषोत्तम है ॥३६४॥ रावण सोचता है कि क्या मैं एक यह नियम ले लेँ कि परस्त्री कितनी ही सुन्दर क्यों न हो यदि वह मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसे बलपूर्वक नहीं छेड़ूँगा ॥३६५॥ अथवा मुझ लुद्ध व्यक्तिमे इतनी शक्ति कहाँसे आई ? मैं अपने ही चित्तका निश्चय बहन करनेमे समर्थ नहीं हूँ ॥३६६॥ अथवा तीनो लोकोमे ऐसी उत्तम स्त्री नहीं है जो मुझे देखकर कामसे पीड़ित होती हुई विकलताको प्राप्त न हो जाय ? ॥३६७॥ अथवा जो मनुष्य मान और संस्कारके पात्र स्वरूप मनको धारण करता है उसे अन्य मनुष्यके संसर्गसे दूषित स्त्रीके उस शरीरमे धैर्य—सन्तोष ही कैसे सकता है कि जो अन्य पुरुषके दाँतो द्वारा किये हुए घावसे युक्त ओठको धारण करता है, स्वभावसे ही दुर्गन्धित है और मलकी राशि स्वरूप है ॥३६८-३६९॥ ऐसा विचारकर रावणने पहले तो अनन्तबल केवलीको भाव पूर्वक नमस्कार किया। फिर देवो और असुरोके समक्ष स्पष्ट रूपसे यह कहा कि ॥३७०॥ हे भगवन् ! 'जो परस्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगा' मैंने यह दृढ़ नियम लिया है ॥३७१॥ जो समस्त बातोको सुन रहा था तथा जिसका मन सुमेरुके समान स्थिर था ऐसे भानुकर्ण (कुम्भकर्ण) ने भी अरहन्त सिद्ध साधु और जिन धर्म इन चारको

१. भोजनम् । २. संयतव्रतम् ज० । ३. ननु न म० । नन न क०, ख० । ४. भवेद्व्रतिः म० ।

करोमि प्रातरुथाय साम्प्रत प्रतिवासरम् । स्तुत्वा पूजा जिनेन्द्राणामभिषेकसमन्विताम् ॥३७३॥
 १व्रिवस्यामैवस्त्राणामकृत्वा विधिनान्वितम् । अद्य प्रभृति नाहार करोमीति ससमदः ॥३७४॥
 जानुभ्या भुवमाक्रम्य प्रणम्य मुनिमादरात् । अन्यानपि महाशक्तिनियमान् स समार्जयत् ॥३७५॥
 ततो देवा सुरा भक्ता प्रणम्य मुनिपुङ्गवम् । यथास्व निलय जग्मुर्हर्षविस्तारितेक्षणा ॥३७६॥
 अभि लङ्कां दशास्योऽपि प्रतस्थे पृथुविक्रमः । खसुत्पत्य दधल्लीला सुरनाथसमुद्भवाम् ॥३७७॥
 वरखीजनसघातैः कृतप्रणतिपूजन । नगरीं स्वा विवेशासौ वस्त्रादिकृतभूपणाम् ॥३७८॥
 प्रविश्य वसति स्वा च समस्तविभवार्चिताम् । ३अनावृत इवातिष्ठद्गभीरा ४मान्दरीं गुहाम् ॥३७९॥

वंशस्थवृत्तम्

भवन्ति कर्माणि यदा शरीरिणां प्रशान्तियुक्तानि विमुक्तिभाविनाम् ।
 ततोपदेश परम गुरोर्मुखादवाप्नुवन्ति प्रभवं शुभस्य ते ॥३८०॥
 इति प्रबुद्धोद्यतमानसा जना जिनश्रुतौ सज्जत भो पुनः पुनः ।
 परेण धर्म विनयेन शृण्वता भवत्यमन्दोऽवगमो यथा रवि ॥३८१॥

इत्यार्षे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते अनन्तवलधर्माभिधान
 नाम चतुर्दशं पर्व ॥१४॥



शरणमें जाकर यह नियम लिया कि 'मैं प्रति दिन प्रातः काल उठकर तथा स्तुतिकर अभिषेक पूर्वक जिनेन्द्र देवकी पूजा करूँगा । साथ ही जब तक मैं निर्ग्रन्थ साधुओंकी पूजा नहीं कर लूँगा तब तक आजसे लेकर आहार नहीं करूँगा' । भानुकर्णने यह प्रतिज्ञा बड़े हर्षसे की ॥३७२-३७४॥ इसके सिवाय उसने पृथिवीपर घुटने टेक मुनिराजको आदर पूर्वक नमस्कारकर और भी बड़े-बड़े नियम लिये ॥३७५॥ तदनन्तर हर्षसे जिनके नेत्र फूल रहे थे ऐसे भक्त देव और असुर मुनिराजको नमस्कारकर अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥३७६॥ विशाल पगक्रमका धारी रावण भी आकाशमें उड़कर इन्द्रकी लीला धारण करता हुआ लङ्काकी ओर चला ॥३७७॥ उत्तमोत्तम स्त्रियोंके समूहने प्रणाम पूर्वक जिसकी पूजा की थी ऐसे रावणने वस्त्रादिसे सुसज्जित अपनी नगरीमें प्रवेश किया ॥३७८॥ जिस प्रकार अनावृत देव मेरुपर्वतकी गभीर गुहामें रहता है उसी प्रकार रावण भी समस्त वैभवसे युक्त अपने निवासगृहमें प्रवेश कर रहने लगा ॥३७९॥

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! जब भव्य जीवोंके कर्म उपशम भावको प्राप्त होते हैं तब वे सुगुरुके मुखसे कल्याणकारी उत्तम उपदेश प्राप्त करते हैं ॥३८०॥ ऐसा जानकर हे प्रबुद्ध एव उद्यमशील हृदयके धारक भव्य जनो ! तुम लोग बार-बार जिन धर्मके सुननेमें तत्पर होओ क्योंकि जो उत्तम विनयपूर्वक धर्म श्रवण करते हैं उन्हें सूर्यके समान विपुल ज्ञान प्राप्त होता है ॥३८१॥

इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्यके द्वारा कथित पद्मचरितमें अनन्तवल

केवलीके द्वारा धमापदेशका निरूपण करनेवाला चौदहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥१४॥



पञ्चदशं पर्व

तस्यैव च सुने पार्श्वे हनूमान् गृहिणां व्रतम् । विभीषणश्च जग्राह कृत्वा भावं सुनिश्चितम् ॥१॥
 न तथा गिरिराजस्य स्थिरत्वं शस्यते बुधैः । हनूमच्छीलसम्यक्त्वं यथा परमनिश्चलम् ॥२॥
 सौभाग्यादिभिरत्यन्तं हनूमति तंतः स्तुते । इत्यूचे भगवाधीशो रोमाञ्च विभ्रदुत्कटम् ॥३॥
 हनूमान् को गणाधीश किंविशिष्टः कुतः क्व वा । भगवन्नस्य तत्त्वेन ज्ञातुमिच्छामि चेष्टितम् ॥४॥
 ततः सत्पुरुषाभिख्यासंजातपुरुसम्मदः । वाचाह्लादनकारिण्या गौणप्राग्रहरोऽवदत् ॥५॥
 दक्षिणस्यां नृप श्रेण्यां विजयार्घस्य भूभृत्तः । दशयोजनमध्वानमतिक्रम्य व्यवस्थितम् ॥६॥
 आदित्यनगराभिर्यं पुरमस्ति मनोहरम् । प्रह्लादस्तत्र राजास्य नाम्ना केतुमती प्रिया ॥७॥
 शुभो वायुगतिर्नाम बभूव तनयोऽनयोः । लक्ष्म्या वक्षस्थल यस्य त्रिपुलं निर्ययाकृतम् ॥८॥
 सम्पूर्णयौवनं दृष्ट्वा तं तदारक्रियां प्रति । चकार जनकश्चिन्तां सन्तानच्छेदकातरः ॥९॥
 आस्तां तावद्विदं राजन्निदमन्यन्मतौ कुरु । वचन येन तदारसभवः परिकीर्त्यते ॥१०॥
 वासस्य भरतस्यान्ते सन्निकृष्टे महोदधेः । पूर्वदक्षिणदिग्भागे दन्तीत्यस्ति महीधरः ॥११॥
 विपुलाभ्रंलिहोद्धारतेजःशिखरसकटः । नानाद्रुमौपधिव्याप्तः सुनिर्करमहातटः ॥१२॥
 यतः प्रभृति तत्रास्थात्सनिवेश्य वर पुरम् । विद्याधरो महेन्द्रास्थो महेन्द्रोपमविक्रमः ॥१३॥

अथानन्तर उन्हीं मुनिराजके पास हनूमान और विभीषणने भी अभिप्रायको सुदृढ़ कर गृहस्थोके व्रत ग्रहण किये ॥१॥ गौतमस्वामी कहते हैं कि विद्वान् लोग सुमेरुपर्वतकी स्थिरताकी उस प्रकार प्रशंसा नहीं करते जिस प्रकार कि परमनिश्चलताको प्राप्त हुए हनूमानके शील और सम्यग्दर्शनकी करते हैं ॥२॥ इस प्रकार जब गौतमस्वामीने सौभाग्य आदिके द्वारा हनूमानकी अत्यधिक प्रशंसा की तब उत्कट रोमाञ्चको धारण करता हुआ श्रेणिक बोला कि ॥३॥ हे गणनाथ ! हनूमान कौन ? इसकी क्या विशेषता है ? कहाँ किससे इसकी उत्पत्ति हुई है ? हे भगवन् ! मैं इसका चरित्र यथार्थमे जानना चाहता हूँ ॥४॥ तदनन्तर सत्पुरुषका नाम सुननेसे जिन्हें अत्यधिक हर्ष उत्पन्न हो रहा था ऐसे गणधर भगवान् आह्लाद उत्पन्न करनेवाली वाणीमे कहने लगे ॥५॥

हे राजन् ! विजयार्घ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमे दशयोजनका मार्ग लोंघकर आदित्यपुर नामक एक मनोहर नगर है । वहाँके राजा प्रह्लाद और उनकी रानीका नाम केतुमती था ॥६-७॥ इन दोनोंके पवनगति नामका उत्तम पुत्र हुआ । पवनगतिके विशाल वक्षःस्थलको लक्ष्मीने अपना निवासस्थल बनाया था ॥८॥ उसे पूर्णयौवन देख, सन्तान-विच्छेदका भय रखनेवाले पिताने उसके विवाहकी चिन्ता की ॥९॥ गौतमस्वामी कहते हैं कि हे राजन् ! यह कथा तो अब रहने दो । दूसरी कथा हृदयमे धारण करो जिससे कि पवनगतिके विवाहकी चर्चा सम्भव हो सके ॥१०॥

इसी भरत क्षेत्रके अन्तमे महासागरके निकट आग्नेय दिशामे एक दन्ती नामका पर्वत है ॥११॥ जो बड़ी-बड़ी गगनचुम्बी चमकीली शिखरोसे युक्त है, नाना प्रकारके वृक्ष और औपधियोंसे व्याप्त है, तथा जिसके लम्बे-चौड़े किनारे उत्तमोत्तम भरनोसे युक्त है ॥१२॥ महेन्द्रके समान पराक्रमको धारण करनेवाला महेन्द्र विद्याधर उत्तम नगर वसाकर जबसे उस पर्वतपर

१. ततस्तुते क०, म०, व०, ज० । ततोस्तुते ख० । २. गणधरः । ३. गृहीकृतम् । ४. क्षेत्रस्य । ५. तत्र-स्थात् म० ।

तत आरभ्य संप्राप महेन्द्रास्यां रसाधरः । महेन्द्रनगर तच्च पुरं तत्र प्रकीर्तितम् ॥१४॥
 नायां हृदयवेगायामजायन्त महेन्द्रत । गुणवन्त गत पुत्रा नामतोऽरिंदमादय ॥१५॥
 उदपाद्यनुजा^३ तेषां कीर्तिताज्ञनसुन्दरी । त्रैलोक्यसुन्दरीरूपसन्दोहेनैव निर्मिता^४ ॥१६॥
 नीलनीरजनिर्मासा प्रशस्तकरपल्लवा । पद्मगर्भामचरणा कुम्भिकुम्भनिमस्तनी ॥१७॥
 तनुमध्या पृथुश्रेणी^५ सुजानूरुः^६ सुलक्षणा । प्रफुल्लमालतीमालामृदुवाहुलतायुगा ॥१८॥
 कर्णान्तसंगते कान्तिकृतपुङ्खे सुदूरगे । इषू ते कामदेवस्य ननु तस्या विलोचने ॥१९॥
 गन्धर्वाङ्किकलाभिज्ञा साक्षादिव सरस्वती । लक्ष्मीरिव च रूपेण सा वभूद गुणान्विता ॥२०॥
 अन्यदा कन्दुकेनासा रममाणा^७ सरेचकम् । जनकेनेच्छिताभ्यग्रयौवनान्वितविग्रहा ॥२१॥
 सुलोचनासुताभर्वृवरचिन्तातिदु खिन^८ । अकम्पननृपस्येव सदगुणार्पितचेतसः ॥२२॥
 तद्वरान्वेषणे तस्य ततः सक्ताभवन्मति । अत्यन्तव्याकुलप्राय कन्यादु खं मनस्विनाम् ॥२३॥
 गमिष्यति पतिं ग्लाध्य रमयिष्यति त चिरम् । भविष्यत्युज्ज्विता दोषैरतिचिन्ता नृणां सुता ॥२४॥
 आहूय सुहृद सर्वास्ततो विज्ञानभूषणान् । राजा वरविनिश्चित्यै रद्दोगेहमशिष्रियत् ॥२५॥
 जगाद मन्त्रिणश्चैव महो निखिलवेदिन । सूरयो मम कन्याया वदत प्रवरं वरम् ॥२६॥

रहने लगा था तभीसे उस पर्वतका 'महेन्द्रगिरि' नाम पड़ गया था और उस नगरका महेन्द्र-
 नगर नाम प्रसिद्ध हो गया था ॥१३-१४॥ राजा महेन्द्रकी हृदयवेगा रानीसे अरिंदम आदि सौ
 गुणवान् पुत्र उत्पन्न हुए ॥१५॥ उनके अज्ञानसुन्दरी नामसे प्रसिद्ध छोटी वहिन उत्पन्न हुई । वह
 ऐसी जान पड़ती थी मानो तीन लोककी सुन्दर खियोंका रूप इकट्ठाकर उसके समूहसे ही उसकी
 रचना हुई थी ॥१६॥ उसकी प्रभा नील कमलके समान सुन्दर थी, हस्त रूप पल्लव अत्यन्त
 प्रशस्त थे, चरण कमलके भीतरी भागके समान थे, स्तन हाथीके गण्डस्थलके तुल्य थे ॥१७॥
 उसकी कमर पतली थी, नितम्ब म्यूल थे, जङ्घाएँ उत्तम घुटनोंसे युक्त थीं, उसके शरीरमें अनेक
 शुभ लक्षण थे, उसकी दोनों भुजलताएँ प्रफुल्ल मालतीकी मालाके समान कोमल थीं ॥१८॥ कानों
 तक लम्बे एवं कान्तिरूपी मूठसे युक्त उसके दोनों नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेवके सुदूर-
 गामी वाण ही हों ॥१९॥ वह गन्धर्व आदि कलाओंको जाननेवाली थी इसलिए साक्षात् सरस्वतीके
 समान जान पड़ती थी और रूपसे लक्ष्मीके तुल्य लगती थी ॥२०॥ इस प्रकार अनेक गुणोंसे
 सहित वह कन्या किसी समय गोलाकार भ्रमण करती हुई गेद खेल रही थी कि पिताकी उसपर
 दृष्टि पड़ी । पिताने देखा कि कन्याका शरीर नव-यौवनसे सुशोभित हो रहा है । उसे देख जिस
 प्रकार उत्तम गुणोंमें चित्त लगानेवाले राजा अकम्पनको अपनी पुत्री सुलोचनाके योग्य वर ढूँढनेकी
 चिन्ता हुई थी और उससे वह अत्यन्त दुःखी हुआ था उसी प्रकार राजा महेन्द्रको भी पुत्रीके
 योग्य वर ढूँढनेकी चिन्ता हुई सो ठीक ही है क्योंकि स्वाभिमानी मनुष्योंको कन्याका दुःख
 अत्यन्त व्याकुलता उत्पन्न करनेवाला होता है ॥२१-२३॥ कन्याके पिताको सदा यह चिन्ता
 लगी रहती है कि कन्या उत्तम पतिको प्राप्त होगी या नहीं, यह उसे चिरकाल तक रमण करा
 सकेगी या नहीं और निर्दोष रह सकेगी या नहीं । यथार्थमें पुत्री मनुष्यके लिए बड़ी चिन्ता
 है ॥२४॥

अथानन्तर राजा महेन्द्र ज्ञानरूपी अलङ्कारसे अलङ्कृत समस्त मित्रजनोंको बुलाकर
 वरका निश्चय करनेके लिए एकान्त घरमें गये ॥२५॥ वहाँ उन्होंने मन्त्रियोंसे कहा कि अहो
 मन्त्रिजनो ! आप लोग सब कुछ जानते हैं तथा विद्वान् हैं अतः मेरी कन्याके योग्य उत्तम

१. पृथिवीधरः पर्वतः । २. प्रतिपु 'जायत' इति पाठ । ३. उदयाद्यनुजास्तेषा म० । ४. निर्मिताः
 म० । ५. पृथुश्रेणी म० । ६. सुलक्षणा ख० । ७. स भ्रमणम् । ८. दुःखितः म० । ९. एकान्तग्रहम्-स० ।

तत्र मन्त्री जगादैकं कन्येयं भरताधिपे । योज्यतां रक्षसामीश इति मे^१ निश्चितं मतम् ॥२७॥
 रावण स्वजनं प्राप्य सर्वविद्याधराधिपम् । जगत्यां सागरान्तायां प्रभावस्ते भ्रमिष्यति ॥२८॥
 अथवेन्द्रजित्ने यूने मेघनादाय वा नृप । त्रीयतामेवमप्येव रावणस्तत्र दान्धवः ॥२९॥
 अथैतन्न तवाभीष्टं ततः कन्या स्वयंवरा । विमुच्यतां न वैरी ते तथा सन्धुपजायते ॥३०॥
 इत्युक्त्वा विरतिं याते^३ मन्त्रिण्यमरसागरे । विद्वान्सुमतिसज्ञाको जगाद् वचनं स्फुटम् ॥३१॥
 दशास्योऽनेकपत्नीको महाहङ्कारगोचरः । इमां प्राण्यापि नो तस्य प्रीतिरस्मासु जायते ॥३२॥
 षोडशाब्दसमानेऽपि सन्याकारेऽस्य भोगिनः । उत्कृष्टमेव विज्ञेयं नयः परमतेजसः ॥३३॥
 इन्द्रजिन्मेघवाहाय सति दाने प्रकृष्यति । मेघवाहस्तथा तस्मै तस्मात्तावपि नो वरी ॥३४॥
 श्रीपेणसुतयोरासीद् गणिकार्थं तदा महत् । पितृदुःखकरं युद्धं स्त्रीहेतोः किं न वेप्यते ॥३५॥
 वाक्य ततोऽनुमन्येदं नाम्ना^६ ताराधरायण । जगाद् वचनं चैनं भावेन हृतमानसः ॥३६॥
 जयाद्विद्वत्क्षिणं स्थानं कनक नाम विद्यते । राजा तत्र हिरण्याभः सुमनास्तस्य भामिनी ॥३७॥
 अभवत्तनयस्तस्य नाम्ना सौदामिनीप्रभः । महता यशसा कान्त्या वयसा चातिशोभनः ॥३८॥
 सर्वविद्याकलापारो लोकनेत्रमहोत्सव । गुणरनुपमश्चेष्टारञ्जिताखिलविष्टपः ॥३९॥

वर वतलाइए ॥२६॥ तब एक मन्त्रीने कहा कि यह कन्या भरत क्षेत्रके स्वामी राक्षसोंके अधि-
 पति रावणके लिए दी जानी चाहिए ऐसा मेरा निश्चित मत है ॥२७॥ समस्त विद्याधरोंके स्वामी
 रावण जैसे स्वजनको पाकर आपका प्रभाव समुद्रान्त पृथिवीमें फैल जायगा ॥२८॥ अथवा
 हे राजन् ! रावणके पुत्र इन्द्रजित् और मेघनाद तरुण हैं सो इन्हें यह कन्या दीजिए क्योंकि
 उन्हें देनेपर भी रावण स्वजन होगा ॥२९॥ अथवा यह बात भी आपको इष्ट नहीं है तो फिर
 कन्याको स्वयं पति चुननेके लिए छोड़ दीजिए अर्थात् इसका स्वयंवर कीजिए । ऐसा करनेसे
 आपका कोई वैरी नहीं बन सकेगा ॥३०॥ इतना कहकर जब अमरसागर मन्त्री चुप हो गया
 तब सुमति नामका दूसरा विद्वान् मन्त्री स्पष्ट वचन बोला ॥३१॥ उसने कहा कि रावणके अनेक
 पत्नियों हैं, साथ ही वह महा अहङ्कारी है इसलिए इसे पाकर भी उसकी हम लोगोंमें प्रीति
 उत्पन्न नहीं होगी ॥३२॥ यद्यपि इस परम प्रतापी भोगी रावणका आकार सोलह वर्षके
 पुरुषके समान है तो भी उसकी आयु अधिक तो है ही ॥३३॥ अतः इसके लिए कन्या देना मैं
 उचित नहीं समझता । दूसरा पत्न इन्द्रजित् और मेघनादका रक्खा सो यदि मेघनादके लिए
 कन्या दी जाती है तो इन्द्रजित् कुपित होता है और इन्द्रजित्के लिए देते हैं जो मेघनाद कुपित
 होता है इसलिए ये दोनों वर भी ठीक नहीं हैं ॥३४॥ पहले राजा श्रीपेणके पुत्रोंमें एक गणिका
 के निमित्त पिताको दुःखी करनेवाला बड़ा युद्ध हुआ था यह सुननेमें आता है सो ठीक ही है
 क्योंकि स्त्रीका निमित्त पाकर क्या नहीं होता है ? ॥३५॥

तदनन्तर जिसका हृदय सद्भिप्रायसे युक्त था ऐसा ताराधरायण नामका मन्त्री, पूर्व
 मन्त्रीके वचनोंकी अनुमोदनाकर इस प्रकारके वचन बोला ॥३६॥ उसने कहा कि विजयार्ध-
 पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक कनकपुर नामका नगर है । वहाँ राजा हिरण्याभ रहते हैं उनकी
 रानीका नाम सुमना है ॥३७॥ उन दोनोंके विद्युत्प्रभ नामका पुत्र उत्पन्न हुआ है जो बहुत भारी
 यश, कान्ति और अवस्थासे अत्यन्त सुन्दर है ॥३८॥ वह समस्त विद्याओं और कलाओंका
 पारगामी है, लोगोंके नेत्रोंका मानो महोत्सव ही है, गुणोंसे अनुपम है और अपनी चेष्टाओंसे

१. निश्चयम्- म० । २. अथ तं न क०, ख०, म०, व०, ज० । ३. याति म० । ४. प्रीतिरस्या
 उजायते ख० । ५. अधिकमेव । ६. तारान्वरायणः क०, म० । ७. स्वेन क०, म०, व०, ज० । ८. हृतमानसः
 व० । हृतमानसः क०, म०, ज० ।

सुरविद्यार्थं सर्वैरेकीभूयापि यत्नतः । अजर्यस्त्रिजगच्छक्तिसग्रहेणैव^१ निर्मितः ॥४०॥
 कन्येय दीयतां तस्मै भवता यदि मम्मतम् । चिरादुत्पद्यता योगो दम्पत्योरनुरूपयो^२ ॥४१॥ ।
 उत्तमाङ्ग ततो यूवा^३ समील्य नयने चिरम् । जगाद वचन मन्त्रा नाम्ना मन्देहपारगः ॥४२॥
 भव्योऽय पूर्वजा याता मम क्वेति विचिन्तयत् । समारप्रकृतिं बुद्ध्वा निर्वेद परमेप्यति ॥४३॥
 विपयो^४त्रप्रसक्तात्मा वर्षेऽष्टादशसस्यैके । भङ्क्वा^५ भोगमहालालान गृहिता^६ परिहास्यति ॥४४॥
 बहिरन्त्रश्च स सङ्ग परित्यज्य महामना । केवलज्ञानमुत्पाद्य किल निर्वाणमेप्यति ॥४५॥
 वियुक्तानेन बालेय भ्रष्टगोभा भविष्यति । शर्वरीव शशाङ्केन जगदालोककारिणा ॥४६॥
 शृणुतातोऽस्ति नगरमादित्यपुरसज्जकम् । पुरन्दरपुराकारं रत्नैरादित्यमासुरम् ॥४७॥
 नभश्चरगशाङ्कोऽत्र प्रह्लादो नाम भोगवान् । तस्य केतुमती पत्नी केतुं सानसन्नामिन ॥४८॥
 तयोर्विक्रमसमारो रूपगीलो गुणाम्बुधि । पवनञ्जयनामास्ति तनयो नयमण्डनः ॥४९॥
 शुभलक्षणसच्छन्नविशालोत्तुङ्गविग्रह^७ । कलाना निलयो वीरो दूरीभूतदुराहित ॥५०॥
 सवत्सरशतेनापि यस्य वक्तु न शक्यते । गुणग्रामोऽखिलः^८ प्राप्तसमस्तजनचेतस^९ ॥५१॥
 अथवा वचनज्ञानमस्पष्टसुपजायते । अतो गन्धैव वीक्ष्यमिम देवममद्युतिम् ॥५२॥

उसने समस्त लोकको अनुरिञ्जित कर रक्खा है ॥३६॥ समस्त देव विद्याधर एक होकर भी उसे प्रयत्नपूर्वक नहीं जीत सकते हैं । ऐसा जान पड़ता है कि मानो वह तीनों लोकोंकी शक्ति इकट्ठी कर ही बनाया गया है ॥४०॥ यदि आपकी सम्मति हो तो यह कन्या उसे दी जावे जिससे योग्य दम्पतियोंका चिर कालके लिए संयोग उत्पन्न हो सके ॥४१॥

तदनन्तर सदेहपारग नामका मन्त्री शिर हिलाकर तथा चिर काल तक नेत्र बन्द कर निम्नांकित वचन बोला ॥४२॥ उसने कहा कि यह निकट भव्य है तथा निरन्तर ऐसा विचार करता रहता है कि मेरे पूर्वज कहाँ गये ? सो इससे जान पड़ता है कि यह ससारका स्वभाव जानकर परम वैराग्यको प्राप्त हो जायगा ॥४३॥ जिसकी आत्मा विपयोमें अनासक्त रहती है ऐसा यह कुमार अठारह वर्षकी अवस्थामे भोगरूपी महा आलानका भङ्गकर गृहस्थ अवस्था छोड़ देगा ॥४४॥ वह महामत्ता बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग परिग्रहका त्यागकर तथा केवल-ज्ञान उत्पन्नकर निर्वाणको प्राप्त होगा ॥४५॥ सो जिस प्रकार जगत्को प्रकाशित करनेवाले चन्द्रमासे गहित होनेपर रात्रि शोभाहीन हो जाती है उसी प्रकार इससे वियुक्त होनेपर यह वाला शोभाहीन हो जावेगी ॥४६॥ इसलिए मेरी बात सुनो, इन्द्रके नगरके समान सुन्दर तथा रत्नोंसे सूर्यके समान देदीप्यमान एक आदित्यपुर नामका नगर है इसमें प्रह्लाद नामका राजा रहता है जो भोगोसे युक्त है तथा विद्याधरोंके बीच चन्द्रमाके समान जान पड़ता है । प्रह्लादकी रानी केतुमती है जो कि सौन्दर्यके कारण कामदेवकी पताकाके समान सुशोभित है ॥४७-४८॥ उन दोनोंके एक पवनञ्जय नामका पुत्र है जो कि अत्यन्त पराक्रमी, रूपवान्, गुणोंका सागर तथा नयरूपी आभूषणोंसे विभूषित है ॥४९॥ उसका अतिशय ऊँचा शरीर अनेक शुभलक्षणोंसे व्याप्त है, वह कलाओंका घर, शूरवीर तथा खोटी चेष्टाओंसे दूर रहनेवाला है ॥५०॥ वह सब लोगोंके चित्तमे बसा हुआ है तथा सां वर्षमें भी उसके समस्त गुणोंका समूह कहा नहीं जा सकता है ॥५१॥ अथवा वचनोंके द्वारा जो किसीका ज्ञान कराया जाता है वह अस्पष्ट ही रहता है इसलिए देव तुल्य कान्तिको धारण करनेवाले इस युवाको स्वयं जाकर ही देख लीजिए ॥५२॥

१. सग्रहेण विनिर्मितः म० । २. कम्पयित्वा । ३. सजके म० । ४. सुक्त्वा म० । ५. महालाभ ज०, म० । महालोना ख० । ६. गृहे ता ख० । ७. शृणुत + अतः + अस्ति । ८. कामस्य । ९. विशालो तुङ्ग म० । १०. खिलप्राप्तसमस्त म०, क०, व० ।

ततः कैतुमतस्योद्यैर्गुणैः^१ श्रोत्रपथं गतैः । सर्वे ते परम प्राप्ताः प्रमोद कृतसम्मदाः ॥५३॥
 श्रुत्वा कन्यापि ता वार्ता विचकास प्रमोदतः । निशाकरकरालोकमात्रादिव कुमुद्वती ॥५४॥
 अत्रान्तरेऽयय प्राप्तः कालो हिमकणान्वितः । कामिनीवदनाम्भोजलावण्यहरणोद्यतः ॥५५॥
 नवं पटलमब्जानां नलिनीनामजायत । चिरोत्कण्ठितमध्वाशसमूहकृतसङ्गमम् ॥५६॥
 घनं शाखाभृतां जज्ञे पत्रपुष्पाङ्कुरोद्भवः । मधुलक्ष्मीपरिष्वङ्गसजातपुलकाकृतिः ॥५७॥
 चूतस्य मञ्जरीजालं मधुव्रतकृतस्वनम् । मनोलोकस्य विव्याध पटलं मारसायकम्^२ ॥५८॥
 कोकिलानां स्वनश्रक्ने मानिनीमानभङ्गनः । जनस्य व्याकुलीभावं वसन्तालापतां गतः ॥५९॥
 रमणद्विजदष्टानामोष्ठानां वेदनाभृताम् ।^३ उदपद्यत वैशद्य चिरेण वरयोपिताम् ॥६०॥
 स्नेहो बभूव चात्यन्तमन्योन्य जगतः परम् । उपकारसमाधानपरेहाप्रकटीकृतः ॥६१॥
 भ्रमरीं भ्रमणश्रान्तां रमणः पञ्चायुना । परितो भ्रमण कुर्वन्श्रकार विगतश्रमाम् ॥६२॥
 दूर्वाप्रवालमुद्घृत्य^४ सारङ्ग्यै^५ पृथतो ददौ । तस्यास्तेनामृतेनेव कापि प्रीतिरजायत ॥६३॥
 करिकण्डूयन रेजे^६ वदनभ्रशिपल्लवम् । करिण्याः^७ सुखसभारनिमीलितविलोचनम् ॥६४॥
 स्तवकस्तननम्राभिश्चलत्पल्लवपाणिभिः ।^८ समालिङ्गयन्त वल्लीभिर्भ्रमराक्षीभिरङ्घ्रिपाः ॥६५॥
 दक्षिणाशामुखोद्गीर्णं^९ प्रावर्तत समीरणः । प्रेर्यमाण इवानेन रविरासीदुदग्गतिः ॥६६॥

तदनन्तर कर्ण मार्गको प्राप्त हुए पवनञ्जयके उत्कृष्ट गुणोसे सब लोग परम हर्षको प्राप्त हो आन्तरिक प्रसन्नता प्रकट करने लगे ॥५३॥ तथा कन्या भी उस वार्ताको सुनकर हर्षसे इस तरह खिल उठी जिस तरह कि चन्द्रमाकी किरणोके देखने मात्रसे कुमुदिनी खिल उठती है ॥५४॥

अथानन्तर इसी बीचमे वसन्त ऋतु आई और स्त्रियोके मुख कमलकी सुन्दरताके अपहरणमे उद्यत शीतकाल समाप्त हुआ ॥५५॥ कमलिनी प्रफुल्लित हुई और नये कमलोके समूह चिरकालसे उत्कण्ठित भ्रमर-समूहके साथ समागम करने लगे अर्थात् उनपर भ्रमरोके समूह गूँजने लगे ॥५६॥ वृक्षोके पत्र पुष्प अङ्कुर आदि घनी मात्रामे उत्पन्न हुए जो ऐसे जान पड़ते थे मानो वसन्त लक्ष्मीके आलिङ्गनसे उनमे रोमाञ्च ही उत्पन्न हुए हो ॥५७॥ जिनपर भ्रमर गुंजार कर रहे थे ऐसे आमके मौरोके समूह कामदेवके बाणोके पटलके समान लोगोका मन वेधने लगे ॥५८॥ मानवती स्त्रियोके मानको भङ्ग करनेवाला कोकिलाओका मधुर शब्द लोगोको व्याकुलता उत्पन्न करने लगा । वह कोकिलाओका शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो उसके बहाने वसन्त ऋतु ही वार्तालाप कर रही हो ॥५९॥ स्त्रियोके जो ओठ पतिके दाँतोसे डसे जानेके कारण पहले वेदनासे युक्त रहते थे अब चिरकाल बाद उनमें विशदता उत्पन्न हुई ॥६०॥ जगत्के जीवोमे परस्पर बहुत भारी स्नेह प्रकट होने लगा । उनका यह स्नेह उपकारपरक चेष्टाओसे स्पष्ट ही प्रकट हो रहा था ॥६१॥ चारो ओर भ्रमण करता हुआ भ्रमर अपने पङ्क्तोकी वायुसे, थकी हुई भ्रमरीको श्रमरहित करने लगा ॥६२॥ उस समय हरिण दूर्वाके प्रवाल उखाड़-उखाड़ कर हरिणीके लिए दे रहा था और उससे हरिणीको ऐसा प्रेम उत्पन्न हो रहा था मानो अमृत ही उसे मिल रहा हो ॥६३॥ हाथी हथिनीके लिए खुजला रहा था इस कार्यमे उसके मुखका पल्लव छूटकर नीचे गिर गया था और हथिनीके नेत्र सुखके भारसे निमीलित हो गये थे ॥६४॥ जो गुच्छे रूपी स्तनोसे भुक रही थीं, जिनके पल्लवरूपी हाथ हिल रहे थे और ऊपर बैठे हुए भ्रमर ही जिनके नेत्र थे ऐसी लत्तारूपी स्त्रियो वृक्षरूप पुरुषोका आलिङ्गन कर रही थीं ॥६५॥ दक्षिण दिशाके मुखसे प्रकट हुआ मलयसमीर बहने लगा और सूर्य उत्तरायण

१. कैतुमत्या अयमिति कैतुमतस्तस्य पवनञ्जयस्य । २. कैतुमतस्योच्चै- । ३. भ्रमर । ४. स्मरपत्रिणाम् म० । ५. उपपद्यत म० । ६. -मुद्घृत्य म० । ७. करिकण्डूयित म० । ८. वदन भ्रशि म० । ९. करिण्या म० । १०. समालिङ्गयन्त म० । ११. मुखोद्गीर्णाः म० ।

समीरणकृताकम्पः^१ केसरप्रकरं पतन् । मधुसिंहस्य पान्थेन ददशे केसरोत्करः^२ ॥६७॥
 दष्ट्रा वसन्तसिंहस्य मानस्तम्बेरमाङ्कुशः^३ । अङ्गोलकेशर रेजे^४ प्रोपितस्त्रीभयङ्करम् ॥६८॥
 घन^५ कौरवज जाल वृणद्भृङ्गकदम्बकम् । वियोगिनीमनासीव मधुनाक्रुण्डमुज्जितम् ॥६९॥
 कुड्मलोहीपितोऽशोकः^६ प्रचलन्नवपल्लवः । प्राचुर्याद्वनितोऽर्णारागराशिरिवावभौ ॥७०॥
 किंशुक घनमत्यन्तं दिदीपे वनराजिषु । वियोगिनीमनःस्थातिरिक्तदुःखानिलोपमम् ॥७१॥
 व्यासदिकचक्रवालेन रजसा पुष्पजन्मना । वसन्तः पटवासेन चकारेव महोत्सवम् ॥७२॥
 निमेषमपि सेहाते न स्त्रीपुसावदर्शनम् । कुत एवान्यदेशेन सङ्गम प्रेमबन्धनौ ॥७३॥
 गन्तुमारिभरे देवा जिनभक्तिप्रचोदिताः । नन्दीश्वर महामोदा फाल्गुनाष्टदिनोत्सवे ॥७४॥
 जगमुरष्टापदे तत्र काले विद्याधराधिपाः । पूजोपकरणव्यग्रकरभृत्यगणान्विताः ॥७५॥
 पूज्यं नाभेयनिर्घृत्या तमद्रिं भक्तिनिर्भरं । समेतो बन्धुवर्गेण महेन्द्रोऽपि समीथिवान् ॥७६॥
 स तत्र जिनमर्चित्वा स्तुत्वा नत्वा च भावतः । रौक्मे^७ शिलातले श्रीमानासाञ्जके यथासुखम् ॥७७॥
 प्रह्लादोऽपि तदायासीत् गिरिं वन्दितु जिनम् । कृताभीष्ट भ्रमन्नासीन्महेन्द्रेऽर्णगोचरं ॥७८॥
 महेन्द्रस्य ततोऽभ्याश सुतप्रीत्या महादरः । ससर्प विकसन्नेत्र प्रह्लादः प्रीतिमानसः ॥७९॥
 अभ्युत्थाय महेन्द्रोऽपि मुदित पुरुसभ्रमः । आलिङ्गन्त समालिङ्गत् प्रह्लाद ह्लादकारणम् ॥८०॥

हो गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो इस मलयसमीरसे प्रेरित होकर ही सूर्य उत्तरायण हो गया था ॥६६॥ वायुसे हिलते हुए मौलश्रीके फूलोका समूह नीचे गिर रहा था जिसे पथिक लोग ऐसा समझ रहे थे मानो वसन्तरूपी सिंहकी जटाओंका समूह ही हो ॥६७॥ विरहिणी स्त्रियोंको भय उत्पन्न करनेवाली अकोल वृक्षके पुष्पोंकी केशर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वसन्तरूपी सिंहकी दंष्ट्रा अर्थात् जवड़े ही हो अथवा मानरूपी हाथीका अङ्कुश ही हो ॥६८॥ जिस पर भ्रमर गूँज रहे थे ऐसा कुमुदोका सघनजाल ऐसा जान पड़ता था मानो वियोगिनी स्त्रियाँके मनको खींचनेके लिए वसन्तने जाल ही छोड़ रक्खा था ॥६९॥ जिसके नये-नये पत्ते हिल रहे थे ऐसा बोडियोसे सुशोभित अशोकका वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अधिकताके कारण स्त्रियोंके द्वारा उगला हुआ रागका समूह ही हो ॥७०॥ वनश्रेणियोंमें पलाशके सघन वृक्ष ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो विरहिणी स्त्रियोंके मनमें ठहरनेसे वाकी बचे हुए दुःखरूपी अग्निके समूह ही हो ॥७१॥ समस्त दिशाओंको व्याप्त करनेवाला फूलोका पराग सब ओर फैल रहा था उससे ऐसा जान पड़ता था मानो वसन्त सुगन्धित चूर्णके द्वारा महोत्सव ही मना रहा था ॥७२॥ जब प्रेमरूपी बन्धनसे बँधे स्त्री पुरुष पलभरके लिए भी एक दूसरेका अदर्शन नहीं सहन कर पाते थे तब अन्य देशमें गमन किस प्रकार सहन करते ? ॥७३॥ फाल्गुन मासके अन्तिम आठ दिनमें आष्टाहिक महोत्सव आया सो जिनभक्तिसे प्रेरित तथा महाहर्ष से भरे देव नन्दीश्वर द्वीपको जाने लगे ॥७४॥ उसी समय पूजाके उपकरणोंसे व्यग्र हाथोंवाले सेवकोंसे सहित विद्याधर राजा कैलाशपर्वत पर गये ॥७५॥ वह पर्वत भगवान् ऋषभदेवके मोक्ष जानेसे अत्यन्त पूजनीय था इसलिए भक्तिसे भरा राजा महेन्द्र भी बन्धुवर्गके साथ वहाँ गया था ॥७६॥ उसी समय राजा प्रह्लाद भी जिनेन्द्र देवकी वन्दना करनेके लिए कैलास पर्वतपर गया था सो पूजाके अनन्तर भ्रमण करता हुआ राजा महेन्द्रको दिखाई दिया ॥७७॥ तदनन्तर जिसके नेत्र विकसित हो रहे थे और मन प्रीतिसे भर रहा था ऐसा प्रह्लाद पुत्रकी प्रीतिसे बड़े आदरके साथ राजा महेन्द्रके पास गया ॥७८॥ सो हर्षसे भरे महेन्द्रने भी सहसा उठकर उसकी अग-

१. वकुलकुसुमसमूहः । २. जटासमूहः । ३. प्रेषित-म० । ४. कौरवज्जाल ज०, ख० । कौरवक जाल म० । ५. कृष्ट-म० । ६. शोकप्रचलन्नव-म० । ७. ऋषभदेवनिर्वाणेन । ८. रौक्म्ये म० । ९. महेन्द्रेण खगो-चरः म० ।

उपविष्टौ च विश्रब्धौ तौ मनोज्ञशिलातले । परस्परं शरीरादिकुशलं पर्यपृच्छताम् ॥८१॥
 उवाचेति महेन्द्रोऽथ सखे किं कुशल मम । कन्यानुरूपसम्बन्धचिन्ताव्याकुलितात्मनः ॥८२॥
 अस्ति मे दुहिता योग्या वरं प्राप्तु मनोहरा । कस्मै तां प्रददामीति मम भ्राम्यति मानसम् ॥८३॥
 रावणो बहुपत्नीकस्तत्सुतौ ब्रजतो रूपम् । दानेनान्यतरस्यातो न तेषु रुचिरस्ति मे ॥८४॥
 पुरे हेमपुराभिख्ये तनयः कनकद्युतेः । विद्युत्प्रभो दिनैरल्पैर्निर्वाण प्रतिपत्स्यते ॥८५॥
 मयेयं विदिता वार्ता प्रकटा सर्वविष्टे । केनापि कथितं नूनं संज्ञानेनेति योगिना ॥८६॥
 मन्त्रिमण्डलयुक्तस्य ततो मम विनिश्चितः । पुत्रस्तव वरत्वेन निर्वाच्यः पवनञ्जयः ॥८७॥
 मनोरथोऽयमायाता त्वया प्रह्लाद पुरितः । समयेनास्मि सजातः क्षणेन परिनिर्वृतः ॥८८॥
 ततोऽब्रुवदल प्रीतः प्रह्लादो लब्धवान्छ्रितः । चिन्ता ममापि पुत्रस्य द्वितीयान्वेषणं प्रति ॥८९॥
 ततोऽहमपि वाक्येन त्वदीयेनामुना सुहृत् । शब्दगोचरतार्युक्तां परिप्राप्तः सुखासिकाम् ॥९०॥
 सरसो मानसाख्यस्य तटस्थान्त्यन्तचारुणि । गुरुभ्यां वाञ्छितं कर्तुं तयोर्वैवाहमङ्गलम् ॥९१॥
 स्थिते तत्रोभयोः सेने क्षणकल्पितसश्रये । गजवाजिपदातीनामनुकूलरवाकुले ॥९२॥
 दिनेषु त्रिषु यातेषु तयोः मावत्सरा जगुः । कल्याणदिवसं ज्ञातनिखिलज्योतिरीहिताः ॥९३॥
 श्रुत्वा परिजनादेतां सर्वावयवसुन्दरीम् । दिवसानां त्रयं सेहे न प्राह्लादिः प्रतीक्षितुम् ॥९४॥

वानी की और आनन्दके कारण आलिङ्गन करते हुए प्रह्लादका आलिङ्गन किया ॥८०॥ तदनन्तर दोनों ही राजा निश्चित होकर मनोहर शिलातलपर बैठे और परस्पर शरीरादिकी कुशलता पूछने लगे ॥८१॥

अथानन्तर राजा महेन्द्रने कहा कि हे मित्र ! मेरा मन तो निरन्तर कन्याके अनुरूप सम्बन्ध ढूँढ़नेकी चिन्तासे व्याकुल रहता है अतः कुशलता कैसे हो सकती है ? ॥८२॥ मेरी एक कन्या है जो वर प्राप्त करने योग्य अवस्थामे है किसके लिए उसे दूँ इसी चिन्तामे मन घूमता रहता है ॥८३॥ रावण बहुपत्नीक है अर्थात् अनेक पत्नियोंका स्वामी है और इसके पुत्र इन्द्रजित् तथा मेघनाद किसी एकके लिए देनेसे शेष रोपको प्राप्त होते है अतः उन तीनोंमें मेरी रुचि नहीं है ॥८४॥ हेमपुर नगरमे राजा कनकद्युतिके त्रिद्युत्प्रभ नामका पुत्र है सो वह थोड़े ही दिनामे निर्वाण प्राप्त करेगा ॥८५॥ यह बात किसी सम्यग्ज्ञानी मुनिने कही है सो समस्त लोकमे प्रसिद्ध है और परम्परा वश मुझे भी विदित हुई है ॥८६॥ अतः मन्त्रिमण्डलके साथ बैठकर मैंने निश्चय किया है कि आपके पुत्र पवनञ्जयको ही कन्याका वर चुनना चाहिए ॥८७॥ सो हे प्रह्लाद ! यहाँ पधारकर तुमने मेरे इस मनोरथको पूर्ण किया है । मैं तुम्हे देखकर क्षण भरमे ही सन्तुष्ट हो गया हूँ ॥८८॥

तदनन्तर जिसे अभिलषित वस्तुकी प्राप्ति हो रही है ऐसे प्रह्लादने वड़ी प्रसन्नतासे कहा कि पुत्रके अनुरूप वधू ढूँढ़नेकी मुझे भी चिन्ता है ॥८९॥ सो हे मित्र ! आपके इस वचन से मैं जो शब्दोंसे न कही जाय ऐसी निश्चिन्तताको प्राप्त हुआ हूँ ॥९०॥ अथानन्तर अज्ञाना और पवनञ्जयके पिताने वहीं मानुषोत्तर पर्वतके अत्यन्त सुन्दर तटपर उनका विवाह-मङ्गल करनेकी इच्छा की ॥९१॥ इसलिए क्षणभरमे ही जिनके डेरे तम्बू तैयार हो गये थे तथा जो हाथी घोड़े और पैदल सैनिकोंके अनुकूल शब्दोंसे व्याप्त था ऐसी उन दोनोंकी सेनाएँ वहीं ठहर गई ॥९२॥ समस्त ज्योतिषियोंकी गतिविधिको जाननेवाले ज्योतिषियोंने तीन दिन बीतनेके बाद विवाहके योग्य दिन बतलाया था ॥९३॥ पवनञ्जयने परिजनोके मुखसे सुन रक्खा था कि

१. ब्रजतौ म० । २. मायाता न०, व० । मायातत्त्वया म०, क०, ख० । ३. भार्यान्वेषणम् । ४. मुक्ता म० । ५. पितृभ्याम् । ६. पवनञ्जयः ।

सङ्गमोत्कण्ठित सोऽयमेभिर्मन्मथसभवे । पूरितो दशभिर्वेगैर्मतो वाणैरिवाहवे ॥६५॥
 आद्ये तद्विषया चिन्ता वेगे समुपजायते । द्वितीये द्रष्टुमाकारो वहि समभिलष्यते ॥६६॥
 तृतीये मन्दद्रीर्घोष्णनिश्वासानां विनिर्गम । चतुर्थे सज्वरो दृष्टज्वलनोपमचन्दनः ॥६७॥
 विवर्त पञ्चमेऽङ्गस्य कुसुमप्रस्तरादिपु । मन्यते विविध स्वादु पृष्टे भक्त विपोपमम् ॥६८॥
 सप्तमे तत्कथासक्त्या विप्रलापसमुद्भव । उन्मत्तताष्टमे गीतनृत्यविभ्रमकारिणी ॥६९॥
 मदनोरगदष्टस्य नवमे मूर्च्छनोद्भवः । दशमे दुःखसभार स्वसर्वेषु प्रवर्तते ॥१००॥
 विवेकिनोऽपि तस्येद तदा जातमनङ्कुशम् । चरित वायुवेगस्य हताश धिगनङ्गकम् ॥१०१॥
 अथ चेतोभुवो वेगैरसो धैर्यात्परिच्युत । उद्धतितकरच्छन्ननिश्वासप्रचलानन ॥१०२॥
 करसङ्गारुणीभूतस्वेदवद्गण्डमण्डल । उष्णातिद्रीर्घनिश्वासग्लपितासनपरलव ॥१०३॥
 जृम्भण कम्पन जम्भा मन्द कुर्वन् पुनः पुनः । निःसह वारयन्काय गाढाकल्पकशल्यत ॥१०४॥
 रामाभिध्यानतो मोघ हृषीकपटल दधत् । मनोज्ञेष्वपि देशेषु महतीमर्षतिं व्रजन् ॥१०५॥
 दधान शून्यमात्मान परित्यक्ताखिलक्रिय । क्षणमात्रधृता भूय परिसुञ्चन्नपत्रपाम् ॥१०६॥
 तनुभूतसमस्ताङ्ग परिश्रष्टविभूषणः । दध्याविति सचिन्तेन परिवारेण वीक्षित ॥१०७॥

अञ्जनासुन्दरी सर्वाङ्गसुन्दरी है इसलिए उसे देखनेके लिए वह तीन दिनका व्यवधान सहन नहीं कर सका ॥६४॥ निरन्तर समागमकी उत्कण्ठा रखनेवाला यह पवनञ्जय कामके दश वेगों से इस प्रकार पूर्ण हो गया जिस प्रकार कि युद्धमे कोई योद्धा शत्रुके वाणोंसे पूर्ण हो जाता है— भर जाता है ॥६५॥ प्रथम वेगमे उसे अञ्जनाविषयक चिन्ता होने लगी अर्थात् मनमे अञ्जना की इच्छा उत्पन्न हुई । दूसरे वेगके समय बाह्यमे उसकी आकृति देखनेकी इच्छा हुई ॥६६॥ तीसरे वेगमे मन्द लम्बी और गरम साँसे निकलने लगीं— चौथे वेगमे ऐसा ज्वर उत्पन्न हो गया कि जिसमे चन्दन अग्निके समान सन्तापकारी जान पड़ने लगा ॥६७॥ पञ्चम वेगमें उसका शरीर फूलोंकी शय्यापर करवटे वढलने लगा । छठवे वेगमे—अनेक प्रकारके स्वादिष्ट भोजनको वह विषके समान मानने लगा ॥६८॥ सातवे वेगमे उसीकी चर्चामे आसक्त रहकर विप्रलाप— वकवाद करने लगा । आठवे वेगमे उन्मत्तता प्रकट हो गई जिससे कभी गाने लगता और कभी नाचने लगता था ॥६९॥ कामरूपी सर्पके द्वारा डसे हुए उस पवनञ्जयको नौवे वेगमे मूर्च्छा आने लगी और दशवे वेगमे जिसका स्वयं ही अनुभव होता था ऐसा दुःखका भार प्राप्त होने लगा ॥१००॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि यद्यपि वह पवनञ्जय विवेकसे युक्त था तो भी उस समय उसका चरित्र स्वच्छन्द हो गया था सो ऐसे दुष्ट कामके लिए धिक्कार हो ॥१०१॥

अथानन्तर कामके उपर्युक्त वेगोंके कारण पवनञ्जयका धैर्य छूट गया । उसका मुख निरन्तर निकलनेवाले श्वासोच्छ्वासोंसे चञ्चल हो गया और वह उसे अपनी हथेलियोंसे ढँकने लगा ॥१०२॥ वह स्वेदसे भरे अपने कपोलमण्डलको सदा हथेलीपर रखे रहता था जिससे उसमें लालिमा उत्पन्न हो गई थी । वह शीतलता प्राप्त करने के उद्देश्यसे पल्लवोंके आसनपर बैठता था तथा उसे गरम-गरम लम्बी श्वासोंसे म्लान करता रहता था ॥१०३॥ वाणोंके महरें प्रहारसे असहनीय कामको धारण करनेवाला वह पवनञ्जय वार-वार जमुहाई लेता था, वार-वार सिहर उठता था और वार-वार अङ्गडाई लेता था ॥१०४॥ निरन्तर स्त्रीका ध्यान रखनेसे उसकी इन्द्रियोंका समूह व्यर्थ हो गया था अर्थात् उसकी कोई भी इन्द्रिय अपना कार्य नहीं करती थी और अच्छे-से-अच्छे स्थानोंमे भी उसे धैर्य प्राप्त नहीं होता था—वह सदा अधीर ही ब्रजा रहता था ॥१०५॥ उसने शून्य हृदय होकर सब काम छोड़ दिये थे । क्षण भरके लिए वह लज्जाको धारण करता भी था तो पुनः उसे छोड़ देता था ॥१०६॥ जिसके समस्त अङ्ग दुर्बल हो गये थे और जिसने

कदा नु तामहं कान्तां वीक्षे स्वाङ्गनिवेशिताम् । स्पृशन् कमलतुल्यानि गात्राणि कृतसंकथः ॥१०८॥
 श्रुत्वा तावदियं जाता ममावस्थातिदुःखदा । आलोक्य तां तु नो^१ पश्यन् भवेयं पञ्चतां गतः ॥१०९॥
 अहो महद्विदं चित्रं मनोज्ञापि सखी मम । यदसौ दुःखभारस्य कारणत्वमुपागता ॥११०॥
 अयि भद्रे कथं यस्मिन्नुप्यते हृदये त्वया । ^२दग्धुं तदेव संक्तासि पण्डिते दुःखवह्निना ॥१११॥
 मृदुचित्ता स्वभावेन भवन्ति किल योषितः । मद्दुःखदानतो जातं विपरीतमिदं तव ॥११२॥
 अनङ्गः सन् व्यथामेतामनङ्ग त्वं करोषि मे । यदि नाम भवेत्साङ्गस्ततः कष्टतमं भवेत् ॥११३॥
 कृतं न चास्ति मे देहे वेदना च गरीयसा । तिष्ठन्नेकत्र चोद्देशे भ्रमामि कापि संततम् ॥११४॥
 दिवसानां त्रयं नैतन्मम क्षेमेण गच्छति । यदि तां विपर्याभावमानयामि न चक्षुषः ॥११५॥
 अतस्तद्दर्शनोपायः कतरो मे भविष्यति । यस्याधिगमतश्चित्तं प्रशान्तिमधियास्यति ॥११६॥
 अथवा सर्वकार्येषु साधनीयेषु विष्टये । मित्रं परममुज्जित्वा कारणं नान्यदीच्यते ॥११७॥
 इति ध्यात्वा स्थितं पार्श्वं छायाबिम्बमिवानुगम् । विक्रियातः समुत्पन्नं शरीरं स्वमिवापरम् ॥११८॥
 नाम्ना प्रहसितं मित्रं सर्वविश्रम्भभाजनम् । मन्दगद्गदया वाचा जगाद् पवनञ्जयः ॥११९॥
 जानास्येव ममाकृतमतः किं ते निवेद्यते । केवलं मुखरत्वं मे करोत्यत्यन्तदुःखिताम् ॥१२०॥
 सखे कस्य वदान्यस्य दुःखमेतन्निवेद्यते । मुक्त्वा त्वां विदिताशेषजगन्त्रयविचेष्टितम् ॥१२१॥

सब अभूषण उतारकर अलग कर दिये थे ऐसा पवनञ्जय निरन्तर स्त्रीका ही ध्यान करता रहता था । परिवारके लोग बड़ी चिन्तासे उसकी इस दशाको देखते थे ॥१०७॥ वह सोचा करता था कि मैं उस कान्ताको अपनी गोदमे बैठी कब देखूँगा और उसके कमलतुल्य शरीरका स्पर्श करता हुआ उसके साथ कब वार्तालाप करूँगा ॥१०८॥ उसकी चर्चा सुनकर तो हमारी यह अत्यन्त दुःख देनेवाली अवस्था हो गई है फिर साक्षात् देखकर तो न जाने क्या होगा ? उसे देखकर तो अवश्य ही मृत्युको प्राप्त हो जाऊँगा ॥१०९॥ अहो ! यह बड़ा आश्चर्य है कि वह मेरी सखी मनोहर होकर भी मेरे लिए दुःखका कारण बन रही है ॥११०॥ अरी भली आदमिन ? तू तो बड़ी पण्डिता है फिर जिस हृदयमे निवास कर रही है उसे ही दुःख रूपी अग्निसे जलानेके लिए तैयार क्यों बैठी है ॥१११॥ स्त्रियों स्वभावसे ही कोमलचित्त होती हैं पर मेरे लिए दुःख देनेके कारण तुम्हारे विषयमे यह बात विपरीत मालूम होती है ॥११२॥ हे अनङ्ग ! जब तुम शरीर रहित होकर भी इतनी पीड़ा उत्पन्न कर सकते हो तब फिर यदि शरीर सहित होते तो बड़ा ही कष्ट होता ॥११३॥ मेरे शरीरमे यद्यपि घाव नहीं है तो भी पीड़ा अत्यधिक हो रही है और यद्यपि एक स्थानपर बैठा हूँ तो भी निरन्तर कहीं घूमता रहता हूँ ॥११४॥ यदि मैं उसे नेत्रोका विषय नहीं बनाता हूँ—उसे देखता नहीं हूँ तो मेरे ये तीन दिन कुशलता पूर्वक नहीं बीत सकेंगे ॥११५॥ इसलिए उसके दर्शनका उपाय क्या हो सकता है जिसे प्राप्तकर चित्त शान्ति प्राप्त करेगा ॥११६॥ अथवा इस संसारमे करने योग्य समस्त कार्योंमे परममित्रको छोड़कर और दूसरा कारण नहीं दिखाई देता ॥११७॥ ऐसा विचारकर पवनञ्जयने पास ही बैठे हुए प्रहसित नामक मित्रसे धीमी एवं गद्गद वाणीमें कहा । वह मित्र छायाके समान सदा पवनञ्जयके साथ रहता था । विक्रियासे उत्पन्न हुए उन्हींके दूसरे शरीरके समान जान पड़ता था और सर्व विश्वासका पात्र था ॥११८-११९॥

उसने कहा कि मित्र ! तुम मेरा अभिप्राय जानते ही हो अतः तुमसे क्या कहा जाय ? मेरी मुखरता केवल तुम्हें दुःखी ही करेगी ॥१२०॥ हे सखे ! तीनों लोकोंकी समस्त चेष्टाओंको

१. स्पृशे कमल म० । २. नोऽपश्यद्भवेयं म० । ३. निवासः क्रियते । यस्मिन् तुष्यते म० । ४. दग्ध म० । ५. संक्तासि म० । ६. कृतं न चात्र म० । ७. भ्रमसि म० ।

कुटुम्बी चित्तिपालाय गुरवेऽन्तेवसन् प्रिया । पत्यै वैद्याय रोगार्तो मान्ने शैशवसगतः ॥१२२॥
 निवेद्य मुच्यते दुःखाद्यथात्यन्तपुरोरपि । मित्रायैव नरः प्राज्ञस्ततस्ते कथयाम्यहम् ॥१२३॥
 श्रुत्वैव तामह हृद्यां महेन्द्रतनुसभवाम् । मन्मथस्य शरीर्दूरं विकलत्वमुपागतः ॥१२४॥
 तामदृष्ट्वातिचक्षुष्यां प्रिया मानसहारिणीम् । अतिवाहयितु नाह प्रभवामि दिनत्रयम् ॥१२५॥
 अतो विधत्स्व त यत्न येन पश्यामि तामहम् । तद्दर्शनादह स्वस्थो मयि स्वस्थे भवानपि ॥१२६॥
 जीवितं ननु सर्वस्यादिष्ट सर्वशरीरिणाम् । सति तत्रान्यकार्याणामात्मलाभस्य सभवः ॥१२७॥
 एवमुक्तस्ततोऽञ्जोचदाशु प्रहसितो हसन् । लब्धार्थमिव कुर्वाणः सद्यो मित्रस्य मानसम् ॥१२८॥
 सखे किं बहुनोक्तेन कृत्यकालातिपातिना । वद किं करवाणीति ननु नान्यत्वमावयोः ॥१२९॥
 यावत्तयोः समालापो वर्ततेऽथ सुचित्तयो । तावत्तदुपकारीव गतोऽस्त घर्मदीधिति^१ ॥१३०॥
^२प्राह्लादेरिव रागेण सन्ध्यालोकेन भानुमान्^३ । प्रेरितो ध्वान्तसम्भूतिमिच्छता प्रियकारिणा ॥१३१॥
 कान्तया रहितस्यास्य दुःख दृष्ट्वैव संध्यया । करुणायुक्तया भर्ता तेजसामनुवर्तितः ॥१३२॥
 ततो भास्करनाथस्य वियोगादिव^४ कृष्णताम् । आशा पौरन्दरी^५ प्राप तमसात्यन्तभूरिणा ॥१३३॥
 नीलेनेव च वस्त्रेण क्षणाञ्चोक्तस्तिरस्कृत । रजो नीलाङ्गनस्यैव प्रवृत्त पतितु घनम् ॥१३४॥

जाननेवाले एक आपको छोड़कर दूसरा ऐसा कौन उदारचेता है जिसके लिए यह दुःख वताया जाय ? ॥१२१॥ जिस प्रकार गृहस्थ राजाके लिए, विद्यार्थी गुरुके लिए, स्त्री पतिके लिए, रोगी वैद्यके लिए, और बालक माताके लिए प्रकटकर बड़े भारी दुःखसे छूट जाता है उसी प्रकार मनुष्य मित्रके लिए प्रकटकर दुःखसे छूट जाता है इसी कारण मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ ॥१२२-१२३॥ जबसे मैंने अनवद्य सुन्दरी राजा महेन्द्रकी पुत्रीकी चर्चा सुनी है तभीसे मैं कामके वाणोसे अत्यधिक विकलता प्राप्त कर रहा हूँ ॥१२४॥ मनको हरनेवाली उस सुन्दरी प्रियाको देखे बिना मैं तीन दिन वितानेके लिए समर्थ नहीं हूँ ॥१२५॥ इसलिए ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे मैं उसे देख सकूँ। क्योंकि उसके देखनेसे मैं स्वस्थ हो सकूँगा और मेरे स्वस्थ रहनेसे आप भी स्वस्थ रह सकेंगे ॥१२६॥ निश्चयसे सब प्राणियोंके लिए अन्य समस्त वस्तुओंकी अपेक्षा अपना जीवन ही इष्ट होता है क्योंकि उसके रहते हुए ही अन्य कार्योंका होना सम्भव है ॥१२७॥

तदनन्तर मित्रके मनको मानो कृतकृत्य करता हुआ प्रहसित हँसकर शीघ्र ही बोला ॥१२८॥ कि हे मित्र ! करने योग्य कार्यका उल्लंघन करनेवाले बहुत कहनेसे क्या मतलब है कहो, मैं क्या करूँ ? यथार्थसे हम दोनोंमें पृथक्पना नहीं है ॥१२९॥ उत्तम चित्तके धारक इन मित्रोंके बीच जबतक यह वार्तालाप चलता है तबतक सूर्य अस्त हो गया सो मानो उनका उपकार करनेके ही लिए ही अस्त हो गया था ॥१३०॥ जो पवनञ्जयके रागके समान लाल-लाल था, अन्धकारके प्रसारको चाहता था और प्रिय करनेवाला था ऐसे सन्ध्याके आलोकसे प्रेरित होकर ही मानो सूर्य अस्त हुआ था ॥१३१॥ कान्तासे रहित पवनञ्जयका दुःख देखकर ही मानो जिसे करुणा उत्पन्न हो गई थी ऐसी सन्ध्या अपना पति जो सूर्य सो उसके पीछे चलने लगी थी—उसके अनुकूल हो गई थी ॥१३२॥ तदनन्तर पूर्व दिशा अत्यधिक अन्धकारसे कृष्णता को प्राप्त हो गई सो मानो सूर्य रूप पतिके वियोगसे ही मलिन अवस्थाको प्राप्त हुई थी ॥१३३॥ क्षण भरमे लोक ऐसा दिखने लगा मानो नील वस्त्रसे ही आच्छादित हो गया हो अथवा नीला-ङ्गनकी सघन पराग ही सब ओर उड़-उड़कर गिरने लगी हो ॥१३४॥

१. सूर्यः । २. प्राह्लादेरपि म० । प्राह्लादेनेव ख० । ३. भानुना म० । ४. कृष्णता म० । ५. पूर्वा ।

ततः समुचिते काले तस्मिन् प्रस्तुतकर्मण । इत्यवोचत सोत्साहः सुहृदं पवनक्षयः ॥१३५॥
 उत्तिष्ठान्ने सखे तिष्ठ कुरु मार्गोपदेशम् । ब्रजावस्तत्र सा यत्र तिष्ठति स्वान्तहारिणी ॥१३६॥
 इत्युक्ते प्रस्थिनौ गन्तुं पूर्वप्रस्थितमानसौ । मीनाविव महानीलनीलव्योमतलार्णवे ॥१३७॥
 क्षणेन च परिप्राप्तौ गृहमाञ्जनसुन्दरम् । सुन्दरं तत्समासत्या रत्नोद्यममन्दरम् ॥१३८॥
 सप्तम स्कन्धमारुह्य तस्य वातायनस्थितौ । मुक्ताजालतिरोधानावङ्गनां तामपश्यताम् ॥१३९॥
 'सम्पूर्णवक्त्रचन्द्रांशुविफलीकृतदीपिकाम् । सितासितारुणच्छायचक्षु शारितद्वि सुखाम् ॥१४०॥
 आभोगिनौ समुत्तुङ्गां प्रियार्थं हारिणौ कुचौ । कलशाविव विभ्राणां शृङ्गाररसपूरितौ ॥१४१॥
 नवपल्लवसच्छायं पाणिपादं सुलक्षणम् । समुद्गिरद्विवाभाति लावण्यं नखरश्मिभिः ॥१४२॥
 स्तनभाराद्विवोदारात्मध्यं भङ्गाभिश्ङ्कया । त्रिवर्लादामभिर्बद्धं दधती तनुताभृतम् ॥१४३॥
 तूणौ मनोमुवः स्तम्भौ बन्धनं मदकामयोः । सुवृत्तौ विभ्रतौमूरु नदौ लावण्यवाहिनौ ॥१४४॥
 इन्दीवरावलीलाया युक्तां मुक्ताफलोद्भुमि । आसक्तां प्रियचन्द्रेण मूर्तामिव विभावराम् ॥१४५॥
 आसेचनकवीच्या तामेकतानस्थितेक्षण. । संप्राप्त. सुखितामुर्वामैक्षिष्ट पवनक्षयः ॥१४६॥

तदनन्तर जब प्रकृत कार्यके योग्य समय आ गया तब उत्साहसे भरे पवनक्षयने मित्रसे इस प्रकार कहा ॥१३५॥ हे मित्र ? उठो, मार्ग दिखलाओ, हम दोनों वहाँ चले जहाँ कि वह हृदयको हरनेवाली विद्यमान है ॥१३६॥ इतना कहनेपर दोनों मित्र वहाँके लिए चल पड़े । उनके मन उनके जानेके पूर्व ही प्रस्थान कर चुके थे और वे महानील मणिके समान नील आकाशतल रूपी समुद्रमे मङ्गलियोकी तरह जा रहे थे ॥१३७॥ दोनों मित्र क्षणभरमे ही अञ्जना सुन्दरीके घर जा पहुँचे । उसका वह घर अञ्जनासुन्दरीके सन्निधानसे ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि रत्नोंके समूहसे सुमेरु पर्वत सुशोभित होता है ॥१३८॥ उस भवनके सातवे खण्डमे चढ़कर दोनों मित्र मोतियोंकी जालीसे छिपकर भरोखेमे बैठ गये और वहाँसे अञ्जनासुन्दरीको देखने लगे ॥१३९॥ वह अञ्जनासुन्दरी अपने मुख रूपी पूर्ण चन्द्रमाकी किरणोंसे भवनके भीतर जलनेवाले दीपकोको निष्फल कर रही थी तथा उसके सफेद काले और लाल-लाल नेत्रोंकी कान्तिसे दिशाएँ रङ्ग-विरङ्गी हो रही थीं ॥१४०॥ वह स्थूल, उन्नत एवं सुन्दर स्तनोंको धारण कर रही थी उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो पतिके स्वागतके लिए शृङ्गार रससे भरे हुए दो कलश ही धारण कर रही थी ॥१४१॥ नवीन पल्लवोंके समान लाल-लाल कान्तिको धारण करनेवाले तथा अनेक शुभ लक्षणोंसे परिपूर्ण उसके हाथ और पैर ऐसे जान पड़ते थे मानो नख रूपी किरणोंसे सौन्दर्यको ही उगल रहे हो ॥१४२॥ उसकी कमर पतली तो थी ही ऊपरसे उसपर स्तनोंका भारी बोझ पड़ रहा है इसलिए वह कहीं दूट न जाय इस भयसे ही मानो उसे त्रिवलिरूपी रस्सियोंसे उसने कसकर बंध रक्खा था ॥१४३॥ वह अञ्जना जिन गोल-गोल जॉधोंको धारण कर रही थी वे कामदेवसे तरकसके समान, अथवा मद और कामके बंधनेके स्तम्भके समान अथवा सौन्दर्य-रूपी जलको वहानेवाली नदियोंके समान जान पड़ती थीं ॥१४४॥ उसकी कान्ति इन्दीवर अर्थात् नील कमलोंके समूहसे समान थी, वह मुक्ता फल-रूपी नक्षत्रोंसे सहित थी तथा पतिरूपी चन्द्रमा उसके पास ही विद्यमान था इसलिए वह मूर्तिधारिणी रात्रिके समान जान पड़ती थी ॥१४५॥ इस प्रकार जिसके देखनेसे वृत्ति ही नहीं होती थी ऐसी अञ्जनाको पवनक्षय एकटक नेत्रोंसे देखता हुआ परम सुखको प्राप्त हुआ ॥१४६॥

१. प्रकृतकार्यस्य । २. अञ्जनसुन्दर्या इदमालनसुन्दरम् । ३. अञ्जनसुन्दरीसन्निधानेन । तत्समा भक्त्या क०, व०, म०, ज० । ४. संपूर्णवक्त्र -म० । ५. विभ्राणा म० । ६. तनुताभृतम् ख० । तनुता भृशम् म० । ७. मूर्तामिव म० ।

अत्रान्तरे प्रियात्यन्त वसन्ततिलकामिधा । अभापत सखी वाक्यमिदमञ्जनसुन्दरीम् ॥१४७॥
 अहो परमधन्या त्वं सुरूपे भर्तृदारिके । पिता वायुकुमाराय यदत्तासि महौजसे ॥१४८॥
 गुणैस्तस्य जगत्सर्वं शशाङ्ककिरणामलैः । व्याप्तमन्यगुणस्यातितिरस्करणकारणैः ॥१४९॥
 कलशच्छां महारत्नप्रभापटलरञ्जिता । अङ्गे स्थास्यति वीरस्य तस्य वेल्ले वारिधे ॥१५०॥
 पतिता वसुधारा त्वं तटे रत्नमहीभृतः । श्लाघ्यसम्बन्धजस्तोपो वधूनामभवत्पर ॥१५१॥
 कीर्तयन्त्यां गुणानेवं तस्य सख्या सुमानसा । लिलेख लज्जयाद्भुल्या कन्याङ्घ्रिनखमानता ॥१५२॥
 नितान्तं च हतो दूर पूरेणानन्दवारिणः । विकसन्नयनाम्भोजच्छत्रास्य पवनञ्जयः ॥१५३॥
 नाम्नाथ मिश्रकेगीति वाक्यं सत्यपरावदन् । संकुचपृष्ठविम्बोष्ठं धूतधम्मिलपल्लवम् ॥१५४॥
 अहो परममज्ञान त्वया कथितमान्मनः । विद्युत्प्रभं परित्यज्य वायोर्गृह्णासि यद्गुणान् ॥१५५॥
 कथा विद्युत्प्रभस्यास्मिन्मया स्वामिगृहे श्रुता । तस्मै देया न देयेय कन्येति मुहुर्दुःखगता ॥१५६॥
 उदन्वदम्भसो विन्दुसत्यानं योऽवगच्छति । तद्गुणानां मतिं पारं ब्रजेत्तस्यामलन्विषाम् ॥१५७॥
 युवा सौम्यो विनीतात्मा दीप्तो वीरः प्रतापवान् । पारेविद्य स्थित सर्वजगद्वाङ्घ्रितदर्शन ॥१५८॥
 विद्युत्प्रभो भवेदस्याः कन्याया यदि पुण्यतः । मर्ता ततोऽनया लब्धं जन्मनोऽस्य फलं भवेत् ॥१५९॥
 वसन्तमालिके भेदे वायोर्विद्युत्प्रभस्य च । स गतो जगति ख्यातिं गोष्पदस्याम्बुधेश्च यं ॥१६०॥

इसी बीचमे उसकी वसन्ततिलका नामकी अत्यन्त प्यारी सखीने अज्ञाना सुन्दरीसे यह वचन कहे कि हे सुन्दरी ! राजकुमारी ! तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो जो पिताने तुम्हें महाप्रतापी पवनञ्जयके लिए समर्पित किया है ॥१४७-१४८॥ चन्द्रमाकी किरणोंके समान निर्मल एवं अन्य मनुष्योंके गुणोंकी ख्यातिको तिरस्कृत करनेवाले उसके गुणोंसे यह समस्त संसार व्याप्त हो रहा है ॥१४९॥ बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि तुम समुद्रकी वेल्लेके समान महारत्नोंकी कान्तिके समूहसे प्रभासित हो, मनोहर शब्द करती हुई उसकी गोदमें बैठोगी ॥१५०॥ तुम्हारा उसके साथ सम्बन्ध होनेवाला है सो मानो रत्नाचलके तटपर रत्नोंकी धारा ही बरसने वाली है । यथार्थमें स्त्रियोंके प्रशंसनीय सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाला सन्तोष ही सबसे बड़ा सन्तोष होता है ॥१५१॥ इस प्रकार जब सखी वसन्तमाला पवनञ्जय के गुणोंका वर्णन कर रही थी तब अज्ञाना मन ही मन प्रसन्न हो रही थी और लज्जाके कारण मुख नीचाकर अङ्गुलीसे पैरका नख कुरेद रही थी ॥१५२॥ और खिले हुए नेत्रकमलोंसे जिसका मुख व्याप्त था ऐसे पवनञ्जयको आनन्दरूपी जलका प्रवाह बहुत दूर तक बहा ले गया था ॥१५३॥

अथानन्तर मिश्रकेशी नामक दूसरी सखीने निम्नाङ्कित वचन कहे । कहते समय वह अपने लाल-लाल आंठोंको भीतरकी ओर संकुचित कर रही थी तथा शिर हिलानेके कारण उसकी चोटीमें लगा पल्लव नीचे गिर गया था ॥१५४॥ उसने कहा कि चूँकि तू विद्युत्प्रभको छोड़कर पवनञ्जयके गुण ग्रहण कर रही है इससे तूने अपना बड़ा अज्ञान प्रकट किया है ॥१५५॥ मैंने राजमहलमें विद्युत्प्रभकी चर्चा कई बार सुनी है कि उसके लिए यह कन्या दी जाय अथवा नहीं दी जाय ॥१५६॥ जो समुद्रके जलकी बूंदोंकी संख्या जानता है उसीकी बुद्धि उसके निर्मल गुणोंका पार पा सकती है ॥१५७॥ वह युवा है, सौम्य है, नम्र है, कान्तिमान् है, धीर-वीर है, प्रतापी है, विद्याओंका पारगामी है और समस्त संसार उसके दर्शनकी इच्छा करता है ॥१५८॥ यदि पुण्ययोगसे विद्युत्प्रभ इस कन्याका पति होता तो इसे इस जन्मका फल प्राप्त हो जाता ॥१५९॥ हे वसन्तमालिके ! पवनञ्जय और विद्युत्प्रभके बीच ससारमें वही भेद प्रसिद्ध है जो कि गोष्पद

१ परमधन्यत्वं म० । २. कलशच्छामहारत्न -ख०, ल० । ३. श्लाघ्या सम्बन्धज म० । ४. पल्लवा व० । ५. पारे विद्यारिथत. म० । पारेविद्या ख० ।

असौ संवत्सरैरल्पैर्मुनितां यास्यतीति सः । अस्या. पित्रा परित्यक्तस्तन्मे नाभाति शोभनम् ॥१६१॥
 वरं विद्युत्प्रसेनामा क्षणोऽपि सुखकारणम् । सत्रानन्तोऽपि नान्येन कालः क्षुद्रासुधारिणा ॥१६२॥
 ततः प्राहादिरित्युक्ते क्रोधानलविदीपितः । क्षणाच्छायापरोवर्त^१ सम्प्राप्तः पुरुषैपथुः ॥१६३॥
 दष्टाधर. समाकर्षन् सायकं परिवारतः । निरीक्षणस्फुरच्छोणच्छायाच्छन्नदिगाननः ॥१६४॥
 ऊचे प्रहसितावश्यमस्या पृवेदमीप्सितम् । कन्याया यद्वदत्येवमियं नारी जुगुप्सितम् ॥१६५॥
 लुनाम्यतोऽनयोः पश्य मूर्धानमुभयोरपि । विद्युत्प्रभोऽधुना रक्षां करोतु हृदयप्रियः ॥१६६॥
 समाकर्ष्य ततो वाक्यं मैत्र प्रहसितो रूपा । जगाद भ्रुकुटीबन्धर्भापणालिकपट्टिक. ॥१६७॥
 सखे सखेऽलमेतेन यत्नेनागोचरे तव । ननु ते सायकस्यारिनरनाश. प्रयोजनम् ॥१६८॥
 अतः पश्यत वाक्रोशप्रसक्तां दुष्टयोषितम् । इमामेतेन दण्डेन करोमि गतजीविताम् ॥१६९॥
 ततो दृष्ट्वास्य सरम्भं महान्त पवनञ्जय. । विस्मृतात्मीयसरम्भः खड्गं कोश प्रतिक्षिपन् ॥१७०॥
 निजप्रकृतिसंप्राप्तिप्रवणाशेषविग्रहः । जगाद सुहृदं क्रूरकर्मनिश्चितमानसम् ॥१७१॥
 अयि मित्र शमं गच्छ तवाप्येष न गोचर^२. । कोपस्थानैकसग्रामजयोपार्जनशालिनः ॥१७२॥
 इतरस्यापि नो युक्तं कर्तुं नारीविपादनम् । किं पुनस्तव मत्तेभकुम्भटारणकारिणः ॥१७३॥
 पुंसां कुलप्रसूतानां गुणख्यातिमुपेयुषाम् । यशो मलिनताहेतु कर्तुमेवमसाम्प्रतम् ॥१७४॥
 तस्माद्बुद्धिष्ठ गच्छावस्तेनैव पुनरध्वना । त्रिचित्रा चेतसो वृत्तिर्जनस्यात्र न कुप्यते ॥१७५॥

और समुद्रके बीच होता है ॥१६०॥ वह थोड़े ही वर्षामें मुनिपद धारण कर लेगा इस कारण इसके पिताने उसकी उपेक्षा की है पर यह बात मुझे अच्छी नहीं मालूम होती ॥१६१॥ विद्युत्प्रभ के साथ इसका एक क्षण भी बीतता तो वह सुखका कारण होता और अन्य लुद्र प्राणीके साथ अनन्त भी काल बीतेगा तो भी वह सुखका कारण नहीं होगा ॥१६२॥

तदनन्तर मिश्रकेशीके ऐसा कहते ही पवञ्जय क्रोधाग्निसे देदीप्यमान हो गया, उसका शरीर कोपने लगा और क्षण भरमें ही उसकी कान्ति बदल गई ॥१६३॥ ओठ चावते हुए उसने म्यानसे तलवार बाहर खींच ली, और नेत्रोंसे निकलती हुई लाल-लाल कान्तिसे दिशाओंका अग्रभाग व्याप्त कर दिया ॥१६४॥ उसने मित्रसे कहा कि हे प्रहसित ! यह बात अवश्य ही इस कन्याके लिए इष्ट होगी तभी तो यह स्त्री इसके समक्ष इस घृणित बातको कहे जा रही है ॥१६५॥ इसलिए देखो, मैं अभी इन दोनोंका मस्तक काटता हूँ। हृदयका प्यारा विद्युत्प्रभ इस समय इनकी रक्षा करे ॥१६६॥ तदनन्तर मित्रके वचन सुनकर क्रोधसे जिसका ललाट तट भौहोसे भयंकर हो रहा था ऐसा प्रहसित बोला कि मित्र ! मित्र ! अस्थानमें यह प्रयत्न रहने दो । तुम्हारी तलवारका प्रयोजन तो शत्रुजनोंका नाश करना है न कि स्त्रीजनोंका नाश करना ॥१६७-१६८॥ अतः देखो, निन्दामें तत्पर इस दुष्ट स्त्रीको मैं इस डंडेसे ही निर्जोव किये देता हूँ ॥१६६॥ तदनन्तर पवञ्जय, प्रहसितके महाक्रोधको देखकर अपना क्रोध भूल गया, उसने तलवार म्यानमें वापिस डाल ली ॥१७०॥ और उसका समस्त शरीर अपने स्वभावकी प्राप्तिमें निपुण हो गया अर्थात् उसका क्रोध शान्त हो गया । तदनन्तर उसने क्रूर कार्यमें दृढ़ मित्रसे कहा ॥१७१॥ कि हे मित्र ! शान्तिको प्राप्त होओ । अनेक युद्धोंमें विजय प्राप्त करनेसे सुशोभित रहनेवाले तुम्हारे क्रोधका भी ये स्त्रियों विषय नहीं हैं ॥१७२॥ अन्य मनुष्यके लिए भी स्त्रीजनका घात करना योग्य नहीं है फिर तुम तो मदीन्मत्त हाथियोंके गण्डस्थल चोरनेवाले हो अतः तुम्हें युक्त कैसे हो सकता है ? ॥१७३॥ उच्च कुलमें उत्पन्न तथा गुणोंकी ख्यातिको प्राप्त पुरुषोंके लिए इस प्रकार यशकी मलिनता करनेवाला कार्य करना योग्य नहीं है ॥१७४॥ इसलिए उठो उसी मार्गसे पुनः वापिस चले । मनुष्यकी मनोवृत्ति मित्र प्रकारकी होती है अतः उसपर क्रोध करना उचित नहीं है ॥१७५॥

नूनमस्याः प्रियोऽसौ ना^१ कन्याया येन पार्वंगाम् । मञ्जुगुप्सनसंसक्तां न मनागप्यर्वावदत् ॥१७६॥
 ततः समागतौ ज्ञातौ न केनचिदिमौ भृशम् । स्वैर निःसृत्य^२ निर्व्यूहाद् गतौ वसतिमात्मन ॥१७७॥
 ततः परममापन्नो विराग पवनञ्जयः । इति चिन्तनमारेभे प्रशान्तहृदयो भृशम् ॥१७८॥
 सदेहविपमावर्ता दुर्भावग्रहसकुला । दूरतः परिहर्तव्या पररक्ताङ्गनापगा ॥१७९॥
 कुभावगहनात्यन्त हृषीकव्यालजालिनी । बुधेन नार्यरण्यानी सेवनीया न जातुचित् ॥१८०॥
 किं राजसेवन शत्रुसमाश्रयसमागमम् । श्लथ मित्र स्त्रिय चान्यसक्ता प्राप्य कुतः सुखम् ॥१८१॥
^३ इष्टान् बन्धून् सुतान् दारान् ध्रुधा मुञ्चन्त्यसत्कृताः । पराभवजलाध्माताः क्षुद्राः नश्यन्ति तत्र तु ॥१८२॥
 मदिरारागिण वैद्य द्विप शिक्षाविवर्जितम् । अहेतुवैरिण क्रूर धर्म हिंसनसंगतम् ॥१८३॥
 मूर्खगोष्ठी कुमर्याद् देश चण्ड शिशु मृपम् । वनिता च परासक्ता सूरिदूरेण वर्जयेत् ॥१८४॥
 एव चिन्तयतस्तस्य कन्याप्रीतिरिवागता । क्षय विभावरी तूर्यमाहत च प्रबोधकम् ॥१८५॥
 ततः सन्ध्या प्रकाशेन कौशिकीया^४ दिगावृता । पवनञ्जयनिर्मुक्तरागेणैव निरन्तरम् ॥१८६॥
 उदियाय च तिग्माशुः स्त्रीकोपादिव लोहितम् । दधानस्तरल विम्ब जगच्चेष्टितकारणम् ॥१८७॥
 ततो वहन्विरागेण नितान्तमलसा तनुम् । ऊचे प्रहसित जायाविमुखः पवनञ्जयः ॥१८८॥
 सखेऽत्र न सर्मापेऽपि युज्यतेऽवस्थितिर्मम । तत्सक्तपवनासङ्गो माभूदिति ततः शृणु ॥१८९॥

निश्चित ही वह विद्युत्प्रभ इस कन्याके लिए प्यारा होगा तभी तो पास बैठकर मेरी निन्दा करनेवाली इस स्त्रीसे उसने कुछ नहीं कहा ॥१७६॥ तदनन्तर जिनके आनेका किसीको कुछ भी पता नहीं था ऐसे दोनों मित्र भरोखेसे बाहर निकलकर अपने डेरेमें चले गये ॥१७७॥

तदनन्तर जिसका हृदय अत्यन्त शान्त था ऐसा पवनञ्जय परम वैराग्यको प्राप्त होकर इस प्रकार विचार करने लगा कि ॥१७८॥ जिसमें सन्देह रूपी विषम भँवरें उठ रही हैं और जो दुष्टभाव रूपी मगरमच्छोंसे भरी हुई हैं ऐसी पर-पुरुषासक्त स्त्री रूपी नदीका दूरसे ही परित्याग करना चाहिए ॥१७९॥ जो खोटे भावोंसे अत्यन्त सघन है तथा जिसमें इन्द्रियरूपी दुष्ट जीवोंका समूह व्याप्त है ऐसी यह स्त्री एक बड़ी अटवीके समान है, विद्वज्जनोको कभी इसकी सेवा नहीं करनी चाहिए ॥१८०॥ जिसका अपने शत्रुके साथ सम्पर्क है ऐसे राजाकी सेवा करनेसे क्या लाभ है ? इसी प्रकार शिथिल मित्र और परपुरुषासक्त स्त्रीको पाकर सुख कहाँसे हो सकता है ? ॥१८१॥ जो विद्वान् पुरुष हैं वे अनाहत होनेपर इष्ट-मित्रों, बन्धुजनों, पुत्रों और स्त्रियोंको छोड़ देते हैं पर जो लुब्ध मनुष्य हैं वे पराभव रूपी जलमें डूबकर वहीं नष्ट हो जाते हैं ॥१८२॥ मदिरा पानमे राग रखनेवाला वैद्य, शिक्षा रहित हाथी, अहेतुक वैरी, हिंसापूर्ण दुष्ट धर्म, मूर्खोंकी गोष्ठी, मर्यादाहीन देश, क्रोधी तथा बालक राजा, और परपुरुषासक्त स्त्री, बुद्धिमान् मनुष्य इन सबको दूरसे ही छोड़ देवे ॥१८३-१८४॥ ऐसा विचार करते हुए पवनञ्जयकी रात्रि कन्याकी प्रीतिके समान क्षयको प्राप्त हो गई और जगानेवाले बाजे बज उठे ॥१८५॥

तदनन्तर सन्ध्याकी लालीसे पूर्व दिशा आच्छादित हो गई सो ऐसी जान पड़ती थी मानो पवनञ्जयके द्वारा छोड़े हुए रागसे ही निरन्तर आच्छादित हो गई थी ॥१८६॥ और जो स्त्रीके क्रोधके कारण ही मानो लाल-लाल दिख रहा था तथा जो जगतकी चेष्टाओंका कारण था ऐसे चञ्चल विम्बको धारण करता हुआ सूर्य उदित हुआ ॥१८७॥ तदनन्तर विरागके कारण अत्यन्त अलस शरीरको धारण करता स्त्रीविमुख पवनञ्जय प्रहसित मित्रसे बोला कि ॥१८८॥ हे मित्र ! उससे सम्पर्क रखनेवाली वायुका स्पर्श न हो जाय इसलिए यहाँ समीपमें भी मेरा

१. पुरुषः । २. निर्मूहाद् क०, ख०, ग०, म०, न० । गवाक्षात् । ३. दृष्ट म० । ४. ऐन्द्री, पूर्वदिशेत्यर्थः ।

उत्तिष्ठ स्वपुर यामो न युक्तमवलम्बनम् । सेना प्रयाणशङ्केन कार्यतामवबोधिनी ॥१६०॥
 तथेति कारिते तेन क्षुब्धसागरसन्निभा । चचाल सा चमूः क्षिप्रं कृतयानोचितक्रिया ॥१६१॥
 ततो रथारवमातङ्गपादात्प्रभवो महान् । शब्दो भेर्यादिजन्मा च कन्यायाः श्रवणेऽविशत् ॥१६२॥
 प्रयाणसूचिना तेन नितान्त दुःखिताभवत् । विशता मुद्गराघातवेगतः शङ्कुनेव सा ॥१६३॥
 अचिन्तयच्च हा कष्टं दत्त्वा मे विधिना ^१हतम् । निधान किं करोम्यत्र कथमेतद्भविष्यति ॥१६४॥
 अङ्ग्रेऽस्य पुरुषेन्द्रस्य क्रीडिष्यामीति ये कृताः । तेऽन्यथैव परावृत्ता ^२मन्दाया मे मनोरथाः ॥१६५॥
 क्रियमाणमिमं ज्ञात्वा ^३कथञ्चिन्निन्दमेतया । वैरिणीभूतया सख्या मयि स्याद् ^४द्वेषमागतः ॥१६६॥
 विवेकरहितामेतां धिक्पापां क्रूरभाषिणीम् । यथा मे दयितोऽवस्थामीदृशोमेव लम्बितः ॥१६७॥
 कुर्यान्मह्य हितं तातो जीवितेश्च निवर्तयेत् । अपि नाम भवेदस्य बुद्धिर्न्यावर्तनं प्रति ॥१६८॥
 तत्त्वतो यदि नाथो मे परित्यागं करिष्यति । आहारवर्जनं कृत्वा ततो यास्यामि पञ्चताम् ॥१६९॥
 इति सचिन्तयन्ती सा प्राप्ता मूर्च्छां महीतले । पपाताश्चर्यनिर्मुक्ता लनमूललता यथा ॥२००॥
 ततः किमिदमित्युक्त्वा सन्नम परमागते । शीतलक्रियया सख्यौ चक्रतुस्तां ^५विमूर्च्छिताम् ॥२०१॥
 पृच्छयमाना च यत्नेन मूर्च्छाहेतुं श्लथाङ्गिका । शशाकं त्रपया वक्तुं न सा स्तिमितलोचना ॥२०२॥
 अथ वायुकुमारस्य सेनायामिति मानवाः । आकुला मानसे चक्ररहेतुगतिविस्मिताः ॥२०३॥

रहना उचित नहीं है अतः सुनो और उठो—अपने नगरकी ओर चले, यहाँ विलम्ब करना उचित नहीं है । प्रस्थान कालमें बजनेवाले शङ्खसे सेनाको सावधान कर दो ॥१८६-१९०॥

तदनन्तर शङ्खध्वनि होनेपर जो लुभित सागरके समान जान पड़ती थी तथा जिसने प्रस्थान कालके योग्य सर्व कार्य कर लिये थे ऐसी सेना शीघ्र ही चल पड़ी ॥१६१॥ तत्पश्चात् रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही और भेरी आदिसे उत्पन्न हुआ शब्द कन्याके कानमें प्रविष्ट हुआ ॥१६२॥ प्रस्थानको सूचित करनेवाले उस शब्दसे कन्या अत्यन्त दुःखी हुई मानो मुद्गर प्रहार सम्बन्धी वेगसे प्रवेश करनेवाली कीलसे पीड़ित ही हुई थी ॥१६३॥ वह विचार करने लगी कि हाय-हाय बड़े खेदकी बात है कि विधाताने मेरे लिए खजाना देकर छोड़ लिया । मैं क्या करूँ ? अब कैसा क्या होगा ? ॥१६४॥ इस श्रेष्ठ पुरुषकी गोदमें क्रीड़ा करूँगी इस प्रकारके जो मनोरथ मैंने किये थे मुझ अभागिनीके वे सब मनोरथ अन्यथा ही परिणत हो गये और रूप ही बदल गये ॥१६५॥ इस वैरिन सखीने जो उनकी निन्दा की थी जान पड़ता है कि किसी तरह उन्हें इसका ज्ञान हो गया है इसीलिए वे मुझपर द्वेष करने लगे हैं ॥१६६॥ विवेकरहित, पापिनी तथा क्रूर वचन बोलनेवाली इस सखीको धिक्कार है जिसने कि मेरे प्रियतमको यह अवस्था प्राप्त करा दी ॥१६७॥ पिताजी यदि हृदयवल्लभको लौटा सके तो मेरा बड़ा हित करेगा और क्या इनकी भी लौटनेकी बुद्धि होगी ॥१६८॥ यदि सचमुच ही हृदयवल्लभ मेरा परित्याग करेगा तो मैं आहार त्यागकर मृत्युको प्राप्त हो जाऊँगी ॥१६९॥ इस प्रकार विचार करती हुई अञ्जना मूर्च्छित हो छिन्नमूल लताके समान पृथिवीपर गिर पड़ी ॥२००॥ तदनन्तर 'यह क्या है ?' ऐसा कहकर परम उद्वेगको प्राप्त हुई दोनों सखियोंने शीतलोपचारसे उसे मूर्च्छारहित किया ॥२०१॥ उस समय उसका समस्त शरीर ढीला हो रहा था और नेत्र निश्चल थे । सखियों ने प्रयत्न पूर्वक उससे मूर्च्छाका कारण पूछा पर वह लज्जाके कारण कुछ कह न सकी ॥२०२॥

अथानन्तर वायुकुमार (पवनञ्जय) की सेनाके लोग इस अकारण गमनसे चकित हो बड़ी आकुलताके साथ मनमें विचार करने लगे कि यह कुमार इच्छित कार्यको पूरा किये

१. हतम् म० । २. निर्भाग्यायाः । ३. कथञ्चिद्भेदमेतया म० । ४. विद्वेषमागतः म०, ब० ।
 ५. विमूर्च्छिताम् म० । ६. मानवः म० ।

अविधायेषितं कस्मादयं गन्तु समुद्यतं । कोपोऽस्य जनित केन केन वा चोदितोऽन्यथा ॥२०४॥
 विद्यते सर्वमेवास्य कन्योपादानकारणम् । अत किमिच्छयं कस्मादभूदपगतागयं ॥२०५॥
 हस्तिना केचिदित्यूचुर्नामास्येद महार्थकम् । पवनञ्जय इत्येष यन्माज्ञेतास्य वेगतं ॥२०६॥
 ऊचुरन्येष्यमपि न जानान्यङ्गनारसम् । नूनं येन विहायेमां कन्या गन्तुं समुद्यत ॥२०७॥
 यदि स्नादस्य विज्ञाता रतिः परसुदारजा । वद. स्याद्येमवन्धेन ततो वनगजो यथा ॥२०८॥
 इत्युपाशुक्रुत्त्रालापमामन्तगतमध्यगः । वेगवद्वाहनो गन्तुं प्रवृत्त पवनञ्जय ॥२०९॥
 तत कन्यापिता ज्ञान्वा प्रयागं तस्य संभ्रमात् । ममस्त्वैर्वन्युमि सार्धमाजगाम समाकुलैः ॥२१०॥
 प्रह्लादेन ममं तेन ततोऽप्राविन्यभायत । मद्देवं गमन कस्मात्त्रियते शोककारणम् ॥२११॥
 ननु केन किमुक्तोऽपि कस्य नेष्टोऽसि शोभन । चिन्तयन्पि नो कश्चियत्ते ब्रुध न रोचते ॥२१२॥
 पितुर्मम च ते वाक्यं टोपे सत्यपि युज्यते । कर्तुं किमुत नि जेषटोपैः सङ्गविवर्जितम् ॥२१३॥
 तत सूरं निवर्तन्त्र क्रियतां नावर्माप्सितम् । भवाद्यगा गुरोराज्ञा नन्वानन्दस्य कारणम् ॥२१४॥
 इत्युक्त्वापन्यरागेण वीरो विनतमस्तक । श्वसुरेण घृत पागौ जनकेन च सादरम् ॥२१५॥
 ततस्त्वर्तारवं मङ्गलुर्मसमर्थो न्यवर्तत । दृष्याविति च कन्याया कोपाद्दु खस्य कारणम् ॥२१६॥
 मसुह्य गातयाम्येनां दु त्सेनासङ्गजन्मना । येनान्यतोऽपि नैवेया प्राप्नोति पुरुषान्मुखम् ॥२१७॥

विना ही जानेके लिए उद्यत क्यों हो गया है ? इसे किसने क्रोध उत्पन्न कर दिया ? अथवा किसने इसे विपरीत प्रेरणा दी है ? ॥२०३-२०४॥ इसके कन्या ग्रहण करनेकी समस्त तैयारी है ही फिर यह किम कारण उद्गासीन हो गया है ? ॥२०५॥ कितने ही लोग हँसकर कहने लगे कि चूँकि इसने वेगसे पवनको जीत लिया है इसलिए इसका 'पवनञ्जय' यह नाम सार्थक है ॥२०६॥ कुछ लोग कहने लगे कि यह अभी तक खीका रस जानता नहीं है इसीलिए तो यह इस कन्याको छोड़कर जानेके लिए उद्यत हुआ है ॥२०७॥ यदि इसे उत्तम रतिका ज्ञान होता तो यह जङ्गली हार्थीके समान उसके प्रेमपाशमें सदा बँधा रहता ॥२०८॥ इस प्रकार एकान्तमे वार्तालाप करनेवाले सैकड़ों सामन्तोंके बीच खड़ा हुआ पवनञ्जय वेगशाली वाहनपर आरूढ़ हो चलनेके लिए प्रवृत्त हुआ ॥२०९॥

तदनन्तर जब कन्याके पिताको इसके प्रस्थानका पता चला तब वह हड़बड़ाकर धवड़ाये हुए समन्त वन्धुजनोंके साथ वहाँ आया ॥२१०॥ उसने प्रह्लादके साथ मिलकर कुमारसे इस प्रकार कहा कि हे भद्र ! शोकका कारण जो यह गमन है सो किसलिए किया जा रहा है ? आपसे किसने क्या कह दिया ? हे भद्र पुरुष ! आप किसे प्रिय नहीं हैं ? हे विद्वन् ! जो बात आपके लिए नहीं रुचती हो उसका तो यहाँ कोई विचार ही नहीं करता ॥२११-२१२॥ द्रोप रहते हुए भी आपको मेरे तथा पिताके वचन मानना उचित है फिर यह कार्य तो समन्त द्रोषोसे रहित है अतः इसका करना अनुचित कैसे हो सकता है ? ॥२१३॥ इसलिए हे विद्वन् ! लौटो और हम दोनोंका मनोरथ पूर्ण करो । आप जैसे पुरुषोंके लिए पिताकी आज्ञा तो आनन्दका कारण होना चाहिए ॥२१४॥ इतना कहकर श्वसुर तथा पिताने सन्तानके राग वश नतमस्तक वीर पवनञ्जयका बड़े आदरसे हाथ पकड़ा ॥२१५॥ तत्पश्चान् श्वसुर और पिताके गौरवका भंग करनेके लिए असमर्थ होता हुआ पवनञ्जय वापिस लौट आया और क्रोधवश कन्याको दुःख पहुँचानेवाले कारणका इस प्रकार विचार करने लगा ॥२१६॥ अब मैं इस कन्याको विवाह कर

१. इत्येवं तस्माज्जेतास्य म० । २. विमुक्तोऽसि । ३. सङ्गत्रातविवर्जितम् ख० । ४. हे विद्वन् । ५. नौ आवयो । तावदीप्सितम् ख० । नवमीप्सितम् म० । ६. नत्वानन्दस्य म० । ७. मक्तु म० ।

चकार विदितार्थं च मित्र तेन^१ च भाषितः । साधु ते विदितं बुद्ध्या मयाप्येतन्निरूपितम् ॥२१८॥
 निवृत्त दयित श्रुत्वा कन्यायाः समदोऽभवत् । निरन्तरसमुद्भिन्नरोमाञ्चाशोपविग्रहः ॥२१९॥
 ततः समयमासाद्य तयोर्वैवाहमङ्गलम् । प्रस्तुत बन्धुभिः कर्तुं प्राप्तसर्वसमीहितम् ॥२२०॥
 अशोकपल्लवस्पर्शः कन्यायाः स करोऽभवत् । विरक्तचेतसस्तस्य कृशानुरशनोपमः ॥२२१॥
 अनिच्छतो गता दृष्टिः कथञ्चित्तस्य तत्तनौ । क्षणमात्रमपि स्थातु न सेहे तुल्यविद्युति^४ ॥२२२॥
 एष भाव न वेत्तास्या इति विज्ञाय पावकः । स्फुटल्लाजसमूहेन जहासैव कृतस्वनम् ॥२२३॥
 ततो विधानयोगेन कृत्वोपयमनं तयोः । परमं प्रमदं प्राप्ताः सशब्दाः सर्वत्रान्धवाः ॥२२४॥
 नानाद्रुमलताकीर्णं फलपुष्पविराजिते । मासं तत्र वने कृत्वा विभूत्या परमोत्सवम् ॥२२५॥
 यथोचित कृतालापाः कृतपूजाः परस्परम् । यथास्व ते ययुः सर्वे वियोगाद् दुःखिताः क्षणम् ॥२२६॥

आर्याच्छन्दः

अविदिततत्त्वस्थितयो विदधति यजन्तवः परेऽशर्म ।

तत्तत्र मूलहेतौ कर्मरवौ तापके दृष्टम् ॥२२७॥

इत्यार्षे रविषेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरितेऽञ्जनासुन्दरीविवाहामिधानं नाम पञ्चदशं पर्व ॥१५॥

असमागमसे उत्पन्न दुःखके द्वारा सदा दुःखी कर्हूंगा । क्योंकि विवाहके बाद यह अन्य पुरुषसे भी सुख प्राप्त नहीं कर सकेगी ॥२१७॥ पवनञ्जयने अपना यह विचार मित्रके लिए बतलाया और उसने भी उत्तर दिया कि ठीक है यही बात मैं कह रहा था जिसे तुमने अपनी बुद्धिसे स्वयं समझ लिया ॥२१८॥

प्रियतमको लौटा सुनकर कन्याको बहुत हर्ष हुआ उसके समस्त शरीरमे रोमाञ्च निकल आये ॥२१९॥ तदनन्तर समय पाकर बन्धुजनोने दोनोंका विवाहरूप मङ्गल किया जिससे सबके मनोरथ पूर्ण हुए ॥२२०॥ यद्यपि कन्याका हाथ अशोकपल्लवके समान शीत स्पर्शवाला था पर उस विरक्त चित्तके लिए वह अग्निकी मेखलाके समान अत्यन्त उष्ण जान पड़ा ॥२२१॥ विजलीकी तुलना करनेवाले अञ्जनाके शरीरपर किसी तरह इच्छाके बिना ही पवनञ्जयकी दृष्टि गई तो सही पर वह उस क्षण भरके लिए भी नहीं ठहर सकी ॥२२२॥ यह पवनञ्जय इस कन्याके भावको नहीं समझ रहा है यह जानकर ही मानो चटकती हुई लाईके वहाने अग्नि शब्द करती हुई हँस रही थी ॥२२३॥ इस तरह विधिपूर्वक दोनोंका विवाहकर शब्द करते हुए समस्त बन्धुजन परम हर्षको प्राप्त हुए ॥२२४॥ नाना वृक्ष और लताओंसे व्याप्त तथा फल-फूलोंसे सुशोभित उस वनमे सब लोग बड़े वैभवसे महोत्सव करते रहे ॥२२५॥ तदनन्तर परस्पर चार्तालाप और यथा योग्य सत्कारकर सब लोग यथा स्थान गये । जाते समय सब लोग वियोगके कारण क्षण भरके लिए दुःखी हो उठे थे ॥२२६॥

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! तत्त्वकी स्थितिको नहीं समझनेवाले प्राणी दूसरेके लिए जो दुःख अथवा सुख पहुँचाते हैं उसमे मूल कारण सन्ताप पहुँचानेवाला कर्म रूपी सूर्य ही है अर्थात् कर्मके अनुकूल या प्रतिकूल रहनेपर ही दूसरे लोग किसीको सुख या दुःख पहुँचा सकते हैं ॥२२७॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचार्य कथित पद्मचरितमे अञ्जनासुन्दरीके विवाहका कथन करनेवाला पन्द्रहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥१५॥



१. तेनेति भाषितः म० । २. प्रारब्धम् । प्रश्रुत म०, ज०, । ३. प्राप्त सर्वसमीहितम् ख० ।
 ४. विद्युतिः क०, ख०, ज०, म० ।

षोडशं पर्व

ततोऽसभापणादस्याश्रक्षुपश्चानिपातनात् । चकार परम दुःखं वायुरज्ञाततन्मना ॥१॥
 रात्रावपि न सा लेभे निन्दा विद्राणलोचना । अनारतगलद्रापमलिनौ दधती स्तनौ ॥२॥
 वायुमप्यभिनन्दन्ती दयितेनैकनामकम् । तन्नामश्रवणोत्कण्ठावष्टब्धश्रवणा भृशम् ॥३॥
 कुर्वती मानसे रूपं तस्य वेद्यां निरूपितम् । अस्पष्टं क्षणनिश्चेष्टस्थिता स्तिमितलोचना ॥४॥
 अन्तर्निरूप्य वाञ्छन्ती वहिरप्यस्य दर्शनम् । कुर्वती लोचने स्पष्टे^१ यात्यदृष्टे पुन शुचम् ॥५॥
 सकृदस्पष्टदृष्टत्वाच्चित्रकर्माणि कृच्छ्रतः । लिखन्ती वेपथुप्रस्तहस्तप्रच्युतवर्तिका^२ ॥६॥
 सचारयन्ती कृच्छ्रेण वदन करत करम् । कृशीभूदसमस्ताङ्गश्लथसस्वनभूपणा ॥७॥
 टीर्घोष्णतरनिश्वासदग्धपाणिकपोलिका । अशुकस्यापि भारेण खेदमङ्गेषु विभ्रति ॥८॥
 निन्दन्ती भृशमात्मान स्मरन्ती पितरौ मुहु । दधाना हृदय शून्य क्षण निष्पन्दविग्रहा ॥९॥
 दुःखनिःसृतया वाचा वाष्पपरुद्धकण्ठत । उपालम्भ प्रयच्छन्ती देवायात्यन्तविकल्वा ॥१०॥
^३करी. शोतकरस्यापि विभ्रती दाहमुत्तमम् । प्रासादेऽपि विनिर्यान्ती^४ याति मूच्छां पुन पुन. ॥११॥

अथानन्तर पवनक्षयने अञ्जनाको विवाह कर ऐसा छोड़ा कि उससे कभी वात भी नहीं करते थे, वात करना तो दूर रहा आँख उठाकर भी उस ओर नहीं देखते थे । इस तरह वे उसे बहुत दुःख पहुँचा रहे थे । इस घटनासे अञ्जनाके मनमें कितना दुःख हो रहा था इसका उन्हें बोध नहीं था ॥१॥ उसे रात्रिमें भी नींद नहीं आती थी, सदा उसके नेत्र खुले रहते थे । उसके स्तन निरन्तर अश्रुओंसे मलिन हो गये थे ॥२॥ पतिके समान नामवाले पवन अर्थात् वायुको भी वह अच्छा समझती थी—सदा उसका अभिनन्दन करती थी और पतिका नाम सुननेके लिए सदा अपने कान खड़े रखती थी ॥३॥ उसने विवाहके समय बेदीपर जो पतिका अस्पष्टरूप देखा था उसीका मनमें ध्यान करती रहती थी । वह क्षण-क्षणमें निश्चेष्ट हो जाती थी और उसके नेत्र निश्चल रह जाते थे ॥४॥ वह हृदयमें पतिको देखकर बाहर भी उनका दर्शन करना चाहती थी इसलिए नेत्रोंको पोंछकर ठीक करती थी पर जब वाह्यमें उनका दर्शन नहीं होता था तो पुनः शोकको प्राप्त हो जाती थी ॥५॥ उसने एकही वार तो पतिका रूप देखा था इसलिए बड़ी कठिनाईसे वह उनका चित्र खींच पाती थी उतने पर भी हाथ बीच-बीचमें काँपने लगता था जिससे तूलिका छूट कर नीचे गिर जाती थी ॥६॥ वह इतनी निर्बल हो चुकी थी कि मुखको एक हाथसे दूसरे हाथ पर बड़ी कठिनाईसे ले जा पाती थी । उसके समस्त अङ्ग इतने कृश हो गये थे कि उनसे आभूषण ढाले हो कर शब्द करते हुए नीचे गिरने लगे थे ॥७॥ उसकी लम्बी और अतिशय गरम सांससे हाथ तथा कपोल दोनों ही जल गये थे । उसके शरीर पर जो महीन वस्त्र था उसीके भारसे वह खेदका अनुभव करने लगी थी ॥८॥ वह अपने आपकी अत्यधिक निन्दा करती हुई वार-वार माता-पिताका स्मरण करती थी तथा शून्य हृदयको धारण करती हुई क्षण-क्षणमें निश्चेष्ट अर्थात् मूर्च्छित हो जाती थी ॥९॥ कण्ठके वाष्पावरुद्ध होनेके कारण दुःखसे निकले हुए वचनोंसे वह सदा अपने भाग्यको उलाहना देती रहती थी । अत्यन्त दुःखी जो वह थी ॥१०॥ वह चन्द्रमाकी किरणोंसे भी अधिक दाहका अनुभव करती थी और

१. पवनक्षयः । २. स्पष्टे म०, ज० । ३. विग्रहा म० । ४. किरणैः । ५. अधिकम् । ६. चलन्ती ।
 विनिर्याति ख० । विनिर्यन्ती क०, ज० ।

अपि नाथ तवाङ्गानि मनोज्ञानि कथं मम । अङ्गानां हृदयस्थानि कुर्वते तापसुत्तमम् ॥१२॥
 ननु ते जनितः कश्चिन्नापराधो मया प्रभो । कारणेन विना कस्मात्कोपं यातोऽसि मे परम् ॥१३॥
 प्रसीद तव भक्तास्मि कुरु मे चित्तनिर्वृतिम् । बहिर्दर्शनदानेन रचितोऽङ्गलिरेप ते ॥१४॥
 द्यौरिवाद्रित्यनिर्मुक्ता चन्द्रहीनेव शर्वरी । स्वया विना न शोभेऽहं विद्येव च गुणोज्ज्वला ॥१५॥
 प्रयच्छन्तीत्युपालम्भं पत्ये मानसवासिने । विन्दून् मुक्ताफलस्थूलान् मुञ्चन्ती लोचनाम्भसः ॥१६॥
 खिद्यमाना^१ अद्रिष्टेषु कुसुमस्तरेष्वपि । गुरुवाक्यानुरोधेन कुर्वती वपुः स्थितिम् ॥१७॥
 चक्रारूढमिवाजस्र स्व दधाना कृतभ्रमम् । संस्कारविरहाद्भ्रं भ्रमन्ती केशसंचयम् ॥१८॥
 तेजोमयीव सतापाज्जलात्मेवाश्रुसन्ततेः । अन्यत्वाद्गगनात्मेव पार्थिवीवाक्रियात्मतः ॥१९॥
 सततोत्कलिकायोगाद्वायुनेव विनिर्मिता । तिरोऽवस्थितचैतन्याद्भूतमात्रोपमात्मिका ॥२०॥
 भूमौ निक्षिप्तसर्वाङ्गा नोपवेष्टुमपि क्षमा । उपविष्टा च नोत्थातुं देह नोद्धर्तुमुत्थिता ॥२१॥
 सखीजनान्सविन्यस्तविगलत्पाणिपल्लवा । भ्राम्यन्ती कुट्टिमाङ्गेषु प्रस्खलच्चरणा मुहुः ॥२२॥
 स्पृहयन्त्यनुयाताभ्यः प्रियैश्चादुविधायिभिः । वराकी छेककान्ताभ्यस्तद्रतास्पन्दवीक्षण ॥२३॥
 प्रियात्परिभव प्राप्ता कारणेन विवर्जिता । नित्ये सा दिवसान् कृच्छ्रादीना सवत्सरोपमान् ॥२४॥

महलमे भी चलती थी तो बार बार मूर्च्छित हो जाती थी ॥११॥ हे नाथ ! तुम्हारे मनोहर अङ्ग मेरे हृदयमे विद्यमान हैं फिर वे अत्यधिक संताप क्यों उत्पन्न कर रहे हैं ? ॥१२॥ हे प्रभो ! मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है फिर अकारण अत्यधिक क्रोधको क्यों प्राप्त हुए हो ? ॥१३॥ हे नाथ ! मैं आपकी भक्त हूँ अतः प्रसन्न होओ और बाह्यमे दर्शन देकर मेरा चित्त संतुष्ट करो । लो, मैं आपके लिए यह हाथ जोड़ती हूँ ॥१४॥ जिस प्रकार सूर्यसे रहित आकाश, चन्द्रमा से रहित रात्रि और गुणोसे रहित विद्या शोभा नहीं देती उसी प्रकार आपके विना मैं भी शोभा नहीं देती ॥१५॥ इसप्रकार वह मनमें निवास करने वाले पतिके लिए उलाहना देती हुई मुक्ता फलके समान स्थूल आसुओकी वृद्धें छोड़ती रहती थी ॥१६॥ वह अत्यन्त कोमल पुण्यशय्या पर भी खेदका अनुभव करती थी और गुरुजनोंका आग्रह देख बड़ी कठिनाईसे भोजन करती थी ॥१७॥ वह चक्रपर चढ़े हुएके समान निरन्तर घूमती रहती थी और तेल कंधी आदि संस्कारके अभावमे जो अत्यन्त रूढ़ हो गये थे ऐसे केशोके समूहको धारण करती थी ॥१८॥ उसके शरीर में निरन्तर संताप विद्यमान रहता था इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो तेजस्वरूप ही है । निरन्तर अश्रु निकलते रहनेसे ऐसी जान पड़ती थी मानो जलरूप ही हो । निरन्तर शून्य मनस्क रहनेसे ऐसी जान पड़ती थी मानो आकाश रूप ही हो और अक्रिय अर्थात् निश्चल होनेके कारण ऐसी जान पड़ती थी मानो पृथिवी रूप ही हो ॥१९॥ उसके हृदयमें निरन्तर उत्कलिकाएं अर्थात् उत्कण्ठाएं (पद्ममे तरङ्ग) उठती रहती थीं इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो वायुके द्वारा रची गई हो और चेतना शक्तिके तिरोभूत होनेसे ऐसी जान पड़ती थी मानो पृथिवी आदि भूत-चतुष्टय रूप ही हो ॥२०॥ वह पृथिवीपर समस्त अवयव फैलाये पड़ी रहती थी, बैठनेके लिए भी समर्थ नहीं थी । यदि बैठ जाती थी तो उठनेके लिए असमर्थ थी और जिस किसी तरह उठती भी तो शरीर संभालने की उसमे क्षमता नहीं रह गई थी ॥२१॥ यदि कभी चलती थी तो सखी जनोके कन्धो पर हाथ रख कर चलती थी । चलते समय उसके हाथ सखियोंके कन्धो से बार बार नीचे गिर जाते थे और मणिमय फर्श पर भी बार बार उसके पैर लड़खड़ा जाते थे ॥२२॥ चापलूसी करने वाले पति सदा जिनके साथ रहते थे ऐसी चतुर स्त्रियोंको वह बड़ी स्पृहाके साथ देखती थी और उन्हींकी ओर उसके निश्चल नेत्र लगे रहते थे ॥२३॥ जो पतिके

१. जानतः म० । २. द्योरेवा-म० । ३. खिद्यमानात्र दिष्टेषु म० । ४. अतिशयेन मृदुपु । ५. संदधाना म० । ६. द्रपमात्रोपमात्मिका म० । ७. नोद्धर्तुं म० । ८. भ्राम्यन्ति म० ।

तस्यामेतदवस्थायां समोऽस्या दुःखितोऽथवा । अधिक परिवारोऽभूत्किं कर्तव्याकुलात्मक ॥२५॥
 अचिन्तयच्च किन्वेतत्कारणेन विनाभवत् । किं वा जन्मान्तरोपात्त कर्म स्यात्पक्षमीदृशम् ॥२६॥
 किं वान्तरायकर्म स्याज्जनितं जन्मान्तरे । जात वायुकुमारस्य फलदानपरायणम् ॥२७॥
 येनायमनया साकं मुग्धया वीतदोषया । न भुङ्क्ते परमान्भोगान्सर्वेन्द्रियसुखावहान् ॥२८॥
 शृणु दुःखं यथा पूर्वं न प्राप्तं भवने पितुः । सेयं कर्मानुभावेन दुःखभारमिमं श्रिता ॥२९॥
 उपायमत्र कं कुर्मो वयं भाग्यविवर्जिता । अस्मत्प्रयतनासाध्यो गोचरो ह्येष कर्मणाम् ॥३०॥
 राजपुत्री भवत्वेपा प्रेमसभारभाजनम् । भर्तुरस्मत्कृतेनापि पुण्यजातेन सर्वथा ॥३१॥
 अथवा विद्यते नैव पुण्यं नोऽत्यन्तमण्वपि । निमगना येन तिष्ठामो वालादुःखमहाणवे ॥३२॥
 भविष्यति कदा श्लाघ्यं स मुहूर्तोऽङ्गवर्तिनीम् । वालामिमां प्रियो नर्मगिरा यत्र लपिष्यति ॥३३॥
 अत्रान्तरे विरोधोऽभूद्रचसा विभुना सह । वरुणस्य परं गर्वं केवलं विभ्रतो वलम् ॥३४॥
 कैकमीसूनुना दूतं प्रेषितोऽथेन्यभापत । वरुणं स्वामिनं शक्त्या दधानं परमाद्युतिम् ॥३५॥
 श्रीमान् विद्याधराधीशो वरुणं त्वाहं रावण । यथा कुरु प्रणामं मे सज्जीभव रणाय वा ॥३६॥
 प्रकृतिस्थिरचित्तोऽथ विहस्य वरुणोऽब्रुवत् । दूतं को रावणो नाम क्रियते तेन का क्रिया ॥३७॥
 नाहमिन्द्रो जगन्निन्द्यवीर्यो वैश्रवणोऽथवा । सहस्ररश्मिसज्ञो वा मरुतो वाथवा यम ॥३८॥
 देवताधिष्ठितै रनैर्दोषैः स्याभवदुत्तमः । आयातु सममेभिस्तं नयाम्यद्य विसृजताम् ॥३९॥

तिरस्कारको प्राप्त थी तथा अकारण ही जिसका त्याग किया गया था ऐसी दीन हीन अज्ञाना दिनों को वर्षोंके समान बड़ी कठिनाईसे विताती थी ॥२४॥ उसकी ऐसी अवस्था होने पर उसका समस्त परिवार उस के समान अथवा उससे भी अधिक दुःखी था तथा 'क्या करना चाहिए' इस विषयमें निरन्तर व्याकुल रहता था ॥२५॥ परिवारके लोग सोचा करते थे कि क्या यह सब कारणके बिना ही हुआ है अथवा जन्मान्तरमें संचित कर्म ऐसा फल दे रहा है ॥२६॥ अथवा वायुकुमारने जन्मान्तरमें जिस अन्तराय कर्मका उपार्जन किया था अब वह फल देनेमें तत्पर हुआ है ॥२७॥ जिससे कि वह इस निर्दोष सुन्दरीके साथ समस्त इन्द्रियोंको सुख देने वाले उत्कृष्ट भोग नहीं भोग रहा है ॥२८॥ सुनो, जिस अज्ञानने पहले पिताके घर कभी रञ्जमात्र भी दुःख नहीं पाया वही अब कर्मके प्रभावसे इस दुःखके भारको प्राप्त हुई है ॥२९॥ इस विषयमें हम भाग्यहीन क्या उपाय करे सो जान नहीं पड़ता । वास्तवमें यह कर्मोंका विषय हमारे प्रयत्न द्वारा साध्य नहीं है ॥३०॥ हमलोगोंने जो पुण्य किया है उसीके प्रभावसे यह राजपुत्री अपने पतिकी प्रेम भाजन हो जाय तो अच्छा हो ॥३१॥ अथवा हमलोगोंके पास अणुमात्र भी तो पुण्य नहीं है क्योंकि हम स्वयं इस वालाके दुःखरूपी महासागरमें डूबे हुए हैं ॥३२॥ वह प्रशंसनीय मुहूर्त कब आवेगा जब इसका पति इसे गोदमें बैठाकर इसके साथ हास्य भरी वाणीमें वार्तालाप करेगा ॥३३॥

इसी बीचमें बहुत भारी अहङ्कारको धारण करनेवाले वरुणका रावणके साथ विरोध हो गया ॥३४॥ सो रावणने वरुणके पास दूत भेजा । स्वामीके सामर्थ्यसे परम तेजको धारण करनेवाला दूत वरुणसे कहता है कि ॥३५॥ हे वरुण ! विद्याधरोंके अधिपति श्रीमान् रावणने तुमसे कहा है कि या तो तुम मेरे लिए प्रणाम करो या युद्धके लिए तैयार हो जाओ ॥३६॥ तब स्वभावसे ही स्थिर चित्तके धारक वरुणने हँसकर कहा कि हे दूत ! रावण कौन है ? और क्या काम करता है ? ॥३७॥ लोकनिन्द्य वीर्यको धारण करनेवाला मैं इन्द्र नहीं हूँ, अथवा वैश्रवण नहीं हूँ, अथवा सहस्ररश्मि नहीं हूँ, अथवा राजा मरुत्व या यम नहीं हूँ ॥३८॥ देवताधिष्ठित रत्नोंसे इसका गर्व

१. श्रिताः म० । २. अस्मत्प्रयतनासाध्यो व० । ३. सुमुहूर्तोऽङ्ग म० । ४. त्वा + आह 'त्वामो द्वितीयाया' इति त्वादेशः । ५. वीर्यवैश्रवण - म० ।

नूनमासन्नमृत्युस्त्व येनैव भापसे स्फुटम् । अभिधायेति त दूतो गत्वा भर्त्रे न्यवेदयत् ॥४०॥
 ततः परमकोपेन परितो वारुणं पुरम् । अरुणद्रावणो युक्तः सेनयोदधिकल्पया ॥४१॥
 प्रतिज्ञां च चकारेमा रत्नैरेप मया विना । नेतव्यश्चपलो भङ्ग मृत्यु वेति ससन्नमः ॥४२॥
 राजीवपौण्डरीकाद्याः क्षुब्धा वरुणनन्दनाः । विनिर्ययुः सुसन्नद्धाः श्रुत्वा प्राप्त बल द्विप ॥४३॥
 रावणस्य बलेनामा तेषा युद्धमभूत्परम् । अन्योन्यापातसच्छिन्नविधायुधसहतिः ॥४४॥
 गजा गजैः सम सक्ता वाजिनोऽश्वै रथा रथैः । भटा भटैः कृतारावा दष्टोष्ठा रक्तलोचनाः ॥४५॥
 'पराचीन तत सैन्य त्रैकूटैर्वारुण कृतम् । चिराय कृतसग्राम^३ दत्तसोढायुधोत्करम् ॥४६॥
 'जलकान्तस्ततः क्रुद्ध' कालाग्निरिव दारुणः । अधावद्रक्षसां सैन्य हेतिपञ्जरमध्यगः ॥४७॥
 ततो दुर्वारवेग त दृष्टायान्त रणाङ्गणे । गोपायित' स्ववाहिन्या रावणो दीप्तशस्त्रया ॥४८॥
 वरुणेन कृताश्वासास्ततस्तस्य सुताः पुनः । परम योद्धुमारब्धा विध्वस्तभटकुञ्जराः ॥४९॥
 ततो यावदशग्रीव' क्रोधदीपितमानसः । गृह्णाति कार्मुक क्रूरः अक्रुटीकुटिलालिकः ॥५०॥
 दत्तयुद्धश्चिर तावत्खेदवर्जितमानसः । 'वारुणानां शतेनाशु गृहीतः खरदूषणः ॥५१॥
 ततश्चित्ते दशग्रीवश्चकारात्यन्तमाकुलः । यथा न शोभतेऽस्माकमधुना रणधीरिति ॥५२॥

बहुत बढ़ गया है इसलिए वह इन रत्नोंके साथ आवे मैं आज उसे विना नामका कर दूँ अर्थात् लोकसे उसका नाम ही मिटा दूँ ॥३६॥ 'निश्चय ही तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है इसलिए ऐसा स्पष्ट कह रहे हो' इतना कहकर दूत चला गया और जाकर उसने रावणसे सब समाचार कह सुनाया ॥४०॥

तदनन्तर समुद्रके समान भारी सेनासे युक्त रावणने तीव्र क्रोधवश जाकर वरुणके नगरको चारों ओरसे घेर लिया ॥४१॥ और सहसा उसने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं देवोपनीत रत्नोंके विना ही इस चपलको पराजित करूँगा अथवा मृत्युको प्राप्त कराऊँगा ॥४२॥ राजीव पौण्डरीक आदि वरुणके लड़के बहुत क्षोभको प्राप्त हुए और शत्रुकी सेना आई सुन तैयार हो-होकर युद्धके लिए बाहर निकले ॥४३॥ तदनन्तर रावणकी सेनाके साथ उनका घोर युद्ध हुआ । युद्धके समय नाना शस्त्रोंके समूह परस्परको टक्करसे टूट-टूटकर नीचे गिर रहे थे ॥४४॥ हाथी हाथियोंसे, घोड़े घोड़ोंसे, रथ रथोंसे और योद्धा योद्धाओंके साथ भिड़ गये । उस समय योद्धा बहुत अधिक हल्ला कर रहे थे, ओठ डस रहे थे तथा क्रोधके कारण उनके नेत्र लाल-लाल हो रहे थे ॥४५॥ तदनन्तर जिसने चिरकाल तक युद्ध किया था और शस्त्र समूहका प्रहार कर स्वयं भी उसकी चोट खाई थी ऐसी वरुणकी सेना, रावणकी सेनासे पराङ्मुख हो गई ॥४६॥ तत्पश्चात् जो क्रुद्ध होकर प्रलय कालको अग्निके समान भयङ्कर था और शस्त्र रूपी पञ्जरके बीचमे चल रहा था ऐसा वरुण राक्षसोंकी सेनाकी ओर दौड़ा ॥४७॥ तदनन्तर जिसका वेग बड़ी कठिनाईसे रोका जाता था ऐसे वरुणको रणाङ्गणसे आता देख देदीप्यमान शस्त्रोंकी धारक सेनाने रावणकी रक्षा की ॥४८॥ तत्पश्चात् वरुणका आश्वासन पाकर उसके पुत्र पुनः तेजीके साथ युद्ध करने लगे और उन्होंने अनेक योद्धा रूपी हस्तियोंको मार गिराया ॥४९॥ तदनन्तर जिसका चित्त खेदसे देदीप्यमान हो रहा था और ललाट भौंहोंसे कुटिल था ऐसे क्रूर रावणने जबतक धनुष उठाया तबतक वरुणके सौ पुत्रोंने शीघ्र ही खरदूषणको पकड़ लिया । खरदूषण चिरकालसे युद्ध कर रहा था फिर भी उसका चित्त खेदरहित था ॥५०-५१॥ तदनन्तर रावणने अत्यन्त व्याकुल होकर मनमे

१. पराङ्मुखम् । २. त्रिकूटचलवासिभिः रावणीयैरिति यावत् । त्रिकूटै -म० । ३. सग्रामसोढा-म० ।
 ४. वरुणः । ५. वरुणस्यापत्यानि पुमासो वारुणयस्तेषा वारुणीनाम् ।

खरदूपणभद्रस्य प्रवृत्ते परमाह्वे । माभून्मरणसंप्राप्तिस्तस्माच्छान्तिरिहोचिता ॥५३॥
 इति निश्चिन्त्य सग्रामशिरसोऽपससार म । नोदाराणा यतः कृत्ये मुच्यते चेतसा रस ॥५४॥
 ततः स मन्त्रिभिः साक प्रवीर्णमन्त्रवस्तुनि । संमन्य निजसामन्तान्स्वदेगसमवन्थितान् ॥५५॥
 समप्रवलसयुक्तान्सर्वान् दीर्घाध्वगामिभि । आह्वययच्छिरोवदलेखमालैरिति द्रुतम् ॥५६॥
 प्रह्लादमपि तत्रायाद्रावणप्रेषितो नर । स्वामिभक्त्या कृत चास्य करणीय यथोचितम् ॥५७॥
 विद्यावता प्रभोर्भद्र^१ । भद्रमित्य^४ चोदित । साद्र भद्रमित्युक्त्वा म लेख न्यक्षिपत्पुर ॥५८॥
 तत स्वय समादाय कृत्वा शिरसि सभ्रमात् । प्रह्लादोऽत्राचयदलेखमस्यायस्याभिधायकम् ॥५९॥
 स्वस्ति स्थाने पुरत्यारादलङ्कारस्य नामत । निविष्टपृतन धेर्मी विद्यामृत्स्वामिना पति ॥६०॥
 सौमालिनन्दनो रक्ष मन्तानाम्बरचन्द्रमा । आदित्यनगरे भद्र प्रह्लाद न्यायवेदिनम् ॥६१॥
 कालदेशविधानज्ञमस्मत्प्रीतिपरायणम् । आज्ञापयति देहादिकुशलप्रश्नपूर्वकम् ॥६२॥
 यथा मे प्रणता सर्वे क्षिप्र विद्याधराधिपा । कराद्भुलिनखच्छायाकपिलीकृतमूर्धजाः ॥६३॥
 पातालनगरेऽथ तु सुसन्नद्ध स्वर्णकित । वरुण प्रत्यवस्थानमकरोदिति दुर्मति ॥६४॥
 हृद्यन्यथविद्याभृच्छ्रेण परिवारित । समुद्रमध्यमाग्राद्य दुरात्माय सुरी किल ॥६५॥
 ततोऽतिगहने युद्धे प्रवृद्धे खरदूपण । गतेनैतस्य पुत्राणा कथञ्चिदपवर्तितं ॥६६॥

विचार किया कि इस समय युद्धकी भावना रखना मेरे लिए शोभा नहीं देती ॥५२॥ यदि परम युद्ध जारी रहता है तो खरदूपणके मरणकी आशङ्का है इसलिए इस समय शान्ति धारण करना ही उचित है ॥५३॥ ऐसा निश्चयकर रावण युद्धके अग्रभागसे दूर हट गया सो ठीक ही है क्योंकि उदार मनुष्योंका चित्त करने योग्य कार्यमें रसको नहीं छोड़ता अर्थात् करने न करने योग्य कार्यका विचार अवश्य रखता है ॥५४॥

तदनन्तर मन्त्र कार्यमें निपुण मन्त्रियोंके साथ सलाह कर उसने अपने देशमें रहनेवाले समस्त सामन्तोंको सर्व प्रकारकी सेनाके साथ शीघ्र ही बुलवाया । बुलवानेके लिए उसने लम्बा मार्ग तय करनेवाले तथा शिरपर लेख बाँधकर रखनेवाले दूत भेजे ॥५५-५६॥ रावणके द्वारा भेजा हुआ एक आदमी प्रह्लादके पास भी आया सो उसने स्वामीकी भक्तिसे उसका यथायोग्य सत्कार किया ॥५७॥ तथा पूछा कि हे भद्र ! विद्याधरके अधिपति रावणकी कुशलता तो है ? तदनन्तर उस आदमीने 'कुशलता है' इस प्रकार कहकर आदर पूर्वक रावणका पत्र प्रह्लादके सामने रख दिया ॥५८॥ तत्पश्चात् प्रह्लादने सहसा स्वयं ही उस पत्रको उठाकर मस्तकसे लगाया और फिर प्रकृत अर्थको कहनेवाला वह पत्र पढ़वाया ॥५९॥ पत्रमें लिखा था कि अलङ्कारपुर नगरके समीप जिसकी सेना गहरी है, जो कुशलतासे युक्त है, सौमालीका पुत्र है, तथा राजस वंशरूपी आकाशका चन्द्रमा है ऐसा विद्याधर राजाओका स्वामी रावण, आदित्य नगरमें रहनेवाले न्याय-नीतिज्ञ, देश कालकी विधिके ज्ञाता एवं हमारे साथ प्रेम करनेमें निपुण भद्र प्रकृतिके धारी राजा प्रह्लादको शरीरादिकी कुशल कामनाके अनन्तर आज्ञा देता है कि हाथकी अङ्गुलियोंके नखोंकी कान्तिसे जिनके केश पीले हो रहे हैं ऐसे समस्त विद्याधर राजा तो शीघ्र ही आकर मेरे लिए नमस्कार कर चुके हैं पर पाताल नगरमें जो दुर्वुद्धि वरुण रहता है वह अपनी शक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण प्रतिकूलता कर रहा है—विरोधमें खड़ा है । वह हृद्यमें चोट पहुँचानेवाले विद्याधरके समूहसे घिरकर समुद्रके मध्यमें सुखसे रहता है । इसी विद्वेषके कारण इसके साथ अत्यन्त भयङ्कर युद्ध हुआ था सो इसके सौ पुत्रोंने खरदूपणको किसी तरह

१. शिरसांसमसाहसः म० । २. स्वामिभक्तिकृत ख० । ३. भर्तुर्भद्र व० । भद्र भद्रमित्यथ म०, ज० ।
 ४. मित्यर्थचोदितः म०, व० । ५. ततो निगृह्णे म० । ६. वेष्टित ।

संग्रामे सशयो^१ माम्भूषमादोऽस्येति निश्चयः । परित्यक्ता^२ महायुद्धधिषणा कालवेदिना ॥६७॥
 अतस्तत्प्रतिकाराय त्वयावश्यमिहागमः । कर्तव्यो नैव कर्तव्ये प्रस्खलन्ति भवादृशाः ॥६८॥
 अवधार्य त्वया सार्धं विधास्यामोऽत्र साम्प्रतम् ।^३ भर्तापि तेजसां कृत्य कुरुतेऽर्हणसङ्गतः ॥६९॥
 ततो लेखार्थमावेद्य वायवे निर्विलम्बितम् । गमने सम्मर्ति चक्रे कृतमन्त्रः सुमन्त्रिभिः ॥७०॥
 अथ तं गमने सक्त जानुस्पृष्टमहीतलः । वायुर्व्यज्ञापयत्कृत्वा प्रणामं रचिताञ्जलिः ॥७१॥
 नाथ ते गमन युक्तं विद्यमाने कथं मयि । आलिङ्गनफलं कृत्यं जनकस्य सुतैर्ननु ॥७२॥
 ततो न जात एवास्मि यदि ते न करोमि तत् । गमनाज्ञाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे ततः ॥७३॥
 ततः पिता जगादैव कुमारोऽसि रणे भवान् । आगतो न क्वचित्खेद तस्मादास्व ब्रजाम्यहम् ॥७४॥
 उन्नमय्य ततो वक्षः कनकाद्रितटोपमम् । पुनरोजोधर^४ वाक्यं जगाद पवनञ्जयः ॥७५॥
 तात मे लक्षणं शक्तेस्त्वयैव जननं ननु । जगद्वाहे स्फुलिङ्गस्य किं वा वीर्यं परीक्ष्यते ॥७६॥
 भवच्छासनशेषातिपवित्राकृतमस्तकः । भङ्गे पुरन्दरस्यापि समर्थोऽस्मि न सशयः ॥७७॥
 अभिधायेति कृत्वा च प्रणाम प्रमदी पुनः । उत्थायानुष्ठितस्नानभोजनादिवपुःक्रियः ॥७८॥
 सादरं कुलवृद्धाभिर्दत्ताशीः कृतमङ्गलः । प्रणम्य भावतः सिद्धान् दधानः परमां द्युतिम् ॥७९॥

पकड़ लिया है ॥६०-६६॥ 'युद्धमे इसका मरण न हो जाय' इस विचारसे समयकी विधिको जानते हुए मैंने महायुद्धकी भावना छोड़ दी है ॥६७॥ इसलिए उसका प्रतिकार करनेके लिए तुम्हें अवश्य ही यहाँ आना चाहिए क्योंकि आप जैसे पुरुष करने योग्य कार्यमे कभी भूल नहीं करते ॥६८॥ अब मैं तुम्हारे साथ सलाह कर ही आगेका कार्य करूँगा और यह उचित भी है क्योंकि सूर्य भी तो अरुणके साथ मिलकर ही कार्य करता है ॥६९॥

अथानन्तर प्रह्लादने पवनञ्जयके लिए पत्रका सब सार बतलाकर तथा उत्तम मन्त्रियों ने साथ सलाहकर शीघ्र ही जानेका विचार किया ॥७०॥ 'पिताको गमनमे उद्यत देख पवनञ्जयने पृथिवीपर घुटने टेककर तथा हाथ जोड़ प्रणामकर निवेदन किया कि ॥७१॥ हे नाथ ! मेरे रहते हुए आपका जाना उचित नहीं है । पिता पुत्रोका आलिङ्गन करते हैं सो पुत्रोको उसका फल अवश्य ही चुकाना चाहिए ॥७२॥ यदि मैं वह फल नहीं चुकाता हूँ तो पुत्र ही नहीं कहला सकता अतः आप जानेकी आज्ञा देकर मुझपर प्रसन्नता कीजिए ॥७३॥ इसके उत्तरमे पिताने कहा कि अभी तुम बालक ही हो युद्धमे जो खेद होता है उसे तुमने कही प्राप्त नहीं किया है इसलिए सुखसे यही बैठो मैं जाता हूँ ॥७४॥ तदनन्तर सुमेरुके तटके समान चौड़ा सीना तानकर पवनञ्जयने निम्नाङ्कित ओजस्वी वचन कहे ॥७५॥ उसने कहा कि हे नाथ ! मेरी शक्तिका सबसे प्रथम लक्षण यही है कि मेरा जन्म आपसे हुआ है । अथवा संसारको भस्म करनेके लिए क्या कभी अग्निके तिलगोकी परीक्षा की जाती है ? ॥७६॥ आपकी आज्ञा रूपी शेषान्तसे जिसका मस्तक पवित्र हो रहा है ऐसा मैं इन्द्रको भी पराजित करनेमे समर्थ हूँ इसमें संशयकी बात नहीं है ॥७७॥ ऐसा कहकर उसने पिताको प्रणाम किया और फिर बड़ी प्रसन्नतासे उठकर उसने स्नान भोजन आदि शारीरिक क्रियाएँ कीं ॥७८॥

तदनन्तर कुलकी वृद्धा स्त्रियोने बड़े आदरसे आशीर्वाद देकर जिसका मङ्गलाचार किया था, जो उत्कृष्ट कान्तिको धारण कर रहा था । और 'मङ्गलाचारमे बाधा न आ जाय' इस भयसे जिनके नेत्र आँसुओसे आकुलित थे ऐसे आशीर्वाद देनेमे तत्पर माता-पिताने जिसका मस्तक

१. संयमो व्र० । मरणमित्यर्थः । २. परित्यक्तं महायुद्धं धिषणाकालवेदिना व्र० । महायुद्धमित्यत्र 'मया युद्ध' मित्यपि व्र० पुस्तके पाठान्तरम् । ३. सूर्योऽपि । ४. कुरुते रणसंगतः म० । ५. तेजःपूर्णम् । पुना राज्योद्धरं म० ।

वाष्पाकुलितनेत्राभ्या मङ्गलध्वसभीतितः । आशीर्दानप्रवृत्ताभ्या पितृभ्या मूर्च्छिं बुभ्रुवतः ॥८०॥
 आपृच्छथ बान्धवान् सर्वानभिवाद्य च सस्मित । सभाष्य प्रणत भक्त परिवर्गमशेषतः ॥८१॥
 दक्षिणेनाङ्घ्रिणा पूर्वं कृतोच्चारलः स्वभावतः । दक्षिणेन कृतानन्द स्फुरता बाहुना मुहुः ॥८२॥
 सपल्लवमुखे पूर्णकुम्भे निहितलोचन । क्रामन् (वै) भवनादेप सहसैक्षत गेहिनीम् ॥८३॥
 द्वारस्तम्भनिपण्णाङ्गं वाष्पस्थगितलोचनाम् । नितम्बनिहितभ्रसिनिरादरचलद्भुजाम् ॥८४॥
 ताम्बूलरागनिर्मुक्तधूसरद्विजवाससम् । तस्मिन्नेव समुत्कीर्णां मलिना सालभक्षिकाम् ॥८५॥
 विद्युतीव ततो दृष्टिं तस्यामापतितां क्षणात् । सहस्य कुपितोऽवादीदिति प्रह्लादनन्दन ॥८६॥
 अमुष्मादपसर्पांशु देशादपि दुरीक्षणे । उक्कामिव समर्थोऽह भवतीं न निरीक्षितुम् ॥८७॥
 अहो कुलाङ्गनायास्ते प्रगल्भत्वमिदं परम् । यत्पुरोऽनिष्यमाणापि तिष्ठसि त्रपयोऽस्मिन्ने ॥८८॥
 ततोऽत्यन्तमपि क्रूरं तद्वाक्यं भर्तृभक्तितः । तृपितेव चिराल्लव्यममृत मनसा पपौ ॥८९॥
 जगाद चाङ्गलिं कृत्वा तत्पादगतलोचना । सस्वलन्ती मुहुर्वाचमुद्गिरन्ती प्रयत्नतः ॥९०॥
 तिष्ठतापि त्वया नाथ भवनेऽत्र विवर्जिता । त्वत्सामीप्यकृताश्वासा जीवितास्म्यतिकृच्छ्रतः ॥९१॥
 जीविष्याम्यधुना स्वामिन्कथं दूरं गते त्वयि । त्वत्सद्ब्रह्मचोऽमृतास्वादस्मरणेन विनातुरा ॥९२॥
 कृतं श्लोकगणस्यापि^३ त्वया सभाषणं प्रभो । यियासुना परं देशमतिस्नेहार्द्रचेतसा ॥९३॥

चूमा था ऐसा पवनञ्जय भावपूर्वक सिद्ध परमेष्टीको नमस्कारकर, समस्त बन्धुजनोसे पूछकर गुरुजनोका अभिवादनकर तथा भक्तिसे नम्रीभूत समस्त परिजनसे वार्तालापकर मन्द-मन्द हँसता हुआ घरसे निकला ॥७६-८१॥ उसने स्वभावसे ही सर्व प्रथम दाहिना पैर ऊपर उठाया था । बार-बार फड़कती हुई दाहिनी भुजा से उसका हर्ष बढ़ रहा था ॥८२॥ और जिसके मुख पर पल्लव रखे हुए थे ऐसे पूर्णकलशपर उसके नेत्र पड़ रहे थे । महलसे निकलते ही उसने सहसा अञ्जनाको देखा ॥८३॥ अञ्जना द्वारके खम्भेसे टिककर खड़ी थी, उसके नेत्र आँसुओसे आच्छादित थे, कमरको सहारा देनेके लिए वह अपनी भुजा नितम्बपर रखती भली थी पर दुर्बलताके कारण वह भुजा नितम्बसे नीचे हट जाती था ॥८४॥ पानकी लालीसे रहित होनेके कारण उसके आँठ अत्यन्त धूसरवर्ण थे और वह ऐसी जान पड़ती थी मानो उसी खम्भेमे उकेरी हुई एक मैली पुतली ही हो ॥८५॥

तदनन्तर मनुष्य जिस प्रकार बिजलीपर पड़ी दृष्टिको सहसा सङ्कुचित कर लेता है उससे दूर हटा लेता है उसी प्रकार पवनञ्जयने अञ्जनापर पड़ी अपनी दृष्टिको शीघ्र ही सङ्कुचित कर लिया तथा कुपित होकर कहा कि ॥८६॥ हे दुखलोकने ! तू इस स्थानसे शीघ्र ही हट जा । उल्काकी तरह तुझे देखनेके लिए मैं समर्थ नहीं हूँ ॥८७॥ अहो, कुलाङ्गना होकर भी तेरी यह परम धृष्टता है जो मेरे न चाहनेपर भी सामने खड़ी है । बड़ी निर्लज्ज है ॥८८॥ पवनञ्जयके उक्त वचन यद्यपि अत्यन्त क्रूर थे तो भी जिस प्रकार चिरकालका प्यासा मनुष्य प्राप्त हुए जलको बड़े मनोयोगसे पीता है उसी प्रकार अञ्जना स्वामीमे भक्ति होनेके कारण उसके उन क्रूर वचनोंको बड़े मनोयोगसे सुनती रही ॥८९॥ उसने स्वामीके चरणोमे नेत्र गडाकर तथा हाथ जोड़कर कहा । कहते समय वह यद्यपि प्रयत्न पूर्वक वचनोका उच्चारण करती थी तो भी बार-बार चूक जाती थी चुप रह जाती थी अथवा कुल्लका कुल्ल कह जाती थी ॥९०॥ उसने कहा कि हे नाथ ! इस महलमे रहते हुए भी मैं आपके द्वारा त्यक्त हूँ फिर भी 'मैं आपके समीप ही रह रही हूँ' इतने मात्रसे ही सन्तोष धारणकर अब तक बड़े कष्टसे जीवित रही हूँ ॥९१॥ पर हे स्वामिन् ! अब जब कि आप दूर जा रहे हैं निरन्तर दुःखी रहनेवाली मैं आपके सद्बचन रूपी अमृतके स्वादके बिना किस प्रकार जीवित रहूँगी ? ॥९२॥ हे प्रभो ! परदेश जाते समय आपने

१. निष्यमाणापि म० । २. सुवनेऽत्र म० । ३. सेवकगणस्यापि ।

अनन्यगतचित्ताह त्वदसङ्गमदुःखिता । कथं नान्यमुखेनापि त्वया सभापिता विभो ॥६४॥
 त्यक्ताया मे त्वया नाथ समस्तेऽप्यत्र विष्टपे । विद्यते शरणं नान्यदथवा मरण भवेत् ॥६५॥
 ततस्तेन त्रियस्त्रेति संकोचितमुखेन सा । सती निगदितापसद्विपण्णा धरणीतले ॥६६॥
 वायुरप्युत्तमाष्टुर्दिग्दधान. कृपयोऽङ्कितः । परम नागमारुह्य सामन्तैः प्रस्थितः समम् ॥६७॥
 वासरे प्रथमे वासो सप्राप्तौ मानस सर. । आवासयत्ते तस्य सेनामश्रान्तवाहनः ॥६८॥
 तस्यावतरतः सेना शुशुभे हि नभस्तलात् । सुरसन्ततिवन्नानायानशस्त्रविभूषणा ॥६९॥
 आत्मनो वाहनानां च चक्रे कार्यं यथोचितम् । स्नानप्रत्यवसानादिविद्याभृद्धि. सुमानसैः ॥१००॥
 अथ विद्यात्रलाद्राशु रचिते बहुभूमिके । युक्तविस्तारतुङ्गत्वे प्रासादे चित्तहारिणि ॥१०१॥
 सहोपरितले कुर्वत् स्वैर मित्रेण सकथाम् । वरासनगतो भाति सग्रामकृतसमदः ॥१०२॥
 गवाक्षजालमार्गेण छिद्रेण तटभूरुहान् । ईत्वाञ्चक्रे सरो वायुर्मन्दवायुविघटितम् ॥१०३॥
 भीमैः कूर्मैर्कपैर्नैर्कर्मकरैर्दर्पधारिभिः । भिन्नवीचिकमन्यैश्च यादोभिरिति भूरिभिः ॥१०४॥
 धौतस्फटिकस्तुत्याम्भ कमलोत्पलभूषितम् । हसैः कारण्डवैः क्रौञ्चैः सारसैश्चोपशोभितम् ॥१०५॥
 मन्दकोलाहलादेया मनःश्रोत्रमलिम्लुचम् । तदन्तरश्रुतोदान्तभ्रमरीकुलभङ्गकृतम् ॥१०६॥

स्नेहसे आर्द्र चित्त होकर सेवक जनोसे भी सम्भाषण किया है फिर मेरा चित्त तो एक आपमे ही लग रहा है और आपके ही वियोगसे निरन्तर दुःखी रहती हूँ फिर स्वयं न सही दूसरेके मुखसे भी आपने मुझसे सम्भाषण क्यों नहीं किया ? ॥६३-६४॥ हे नाथ ! आपने मेरा त्याग किया है इसलिए इस समस्त संसारमे दूसरा कोई भी मेरा शरण नहीं है अथवा मरण ही शरण है ॥६५॥

तदनन्तर पवनञ्जयने मुख सकोड़कर कहा कि 'मरो' उनके इतना कहते ही वह खेद खिन्न हो मूर्छित होकर पृथिवीपर गिर पड़ी ॥६६॥ इधर उत्तम ऋद्धिको धारण करता हुआ निर्दय पवनञ्जय उत्तम हाथीपर सवार हो सामन्तोंके साथ आगे बढ़ गया ॥६७॥ प्रथम दिन वह मानसरोवरको प्राप्त हुआ सो यद्यपि उसके वाहन थके नहीं थे तो भी उसने मानसरोवरके तटपर सेना ठहरा दी ॥६८॥ आकाशसे उतरते हुए पवनञ्जयकी नाना प्रकारके वाहन और शस्त्रोंसे सुशोभित सेना ऐसी जान पड़ती थी मानो देवोंका समूह ही नीचे उतर रहा हो ॥६९॥ प्रसन्नता से भरे विद्याधरोने अपने तथा वाहनोके स्नान भोजनादि समस्त कार्य यथायोग्य रीतिसे किये ॥१००॥

अथानन्तर विद्याके बलसे शीघ्र ही एक ऐसा मनोहर महल बनाया गया कि जिसमें अनेक खण्ड थे तथा जिसकी लम्बाई चौड़ाई और ऊँचाई अनुरूप थी उस महलके ऊपरके खण्डपर मित्रके साथ स्वच्छन्द वार्तालाप करता हुआ पवनञ्जय उत्कृष्ट आसनपर विराजमान था । युद्धकी वार्तासे उसका हर्ष बढ़ रहा था ॥१०१-१०२॥ पवनञ्जय भरोखोके मार्गसे किनारेके वृक्षोंको तथा मन्द-मन्द वायुसे हिलते हुए मानसरोवरको देख रहा था ॥१०३॥ भयंकर कल्लुए, मीन, नक्र, गर्वको धारण करनेवाले मगर तथा अन्य अनेक जल-जन्तु उस सरोवरमे लहरे उत्पन्न कर रहे थे ॥१०४॥ धुले हुए स्फटिकके समान स्वच्छ तथा कमलो और नील कमलोसे सुशोभित उस सरोवरका जल हस, कारण्डव, क्रौञ्च और सारस पक्षियोंसे अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥१०५॥ इन सब पक्षियोंके गम्भीर कोलाहलसे वह सरोवर मन और कर्ण—दोनोंको चुरा रहा था । तथा उसके मध्यमे भ्रमरियोंका उत्कृष्ट भङ्कार सुनाई देता था ॥१०६॥ उसी सरोवरके किनारे पवनञ्जयने एक चकवी देखी । वह चकवी अकेली होनेसे

१. नान्यमुखेनापि । २. हेमभूमिके म० । ३. मन्दकोलाहल देश म० । ४. भ्रमरीकुलभङ्गति ख० ।

तत्र चैकाकिनीमेकामाकुलं चक्रवाकिकाम् । वियोगानलसतसां नानानेष्टितकारिणीम् ॥१०७॥
 अस्ताचलसमासन्नभानुविम्वगतैर्नगाम् । पद्मिनीदलरन्ध्रेषु सुदुर्न्यस्तनिरौत्तणाम् ॥१०८॥
 धुन्वानां पक्ष्ती वेगात्पातोत्पातकृतश्रमाम् । मृणालशकलस्वादु पर्यन्ती दु खिता विपम् ॥१०९॥
 प्रतिविम्ब निज दृष्ट्वा जले दयितगङ्गिनीम् । आह्वयन्ती तदप्राप्त्या व्रजतीं परमा शुचम् ॥११०॥
 नानादेशोद्भवं श्रुत्वा प्रतिगन्ध प्रियाशया । भ्रम चक्रमिवाकूटा कुर्वन्ती साधुलोचनाम् ॥१११॥
 तदृपादपमारुह्य न्यस्यन्ती त्रिभु लोचने । तत्रादृष्ट्वा पुन पातमाचरन्ती महाजवम् ॥११२॥
 उन्नयन्ती रजो दूर पद्मानां पक्षधृतिभि । विर तद्वतया दृष्ट्या ददर्शासौ कृपाहत ॥११३॥
 इति चाचिन्तयत्कष्ट प्राप्तमस्या इदं परम् । यन्प्रियेण विमुक्तये दहते शोकवह्निना ॥११४॥
 तदेवेद सरो रम्यं चन्द्रचन्द्रनगोतलम् । टावकल्पमभूदस्या, प्राप्य नाथवियुक्तताम् ॥११५॥
 रमणेन वियुक्ताया, पल्लवोऽप्येति खङ्गताम् । चन्द्राशुरपि वज्रत्व स्वर्गोऽपि नरकायते ॥११६॥
 इति चिन्तयतस्तस्य प्रियाया मानस गतम् । तत्प्रीत्या चैकतोद्देशस्तद्विवाहे निषेवितान् ॥११७॥
 चक्षुषो गोचरोभूतास्तस्य ते शोकहेतव । बभूवुर्मर्मभेदानां कर्तार इव दु सहाः ॥११८॥
 अध्यासीच्चैति हा कष्ट मया मा क्रूरचेतना । मुक्तयेमिव चक्राह्वा वैवल्य दयितागमत् ॥११९॥
 यदि नाम तदा तस्याः सख्याभाष्यत निन्दुरम् । ततोऽन्यदीयदोषेण कस्मात्सा वजिता मया ॥१२०॥

अत्यन्त व्याकुल थी, वियोग रूपी अग्निसे सतप्त थी, नाना प्रकारकी चेष्टाएँ कर रही थी, अस्ताचलके निकटवर्ती सूर्यविम्बपर उसके नेत्र पड़ रहे थे, वह बार-बार कमलिनीके पत्तोंके विवरोंमें नेत्र डालती थी, वेगसे पद्मोंको फड़फड़ाती थी, बार-बार ऊपर उड़कर तथा नीचे उतरकर खेदखिन्न हो रही थी, मृणालके टुकड़ोंसे स्वादिष्ट जलकी ओर देखकर दु खी हो रही थी, पानीके भीतर अपना प्रतिविम्ब देखकर पतिका आशंकासे उसे बुलाती थी और अन्तमें उसके न आनेसे अत्यधिक शोक करती थी, नानास्थानोंसे जो प्रतिध्वनि आती थी उसे सुनकर 'कहीं पति तो नहीं बोल रहा है' इस आशासे वह चक्राकूटकी तरह गोल चक्कर लगाती थी, उसके नेत्र सुन्दर थे, वह किनारेके वृक्षपर चढ़कर सब दिशाओंमें नेत्र डालती थी और वहाँ जत्र पतिको नहीं देखती थी तब वड़े वेगसे पुन नीचे आ जाती थी, तथा पद्मोंकी फड़फड़ाहटसे कमलोंकी परागको दूर तक उड़ा रही थी । पवनञ्जय दयाके वशीभूत हो उसीकी ओर दृष्टि लगाकर देर तक देखता रहा ॥१०७-११३॥ चक्रवीको जो अत्यधिक दु ख प्राप्त हो रहा था उसीका वह इस प्रकार चिन्तन करने लगा । वह विचारने लगा कि पतिसे वियुक्त हुई यह चक्रवी शोक रूपी अग्निसे जल रही है ॥११४॥ यह वही चन्द्रमा और चन्दनके समान शीतल, मनोहर सगेवर है पर पतिका वियोग पाकर इसे दावानलके समान हो रहा है ॥११५॥ पतिसे रहित स्त्रियोंके लिए पल्लव भी तलवारका काम करता है, चन्द्रमाकी किरण भी वज्र बन जाती है और स्वर्ग भी नरक जैसा ही जाता है ॥११६॥

ऐसा विचार करते हुए उसका मन अपनी प्रिया अञ्जनासुन्दरीपर गया और उसीमें प्रेम होनेके कारण उसने विवाहके समय सेवित स्थानोंको बड़े गौरसे देखा ॥११७॥ वे सब स्थान उसके नेत्रोंके सामने आनेपर शोकके कारण हो गये और मर्म भेद करनेवालोंके समान दु सह हो उठे ॥११८॥ वह मन ही मन सोचने लगा कि हाय हाय वड़े कष्टकी बात है—मुझ दुष्ट चित्तके द्वारा छोड़ी हुई वह प्रिया भी इस चक्रवीके समान दु खको प्राप्त हो रही होगी ॥११९॥ यदि उस समय उसकी सखीने कठोर शब्द कहे थे तो दूसरेके ढोपसे मैंने उसे क्यों छोड़

धिगास्मत्सदृशान्मूर्खानंप्रेक्षापूर्वकारिणः । जनस्य^१ ये विना हेतुं यत्कुर्वन्त्यसुखासनम् ॥१२१॥
मम वज्रमय नृत्नं हृदय पापचेतस^२ । प्रत्यवस्थित यत्कालमियन्तं तां प्रियां प्रति ॥१२२॥
किं करोम्यधुना तातमापृच्छथ निरितो गृहात् । कथं नु विनिवर्तेऽहमहो प्राप्सोऽस्मि सकटम् ॥१२३॥
व्रजेय यदि सग्राम जीवेन्नासौ ततः स्फुटम् । तदभावे ममाभावः स्वतश्च गुरु नापरम् ॥१२४॥
अथवा सर्वसन्देहग्रन्थिभेदनकारणम् । विद्यते मे पर मित्र तत्रेदं तिष्ठते शुभे ॥१२५॥
तस्मात्पृच्छाम्यसु तावत्सर्वाचारविशारदम् । निश्चित्ये विहिते कार्ये लभन्ते प्राणिनः सुखम् ॥१२६॥
इति च ध्यातमेतेन दृष्ट्वा चैव विचेतसम् । मन्द प्रहसितोऽपृच्छद्देवं तद्दुःखदुःखितः ॥१२७॥
सखे ! प्रतिनरोच्छेदकृतये प्रस्थितस्य ते । कस्माद्ददनमद्यैव त्रिपणमिव दृश्यते ॥१२८॥
^३अपत्रपां विमुच्याशु मह्य सुजन वेदय । नितान्तमाकुलोभावो जातो मे भवतीदृशि ॥१२९॥
ततोऽसावेवमुक्तः सन् ^४कृच्छ्रनि सृतया गिरा । जगादेति^५ परिभ्रंशं दूरं धैर्या^६ दुपागतः ॥१३०॥
शृणु सुन्दर कस्यान्यत्कथनीयमिदं मया । ननु सर्वरहस्यानां त्वमेव मम भाजनम् ॥१३१॥
स त्वं कथयितु नैतदन्यस्मै सुहृदहंसि । त्रपा हि वस्तुनानेन जायते परमा मम ॥१३२॥
ततः प्रहसितोऽत्रोचद् विश्रब्धस्त्व निवेदय । त्वया हि वेदितो मेऽर्थस्तसायोगतवारिवत् ॥१३३॥
ततो वायुरुवाचेद् शृणु मित्राक्षना मया । न कदाचिच्छ्रुतप्रीतिरिति मे दुःखित मनः ॥१३४॥

दिया ? ॥१२०॥ विना विचारे काम करनेवाले मुझ जैसे मूर्खोंके लिए धिक्कार है । जो विना कारण ही लोगोको दुःखी करते हैं ॥१२१॥ निश्चय ही मुझ पापीका चित्त वज्रका वना है इसीलिए तो वह इतने समय तक प्रियाके विरुद्ध रह सका है ॥१२२॥ अब क्या करूँ ? मैं पितासे पूछकर घरसे बाहर निकला हूँ इसलिए अब लौटकर वापिस कैसे जाऊँ ? अहो ! मैं बड़े संकटमें आ पड़ा हूँ ॥१२३॥ यदि मैं युद्धके लिए जाता हूँ तो निश्चित है कि वह जीवित नहीं वचेगी और उसके अभावमें मेरा भी अभाव स्वयमेव हो जायगा । इसलिए इससे बढकर और दूसरा कष्ट नहीं है ॥१२४॥ अथवा समस्त सन्देहकी गाँठको खोलनेवाला मेरा परम मित्र विद्यमान है सो यही इस शुभ कार्यका निर्णायक है ॥१२५॥ इसलिए सब प्रकारके व्यवहारमें निपुण इस मित्रसे पूछता हूँ क्योंकि जो कार्य विचार कर किया जाता है उसीमें प्राणी सुख पाते हैं सर्वत्र नहीं ॥१२६॥

इधर पवनञ्जय इस प्रकार विचार कर रहा था उधर प्रहसित मित्रने उसे अन्यमनस्क देखा । तब उसके दुःखसे दुखी होकर उसने स्वयं ही धीरेसे पूछा ॥१२७॥ कि हे सखे ! तुम तो शत्रुका उच्छेद करनेके लिए निकले हो फिर आज इस तरह तुम्हारा मुख खिन्न-सा क्यों दिखाई दे रहा है ? ॥१२८॥ हे सत्पुरुष ! लज्जा छोड़कर शीघ्र ही मेरे लिए इसका कारण बताओ । आपके इस तरह खिन्न रहते हुए मुझे बहुत आकुलता उत्पन्न हो रही है ॥१२९॥ तदनन्तर जो धैर्यसे भ्रष्ट होकर बहुत दूर जा पड़ा था ऐसा पवनञ्जय मित्रके इस प्रकार कहनेपर कठिनाईसे निकलती हुई वाणीसे कहने लगा कि ॥१३०॥ हे सुन्दर ! सुनो, तुम्हें छोड़कर और किससे कहूँगा ? यथार्थमें मेरे समस्त रहस्यांके तुम्हीं एक पात्र हो ॥१३१॥ हे मित्र ! यह बात तुम किसी दूसरेसे कहनेके योग्य नहीं हो क्योंकि इससे मुझे अधिक लज्जा उत्पन्न होती है ॥१३२॥ इसके उत्तरमें प्रहसितने कहा कि तुम निःशङ्क होकर कहो क्योंकि तुम्हारे द्वारा कहा हुआ पदार्थ मेरे लिए सतप्त लोहेपर पड़े पानीके समान है ॥१३३॥

तदनन्तर पवनञ्जयने कहा कि हे मित्र ! सुनो, मैंने आज तक कभी अञ्जनासे प्रेम नहीं

१. जीविना युक्तं ये म० । जनस्योर्जां विना ज० । २. निर्णेत्त्वेनावलम्बते । ३. लज्जाम् । ४. कृच्छ्र-
निस्त्रपया म० । ५. पर भ्रंशं म० ख । ६. धैर्यमुपागतः क० ।

क्रूरेऽपि मयि सामीप्यादियन्तं समय तथा । आत्मा सन्धारितो नित्य प्रवृत्तनयनाम्भसा ॥१३५॥
 आगच्छता मया दृष्टा तस्याश्चेष्टाधुना तु या । तथा जानामि सा चून न प्राणिति वियोगिनी ॥१३६॥
 तस्या विनापराधेन मया परिभवः कृतः । द्वयग्रं विशतिमन्दाना पापाणसमचेतमा ॥१३७॥
 आगच्छता मया दृष्ट तस्यास्तन्मुखपङ्कजम् । शोकप्रालेयसपर्कान्मुक्त लावण्यसम्पदा ॥१३८॥
 तस्यास्ते नयने दीर्घे नीलोत्पलसमप्रभे । इषुवत्स्मृतिभारुढे हृदय विव्यतेऽधुना ॥१३९॥
 तदुपायं कुरु त्व तमावयोर्धेन सगमः । जायेत मरणं माभूद्दुभयोरपि सज्जन ॥१४०॥
 ऊचे प्रहसितोऽथैव क्षणं^३ निश्चलविग्रहः । उपायचिन्तनात्यन्तचलदोलास्थमानस ॥१४१॥
 कृत्वा गुरुजनपटुच्छां निर्गतस्य तवाधुना । शत्रु निर्जेतुकामस्य^४ साम्प्रत न निवर्तनम् ॥१४२॥
 समच्च गुरुलोकम्य नानाता प्रथम च या । लज्यते तामिहानेतुमधुनाञ्जनसुन्दरीम् ॥१४३॥
 तस्मादविदितो गत्वा तत्रैवेतां त्वमानय । नेत्रयोर्गोचरीभाव सभापणसुखस्य च ॥१४४॥
 जीवितालम्बन कृत्वा चिरान्तस्याः समागमम् । ततः क्षिप्र निवर्तस्व शीतलीभूतमानसः ॥१४५॥
 निरपेक्षस्ततो भूत्वा बहन्नुत्साहसुत्तमम् । गमिष्यसि रिपु जेतुमुपायोऽयं सुनिश्चितः ॥१४६॥
 ततः परममित्युक्त्वा सेनान्यं मुद्राभिधम् । नियुज्य बलरचाया व्याजतो मेरुवन्दनात् ॥१४७॥
 माल्यानुलेपनादीनि गृहीत्वा त्वरयान्वित । पुर प्रहसित कृत्वा वायुर्गगनमुद्ययौ ॥१४८॥
 तावच्च भानुरैदस्त कृपयेव प्रचोदितः । विश्रब्धमेतयोर्योगो निशीथे जायतामिति ॥१४९॥

किया इसलिए मेरा मन दुखी हो रहा है ॥१३४॥ यद्यपि मैं क्रूर हूँ और क्रूरतावश उससे बोलता-चालता नहीं था तो भी मात्र समीपमे रहनेके कारण उसने निरन्तर आँसू डाल-डालकर अपने आपको जीवित रक्खा है ॥१३५॥ परन्तु उस दिन आते समय मैंने उसकी जो चेष्टा देखी थी उससे जानता हूँ कि वह वियोगिनी अब जीवित नहीं रहेगी ॥१३६॥ मुझ पापाणचित्तेन अपराधके विना ही उसका वाईस वर्ष तक अनादर किया है ॥१३७॥ आते समय मैंने उसका वह मुख देखा था जो कि शोक रूपी तुपारसे सम्पर्क होनेके कारण सौन्दर्य रूपी सम्पदासे रहित था ॥१३८॥ उसके जब नीलोत्पलके समान नीले एवं दीर्घ नेत्र स्मृतिमें आते हैं तो वाणकी तरह हृदय विध जाता है ॥१३९॥ इसलिए हे सज्जन ! ऐसा उपाय करो कि जिससे हम दोनोंका समागम हो जाय और मरण न हो सके ॥१४०॥

अथानन्तर क्षणभरके लिए जिसका शरीर तो निश्चल था और मन उपायकी चिन्तनामें मानो अत्यन्त चञ्चल मूलापर ही स्थित था ऐसा प्रहसित बोला कि ॥१४१॥ चूँकि तुम गुरुजनोंसे पूछकर निकले हो और शत्रुको जीतना चाहते हो इसलिए इस समय तुम्हारा लौटना उचित नहीं है ॥१४२॥ इसके सिवाय गुरुजनोंके समच्च तुम कभी अज्ञानको अपने पास नहीं लाये हो इसलिए इस समय उसका यहाँ लाना भी लज्जाकी बात है ॥१४३॥ अतः अच्छा उपाय यही है कि तुम गुप्त रूपसे वहीं जाकर उसे अपने दर्शन तथा सभापणजन्य सुखका पात्र बनाओ ॥१४४॥ तुम्हारा समागम उसके जीवनका आलम्बन है सो उसे चिर काल तक प्राप्त कराकर तथा अपने मनको ठण्डाकर शीघ्र ही वहाँसे वापिस लौट आना ॥१४५॥ और इस तरह तुम उस ओरसे निश्चिन्त हो उत्तम उत्साहको धारण करते हुए शत्रुको जीतनेके लिए जा सकोगे ॥१४६॥

तदनन्तर 'बहुत ठीक है' ऐसा कहकर शीघ्रतासे भरा पचनञ्जय, मुद्गूर नामक सेनापति को सेनाकी रक्षामे नियुक्त कर माला अनुलेपन आदि अन्य सुगन्धित पदार्थ लेकर और प्रहसित मित्रको आगे कर मेरुवन्दनाके वहाने आकाशमे जा उड़ा ॥१४७-१४८॥ इतने मे ही सूर्य अस्त

१. सन्धारिता म० । २. प्रहसितोऽप्येव म० । ३. क्षणनिश्चल म० । ४. शत्रुनिर्जेतु, -म० ।

१ सन्ध्यालोकपरिध्वंसहेतुना तमसान्वितम् । जगत् स्पर्शनविज्ञेयपदार्थमभवत्ततः ॥१५०॥
 प्राप्तश्चाञ्जनसुन्दर्या गृहे २ प्रग्रीवकोदरे । वायुरस्थात्प्रविष्टस्तु तस्याः प्रहसितोऽन्तिकम् ॥१५१॥
 ततस्तं सहसा दृष्ट्वा मन्दद्वीपप्रकाशतः । अञ्जना विव्यथेऽन्यर्थं कः कोऽयमिति वादिनी ॥१५२॥
 सखीं वसन्तमालाञ्च सुप्तां पार्श्वे व्यनिद्रयत् । कुशलोत्थाय सा तस्याश्चकार भयनाशनम् ॥१५३॥
 ततः प्रहसितोऽस्मीति गदित्वाऽसौ नमस्कृतिम् । प्रयुज्याकथयत्तस्मै पवनञ्जयमागतम् ॥१५४॥
 ततः स्वप्नसमं श्रुत्वा प्राणनाथस्य सागमम् । ऊचे प्रहसितं दीनमिदं गद्गदया गिरा ॥१५५॥
 किं मां प्रहसितापुण्यां हससि प्रियवर्जिताम् । ननु कर्मभिरेवाह हसितातिमलीमसैः ॥१५६॥
 प्रियेण परिभूतेति विदित्वा वद केन नो । परिभूतास्मि निर्भाग्या दुःखावस्थानविग्रहा ॥१५७॥
 विशेषतस्त्वया कान्तः प्रोत्साह्य क्रूरचेतसा । एतामारोपितोऽवस्थां मम कृच्छ्रविधायिनीम् ॥१५८॥
 अथवा भद्र ते कोऽत्र दोषः कर्मवशीकृतम् । जगत्सर्वमवाप्नोति दुःखं वा यदि वा सुखम् ॥१५९॥
 इति साश्रु वदन्तीं तामात्मनिन्दनतत्पराम् । नत्वा प्रहसितोऽवोचद् दुःखार्द्राकृतमानसः ॥१६०॥
 कल्याणि मा भणीरेव क्षमस्व जनित मया । आगो विचारशून्येन पापावष्टब्धचेतसा ॥१६१॥
 प्राप्तानि विलय नूनं दुष्कर्माणि तवाधुना । येन प्रेमगुणाकृष्टो जीवितेशः समागतः ॥१६२॥
 अधुनास्मिन् प्रसन्नो ते किं न जातं सुखावहम् । ननु चन्द्रेण शर्वर्याः संगमे का न चारुता ॥१६३॥

हो गया सो रात्रिके समय इन दोनोंका निश्चिन्ततासे समागम हो सके इस करुणासे प्रेरित हो कर ही मानो अस्त हो गया था ॥१४६॥ तदनन्तर संध्याके प्रकाशको नष्ट करनेका कारण जो अन्धकार उससे युक्त हो कर समस्त संसार श्याम वर्ण हो गया और समस्त पदार्थ मात्रस्पर्शन इन्द्रियके द्वारा ही जानने योग्य रह गये ॥१५०॥ अञ्जनासुन्दरीके घर पहुँच कर पवनञ्जय तो बाह्य बरण्डामें रह गया और प्रहसित उसके पास गया ॥१५१॥

तदनन्तर दीपकके मन्द प्रकाशमें उसे सहसा देख कर 'यह कौन है कौन है, ऐसा कहती हुई अञ्जना अत्यधिक भयभीत हुई ॥१५२॥ उसने पासमें सोई वसन्तमाला सखीको जगाया सो उस चतुरने उठकर उसका भय नष्ट किया ॥१५३॥ तत्पश्चात् 'मैं प्रहसित हूँ' ऐसा कह कर उसने नमस्कार किया और पवनञ्जयके आनेकी सूचना दी ॥१५४॥ तब वह स्वप्नके समान प्राणनाथके समागमका समाचार सुन गद्गद वाणीमें दीनताके साथ प्रहसितसे कहने लगी कि ॥१५५॥ हे प्रहसित ! मुझ पुण्यहीना तथा पतित्यक्ताकी हँसी क्यों करते हो ? मैं तो अपने मलिन कर्मोंसे स्वयं ही हास्यका पात्र हो रही हूँ ॥१५६॥ यह हृदयवल्लभके द्वारा तिरस्कृत है— पतिके द्वारा ठुकराई गई है ऐसा जानकर मुझ अभागिनी एवं दुःखिनीका किसने नहीं तिरस्कार किया है ? ॥१५७॥ खास कर दुष्ट चित्तको धारण करने वाले तुम्हींने प्राणनाथको प्रोत्साहित कर मुझे अत्यन्त दुःख देने वाली इस अवस्था तक पहुँचाया है ॥१५८॥ अथवा हे भद्र ! इसमें तुम्हारा क्या दोष है ? क्योंकि कर्मके वशीभूत हुआ समस्त संसार दुःख अथवा सुख प्राप्त कर रहा है ॥१५९॥ इस प्रकार जो अश्रु ढालती हुई कह रही थी तथा अपने आपकी निन्दा करनेमें तत्पर थी ऐसी अञ्जना सुन्दरीको नमस्कार कर प्रहसित बोला । उस समय प्रहसितका मन दुःख से द्रवीभूत हो रहा था ॥१६०॥ उसने कहा कि हे कल्याणि ! ऐसा मत कहो मुझ निर्विचार तथा पापयुक्त चित्तके धारकने जो अपराध किया है उसे क्षमा करो ॥१६१॥ इस समय तुम्हारे दुष्कर्म निश्चय ही नष्ट हो गये हैं क्योंकि प्रेमरूपी गुणसे खिंचा हुआ तुम्हारा हृदय-वल्लभ स्वयं आया है ॥१६२॥ अब इसके प्रसन्न रहने पर तुम्हें कौन सी वरजु सुखदायक नहीं होगी ? वास्तवमें चन्द्रमाके साथ समागम होने पर रात्रिमें कौनसी सुन्दरता नहीं आ जाती ? ॥१६३॥

ततः क्षणं स्थिता चेद् जगादाक्षनसुन्दरी । प्रतिनिस्वनवत्येव सत्यनूदितया गिरा ॥१६४॥
 असभाव्यमिदं भद्रं यथा वर्षं जलोन्मिक्तम् । भवत्यप्यथवा काले कल्याण कर्मचोदितम् ॥१६५॥
 तथास्तु स्वागत तस्य जीवितस्येशितुर्मम । अद्य मे फलितं पूर्वशुभानुष्ठानपादपः ॥१६६॥
 वदन्त्यामेवमेतस्यामानन्दात्प्राप्तचक्षुषि । तत्सख्येवान्तिक नीतस्तस्याः करुणया प्रियः ॥१६७॥
 अस्तसारङ्गकान्ताक्षी दृष्ट्वा तं परमोत्सवम् । जानुद्वयासकृन्न्यस्तस्रस्तपाणिसरोरुहा ॥१६८॥
 स्तम्भवत्प्रसृताकाण्डा वेपथुश्रितविग्रहा । शनैरुत्थातुमारब्धा शयनस्था प्रयासिनी ॥१६९॥
 अथालमलमेतेन देवि क्लेशविधायिना । सभ्रमेणेति वचनं विमुञ्चन्नमृतोपमम् ॥१७०॥
 समुत्थितां प्रिया कृच्छ्रादञ्जलिं वद्भुमुद्यताम् । गृहीत्वा दयितः पाणौ शयने समुपाविशत् ॥१७१॥
 'स्वेदी पाणिरसौ तस्याः परमं पुलकं वहन् । प्रियस्पर्शामृतेनेव सिक्तो व्यामुञ्चदङ्कुरान् ॥१७२॥
 नत्वा वसन्तमालां तं कृत्वा भाषणमादरात् । साकं प्रहसितेनास्थाद्रम्ये कक्षान्तरे सुखम् ॥१७३॥
 अथानादरतः पूर्वं त्रपमाणः स्वयंकृतात् । पवनं कुशलं प्रष्टुं न प्रावर्तत चेतसा ॥१७४॥
 विलक्षस्तु प्रिये मृष्यं मया कर्मानुभावतः । निकारं कृतमित्यूचे तत्क्षणाकुलमानसः ॥१७५॥
 आद्यसभापणात्सापि वहन्ती नतमाननम् । जगाद् मन्द्या वाचा निश्चलाखिलविग्रहा ॥१७६॥

तदनन्तर अञ्जनासुन्दरी क्षण भरके लिए चुप हो रही । उसके बाद उसने सखीके द्वारा अनूदित वचनोंके द्वारा उत्तर दिया । सखी जो वचन कह रही थी वे अञ्जनाकी प्रतिध्वनिके समान जान पड़ते थे ॥१६४॥ उसने कहा कि हे भद्र ! जिस प्रकार जलसे रहित वर्षाका होना असम्भव है उसी प्रकार उनका आना भी असम्भव है । अथवा इस समय मेरे किसी शुभ-कार्यका उदय हुआ हो जिससे तुम्हारा कहना सम्भव भी हो सकता है ॥१६५॥ अस्तु, यदि प्राणनाथ आये हैं तो मैं उनका स्वागत करती हूँ । मेरा पूर्वोपार्जित पुण्यकर्मरूपी वृक्ष आज फलीभूत हुआ है ॥१६६॥ इस प्रकार नेत्रोंमें हर्षके आँसू भरे हुई अञ्जनासुन्दरी यह कह ही रही थी कि सखीके समान करुणा प्राणनाथको उसके समीप ले आई ॥१६७॥ उस समय अञ्जना शय्यापर बैठी थी । ज्यों ही उसने परम आनन्दके देनेवाले प्राणनाथको समीप आते देखा त्योही वह उठनेका प्रयास करने लगी । उसके नेत्र भयभीत हरिणके समान सुन्दर थे, वह खड़ी होनेके लिए अपने घुटनोंपर बार-बार हस्त-कमल रखती थी पर वे दुर्बलताके कारण नीचे खिसक जाते थे । उसकी जॉधे खम्भेके समान अकड़ गई थीं और सारा शरीर काँपने लगा था ॥१६८-१६९॥ यह देख पवनञ्जयने अमृततुल्य निम्न वचन कहे कि हे देवि ! रहने दो, क्लेश उत्पन्न करनेवाले इस सम्भ्रमसे क्या प्रयोजन है ? ॥१७०॥ इतना कहनेपर भी अञ्जना बड़े कष्टसे खड़ी होकर हाथ जोड़नेका उद्यम करने लगी कि पवनञ्जयने उसका हाथ पकड़कर उसे शय्यापर बैठा दिया ॥१७१॥ अञ्जनाका वह हाथ पसीनासे युक्त होगया और रोमाञ्च धारण करने लगा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो पतिके स्पर्शरूपी अमृतसे सींचा जाकर अङ्कुर झी धारण कर रहा था ॥१७२॥ वसन्तमालाने पवनञ्जयको नमस्कारकर आदरपूर्वक उसके साथ वार्तालाप किया । तदनन्तर वह प्रहसितके साथ एक दूसरे सुन्दर कमरेमें सुखसे बैठ गई ॥१७३॥

अथानन्तर चूँकि पवनञ्जय अपने द्वारा किये हुए अनादरसे लज्जित हो रहा था अतः सर्वप्रथम कुशल समाचार पूछनेके लिए वह हृदयसे प्रवृत्त नहीं हो सका ॥१७४॥ तदनन्तर लज्जित होते हुए उसने कहा कि हे प्रिये ! मैंने कर्मोदयके प्रभावसे तुम्हारा जो तिरस्कार किया है उसे क्षमा करो । यह कहते समय पवनञ्जयका मन अत्यन्त आकुल हो रहा था ॥१७५॥ अञ्जनाका पतिके साथ वार्तालाप करनेका प्रथम अवसर था इसलिए वह भी लज्जाके कारण सुख

न कश्चिज्जनितो नाथ त्वया परिभवो मम । अधुना कुर्वता स्नेहं मनोरथसुदुर्लभम् ॥१७७॥
 त्वत्स्मृतिप्रतिबद्धं मे वहन्त्या ननु जीवितम् । त्वदायत्तो निकारोऽपि महानन्दसमोऽभवत् ॥१७८॥
 अथैवं भापमाणाया विधाय चिबुकेऽङ्गुलिम् । उन्नमय्य मुखं पश्यन् जगाद पवनक्षयः ॥१७९॥
 देवि सर्वापराधानां विस्मृत्यै तव पादयोः । प्रणाममेव यातोऽस्मि प्रसादं परमं व्रज ॥१८०॥
 इत्युक्त्वा स्थापित तेन मूर्धानं पादयोः प्रिया । त्वरया करपद्माभ्यामुन्नेतुं व्यापृताभवत् ॥१८१॥
 तथावस्थित एवासौ ततोऽवोचत्प्रिय वचः । प्रसन्नास्मीति येनाहमुद्यच्छामि शिरः प्रिये ॥१८२॥
 क्षान्तमित्युदितोऽथासावुन्नमय्याङ्गमुत्तमम् । चक्रे प्रियासमाश्लेषं सुखामीलितलोचनः ॥१८३॥
 आश्लिष्टा दयितस्यासौ तथागात्रेण्वलीयत । पुनर्वियोगभीतेव गतान्तर्विग्रहं यथा ॥१८४॥
 आलिङ्गनविमुक्तायास्तस्याः स्तिमितलोचनम् । मुखं मुक्तनिमेषाभ्यां लोचनाभ्यां पपौ प्रिय ॥१८५॥
 पादयोः करयोर्नाभ्यां स्तनयोश्चिबुकेश्लिके । गण्डयोर्नेत्रयोश्चास्याश्चुम्बनं मदनातुर ॥१८६॥
 पुनः पुनश्चकारासौ स्वेदिनापाणिना स्पृशन् । आप्तसेवा हि सा नूनं क्रियते वक्त्रचुम्बने ॥१८७॥
 ततः प्रबुद्धराजीवगर्भच्छ्रद्धसमप्रभम् । स पपान्नधर तस्या विमुञ्चन्तमिवामृतम् ॥१८८॥
 नीवीविमोचनव्यग्रपाणिमस्य त्रपावती । रोद्ध्युमैच्छन् सा शक्ता पाणिना वेपथुश्रिता ॥१८९॥

नीचा किये थी । उसका सारा शरीर निश्चल था । इसी दिशामें उसने धीरे-धीरे उत्तर दिया ॥१७६॥ कि हे नाथ ! चूँकि इस समय आप जिसकी मुझे आशा ही नहीं थी ऐसा दुर्लभ स्नेह कर रहे हैं इसलिए यही समझना चाहिए कि आपने मेरा कुछ भी तिरस्कार नहीं किया है ॥१७७॥ मैंने अबतक जो जीवन धारण किया है वह एक आपकी स्मृतिके आश्रय ही धारण किया है इसलिए आपके द्वारा किया हुआ तिरस्कार भी मेरे लिए महान् आनन्द स्वरूप ही रहा है ॥१७८॥

अथानन्तर ऐसा कहती हुई अञ्जनाकी चिबुकपर अंगुली रख उसके मुखको कुछ ऊँचा उठाकर उसीकी ओर देखते हुए पवनञ्जयने कहा कि ॥१७९॥ हे देवि ! समस्त अपराध भूल जाओ इसलिए मैं तुम्हारे चरणोंमें प्रणाम करता हूँ, परम प्रसन्नताको प्राप्त होओ ॥१८०॥ इतना कहकर पवनञ्जयने अपना मस्तक अञ्जनाके चरणोंमें रख दिया और अञ्जना उसे अपने कर-कमलोंसे शीघ्र ही उठानेका प्रयत्न करने लगी ॥१८१॥ परन्तु पवनञ्जय उसी दशामें पड़े रहे । उन्होंने कहा कि हे प्रिये ! जब तुम यह कहोगी 'कि मैं प्रसन्न हूँ' तभी शिर ऊपर उठाऊँगा ॥१८२॥ तदनन्तर 'क्षमा किया' अञ्जनाके ऐसा कहते ही पवनञ्जयने शिर ऊपर उठाकर उसका आलिङ्गन किया । उस समय उसके दोनों नेत्र सुखसे निमीलित हो रहे थे ॥१८३॥ आलिङ्गित अञ्जना पतिके शरीरमें इस प्रकार लीन हो गई मानो फिरसे वियोग न हो जावे इस भयसे शरीरके भीतर ही प्रविष्ट होना चाहती थी ॥१८४॥ पवनञ्जयने अञ्जनाको आलिङ्गनसे छोड़ा तो निश्चल नेत्रोंसे युक्त उसके मुखको अपने टिमकाररहित नेत्रोंसे देखने लगे ॥१८५॥ तदनन्तर कामसे व्याकुल हो उन्होंने अञ्जनाके पैरों, हाथों, नाभि, स्तन, दाढी, ललाट, कपोलों और नेत्रोंका चुम्बन किया ॥१८६॥ एक ही वार नहीं, किन्तु पसीनासे युक्त हाथसे स्पर्श करते हुए उन्होंने पुनः उन स्थानोंका चुम्बन किया जो ठीक ही हैं क्योंकि मुखका चुम्बन करनेके लिए वह आप्त सेवा है सो प्रेमीजनोंको करना ही पड़ता है ॥१८७॥ तदनन्तर खिले हुए कमलके भीतरों दलके समान जिसकी कान्ति थी और मानो जो अमृत ही छोड़ रहा था ऐसे उसके अधरोष्ठका पान किया ॥१८८॥ नीवीकी गोंठ खोलनेके लिए उतावली करनेवाले पवनञ्जयके हाथको लज्जा

१. त्वत्स्मृतिबद्धं म० । २. अथैव म० । ३. प्रसन्नोऽस्मीति म०, व० । ४. सुखमीलित-म० । ५. शतान्तर्विग्रह यथा ख०, म०, व०, ज० । ६. न चाशक्ता म० ।

ततो नितम्बफलक दृष्ट्यास्या वसनोष्णितम् । उवाह हृदय वायुर्मनोभूवेगरङ्गितम् ॥१९०॥
 अथ केनापि वेगेन परायत्तीकृतात्मना । गृहीता दयिता गाढ पवनेनाब्जकोमला ॥१९१॥
 यथा ब्रवीति वैदग्ध्य यथाज्ञापयति स्मरः । अनुरागो यथा शिचां प्रयच्छति महोदय ॥१९२॥
 तथा तयो रतिः प्राप्ता दम्पत्योर्वृद्धिमुत्तमाम् । काले तत्र हि यो भावो नैवाख्यातुं स पार्यते ॥१९३॥
 स्तनयोः कुम्भयोरेप जघने चाङ्गनोत्तमाम् । आस्फालयन् समारूढो मनोभवमहागजम् ॥१९४॥
 तिष्ठ मुञ्च गृहाणेति नानाशब्दसमाकुलम् । तयोर्युद्धमिवोदार रतमार्सीत्सविभ्रमम् ॥१९५॥
 अधरग्रहणे तस्याः पुरुसीत्कारपूर्वकम् । प्रविधूतः करो रेजे लताया इव पल्लव ॥१९६॥
 प्रियदत्ता नवास्तस्य नखाङ्गा जघने बभुः । वैदूर्यजगतीभागे पद्मरागोद्गमा इव ॥१९७॥
 तस्याः सेचनकत्व तु जगाम जघनस्थलम् । निमेषमुक्ततन्निष्ठमुकुलीभूतचक्षुषं ॥१९८॥
 वलयानां रणत्कारः कलालापसमन्वितः । तदा मनोहरो जज्ञे भ्रमरौघरवोपमः ॥१९९॥
 तस्यास्ते काम्यमानाया नेत्रकेकरतारके । मुकुले दधतुः शोभा चलालीन्दीवरस्थिताम् ॥२००॥
 प्रस्त्रेदविन्दुनिकरस्तस्या मुखकुचोद्गतः । स्वच्छमुक्ताफलाकारो रतस्यान्तेज्यराजत ॥२०१॥
 रदग्रहारुणीभूत साधर विभ्रती बभौ । पलाशवनराजीव समुद्भूतैककिशुका ॥२०२॥
 प्रियभुक्ता तनुस्तस्या ऊहे कान्तिमनुत्तमाम् । कनकाद्रितटारिलघनपङ्क्तिकृतोपमाम् ॥२०३॥

से भरी अब्जना रोकना तो चाहती थी पर उसका हाथ इतना अधिक कौप रहा था कि उससे वह रोकनेमें समर्थ नहीं हो सकी ॥१८६॥

तदनन्तर वस्त्ररहित अब्जनाका नितम्बफलक देखकर पवनब्जयका हृदय कामके वेग से चञ्चल हो गया ॥१९०॥ तत्पश्चात् किसी अद्भुत वेगसे जिसकी आत्मा विवश हो रही थी ऐसे पवनब्जयने कमलके समान कोमल अब्जनाको कसकर पकड़ लिया ॥१९१॥ तदनन्तर चतुराई जो बात कहती थी, काम जैसी आज्ञा देता था, और बढ़ा हुआ अनुराग जैसी शिचा देता था 'वैसी ही उन दोनों' दम्पतियोंकी रति-क्रिया उत्तम वृद्धिको प्राप्त हुई । उस समय उन दोनोंके मनका जो भाव था वह शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता ॥१९२-१९३॥ परम सुन्दरी अब्जनाके स्तन रूपी कलश तथा नितम्ब-स्थलका आस्फालन करते हुए पवनब्जय कामदेव रूपी मदोन्मत्त हाथीपर आरूढ़ थे ॥१९४॥ 'ठहरो', 'छोड़ो', 'पकड़ो' आदि नाना शब्दोंसे युक्त तथा हाव-भाव विभ्रमसे भरा उनका रत किसी महायुद्धके समान जान पड़ता था ॥१९५॥ अध-रोष्ट्रको ग्रहण करते समय जोरसे सी-सी करती हुई अब्जना जो हाथ हिलाती थी वह ऐसा जान पड़ता था मानो किसी लताका पल्लव ही हिल रहा हो ॥१९६॥ अब्जनाके नितम्ब-स्थलपर पवनब्जयने जो नये-नये नख क्षत दिये थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो नीलमणिकी भूमिमें पद्म-रागमणि ही निकल रहे हो ॥१९७॥ अब्जनाका जघन-स्थल देखते-देखते पवनब्जयको वृप्ति ही नहीं होती थी । वह अपने टिमकाररहित नेत्र उसीपर गड़ाये बैठे थे ॥१९८॥ मधुर आलाप से सहित उसकी चूड़ियोंकी मनोहर रुनभुन ऐसी जान पड़ती थी मानो भ्रमरोंके समूह ही गुब्जार कर रहे हों ॥१९९॥ अब्जनाके नेत्रोंके कटाक्ष और पुतलियों ऐसी जान पड़ती थी मानो चञ्चल भ्रमरोंसे युक्त नील कमलकी शोभा ही धारण कर रही हो ॥२००॥ संभोगके अनन्तर अब्जनाके मुख तथा स्तनोंके ऊपर जो पसीनोंकी बूंदोंका समूह प्रकट हुआ था वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वच्छ मोतियोंका समूह ही हो ॥२०१॥ दन्ताघातके कारण उसका अधरोष्ठ लाल-लाल हो गया था । उसे धारण करती हुई वह ऐसी जान पड़ती थी मानो जिसमें एक फूल आया है ऐसे टेसूके वनकी पंक्ति ही हो ॥२०२॥ पतिके द्वारा उपभुक्त अब्जनाका शरीर सुमेरु

ततः संप्राप्तकृत्ये तौ समाप्ते सुरतोत्सवे । दम्पती सेवितुं निद्रां खिन्नदेहाववाञ्छताम् ॥२०४॥
 परस्परगुणध्यानवशमानसयोस्तु सा । ईर्ष्यायैव तयोर्दूरं कोपात् क्वापि पलायिता ॥२०५॥
 ततः प्रियांसदेशस्थदयितामूर्धदेशकम् । कृतान्योन्यभुजाश्लेषं परमप्रेमकीलितम् ॥२०६॥
 महासौरभनिश्वासवासितास्यसरोरुहम् । विकटोरःपरिष्वङ्गचक्रितस्तनमण्डलम् ॥२०७॥
 नरोर्वन्तरनिक्षिप्तवनिर्तैकोरुभारकम् । यथेष्टदेशविन्यस्तनानाकारोपधानकम् ॥२०८॥
 नागीयमिव तत्कान्त मिथुनं कथमप्यगात् । निद्रां स्पर्शसुखाम्भोधिनिमग्नानीनविग्रहम् ॥२०९॥
 जाते मन्दप्रभातेऽथ शयनीयात्समुत्थिता । पार्श्वसन्नस्थिता कान्तमञ्जना पर्यसेवत ॥२१०॥
 दृष्ट्वा परिमलं देहे स्वस्मिन् साभूत् त्रपावती । प्रमदं च परिप्राप्ता चिराल्लब्धमनोरथा ॥२११॥
 तयोरज्ञातयोरेवं यथोचितविधायिनोः । अतीयाय निशानेका क्षणाद्दर्शनं भीतयोः ॥२१२॥
 दोदुन्दुकसुरौपम्यं प्राप्तयोरुभयोस्तदा । इन्द्रियाण्यन्यकार्येभ्यः प्राप्तानि विनिवर्तनम् ॥२१३॥
 अन्यदा सौख्यसंभारविस्मृतस्वामिशासनम् । मित्रं प्रमादवद्बुद्ध्वा तद्धितध्यानतत्परः ॥२१४॥
 सुधीर्वसन्तमालायां प्रविष्टायां कृतध्वनिः । प्रविश्य वासभवनं मन्दं प्रहसितोऽवदत् ॥२१५॥
 सुन्दरोत्तिष्ठ किं शेषे नन्वेप रजनीपतिः । जितस्त्वनमुखकान्त्येव गतो विच्छायातां पराम् ॥२१६॥

पर्वतके द्वारा आलिङ्गित मेघपत्तिके समान उत्तम कान्तिको धारण कर रहा था ॥२०३॥ तदनन्तर जिसके समस्त कार्य पूर्ण हो चुके थे ऐसे सुरतोत्सवके समाप्त होनेपर खिन्न शरीरसे युक्त दोनो दम्पति निद्रा-सेवनकी इच्छा करने लगे ॥२०४॥ परन्तु उन दोनोंके मन एक दूसरेके गुणोका ध्यान करनेमें निमग्न थे इसलिए निद्रा ईर्ष्याके कारण ही मानो क्रोधवश कही भाग गई थी ॥२०५॥

तदनन्तर जिसमें पतिके कन्धेपर वल्लभाका शिर रक्खा था, जिसमें भुजाओंका परस्पर आलिङ्गन हो रहा था, जो पास्परिक प्रेमसे मानो कीलित था, महासुगन्धित श्वासोच्छ्वासके कारण जिसमें मुख-कमल सुवासित थे, विशाल वक्ष-स्थलकी चपेटसे जिसमें स्तन-मण्डल चक्रके आकार चपटे हो रहे थे, जिसमें पुरुषकी जाँघोके बीचमें स्त्रीकी एक जाँघका भार अवस्थित था और इच्छित स्थानोंमें जहाँ नाना प्रकारके तकिया लगाये गये थे, ऐसी अवस्थामें नागकुमार देव-देवियोंके युगलके समान वह अञ्जना और पवनञ्जयका युगल किसी तरह निद्राको प्राप्त हुआ । उस समय उन दोनोंके शरीर स्पर्श-जन्य सुखरूपी सागरमें निमग्न होनेसे अत्यन्त निश्चल थे ॥२०६-२०६॥

अथानन्तर जब कुछ-कुछ प्रभात हुआ तब अञ्जना शय्यासे उठकर तथा बगलमें निकट बैठकर पतिकी सेवा करने लगी ॥२१०॥ अपने शरीरमें सम्भोगजन्य सुगन्धि देखकर वह लज्जित हो गई और साथ ही चूँकि उसके मनोरथ चिरकाल बाद पूर्ण हुए थे इसलिए हर्षको भी प्राप्त हुई ॥२११॥ इस प्रकार जो पहले एक दूसरेके दर्शन-मात्रसे भयभीत रहते थे ऐसे उन दम्पतियोंकी अज्ञातरूपसे यथेच्छ उपभोग करते हुए अनेक रात्रियाँ व्यतीत हो गई ॥२१२॥ दोदुन्दुक नामक देवकी उपमाको धारण करनेवाले उन दोनों दम्पतियोंकी इन्द्रियाँ उस समय अन्य कार्योंसे व्यावृत्त होकर परस्पर एक दूसरेकी ओर ही लगी हुई थीं ॥२१३॥

अथानन्तर सुखके सम्भारसे जिसने स्वामीका आदेश भुला दिया था ऐसे मित्रको प्रमादी जान उसके हितका चिन्तन करनेमें तत्पर रहनेवाला बुद्धिमान् प्रहसित मित्र वसन्तमालाके प्रवेश करनेपर आवाज देता हुआ महलके भीतर प्रवेश कर धीरे-धीरे बोला ॥२१४-२१५॥ कि हे सुन्दर ! उठो, क्यों शयन कर रहे हो ? जान पड़ता है कि मानो तुम्हारे मुखकी कान्तिसे

इति वाधास्य जातोऽर्धो प्रबोधं ग्लयविग्रहः । कृत्वा विजृम्भणं निद्राशेषारुणनिरीक्षण ॥२१७॥
 श्रवणं वामतर्जन्या कण्ठयन्मुकुलेक्षण । संकोच्य दक्षिण बाहुं निक्षिपन्नितस्वरम् ॥२१८॥
 कान्ताया निद्रध्वजे त्रपात्रिनतचक्षुषि । पर्हाति निगादन्मित्रमुत्तस्थौ पवनञ्जय ॥२१९॥
 कृत्वा स्मितमयापृच्छथ सुखरात्रिं कृतस्मितम् । पृच्छन्तं रात्रिकुशलं तद्देवी तन्निवेदनम् ॥२२०॥
 निवेद्य तथियोद्दिष्टे समासन्ने सुखासने । सुहृदेन जगादत्र नयशास्त्रविगारद ॥२२१॥
 उत्तिष्ठ मित्र गच्छाव साम्प्रतं बहवो गताः । द्विसास्ते प्रसक्तस्य प्रियासन्मानकर्मणि ॥२२२॥
 यावत्कश्चिन्न जानाति प्रत्यागमनमावयो । गमन युज्यते तावदन्यथा लज्जन भवेत् ॥२२३॥
 तिष्ठत्युदीक्षमाणश्च रथनूपुरकस्तव । नृपः कैन्नरगीतश्च यियासुः स्वामिनोऽन्तिकम् ॥२२४॥
 मन्त्रिणश्च क्लिजान् पृच्छन्त्यादरमगतः । पवनो वर्तते क्वेति मरुत्वमखसूदन ॥२२५॥
 उपायो गमनस्याय मया विरचितस्तव । दयितासङ्गमस्तस्माद्विदानीं तत्र त्यज्यताम् ॥२२६॥
 आज्ञेयं करणीया ते स्वामिनो जनकस्य च । क्षेमादागन्तु सततं दयितां मानविष्यति ॥२२७॥
 एवं करोमि साधूक्त सुहृदेत्यभिधाय स । कृत्वा तनुगत कर्म सन्निधापितमङ्गलम् ॥२२८॥
 रहस्यालिङ्ग्य दयिता चुम्बित्वा स्फुरिताधरम् । जगाद देवि माकार्पीरुद्रेण त्व ब्रजाम्यहम् ॥२२९॥
 अचिरेणैव कालेन विधाय स्वामिणासनम् । आगमिष्यामि निर्वृत्या तिष्ठेति मधुरस्वरः ॥२३०॥

पराजित होकर ही यह चन्द्रमा अत्यन्त निष्प्रभताको प्राप्त हुआ है ॥२१६॥ मित्रके यह वचन सुनते ही पवनञ्जय जाग उठा । उस समय उसका शरीर शिथिल था, निद्राके शेष रहनेसे उसके नेत्र लाल थे तथा जमुहाई आ रही थी ॥२१७॥ उसने नेत्र बन्द किये ही वाम हस्तकी तर्जनी नामा अङ्गुलीसे कान खुजाया तथा दाहिनी भुजाको पहले सङ्कोचकर फिर जोरसे फैलाया जिससे चटाकका शब्द हुआ ॥२१८॥ तदनन्तर लज्जासे जिसके नेत्र नीचे हो रहे थे ऐसे कान्ताके मुख पर दृष्टि डालता हुआ पवनञ्जय 'आओ मित्र' ऐसा कहता हुआ शय्यासे उठ खड़ा हुआ ॥२१९॥ तदनन्तर प्रहसितने हँसकर पूछा कि रात्रि सुखसे व्यतीत हुई ? इसके उत्तरमें पवनञ्जयने भी हँसते हुए प्रहसितसे पूछा कि तुम्हारी भी रात्रि कुशलतासे बीती ? इस प्रकार वार्तालापके अनन्तर समस्त वृत्तान्तको जाननेवाला एवं नीतिशास्त्रका पण्डित प्रहसित अञ्जना के द्वारा बतलाये हुए निकटवर्ती सुखासनपर बैठकर पवनञ्जयसे इस प्रकार बोला कि हे मित्र ! उठो, अब चलो, प्रियाके सम्मानकार्यमें लगे हुए आपके बहुत दिन निकल गये ॥२२०-२२२॥ जब तक हम लोगोंका वापिस आना कोई जान नहीं पाता है तब तक चला जाना ठीक है अन्यथा लज्जाकी बात हो जावेगी ॥२२३॥ तुम्हारा सेनापति रथनूपुरक तथा स्वामीके समीप जानेका इच्छुक राजा कैन्नरगीत तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए ठहरे हैं ॥२२४॥ आदरसे भरा रावण निरन्तर मन्त्रियोंसे पूछता रहता है कि पवनञ्जय कहीं है ? ॥२२५॥ मैंने तुम्हारे जानेका यह उपाय रचा था सो इस समय बल्लभाका समागम छोड़ दिया जाय ॥२२६॥ तुम्हें स्वामी रावण और पिता प्रह्लादकी यह आज्ञा माननी चाहिए । तदनन्तर कुशलतापूर्वक वापिस आकर निरन्तर बल्लभाका सम्मान करते रहना ॥२२७॥

इसके उत्तरमें पवनञ्जयने कहा कि हे मित्र ! ऐसा ही करता हूँ तुमने बहुत ठीक कहा है । ऐसा कहकर उसने मङ्गलाचारपूर्वक शरीरसम्बन्धी क्रियाएँ कीं ॥२२८॥ एकान्तमें बल्लभाका आलिङ्गन किया, उसके फड़कते हुए अधरोष्ठका चुम्बन किया और कहा कि हे देवि ! तुम उद्वेग नहीं करना, मैं जाता हूँ और शीघ्र ही स्वामीकी आज्ञाका पालनकर वापिस आ जाऊँगा । तुम

१. प्रबुध्य । २. सुखरात्रिकृतस्मितम् म० । ३. तन्निवेदिनम् व० । ४. पृच्छन्त्यादर म० । ५. रावण । ६. संतोषेण

ततो विरहतो भीता तद्वन्नगतलोचना । कृत्वा करयुगाम्भोजा जगादाञ्जनसुन्दरी ॥२३१॥
 आर्यपुत्रर्तुमत्यस्मि^३ भवता कृतसंगमा । ततस्त्वद्विरहे गर्भो मसावाच्यो भविष्यति ॥२३२॥
 तस्मान्निवेद्य गच्छ त्व गुरुभ्यो गर्भसंभवम् । क्षेमाय दीर्घदर्शित्वं कल्पते प्राणधारिणाम् ॥२३३॥
 एवमुक्तो जगादासौ देवि पूर्वं त्वया विना । निष्क्रान्तो निश्चितो गेहाद् गुरूणां सन्निधावहम् ॥२३४॥
 अधुना गमनं तेभ्यस्तदर्थं गदितुं त्रपे । चित्रचेष्ट च विज्ञाय मां जनः स्मेरतां व्रजेत् ॥२३५॥
 तस्माद्यावदयं गर्भस्तव नैति प्रकाशताम् । तावदेवाव्रजिष्यामि मा न्नाजीर्विमनस्कताम् ॥२३६॥
 इम प्रमादनोदार्थं मन्नामकृतलक्षणम् । गृहाण वलय भद्रे शान्तिस्तेऽतो भविष्यति ॥२३७॥
 इत्युक्त्वा वलय दत्त्वा सान्त्वयित्वा मुहुः प्रियाम् । उक्त्वा वसन्तमालाञ्च तदर्थं समुपासनम् ॥२३८॥
 रतव्यतिकरच्छिन्नहारमुक्ताफलाचितात् । पुष्पगन्धपरागोरुसौरभाकृष्टपट्पदात् ॥२३९॥
 तरङ्गिप्रच्छदपटाद् दुग्धाब्धिद्वीपसन्निभात् । शयनीयात् समुत्तस्थौ प्रियावस्थितमानसः ॥२४०॥
 मङ्गलध्वसभीत्या च प्रियया साश्रुनेत्रया । अदृष्टिगोचर दृष्टः समित्रो वियदुद्ययौ ॥२४१॥

पृथिवीच्छन्दः

कदाचिदिह जायते स्वकृतकर्मपाकोदयात्

सुखं जगति सगमादभिमतस्य सद्गस्तुनः ।

कदाचिदपि सभवत्यसुभृतामसौख्यं परं

भवे भवति न स्थितिः समगुणा यतः सर्वदा ॥२४२॥

सुखसे रहो । पवनञ्जयने यह शब्द बड़ी मधुर आवाजसे कहे थे ॥२२९-२३०॥ तदनन्तर जो विरहसे भयभीत थी तथा जिसके नेत्र पवनञ्जयके मुखपर लग रहे थे ऐसी अब्जनासुन्दरी दोनो हस्तकमल जोड़कर बोली कि हे आर्य पुत्र ! ऋतु कालके बाद ही मैंने आपके साथ समागम किया है इसलिए यदि मेरे गर्भ रह गया तो वह आपके विरह-कालमें निन्दाका पात्र होगा ॥२३१-२३२॥ अतः आप गुरुजनोको गर्भ सम्भवताकी सूचना देकर जाइए । दीर्घदर्शिता मनुष्योंके कल्याणका कारण है ॥२३३॥

अब्जनाके ऐसा कहनेपर पवनञ्जयने कहा कि हे देवि ! मैं पहले गुरुजनोके समीप तुम्हारे बिना घरसे निकला था और ऐसा ही सबको निश्चय है । इसलिए इस समय उनके पास जाने और यह सब समाचार कहनेमें मुझे लज्जा आती है । इसकी चेष्टाएँ विचित्र हैं ऐसा जानकर लोग मेरी हँसी करेगे ॥२३४-२३५॥ अतः जबतक तुम्हारा यह गर्भ प्रकट नहीं हो पाता है तबतक मैं वापिस आ जाऊँगा । विषाद मत करो ॥२३६॥ हे भद्रे ! प्रमाद दूर करनेके लिए मेरे नामसे चिह्नित यह कड़ा ले लो इसमें तुम्हें शान्ति रहेगी ॥२३७॥ ऐसा कहकर, कड़ा देकर, वार-वार सान्त्वना देकर और वसन्तमालाको ठीक-ठीक सेवा करनेका आदेश देकर पवनञ्जय शय्यासे उठा । उस समय उसकी वह शय्या सुरतकालीन सम्मर्दसे दूटे हुए हारके मोतियोसे व्याप्त थी, फूलोकी सुगन्धित पराग सम्बन्धी भारी सुगन्धिसे भौंरे खिचकर उसपर इकट्ठे हो रहे थे, उसके ऊपर बिल्ला हुआ चद्दर लहरा रहा था, और वह क्षीरसमुद्रके मध्यमें स्थित क्षीर द्वीपके समान जान पड़ती थी । पवनञ्जय उठा तो सही पर उसका मन अपनी प्रियामें ही लग रहा था ॥२३८-२४०॥ पृथ्वीपर अश्रु गिरनेसे कहीं मङ्गलाचारमें बाधा न आ जाय इस भयसे अब्जनाने अपने अश्रु नेत्रोंमें ही समेटकर रक्खे थे और इसलिए जाते समय वह पवनञ्जयको आँख खोलकर नहीं देख सकती थी फिर भी मित्रके साथ वह आकाशकी ओर उड़ गया ॥२४१॥

गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि इस संसारमें प्राणियोंको कभी तो अपने पूर्वो-

१. -मत्यस्मिन् म० । २. निन्दनीयः । ३. कल्प्यते प्राणधारणम् म० ।

अथापि जननात्प्रभृत्यविरत सुख प्राणिनां
 मृतेरविरतो भवेत्तनु तथाप्यमुत्रासुखम् ।
 ततो भजत भो जना. सततभूरिसौख्याच्चह
 भवासुखतमश्छिद्य जिनवरोक्तधर्म रविम् ॥२४३॥

इत्यार्षे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते पवनाजनासभोगाभिधान
 नाम षोडश पर्व ॥१६॥



पार्जित पुण्य-कर्मके उद्यसे इष्ट वस्तुका समागम होनेसे सुख होता है और कभी पाप कर्मके उद्यसे परम दुःख प्राप्त होता है क्योंकि इस संसारमे सदा किसीकी स्थिति एक-सी नहीं रहती ॥२४२॥ फिर भी धर्मके प्रसादसे कितने ही जीवोंको जन्मसे लेकर मरण-पर्यन्त निरन्तर सुख प्राप्त होता रहता है और मरनेके बाद परलोकमें भी उन्हें सुख मिलता रहता है । इसलिए हे भव्य जीवो ! निरन्तर अत्यधिक सुख देनेवाले एवं संसारके दुःखरूपी अन्धकारको छेदनेवाले जिनेन्द्रोक्त धर्मरूपी सूर्यकी सेवा करो ॥२४३॥

इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्य विरचित पद्मचरितमें पवनञ्जय और
 अञ्जनाके सभोगका वर्णन करनेवाला सोलहवों पर्व समाप्त हुआ ॥१६॥



सप्तदशं पर्व

क्रियत्यपि प्रयातेऽथ काले गर्भस्य सूचका । विशेषाः प्रादुरभवन्महेन्द्रतनयातनो ॥१॥
 इयाय पाण्डुतां छाया यशसेव हनुमतः । गतिर्मन्दतरलं च मत्तदिग्नागविभ्रमा ॥२॥
 स्तनावत्युन्नतिं प्राप्तौ श्यामलाभूतचूचुकौ । आलस्याद् भ्रूसमुत्क्षेपं चकार विषये गिर ॥३॥
 ततस्ता लक्षणैरेभिः श्वश्रूविज्ञाय गमिणीम् । पप्रच्छ तव केनेद कृतं कर्मेत्यसूयिका ॥४॥
 साञ्जलिः सा प्रणम्योचे निखिलं पूर्वचेष्टितम् । प्रतिपिद्वापि कान्तेन गनिमन्यामविन्दती ॥५॥
 ततः केतुमती क्रुद्धा जगादेति सुनिष्ठुरम् । वाणीभिर्ग्रावदेहाभिस्ताडयन्तीव यष्टिभिः ॥६॥
 यो न त्वत्सदृशं पापे द्रुपुमाकारमिच्छति । शब्दं वा श्रवणे कर्तुमतिद्वेषपरायणः ॥७॥
 स कथं त्वजनापृच्छां कृत्वा गेहाद्विनिर्गतः । भवत्यां सगमं धीरः कुर्वति विगतत्रये ॥८॥
 धिक् त्वां पापां शशाङ्कांशुश्रुभ्रसन्तानदूपिणीम् । आचरन्तीं क्रियामेतां लोकद्वितयनिन्दिताम् ॥९॥
 सखी वसन्तमाला ते साध्वीमेतां मतिं ददौ । वेश्यायाः कुलटानां किं कुर्वन्ति परिचारिकाः ॥१०॥
 दर्शितेऽपि तदा तस्मिन्कटके क्रूरमानसा । प्रतीयाय न सा श्वश्रूश्चुकोपात्यन्तमुग्रवाक् ॥११॥

अथानन्तर कितना ही समय वीतने पर राजा महेन्द्रकी पुत्री अञ्जनाके शरीरमें गर्भको सूचित करने वाले विशेष चिह्न प्रकट हुए ॥१॥ उसकी कान्ति सफेदीको प्राप्त हो गई सो मानो गर्भमें स्थित हनुमान्के यशसे ही प्राप्त हुई थी । मदीन्मत्त दिग्गजके समान विभ्रमसे भरी उसकी मन्द चाल और भी अधिक मन्द हो गई ॥२॥ जिनका अग्रभाग श्यामल पड़ गया था ऐसे स्तन अत्यन्त उन्नत हो गये और आलस्यके कारण वह जहाँ बात करना आवश्यक था वहाँ केवल भौंह ऊपर उठाकर संकेत करने लगी ॥३॥ तदनन्तर इन लक्षणोंसे उसे गर्भवती जान ईर्ष्यासे भरी सासने उससे पूछा कि तेरे साथ यह कार्य किसने किया है ? ॥४॥ इसके उत्तरमें अंजनाने हाथ जोड़ प्रणाम कर पहलेका समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । यद्यपि पवनजयने यह वृत्तान्त प्रकट करने के लिए उसे मना कर दिया था तथापि जब उसने कोई दूसरा उपाय नहीं देखा तब विवश हो संकोच छोड़ सब समाचार प्रकट कर दिया ॥५॥

तदनन्तर केतुमतीने कुपित होकर बड़ी निष्ठुरताके साथ पत्थर जैसी कठोर वाणीमें उससे कहा । जब केतुमती अंजनासे कठोर शब्द बोल रही थी तब ऐसा जान पड़ता था मानो वह लाठियोंसे उसे ताड़ित कर रही थी ॥६॥ उसने कहा कि अरी पापिन् ! अत्यन्त द्वेषसे भरा होनेके कारण जो तुम्ह जैसा आकार भी नहीं देखना चाहता और तेरा शब्द भी कानमें नहीं पड़ने देना चाहता वह धीर-वीर पवनजय तो आत्मीय जनोंसे पूछकर घरसे बाहर गया हुआ है । हे निर्लज्जे ! वह तेरे साथ समागम कैसे कर सकता है ? ॥७-८॥ चन्द्रमाकी किरणोंके समान उज्वल संतानको दूषित करने वाली तथा दोनों लोकोमें निन्दनीय इस क्रियाको करनेवाली तुम्ह पापिनको धिक्कार है ॥९॥ जान पड़ता है कि सखी वसन्तमालाने ही तेरे लिए यह उत्तम बुद्धि दी है सो ठीक ही है क्योंकि वेश्या और कुलटा स्त्रियोंकी सेविकाएँ इसके सिवाय करती ही क्या हैं ॥१०॥ उस समय अञ्जनाने यद्यपि पवनजयका दिया कड़ा भी दिखाया पर उस दुष्ट हृदयाने उसका विश्वास नहीं किया । विश्वास तो दूर रहा तीक्ष्ण शब्द कहती हुई अत्यन्त

१. मतिर्मन्द म० । २. मतिर्दिग्नाग म० । ३. विषयो गिरः म० । ४. भवत्यां म० । ५. वेश्या वा ।
 ६. परिचारिका म० । ७. श्वश्रूकोपात्यन्त म० ।

इत्युक्त्वा क्रूरनामान क्रूरमाहूय किङ्करम् । कृतप्रणाममित्यूचे कोपारुणनिरीक्षणा ॥१२॥
 अथि क्रूराशु नीत्वेमां महेन्द्रपुरगोचरम् । यान्तेन सहिता सख्या निक्षिप्यैहि निरन्तरम् ॥१३॥
 ततस्तद्वचनादेतां पृथुवेपथुविग्रहाम् । महापवननिर्धूतां लतामिव निराश्रयाम् ॥१४॥
 ध्यायन्तीमाकुल भूरिदुःखमागामि निष्प्रभाम् । विलीनमिव विभ्राणा हृदय दुःखवह्निना ॥१५॥
 भीत्या निरुत्तरीभूतां सखीनिहितलोचनाम् । निन्दन्तीमशुभ कर्म मनसा पुनरुद्वेगम् ॥१६॥
 अश्रुधारा विमुञ्चन्ती^१ शलाका स्फटिकीमिव । स्तनमध्ये क्षण न्यस्तपर्यन्तामनवस्थिताम् ॥१७॥
 सख्या सम समारोप्य यान तत्कर्मदक्षिणम् । क्रूरः प्रवृत्ते गन्तु महेन्द्रनगरं प्रति ॥१८॥
 दिनान्ते तत्पुरस्यान्त सप्राप्योवाच सुन्दरीम् । एव मधुरया वाचा क्रूरः कृतनमस्कृतिः ॥१९॥
 स्वामिनीशासनाहेवि कृतमेतन्मया तव । दुःखस्य कारणं कर्म ततो न क्रोद्धुमर्हसि ॥२०॥
 एवमुक्त्वावतार्येतां यानात्सख्या समन्विताम् । स्वामिन्यै हुतमागत्य कृतामाज्ञा न्यवेदयत् ॥२१॥
 ततोऽञ्जना^२ समालोक्य दुःखभारादिवोत्तमाम् । मन्दीभूतप्रभाचक्रो^३ रविरस्तमुपागमत् ॥२२॥
 लोचनच्छायायेवास्या रोदनात्यन्तशोणया । रविं त्राणाय पश्यन्त्याः^४ पश्चिमाशाहणाऽभवत् ॥२३॥
 ततस्तद्दुःखतो^५ मुक्तैर्वाप्यैरिव घनैरलम् । दिग्भिर्निरन्तरं चक्रे श्यामल नभसस्तलम् ॥२४॥

कुपित हो उठी ॥११॥ उसने उसी समय क्रूर नामधारी दुष्ट सेवकको बुलाया । सेवकने आकर उसे प्रणाम किया । तदनन्तर क्रोधसे जिसके नेत्र लाल हो रहे थे ऐसी केतुमतीने सेवकसे कहा कि हे क्रूर ! तू सखीके साथ इस अञ्जनाको शीघ्र ही ले जाकर राजा महेन्द्रके नगरके समीप छोड़कर बिना किसी विलम्बके वापिस आ जा ॥१२-१३॥

तदनन्तर आज्ञा पालनमें तत्पर रहनेवाला क्रूर केतुमतीके वचन सुन अञ्जनाको वसन्त-मालाके साथ गाड़ीपर सवारकर राजा महेन्द्रके नगरकी ओर चला । उस समय अञ्जनाका शरीर भयसे अत्यन्त कम्पित हो रहा था, वह प्रचण्ड वायुके द्वारा भ्रमणकर नीचे गिराई हुई निराश्रय लताके समान जान पड़ती थी, आगामी कालमें प्राप्त होनेवाले भारी दुःखका वह बड़ी व्याकुलतासे चिन्तन कर रही थी, उसका हृदय दुःखरूपी अग्निसे मानो पिघल गया था, भयके कारण वह निरुत्तर थी, सखी वसन्तमालापर उसके नेत्र लग रहे थे, वह पुनः उदयमें आये अशुभ कर्मकी मन-ही-मन निन्दा कर रही थी, और जिसका एक छोर स्तनके बीचमें रक्खा हुआ था ऐसी स्फटिककी चञ्चल शलाकाके समान आँसुओकी धारा छोड़ रही थी ॥१४-१८॥

तदनन्तर जब दिन समाप्त होनेको आया तब क्रूर राजा महेन्द्रके नगरके समीप पहुँचा । वहाँ पहुँचकर उसने अञ्जना सुन्दरीको नमस्कार कर निम्नाङ्कित मधुर वचन कहे ॥१९॥ उसने कहा कि हे देवि ! मैंने तुम्हारे लिए दुःख देनेवाला यह कार्य स्वामिनीकी आज्ञासे किया है अतः मुझपर क्रोध करना योग्य नहीं है ॥२०॥ ऐसा कहकर उसने सखीसहित अञ्जनाको गाड़ीसे उतारकर तथा शीघ्र ही वापिस आकर स्वामिनीके लिए सूचित कर किया कि मैं आपकी आज्ञाका पालन कर चुका ॥२१॥ तदनन्तर उत्तम नारी अञ्जनाको देखकर ही मानो दुःखके भारसे जिसका प्रभामण्डल फीका पड़ गया था ऐसा सूर्य अस्त हो गया ॥२२॥ पश्चिम दिशा लाल हो गई सो ऐसा जान पड़ता था मानो अञ्जना सुन्दरी, निरन्तर रोती रहनेके कारण अत्यन्त लाल दिखनेवाले नेत्रोंसे रक्षा करनेके उद्देश्यसे सूर्यकी ओर देख रही थी सो उन्हींकी लालीसे लाल हो गई थी ॥२३॥ तदनन्तर दिशाओंने आकाशको श्यामल कर दिया सो ऐसा जान पड़ता था मानो अञ्जनाके दुःखसे दुःखी होकर उन्होंने अत्यधिक वाष्प ही छोड़े थे, उन्हींसे आकाश श्यामल

१ शलाका म० । शिलाङ्का ख० । २ ततोऽञ्जना म० । ३ प्रभाचक्ररवि म० । ४. रवित्राणाय म० ।

५ पश्यन्त्या म० । ६ दुःखितो म० ।

तद्दुःखादिव सप्राप्ता^१ दुःखं संघातकारिणः । कुलायेष्वाकुलाश्चक्रुर्वयः कोलाहलं परम् ॥२५॥
 ततो दुःखमविज्ञाय सा क्षुदादिसमुद्भवम् । अभ्याख्यानमहादुःखसागरप्लवकारिणी ॥२६॥
 भीतान्तर्वदनं साश्रु कुर्वती परिदेवनम् । सख्या विरचिते तस्यौ^२ पल्लवैः सस्तरैः^३ अज्ञाना ॥२७॥
 न तस्या नयने निद्रा तस्यां रात्रावदौकत । दाहादिव भयं प्राप्ता संततोष्णाश्रुसंभवात् ॥२८॥
 पाणिसवाहनात् सख्या विनिर्भूतपरिश्रमा ।^४ सान्त्वयमाना निशां नित्ये कृच्छ्रेणासौ^५ समंसमम् ॥२९॥
 ततो दीर्घोष्णनिश्वासनितान्तम्लानपल्लवम् । प्रभाते शयनं त्यक्त्वा नानाशङ्कातिविकल्पा ॥३०॥
 कृतानुगमना सख्या ह्याययेवानुकूल्या ।^६ ऐतितुर्मन्दिरद्वारं सकृपं वीक्षिता जनैः ॥३१॥
 ततस्तत्प्रविशन्ती सा निरुद्धा द्वाररक्षिणा । प्राप्ता रूपान्तरं दुःखादविज्ञाता^६ व्यवस्थिता ॥३२॥
 ततो निखिलमेतस्याः सख्या कृतनिवेदितम् । विज्ञाय स्थापयित्वा^७ नरं द्वारे ससंभ्रमः ॥३३॥
 गत्वा शिलाकवाटस्थो द्वारपालः कृतानतिः । सुतागमं महीपाणिरुपांश्वीशं व्यजिज्ञपत् ॥३४॥
 ततः प्रसन्नकीर्त्याख्यं महेन्द्रः पार्श्वगं सुतम् । आज्ञापयन् महाभूम्या तस्याः शीघ्रं प्रवेशनम् ॥३५॥
 पुरस्य क्रियतां शोभा साधनं परिसंज्यताम् । स्वयं प्रवेशयामीति पुनरुच्ये नराधिपः ॥३६॥
 जगादासौ ततस्तस्मै द्वारपालो यथास्थितम् । सुतायाश्चरितं कृत्वा वदने पाणिपल्लवम् ॥३७॥

हो गया था ॥२४॥ घोंसलोंमें इकट्ठे होनेवाले पक्षी बड़ी आकुलतासे अत्यधिक कोलाहल करने लगे सो ऐसा मालूम होता था मानो अब्जनाके दुःखसे दुःखी होकर ही वे चिल्ला रहे हों ॥२५॥ तदनन्तर वह अज्ञाना भूख-न्यास आदिसे उत्पन्न होनेवाला दुःख तो भूल गई और अपवाद-जन्य महादुःखरूपी सागरमें उतराने लगी ॥२६॥ वह भयभीत होनेके कारण जोरसे तो नहीं चिल्लाती थी पर मुखके भीतर-ही-भीतर अश्रु ढालती हुई विलाप कर रही थी । तत्पश्चात् सखीने वृत्तोंके पल्लवोंसे एक आसन बनाया सो वह उसीपर बैठ गई ॥२७॥ उस रात्रिमें अब्जनाके नेत्रोंमें निद्रा नहीं आई सो ऐसा जान पड़ता था मानो निरन्तर निकलनेवाले उष्ण आँसुओंसे समुत्पन्न दाहसे डरकर ही नहीं आई थी ॥२८॥ सखीने हाथसे दावकर जिसकी थकावट दूर कर दी थी तथा जिसे निरन्तर सान्त्वना दी थी ऐसी अब्जनाके वड़े कष्टके साथ पूर्ण रात्रि वितायी अथवा 'समा समां निशां कृच्छ्रेण नित्ये' एक वर्षके समान रात्रि वड़े कष्टसे व्यतीत की ॥२९॥

तदनन्तर प्रभात हुआ सो लम्बी और गरम-गरम सोंसोंसे जिसके पल्लव अत्यन्त मुरझा गये थे ऐसी शय्या छोड़कर अब्जना पिताके महलके द्वारपर पहुँची । छायाकी तरह अनुकूल चलनेवाली सखी उसके पीछे-पीछे चल रही थी और लोग उसे दयाभरी दृष्टिसे देख रहे थे ॥३०-३१॥ दुःखके कारण अब्जनाका रूप बदल गया था सो द्वारपालकी पहिचानमें नहीं आयी । अतः द्वारमें प्रवेश करते समय उसने उसे रोक दिया । जिससे वह वहीं खड़ी हो गई ॥३२॥ तदनन्तर सखीने सब समाचार सुनाया सो उसे जानकर शिलाकपाट नामका द्वारपाल द्वारपर किसी दूसरे मनुष्यको खड़ाकर भीतर गया और राजाको नमस्कार कर हाथसे पृथिवीको छूता हुआ एकान्तमें पुत्रीके आनेका समाचार कहने लगा ॥३३-३४॥ तत्पश्चात् राजा महेन्द्रने समीपमें बैठे हुए प्रसन्नकीर्ति नामक पुत्रको आज्ञा दी कि पुत्रीका वड़े वैभवके साथ शीघ्र ही प्रवेश कराओ ॥३५॥ तदनन्तर राजाने फिर कहा कि नगरकी शोभा करायी जाय तथा सेना सजायी जाय मैं स्वयं ही पुत्रीका प्रवेश कराऊँगा ॥३६॥ तत्पश्चात् द्वारपालने पुत्रीका जैसा चरित्र सुन रक्खा था वैसा मुँहपर हाथ लगाकर राजाके लिए कह सुनाया ॥३७॥

१. दुःखसंघात म०, व० । २. पल्लवे म० । ३. सान्त्वयमाना म० । ४. समा समम् म०, व०, ज० । ५. कृच्छ्रेण सम साकं समां पूर्णां निशां नित्ये । ६. अविज्ञाता व्यवस्थितौ व० । ७. न्यत्रं म० । ८. प्रसन्नकीर्त्याख्य म० । ९. परिसंज्यताम् म० ।

तत श्रुत्वा त्रपाहेतु पिता तस्या विचेष्टितम् । प्रसन्नकीर्तिमित्यूचे परम कोपमागतः ॥३८॥
 निर्वास्यता पुरादस्मादरं सा पापकारिणी । यस्या मे चरितं श्रुत्वा वज्रेणेवाहते श्रुती ॥३९॥
 ततो नाम्ना महोत्साह सामन्तोऽस्यातिवल्गुः । जगाद् नाथ नो कर्तुमेव कर्तुमिमां प्रति ॥४०॥
 वसन्तमालया ख्यात यथास्मै द्वाररक्षिणे । एवमेव न युक्ता तु विचिक्षिप्सा^१ विकारिणी ॥४१॥
 श्वश्रूः केतुमती क्रूरा लौकिकश्रुतिभाविता । अत्यन्तमविचारास्या विना दोषात्कृतोऽम्भता ॥४२॥
 क्रूरयेय यथा त्यक्ता कल्याणाचारतत्परा । भवतापि विनिर्धुता शरण क प्रपद्यताम् ॥४३॥
 व्याघ्रदृष्टमृगीवेय मुग्धास्या त्राममागता । श्वश्रूतस्त्वा महाकक्षसम शरणमागता ॥४४॥
 सेय निदाघसूर्याशुसंतापादिव दुःखिता । महातरुपम बाला विदित्वा त्वां समागता ॥४५॥
 श्रीवत् स्वर्गात् परिभ्रष्टा वराकी विह्वलात्मिका । अम्भ्यास्थानातयालीढा कल्पवल्लीव कम्पिनी ॥४६॥
 द्वारपालनिरोधेन सुतरामागता त्रपाम् । वैलक्ष्यादशुकेनाङ्गमवगुण्ठ्य समूर्द्धकम् ॥४७॥
 पितृस्नेहान्वितं द्वारे सदा दुर्लडितात्मिका । तिष्ठतीत्यमुनाख्यातं द्वारपालेन पार्थिव ॥४८॥
 स त्व कुरु दयामस्या निर्दोषेय प्रवेश्यताम् । ननु केतुमती ज्ञाता क्रूरा कस्य न विष्टे ॥४९॥
 तस्य तद्वचन श्रोत्रे राजश्रुके न सश्रयम् । नलिनीदलविन्यस्त बिन्दुजालमिवाग्भस ॥५०॥
 जगाद् च सखी स्नेहात् कदाचित् सत्यमप्यदः । अन्यथाकथयत्केन निश्चयोऽत्रावधार्यते ॥५१॥

तदनन्तर पिता पुत्रीकी लज्जाजनक चेष्टा सुनकर परम क्रोधको प्राप्त हुआ और प्रसन्न-
 कीर्ति नामक पुत्रसे बोला ॥३८॥ कि उस पापकारिणीको इस नगरसे शीघ्र ही निकाल दो ।
 उसका चरित्र सुनकर मेरे कान मानो वज्रसे ही ताड़ित हुए हैं ॥३९॥ तदनन्तर महोत्साह
 नामका सामन्त जो राजा महेन्द्रको अत्यन्त प्यारा था बोला, हे नाथ ! इसके प्रति ऐसा करना
 योग्य नहीं है ॥४०॥ वसन्तमालाने द्वारपालके लिए जैसी बात कही है कदाचित् वह वैसी ही
 हो तो अकारण घृणा करना उचित नहीं है ॥४१॥ इसकी सास केतुमती अत्यन्त क्रूर है, लौकिक
 श्रुतियोंसे प्रभावित होनेवाली है और बिलकुल ही विचाररहित है । उसने विना दोषके ही
 इसका परित्याग किया है ॥४२॥ कल्याण रूप आचारका पालन करनेमें तत्पर
 रहनेवाली इस पुत्रीका जिस प्रकार उस दुष्ट सासने परित्याग किया है उसी प्रकार
 यदि आप भी तिरस्कार कर त्याग करते हैं तो फिर यह किसकी शरणमें जावेगी ?
 ॥४३॥ जिस प्रकार व्याघ्रके द्वारा देखी हुई हरिणी भयभीत होकर किसी महा वनकी
 शरणमें पहुँचती है उसी प्रकार यह मुग्ध-वदना साससे भयभीत होकर महावनके समान जो
 तुम हो सो तुम्हारी शरणमें आई है ॥४४॥ यह बाला मानो ग्रीष्मऋतुके सूर्यकी किरणोंके
 सन्तापसे ही दुःखी हो रही है और तुम्हें महावृक्षके समान जानकर तुम्हारे पास आई है ॥४५॥
 यह वैचारी स्वर्गसे परिभ्रष्ट लक्ष्मीके समान अत्यन्त विह्वल हो रही है और अपवादरूपी घामसे
 युक्त हो कल्पलताके समान काँप रही है ॥४६॥ द्वारपालके रोकनेसे यह अत्यन्त लज्जाको प्राप्त
 हुई है । इसीलिए इसने लज्जावश मस्तकके साथ-साथ अपना सारा शरीर बखसे ढँक लिया
 है ॥४७॥ पिताके स्नेहसे युक्त होकर जो सदा लाड-प्यारसे भरी रहती थी वही अज्ञाना आज
 दरवाजेपर रुकी खड़ी है । हे राजन् ! इस द्वारपालने यह समाचार आपसे कहा है ॥४८॥
 सो तुम इस पर दया करो, यह निर्दोष है, इसलिए इसका भीतर प्रवेश कराओ । यथार्थमें
 केतुमती दुष्ट है यह लोकमें कौन नहीं जानता ? ॥४९॥ जिस प्रकार कमलिनीके पत्र पर स्थित
 पानीके बूँदोंका समूह उसपर स्थान नहीं पाता है उसी प्रकार महोत्साह नामक सामन्तके वचन
 राजाके कानोंमें स्थान नहीं पा सके ॥५०॥ राजाने कहा कि कदाचित् सखीने स्नेहके कारण इस

१. ग्लानिः । २. अकारणा । विकारिणा म०, ज० । ३. कृतोऽम्भिता म० । ४. अम्भ्यास्थानतया लीढा म० ।

तस्मात् सदिग्धशीलेयमाशु निर्वास्यतामतः । नगराद्यावदमले कुले नो जायते मलम् ॥५२॥
 विशुद्धविनया चार्वा चारुचेष्टाविधायिनी । भवेदभ्यर्हितात्यन्तं कस्य नो कुलबालिका ॥५३॥
 पुण्यवन्तो महासत्त्वा पुरुषास्तेऽतिनिर्मलाः । यैः कृतो दोषमूलानां दाराणां न परिग्रहः ॥५४॥
 परिग्रहे तु दाराणां भवत्येवंविध फलम् । यस्मिन् गते सति ख्याति भ्रूप्रवेशोऽभिवान्छयते ॥५५॥
 दुःखप्रत्यायनस्वान्तस्तावल्लोकोऽवतिष्ठताम् । जातमेव ममाप्यत्र मनोऽद्य कृतशङ्कनम् ॥५६॥
 एषा भतु रक्षुण्या श्रुता पूर्वं मयाऽसकृत् । ततस्तेन न समूतिरस्या गर्भस्य निश्चिता ॥५७॥
 तस्मादन्योऽपि यस्तस्मै प्रयच्छति समाश्रयम् । त्रियोज्यस मया प्राणैरित्येष मम संगरः ॥५८॥
 कुपितेनेति सा तेन द्वारादविदिता परैः । निर्घादिता सम सख्या दुःखपूरितविग्रहा ॥५९॥
 यद्यत्स्वजनगोह सा जगामाश्रयकाङ्क्षया । तत्र तत्र^२ प्यधीयन्त द्वाराणि नृपशासनान्^३ ॥६०॥
 यत्रैव जनकः क्रुद्धो विदधाति निराकृतिम् । तत्र शेषजने काऽऽस्था तच्छन्दकृतचेष्टिते ॥६१॥
 एव निर्घाद्यमाना सा सर्वत्रात्यन्तविकल्वा । सखीं जगाद वाष्पौघसमार्द्राकृतदेहिका ॥६२॥
 "अम्बे इहात्र किं भ्रान्ति कुर्वन्त्यावास्वहे सखि । पापाणहृदयो लोको जातोऽय नः कुकर्मभिः ॥६३॥
 वनं तदेव गच्छावस्तत्रैवास्तु यथोचितम् । अपमानात्ततो दुःखान्मरणं परम सुखम् ॥६४॥

सत्य बातको भी अन्यथा कह दिया हो तो इसका निश्चय कैसे किया जाय ? ॥५१॥ इसलिए यह संदिग्धशीला है अर्थात् इसके शीलमे सन्देह है अतः जब तक हमारे निर्मल कुलमे कलङ्क नहीं लगता है उसके पहले ही इसे नगरसे शीघ्र निकाल दिया जाय ॥५२॥ निर्दोष, विनयको धारण करनेवाली, सुन्दर और उत्तम चेष्टाओंसे युक्त घरकी लड़की किसे अत्यन्त प्रिय नहीं होती ? पर ये सब गुण इसमे कहाँ रहे ? ॥५३॥ वे महान् धैर्यको धारण करनेवाले अत्यन्त निर्मल पुरुष बड़े पुण्यात्मा हैं जिन्होंने दोषोके मूल कारणभूत स्त्रियोंका परिग्रह ही नहीं किया अर्थात् उन्हें स्वीकृत ही नहीं किया ॥५४॥ स्त्रियोंके स्वीकार करनेमे ऐसा ही फल होता है । यदि कदाचित् स्त्री अपवादको प्राप्त होती है तो पृथिवीमें प्रवेश करनेकी इच्छा होने लगती है ॥५५॥ जिनके हृदयमे बड़े दुःखसे विश्वास उत्पन्न कराया जाता है ऐसे अन्य मनुष्य तो दूर रहें आज मेरा हृदय ही इस विषयमे शङ्काशील हो गया है ॥५६॥ यह अपने पतिकी द्वेषपात्र है अर्थात् इसका पति इसे आँखसे भी नहीं देखना चाहता । यह मैंने कई बार सुना है । इसलिए यह तो निश्चित है कि इसके गर्भकी उत्पत्ति पतिसे नहीं है ॥५७॥ इस दशामें यदि और कोई भी इसके लिए आश्रय देगा तो मैं उसे प्राणरहित कर दूँगा ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है ॥५८॥ इस प्रकार कुपित हुए राजाने जब तक दूसरोको पता नहीं चल पाया उसके पहले ही अञ्जनाको सखीके साथ द्वारसे बाहर निकलवा दिया । उस समय अञ्जनाका शरीर दुःखसे भरा हुआ था ॥५९॥ आश्रय पानेकी इच्छासे वह जिस-जिस आत्मीयजनके घर जाती थी राजाकी आज्ञासे वह वहीं-वहीके द्वार बन्द पाती थी ॥६०॥ जो ठीक ही है क्योंकि जहाँ पिता ही क्रुद्ध होकर तिरस्कार करता है वहाँ उसीके अभिप्रायके अनुसार कार्य करनेवाले दूसरे लोगोका क्या विश्वास किया जा सकता है ?—उनमे क्या आशा रखी जा सकती है ? ॥६१॥ इस तरह सब जगहसे निकाली गई अञ्जना अत्यन्त अधीर हो गई । अश्रुओके समूहसे उसका शरीर गीला हो गया । उसने सखीसे कहा कि हे माता ! हम दोनो यहाँ भटकती हुई क्यों पड़ी है ? हे सखि ! हमारे पापोदयके कारण यह समस्त संसार पापाणहृदय हो गया है अर्थात् सबका हृदय पत्थरके समान कड़ा हो गया है ॥६२-६३॥ इसलिए हम लोग उसी वनमे चले । जो कुछ होना होगा सो वहीं हो लेगा ।

१. भ्रूप्रवेशोऽभि -म० । २. तत्राप्यधीयन्त म० । ३. नृपशासनान् म० । ४. निर्घाद्यमाना क०, ख, व०, ज० । अम्बाशब्दस्य सम्बुद्धौ 'अम्ब' इति रूप भवति । अत्र 'अम्बे' इति प्रयोगश्चिन्त्यः ।

इत्युक्त्वामौ समं सत्या तदेव प्राविशद्वनम् । मृगोव मोहसंप्राप्ता मृगराजविर्भाषिता ॥६५॥
 वातातपपरिश्रान्ता दुःखसंभारपीडिता । उपविश्य वनस्यान्तं सा चक्रे परिदेवनम् ॥६६॥
 हा हाता मन्दभाग्यास्मि विधिना दुःखदायिना । अहेतुवैरिणा कष्टं कं परित्राणमाश्रये ॥६७॥
 दौर्भाग्यसागरस्यान्ते प्रसार्दं कथमप्यगात् । नाथो मे स गतस्त्यक्त्वा दुष्कर्मपरिचोदितः ॥६८॥
 श्वश्र्वादिऋतदुःखानां नारीणां पितुरालये । अवस्थानं ममापुण्यैरिदमप्यवसारितम् ॥६९॥
 मात्रापि न कृतं क्विचित्परित्राणं कथं मम । भर्तृच्छन्दानुवर्तिन्यो जायन्ते च कुलाङ्गनाः ॥७०॥
 न्वैयविज्ञातगर्भायामेप्यामीति त्वयोदितम् । हा नाथ वचनं कस्मात्स्मर्यते न कृपावता ॥७१॥
 अपरीक्ष्य कथं श्वश्रु त्यक्तुं मासुचितुं तव । ननु संदिग्धशीलानां संन्युपायाः परीक्षणे ॥७२॥
 उत्सङ्गलालितां बाल्ये सदा दुर्लभितान्मिकाम् । निष्परीक्ष्य पितस्त्यक्तुं मां कथं तेऽभवन्मतिः ॥७३॥
 हा मातः साधु वान्यं ते न कथं निर्गतं मुखात् । सकृदप्युत्तमा प्रीतिरधुना सा किमुज्जिता ॥७४॥
 गृकोदरोपितां भ्रातृच्छानुं ते मां सुदुःखिताम् । कथं न काचिदुद्धृता चेष्टा निष्फुरचेतसः ॥७५॥
 यत्र यूयमिदं चेष्टाः प्रधाना बन्धुसंहतेः । तत्र कुर्वन्तु किं शेषा वराका दूरवान्धवाः ॥७६॥
 अथवा कोऽत्र वो दोषः पुण्यतां मम निर्दिष्टे । फलितोऽपुण्यवृत्तोऽयं निषेव्योऽवशया मया ॥७७॥
 प्रतिशब्दममं तस्या विलापमकरोत् सर्वा । तदाक्रन्दविनिर्भूतधैर्यदूरितमानसा ॥७८॥

इस अपमानसे तथा तज्जन्य दुःखसे तो मर जाना ही परम सुख है ॥६४॥ इतना कहकर अञ्जना सखीके साथ उसी वनमें प्रविष्ट हो गई जिसमें केतुमतीका सेवक उसे छोड़ गया था । जिस प्रकार कोई मृगी सिंहसे भयभीत हो वनसे भागे और कुछ समय बाद भ्रान्तिवश उसी वनमें फिर जा पहुँचे उसी प्रकार फिरसे अञ्जनाका वनमें जाना हुआ ॥६५॥ दुःखके भारसे पीड़ित अञ्जना जब वायु और घामसे थक गई तब वनके समीप बैठकर विलाप करने लगी ॥६६॥ हाय-हाय ! मैं बड़ी अभागिनी हूँ, अकारण वैर रखनेवाले दुःखदायी विधाताने मुझे योंही नष्ट कर डाला । बड़े दुःखकी बात है, मैं किसकी शरण गूँ ॥६७॥ दौर्भाग्यरूपी सागरको पार करनेके बाद मेरा नाथ किसी तरह प्रसन्नताको प्राप्त हुआ सो दुष्कर्मसे प्रेरित हो अन्यत्र चला गया ॥६८॥ जिन्हें सास आदि दुःख पहुँचाती हैं ऐसी स्त्रियाँ जाकर पिताके घर रहने लगती हैं पर मेरे दुर्भाग्यने पिताके घर रहना भी छुड़ा दिया ॥६९॥ माताने भी मेरी कुछ भी रक्षा नहीं की सो ठीक ही है क्योंकि कुलवती स्त्रियाँ अपने भर्तारके अभिप्रायानुसार ही चलती हैं ॥७०॥ हे नाथ ! तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा गर्भ प्रकट नहीं हो पायगा और मैं आ जाऊँगा सो वह वचन याद क्यों नहीं रखा ? तुम तो बड़े दयालु थे ॥७१॥ हे सास ! बिना परीक्षा किये ही क्या मेरा त्याग करना तुम्हें उचित था ? जिनके शीलमें संशय होता है उनकी परीक्षा करनेके भी तो बहुत उपाय हैं ॥७२॥ हे पिता ! आपने मुझे बाल्यकालमें गोदमें खिलाया है और सदा बड़े लाडलप्यारसे रक्खा है फिर परीक्षा किये बिना ही मेरा परित्याग करनेकी वृद्धि आपकी कैसे हो गई ? ॥७३॥ हाय माता ! इस समय तेरे मुखसे एकवार भी उत्तम वचन क्यों नहीं निकला ? तूने वह अनुपम प्रीति इस समय क्यों छोड़ दी ? ॥७४॥ हे भाई ! मैं तेरी एक ही माताके उदरमें वास करनेवाली अत्यन्त दुःखिनी बहिन हूँ सो मेरी रक्षा करनेके लिए तेरी कुछ भी चेष्टा क्यों नहीं हुई ? तू बड़ा निष्फुर हृदय है ॥७५॥ जब बन्धुजनोंमें प्रधानता रखनेवाले तुम लोगोंकी यह दशा है तब जो बेचारे दूरके बन्धु हैं वे तो कर ही क्या सकते हैं ? ॥७६॥ अथवा इसमें तुम सबका क्या दोष है ? पुण्यरूपी ऋतुके समाप्त होनेपर अब मेरा यह पापरूपी वृक्ष फलीभूत हुआ है सो विवश होकर मुझे इसकी सेवा करनी ही है ॥७७॥ अञ्जनाका विलाप सुनकर जिसके हृदयका धैर्य दूर हो

१. त्वया विज्ञात- म० । २. सत्यपायाः म० । ३. उत्सङ्गलालिता म० । ४. बन्धुसंहतिः म० । ५. वा दोषः म०, ज० ।

अन्यन्तदीनमेतस्यां रुदन्यां तारनिस्वनम् । मृगोभिरपि निर्मुक्ताः सुस्यूला वापविन्दवः ॥७६॥
 ततश्चिर रुद्विन्नामरुगाभूतलोचनाम् । नखी दोभ्यां समालिङ्ग्य जगादैवं विचक्षणा ॥८०॥
 स्वामिन्यलं रुद्विन्वा ते नन्ववश्यं पुराकृतम् । नेत्रे निर्माल्य सोढव्यं कर्म पाकमुपागतम् ॥८१॥
 सर्वेषामेव जन्तूनां पृष्ठतः पार्श्वतोऽग्रतः । कर्म तिष्ठति यद्देवि तत्र कोऽवसरः शुचः ॥८२॥
 अप्सरशतनेत्रालीनिलयीभूतविग्रहाः । प्राप्नुवन्ति परं दुःखं सुकृतान्ते सुरा अपि ॥८३॥
 त्रिन्तयत्यन्यथा लोकः प्राप्नोति फलमन्यथा । लोकन्यापारमकान्मा परमो हि गुर्लविधिः ॥८४॥
 हितङ्गमपि प्राप्तं विधिर्नागयति क्षणान् । कदाचिदन्यदा धत्ते मानसस्याप्यगोचरम् ॥८५॥
 गतयः कर्मणां कस्य विचित्रा परिनिश्चिताः । तस्मात्त्वमस्य सा कार्पीव्यथां गर्भस्य दुःखिता ॥८६॥
 वाक्त्रम्य दशनैर्दन्तान्कृत्वा ग्रावसमं मनः । कर्म स्वयं कृतं देवि सहन्वाशक्यवर्जनम् ॥८७॥
 ननु स्वयं विवृद्धाया मया ते शिक्षणं कृतम् । अधिक्षेप इवाभाति वद ज्ञातं न किं तव ॥८८॥
 धमिधारेति सा तस्या नयने शोणरोचिषी । न्यमार्ष्ट वेपथ्युत्तपाणिना सान्त्वतस्पर ॥८९॥
 भूयश्चोत्रे प्रदेशोऽयं देवि संश्रयवर्जितः । तस्माद्दुत्तिष्ठ गच्छावः पार्श्वमस्य सर्वाभूत ॥९०॥
 गुहायामत्र कस्याश्चिदगन्यायां कुजन्तुभिः । सुतिकल्याणसप्राप्त्यै नमयं कश्चिदास्वहे ॥९१॥
 ततस्तत्रोपदिष्टा सा पद्मवीं पादचारिणी । गर्भभाराद् विचचारमसमर्था निपेविनुम् ॥९२॥

गया था ऐसी सखी वसन्तमाला भी प्रतिध्वनिके समान विलाप कर रही थी ॥७८॥ यह अञ्जना
 वड़ी दीनताके साथ इतने जोर-जोरसे विलाप कर रही थी कि उसे सुनकर बनकी हरिणियोंने
 भी आँसुओंकी वड़ी-वड़ी वृद्ध छोड़ी थी ॥७९॥

तदनन्तर चिरकाल तक रोनेसे जिसके नेत्र लाल हो गये थे ऐसी अञ्जनाका दोनों
 भुजाओंसे आलिङ्गन कर बुद्धिमती सखीने कहा कि हे स्वामिनि ! रोना व्यर्थ है । पूर्वोपार्जित
 कर्म उद्यमों आया है सो उसे आँख बन्दकर सहन करना ही योग्य है ॥८०-८१॥ हे देवि !
 समस्त प्राणियोंके पीछे आगे तथा बगलमें कर्म विद्यमान हैं इसलिए यहाँ शोकका अवसर ही
 क्या है ? ॥८२॥ जिनके शरीरपर सैकड़ों अप्सराओंके नेत्र विलीन रहते हैं ऐसे देव भी पुण्यका
 अन्त होनेपर परम दुःख प्राप्त करते हैं ॥८३॥ लोक अन्यथा सोचते हैं और अन्यथा ही फल
 प्राप्त करते हैं । यथार्थमें लोगोंके कार्यपर दृष्टि रखनेवाला विधाता ही परम गुरु है ॥८४॥ कभी
 तो यह विधाता प्राप्त हुई हितकारी वस्तुको क्षण भरमें नष्ट कर देता है और कभी ऐसी वस्तु
 लाकर सामने रख देता है जिसकी मनमें कल्पना ही नहीं थी ॥८५॥ कर्मोंकी दशाएँ वड़ी
 विचित्र हैं । उनका पूर्ण निश्चय कौन कर पाया है ? इसलिए तुम दुःखी होकर गर्भको पीड़ा मत
 पहुँचाओ ॥८६॥ हे देवि ! दाँतोंसे दाँतोंको दबाकर और मनको पत्थरके समान बनाकर जिसका
 छूटना अशक्य है ऐसा स्वोपार्जित कर्मका फल सहन करो ॥८७॥ वास्तवमें आप स्वयं विशुद्ध हैं
 अतः आपके लिए मेरा शिक्षा देना निन्दाके समान जान पड़ता है । तुम्हीं कहो कि आप क्या
 नहीं जानती हैं ? ॥८८॥ इतना कहकर सान्त्वना देनेमें तत्पर रहनेवाली सखीने अपने कोंपते
 हुए हाथोंसे उसके लाल-लाल नेत्र पोंछ दिये ॥८९॥ फिर कहा कि हे देवि ! यह प्रदेश आश्रय
 से रहित है अर्थात् यहाँ ठहरने योग्य स्थान नहीं है इसलिए उठो इस पर्वतके पास चले ॥९०॥
 यहाँ किसी ऐसी गुफामें जिसमें दुष्ट जीव नहीं पहुँच सकेंगे गर्भके कल्याणके लिए कुछ समय
 तक निवास करेंगी ॥९१॥

तदनन्तर सखीका उपदेश पाकर वह पैदल ही मार्ग चलने लगी । क्योंकि गर्भके भार

१. शक्तात्मा म० । २. दुःखिताः म० । दुःखितः व० । ३. वेपथोर्युक्ता म० । वेपथोर्युक्ता व० ।

४. त्रिचित्र- म० ।

अनुयान्ती महारण्यधरणीं समयागिरिम् । व्यालजालसमाकीर्णां तन्नादात्यन्तभीषणाम् ॥६३॥
 महानोकहसरुद्धिवाकरकरोत्कराम् । महीभृत्पादसंकीर्णां दर्भसूचीसुदुश्चराम् ॥६४॥
 युक्तां मातङ्गमालाभिर्न्यस्यन्ती कृच्छ्रतः पद्मम् । मातङ्गमालिनीं नाम प्राप मानसदुर्गाम् ॥६५॥
 शक्तापि गगने गन्तुं पद्भ्यां तस्याः सखीं ययौ । प्रेमवन्धनसंबद्धां छायावृत्तिमुपाश्रिता ॥६६॥
 भयानकां ततः प्राप्य तामसौ संकटाटवीम् । वेपमानसमस्ताङ्गां कांदिशीकत्वमागमत् ॥६७॥
 ततस्तामाकुलं ज्ञात्वा गृह्णात्वा करपद्मवे । आली जगाद् मा भैपीः स्वामिन्येहीति साद्रात् ॥६८॥
 ततः सख्यंसविन्यस्तविचंसिकरपद्मवा । दर्भसूचीमुखस्पर्शकृणितेक्षणकोणिका ॥६९॥
 तत्र तत्रैव भूदेशे न्यस्यन्ती चरणौ पुनः । स्तनन्ती दुःखसंभाराद्देहं कृच्छ्रेण विभ्रती ॥१००॥
 उत्तरन्ती प्रयासेन निर्करान् वेगवाहिनः । स्मरन्ती स्वजनं सर्वं निष्ठुराचारकारिणम् ॥१०१॥
 निन्दन्ती स्वमुपालम्भं प्रयच्छन्ती मुहुर्विधेः । कारुण्यादिव वल्लीभिः रिलप्यमाणाखिलाङ्गिका ॥१०२॥
 त्रस्तसारङ्गजायाचीं श्रमजस्वेदवाहिनीं । सक्तं कण्टकगुच्छेषु मोचयन्त्यंशुकं चिरात् ॥१०३॥
 चतजेनाचितौ पादौ लक्षिताविव विभ्रती । शोकाग्निदाहसंभूतां श्यामतां दधती पराम् ॥१०४॥
 दलेऽपि चलिते त्रासं व्रजन्ती चलविग्रहा । संत्रासस्तग्भितावूरु वहन्ती खेददुर्वहो ॥१०५॥

के कारण वह आकाशमें चलनेके लिए समर्थ नहीं थी ॥६२॥ वह पर्वतकी समीपवर्तिनी महा-
 वनकी भूमिमें चलती-चलती मातङ्गमालिनी नामकी उस भूमिमें पहुँची जो हिंसक जन्तुओं
 से व्याप्त थी और उनके शब्दोंसे भय उत्पन्न कर रही थी । वड़े-वड़े वृक्षोंने जहाँ सूर्यकी किरणों
 का समूह रोक लिया था, जो छोटी-छोटी पहाड़ियोंसे व्याप्त थी, डाभकी अनियोंके कारण जहाँ
 चलना कठिन था, जो हाथियोंकी श्रेणियोंसे युक्त थी तथा शरीरकी वात तो दूर रही मनसे भी
 जहाँ पहुँचना कठिन था । अञ्जना वड़े कष्टसे एक-एक डग रखकर चल रही थी ॥६३-६५॥
 यद्यपि उसकी सखी आकाशमें चलनेमें समर्थ थी तो भी वह प्रेमरूपी वन्धनमें बँधी होनेसे
 छायाके समान पैदल ही उसके साथ-साथ चल रही थी ॥६६॥ उस भयानक सघन अटवीको
 देखकर अञ्जनाका समस्त शरीर काँप उठा । वह अत्यन्त भयभीत हो गई ॥६७॥

तदनन्तर उसे व्यग्र देख सखीने हाथ पकड़कर वड़े आदरसे कहा कि स्वामिनि ! डरो
 मत, इधर आओ ॥६८॥ अञ्जना सहारा पानेकी इच्छासे सखीके कन्धेपर हाथ रखकर चल
 रही थी पर उसका हाथ सखीके कन्धेसे बार-बार खिसककर नीचे आ जाता था । चलते-चलते
 जब कभी डाभकी अनी पैरमें चुभ जाती थी तब वेचारी आँख मींचकर खड़ी रह जाती थी
 ॥६६॥ वह जहाँसे पैर उठाती थी दुःखके भारसे चीखती हुई वहीं फिर पैर रख देती थी । वह
 अपना शरीर बड़ी कठिनतासे धारण कर रही थी ॥१००॥ वेगसे वहते हुए झरनोंको वह बड़ी
 कठिनाईसे पार कर पाती थी । उसे निष्ठुर व्यवहार करनेवाले अपने समस्त आत्मीयजनोंका
 बार-बार स्मरण हो आता था ॥१०१॥ वह कभी अपनी निन्दा करती थी तो कभी भाग्यको
 बार-बार दोष देती थी । लताएँ उसके शरीरमें लिपट जाती थीं सो ऐसा जान पड़ता था कि
 दयासे वशीभूत होकर मानो उसका आलिङ्गन ही करने लगती थीं ॥१०२॥ उसके नेत्र भयभीत
 हरिणीके समान चञ्चल थे, थकावटके कारण उसके शरीरमें पसीना निकल आया था, काँटेदार
 वृक्षोंमें बल्ल उलभ जाता था तो देर तक उसे ही सुलभाती खड़ी रहती थी ॥१०३॥ उसके पैर
 रुधिरसे लाल-लाल हो गये थे, सो ऐसे जान पड़ते थे मानो लाखका महावर ही उनमें लगाया
 गया हो । शोकरूपी अग्निकी दाहसे उसका शरीर अत्यन्त साँवला हो गया था ॥१०४॥ पत्ता
 भी हिलता था तो वह भयभीत हो जाती थी, उसका शरीर काँपने लगता था, भयके कारण

१. कांदिशीत्वमुपागमत् म० । २. व्रजितेक्षण- म० । ३. कण्टकगुच्छेषु म० । ४. दधतीम् म० ।

मुहुर्विश्रम्यमानात्मा^१ नितान्तप्रियवाक्यया । गिरेः प्रापाञ्जना मूल शनकैरिति दुःखिता^२ ॥१०६॥
 तत्र धारयितु देहमसक्ता साश्रुलोचना । अपकर्ण्य सखीवाक्य महाखेदादुपाविशत् ॥१०७॥
 जगाद् च न शक्नोमि प्रयातु पदमप्यतः । तिष्ठाम्यत्रैव देशेऽह प्राप्नोमि मरण वरम् ॥१०८॥
 सान्त्वयित्वा ततो वाक्यैः कुशला हृदयङ्गमैः । विश्रम्य प्रणम्योचे सख्येव प्रेमतत्परा ॥१०९॥
 पश्य पश्य गुहामेतां देवि नेदीयसी पराम् । कुरु प्रसादमुत्तिष्ठ स्थास्यावोऽन्न यथासुखम् ॥११०॥
 प्रदेशे सचरन्तीह प्राणिनः क्रूरचेष्टिताः । ननु ते रक्षणीयोऽय गर्भः स्वामिनि मा मुह ॥१११॥
 इत्युक्त्वा^३ सानुरोधेन सख्या वनभयेन च । गमनाय समुत्तस्थौ भूयोऽपि परितापिनी ॥११२॥
 महानुभावतायोगादनुज्ञातेरभावतः । हीतश्च नान्तिक वायोरयासिष्टामिमे तदा ॥११३॥
 हस्तावलम्बदानेन ततस्ता विपमां भुवम् । लङ्घयित्वा सखी कृच्छ्राद् गुहाद्वारमुपाहरत् ॥११४॥
 प्रवेष्टु सहसा भीते तत्र ते तस्थतुः क्षणम् । विपमग्रावसक्रान्तिसजातविपुलश्रमे ॥११५॥
 विश्रान्ताभ्यां चिराद् दृष्टिस्तत्राभ्यां न्यासि मन्दगा । म्लानरक्तशितिश्वेतनीरजस्रक्समप्रभा ॥११६॥
 अपश्यता ततः शुद्धसमामलशिलातले । पर्यङ्गसुस्थितं साधु चारणातिशयान्वितम् ॥११७॥
 निभृतोच्छ्वासनिश्वास नासिकाग्राहितेक्षणम् । ऋजुश्लथवपुर्यष्टि स्थाणुवच्चलनोत्थितम् ॥११८॥

उसकी दोनो जोंघे अकड़ जाती थीं और खेदके कारण उनका उठाना कठिन हो जाता था ॥१०५॥
 अत्यन्त प्रिय वचन बोलनेवाली सखी उसे बार-बार बैठाकर विश्राम कराती थी । इस प्रकार दुःखसे भरी अञ्जना धीरे-धीरे पहाड़के समीप पहुँची ॥१०६॥ वहाँ तक पहुँचनेमें वह इतनी अधिक थक गई कि शरीर सम्भालना भी दूभर हो गया । उसके नेत्रोंसे आँसू बहने लगे और वह बहुत भारी खेदके कारण सखीकी बात अनसुनी कर बैठ गई ॥१०७॥ कहने लगी कि अब तो मैं एक डग भी चलनेके लिए समर्थ नहीं हूँ अतः यहीं ठहरी जाती हूँ । यदि यहाँ मरण भी हो जाय तो अच्छा है ॥१०८॥

तदनन्तर प्रेमसे भरी चतुर सखी हृदयको प्रिय लगाने वाले वचनोंसे उसे सान्त्वना देकर तथा कुछ देर विश्राम कराकर प्रणामपूर्वक इस प्रकार बोली ॥१०९॥ हे देवि । देखो-देखो यह पास ही उत्तम गुफा दिखाई दे रही है । प्रसन्न होओ, उठो, हम दोनों उस गुफामें ही सुखसे ठहरेंगी ॥११०॥ यहाँ क्रूर चेष्टाओंको धारण करने वाले अनेक जीव विचर रहे हैं और तुम्हें गर्भकी भी रक्षा करनी है । इसलिए हे स्वामिनि । गलती न करो ॥१११॥ ऐसा कहने पर संतापसे भरी अञ्जना सखीके अनुरोधसे तथा वनके भयसे पुनः चलने के लिए उठी ॥११२॥ उस समय ये दोनों स्त्रियों वनमें कष्ट तो उठाती रहीं पर पवनजयके पास नहीं गईं सो इसमें उनकी महानुभावता, आज्ञाका अभाव अथवा लज्जा ही कारण समझना चाहिए ॥११३॥ तदनन्तर सखी वसन्तमाला हाथका सहारा देकर जिस किसी तरह उस ऊँची-नीची भूमिको पार कराकर बड़े कष्टसे अञ्जनाको गुफाके द्वार तक ले गई ॥११४॥ ऊँचे-नीचे पत्थरोंमें चलनेके कारण वे दोनों ही बहुत थक गई थीं और साथ ही उस गुफामें सहसा प्रवेश करनेके लिए डर भी रही थीं इसलिए क्षण भरके लिए बाहर ही बैठ गई ॥११५॥ बहुत देरतक विश्राम करनेके बाद उन्होंने अपनी मन्दगामिनी दृष्टि गुफापर डाली । उनकी वह दृष्टि मुरझाये हुए लाल, नीले और सफेद कमलोंकी मालाके समान जान पड़ती थी ॥११६॥

तदनन्तर उन्होंने शुद्ध सम और निर्मल शीला-तलपर पर्यङ्कासनसे चिराजमान चारण-ऋद्धिके धारक मुनिराजको देखा ॥११७॥ उन मुनिराजका श्वासोच्छ्वास निश्चल अथवा नियमित था । उन्होंने अपने नेत्र नासिकाके अग्रभागपर लगा रक्खे थे, उनकी शरीरयष्टि शिथिल होनेपर

१. विश्रम्यमानात्मा म० । २. दुःखिताः म० । ३. इत्युक्त्वा म० । ४. आज्ञायाः । ५. म्लान-रक्तासितश्वेतरजतस्रक्समप्रभा ख० ।

अङ्गस्थवामपाण्यङ्गन्यस्तान्योत्तानपाणिकम् । निष्प्रकम्प नदीनाथगाभीर्यस्थितमानसम् ॥११६॥
 ध्यायन्त वस्तुयाथात्म्य यथाशासनभावनम् । नि.शेषमङ्गनिर्मुक्त वायुवद्गगनामलम् ॥१२०॥
 शैलकूटगताशङ्कं वीक्ष्य ताभ्यां चिरादसौ । निरचायि महासत्त्व सौम्यमासुरविग्रह ॥१२१॥
 ततः पूर्वकृतानेकश्रवणासेवने मुदा । समीप जग्मतुस्तस्या क्षणात्ते विस्मृतासुखे ॥१२२॥
 त्रि परीत्य च भावेन नेमतुर्विहिताङ्गली । मुनि परमिव प्राप्ते वान्धव विरुचेक्षणे ॥१२३॥
 काले यदच्छ्रया तत्र तेन योग समाप्यते । भवत्येव हि भव्याना क्रिया प्रस्तावसङ्गता ॥१२४॥
 ते ततोऽवदतामेवमविभक्तकरद्वये । अनगाराद् द्विविन्ध्यस्तनिरश्रुस्थिरलोचने ॥१२५॥
 भगवन्नपि ते देहे कुशलं कुगलाशय । मूलमेव हि सर्वेषा साधनाना सुचेष्टित ॥१२६॥
 उपर्युपरिसर्वद तपः कच्चिद् गुणास्तुभे । विहारोऽपि दमोद्वाहव्युपसर्गो महात्तम ॥१२७॥
 आचार इति पृच्छान्नो भवन्तमिदमीदृशम् । अन्यथा कस्य नो योग्याः कुशलस्य भवद्विधा ॥१२८॥
 भवन्ति क्षेमताभाजो भवद्विधसमाश्रिता । स्वस्मिस्तु कैत्र भावाना कथा साध्वितरात्मनाम् ॥१२९॥
 इत्युक्त्वा ते व्यरंसिष्टा विनयानतविग्रहे । नि.शेषमयनिर्मुक्ते तद् दृष्टे च वभूवतु ॥१३०॥

भी सीधी थी, और वे स्वयं स्थाणु अर्थात् ठूठके समान हलन-चलनसे रहित थे ॥११८॥
 उन्होंने अपनी गोदमे स्थित वाम हाथकी हथेलीपर दाहिनी हाथ उत्तान रूपसे रख छोड़ा था,
 वे स्वयं निश्चल थे और उनका मन समुद्रके समान गम्भीर था ॥११९॥ वे जिनागमके अनुसार
 वस्तुके यथार्थ स्वरूपका ध्यान कर रहे थे, वायुके समान सर्व-परिग्रहसे रहित थे और आकाशके
 समान निर्मल थे ॥१२०॥ उन्हें देखकर किसी पर्वतके शिखरकी आशङ्का उत्पन्न होती थी। वे
 महान् धैर्यके धारक थे तथा उनका शरीर सौम्य होनेपर भी देदीयमान था। बहुत देरतक
 देखनेके बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह उत्तम मुनिराज हैं ॥१२१॥

तदनन्तर जिन्होंने पहले अनेक वार मुनियोंकी सेवा की थी ऐसी वे दोनों स्त्रियों हर्षसे
 मुनिराजके समीप गईं और क्षण भरमें अपना सब दुःख भूल गईं ॥१२२॥ उन्होंने भावपूर्वक
 तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और परम बन्धुके समान मुनिराजको पाकर
 उनके नेत्र खिल उठे ॥१२३॥ जिस समय वे पहुँचीं उसी समय मुनिराजने स्वेच्छासे ध्यान
 समाप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि भव्य जीवोंकी क्रिया अवसरके अनुसार ही होती है ॥१२४॥
 तत्पश्चात् जिनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और जिन्होंने अपने अश्ररहित निश्चल नेत्र मुनिराजके
 चरणोंमें लगा रखे थे ऐसी दोनों स्त्रियोंने कहा कि हे भगवन् ! हे कुशल अभिप्रायके धारक !
 हे उत्तम चेष्टाओंसे सम्पन्न ! आपके शरीरमें कुशलता तो है ? क्योंकि समस्त साधनोंका मूल
 कारण यह शरीर ही है ॥१२५-१२६॥ हे गुणोंके सागर ! आपका तप उत्तरोत्तर बढ़ तो रहा
 है ? इसी प्रकार हे इन्द्रियविजयके धारक ! आपका विहार उपसर्गरहित तथा महा क्षमासे
 युक्त तो है ? ॥१२७॥ हे प्रभो ! हम आपसे जो इस तरह कुशल पूछ रही हैं सो ऐसी पद्धति है
 यही ध्यान रखकर पूछ रही हैं अन्यथा आप जैसे मनुष्य किस कुशलके योग्य नहीं हैं ? अर्थात्
 आप समस्त कुशलताके भण्डार हैं ॥१२८॥ आप जैसे पुरुषोंकी शरणमें पहुँचे हुए लोग कुशलतासे
 युक्त हो जाते हैं, किन्तु स्वयं अपने-आपके विषयमें अच्छे और बुरे पदार्थोंकी चर्चा ही क्या
 है ? ॥१२९॥ इस प्रकार कहकर वे दोनों चुप हो गईं। उस समय उनके शरीर विनयसे
 नम्रीभूत थे। मुनिराजने जब उनकी ओर देखा तो वे सर्व प्रकारके भयसे रहित हो गईं ॥१३०॥

१. नरवायि व०, ज० । २. समाप्यते म०, ख०, ज० । ३. निरसुत्थिर म० । ४. भगवन्नपि म०,
 ख० । ५. अपिशब्द. प्रश्नार्थ. । ६. संबद्ध म० । ७. 'कच्चित्कामप्रवेदने' इत्यमरः ।

अथ प्रशान्तया वाचा श्रमणोऽमृतकल्पया । गम्भीरया जगादैवं पाणिमुत्तिप्य दक्षिणम् ॥१३१॥
 कल्याणि कुशलं सर्वं मम कर्मानुभावतः । ननु सर्वमिदं बाले नैजकर्मविचेष्टितम् ॥१३२॥
 पश्यतां कर्मणां लीलां यदिहागोविवर्जिता । बन्धुनिर्वास्यतां याता महेन्द्रस्येयमात्मजा ॥१३३॥
 ततोऽकथितविज्ञाततद्बृत्तान्त महामुनिम् । कुतूहलसमाक्रान्तमानसा सुमहादरा ॥१३४॥
 नत्वा वसन्तमालोचे स्वामिनीप्रियतत्परा । पादयोर्नेत्रकान्त्यास्य कुर्वतीवाभिषेचनम् ॥१३५॥
 विज्ञापयामि नाथ त्वां कृपया वक्तुमर्हसि । परोपकारभूयस्यो ननु युष्मादृशां क्रियाः ॥१३६॥
 हेतुना केन भर्तास्या^१श्चिर काल व्यरज्यत । अरज्यत पुनर्दुःख प्राप्ता चैषा महावने ॥१३७॥
^२को वातिमन्दभाग्योऽयं जीवोऽस्याः कुचिमाश्रयत् । सुखोचितेयमानीता येन जीवितसशयम् ॥१३८॥
 ततः सोऽमितगत्याख्यो ज्ञानत्रयविशारदः । यथावृत्तं जगादास्या वृत्तिरेषा हि धीमताम् ॥१३९॥
 वत्से शृणु यतः प्राप्ता भव्येय दुःखमीदृशम् । पूर्वमाचरितात् पापात् संप्राप्तपरिपाकतः ॥१४०॥
 इह जम्बूमति द्वीपे वास्ये भरतनामनि । नगरे मन्दराभिख्ये प्रियनन्दीति सदृगृहा^३ ॥१४१॥
^४जाया^५ जायास्य तत्राभूदमयन्ताभिधः सुतः । महासौभाग्यसम्पन्नः कल्याणगुणभूषणः ॥१४२॥
 अथान्यदा मधौ क्रीडा परमा तत्पुरेऽभवत् । नन्दनप्रतिमोद्याने पौरलोकसमाकुले ॥१४३॥

अथानन्तर मुनिराज दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अमृतके समान प्रशान्त एवं गम्भीर वाणीमें इस प्रकार कहने लगे कि हे कल्याणि ! कर्मोंके प्रभावसे मेरा सर्वप्रकार कुशल है । हे बाले ! निश्चयसे यह सब अपने-अपने कर्मोंकी चेष्टा है ॥१३१-१३२॥ कर्मोंकी लीला देखो जो राजा महेन्द्रकी यह निरपराधिनी पुत्री भाइयो द्वारा निर्वासितपनाको प्राप्त हुई अर्थात् घरसे निकाली जाकर अत्यन्त अनादरको प्राप्त हुई ॥१३३॥ तदनन्तर विना कहे ही जिन्होंने सब वृत्तान्त जान लिया था ऐसे महामुनिराजको नमस्कार कर बड़े आदरसे वसन्तमाला बोली । उस समय वसन्तमालाका मन कुतूहलसे भर रहा था, वह स्वामिनीका भला करनेमें तत्पर थी । और अपने नेत्रोंकी कान्तिसे मानो मुनिराजके चरणोंका अभिषेक कर रही थी ॥१३४-१३५॥ उसने कहा कि हे नाथ ! मैं कुछ प्रार्थना कर रही हूँ सो कृपाकर उसका उत्तर कहिये । क्योंकि आप जैसे पुरुषोंकी क्रियाएँ परोपकार-बहुल ही होती हैं ॥१३६॥ इस अज्ञानका भर्ता किस कारणसे चिर काल तक विरक्त रहा और अब किस कारणसे अनुरक्त हुआ है ? यह अज्ञाना महावनमें किस कारणसे दुःखको प्राप्त हुई है ? और मन्द भाग्यका धारक कौन-सा जीव इसकी कुचिमें आया है जिसने कि सुख भोगनेवाली इस बेचारीको प्राणोंके संशयमें डाल दिया है ॥१३७-१३८॥

तदनन्तर मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोमें निपुण अमितगति नामक मुनिराज अज्ञानका यथावत् वृत्तान्त कहने लगे । सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमानोंकी यही वृत्ति है ॥१३६॥ उन्होंने कहा कि हे चेट्टी ! सुन, इस अज्ञानाने अपने पूर्वोपार्जित पाप कर्मके उद्यसे जिस कारण यह ऐसा दुःख पाया है उसे मैं कहता हूँ ॥१४०॥

इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके मन्दर नामक नगरमें एक प्रियनन्दी नामका सदृगृहस्थ रहता था ॥१४१॥ उसकी स्त्रीका नाम जाया था । उस स्त्रीसे प्रियनन्दीके दमयन्त नामका ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ था जो महासौभाग्यसे सम्पन्न तथा कल्याणकारी गुणरूपी आभूषणोंसे विभूषित था ॥१४२॥ तदनन्तर वसन्त ऋतु आनेपर नगरमें बड़ा भारी उत्सव हुआ सो नगरवासी लोगोंसे व्याप्त नन्दनवनके समान सुन्दर उद्यानमें दमयन्त भी अपने मित्रोंके साथ सुख-

चिक्रीड^१ दमयन्तोऽपि तत्र मित्रैः सम सुखम् । पटवासवलङ्गाङ्ग कुण्डलाटिविभूषित ॥१४२॥
 अथ तेन न्यितेनाराक्रीडता गगनाम्बरा । दृष्टास्तपोधना ध्यानस्वा^२यायादिक्रियोडिता^३ ॥१५०॥
 नित्सृत्य मण्डलान्मित्राद् रग्मिवत् सोऽतिभासुः । जगाम मुनिसंघानं मेरुद्वीपमक्षिणम् ॥१४६॥
 तत सार्धं स वन्दित्वा श्रुत्वा धर्मं यथाविधि । सम्यग्दर्शनसंपन्नो बभूव नियमस्थित ॥१४७॥
 दत्त्वा मत्तगुणोपेतामन्यदा पारणामसौ । सायुष्य^४ पञ्चता प्राप्य कल्पवासमग्निश्रियत् ॥१४८॥
 नियमादानतश्चात्र भोगमन्वभवत् परम् । देवांगतेक्षणच्छायानीलाञ्जननिभूषित ॥१४९॥
 च्युतस्तस्मादिह द्वीपे मृगाङ्कनगरेऽभवत् । प्रियङ्गुलक्ष्मीमभूतो हरिचन्द्रनृपामज ॥१५०॥
 सिंहचन्द्र इति स्थानं कलागुणविशारद^५ । स्थितः प्रत्येकमेकोऽपि चेत सु प्राणधारिणाम् ॥१५१॥
 तत्रापि मुक्तमद्भोग सागुन्योऽत्राप्य सन्मतिम् । कालवर्मेण मंयुक्तो जगाम त्रिदशालयम् ॥१५२॥
 तत्रोदारं सुनं प्राप सक्वपकृतकल्पनम् । देवावदनराजीवमहाखण्डद्विवाकरः ॥१५३॥
 च्युत्वात्रैव ततो वात्से विजयार्धमर्हीधरे । नगरेऽत्तगमजाके सुकण्ठस्य नरप्रभोः ॥१५४॥
 जायायां कनकोदर्यां सिंहवाहनशब्दितः । उटपादिगुणाकृष्टसमन्तजनमानस^६ ॥१५५॥
 तत्र देव इवोदारसंयोगमनुभूतवान् । अप्सरोविभ्रमस्तेन कान्तालङ्घनलालितः ॥१५६॥
 तीर्थं विमलनाथस्य सांजन्यदा जातसन्मति । निक्षिप्य तनये लक्ष्मीं घनवाहननामनि ॥१५७॥

पूर्वक क्रीड़ा कर रहा था । उस समय उसका शरीर सुगन्धित चूर्णसे सफेद था तथा कुण्डलादि आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥१४३-१४४॥

तदनन्तर वहाँ ठहरकर क्रीड़ा करते हुए दमयन्तने समीपमें ही विद्यमान ध्यान, स्वाध्याय आदि क्रियाओंमें तत्पर दिग्म्वर मुनिगज देखे ॥१४५॥ उन्हें देखते ही जिस प्रकार सूर्यसे देदीप्यमान किरण निकलती है उसी प्रकार अपनी गोष्ठीसे निकलकर अतिशय देदीप्यमान दमयन्त मुनिसमूहके पास पहुँचा । वह मुनियोंका समूह मेरुके शिखरोके समूहके समान निश्चल था ॥१४६॥ तदनन्तर दमयन्तने मुनिराजकी वन्दनाकर उनसे विधि-पूर्वक धर्मका उपदेश सुना और सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न होकर नियम आदि धारण किये ॥१४७॥ किसी एक समय उसने सायुष्योंके लिए सप्तगुणोंसे युक्त पारणा कराई और अन्तमें मरकर स्वर्गमें देवपर्याय पाया ॥१४८॥ वहाँ वह पूर्वाचरित नियम और दानके प्रभावसे उत्तम भोग भोगने लगा । सैकड़ों देवियोंके नेत्रोंके समान कान्तिवाले नील कमलोंकी मालासे वह वहाँ सदा अलंकृत रहता था ॥१४९॥ वहाँसे च्युत होकर वह इसी जम्बूद्वीपके मृगाङ्कनामा नगरमें राजा हरिचन्द्र और प्रियङ्गुलक्ष्मी नामक रानीसे सिंहचन्द्र नामका कला और गुणोंमें निपुण पुत्र हुआ । सिंहचन्द्र यद्यपि एक था तो भी समस्त प्राणियोंके हृदयोंमें विद्यमान था ॥१५०-१५१॥ उस पर्यायमें भी उसने सायुष्योंसे सद्बोध पाकर भोगोंका त्याग कर दिया था जिससे आयुके अन्तमें मरकर स्वर्ग गया ॥१५२॥ वहाँ वह देवियोंके मुखरूपी कमल-वनको विकसित करनेके लिए सूर्यके समान था और सङ्कल्प मात्रसे प्राप्त होनेवाले उत्तम सुखका उपभोग करता था ॥१५३॥ वहाँसे च्युत होकर इसी भरतक्षेत्रके विजयार्ध पर्वतपर अरुण नामक नगरमें राजा सुकण्ठकी कनकोदरी नामा रानीसे सिंहवाहन नामका पुत्र हुआ । इस सिंहवाहनने गुणोंके द्वारा समस्त लोगोंका मन अपनी ओर आकर्षित कर लिया था ॥१५४-१५५॥ अप्सराओंके विभ्रमको चुरानेवाली स्त्रियोंके आलिङ्गनसे परमाहादको प्राप्त हुआ सिंहवाहन वहाँ देवोंके समान उदार भोगोंका अनुभव करने लगा ॥१५६॥ किसी एक समय श्रीविमलनाथ भगवान्के तीर्थमें उसे सद्बोध प्राप्त हुआ सो मेघवाहन नामक पुत्रके लिए राज्य-लक्ष्मी सौंप संसारसे विरक्त हो गया । तदनन्तर जो बहुत भारी संवेगसे युक्त था और

१. चिक्रीडे म० । २. क्रियोडिता म० । ३. मृत्युम् । ४. वात्स्य (?) म० । ५. विभ्रमस्तेन. कान्ता- म० ।

पुरुसवेगसम्पन्नो विदितासारसृष्टिः । लक्ष्मीतिलकसंज्ञस्य मुनेरानच्छं शिष्यताम् ॥१५८॥
 अनुपाल्य समीचीनं व्रतं जिनवरोदितम् । अनित्यत्वादिभिः कृत्वा चेतनां भावनामयीम् ॥१५९॥
 तपः कापुरुषाचिन्त्य तप्त्वा तन्वाद्रोज्झितम् । रत्नत्रितयतो जातां^२ दधानः परमार्थताम् ॥१६०॥
 नानालब्धिसमुत्पत्तेः शक्तोऽप्यहितवारणे । परीपहरिपून् घोरोनधिसह्य सुमानसः ॥१६१॥
 आयुर्विराममासाद्य ध्यानमास्थाय निर्मलम् । ज्योतिषां पटल भित्त्वा लान्तवेऽभूत् सुरो महान् ॥१६२॥
 हृच्छानुरूपमासाद्य तत्र भोगं परस्थितिः । छद्मस्थजनधीवाचां स्थितं संचक्ष्य[सत्यज्य]गोचरम् ॥१६३॥
 च्युत्वा पुण्यावशेषेण प्रेरितः परमोदयः । कुचिमस्या विवेशायं जीवः सौख्यस्य भाजनम् ॥१६४॥
 एव तत्रावदय गर्भः स्वामिन्यास्ते तनुं श्रितः । हेतुं विरहदुःखस्य शृणु कल्याणचेष्टिते ॥१६५॥
 भवेऽस्याः कनकोदर्या लक्ष्मीर्नाम सपत्न्यभूत् । सम्यग्दर्शनपूतात्मा साधुपूजनतत्परा ॥१६६॥
 प्रतिमा देवदेवानां प्रतीके सद्गनस्तथा । स्थापयित्वाचिता भक्त्या स्तुतिमङ्गलवक्त्रया ॥१६७॥
 महादेव्यभिमानेन सपत्न्यै कुद्वया तथा । चक्रे वाह्यावकाशेऽसौ जिनेन्द्रप्रतियातना ॥१६८॥
 अत्रान्तरेऽविशद् गोहमस्या भिन्नार्थमार्यिका । संयमश्रीरिति ख्याता तपसा विष्टपेऽखिले ॥१६९॥
 ततः परिभव दृष्ट्वा साप्यर्हप्रतियातनम् । यथावतिपर दुःखं पारणापेतमानसा ॥१७०॥

संसारकी असारताको जिसने अच्छी तरह समझ लिया था ऐसा सिंहवाहन लक्ष्मीतिलक नामक मुनिका शिष्य हो गया अर्थात् उनके पास उसने दीक्षा धारण कर ली ॥१५७-१५८॥ जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कहे हुए उत्तम व्रतका अच्छी तरह पालनकर उसने अनित्य आदि भावनाओके चिन्तनसे अपनी आत्माको प्रभावित किया ॥१५९॥ शरीरका आदर छोड़कर उसने ऐसा कठिन तपश्चरण किया कि कायर मनुष्य जिसका विचार भी नहीं कर सकते थे । वह सदा रत्नत्रयके प्रभावसे उत्पन्न होनेवाली परमार्थताको धारण करता था ॥१६०॥ नाना प्रकारकी ऋद्धिर्यो उत्पन्न होनेसे यद्यपि वह अनिष्ट पदार्थोंका निवारण करनेमें समर्थ था तो भी शान्त हृदयसे उसने परीषहरूपी घोर शत्रुओका कष्ट सहन किया था ॥१६१॥ आयुका अन्त आनेपर वह निर्मल ध्यानमें लीन हो गया और ज्योतिपी देवोका पटल भेदनकर अर्थात् उससे ऊपर जाकर लान्तव स्वर्गमें उत्कृष्ट देव हुआ ॥१६२॥ वहाँ वह उत्कृष्ट स्थितिका धारी हुआ और छद्मस्थ जीवोके ज्ञान तथा वचन दोनोसे परे रहनेवाले इच्छानुकूल भोगोका उपभोग करने लगा ॥१६३॥ परम अभ्युदयसे सहित तथा सुखका पात्र भूत, इसी देवका जीव लान्तव स्वर्गसे च्युत होकर बाकी बचे पुण्यसे प्रेरित होता हुआ इस अञ्जनाके गर्भमें प्रविष्ट हुआ है ॥१६४॥ इस प्रकार जो गर्भ तेरी स्वामिनीके शरीरमें प्रविष्ट हुआ है उसका वर्णन किया । अब हे शुभ चेष्टाकी धारक वसन्त-माले । इसके विरह-जन्य दुःखका कारण कहता हूँ सो सुन ॥१६५॥ जब यह अञ्जना कनकोदरीके भवमें थी तब इसकी लक्ष्मी नामक सौत थी । उसकी आत्मा सम्यग्दर्शनसे पवित्र थी और वह सदा मुनियोंकी पूजा करनेमें तत्पर रहती थी ॥१६६॥ उसने घरके एक भागमें देवाधिदेव जिनेन्द्र देवकी प्रतिमा स्थापित कराकर भक्तिपूर्वक मुखसे स्तुतियाँ पढ़ती हुई उसकी पूजा की थी ॥१६७॥ कनकोदरी महादेवी थी इसलिए उसने अभिमानवश सौतके प्रति बहुत ही क्रोध प्रकट किया । इतना ही नहीं जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाको घरके बाहरी भागमें फिकवा दिया ॥१६८॥ इसी बीचमें संयमश्री नामक आर्यिकाने भिन्नाके लिए इसके घरमें प्रवेश किया । संयमश्री अपने तपके कारण समस्त संसारमें प्रसिद्ध थीं ॥१६९॥ तदनन्तर जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाका अनादर देख

१. तत्राद्रो- क० । तप्त्वा व०, ज० । २. जात म० । ३. समुत्पन्नः म० । ४. परिस्थिति ख०, व० ।
 ५. सवक्ष्य ज० । उल्लङ्घय इति व० पुस्तके टिप्पणम् । ६. वाप्यावकाशे ।

इमा च मोहिनी^१ दृष्ट्वा पर कारुण्यमागता । साधुवर्गो हि सर्वेभ्य प्राणिभ्य शुभमिच्छति ॥१७१॥
 अपृष्टोऽपि जन साधुर्गुरुभक्तिप्रचोदितः । अज्ञप्राणिहितार्थं च धर्मवाक्ये प्रवर्तते ॥१७२॥
 अवोचत ततः सैव शीलभूषणधारिणी । तदेमामितया वाचा माधुर्यमुपमोज्ज्वलितम् ॥१७३॥
 भद्रे शृणु मनः कृत्वा परम परमद्यते । नरेन्द्रकृतसन्माने भोगायतनविग्रहे ॥१७४॥
 भवे चतुर्गंतौ आम्यन् जीवो दुःखैश्चित्तः सदा । सुमानुषत्वमायाति शमे कटुककर्मणः ॥१७५॥
 मनुष्यजातिमापन्ना सा त्व पुण्येन शोभने । माभूज्जुगुप्सिताचारा कर्तुं योग्यासि सत्क्रियाम् ॥१७६॥
 लब्ध्वा मनुष्यता कर्म यो नादत्ते जनः शुभम् । रत्न करगत तस्थ अशमायाति मोहिनः ॥१७७॥
 कायवाक्चेतसां वृत्ति शुभा हितविधायिनी । सैवेतरेतराधानकारिणी प्राणधारिणाम् ॥१७८॥
 स्वस्य ये हितमुद्दिश्य प्रवर्तन्ते सुकर्मणि । उत्तमास्ते जना लोके निन्दिताचारभूयसि ॥१७९॥
 कृतार्था अपि ये सन्तो भवदुःखमहार्णवात् । तारयन्ति जनान् भव्यानुपदेशविधानतः ॥१८०॥
 उत्तमोत्तमता तेषा विभ्रतां^४ धर्मचक्रिणाम् । अर्हतां ये तिरस्कार प्रतिबिम्बस्य कुर्वते ॥१८१॥
 जन्तूना मोहिना तेषां यदनेकभवानुगम् । दुःख सजायते कस्तद्वचतु शक्नोति कात्स्नर्यत ॥१८२॥
 यद्यप्येषां प्रपन्नेषु प्रासादो नोपजायते । न चापकारनिष्ठेषु द्वेषो माध्यस्थ्यमीयुषाम् ॥१८३॥
 स्वस्मात्तथापि जन्तूना परिणामाच्छुभाशुभात् । तदुद्देशेन सजातात् सुखदुःखसमुद्भवः ॥१८४॥
 यथाग्ने सेवनाच्छीतदुःख जन्तुरपोहते । क्षुत्तृष्णापरिपीडां च भक्तशीताम्बुसेवनात् ॥१८५॥

उन्हें बहुत दुःख हुआ । पारणा करनेसे उनका मन हट गया ॥१७०॥ तथा इस अब्जनाका जीव जो कनकोदरी था उसे मिथ्यात्व-ग्रस्त देख उन्हें परम करुणा उत्पन्न हुई सो ठीक ही है क्योंकि साधुवर्ग सभी प्राणियोंका कल्याण चाहता है ॥१७१॥ गुरु-भक्तिसे प्रेरित हुए साधुजन बिना पूछे भी अज्ञानी प्राणियोंका हित करनेके लिए धर्मोपदेश देने लगते हैं ॥१७२॥

तदनन्तर शील रूप आभूषणको धारण करनेवाली संयमश्री आर्यिका अत्यन्त मधुर वाणीमें कनकोदरीसे बोलीं कि हे भद्रे ! मनको उदारकर सुन । तू परम कान्तिको धारण करनेवाली है, राजा तेरा सन्मान करता है, तथा तेरा शरीर भोगोंका आयतन है ॥१७३-१७४॥ चतुर्गति रूप संसारमें भ्रमण करता हुआ यह जीव सदा दुःखी रहता है । जब अशुभ कर्मका उदय शान्त होता है तभी यह उत्तम मनुष्यपर्यायको प्राप्त होता है ॥१७५॥ हे शोभने ! तू पुण्योदयसे मनुष्य योनिको प्राप्त हुई है अतः घृणित आचार करनेवाली न हो । तू उत्तम क्रिया करने योग्य है अर्थात् अच्छे कार्य करना ही तुझे उचित है ॥१७६॥ जो प्राणी मनुष्यपर्याय पाकर भी शुभ कार्य नहीं करता है उस मोहीके हाथमें आया हुआ रत्न योही नष्ट हो जाता है ॥१७७॥ मन, वचन, कायकी शुभ प्रवृत्ति ही प्राणियोंका हित करती है और अशुभ प्रवृत्ति अहित करती है ॥१७८॥ इस संसारमें निन्दित आचारके धारक मनुष्योंकी ही बहुलता है पर जो आत्महितका लक्ष्यकर शुभ कार्यमें प्रवृत्त होते हैं वे उत्तम कहलाते हैं ॥१७९॥ जो स्वयं कृतकृत्य होकर भी उपदेश देकर भव्य प्राणियोंको संसार रूपी महासागरसे तारते हैं, जो सर्वोत्कृष्ट हैं तथा धर्मचक्रके प्रवर्तक हैं ऐसे अरहन्त भगवान्की प्रतिमाका जो तिरस्कार करते हैं उन मोही जीवोंको अनेक भवों तक साथ जानेवाला जो दुःख प्राप्त होता है उसे पूर्ण रूपसे कहनेके लिए कौन समर्थ हो सकता है ? ॥१८०-१८२॥ अरहन्त भगवान् तो माध्यस्थ्य भावको प्राप्त हैं इसलिए यद्यपि इन्हें शरणागत जीवोंमें न प्रसन्नता होती है और न अपकार करनेवालों पर द्वेष ही होता है ॥१८३॥ तो भी जीवोंको उपकार और अपकारके निमित्तसे होनेवाले अपने शुभ-अशुभ परिणामसे सुख-दुःखकी उत्पत्ति होती है ॥१८४॥ जिस प्रकार यह जीव अग्निकी

१. मोहिनीं ज०, ख० । मेहिनीं क० । २. सुख-म० । ३. तदिमा मितया म० । तदा + इमाम् + इतया इतिच्छेदः । ४. विकृता म० । ५. अर्हतो म० । ६. प्रयत्नेषु क०, ख० । ७. क्षुत्तृष्णा परिपीडा च म० ।

निसर्गोऽयं तथा येन जिनानामर्चनात्सुखम् । जायते प्राणिनां दुःखं परमं च तिरस्कृतेः ॥१८६॥
 यन्नाम दृश्यते लोके दुःखं तत्पापसम्भवम् । सुखञ्च चरितात्पूर्वसुकृतादिति विद्यताम् ॥१८७॥
 सा त्वं पुण्यैरिमां वृद्धिं भर्तारं पुरुषाधिपम् । पुत्र चाद्भुतकर्माणं प्राप्ता श्लाघ्या सुधारिणाम् ॥१८८॥
 तथा कुरु यथा भूयो लप्स्यसे सुखमात्मनः । मद्राक्ष्यादवटैर्भवे ! मा पतः सति भास्करे ॥१८९॥
 अभविष्यत्तवाचामो नरके घोरवेदने । अहं नाबोधयिष्यं चेत्प्रमादोऽयमहो महान् ॥१९०॥
 इत्युक्त्वा सा परित्रस्ता दुःखतो नरकोद्ववात् । प्रत्ययादिति शुद्धान्मा सम्यग्दर्शनमुत्तमम् ॥१९१॥
 अगृह्णाद् गृह्णधर्मं च शक्तेश्च सदृशं तप । जन्मान्यद्विव मेने च साम्प्रतं धर्मसंगमात् ॥१९२॥
 प्रतिमां च प्रवेश्यैनां पूर्वदेशे व्यतिष्ठपन् । आनर्चं च विचित्राभिः सुमनोभिः सुगन्धिभिः ॥१९३॥
 कृतार्थं मन्यमाना स्वं तस्या धर्मनियोजनात् । जगाम स्वोचितं स्थानं संयमश्रीं प्रमोदिनी ॥१९४॥
 कनकोदर्यपि श्रेयः समुपार्ज्यं गृहे रता । कृत्वा कालं दिवं गत्वा मुक्त्वा भोगं महागुणम् ॥१९५॥
 च्युत्वा महेन्द्रराजस्य महेन्द्रपुटभेदने । मनोवेगासमाख्यायामङ्गनेति सुताभवत् ॥१९६॥
 सेयं पुण्यावशेषेन कृतेन जननान्तरे । जातेहाह्वयकुले शुद्धे प्राप्ता च वरमुत्तमम् ॥१९७॥
 प्रतिमां च जिनेन्द्रस्य त्रिकालार्च्यस्य यद्वहिः । अकार्पात्समयं कचिच्चेनातो दुःखमागतम् ॥१९८॥
 विद्युत्प्रभगुणस्तोत्रं क्रियमाणं पुरस्तत् । मिश्रकेश्याः स्वनिन्दां च समित्रः पवनञ्जयः ॥१९९॥

सेवासे अपना शीत-जन्य दुःख दूर कर लेता है और भोजन तथा शीतल जलका सेवनकर भूख-
 प्यासकी पीड़ासे छुट्टी पा जाता है यह स्वाभाविक बात है उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान्की
 पूजा करनेसे प्राणियोंको सुख उत्पन्न होता है और उनका तिरस्कार करनेसे परम दुःख प्राप्त
 होता है यह भी स्वाभाविक बात है ॥१८५-१८६॥ यह निश्चित जानो कि संसारमें जो भी
 दुःख दिखाई देता है वह पापसे उत्पन्न हुआ है और जो भी सुख दृष्टिगोचर है वह पूर्वोपार्जित
 पुण्य कर्मसे उपलब्ध है ॥१८७॥ तूने जो यह वैभव, राजा पति और आश्चर्यजनक कार्य
 करनेवाला पुत्र पाया है सो पुण्यके द्वारा ही पाया है । तू प्राणियोंमें प्रशंसनीय है ॥१८८॥
 इसलिए ऐसा कार्य कर जिससे फिर भी तुझे सुख प्राप्त हो । हे भव्ये ! तू मेरे कहनेसे सूर्यके
 रहते हुए गड्डेमें मत गिर ॥१८९॥ इस पापके कारण घोर वेदनासे युक्त नरकमें तेरा निवास हो
 और मैं तुझे संबोधित न करूँ यह मेरा बड़ा प्रमाद कहलावेगा ॥१९०॥

आर्थिकाके ऐसा कहनेपर कनकोदरी नरकमें उत्पन्न होनेवाले दुःखसे भयभीत हो गई ।
 उसने उसी समय शुद्ध हृदयसे उत्तम सम्यग्दर्शन धारण किया ॥१९१॥ गृहस्थका धर्म और शक्ति
 अनुसार तप भी उसने स्वीकृत किया । उसे ऐसा लगने लगा मानो धर्मका समागम होनेसे मैंने
 दूसरा ही जन्म पाया हो ॥१९२॥ अर्हन्त भगवान्की प्रतिमाको उसने पूर्व स्थानपर विराजमान
 कराया और नाना प्रकारके सुगन्धित फूलोंसे उसकी पूजा की ॥१९३॥ कनकोदरीको धर्ममें
 लगाकर अपने आपको कृतकृत्य मानती हुई संयमश्री आर्थिका हर्षित हो अपने योग्य स्थानपर
 चली गई ॥१९४॥ घरमें अनुराग रखनेवाली कनकोदरी भी पुण्योपार्जनकर आयुके अन्तमें स्वर्ग
 गई और वहाँ उत्तमोत्तम भोग भोगकर वहाँसे च्युत हो महेन्द्र नगरमें राजा महेन्द्रकी मनोवेगा
 नामा रानीसे यह अञ्जना नामक पुत्री हुई है ॥१९५-१९६॥ इसने जन्मान्तरमें जो पुण्य किया
 था उसके अवशिष्ट अंशसे यह यहाँ सम्पन्न एवं विशुद्ध कुलमें उत्पन्न हुई है तथा उत्तम वरको
 प्राप्त हुई है ॥१९७॥ इसने त्रिकालमें पूजनीय जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाको कुछ समय तक
 घरसे बाहर किया था उसीसे इसे यह दुःख प्राप्त हुआ है ॥१९८॥ विवाहके पूर्व जब इसके
 आगे मिश्रकेशी विद्युत्प्रभके गुणोंकी प्रशंसा और पवनञ्जयकी निन्दा कर रही थी तब पवनञ्जय

१. जानातु । २. भक्तोर्चं म० । ३. श्लाघ्या सुधारिणाम् म० । ४. गते । ५. अभविष्यं म० । ६. प्रवि-
 श्येना म० । ७. एतन्नाम्नी आर्थिका । ८. रताः म० । ९. श्रुत्वा म० ।

श्रुत्वा गवाक्षजालेन त्रियामायां तिरोहित । द्वेषमन्यं परिप्राप्तो वैद्युर्मकरोत् पुरः ॥२००॥
 युद्धाय प्रस्थितो ह्यग्रा मोऽन्यदा चक्रवाकिकाम् । विरहादीपितां रम्ये मानसे सरसि द्रुतम् ॥२०१॥
 सख्येव कृपया नात ममये तां मनोहराम् । गतश्च गर्भमादाय कर्तुं जनकज्ञामनम् ॥२०२॥
 इत्युक्त्वा पुनरुच्येऽप्यावक्ष्णां मुनिपुङ्गव । महाकारुण्यसम्पन्नः शरच्चिव गिरामृतम् ॥२०३॥
 सा त्वं कर्मानुभावेन बाले दुःखमिदं श्रिता । ततो भूयोऽपि मा कार्पीरीदृश कर्म निन्दितम् ॥२०४॥
 यानि यानि च सौख्यानि जायन्ते चात्र भूतले । तानि तानि हि सर्वाणि जिनभवते विग्रेपत ॥२०५॥
 भक्ता भव जिनेन्द्राणां ससारोत्तारकारिणाम् । गृहाण नियम शक्त्या कुरु श्रमणपूजनम् ॥२०६॥
 दिष्टया बोधि प्रपन्नासि तदा दद्या तदार्यया । उदहार्यात करालत्रात सा त्वा यान्तीमशोगतिम् ॥२०७॥
 अयं च ते महाभाग्यः कुचि गर्भ ममाश्रितः । पुत्रा निर्लंङ्घिते सम्यग्बहुकल्याणभाजनम् ॥२०८॥
 परमां भूतिमेतस्मात् सुतात् प्राप्स्यसि शोभने । अखण्डनीयवीर्योऽयं गीर्वाणः सकलैरपि ॥२०९॥
 अर्हपरेव च तेऽहोभि प्रियमद्भो भविष्यति । ततो भव सुखस्त्रान्ता प्रमादरहिता शुभे ॥२१०॥
 इत्युक्त्वाभ्या ततस्ताभ्या वृष्टाभ्या मुनिसत्तम । प्रणतो विकसन्नैश्वराजीवाभ्या पुन पुनः ॥२११॥
 मोऽपि दत्त्वागिपं ताभ्यां समुपत्य नभस्तलम् । संयमन्योचित देवं जगामामलमानम् ॥२१२॥
 पर्यङ्कासनयोगेन यस्मात्तस्यां स सन्मुनिः । तस्यै जगाम पर्यङ्कगुहाख्या सा ततो भुवि ॥२१३॥
 इत्थं निजभवान् श्रुत्वाभवद् विस्मितमानसा । निन्दन्ती दुष्कृत कर्म पूर्वं यदधमं कृतम् ॥२१४॥

अपने मित्रके साथ रात्रिके समय मत्तोखेसे छिपा खड़ा था सो यह सब सुनकर इससे रोपको प्राप्त हो गया और उस रोपके कारण ही उसने पहले इसे दुःख उपजाया है ॥१९९-२००॥ जब वह युद्धके लिए गया तो अत्यन्त मनोहर मानसरोवरपर ठहरा । वहाँ विरहसे छटपटाती हुई चक्रीको देखकर अञ्जनापर दयालु हो गया ॥२०१॥ उसके हृदयमे जो दया उत्पन्न हुई थी वह सखीके समान उसे शीघ्र ही समयपर इस सुन्दरीके पास ले आई और वह गर्भाधान कराकर पिताकी आज्ञा पूर्ण करनेके लिए चला गया ॥२०२॥ महादयालु मुनिराज इतना कहकर वाणीसे अमृत भराते हुएके समान अञ्जनासे फिर कहने लगे कि हे वैदी ! कर्मके प्रभावसे ही तूने यह दुःख पाया है इसलिए फिर कभी ऐसा निन्द्य कार्य नहीं करना ॥२०३-२०४॥ इस पृथ्वी तलपर जो-जो सुख उत्पन्न होते हैं वे सब विग्रेपकर जिनेन्द्र देवकी भक्तिसे ही उत्पन्न होते हैं ॥२०५॥ इसलिए तू संसारसे पार करनेवाले जिनेन्द्र देवकी भक्त हो, शक्तिके अनुसार नियम ग्रहण कर और मुनियोंकी पूजा कर ॥२०६॥ भाग्यसे तू उस समय संयमश्री आर्याके द्वारा प्रदत्त बोधिको प्राप्त हुई थी । आर्याने तुझे बोधि क्या दी थी मानो अधोगतिमें जाती हुई तुझे हाथका सहारा देकर ऊपर खींच लिया था ॥२०७॥ यह महाभाग्यशाली गर्भ तेरे उदरमें आया है सो आगे चलकर अनेक उत्तमोत्तम कल्याणोंका पात्र होगा ॥२०८॥ हे शोभने ! तू इस पुत्रसे परम विश्रुतिको प्राप्त होगी । सब देव मिलकर भी इसका पराक्रम खण्डित नहीं कर सकेंगे ॥२०९॥ थोड़े ही दिनोंमें तुम्हारा पतिके साथ (समागम होगा) । इसलिए हे शुभे ! चित्तको सुखी रखो और प्रमादरहित होओ ॥२१०॥ मुनिराजके ऐसा कहनेपर जो अत्यन्त हर्षित हो रही थी तथा जिनके नेत्रकमल खिल रहे थे ऐसी दोनो सखियोंने मुनिराजको बार-बार प्रणाम किया ॥२११॥ तदनन्तर निर्मल हृदयके धारक मुनिराज उन दोनोंके लिए आशीर्वाद देकर आकाश-भार्गसे संयमके योग्य स्थानपर चले गये ॥२१२॥ वे उत्तम मुनिराज उस गुहामें पर्यङ्कासनसे विराजमान थे । इसलिए आगे चलकर वह गुहा पृथिवीमें 'पर्यङ्क गुहा' इस नामको प्राप्त हो गई ॥२१३॥ इस प्रकार राजा महेन्द्रकी पुत्री अञ्जना अपने भवान्तर सुन आश्चर्यसे चकित हो गई । उसने पूर्वभवमें जो निन्द्य

१. इत्युक्ता म० । २. स त्वं म० । ३. भक्त्या म० । ४. त्वा क० । ५. निर्लंङ्घिते म० । ६. प्रमाद-

महेन्द्रदुहिता तस्यां सूतिकालव्यपेक्षया । तस्थौ मगधराजेन्द्रपूतार्यां मुनिसङ्गमात् ॥२१५॥
 वसन्तमालया तस्या विद्याबलसमृद्धया । पानाशनविधिश्चक्रे मनसा विपर्ययकृतः ॥२१६॥
 अथ प्रियविमुक्तां तां कारुण्येनेव भूयसा । असमर्थो रविर्द्रष्टुमस्तमैच्छन्निपेवितुम् ॥२१७॥
 तद्दुःखादिव मन्दत्व भास्करस्य करा ययुः । चित्रकर्मापितादित्यकरोत्करकृतोपमाः ॥२१८॥
 शोकादिव रवेर्विम्ब सहसा पातमागतम् । गिरिवृक्षाग्रससक्त करजाल समाहरन् ॥२१९॥
 अथागन्तुकसिंहस्य दृष्ट्येव क्रोधताम्रया । सध्यया^३ पिहित सर्वं क्षणेन नभसस्तलम् ॥२२०॥
 ततो भान्युपसर्गेण प्रेरितेव^४ त्वरावतो । उदियाय तमोलेखा वेतालीव रसातलात् ॥२२१॥
 कृतकोलाहला. पूर्व दृष्ट्वा तामिव भीतितः । निःशब्दा गहने तस्थुर्वृक्षाग्रेषु पतन्निणः ॥२२२॥
 प्रावर्तन्त शिवारावा महानिर्घातभीषणा. । वादिता उपसर्गेण प्रकटाः पटहा इव ॥२२३॥
 अथ धूतेभकीलालशोणकेसरसचयः । मृत्युपत्राद्भुलिच्छायां भृकुटि कुटिलां दधत् ॥२२४॥
 विमुञ्चन्विषमच्छेदान्नादान् सप्रतिशब्दकान् । वेगिनः सकल व्योम कुर्वाण इव खण्डशः ॥२२५॥
 प्रलयज्वलनज्वालाविलासाञ्चलयन्मुहुः । महास्यगह्वरे जिह्वां प्रह्नां भूरिजनक्षये ॥२२६॥

कार्य किया था उसकी वह बार-बार निन्दा करती रहती थी ॥२१४॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! मुनिराजके संगमसे जो अत्यन्त पवित्र हो चुकी थी ऐसी उस गुफामे अञ्जना प्रसव-कालकी प्रतीक्षा करती हुई रहने लगी ॥२१५॥ विद्या-बलसे समृद्ध वसन्तमाला उसकी इच्छानुसार आहार-पानकी विधि मिलाती रहती थी ॥२१६॥

अथानन्तर सूर्य अस्ताचलके सेवनकी इच्छा करने लगा अर्थात् अस्त होनेके सम्मुख हुआ । सो ऐसा जान पड़ता था मानो अत्यधिक करुणाके कारण भर्तारसे वियुक्त अञ्जनाको देखनेके लिए असमर्थ हो गया हो ॥२१७॥ सूर्यकी किरणे भी चित्रलिखित सूर्यकी किरणोंके समान मन्दपनेको प्राप्त हो गई थीं सो ऐसा जान पड़ता था मानो अञ्जनाका दुःख देखकर ही मन्द पड़ गई हो ॥२१८॥ पर्वत और वृक्षोंके अग्रभागपर स्थित किरणोंके समूहको समेटता हुआ सूर्यका विम्ब सहसा पतनको प्राप्त हो गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो अञ्जनाके शोकके कारण ही पतनको प्राप्त हुआ हो ॥२१९॥ तदनन्तर आगे आनेवाले सिंहकी कुपित दृष्टिके समान लालवर्णकी संध्यासे समस्त आकाश क्षण भरमे व्याप्त हो गया ॥२२०॥ तत्पश्चात् भावी उपसर्गसे प्रेरित होकर ही मानो शीघ्रता करनेवाली अन्धकारकी रेखा उत्पन्न हो गई । वह अन्धकारकी रेखा ऐसी जान पड़ती थी मानो पातालसे वेताली ही निकल रही हो ॥२२१॥ उस वनमे पत्नी पहले तो कोलाहल कर रहे थे पर उन्होंने जब अन्धकारकी रेखा देखी तो मानो उसके भयसे ही निःशब्द होकर वृक्षोंके अग्रभागपर बैठ रहे ॥२२२॥ महावज्रपातके समान भयङ्कर शृगालोंके शब्द होने लगे सो ऐसा जान पड़ता था मानो आनेवाले उपसर्गने अपने नगाड़े ही बजाना शुरू कर दिया हो ॥२२३॥

अथानन्तर वहाँ क्षण भरमें एक ऐसा विकराल सिंह प्रकट हुआ जो हाथियोंके रुधिरसे लाल-लाल दिखनेवाले जटाओंके समूहको बार-बार हिला रहा था, मृत्युके द्वारा भेजे हुए पत्रपर पड़ी अङ्गुलीकी रेखाके समान कुटिल भौंहको धारण कर रहा था । बीच-बीचमे प्रतिध्वनिसे युक्त वेगशाली, भयङ्कर शब्द छोड़ रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त आकाशके खण्ड-खण्ड ही कर रहा हो । जो प्रलयकालीन अग्निकी ज्वालाके समान चञ्चल एवं अनेक प्राणियोंका क्षय करनेमे निपुण जिह्वाको मुखरूपी महागर्तमे बार-बार चला रहा था । जो जीवको

१. कृतोपमात् ख०, क०, म० । २. समाहरत् ख०, व० । ३. आञ्छादितम् । विहित म० ।
 ४. शीघ्रतोपेता । ५. शृगालीशब्दाः ।

जीवाकर्षां कुशाकारा दष्टा तीक्ष्णाग्रसकटाम् । कुटिला धारयन् रौद्रा मृत्योरपि भयङ्कराम् ॥२२७॥
 उद्यत्प्रलयतीव्राशुमण्डलप्रतिमे वहन् । क्षुरयन्ती दिशा चक्र नेत्रे वित्रासकारिणी ॥२२८॥
 मस्तकन्यस्तपुच्छाग्रो नखकोटिचतचित्तिः^१ । अष्टापदतटोरस्को जघन घनमुद्गहन् ॥२२९॥
 मृत्युदैत्यं कृतान्तो नु प्रेतेशो नु कलि क्षयः । अन्तकस्यान्तको नु स्याद्भास्कोरु नु तनूनपात् ॥२३०॥
 ह्रैति सजनिताशङ्कं जन्तुभिर्वीक्षितोऽखिलैः । आविर्बभूव तद्देशे केसरी विकट क्षणात् ॥२३१॥
 तस्य प्रतिनिनादेन पूरतोदारकन्दराः । भीता ह्वातिगम्भीरं^२ रुरुधरणीधरा ॥२३२॥
 मुद्गरेणेव घोरेण शब्देनास्य तरस्विना । श्रोत्रयोस्ताडिताश्चक्रुरिति चेष्टाः शरीरिण ॥२३३॥
 लोचने मुकुलीकुर्वन्निभितुर्गं महीभृति । शार्दूलो दर्पनिर्मुक्तः सञ्जुकोप सवेपथुः ॥२३४॥
 शरपुष्पसमाकारहृष्टरोमाञ्चसभ्रम । बभ्रूतरलगुञ्जाचो विवेश विविर गिरेः ॥२३५॥
 सारङ्गामुखविभ्रसिदूर्वाक्रोमलपल्लवा । यथापूर्वक्षयास्तस्थुर्भयस्तम्भितविग्रहाः ॥२३६॥
 सभ्रान्तबभ्रुनेत्राणामुत्कर्णानां विचेतसाम् । दानौघा निश्चलाङ्गाना मातङ्गाना विचिच्छिदुः ॥२३७॥
 मण्डलस्यान्तरे कृत्वा शावकान् भयवेपितान् । तस्थुः पशवङ्गना सङ्घा यूथपन्यस्तलोचना ॥२३८॥
 केसरिध्वनिवित्रस्ता कम्पमानशरीरिका । चपुराहारयोस्त्याग चक्रे सालम्बमञ्जना ॥२३९॥

खींचनेवाली कुशाके समान तीक्ष्ण, नुकीली, सघन, कुटिल, रौद्र और मृत्युको भी भय उत्पन्न करने-
 वाली डाढ़को धारण कर रहा था । जो उदित होते हुए प्रलयकालीन सूर्य-बिम्बके समान लाल वर्ण
 एव दिशाओको व्याप्त करनेवाले भयङ्कर नेत्रोंसे युक्त था । जिसकी पूँछका अग्रभाग मस्तकपर
 रक्खा हुआ था, जो अपने नखाग्रसे पृथ्वीको खोद रहा था, जिसका चक्षुस्थल कैलाशके तटके
 समान चौड़ा था, जो स्थूल नितम्ब-मण्डलको धारण कर रहा था । और जिसे सब प्राणी ऐसी
 आशंका करते हुए देखते थे कि क्या यह साक्षात् मृत्यु है ? अथवा दैत्य है अथवा कृतान्त है,
 अथवा प्रेतराज है, अथवा कलिकाल है अथवा प्रलय है ? अथवा अन्तक (यमराज) का भी
 अन्त करनेवाला है ? अथवा सूर्य है ? अथवा अग्नि है ? ॥२२४-२३१॥ उसकी गर्जनाकी
 प्रतिध्वनिसे जिनकी बड़ी-बड़ी गुफाएँ भर गई थीं ऐसे पर्वत, ऐसे जान पड़ते थे मानो भयभीत
 हो अत्यन्त गम्भीर रुदन ही कर रहे हों ॥२३२॥ उसके मुद्गरके समान भयंकर वेगशाली
 शब्दसे कानोंमें ताड़ित हुए प्राणी नाना प्रकारकी चेष्टाएँ करने लगते थे ॥२३३॥ जो सामने खड़े
 हुए दुर्गम पहाड़पर अपने दोनों नेत्र लगाये हुए था तथा अत्यन्त अहंकारसे युक्त था ऐसे उस
 सिहने अगड़ाई लेते हुए बहुत ही कोप प्रकट किया ॥२३४॥ जिसके शरीरमें टृण-पुष्पके समान
 रोमाञ्च निकल रहे थे तथा जिसके नेत्र गुमचीके समान लाल-पीले एवं चंचल थे ऐसे सिहने
 पर्वतकी गुफामें प्रवेश किया ॥२३५॥ उसे देख जिनके मुखसे दूर्वा और कोमल पल्लवोंके ग्रास
 नीचे गिर गये थे तथा भयसे जिनका शरीर अकड़ गया था ऐसे हरिण ब्यों-के-त्यों खड़े रह
 गये ॥२३६॥ जिनके पीले-पीले नेत्र घूम रहे थे, कान खड़े हो गये थे, मनकी गति बन्द हो गई
 थी और शरीर निश्चल हो गया था ऐसे हाथियोंके मदके प्रवाह रुक गये ॥२३७॥ हरिणी आदि
 पशु-स्त्रियोंके जो समूह थे वे भयसे काँपते हुए बच्चोंको घेरेके भीतर कर खड़े हो गये । उन
 सबके नेत्र अपने भुण्डके मुखिया पर लगे हुए थे ॥२३८॥ जो सिहकी गर्जनासे भयभीत हो रही
 थी तथा जिसका शरीर काँप रहा था ऐसी अब्जनाने 'यदि उपसर्गसे जीती बचूंगी तो शरीर
 और आहार ग्रहण करूंगी अन्यथा नहीं' इस आलम्बनके साथ शरीर और आहारका त्याग कर

१ क्षति. म० । २. दैत्यकृतोऽनुस्यात्प्रेतसोऽनु (?) म० । ३ इतीरा जनिता म० । ४ रुरुधु-
 म० । ५ शरत्पुष्प समाकारो म० । ६. बभ्रूस्तरल म० । ७. दानौघनिश्चला- म० । ८. पुरुखगासत्रा म० ।
 ९. यूथविन्यस्त -ज० ।

उत्पत्य त्वरिता व्योम्नि सख्यस्यास्तद्ग्रहात्तमा । बभ्राम पक्षिणीवालं मण्डलेनाकुलात्मिका ॥२४०॥
 भूयः समीपमाकाशमेति प्रेमगुणाहता । पुनश्च तीव्रवित्रासात् प्रयाति नभसः शिरः ॥२४१॥
 अथ ते सभये दृष्ट्वा विशीर्णहृदये शुभे । गन्धर्वस्तद्गुहावासी कारुण्याश्लेषमीयिवान् ॥२४२॥
 तमूचे मणिचूलाख्यं रत्नचूला निजाङ्गना । कारुण्येनोरुणा साध्वी चोदितां द्रुतभाषिणी ॥२४३॥
 पश्य पश्य प्रिय ! त्रस्तां तां मृगेन्द्रादिह स्त्रियम् । एतत्प्रति सर्मादिष्टां द्वितीयां च नभोऽङ्गणे ॥२४४॥
 कुरु नाथ प्रसाद मे रक्षतामतिविह्वलाम् । अभिजातां वरां नारी कुतोऽपि विपमश्रिताम् ॥२४५॥
 एवमुक्तोऽथ गन्धर्वो विकृत्य शरभाकृतिम् । त्रैलोक्यभीषणद्रव्यसभारेणेव निर्मिताम् ॥२४६॥
 हस्तत्रितयमात्रस्थामञ्जनामसमागतम् । सिंह पुरोऽकरोद्देहच्छन्नसानुकदम्बकः ॥२४७॥
 तयोस्तत्राभवद्भीमः सघट्टो रवसंकुलः । विद्युदुद्योतितप्रावृद्धनसङ्घं हसन्निव ॥२४८॥
 एवविधेऽपि संप्राप्ते काले वीरभयावहे । अञ्जनासुन्दरी चक्रे हृदये जिनपुङ्गवान् ॥२४९॥
 इत्थं वसन्तमाला च मण्डलेन कृतभ्रमा । विललाप महादुःखा कुररीव नभस्तले ॥२५०॥
 हा भर्तृदारिके पूर्वं दौर्भाग्यमसि संगता । तस्मिन्नपि गते कृच्छ्राद् वज्रिता सर्वबन्धुभिः ॥२५१॥
 सप्राप्तासि वन भीम कथमप्यागतां गुहाम् । मुनिनाशवासितासन्नप्रियावासिनिवेदनात् ॥२५२॥

दिया ॥२३६॥ इसकी सखी वसन्तमाला इसे उठानेमें समर्थ नहीं थी इसलिए शीघ्रतासे आकाशमे उड़कर पक्षिणीकी तरह व्याकुल होती हुई मण्डलाकार भ्रमण कर रही थी—चक्कर लगा रही थी ॥२४०॥ वह अञ्जनाके प्रेम और गुणोंसे आकर्षित होकर बार-बार उसके पास आती थी पर तीव्र भयके कारण पुनः आकाशमे ऊपर चली जाती थी ॥२४१॥

अथानन्तर जिनके हृदय विशीर्ण हो रहे थे ऐसी उन दोनों स्त्रियोंको भयभीत देख उस गुफामें रहनेवाला गन्धर्व दयाके आलिङ्गनको प्राप्त हुआ अर्थात् उसे दया उत्पन्न हुई ॥२४२॥ उस गन्धर्वकी स्त्रीका नाम रत्नचूला था । सो बहुत भारी दयासे प्रेरित एवं शीघ्रतासे भाषण करनेवाली उस साध्वी रत्नचूलाने अपने पति मणिचूल नामा गन्धर्वसे कहा ॥२४३॥ कि हे प्रिय ! देखो देखो, सिंहसे भयभीत हुई एक स्त्री यहीं स्थित है और उससे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी स्त्री आकाशाङ्गणमे चक्कर काट रही है ॥२४४॥ हे नाथ ! मेरे ऊपर प्रसाद करो और इस अत्यन्त विह्वल स्त्रीकी रक्षा करो । यह कुलवती उत्तम नारी किसी कारण इस विपम स्थानमे आ पड़ी है ॥२४५॥ इस प्रकार कहनेपर गन्धर्व देवने विक्रियासे अष्टापदका रूप बनाया । उसका वह रूप ऐसा जान पड़ता था मानो तीनों लोकोमे जितने भयंकर पदार्थ है उन सबको इकट्ठाकर ही उसकी रचना की गई हो ॥२४६॥ अञ्जना और सिंहके बीचमे सिर्फ तीन हाथका अन्तर रह गया था कि इतनेमे ही अपने शरीरसे शिखरोके समूहको आच्छादित करनेवाला अष्टापद सिंहके सामने आकर खड़ा हो गया ॥२४७॥ तदनन्तर वहाँ सिंह और अष्टापदके बीच भयंकर युद्ध हुआ । उनका वह युद्ध भयंकर गर्जनासे युक्त था और बिजलीसे प्रकाशित वर्षाकालिक मेघोंके समूहकी मानो हँसी ही उड़ा रहा था ॥२४८॥ इस प्रकार वहाँ शूरवीर मनुष्योंको भी भय उत्पन्न करनेवाला समय यद्यपि आया था तो भी अञ्जना निर्भय रहकर हृदयमे जिनेन्द्र देवका ध्यान करती रही ॥२४९॥ आकाशमें मण्डलाकार भ्रमण करती तथा महा दुःखसे भरी वसन्तमाला कुररीकी तरह इस प्रकार विलाप कर रही थी ॥२५०॥ हाय राजपुत्रि ! तुम पहले दौर्भाग्यको प्राप्त रही फिर जिस-किसी तरह कष्टसे दौर्भाग्य समाप्त हुआ तो समस्त बन्धुजनोंने तुम्हारा त्याग कर दिया ॥२५१॥ भयंकर वनमें आकर किसी तरह इस गुफामें आई और निकट कालमें

१. वालमण्डलेन म० । २. चोदिताद्भुतभाषिणी व० । ३. एतद्भीतिसमा- म० । ४. आपद्गताम् । विषमाश्रिताम् म० । ५. विक्रिया कृत्वा । ६. -णैव निर्मितम् म० । ७. गताम् म० । ८. सिंहरिपुरकरोद्देहं म० । ९. कुटुम्बकम् क० ।

सा त्व केसरिणो वक्त्रमधुना देवि यास्यसि । दृष्टाकरालमुद्वृत्तद्विरदक्षयकारणम् १ ॥२५३॥
 हा देवि ते गतः कालो दुर्जनस्य विधेर्वशात् । उपर्युपरिदुःखेन मम दुर्मतिकारणात् ॥२५४॥
 परित्रायस्व हा नाथ ! पवनञ्जय ! गेहिनीम् । हा महेन्द्र ! कथं नेमा तनया परिरक्षसि ॥२५५॥
 हा किं केतुमति क्रूरे मुधास्या त्वयका कृतम् । हा करुणे मनोवेगे तनया किं न रक्षसि ॥२५६॥
 मरण राजपुत्रीय प्राप्नोति विजने वने । कुरुत त्राणमेतस्या कृपया वनदेवता ॥२५७॥
 मुनेरपि तथा तस्य लोकतत्त्वावबोधिनः । शुभार्थसूचन वाक्य संभवेदन्यथा किमु ॥२५८॥
 आक्रन्दमिति कुर्वाणा वोलारूढेव विह्वला । चक्रे वसन्तमालार्थं स्वामिन्यन्तं गतागतम् ॥२५९॥
 अथ भङ्ग गत सिंह गरभेण तलाहतः । अन्तर्दधे कृतार्थश्च शरभो निलये निजे ॥२६०॥
 तत स्वप्नोपम दृष्टा चिरतं युद्धमेतयोः । द्रुत वसन्तमालागात् स्वेदिगात्रा पुनर्गुहाम् ॥२६१॥
 अन्तःपल्लवकान्ताभ्या हस्ताभ्या कृतमार्गणा । क्वासि क्वासीति भीशोपात्कृतगद्गदनिस्वना ॥२६२॥
 ज्ञात्वा वसन्तमाला तां स्पर्शेनात्यन्तनिश्चलाम् । ता प्रतिप्राणनाशङ्कासमाकुलितमानसा ॥२६३॥
 ध्रियसे देवि देवीति चालयन्ती पुन पुनः । जगाद स्वामिनीवक्षोविन्यस्तकरपल्लवा ॥२६४॥
 ततोऽसौ तत्करस्पर्शादागतस्पष्टचेतना । चिरात्सखीयमस्मीति जगादास्पष्टया गिरा ॥२६५॥
 ततस्ते सङ्गमात्प्राप्य कियतीमपि निर्वृतिम् । पुनर्जन्मेव मेनाते लब्धसभापणोद्यते ॥२६६॥

ही पतिका समागम प्राप्त होगी' यह कहकर मुनिराजने आशवासन दिया पर अब हे देवि ! तुम सिंहके उस मुखमें जा रही हो जो दाढ़ोंसे भयंकर हैं तथा उड़ण्ड हाथियोंके क्षयका कारण है ॥२५२-२५३॥ हाय देवि ! दुष्ट विधाताके वश और मेरी दुर्बुद्धिके कारण तुम्हारा समय उत्तरोत्तर दुःखसे ही व्यतीत हुआ ॥२५४॥ हा नाथ पवनञ्जय ! अपनी गृहिणीकी रक्षा करो । हा महेन्द्र ! तुम इस पुत्रीकी रक्षा क्यों नहीं करते हो ? ॥२५५॥ हा दुष्टा केतुमति ! तूने व्यर्थ ही इसके विषयमें क्या अनर्थ किया ? हा दयावती मनोवेगे ! अपनी पुत्रीकी रक्षा क्यों नहीं कर रही हो ? ॥२५६॥ यह राजपुत्री निर्जन वनमें मरणको प्राप्त हो रही है । हे वनदेवताओ ! कृपा कर इसकी रक्षा करो ॥२५७॥ लोकके यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले उन मुनिके शुभसूचक वचन भी क्या अन्यथा हो जावेंगे ? ॥२५८॥ इस प्रकार रुदन करती तथा मूला पर चढ़ी हुईके समान विह्वल वसन्तमाला जल्दी-जल्दी स्वामिनीके समीप गमन तथा आगमन कर रही थी अर्थात् साहस कर समीप आती थी फिर भयकी तीव्रतासे दूर हट जाती थी ॥२५९॥

अथानन्तर अष्टापदकी चपेटसे आहत होकर सिंह नष्ट हो गया और कृतकृत्य होकर अष्टापद अपने स्थानमें अन्तर्हित हो गया ॥२६०॥ तदनन्तर स्वप्नके समान दोनोंका युद्ध समाप्त हुआ देख पसीनासे लथ-पथ वसन्तमाला शीघ्र ही गुहामें आई ॥२६१॥ गुहाके भीतर पल्लवके समान कोमल हाथोंसे अञ्जनाको खोजती हुई वसन्तमाला कह रही थी कि कहाँ हो ? कहाँ हो ? उस समय भी उसका पूरा भय नष्ट नहीं हुआ था इसलिए आवाज गद्गद निकल रही थी ॥२६२॥ वसन्तमालाने हाथके स्पर्शसे जाना कि यह बिलकुल निश्चल पड़ी हुई है । इसलिए उसका मन 'यह जीवित है या नहीं' इस आशङ्कासे व्याकुल हो उठा ॥२६३॥ वह उसके वक्ष स्थल पर हाथ रखकर वार-वार उकसाती हुई कह रही थी कि हे देवि ! देवि ! जिन्दा हो ? ॥२६४॥ तदनन्तर वसन्तमालाके हाथके स्पर्शसे जब अञ्जनाको चेतना आई और कुछ देर बाद उसने समझ लिया कि यह सखी है तब अस्पष्ट वाणीमें उसने कहा कि 'मैं हूँ' ॥२६५॥ तत्पश्चात् वे दोनों सखियाँ परस्पर मिलकर अनिर्वचनीय सुखको प्राप्त हुई और अचसरके अनुसार वार्तालाप करनेमें उद्यत

१. कारणम् ख० । २. दुर्मतिकारणात् म० । ३. मुधास्या त्वयि का कृता म० । ४. माला तु म० ।
 ५. भङ्गतः म०, ख० ।

भयशेषेण चार्भीला मुग्धे ता जज्ञतुर्निशाम् । समासमा कृताशेषबन्धुनैष्टुर्यसकथे ॥२६७॥
 ततो विध्वस्य नागारिं नागारिन् पन्नगम् । प्रमोदवानसौ मद्य पीतवान् सुमहागुणम् ॥२६८॥
 गन्धर्वकान्तयावाचि गन्धर्वो लब्धवर्णया । तदूरी बाहुर्माधाय तरन्तारकनेत्रया ॥२६९॥
 स्थानक यच्छ मे नाथ जिगासाम्यधुनोचितम् । उपदेशो हि गातव्य कादम्बर्यामनुत्तमम् ॥२७०॥
 शेष साध्वसमेते च वनिते परिमुञ्चतः । श्रुत्वा नौ मधुरं गीतं देवीयं हृदयगमम् ॥२७१॥
 अर्धरात्रे ततस्तस्मिन्नन्यशब्दविवर्जिते । सस्कृत्यावीवदद्वीणां गन्धर्वः श्रोत्रहारिणीम् ॥२७२॥
 कांसिके वादयन्ती च प्रियवक्त्राहितेक्षणा । रत्नचूला जगौ मन्द मुनिक्षोभणकारणम् ॥२७३॥
 तयोर्धनं कृतं वाद्य सुपिर च कृत ततम् । परिवर्गेण गम्भीरकरतलक्रमोचितम् ॥२७४॥
 पाणिधैरेकतानेन मन्द्रध्वनिसमन्वितम् । तथा वैणविकैर्वाढ प्रवीणैर्भ्रुविलासिभिः ॥२७५॥
 प्रवीणाभः प्रवालाभा वीणा चारूपमानिकाम् । कोणेनाताडयद्यत्तो गन्धर्वः काकलीबुधः ॥२७६॥
 मध्यमर्षभगान्धारपड्जपञ्चमधैवतान् । निपादसप्तमांश्रक्रे स स्वराङ्कममत्यजन् ॥२७७॥
 भेजे वृत्तीर्यथास्थान द्रुतमध्यविलम्बिताः । एकविंशतिसख्याश्च मूर्च्छना नर्तितेक्षणाः ॥२७८॥
 हाहाहूहूसमान स गान चक्रेऽथवाधिकम् । प्रायो गन्धर्वदेवानां प्रसिद्धिमिदमागतम् ॥२७९॥

हो ऐसा समझने लगीं मानो हम लोगोंका दूसरा ही जन्म हुआ है ॥२६६॥ भय शेष रहनेसे उन भोलीभाली स्त्रियोने उस भयावनी रात्रिको वर्षके बराबर भारी समझा । वे सारी रात जागकर समस्त बन्धुजनोकी निष्ठुरताकी चर्चा करती रहीं ॥२६७॥

तदनन्तर जिस प्रकार गरुड़ सोंपको नष्ट कर देता है उसी प्रकार गन्धर्व सिंहको नष्ट कर बड़ा हर्षित हुआ और हर्षित होकर उसने महागुणकारी मद्यका पान किया ॥२६८॥ जिसके नेत्र चञ्चल हो रहे थे ऐसी गन्धर्वकी विदुषी स्त्रीने उसकी जाँघ पर अपनी भुजा रख गन्धर्वसे कहा कि ॥२६९॥ हे नाथ ! मुझे अवसर दीजिए मैं इस समय कुछ गाना चाहती हूँ क्योंकि मद्यपानके अनन्तर उत्तम गाना गाना चाहिए ऐसा उपदेश है ॥२७०॥ साथ ही हम दोनोका मधुर दिव्य एवं हृदयहारी संगीत सुनकर ये दोनो स्त्रियाँ अवशिष्ट भयको भी छोड़ देंगी ॥२७१॥ तदनन्तर जब अर्धरात्रि हो गई और किसी दूसरेका शब्द भी सुनाई नहीं पड़ने लगा तब गन्धर्वने कानोंको हरनेवाली वीणा ठीककर बजाना शुरू किया ॥२७२॥ और उसकी स्त्री रत्नचूला पतिके मुखपर नेत्र धारण कर मंजीरा बजाती हुई धीरे-धीरे गाने लगी । उसका वह गाना मुनियोको भी क्षोभ उत्पन्न करनेका कारण था ॥२७३॥ उस समय उन दोनोके बीच घन, वाद्य, सुपिर और तत इन चारो प्रकारके बाजोका प्रयोग चल रहा था और परिजनके अन्य लोग गम्भीर हाथोसे क्रमानुसार योग्य ताल दे रहे थे ॥२७४॥ तबला बजानेमे निपुण देव एकचित्त होकर गम्भीर ध्वनिके साथ तबला बजा रहे थे तो बॉसुरी बजानेमे चतुर देव भौंह चलाते हुए अच्छी तरह बॉसुरी बजा रहे थे ॥२७५॥ उत्तम आभाको धारण करनेवाला यक्ष प्रवालके समान कान्तिवाली तथा सुन्दर उपमासे युक्त वीणाको तमूरेसे बजा रहा था । तो स्वरोकी सूक्ष्मताको जाननेवाला गन्धर्व, क्रमको नहीं छोड़ता हुआ मध्यम, ऋषभ, गान्धार, पड्ज, पञ्चम, धैवत और निषाद इन सात स्वरोको निकाल रहा था ॥२७६-२७७॥ गाते समय वह गन्धर्व द्रुता, मध्या और विलम्बिता इन तीन वृत्तियोका यथास्थान प्रयोग करता था और जिनसे नेत्र नाच उठते हैं, ऐसी इक्कीस मूर्च्छनाओ का भी यथावसर उपयोग करता था ॥२७८॥ वह देवोके गवैया जो हाहा हूहू है उनके समान अथवा उनसे भी अधिक उत्तम गान गा रहा था और प्रायःकर गन्धर्व देवोमे यही गान

१. सिंहम् । २. गरुड इव । ३. सद्यः प्रीतवान् सुमहागुणम् । ४. -मादाय म० । ५. स्वनक म० । ६ जिगासाम्य म० । ७. उपदशा व०, ज० । उपदशो ख० । ८. विलासिनः म० ।

स्वनान्येकोनपञ्चाशत्स^१जगौ परिनिष्ठितम् । जिनेन्द्रगुणसम्बन्धैर्वचनैर्ललिताक्षरै ॥२८०॥

विद्युन्मालावृत्तम्

‘देवादेवैर्भक्तिप्रह्वै’ पुष्पैरघैर्नानागन्धै । अर्चासुचैर्नीतिं बन्ध देव भक्त्या त्वामहन्तम् ॥२८१॥

आर्यागीतिच्छन्दः

त्रिभुवनकुशलमतिशय-पूत [नित्य] नमामि भक्त्या परया ।

मुनिसुव्रतचरणयुग सुरपतिमुकुटप्रवृत्तनखमणिकिरणम् ॥२८२॥

अनुष्टुप्

ततो वसन्तमाला तद्वेद्यमत्यन्तशोभनम् । प्रशशसाश्रुतपूर्वं विस्मयव्याप्तमानसा ॥२८३॥

अहो गीतमहो गीत केनाप्येतन्मनोहरम् । आर्द्राकृतमिवानेन हृदय मे सुधामुचा ॥२८४॥

स्वामिनी च जगादैवं देवि कोऽप्यनुकम्पकः । देवोऽयं येन नौ रक्षा कृता केसरिनोदनात् ॥२८५॥

मन्येऽस्मद्वृत्तयेऽनेन गीतमेतच्छ्रुतिप्रियम् । श्रुताबलाकलध्वानमन्तरे सकलाङ्गकम् ॥२८६॥

देवि शीलवती कस्य नानुकम्पासि शोभने । महारण्येऽपि भव्याना भवन्ति सुहृदो जना ॥२८७॥

उपसर्गस्य विध्वसादेतस्मात्ते सुनिश्चितः । भविता प्रियसपर्कं किं वा वक्तव्यन्यथा मुनिः ॥२८८॥

तस्मात्साधुमिमं देवं समाश्रित्य कृतोचितम् । मुनिपर्यङ्गपूताया गुहायामत्र सचयात् ॥२८९॥

मुनिसुव्रतनाथस्य विन्यस्य प्रतियातनाम् । अर्चयन्त्यौ सुखप्राप्त्यै स्वामोदै कुसुमैरलम् ॥२९०॥

सुखप्रसूतिमेतस्य गर्भस्याध्यायचेतसि । विस्मृत्य वैरह दुःख समय किञ्चिदास्वहे ॥२९१॥

प्रसिद्धिको प्राप्त है ॥२७६॥ वह उच्चास ध्वनियोमे गा रहा था तथा उसका वह समस्त गान जिनेन्द्र भगवान्के गुणोसे सम्बन्ध रखनेवाले मनोहर अक्षरोसे युक्त वचनावलीसे निर्मित था ॥२८०॥ वह गा रहा था कि भक्तिसे नम्रीभूत सुर-असुर पुष्प, अर्घ तथा नाना प्रकारकी गन्धसे जिनकी उत्तम पूजा करते हैं ऐसे देवाधिदेव वन्दनीय अरहन्त भगवान्को मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ ॥२८१॥ उसने यह भी गाया कि मैं श्री मुनिसुव्रतभगवान्के उस चरण युगलको उत्कट भक्तिसे नमस्कार करता हूँ जो त्रिभुवनकी कुशल करनेवाला है, अत्यन्त पवित्र है और इन्द्रके मुकुटका सम्बन्ध पाकर जिसके नखरूपी मणियोसे किरणें फूट पडती हैं ॥२८२॥

तदनन्तर जिसका मन आश्चर्यसे व्याप्त था ऐसी वसन्तमालाने उस अश्रुतपूर्व तथा अत्यन्त सुन्दर संगीतकी बहुत प्रशंसा की ॥२८३॥ वह कहने लगी कि वाह ! वाह ! यह मनोहर गान किसने गाया है । इस अमृतवर्षी गवैथाने तो मेरा हृदय मानो गीला ही कर दिया है ॥२८४॥ उसने स्वामिनीसे कहा कि हे देवि ! यह कोई देव है जिसने सिंह भगाकर हम लोगोकी रक्षा की है ॥२८५॥ जिसके बीचमें स्त्रीका मधुर शब्द सुनाई देता था तथा जो संगीतके समस्त अङ्गोसे सहित था ऐसा यह कर्णप्रिय गाना, जान पड़ता है इसने हम लोगोके लिए ही गाया है ॥२८६॥ हे देवि ! हे शोभने ! उत्तम शीलको धारण करनेवाली ! तू किसकी दया-पात्र नहीं है ? भव्य जीवोको महा अटवीमे भी मित्र मिल जाते हैं ॥२८७॥ इस उपसर्गके दूर होनेसे यह सुनिश्चित है कि तुम्हारा पतिके साथ समागम होगा । अथवा क्या मुनि भी अन्यथा कहते हैं ? ॥२८८॥ इसलिए इस उत्तम देवका यथोचित आश्रय लेकर मुनिराजको पद्मासनसे पवित्र इस गुफामे श्री मुनिसुव्रत भगवान्की प्रतिमा विराजमान कर सुख-प्राप्तिके लिए अत्यन्त सुगन्धित फूलोंसे उसकी पूजा करती हुई हम दोनो कुछ समय तक यहीं रहें । इस गर्भकी सुखसे

१. स जगौ म० । २. सुरसुरैः । ३. श्रुतिप्रियम् म० । ४. कृत्वा कलकलध्वानमन्तरे म० । श्रुत्वाबलाव- व० । ५. -मघसत्तयात् म० । ६. सुष्ठु आमोदो येषा तैः । स्वमोदैः म० ।

त्वत्सङ्गमं समासाद्य प्रमोद परमागतः । नैर्भरैः शीकरैरेप हसतीव महीधरः ॥२६२॥
 फलभारविनम्राग्रा लसत्कोमलपल्लवाः । पुष्पहासकृतो वृक्षा इमे तोषमुपागताः ॥२६३॥
 मयूरसारिकाकीरकोकिलादिकलस्वनैः । कृतजल्पा इवैतस्य वनाभोगा महीभृतः ॥२६४॥
 नानाधातुकृतच्छायास्तरुसघातवाससः । अस्मिन् गुहा विराजन्ते कुसुमामोदवासिताः ॥२६५॥
 जिनपूजनयोग्यानि पङ्कजानि सरस्सु हि । विद्यन्ते तव वक्त्रस्य धारयन्ति समानताम् ॥२६६॥
 विधत्स्व धृतिमत्रेशे माभूश्चिन्तावशात्मिका । कल्याणमत्र ते सर्वं जनयिष्यन्ति देवताः ॥२६७॥
 अधुना दिनवक्त्रे ते विज्ञापयेवानघ वपुः । कोलाहलकृतो जाताः प्रमोदेन पतत्रिणः ॥२६८॥
 पलाशाप्रस्थितानेते वृक्षा मन्दानिलेरितान् । मुञ्चन्त्यानन्दवाष्पाभानवश्यायकणान् जडान् ॥२६९॥
 सप्रेष्य प्रथमं सध्यां दूतीमिव सरागिकाम् । उदन्तं ते परिज्ञातुमेव भानुः समुद्रतः ॥३००॥
 एवमुक्ताक्षनावोचत्सखि मे सर्वबान्धवा । त्वमेव त्वयि सत्यां च ममेद विपिनपुरम् ॥३०१॥
 आपन्नमध्योत्सवावस्थाः सेवते यस्य यो जनः । स तस्य बान्धवो बन्धुरपि शत्रुरसौख्यदः ॥३०२॥
 इत्युक्त्वा देवदेवस्य विन्यस्य प्रतियातनाम् । पूजयन्त्यौ स्थिते तत्र ते विद्याकृतवर्तने ॥३०३॥
 गन्धर्वोऽप्यनयोश्चक्रे सर्वतः परिरक्षणम् । आतोद्य प्रत्यह कुर्वन् कारुण्याजिनभक्तितः ॥३०४॥

प्रसूति हो जाय चित्तमे इसी बातका ध्यान रखें और विरह-सम्बन्धी सब दुःख भूल जावे ॥२६६-२६९॥ तुम्हारा समागम पाकर परम हर्षको प्राप्त हुआ । यह पर्वत भरनोके जल-कणोके बहाने मानो हँस ही रहा है ॥२६२॥ जिनके अग्रभाग फलोके भारसे झुक रहे हैं, जिनके कोमल पल्लव लहलहा रहे हैं और जो पुष्पोंके बहाने हँसी प्रकट कर रहे हैं ऐसे ये वृक्ष तुम्हारे समागमसे ही मानो परम संतोपको प्राप्त हो रहे है ॥२६३॥ इस पर्वतके जङ्गली मैदान मोर, मैना, तोता तथा कोयल आदिकी मधुर ध्वनिसे ऐसे जान पड़ते है मानो वार्त्तालाप ही कर रहे हो ॥२६४॥ जिनमे गेरू आदि नाना धातुओंकी कान्ति छाई हुई है, जिनपर वृक्षोंके समूह वृक्षके समान आवरण किये हुए हैं और जो फूलोंकी सुगन्धिसे सुवासित हैं ऐसी इस पर्वतकी गुफाएँ स्त्रियोंके समान सुशोभित हो रही हैं ॥२६५॥ तालाबोमे जिनेन्द्र देवकी पूजा करनेके योग्य जो कमल फूल रहे हैं वे तुम्हारे सुखकी समानता धारण करते हैं ॥२६६॥ हे स्वामिनि । यहाँ धैर्य धारण करो, चिन्ताकी वशीभूत मत होओ । यहाँ देवता तुम्हारा सब प्रकारका कल्याण करेगे ॥२६७॥ अब दिनके प्रारम्भमें पक्षी चिहक रहे हैं सो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे शरीरकी स्वस्थता जानकर हर्षसे मानो कोलाहल ही कर रहे है ॥२६८॥ ये वृक्ष पत्तोंके अग्रभागमें स्थित तथा मन्द-मन्द वायुसे प्रेरित शीतल ओसके कणोको छोड़ रहे है सो ऐसे जान पड़ते है मानो हर्षके आँसू ही छोड़ रहे हो ॥२६९॥ तुम्हारा वृत्तान्त जाननेके लिए सर्व-प्रथम दूतीके समान रागवती (लालिमासे युक्त) सन्ध्याको भेजकर अब पीछेसे यह सूर्य स्वयं उदित हो रहा है ॥३००॥

वसन्तमालाके ऐसा कहनेपर अञ्जनाने उत्तर दिया कि हे सखि । मेरे समस्त बान्धव तुम्हीं हो । तेरे रहते हुए मुझे यह वन नगरके समान है ॥३०१॥ जो मनुष्य जिसके आपत्तिकाल, मध्यकाल और उत्सवकाल अर्थात् सभी अवस्थाओंमें सेवा करता है वही उसका बन्धु है तथा जो दुःख देता है वह बन्धु होकर भी शत्रु है ॥३०२॥ इतना कहकर वे दोनों गुफामे देवाधिदेव मुनि सुव्रतनाथकी प्रतिमा विराजमान कर उसकी पूजा करती हुई रहने लगीं । विद्याके बलसे, उनके भोजनकी व्यवस्था होती थी ॥३०३॥ जिनेन्द्र भगवान्की भक्तिसे प्रतिदिन सङ्गीत करता हुआ गन्धर्वदेव भी करुणा भावसे इन दोनों स्त्रियोंकी सबसे रक्षा करता था ॥३०४॥

अथान्यदाक्षनावोचत् कुक्षिर्मे चलित् सखि । आकुलेव च जातास्मि किमिदं नु भविष्यति ॥३०५॥
 ततो वसन्तमालोचे समयः शोभने तव । अवश्यं प्रसवस्यैव प्राप्नो भव सुखस्थिता ॥३०६॥
 ततो विरचिते तल्पे तथा कोमलपल्लवैः । असूत सा सुत चावीं प्राचीवाशा विरोचनम् ॥३०७॥
 जातेन सा गुहा तेन तेजसा गात्रजन्मना । हिरण्ययीव सजाता निर्धूतध्वान्तसचया ॥३०८॥
 ततस्तमङ्गमारोप्य प्रमोदस्यापि गोचरे । स्मृतोभयकुला दैन्यं प्राप्ता प्ररुदिताभवत् ॥३०९॥
 विललाप महावत्स ! कथं ते जननोत्सवः । क्रियता मयैकैतस्मिञ्जनस्य गहने वने ॥३१०॥
 स्थानेऽजनिष्यथाश्रेत्त्व पितुर्मातामहस्य वा । अभविष्यन्महानन्दो जननोन्मत्तकारक ॥३११॥
 मुखचन्द्रमिमं दृष्ट्वा तव चारुविलोचनम् । न भवेद्विस्मय कस्य भुवने शुभचेतसः ॥३१२॥
 करोमि मन्दभाग्या किं सर्ववस्तुविवर्जिता । विधिनाह दशमेतां प्रापिता दुःखदायिनीम् ॥३१३॥
 जन्तुना सर्ववस्तुभ्यो वाञ्छ्यते दीर्घजीविता । यस्मात्त्व जीवितात्तस्मान्मम त्वत्स परा स्थितिम् ॥३१४॥
 ईदृशे पतितारण्ये सद्यः प्राणापनोदिनि । यजीवामि तवैवायमनुभाव सुकर्मणः ॥३१५॥
 मुञ्चन्तीमिति तां वाच जगादैव हिता सखी । देवि कल्याणपूर्णा त्वं या प्राप्तासीदृश सुतम् ॥३१६॥
 चारुलक्षणपूर्णेऽयं दृश्यतेऽस्य शुभा तनुः । अत्यन्तमहतीमृद्धिं वहत्येपा मनोहरा ॥३१७॥
 पदपदैः कृतसगीताश्चलत्कोमलपल्लवाः । तव पुत्रोत्सवादेता नृत्यन्तीव लताङ्गना ॥३१८॥
 तवास्य चानुभावेन बालस्यावालतेजसः । भविष्यत्यखिलं भद्रं मोन्मनीभूरनर्थकम् ॥३१९॥

अथानन्तर किसी दिन अञ्जना बोली कि हे सखि ! मेरी कूख चञ्चल हो रही है और मैं व्याकुल-सी हुई जा रही हूँ, यह क्या होगा ? ॥३०५॥ तब वसन्तमालाने कहा कि हे शोभने ! अवश्य ही तेरे प्रसवका समय आ पहुँचा है इसलिए सुखसे बैठ जाओ ॥३०६॥ तदनन्तर वसन्तमालाने कोमल पल्लवोंसे शय्या बनाई सो उसपर, जिस प्रकार पूर्वदिशा सूर्यको उत्पन्न करती है उसी प्रकार अञ्जनासुन्दरीने पुत्र उत्पन्न किया ॥३०७॥ पुत्र उत्पन्न होते ही उसके शरीर सम्बन्धी तेजसे गुफाका समस्त अन्धकार नष्ट हो गया और गुफा ऐसी हो गई मानो सुवर्णकी ही बनी हो ॥३०८॥ यद्यपि वह हर्षका समय था तो भी अञ्जना दोनों कुलोका स्मरणकर दीनताको प्राप्त हो रही थी और इसीलिए वह पुत्रको गोदमें ले रौने लगी ॥३०९॥ वह विलाप करने लगी कि हे वत्स ! मनुष्यके लिए भय उत्पन्न करनेवाले इस सघन वनमें मैं तेरा जन्मोत्सव कैसे करूँ ? ॥३१०॥ यदि तू पिता अथवा नानाके घर उत्पन्न हुआ होता तो मनुष्योंको उन्मत्त बना देनेवाला महा-आनन्द मनाया जाता ॥३११॥ सुन्दर नेत्रोंसे सुशोभित तेरे इस मुखचन्द्रको देखकर संसारमें किस सहृदय मनुष्यको आश्चर्य उत्पन्न नहीं होगा ॥३१२॥ क्या करूँ ? मैं मन्दभागिनी सब वस्तुओंसे रहित हूँ । विधाताने मुझे यह सर्वदुःख-दायिनी अवस्था प्राप्त कराई है ३१३॥ चूँकि संसारके प्राणी सब वस्तुओंसे पहले दीर्घायुष्यकी ही इच्छा रखते हैं इसलिए हे वत्स ! मेरा आशीर्वाद है कि तू उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त जीवित रहे ॥३१४॥ तत्काल प्राण हरण करनेवाले ऐसे जङ्गलमें पड़ी रहकर भी जो मैं जीवित हूँ यह तुम्हारे पुण्य कर्मका ही प्रभाव है ॥३१५॥ इस प्रकार वचन बोलती हुई अञ्जनासे हितकारिणी सखीने कहा कि हे देवि ! चूँकि तुमने ऐसा पुत्र प्राप्त किया है इसलिए तुम कल्याणोंसे परिपूर्ण हो ॥३१६॥ यह पुत्र उत्तम लक्षणोंसे युक्त दिखाई देता है । इसका यह शुभ सुन्दर शरीर अत्यधिक सम्पदाको धारण कर रहा है ॥३१७॥ जिनपर भ्रमर सङ्गीत कर रहे हैं और जिनके कोमल पल्लव हिल रहे हैं ऐसी ये लताएँ तुम्हारे पुत्रके जन्मोत्सवसे मानो नृत्य ही कर रही हैं ॥३१८॥ उत्कट तेजको धारण करनेवाले इस बालकके प्रभावसे सब कुल ठीक होगा । तुम व्यर्थ ही खेद-खिन्न न हो ॥३१९॥

१. गोचरम् म० । २. दैन्यप्राप्ता म०, ज०, क०, ख० । ३. किं मयैतस्मिन् म० ।

एव तयोः समालापे वर्तमाने नभस्तले । क्षणेनाविरभूत्तुङ्गं विमानं भास्करप्रभम् ॥३२०॥
 ततो वसन्तमाला त दृष्ट्वा देव्यै न्यवेदयद् । विप्रलापं ततो भूयः सैवमाशङ्कयाकरोत् ॥३२१॥
 कोऽप्यकारणवैरी मे^१ क्रिमेषोऽपनयेत्सुतम् । उताहो बान्धवः कश्चिन्नवेदेप समागतः ॥३२२॥
 विप्रलाप ततः श्रुत्वा तद्विमानं चिरं स्थितम् । अवातरत्कृपायुक्तो विद्याभृद्वियदङ्गणात् ॥३२३॥
 स्थापयित्वा गुहाद्वारि विमानं स ततोऽविशत् । पत्नीभिः सहितः शङ्का वहमानो महानयम् ॥३२४॥
 वसन्तमालया दत्ते स्वागतेऽसौ सुमानसः । उपाविशत्स्वभृत्येन प्रापिते च समासने ॥३२५॥
 ततः क्षणमिव स्थित्वा स भारत्या गभीरया । सारङ्गानुत्सुर्का^२ कुर्वन् घनगर्जितशङ्किनः ॥३२६॥
 ऊचे तां विनय विभ्रत्परं स्वागतदायिनीम् । दशनज्योत्सना कुर्वन् बालभासं विमिश्रिताम्^३ ॥३२७॥
 सुमर्यादे वदेय का दुहिता कस्य वा शुभा । पत्नी वा कस्य कस्माद्वा महारण्यमिदं श्रिता ॥३२८॥
 घटते नाकृतेरस्याः समाचारो विनिन्दितः । ततः कथमिमं प्राप्ता विरहं सर्वबन्धुभिः ॥३२९॥
 भवन्त्येवाथवा लोके प्रायोऽकारणवैरिणः । माध्यस्थ्येऽपि निपण्णानां प्रेरिताः पूर्वकर्मभिः ॥३३०॥
 ततो दुःखभरोद्वेलावपसरुद्धकण्ठिका । कृच्छ्रेणोवाच^४ सा मन्दं भूतलन्यस्तवीक्षणम् ॥३३१॥
 महानुभाव वाचैव ते विशिष्ट मनः शुभम् । रोगमूलस्य हिच्छाया न स्निग्धा जायते तरोः ॥३३२॥
 भावप्रवेदनस्थानं गुणिनस्त्वाद्दशा यतः । निवेदयामि ते तेन शृणु जिज्ञासितं पदम् ॥३३३॥
 दुःखं हि नाशमायाति सज्जनाय निवेदितम् । महतां ननु शैलीयं यदापदगततारणम् ॥३३४॥

इस प्रकार उन दोनों सखियोंमें वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी क्षण आकाशमें सूर्यके समान प्रभा वाला एक ऊँचा विमान प्रकट हुआ ॥३२०॥ तदनन्तर वसन्तमालाने वह विमान देखकर अञ्जनाको दिखलाया सो अञ्जना आशङ्कासे पुनः ऐसा विप्रलाप करने लगी कि ॥३२१॥ क्या यह मेरा कोई अकारण वैरी है जो पुत्रको छीन ले जायगा ? अथवा कोई मेरा भाई ही आया है ॥३२२॥ तदनन्तर अञ्जनाका उक्त विप्रलाप सुनकर वह विमान देरतक खड़ा रहा फिर कुछ देर बाद एक दयालु विद्याधर आकाशाङ्गणसे नीचे उतरा ॥३२३॥ गुफाके द्वारपर विमान खड़ाकर वह विद्याधर भीतर घुसा । उसकी पत्नियाँ उसके साथ थीं और वह मन-ही-मन शङ्कित हो रहा था ॥३२४॥ वसन्तमालाने उसका स्वागत किया । तदनन्तर अपने सेवकके द्वारा दिये हुए सम आसनपर वह सहृदय विद्याधर बैठ गया ॥३२५॥ तत्पश्चात् क्षणभर ठहरकर अपनी गम्भीर वाणीसे मेघगर्जनाकी शङ्का करनेवाले चातकोको उत्सुक करता हुआ बड़ी विनयसे स्वागत करनेवाली वसन्तमालासे बोला । बोलते समय वह अपने दाँतोकी कान्तिसे बालककी कान्तिको मिश्रित कर रहा था ॥३२६-३२७॥ उसने कहा कि हे सुमर्यादे ! बता यह किसकी लड़की है ? किसकी शुभपत्नी है और किस कारण इस महावनमें आ पड़ी है ? ॥३२८॥ इसकी आकृतिसे निन्दित आचारका मेल नहीं घटित होता । फिर यह समस्त बन्धुजनोंके साथ इस विरह को कैसे प्राप्त होगई ? ॥३२९॥ अथवा यह संसार है इसमें माध्यस्थ्यभावसे रहनेवाले लोगोंके भी पूर्व कर्मोंसे प्रेरित अकारण वैरी हुआ ही करते है ॥३३०॥

तदनन्तर दुःखके भारसे अत्यधिक निकलते हुए वाष्पोसे जिसका कण्ठ रुक गया था ऐसी वसन्तमाला पृथ्वीपर दृष्टि डालकर धीरे-धीरे बोली ॥३३१॥ कि हे महानुभाव ! आपके वचनसे ही आपके विशिष्ट शुभ हृदयका पता चलता है क्योंकि जो वृक्ष रोगका कारण होता है उसको छाया स्निग्ध अथवा आनन्ददायिनी नहीं होती है ॥३३२॥ चूँकि आप जैसे गुणी मनुष्य अभिप्राय प्रकट करनेके पात्र है अतः आपके लिए जिसे आप जानना चाहते हैं वह कहती हूँ, सुनिए ॥३३३॥ यह नोति है कि सज्जनके लिए बताया हुआ दुःख नष्ट हो जाता है क्योंकि

१. किमथोपनयेत्सुतम् म० । २. -नुत्सुखीकुर्वन् म० । ३. विमिश्रितम् म० । ४. सानन्द ख०, ज०, म०, ब० ।

शृण्वेपा विष्टपव्यापियशसो विमलात्मनः । सुता महेंद्रराजस्य नामतः प्रथिताञ्जना ॥३३५॥
 प्रह्लादराजपुत्रस्य गुणाकूपारचेतसः । पत्नी पवनवेगस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥३३६॥
 सोऽन्यदा स्वैरविज्ञातः कृत्वास्था गर्भसंभवम् । शासनाजनकस्यागाद्रावणस्य सुहृद्युधे ॥३३७॥
 दुःस्वभावतया श्वश्र्वा ततः कारुण्यमुक्तया । मूढया जानक गोह प्रेषितेय मलोत्थिता ॥३३८॥
 ततो नादात्पिताप्यस्याः स्थान भीतेरकीर्तितः । अलीकादपि हि प्रायो द्रोपाद्विभ्यति सज्जनाः ॥३३९॥
 सेयमालम्बनैर्मुक्ता सकलैः कुलवालिका । मृगीसामान्यमध्यस्थान्महारण्य सम मया ॥३४०॥
 एतत्कुलक्रमायाता भृत्यास्यस्याः सुचेतसः । विश्रम्भपदता नीता प्रसादपरयानया ॥३४१॥
 सेयमद्य प्रसूता तु वने नानोपसर्गके । न जानामि कथं साध्वी भविष्यति सुखाश्रया ॥३४२॥
 निवेदितमिदं साधोर्वृत्तमस्याः पुलाकतं । सकलं तु न शक्नोमि कर्तुं दुःखनिवेदनम् ॥३४३॥
 अथैतदीयसतापविलीनस्नेहपुरितात् । अमान्तीव निरैदस्य हृदयात्साधु भारती ॥३४४॥
 स्वस्तीया मम साध्वि त्वं चिरकालवियोगतः । प्रायेण नाभिजानामि रूपान्तरपरिग्रहात् ॥३४५॥
 पिता विचित्रभानुर्मे माता सुन्दरमालिनी । नामतः प्रतिसूर्योऽहं द्वीपे हनूरुहाभिधे ॥३४६॥
 इत्युक्त्वा वन्तु यद्वृत्तं कौमारे सकलं स तत् । अज्ञनायै पतद्वापनयनस्तमवादायत् ॥३४७॥
 निज्ञातमातुलाथासौ पूर्ववृत्तनिवेदनात् । तस्य कण्ठं समासज्यं खरोद् चिरमध्वनि ॥३४८॥
 तस्यास्तत्सकलं दुःखं वाप्येण सह निर्गतम् । स्वजनस्य हि सप्राप्तावेपैव जगतः स्थितिः ॥३४९॥

आपत्तिमे पढ़े हुए का उद्धार करना यह महापुरुषोकी शैली है ॥३३४॥ सुनिए, यह लोकन्यायी यशसे युक्त, निर्मल हृदयके धारक राजा महेंद्रकी पुत्री है, अज्ञाना नामसे प्रसिद्ध है और जिसका चित्त गुणोका सागर है ऐसे राजा प्रह्लादके पुत्र पवनवेगकी प्राणोसे अधिक प्यारी पत्नी है ॥३३५-३३६॥ किसी एक समय वह आत्मीयजनोकी अनजानमें इसके गर्भ धारणकर पिताकी आज्ञासे युद्धके लिए चला गया । वह रावणका मित्र जो था ॥३३७॥ यद्यपि यह अज्ञाना निर्दोष थी तो भी स्वभावकी दुष्टताके कारण व्याशून्य मूर्ख सासने इसे पिताके घर भेज दिया ॥३३८॥ परन्तु अपकीर्तिके भयसे पिताने भी इसके लिए स्थान नहीं दिया सो ठीक ही है क्योंकि प्रायः कर सज्जन पुरुष मिथ्यादोषसे भी डरते रहते हैं ॥३३९॥ अन्तमे इस कुलवती बालाको जब सब सहा-रोने छोड़ दिया तब यह निराश्रय हो मेरे साथ हरिणीके समान इस महावनमे रहने लगी ॥३४०॥ इस सुहृदयाकी मैं कुल-परम्परासे चली आई सेविका हूँ सो सदा प्रसन्न रहनेवाली इसने मुझे अपना विश्वासपात्र बनाया है ॥३४१॥ इसी अज्ञानाने आज नाना उपसर्गोंसे भरे वनमें पुत्र उत्पन्न किया है । मैं नहीं जानती कि यह साध्वी पतिव्रता सुखका आश्रय कैसे होगी ॥३४२॥ आप सत्पुरुष है इसलिए संक्षेपसे मैंने इसका यह वृत्तान्त कहा है इसने जो दुःख भोगा है उसे सम्पूर्ण रूपसे कहनेके लिए समर्थ नहीं हूँ ॥३४३॥

अथानन्तर उस विद्याधरके हृदयसे वाणी निकली सो ऐसी जान पड़ती थी मानो अज्ञानाके सन्तापसे पिचले हुए स्नेहसे उसका हृदय पूर्णरूपसे भर गया था अतः वाणीको भीतर ठहरनेके लिए स्थान ही नहीं बचा हो ॥३४४॥ उसने कहा कि हे पतिव्रते ! तू मेरी भानजी है । चिरकाल के वियोगसे प्रायः तेरा रूप बदल गया है इसलिए मैं पहिचान नहीं सका हूँ ॥३४५॥ मेरे पिता विचित्रभानु और माता सुन्दरमालिनी हैं । मेरा नाम प्रतिसूर्य है और हनूरुह नामक द्वीपका रहनेवाला हूँ ॥३४६॥ इतना कहकर जो जो घटनाएँ कुमारकालमें हुई थी वे सब उसने रोते-रोते अज्ञानासे कहलाई ॥३४७॥ तदनन्तर जब पूर्ववृत्तान्त कहनेसे अज्ञानाने मामाको पहिचान लिया तब वह उसके गलेसे लगकर चिरकाल तक सिसक-सिसककर रोती रही ॥३४८॥ अज्ञानाका वह

१. जनकस्येद जानकम् । जनक म०, व० । २. स्थानभीते म० । ३. सामान्यम् + अधि + अस्थात् ।
 ४. भृत्यास्यस्या म० । ५. सचेपतः । ६. सतापो म० । ७. समारुह्य म० । ८. मूर्धनि म०, व० ।

तयो. स्नेहभरेणैव कुर्वतोरथ रोदनम् । वसन्तमालयाप्युच्चैरुदितं पार्श्व्यांतया ॥३५०॥
 रुदत्सु तेषु कारुण्यादरुदंस्तद्योषितः । कृतरोदास्वथैतासु रुदू रुख्योपितः^१ ॥३५१॥
 गुहावदनमुक्तेन प्रतिनादेन भूयसा । पर्वतोऽपि रुरोदैव संततैर्निर्भराश्रुभिः ॥३५२॥
 ततः शब्दमय सर्वं तद्भवत् तदा वनम् । शकुन्तैरपि कारुण्यादाकुलैः कृतनिस्वनम् ॥३५३॥
 सान्त्वयित्वा ततस्तस्या दत्तेनोदकवाहिना । वारिणात्तलयद्भवत् स्वस्य च प्रतिभास्करः ॥३५४॥
 पारम्पर्येण तेनैव ततस्तत्पुनरप्यभूत् । वनं मुक्तमहाशब्द श्रोतु वार्तामिवानयोः ॥३५५॥
 ततः क्षणमिव स्थित्वा निष्क्रान्तौ दुःखगह्वरात् । अपृच्छतां मिथो वार्तां कुलेऽकथयतां च तौ ॥३५६॥
 संभाषणं ततश्चक्रे तस्त्रीणामञ्जना क्रमात् । स्वलन्ति न विधातव्ये वनेऽपि गुणिनो जनाः ॥३५७॥
 जगाद मातुल चैवं पूज्य जातस्य मेऽखिलम् । निवेदय यथावस्थं दिनद्योतिःकदम्बकम् ॥३५८॥
 इत्युक्ते पार्श्वग नाम्ना द्योतिर्गर्भविशारदम् । सांवत्सरमपृच्छत्स जातकर्म यथास्थितम् ॥३५९॥
 ततः सावत्सरोऽवोक्तकल्याणस्य निवेदय । जन्मसम्बन्धिनी वेलामित्युक्ते चाख्यदक्षना ॥३६०॥
 अर्धयामावशेषायां रजन्यामद्य बालकः । प्रजात इति सख्या च कथितं निष्प्रमादया ॥३६१॥
 मौहूर्तेन ततोऽवाचि यथास्य वंपुराचितम् । सुलक्षणैस्तथा मन्ये दारकं सिद्धिभाजनम् ॥३६२॥
 तथापि यद्यसंतोषः क्रियेय लौकिकीति वा । ततः शृणु पुत्राकेन कथयाम्यस्य जीवनम् ॥३६३॥
 वर्तते तिथिरद्येयं चैत्रस्य बहुलाष्टमी । नक्षत्र श्रवणः स्वामी वासरस्य विभावसुः ॥३६४॥

समस्त दुःख आँसुओके साथ निकल गया सो ठीक ही है क्योंकि आत्मीयजनोके मिलने पर संसारकी ऐसी ही स्थिति होती है ॥३४६॥ इस तरह स्नेहके भारसे जब दोनों रो रहे थे तब पासमे बैठी वसन्तमाला भी जोरसे रो पड़ी ॥३५०॥ उन सबके रोनेपर विद्याधरकी स्त्रियाँ भी करुणावश रोने लगीं और इन सबको रोते देख हरिणियाँ भी रोने लगीं ॥३५१॥ उस समय गुफारूपी मुखसे जोरकी प्रतिध्वनि निकल रही थी इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत भी झरनोके बहाने बड़े-बड़े आँसू डालता हुआ रो रहा था ॥३५२॥ और पक्षी भी दयावश आकुल होकर शब्द कर रहे थे इसलिए वह सम्पूर्ण वन उस समय शब्दमय हो गया था ॥३५३॥

तदनन्तर प्रतिसूर्य विद्याधरने सान्त्वना देनेके बाद जल लानेवाले नौकरके द्वारा दिये हुए जलसे अञ्जनाका और अपना मुँह धोया ॥३५४॥ पहले जिस क्रमसे वन शब्दायमान हो गया था उसी क्रमसे अब पुनः शब्दरहित हो गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो इन दोनोंकी वार्ता सुननेके लिए ही चुप हो रहा हो ॥३५५॥ तदनन्तर क्षण भर ठहरकर जब दोनो दुःख रूपी गर्तसे बाहर निकले तब उन्होंने परस्पर कुशल-वार्ता पूछी और अपने अपने कुलका हाल एक दूसरेको बताया ॥३५६॥ इसके बाद अञ्जनाने प्रतिसूर्यकी स्त्रियोंके साथ क्रमसे संभाषण किया सो ठीक ही है क्योंकि गुणीजन करने योग्य कार्यमे कभी नहीं चूकते हैं ॥३५७॥ अञ्जनाने मामासे कहा कि पूज्य ! मेरे पुत्रके समस्त ग्रह कैसी दशामे है सो बताइए ॥३५८॥ ऐसा कहनेपर मामाने ज्योतिष विद्यामे निपुण पार्श्वग नामक ज्योतिषीसे पुत्रके यथावस्थित जातकर्मको पूछा अर्थात् पुत्रकी ग्रह-स्थिति पूछी ॥३५९॥ तब ज्योतिषीने कहा कि इस कल्याणस्वरूप पुत्रका जन्म-समय बताओ । ज्योतिषीके ऐसा पूछनेपर अञ्जनाने समय बताया ॥३६०॥ साथ ही प्रमादको दूर करनेवाली सखी वसन्तमालाने भी कहा कि आज रात्रिमे जब अर्धग्रह बाकी था तब बालक उत्पन्न हुआ था ॥३६१॥ तदनन्तर मुहूर्तके जाननेवाले ज्योतिषीने कहा कि इसका शरीर जैसा शुभलक्षणोसे युक्त है उससे जान पड़ता है कि बालक सब प्रकारकी सिद्धियोंका भाजन होगा ॥३६२॥ फिर भी यदि सन्तोष नहीं है अथवा ऐसा ख्याल है कि यह क्रिया लौकिकी है तो सुनो मैं संक्षेपसे इसका जीवन कहता हूँ ॥३६३॥ आज यह चैत्रके कृष्ण पक्षकी अष्टमी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है,

१. मृग्यः । २. प्रतिसूर्यः । ३. पुत्रस्य । ४. यथास्य च पुराचितम् म० ।

आदित्यो वर्तते मेपे भवनं तुङ्गमाश्रित । चन्द्रमा मकरे मध्ये भवने समवस्थितः ॥३६५॥
लोहिताङ्गो वृषमध्ये मध्ये मीने विधो सुतः । कुलीरे धियणोऽन्युत्तरध्यास्य भवन स्थित ॥३६६॥
मीने दैत्यगुरुस्तुङ्गस्तस्मिन्नेव शनैश्चर* । मीनस्थैवोदयोऽन्यासीत्तदा नृपतिपुङ्गव ॥३६७॥
शनैश्चर समप्राज्ञस्तिग्मभानुर्निरीक्षते^१ । अर्धदृष्ट्या महीपुत्रो दिवसस्य पतिं तथा ॥३६८॥
^२गुरुः पादोनया दृष्ट्या पतिमहोऽवलोकते । अर्धदृष्ट्या गिरामीण वासरस्येक्षते विभु* ॥३६९॥
^३चन्द्रं समस्तया दृष्ट्या^४ वचसा पतिरीक्षते । असात्रप्येवमेवास्य^५ विदधाल्यवलोकनम् ॥३७०॥
गुरु शनैश्चरं पादन्यूनया वीक्षते दृष्ट्वा । अर्धावलोकनेनासौ भजते बृहतां पतिम् ॥३७१॥
गुरुदैत्यगुरुं दृष्ट्वा^६ वीक्षते पादहीनया । दृष्टिं तथाविधामेव पातयत्येव तत्र च ॥३७२॥
ग्रहाणां परिणिष्टानां नास्त्यपेक्षा परस्परम् । उदयक्षेत्रकालानां बल चास्ति परं तदा ॥३७३॥
^७राज्यं निवेदयत्यस्य रविभूमौ गुरुस्तथा । शनैश्चर* सुयोगित्व निवेदयति सिद्धिदम् ॥३७४॥
एकोऽपि भारतीनाथस्तुङ्गस्थानस्थितो भवन् । सर्वकल्याणमप्राप्तौ कारणत्वं प्रपद्यते ॥३७५॥
ब्राह्मो नाम तदा योगो मुहूर्तश्च शुभश्रुतिः । एतौ कथयतो ब्राह्मस्थानसौख्यसमागमम् ॥३७६॥
एवमेतस्य जातस्य ज्योतिश्चक्रमिदं स्थितम् । सूचयत्यखिल वस्तु सर्वदोषविवर्जितम् ॥३७७॥
^८रैशतानां सहस्रेण कालज्ञं पूजितं ततः । प्रतिसूर्यो विधायोचे भागिनेर्यो समंमद ॥३७८॥
एहीदानीं पुर यामो वत्से हनूरुह मम । जातकर्मास्य बालस्य तत्र सर्वं भविष्यति ॥३७९॥
एवमुक्त्वा विधायार्द्धे^९ पृथुकं जिनवन्दनाम् । कृत्वा स्थानपतिं देवं क्षमयित्वा पुन पुनः ॥३८०॥

सूर्य दिनका स्वामी है ॥३६४॥ सूर्य मेपका है सो उच्च स्थानमें बैठा है और चन्द्रमा मकरका है सो मध्यग्रहमें स्थित है ॥३६५॥ मङ्गल वृषका है सो मध्य स्थानमें बैठा है । बुध मीनका है सो भी मध्य स्थानमें स्थित है और बृहस्पति कर्कका है सो भी अत्यन्त उच्च स्थानमें बैठा है ॥३६६॥ शुक्र और शनि दोनों ही मीनके हैं तथा उच्च स्थानमें आरूढ़ हैं । हे राजाधिराज ! उस समय मीनका ही उदय था ॥३६७॥ सूर्य पूर्ण दृष्टिसे शनिको देखता है और मङ्गल सूर्यको अर्ध-दृष्टिसे देखता है ॥३६८॥ बृहस्पति पौन दृष्टिसे सूर्यको देखता है और सूर्य बृहस्पतिको अर्धदृष्टिसे देखता है ॥३६९॥ बृहस्पति चन्द्रमाको पूर्ण दृष्टिसे देखता है और चन्द्रमा भी अर्धदृष्टिसे बृहस्पतिको देखता है ॥३७०॥ बृहस्पति शनिको पौन दृष्टिसे देखता है और शनि बृहस्पतिको अर्धदृष्टिसे देखता है ॥३७१॥ बृहस्पति शुक्रको पौन दृष्टिसे देखता है और शुक्र भी बृहस्पतिपर पौन दृष्टि डालता है ॥३७२॥ अवशिष्ट ग्रहोंकी पारस्परिक अपेक्षा नहीं है । उस समय इसके ग्रहोंके उदय-क्षेत्र और कालका अत्यधिक बल है ॥३७३॥ सूर्य मङ्गल और बृहस्पति इसके राज्य-योगको सूचित कर रहे हैं और शनि मुक्तिदायी योगको प्रकट कर रहा है ॥३७४॥ यदि एक बृहस्पति ही उच्च स्थानमें स्थित हो तो समस्त कल्याणकी प्राप्ति कारण होता है फिर इसके तो समस्त शुभग्रह उच्च स्थानमें स्थित हैं ॥३७५॥ उस समय ब्राह्मनामक योग और शुभ नामका मुहूर्त था सो ये दोनों ही ब्राह्मस्थान अर्थात् मोक्ष सम्बन्धी सुखके समागमको सूचित करते हैं ॥३७६॥ इस प्रकार इस पुत्रका यह ज्योतिश्चक्र सर्व वस्तुको सर्व दोषोंसे रहित सूचित करता है ॥३७७॥ तदनन्तर राजाने हजार मुद्रा द्वारा ज्योतिषीका सम्मान कर हर्षित हो अज्ञानसे कहा कि ॥३७८॥ आबो बेटी ! अब हमलोग हनूरुह नगर चले । वहीं इस बालकका सब जन्मोत्सव होगा ॥३७९॥ मामाके ऐसा कहनेपर अज्ञाना पुत्रको गोदमें लेकर जिनेन्द्र देवकी वन्दना कर और

१. नृपपुङ्गवः म० । २. निरीक्षितः म० । ३. मङ्गलग्रहः । ४. गुरुपादनया म० । ५. चन्द्रसप्तमः म० । ६. बृहस्पतिः । ७. विदधाल्यवलोकनम् । ८. वीक्षते म०, ज० । ९. राज्य निवेदयस्तस्य रविभूमौ गुरुस्तथा म०, व०, क०, ज० । १०. गुरुः । ११. धनशतानाम् ।

निष्क्रान्ता सा गुहाद्वासात् स्वजनौघममन्विता । वनश्रीरिव जाता च विमानस्यान्तिकं स्थिता ॥३८१॥
 ततस्तन्किङ्किणीजालैः प्रक्वणत्पवनेरितैः । सनिर्भरमिवोदारैर्मुक्ताहारैः सुनिर्मलैः ॥३८२॥
 ललल्लम्बूपक काचकडलीवनराजितम् । त्रिवाकरकरस्पर्शस्फुरत्कनकवृद्धुदम् ॥३८३॥
 नानारत्नकरासङ्गजातानेकसुगयुग्मम् । वैजयन्तीशतैर्नानावर्णैः कल्पतरूपमम् ॥३८४॥
 चित्ररत्नविनिर्माणं नानारत्नसमाचितम् । दिव्यं परिवृतं स्वर्गलोकैनेव समन्ततः ॥३८५॥
 दृष्ट्वासीं पृथुको मातुरङ्गात् कौतुकसस्मितः । उत्पत्य प्रत्रिविक्षुः सन्नपसद्भिरिगह्वरे ॥३८६॥
 हाहाकार ततः कृत्वा लोकस्तस्य समावृत् । न गतोऽनुपदं ज्ञातुमुदन्तमिति विह्वलः ॥३८७॥
 चकार विप्रलापं च सुदीनमिममञ्जना । तिरश्चामपि कुर्वाणा कटनाकोमलं मनः ॥३८८॥
 हा पुत्र किमिदं वृत्तं दैवेन किमनुष्ठितम् । प्रदश्यं रत्नसंपूर्णं निधानं हरतां पुनः ॥३८९॥
 पत्न्यसङ्गमदुःखेन प्रस्ताया मे भवानभूत् । जीवितालम्बनं क्षिप्रं कथं तदपि कर्मणा ॥३९०॥
 ततः सहस्रजः खण्डैर्नीतायां सुमहास्वनम् । शिलायां पातवेगेन दृग्भ्रवं सुखस्थितम् ॥३९१॥
 अन्तरास्यकृताङ्गुष्ठं त्रीढन्तस्मितशोभितम् । उत्तानं प्रचलन्पाणिचरणं शुभविग्रहम् ॥३९२॥
 मन्दमारुतसपृक्तरकोपलवनप्रभम् । कुर्वाणं सकलं पिङ्गं तेजसा गिरिगह्वरम् ॥३९३॥
 ततोऽनघशरीरं तं जननीं पृथुविस्मया । गृहीत्वा शिरसि ग्रात्वा चक्रे वक्षस्थलस्थितम् ॥३९४॥

गुहाके स्वामी गन्धर्वदेवसे वार-वार क्षमा कराकर आत्मोयजनोके साथ गुहासे बाहर निकली । विमानके पास खड़ी अञ्जना वनलक्ष्मीके समान जान पड़ती थी ॥३८०-३८१॥

तदनन्तर जो वायुसे प्रेरित जुद्धघण्टिकाओंके समूहसे शब्दायमान था, जो लटकते हुए अतिशय निर्मल मोतियोंके उत्तम हारोसे ऐसा जान पड़ता था मानो भरनोसे सहित ही हो, जिसमें गोले फन्स लटक रहे थे, जो काचनिर्मित केलोके वनोसे सुशोभित था, जिसमें लगे हुए सुवर्णके गोले सूर्यकी किरणोंका सम्पर्क पाकर चमक रहे थे, नाना रत्नोंकी किरणोंके सङ्गमसे जिसमें इन्द्रधनुष उठ रहा था, रङ्ग-विरङ्गी सैकड़ों पताकाओंसे जो कल्पवृक्षके समान जान पड़ता था, चित्र-विचित्र रत्नोंसे जिसकी रचना हुई थी, जो नाना प्रकारके रत्नोंसे खचित था, दिव्य था और ऐसा जान पड़ता था मानो सब ओरसे स्वर्गलोकसे घिरा हुआ ही हो ऐसे विमानको देखकर कौतुकसे मुसकराना हुआ बालक उल्लरकर स्वयं प्रवेश करनेकी इच्छा करता मानो माताकी गोदसे छूटकर पर्वतकी गुफामें जा पड़ा ॥३८२-३८६॥ तदनन्तर माता अञ्जनाके साथ-साथ सब लोग हाहाकार कर उस बालकका समाचार जाननेके लिए शीघ्र ही विह्वल होते हुए वहाँ गये ॥३८७॥ अञ्जनाने दीनतासे ऐसा विलाप किया कि जिसे सुनकर तिर्यञ्चों के भी मन कर्णासे कोमल हो गये ॥३८८॥ वह कह रही थी कि हाय पुत्र ! यह क्या हुआ ? रत्नोंसे परिपूर्ण खजाना दिखाकर फिर उसे हरते हुए विधाताने यह क्या किया ? ॥३८९॥ पतिके वियोग दुःखसे ग्रसित जो मैं हूँ सो मेरे जीवनका अवलम्बन एक तू ही था पर दैवने उसे भी छीन लिया ॥३९०॥

तदनन्तर सब लोगोंने देखा कि पतन सन्वन्धी वेगसे हजार टुकड़े हो जानेके कारण जो महाशब्द कर रही थी ऐसी शिलापर बालक सुखसे पड़ा है ॥३९१॥ वह मुखके भीतर अंगूठा देकर खेल रहा है, मन्द मुसकानसे सुशोभित है, चित्त पड़ा है, हाथ पैर हिला रहा है, शुभ शरीरका धारक है, मन्द-मन्द वायुसे हिलते हुए लाल तथा नीले कमलवनके समान उसकी कान्ति है, और अपने तेजसे पर्वतकी समस्त गुफाको पीत वर्ण कर रहा है ॥३९२-३९३॥ तदनन्तर निर्दोष शरीरके धारक बालकको आश्चर्यसे भरी माताने उठाकर तथा शिरपर सूँधकर

प्रतिसूर्यस्ततोऽग्रेचदहो चित्रमिदं परम् । वज्रेणैव यदेतेन शिलाजातं विचूर्णितम् ॥३६५॥
 अर्भकस्य सतोऽप्येषा शक्तिः सुरवरातिगा । यौवनस्थस्य किं वाच्यं चरमेयं ध्रुव तनुः ॥३६६॥
 इति ज्ञात्वा परीत्य त्रिः शिरः पाणिसरोरुहः । सहाङ्गनासमूहेन चकारास्या नमस्कृतिम् ॥३६७॥
 असौ तस्य वरस्त्रीभिर्नेत्रभाभिः कृतस्मितम् सितसितारुगाम्भोजमालभिरिव पूजितम् ॥३६८॥
 सपुत्रा यानमारोप्य भागिनेयी ततोऽगमत् । प्रतिसूर्यो निजं स्थानं ध्वजतोरणभूपितम् ॥३६९॥
 ततः प्रत्युद्गतः पौरैर्नामङ्गलधारिभिः । स विवेश पुरं तूर्यनादव्याप्तनभस्तलम् ॥४००॥
 तत्र जन्मोत्सवस्तस्य महान् विद्याधरैः कृतः । आखण्डलसमुत्पत्तौ गीर्वाणैस्त्रिदशैर्यथा ॥४०१॥
 जन्म लेभे यतः शैले शैलं चाचूर्णयत्ततः । श्रीशैलं इति नामास्य चक्रे मात्रा ससूर्यया ॥४०२॥
 पुरे हनूरुहे यस्माज्जातः संस्कारमाप्तवान् । हनूमानिति तेनागात्प्रसिद्धिं स महीतले ॥४०३॥
 सर्वलोकमनोनेत्रमहोत्सववपुः क्रियः । तस्मिन् सुरकुमाराभः पुरे रेमे सुकान्तिमान् ॥४०४॥
 सभवतीह भूधररिपुः पविरपि कुसुमं वह्निरपीन्दुवादशिगिरं पृथु कमलवनम् ।
 खड्गलतापि चारुचनितासुमृद्भुजलता प्राणिषु पूर्वजन्मजनितात्सुचरितवलत ॥४०५॥

छातीसे लगा लिया ॥३६४॥ राजा प्रतिसूर्यने कहा कि अहो ! यह बड़ा आश्चर्य है कि बालकने वज्रकी तरह शिलाओका समूह चूर्ण कर दिया ॥३६५॥ जब बालक होनेपर भी इसकी यह देवातिशायिनी शक्ति है तब तरुण होनेपर तो कहना ही क्या है ? निश्चित ही इसका यह शरीर अन्तिम शरीर है ॥३६६॥ ऐसा जानकर उसने, हस्त-कमल शिरसे लगा, तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर अपनी स्त्रियोंके साथ बालकके उस चरम शरीरको नमस्कार किया ॥३६७॥ प्रतिसूर्यकी स्त्रियोने अपने सफेद काले, तथा लाल नेत्रोंकी कान्तिसे उसे हँसते हुए देखा सो ऐसा जान पड़ता था मानो उन्होंने सफेद, नीले और लाल कमलोंकी मालाओसे उसकी पूजा ही की हो ॥३६८॥

तदनन्तर प्रतिसूर्य पुत्रसहित अञ्जनाको विमानमें बैठाकर ध्वजाओ और तोरणोंसे सुशोभित अपने नगरकी ओर चला ॥३६९॥ तत्पश्चात् नाना मङ्गलद्रव्योंको धारण करनेवाले नगरवासी लोगोंने जिसकी अगवानी की थी ऐसे राजा प्रतिसूर्यने नगरमें प्रवेश किया । उस समय नगरका आकाश तुरही आदि वादियोंके शब्दसे व्याप्त हो रहा था ॥४००॥ जिस प्रकार इन्द्रका जन्म होनेपर स्वर्गमें देव लोग महान् उत्सव करते हैं उसी प्रकार हनूरुह नगरमें विद्याधरोने उस बालकका बहुत भारी जन्मोत्सव किया ॥४०१॥ चूँकि बालकने शैल अर्थात् पर्वतमें जन्म प्राप्त किया था और उसके बाद शैल अर्थात् शिलाओके समूहको चूर्ण किया था इसलिए माताने मामाके साथ मिलकर उसका 'श्रीशैल' नाम रक्खा था ॥४०२॥ चूँकि उस बालकने हनूरुह नगरमें जन्म संस्कार प्राप्त किये थे इसलिए वह पृथिवीतलपर 'हनूमान्' इस नामसे भी प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ ॥४०३॥ जिसके शरीरकी क्रियाएँ समस्त मनुष्योंके मन और नेत्रोंको महोत्सव उत्पन्न करनेवाली थीं, तथा जिसकी आभा देवकुमारके समान थी ऐसा वह उत्तम कान्तिका धारी बालक उस नगरमें क्रीड़ा करता था ॥४०४॥

गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! पूर्व जन्ममें संचित पुण्य कर्मके बलसे प्राणियोंके लिए पर्वतोंको चूर्ण करनेवाला वज्र भी फूलके समान कोमल हो जाता है । अग्नि भी चन्द्रमाकी किरणोंके समान शीतल विशाल कमलवन हो जाती है, और खड्गरूपी

इत्यवगम्य दुःखकुशलाद्विरमत दुरिताद् सज्जत सारशर्मचतुरे जिनवरचरिते ।
एष तपत्यहो परिदृढं जगद्वनवरतं व्याधिसहन्वग्निमनिकरो ननु जननरविः ॥४०६॥

इत्यार्षे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते हनूमत्सभवामिधानं
नाम सप्तदशं पर्व ॥१७॥



लता भी सुन्दर खियोंकी सुकोमल भुजलता वन जाती है ॥४०५॥ ऐसा जानकर दुःख देनेमें निपुण जो पापकर्म है उससे विरत होओ और श्रेष्ठ सुख देनेमें चतुर जो जिनेन्द्र देवका चरित है उसमें लीन होओ । अहो ! हजारों रोगरूपी किरणोंसे युक्त यह जन्मरूपी सूर्य समस्त संसारको निरन्तर बड़ी दृढ़ताके साथ संतप्त कर रहा है ॥४०६॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्य द्वारा कथित पद्मचरितमें हनूमानके जन्मका वर्णन करनेवाला सत्रहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥१७॥



अष्टादशं पर्व

इदं ते कथितं जन्म श्रीशैलस्य महात्मन । शृणु सम्प्रति वृत्तान्त वायोर्मगधमण्डन ॥१॥
 'वायुना वायुनेवाशु गत्वाभ्याश खगेशिनैः । लब्धादेशेन सयुध्य नानाशस्त्राकुले रणे ॥२॥
 कृतयुद्धश्चिर खिन्नो जैलकान्तोऽपर्वतित्त । जातस्तस्य 'निमानोऽसौ पुष्कल खरदूपण ॥३॥
 भूयश्च जलकान्तेन निनाय^१ खरदूपण^२ । कृत्वा सन्धिमह प्राप्य परम राक्षसाधिपात् ॥४॥
 अनुज्ञातोऽवहत् कान्तां हृदयेन त्वरान्वित^३ । जगामाभिजन स्थान महासामन्तमध्यग^४ ॥५॥
 प्रविष्टश्च पुर पौरैरभियातः सुमङ्गलैः । ध्वजतोरणमालाभिर्भासुराभिर्विभूषितम् ॥६॥
 जगाम च निज वेश्म दृष्टो वातायनस्थितै । मुक्तप्रस्तुतकर्तव्यै पौरनारीकदम्बकैः ॥७॥
 विवेश च कृतार्धादिसन्मानो मानिनां वरः । वाग्भिर्मङ्गलसाराभिः स्वजनैरभिनन्दित ॥८॥
 विधाय प्रणतिं तत्र गुरुणामितरैर्जनैः । नमस्कृतः क्षण तस्यै वार्ताभिर्वरमण्डपे ॥९॥
 ततः प्रासादमारुह्यदञ्जनायाः समुन्मना^५ । युक्त^६ प्रहसितेनैव पूर्वभावनयान्वितः ॥१०॥
 रिक्तक तस्य त दृष्ट्वा प्रासाद प्राणतुल्यया । चेतनामुक्तदेहाभ पपातेव मनः क्षणात् ॥११॥
 ऊचे प्रहसित चैव वयस्य किमिद भवेत् । अञ्जनासुन्दरी नात्र दृश्यते पुष्करेक्षणा ॥१२॥

अथानन्तर गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे मगध देशके मण्डपस्वरूप श्रेणिक । यह तो मैंने तुम्हारे लिए महात्मा श्रीशैलके जन्मका वृत्तान्त कहा । अब पवनञ्जयका वृत्तान्त सुनो ॥१॥ पवनञ्जय वायुके समान शीघ्र ही रावणके पास गया और उसकी आज्ञा पाकर नानाशस्त्रोंसे व्याप्त युद्ध-क्षेत्रमें वरुणके साथ युद्ध करने लगा ॥२॥ चिरकाल तक युद्ध करने के बाद वरुण खेद-खिन्न हो गया सो पवनञ्जयने उसे पकड़ लिया । खर-दूपणको वरुणने पहले पकड़ रक्खा था सो उसे छुड़ाया और वरुणको रावणके समीप ले जाकर तथा सन्धि कराकर उसका आज्ञाकारी किया । रावणने पवनञ्जयका बड़ा सन्मान किया ॥३-४॥ तदनन्तर रावणकी आज्ञा लेकर हृदयमें कान्ताको धारण करता हुआ पवनञ्जय महा सामन्तोंके साथ शीघ्र ही अपने नगरमें वापिस आ गया ॥५॥ उत्तमोत्तम मङ्गल द्रव्योंको धारण करने वाले नगरवासी जनोंने जिसकी अगवान्ती की थी ऐसा पवनञ्जय देदीप्यमान ध्वजाओं, तोरणों तथा मालाओंसे अलङ्कृत नगरमें प्रविष्ट हुआ ॥६॥ तदनन्तर अपना प्रारम्भ किया हुआ कर्म छोड़ भक्तोर्षोंमें आकर खड़ी हुई नगरवासिनी स्त्रियोंके समूह जिसे बड़े हर्षसे देख रही थी ऐसा पवनञ्जय अपने महलकी ओर चला ॥७॥ तत्पश्चात् जिसका अर्थ आदिके द्वारा सन्मान किया गया था और आत्मीयजनों ने मङ्गलमय वचनोंसे जिसका अभिनन्दन किया था ऐसे पवनञ्जयने महलमें प्रवेश किया ॥८॥ वहाँ जाकर इसने गुरुजनोंको नमस्कार किया और अन्य जनोंने इसे नमस्कार किया । फिर कुशल-वार्ता करता हुआ क्षणभरके लिए सभामण्डपमें बैठा ॥९॥

तदनन्तर उत्कण्ठित होता हुआ अब्जनाके महलमें चढ़ा । उस समय वह पहलेकी भावना से युक्त था और अकेला प्रहसित मित्र ही उसके साथ था ॥१०॥ वहाँ जाकर जब उसने महल को प्राण-वत्लभासे रहित देखा तो उसका मन क्षण एकमें ही निर्जीव शरीरकी तरह नीचे गिर गया ॥११॥ उसने प्रहसितसे कहा कि मित्र ! यह क्या है ? यहाँ कमल-नयना अञ्जना सुन्दरी

१. पवनञ्जयेन । २. रावणस्य । ३. वरुणः । ४. गृहीतः । ५. मूल्यभूतः- प्रतिभूः (जमानतदार इति हिन्दी) । ६. निमाय क०, ख०, ज०, । निनाय्य म० । ७. खरदूषणम् व० । ८. सन्धिमह म० ।

गृहमेतत्तया शून्यं वनं मे प्रतिभासते । आकाशमेव वा क्षिप्रं तस्या वार्ताधिगम्यताम् ॥१३॥
 आसवर्गात् परिज्ञाय वार्तां प्रहसितोऽवदत् । यथावत् सकलां तस्मै हृदये चोदकारिणीम् ॥१४॥
 वञ्चित्वा स्वजनं सोऽथ समं मित्रेण तत्क्षणम् । महेन्द्रनगरं तेन प्रवृत्तो गन्तुमुन्मना ॥१५॥
 तस्यासन्नभुवं प्राप्य मित्रमेवमभापत । मन्यमानोऽङ्गसंप्राप्तं दयितां प्रमदान्वितः ॥१६॥
 पश्य पश्य पुरस्यास्य वयस्य रमणीयताम् । अञ्जनासुन्दरी यत्र वर्तते चारुविभ्रमा ॥१७॥
 कैलासकूटसंकाशा यत्र प्रासादपङ्क्तयः । उद्यानपादपगुप्ताः प्रावृषेण्यघनप्रभैः ॥१८॥
 श्रुत्वा स सप्राप्तः पुर पुरुषसत्तम । सुहृदाद्वैतचित्तेन विहितप्रतिभाषणः ॥१९॥
 ततो जनौघतः श्रुत्वा संप्राप्तं पननञ्जयम् । अर्घादिनोपचारेण श्वसुरोऽस्य समागमत् ॥२०॥
 पुरस्सरेण तेनासौ प्रीतियुक्तेन चेतसा । निज प्रवेशितः स्थानं पौरैः सादरमीक्षितः ॥२१॥
 द्विवेग भवनं चास्य कान्तादर्शनलालयः । सकथाभिर्मुहूर्तं च तस्थौ संवर्गण भजन् ॥२२॥
 ततस्तत्राप्यसौ कान्तामपश्यद् विरहातुरः । अपृच्छद् वालिकां काञ्चिदन्तर्भवनगोचराम् ॥२३॥
 अपि बालेऽत्र जानासि मत्प्रिया वर्ततेऽञ्जना । सावोचदेव नास्यत्र त्वद्विषयेत्यसुखावहम् ॥२४॥
 वज्रेणैव ततस्तस्य तेन वाक्येन चूर्णितम् । हृदयं पूरितौ कर्णौ तस्य चाराम्बुनेव च ॥२५॥
 वियुक्त इव जीवेन क्षणं चामूत् स निश्चलः । शोकप्रालेयसंपर्कविच्छाद्यमुखपङ्कजः ॥२६॥
 निर्गल्ब्यासौ ततस्तस्माच्छङ्घना श्वासुरात् पुरात् । वभ्राम घरणीं वार्तामधिगन्तु स्वय्योपितः ॥२७॥

नहीं दिख रही है ॥१२॥ उसके बिना यह घर मुझे वन अथवा आकाशके समान जान पड़ता है ।
 अतः शीघ्र ही उसका समाचार मालूम किया जाय ॥१३॥ तदनन्तर आप्तवर्गसे सब समाचार
 जानकर प्रहसितने हृदयको लुभित करनेवाला सब समाचार ज्योका त्यां पवनञ्जयको सुना दिया
 ॥१४॥ उसे सुन, पवनञ्जय आत्मीयजनोको छोड़ उसी क्षण मित्रके साथ उत्कठित होता हुआ
 महेन्द्रनगर जानेके लिए उद्यत हुआ ॥१५॥ महेन्द्रनगरके निकट पहुँच कर पवनञ्जय, प्रियाको गोदमें
 आई समझ हर्षित होता हुआ मित्रसे बोला कि हे मित्र ! देखो, इस नगरकी सुन्दरता देखो जहाँ
 सुन्दर विभ्रमोको धारण करने वाली प्रिया विद्यमान है ॥१६-१७॥ और जहाँ वर्षाऋतुके मेघोके
 समान कान्तिके धारक उद्यानके वृक्षोंसे घिरी महलोकी पंक्तियों कैलास पर्वतके शिखरोके समान
 जान पड़ती हैं ॥१८॥ इस प्रकार कहता और अभिन्न चित्तके धारक मित्रके साथ वार्तालाप
 करता हुआ वह महेन्द्रनगरमें पहुँचा ॥१९॥

तदनन्तर लोगोंके समूहसे पवनञ्जयको आया सुन इसका श्वसुर अर्घादिकी भेट लेकर
 आया ॥२०॥ आगे चलते हुए श्वसुरने प्रेमपूर्ण मनसे उसे अपने स्थानमें प्रविष्ट किया और
 नगरवासी लोगोंने उसे बड़े आदरसे देखा ॥२१॥ प्रियाके दर्शनकी लालसासे इसने श्वसुरके
 घरमें प्रवेश किया । वहाँ यह परस्पर वार्तालाप करता हुआ मुहूर्त भर बैठा ॥२२॥ परन्तु वहाँ भी
 जब इसने कान्ताको नहीं देखा तब विरहसे आतुर होकर इसने महलके भीतर रहनेवाली किसी
 बालिकासे पूछा कि हे बाले ! क्या तू जानती है कि यहाँ मेरी प्रिया अञ्जना है ? बालिकाने यही
 दुःखदायी उत्तर दिया कि यहाँ तुम्हारी प्रिया नहीं है ॥२३-२४॥ तदनन्तर इस उत्तरसे
 पवनञ्जयका हृदय मानो वज्रसे ही चूर्ण हो गया, कान तपाये हुए खारे पानीसे मानो भर गये
 और वह स्वयं निर्जीवकी भाँति निश्चल रह गया । शोकरूपी तुपारके संपर्कसे उसका मुख-
 कमल कान्तिरहित हो गया ॥२५-२६॥ तदनन्तर वह किसी छलसे श्वसुरके नगरसे निकलकर
 अपनी प्रियाका समाचार जाननेके लिए पृथिवीमें भ्रमण करने लगा ॥२७॥

१. संभाषणाम् । २. गोचरम् म० । ३. सुनिश्चलः म०, व०, ख०, ज० । ४. श्वसुरात् म० ।
 ५. सुयोपितः म०, ख०, ज०, व० ।

ज्ञात्वा वायुकुमार च वायुनेवातुरीकृतम् । ऊचे प्रहसितः सान्त्व तद्दुःखादभिदु खित ॥२८॥
 किं वयस्य विपणोऽसि कुरुचित्तमनाकुलम् । द्रक्ष्यते दयिता द्राक्ते क्रियद्वेद महीतलम् ॥२९॥
 सोऽब्रुवच्चद् गच्छ गच्छ त्व सखे रविपुर द्रुतम् । इदं ज्ञापय वृत्तान्त गुरुणा मदनुष्ठितम् ॥३०॥
 अहं पुनरसप्राप्य दयितां चित्तिसुन्दरीम् । न मन्ये जीवित तस्मात्पर्यटाम्यखिला भुवम् ॥३१॥
 इत्युक्तस्तेन दुःखेन विमुच्य कथमप्यसुम् । आदित्यनगरीं दीनः क्षिप्रं प्रहसितो ययौ ॥३२॥
 पवनोऽपि समारुह्य नागमम्बरगोचरम् । विचरन् धरणीं सर्वामेव चिन्तामुपागतः ॥३३॥
 शोकात्तपपरिम्लानैपद्मकोमलविग्रहा । क्व गता मे भवेत् कान्ता वहन्ती हृदयेन माम् ॥३४॥
 वैधुर्यारण्यमध्यस्था विरहानलदीपिता । वराकी कांदिशीकासौ दिशः स्यात् कामुपाश्रिता ॥३५॥
 सत्यार्जवसमेतासौ गर्भगौरवधारिणी । वसन्तमालया त्यक्ता भवेत् किन्तु महावने ॥३६॥
 शोकान्धनयना किं नु व्रजन्ती विपमे पथि । पतिता स्याज्जरच्छूये क्षुधिताजगरान्विते ॥३७॥
 किं नु गर्भपरिक्लिष्टा श्वापदानां च भीषणम् । श्रुत्वा शब्द परितस्ता प्राणान्मुक्तवती भवेत् ॥३८॥
 अहो तृष्णादिता शुष्कतालुकण्ठा जलोज्ज्वले । विन्ध्यारण्ये विमुक्ता स्यात् प्राणैः प्राणसमा मम ॥३९॥
 किं वा मन्दाकिनी मुग्धा विविधग्राहसकुलाम् । अवतीर्णा भवेद् व्यूढा वारिणा तीव्रहस्ता ॥४०॥
 दर्भसूचीविनिर्भ्रंशचरणस्रुतशोणिता । अशक्ता पदमप्येक गन्तु किं नु सृता भवेत् ॥४१॥

इधर जब प्रहसित मित्रको मालूम हुआ कि पवनञ्जय मानो वायुकी बीमारीसे ही दुःखी हो रहा है तब उसके दुःखसे अत्यन्त दुःखी होते हुए उसने सान्त्वनाके साथ कहा कि हे मित्र ! खिन्न क्यों होते हो ? चित्तको निराकुल करो । तुम्हें शीघ्र ही प्रिया दिखलाई देगी, अथवा यह पृथिवी है ही कितनी सी ? ॥२८-२९॥ पवनञ्जयने कहा कि हे मित्र ! तुम शीघ्र ही सूर्यपुर जाओ और वहाँ गुरुजनोको मेरा यह समाचार बतला दो ॥३०॥ मैं पृथिवीकी अनन्य सुन्दरी प्रियाको प्राप्त किये बिना अपना जीवन नहीं मानता इसलिए उसे खोजनेके लिए समस्त पृथिवीमें भ्रमण करूँगा ॥३१॥ यह कहनेपर प्रहसित बड़े दुःखसे किसी तरह पवनञ्जयको छोड़कर दीन होता हुआ सूर्यपुरकी ओर गया ॥३२॥

इधर पवनञ्जय भी अम्बरगोचर हाथीपर सवार होकर समस्त पृथिवीमें विचरण करता हुआ ऐसा विचार करने लगा कि जिसका कमलके समान कोमल शरीर शोकरूपी आतापसे मुरझा गया होगा ऐसी मेरी प्रिया हृदयसे मुझे धारण करती हुई कहाँ गई होगी ? ॥३३-३४॥ जो विधुरत्तारूपी अटवीके मध्यमें स्थित थी, विरहाग्निसे जल रही थी और निरन्तर भयभीत रहती थी ऐसी वह बेचारी किस दिशामें गई होगी ? ॥३५॥ वह सती थी, सरलतासे सहित थी तथा गर्भका भार धारण करनेवाली थी । ऐसा न हुआ हो कि वसन्तमालाने उसे महावनमें अकेली छोड़ दी हो ॥३३॥ जिसके नेत्र शोकसे अन्धे हो रहे होंगे ऐसी वह प्रिया विपम मार्गमें जाती हुई कदाचित् किसी पुराने कुँएमें गिर गई हो अथवा किसी भूखे अजगरके मुँहमें जा पड़ी हो ॥३७॥ अथवा गर्भके भारसे क्लेशित तो थी ही जङ्गली जानवरोंका भयंकर शब्द सुन भयभीत हो उसने प्राण छोड़ दिये हों ॥३८॥ अथवा विन्ध्याचलके निर्जल वनमें प्याससे पीड़ित होनेके कारण जिसके तालु और कण्ठ सूख रहे होंगे ऐसी मेरी प्राणतुल्य प्रिया प्राणरहित हो गई होगी ॥३९॥ अथवा वह बड़ी भोली थी कदाचित् अनेक मगरमच्छोंसे भरी गङ्गामें उतरी हो और तीव्र वेगवाला पानी उसे वहा ले गया हो ॥४०॥ अथवा डाभकी अनियोंसे विदीर्ण हुए जिसके पैरोंसे रुधिर बह रहा होगा ऐसी प्रिया एक डग भी चलनेके लिए असमर्थ हो मर गई

१. सत्वम् म० । स्वान्तं ख० । २. दयिता सा ते म०, ज०, ख० । ३. परिम्लानापद्म- म० ।
 ४. दीपिका म० । ५. श्रुत- म० । ६. तु म० ।

किं वा दुष्टेन केनापि नीता स्यात् खविचारिणा । कष्टं वार्तापि नो तस्याः केनचिन्मे निवेद्यते ॥४२॥
 किं वा दुःखाच्छ्रुते गर्भे निवेदं परमागता । आर्थिकाणां पद प्राप्ता भवेद्धर्मानुसेविनी ॥४३॥
 चिन्तयन्निति पर्यव्य धरणीं मतिविह्वलः । ददर्श न यदा कान्तां सर्वेन्द्रियमनोहराम् ॥४४॥
 तदापश्यज्जगत्कृत्स्नं शून्यं विरहदोषितः । विनिश्चितमसौ चेतश्चकार मरणं प्रति ॥४५॥
 न शैलेषु न वृक्षेषु न रम्यासु नदीष्वभूत् । धृतिरस्य विर्युक्तस्य तथा सर्वस्वभूतया ॥४६॥
 तस्या वार्तासु मुग्धेन तेन प्रष्टा नगा अपि । विवेकेन हि निर्युक्ता जायन्ते दुःखिनो जनाः ॥४७॥
 अथ भूतरवाभिख्यं वनं प्राप्य गजादसौ । अवतीर्य क्षण स्थित्वा ध्यायन्मुनिरिव प्रियाम् ॥४८॥
 अनादरेण निक्षिप्य धरण्यामस्रकङ्कटम् । घनपादपशाखाप्रतिरोहितमहातपः ॥४९॥
 जगाद् गजनार्थं तं विनयेन पुरःस्थितम् । गिरा मधुरयात्यथं श्रमेण गुरुणान्वितः ॥५०॥
 ब्रजेदानीं गजेन्द्रं त्वं भव स्वच्छन्दविभ्रमः । तस्या वार्तासु मुग्धेन क्षमस्व च पराभवम् ॥५१॥
 तीरेऽस्याः सरितः शैष्यं शल्लकीनां च पल्लवान् । चरन् विहर यूथेन करिणीनां समन्वितः ॥५२॥
 इत्युक्तः सुकृतज्ञोऽसौ स्वामिवात्सल्यदक्षिणः । न मुमोचान्तिकं तस्य शोकार्तस्य सुबन्धुवत् ॥५३॥
 लप्स्ये यदि न ता रामामभिरामहं ततः । यास्याम्यत्र वने मृत्युमिति वायुर्विनिश्चितः ॥५४॥
 प्रियागतमनस्कस्य तस्य रात्रिरभूद्धने । शरच्चतुष्टयोदारा नानासकल्पसकुला ॥५५॥

होगी ॥४१॥ अथवा कोई आकाशगामी दुष्ट विद्याधर हर ले गया हो । वड़े खेदकी बात है कि कोई मेरे लिए उसका समाचार भी नहीं बतलाता ॥४२॥ अथवा दुःखके कारण गर्भ-भ्रष्ट हो आर्थिकाओके स्थानमे चली गई हो ? धर्मानुगामिनी तो वह थी ही ॥४३॥ इस प्रकार विचार करते हुए बुद्धि-विह्वल पवनञ्जयने पृथिवीमे विहार कर जब समस्त इन्द्रियो और मनको हरने-वाली प्रियाको नहीं देखा ॥४४॥ तब विरहसे जलते हुए उसने समस्त संसारको सूना देख चित्तमे मरनेका हृद निश्चय किया ॥४५॥ अब्जना ही पवनञ्जयकी सर्वस्वभूत थी अतः उसके विना उसे न पर्वतोमे आनन्द आता था, न वृक्षोमे और न मनोहर नदियोमे ही ॥४६॥ योही पवनञ्जयने उसका समाचार जाननेके लिए वृक्षोसे भी पृछा सो ठीक ही है क्योंकि दुःखीजन विवेकसे रहित हो ही जाते हैं ॥४७॥

अथानन्तर भूतरव नामक वनमे जाकर वह हाथीसे उतरा और प्रियाका ध्यान करता हुआ क्षण भरके लिए मुनिके समान स्थिर बैठ गया ॥४८॥ सघन वृक्षोकी शाखाओके अग्रभाग उसपर पड़ते हुए घामको रोके हुए थे । वहाँ उसने शस्त्र तथा कवच उतारकर अनादरसे पृथिवी पर फेक दिये ॥४९॥ अम्बरगोचर नामका हाथी बड़ी विनयसे उसके सामने बैठा था और पवनञ्जय अत्यधिक थकावटसे युक्त थे । उन्होने अत्यन्त मधुर वाणीमे हाथीसे कहा कि ॥५०॥ हे गजराज ! अब तुम जाओ, जहाँ तुम्हारी इच्छा चाहे भ्रमण करो, अब्जनाका समाचार जाननेके लिए मोहसे युक्त होकर मैने तुम्हारा जो पराभव किया है उसे क्षमा करो ॥५१॥ इस नदीके किनारे हरी-हरी घास और शल्लके वृक्षके पल्लवोको खाते हुए तुम हस्तिनियोके मुण्डके साथ यथेच्छ भ्रमण करो ॥५२॥ पवनञ्जयने हाथीसे यह सब कहा अवश्य पर वह किये हुए उपकारको जाननेवाला था और स्वामीके साथ स्नेह करनेमे उदार था इसलिए उसने उत्तम बन्धुकी तरह शोकपीड़ित स्वामीका सामीप्य नहीं छोड़ा ॥५३॥ पवनञ्जयने यह निश्चय कर लिया था कि यदि मैं उस मनोहारिणी प्रियाको नहीं पाऊँगा तो इस वनमे मर जाऊँगा ॥५४॥ जिसका मन प्रियामे लग रहा था ऐसे पवनञ्जयकी नाना संकल्पोसे युक्त एक रात्रि वनमे चार वर्षसे भी

१. मे न विद्यते म०, ख०, ब०, ज० । २. दुःखात्स्रुते ख० । ३. कृष्णं म० । ४. विप्रयुक्तस्य म० ।
 ५. 'उरश्छदः कङ्कटको जगरः कवचोऽस्त्रियाम्' इत्यमरः । -मस्रकंठकम् म० । ६. शस्यं म० । ७. सार्थेन क० ।
 ८. वर्षचतुष्टयादप्यधिका । 'हायनोऽस्त्री शरत्समा' इत्यमरः ।

पूर्वं तावद्विदं वृत्तं शृणु श्रेणिक ते परम् । कथयामि गते तस्मिन् यत् पितृभ्यां त्रिचेष्टितम् ॥५६॥
 पवनक्षय वृत्तान्ते तन्मित्रेण निवेदिते । समस्ता बान्धवा वायोः परमं शोकमागताः ॥५७॥
 अथ केतुमती पुत्रशोकोनाभ्यावृता भृशम् । ऊचे प्रहसितं वाष्पधाराजनितदुर्दिना ॥५८॥
 युक्तं प्रहसितेदं ते कर्तुमीदृन्विचेष्टितम् । मम पुत्रं परित्यज्य यदेकार्की समागतः ॥५९॥
 सोऽवोचदम्य तेनैव प्रेषितोऽहं प्रयत्नतः । न मे केनापि भावेन दत्तं स्यात्तुमुपान्तिके ॥६०॥
 उवाच सा गतः क्वार्सा सोऽवोचद्यत्र साङ्गना । क्वाङ्गनेति च पृष्टेन को वेत्तीति निवेदितम् ॥६१॥
 अपरीक्ष्यशांलानां सहसा कार्यकारिणाम् । पश्चात्तापो भवत्येव जनानां प्राणधारिणाम् ॥६२॥
 कान्तां यदि न पश्यामि मृत्युमेमि ततो ध्रुवम् । प्रतिज्ञैवं कृतानेन त्वत्पुत्रेण सुनिश्चिता ॥६३॥
 इति श्रुत्वा विलापं सा चकारेति सुदुःखिता । वेष्टिता स्त्रीसमूहेन स्रवहोचनवारिणा ॥६४॥
 अज्ञातसत्यया कष्टं पापया किं मया कृतम् । येन पुत्रः परिप्राप्तो जीवनस्य तु संशयम् ॥६५॥
 क्रूरसंधानधारिण्या वक्रमानसया मया । असर्माहितकारिण्या मन्द्या किमनुष्ठितम् ॥६६॥
 मुक्तं वायुकुमारेण पुरमेतन्न शोभते । विजयार्थगिरीशो वा सेवा वा रक्षसा विभोः ॥६७॥
 दुष्करो रावणस्यापि सन्धियेन रणे कृतः । कस्तस्य मम पुत्रस्य सदृशोऽत्र नरो भुवि ॥६८॥
 हा वत्स ! विनयाधार ! गुरुपूजनतत्पर ! । जगत्सुन्दर ! विख्यातगुण ! क्वासि गतो मम ॥६९॥
 भवदुःखान्निःसंतसां मातरं मातृवत्सल ! । प्रतिवान्यप्रदानेन कुरु शोकविवर्जिताम् ॥७०॥

अधिक बड़ी मालूम हुई थी ॥५५॥ गौतमन्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! यह वृत्तान्त तो मैंने तुझसे कहा । अब पवनक्षयके घरसे चले जानेपर माता-पिताकी क्या चेष्टा हुई यह कहता हूँ सो सुन ॥५६॥

मित्रने जाकर जब पवनक्षयका वृत्तान्तका कहा तब उसके समस्त भाई-बन्धु परम शोकको प्राप्त हुए ॥५७॥ अथानन्तर पुत्रके शोकसे पीड़ित केतुमती अश्रुओंकी धारासे दुर्दिन उपजाती हुई प्रहसितसे बोली कि हे प्रहसित ! क्या तुम्हें ऐसा करना उचित था जो तू मेरे पुत्रको छोड़कर अकेला आ गया ॥५८-५९॥ इसके उत्तरमें प्रहसितने कहा कि हे अम्ब ! उसीने प्रयत्नकर मुझे भेजा है । उसने मुझे किसी भी भावसे वहाँ नहीं ठहरने दिया ॥६०॥ केतुमतीने कहा कि वह कहाँ गया है ? प्रहसितने कहा कि जहाँ अज्ञाना है । अज्ञाना कहाँ है ? ऐसा केतुमतीने पुनः पूछा तो प्रहसितने उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता हूँ । जो मनुष्य विना परीक्षा किये सहसा कार्य कर बैठते हैं उन्हें पश्चात्ताप होता ही है ॥६१-६२॥ प्रहसितने केतुमतीसे यह भी कहा कि तुम्हारे पुत्रने यह निश्चित प्रतिज्ञा की है कि यदि मैं प्रियाको नहीं देखूँगा तो अवश्य ही मृत्युको प्राप्त होऊँगा ॥६३॥ यह सुनकर केतुमती अत्यन्त दुःखी होकर विलाप करने लगी । उस समय जिनके नेत्रोंसे अश्रु भर रहे थे ऐसी स्त्रियोंका समूह उसे घेरकर बैठा था ॥६४॥ वह कहने लगी कि सत्यको जाने विना मुझ पापिनीने क्या कर डाला जिससे पुत्र जीवनके संशयको प्राप्त हो गया ॥६५॥ क्रूर अभिप्रायको धारण करनेवाली कुटिल चित्त तथा विना विचारे कार्य करनेवाली मुझ मूर्खाने क्या कर डाला ? ॥६६॥ वायुकुमारके द्वारा छोड़ा हुआ यह नगर शोभा नहीं देता । यही नगर क्यों ? विजयार्द्ध पर्वत ही शोभा नहीं देता और न रावणकी सेना ही उसके विना सुशोभित है ॥६७॥ जो रावणके लिए भी कठिन थी ऐसी सन्धि युद्धमें जिसने करा दी मेरे उस पुत्रके समान पृथ्वीपर दूसरा मनुष्य है ही कौन ? ॥६८॥ हाय बेटा ! तू तो विनयका आधार था, गुरुजनोंकी पूजा करनेमें सदा तत्पर रहता था, जगत् भरमें अद्वितीय सुन्दर था, और तेरे गुण सर्वत्र प्रसिद्ध थे फिर भी तू कहाँ चला गया ॥६९॥ हे मातृवत्सल ! जो तेरे दुःख रूपी अग्निसे

विलापमपि कुर्वाणां ताडयन्तीसुरो^१ भृशम् । सान्त्वयन्वनितां कृच्छ्रात्प्रह्लादं साश्रुलोचनः ॥७१॥
 सर्वबन्धुजनाकीर्णं कृत्वा प्रहसितं पुरः । निर्यातः स्वपुरात् पुत्रमुपलब्धु समुसुकः ॥७२॥
 सर्वे चाह्वयिता तेन खगा द्विश्रेणिवासिनः । प्रीत्या ते तु समायाताः परिवारसमन्विताः ॥७३॥
 रवे^२ पन्थानमाश्रित्य भास्वद्विविधवाहनाः । अन्वेप्यस्ते महीं यत्नाद् गह्वरन्यस्तलोचनाः ॥७४॥
 प्रतिभानुरुदन्त तं ज्ञात्वा प्रह्लाददूततः । उद्वहन्मनसा शोकमक्षणायै न्यवेदयत् ॥७५॥
 प्रथमादपि सा दुःखात्ततो दुःखेन भूयसा । अश्रुधौतमुखा चक्रे^३ करुणं परिदेवनम् ॥७६॥
 हा नाथ प्राणसर्वस्व मम मानसबन्धन । क्व मां त्यक्त्वा प्रयातोऽसि क्लेशसन्ततिभागिनीम् ॥७७॥
 किं वाद्यापि न तं कोपं विमुञ्चसि पुरातनम् । अदृश्यत्वं यदेतोऽसि^४ सर्वविद्याभृतामपि ॥७८॥
 अप्येक प्रतिवाक्य मे नाथ यच्छामृतोपमम् । नत्वापन्नहितोन्मुक्ता महारमानो भवन्ति हि ॥७९॥
 इयन्तं धारिताः कालं भवदर्शनकाङ्क्षया । प्राणा मयाधुना कार्यं किमेतैः पापकर्मभिः ॥८०॥
 समागममवाप्स्यामि^५ प्रियेणेति सम कृताः । कथं मनोरथा भग्ना दैवेनाफलित्वा मम ॥८१॥
 कृते मे मन्दभाग्यायाः प्रियोऽवस्था गतो भवेत् । तामिदं हृदयं क्रूर यां समाशङ्कते मुहुः ॥८२॥
 वसन्तमालिके पश्य किमिदं वर्तते मम । असह्यविरहाङ्गारपत्यङ्कपरिवर्तनम् ॥८३॥
 वसन्दमालया चोक्ता देवि मैवममङ्गलम् । व्यरटीः सर्वथासौ ते भर्ता गोचरमेप्यति ॥८४॥

सन्तप्त हो रही है ऐसी अपनी माताको प्रत्युत्तर देकर शोकरहित कर ॥७०॥ इस प्रकार विलाप करती और अत्यधिक छाती कूटती हुई केतुमतिको राजा प्रह्लाद सान्त्वना दे रहे थे पर शोकके कारण उनके नेत्रोंसे भी टप-टप आँसू गिरते जाते थे ॥७१॥ तदनन्तर पुत्रको पानेके लिए उत्सुक राजा प्रह्लाद समस्त बन्धुजनोंके साथ प्रहसितको आगेकर अपने नगरसे निकले ॥७२॥ उन्होंने दोनो श्रेणियोंमे रहनेवाले समस्त विद्याधरोको बुलवाया सो अपने-अपने परिवारसहित समस्त विद्याधर प्रेमपूर्वक आ गये ॥७३॥ जिनके नाना प्रकारके वाहन आकाशमें देदीयमान हो रहे थे और जिनके नेत्र नीचे गुफाओंमें पड़ रहे थे ऐसे वे समस्त विद्याधर बड़े यत्नसे पृथ्वीकी खोज करने लगे ॥७४॥

ईधर प्रह्लादके दूतसे राजा प्रतिसूर्यको जब यह समाचार मालूम हुआ तो हृदयसे शोक धारण करते हुए उसने यह समाचार अञ्जनासे कहा ॥७५॥ अञ्जना पहलेसे ही दुःखी थी अब इस भारी दुःखसे और भी अधिक दुःखी होकर वह करुण विलाप करने लगी । विलाप करते समय उसका मुख अश्रुओंसे धुल रहा था ॥७६॥ वह कहने लगी कि हाय नाथ ! आप ही तो मेरे हृदयके बन्धन थे फिर निरन्तर क्लेश भोगनेवाली अबलाको छोड़कर आप कहाँ चले गये ? ॥७७॥ क्या आज भी आप उस पुरातन क्रोधको नहीं छोड़ रहे हैं जिससे समस्त विद्याधरोके लिए अदृश्य हो गये हैं ॥७८॥ हे नाथ ! मेरे लिए अमृत तुल्य एक भी प्रत्युत्तर दीजिए क्योंकि महापुरुष आपत्तिमें पड़े हुए प्राणियोंका हित करना कभी नहीं छोड़ते ॥७९॥ मैंने अब तक आपके दर्शनकी आकांक्षासे ही प्राण धारण किये हैं । अब मुझे इन पापी प्राणोंसे क्या प्रयोजन है ? ॥८०॥ मैं पतिके साथ समागमको प्राप्त होऊँगी, ऐसे जो मनोरथ मैंने किये थे वे आज दैवके द्वारा निष्फल कर दिये गये ॥८१॥ मुझ मन्द-भागिनीके लिए प्रिय उस अवस्थाको प्राप्त हुए होंगे जिसकी कि यह क्रूर हृदय बार-बार आशङ्का करता रहा है ॥८२॥ वसन्तमाले ! देख तो यह क्या हो रहा है ? मुझे असह्य विरहके अङ्गाररूपी शय्यापर कैसे लोटना पड़ रहा है ? ॥८३॥ वसन्तमालाने कहा कि हे देवि ! ऐसी अमाङ्गलिक रट मत लगाओ । मैं निश्चित कहती

१. मुखे म० । २. रवे म० । ३. उद्वहंतं महाशोक- म० । तद्वहंतं महाशोक- क० । ४. करुण म० । ५. यदेतासि व० । ६. मवाक्ष्यामि (?) म० । ७. व्युपसर्गपूर्वकरटधातोलुङ्मध्यमपुरुषैकवचने रूपम् । व्यरटीः म०, व०, ।

एष कल्याणि ते नाथमानयाभ्यचिरादिति । प्रतिसूर्यं समाश्वस्य कृच्छ्रेणाञ्जनसुन्दरीम् ॥८५॥
मनोहर समारूढ खगयानं मनोजवम् । नभोमूर्धानमुत्पत्य वीक्षमाण चित्तिं ययौ ॥८६॥
प्रतिभानुसमेतास्ते वैजयाद्धां नभश्चरा । त्रैकूटाश्च प्रयत्नेन निरैचन्त महीतलम् ॥८७॥
अथ भूतरवाटव्या ददृशुस्ते महाद्विपम् । प्रावृपेण्यघनोदारसघाताकारधारिणम् ॥८८॥
अथ स कालमेघाख्यं पवनद्विप इत्यमी । अभ्यज्ञासिपुरेनञ्च पूर्वदृष्टेरेनेकश ॥८९॥
अयमेव स हस्तीति जगदुश्च परस्परम् । सर्वे विद्याधरा हृष्टा सम कृतमहारवा ॥९०॥
नीलाञ्जनगिरिच्छायः कुन्दराशिसितद्विजः । युक्तप्रमाणहस्तोऽय हस्ती यत्रावतिष्ठते ॥९१॥
पवनञ्जयवीरेण देशेऽत्र गतसशयम् । भवितव्यमय तस्य मित्रवत्पारश्वंगोचर ॥९२॥
वदन्त इति ते याता समीपं तस्य दन्तिन' । निरङ्कुशतया तस्य मनाविव्रस्तमानसा ॥९३॥
रवेण महता तेषां चुचोभ स महागज । दुर्निवारश्चलङ्गीमसमस्ताङ्गो महाजव ॥९४॥
मदक्लिन्नकपोलोऽसौ स्तब्धकर्णः सुगर्जितः । दिश पश्यति यामेव तत्र क्षुभ्यन्ति खेचरा ॥९५॥
दृष्ट्वा जनसमूहं त स्वाभिरचणतत्परः । पवनञ्जयसामीप्यं न जहाति स वारण ॥९६॥
मण्डलेन भ्रमत्यस्य सलील भ्रमयन् करम् । दर्शनेनैव चण्डेन त्रासयन् सर्वखेचरान् ॥९७॥
करिणीभिरथावृत्य द्विप यत्नेन खेचरा । वशीकृत्य तमुद्देशमवतीर्णा समुत्सुका ॥९८॥

हूँ कि भर्ता तुम्हारे समीप आवेगा ॥८४॥ 'हे कल्याणि । मैं तेरे भर्ताको अभी हाल ले आता हूँ' इस प्रकार अञ्जनाको वड़े दु खसे आशवासन देकर राजा प्रतिसूर्य मनके समान तीव्रवेग वाले सुन्दर विमानमे चढ़कर आकाशमे उड़ गया । वह पृथिवीको अच्छी तरह देखता हुआ जा रहा था ॥८५-८६॥ इस प्रकार विजयार्धवासी विद्याधर और त्रिकूटाचलवासी राक्षस राजा प्रतिसूर्यके साथ मिलकर वड़े प्रयत्नसे पृथिवीका अवलोकन करने लगे ॥८७॥

अथानन्तर उन्होंने भूतरव नामक अटवीमें वर्षा ऋतुके मेघके समान विशाल आकारको धारण करने वाला एक बड़ा हाथी देखा ॥८८॥ उस हाथीको उन्होंने पहले अनेक वार देखा था इसलिए 'यह पवनकुमारका कालमेघ नामक हाथी है' इस प्रकार पहिचान लिया ॥८९॥ 'यह वही हाथी है' इस प्रकार सब विद्याधर हर्षित हो जोरसे हल्ला करते हुए परस्पर एक दूसरेसे कहने लगे ॥९०॥ जो नीलगिरि अथवा अञ्जनगिरिके समान सफेद हैं तथा जिसकी सूँड योग्य प्रमाणसे सहित है ऐसा यह हाथी जिस स्थानमे है निःसन्देह उसी स्थानमे पवनञ्जयको होना चाहिए क्योंकि यह हाथी मित्रके समान सदा उसके समीप ही रहता है ॥९१-९२॥ इस प्रकार कहते हुए सब विद्याधर उस हाथीके पास गये । चूँकि वह हाथी निरङ्कुश था इसलिए विद्याधरो का मन कुछ-कुछ भयभीत हो रहा था ॥९३॥ उन विद्याधरोके महा शब्दसे वह महान् हाथी सचमुच ही लुभित हो गया । उस समय उसका रोकना कठिन था, उसका समस्त भयकर शरीर चञ्चल हो रहा था और वेग अत्यन्त तीव्र था ॥९४॥ उसके दोनों कपोल मदसे भीगे हुए थे, कान खड़े थे और वह जोर-जोरसे गर्जना कर रहा था । वह जिस दिशामे देखता था उसी दिशा के विद्याधर लुभित हो जाते थे—भयसे भागने लगते थे ॥९५॥ उस जनसमूहको देखकर स्वामीकी रक्षा करनेमे तत्पर हाथी पवनञ्जयकी समीपताको नहीं छोड़ रहा था ॥९६॥ वह लीलासहित सूँडको घुमाता और अपने तीक्ष्ण दशनसे ही समस्त विद्याधरोको भयभीत करता हुआ पवनञ्जयके चारों ओर मण्डलाकार भ्रमण कर रहा था ॥९७॥

तदनन्तर विद्याधर यत्नपूर्वक हस्तिनियोसे उस हाथीको घेरकर तथा वशमे कर उत्सुक

१. समासह्य म० । २. ददृशे म० । ३. धारिणाम् म० । ४. मेघाख्यपवन म० । ५. अभ्यज्ञासिपु म० । ६. महारवः म० । ७. भययत्करम् म० ।

उपायेभ्यो हि सर्वेभ्यो वशीकरणवस्तुनि । कामिनीसङ्गमुष्मत्वा नापरं विद्यते परम् ॥६६॥
 अथेत्ताञ्चक्रिरे वायुं विस्तस्ताङ्गं नभश्चराः । पुस्तकर्मसमाकारं वाचयमतया स्थितम् ॥१००॥
 यथार्हमुपचारं ते चक्रुरस्य तथाप्यसौ । न प्रयच्छति चिन्तास्थः प्रतिवाक्यं मुनिर्यया ॥१०१॥
 पुत्रप्रीत्या तमाप्राय पितरौ मस्तके मुहुः । आलिङ्ग्य च प्रमोदेन वाष्पस्थगितलोचनौ ॥१०२॥
 ऊच्चतुर्वत्स संत्यज्य पितरौ कथमीदृशम् । चेष्टितं क्रियते त्वं हि विनीतानां धुरिस्थितः ॥१०३॥
 वरशय्योचितः कायस्वयाद्य विजने वने । संवाहितः कथं भीमे रात्रौ पादपगह्वरे ॥१०४॥
 इति संभाष्यमाणोऽपि नासौ वाचमुदाहरत् । मरणे निश्चितोऽस्मीति संज्ञयैव न्यवेदयत् ॥१०५॥
 व्रतमेतन्मयोपात्तं यदप्राप्य महेन्द्रजाम् । न भुञ्जे न वदामीति तत्कथं भज्यतेऽधुना ॥१०६॥
 आस्तां तावत्प्रिया सत्यव्रतं संरक्षता मया । गुरु^१प्रशवासितावेतौ कथमित्याकुलोऽभवत् ॥१०७॥
 ततस्तं नतमूर्धानं मौनव्रतसमाश्रितम् । मरणे निश्चितं ज्ञात्वा जग्मुर्विद्याधराः शुचम् ॥१०८॥
 समेतास्तत्पितृभ्यां ते विलेपुर्दीनमानसाः । संस्पृशन्तः करैरस्य शरीरं स्वेदधारिभिः ॥१०९॥
 ततः स्मितमुखोऽबोचत् प्रतिसूर्यो नभश्चरान् । मा भूत् विकल्वा वायुमेप वो भाषयाम्यहम् ॥११०॥
 पवनं च परिष्वज्य जगादानुक्रमान्वितम् । कुमार शृणु यद्वृत्तं कथयामि तवाखिलम् ॥१११॥
 सन्ध्याभ्रपर्वते रम्ये मुनेः कैवल्यमुद्गतम् । अनङ्गवीचिसंज्ञस्य देवेन्द्रक्षोभकारणम् ॥११२॥
 वन्दित्वा तं प्रदीपेन रात्रावागच्छता मया । रुदितध्वनिरश्रावि स्रैणस्तन्त्रीस्वनोपमः ॥११३॥

होते हुए उस स्थान पर उतरे ॥६८॥ वशीकरणके समस्त उपायोंमें स्त्रीसमागमको छोड़कर और दूसरा उत्तम उपाय नहीं है ॥६९॥ अथानन्तर जिसका समस्त शरीर ढीला हो रहा था, चित्र-लिखितके समान जिसका आकार था और जो मौनसे बैठा था ऐसे पवनञ्जयको विद्याधरोंने देखा ॥१००॥ यद्यपि सब विद्याधरोंने उसका यथायोग्य उपचार किया तो भी वह मुनिके समान चिन्तामें निमग्न बैठा रहा—किसीसे कुछ नहीं कहा ॥१०१॥ माता पिताने पुत्रकी प्रीतिसे उसका मस्तक सूँधा, बार बार आलिङ्गन किया और इस हर्षसे उनके नेत्र आँसुओंसे आच्छादित हो गये ॥१०२॥ उन्होंने कहा भी कि हे वेदा ! तुम माता-पिताको छोड़कर ऐसी चेष्टा क्यों करते हो ? तुम तो विनीत मनुष्योंमें सबसे आगे थे ॥१०३॥ तुम्हारा शरीर उत्कृष्ट शय्या पर पड़ने के योग्य है पर तुमने आज इसे भयंकर एवं निर्जन वनके बीच वृत्तकी कोटरमें क्यों डाल रक्खा है ? ॥१०४॥ माता-पिताके इस प्रकार कहने पर भी उसने एक शब्द नहीं कहा । केवल इशारेसे यह वता दिया कि मैं मरनेका निश्चय कर चुका हूँ ॥१०५॥ मैंने यह व्रत कर रक्खा है कि अज्ञाना को पाये बिना मैं न भोजन करूँगा और न बोलूँगा । फिर इस समय वह व्रत कैसे तोड़ दूँ ? ॥१०६॥ अथवा प्रियाकी बात जाने दो, सत्य-व्रतकी रक्षा करता हुआ मैं इन माता-पिताको किस प्रकार संतुष्ट करूँ यह सोचता हुआ वह कुछ व्याकुल हुआ ॥१०७॥ तदनन्तर जिसका मस्तक नीचेकी ओर झुक रहा था और जो मौनसे चुपचाप बैठा था ऐसे पवनञ्जयको मरनेके लिए कृतनिश्चय जानकर विद्याधर शोकको प्राप्त हुए ॥१०८॥ जिनके हृदय अत्यन्त दीन थे और जो स्वेदको धारण करने वाले हाथोंसे पवनञ्जयके शरीरका स्पर्श कर रहे थे ऐसे सब विद्याधर उसके माता-पिताके साथ विलाप करने लगे ॥१०९॥

तदनन्तर हँसते हुए प्रतिसूर्यने सब विद्याधरोंसे कहा कि आपलोग दुःखी न हों । मैं आप लोगोंसे पवन कुमारको बुलवाता हूँ ॥११०॥ तथा पवनञ्जयका आलिङ्गन कर क्रमानुसार उससे कहा कि हे कुमार ! सुनो, जो कुछ भी वृत्तान्त हुआ है वह सब मैं कहता हूँ ॥१११॥ संध्याभ्र नामक मनोहर पर्वतपर अनङ्गवीचि नामक मुनिराजको इन्द्रोंमें क्षोभ उत्पन्न करने वाला केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ था ॥११२॥ मैं उनकी वन्दना कर दीपकके सहारे रात्रिको चला आ रहा था

अदौ किपि तमुद्देशं गिरेः प्रस्थं समुन्नतम् । पर्यङ्कनाग्नि दृष्टा च गुहायामञ्जना मया ॥११४॥
निर्वासकारणं चास्या विज्ञाय त्रिनिवेदितम् । मया भाश्वासिता बाला र्वदती शोकविह्वला ॥११५॥
तस्यामसूत सा पुत्रमन्वितं लक्ष्मणैः शुभैः । यस्य भासा गुहा सासीत् सुवर्णैर्नैवं निर्मिता ॥११६॥
स तोपं परमं प्राप्तः श्रुत्वा तां जातपुत्रिकाम् । ततस्तत इति क्षिप्रमपृच्छच्च समीरणः ॥११७॥
अवोचत् स ततन्तस्याः सुतोऽसौ चारुचेष्टितः । विमाने स्थाप्यमानः सन् पतितः शैलगह्वरे ॥११८॥
अत्रान्तरे पुनः प्राप्तो विपादं पवनञ्जयः । हाकारसुखरः सार्द्धं तथा खेचरसेनया ॥११९॥
प्रतिभानुः पुनश्चोचे मा गाः शोकं ततः शृणु । यद्वृत्तं तत्समस्तं ते वायो दुःखं हरिष्यति ॥१२०॥
तनो हाकारशब्देन सुखरीकृतदिङ्मुखाः । अवतीर्यानिधं बालमैत्रिप्सहि नगान्तरे ॥१२१॥
चूर्गिनश्च ततः शैलस्तैनासौ पतनात्तदा । श्रीशैल इति तेनासावत्साभिर्विस्मितैः स्तुतः ॥१२२॥
वसन्तमालया साकं ततः पुत्रेण संयुता । विमानमञ्जनारोप्य मया नीता निजं पुरम् ॥१२३॥
तनो हनूरुहाभिर्ये पुरे संवर्द्धितः शिशुः । हनूमानिति तेनास्य द्वितीयं नाम निर्मितम् ॥१२४॥
पृषा ते कथिता साकं पुत्रेणाद्भुतकर्मणा । मत्पुरे शीलसम्पन्ना तिष्ठतीति विबुध्यताम् ॥१२५॥
पुरस्कृत्य ततो वायुं दृष्टा गगनचारिणः । क्षिप्रं हनूरुहं जम्बुरञ्जनादर्शनोत्सुकाः ॥१२६॥
तेषां महौत्सवस्तत्र समागमकृतोऽभवत् । सुसंवेद्यस्तु दम्पत्योर्दुराख्यानो विशेषतः ॥१२७॥
तत्र मासद्वयं नीत्वा खेचराः प्रीतमानसाः । आमन्य लब्धसन्माना ययुः स्थानं यथायथम् ॥१२८॥

कि मैंने वीणाके शब्दके समान किसी लोको रोनेका शब्द सुना ॥११३॥ मैं उस शब्दको लक्ष्यकर पर्वतकी ऊँची चोटी पर गया । वहाँ मुझे पर्यङ्कनामकी गुफामें अञ्जना दिखी ॥११४॥ इसके निर्वासका कारण जो बताया गया था उसे जानकर शोकसे विह्वल होकर रोती हुई उस बालाको मैंने सान्त्वना दी ॥११५॥ उसी गुफामें उसने शुभ लक्षणोंसे युक्त ऐसा पुत्र उत्पन्न किया कि जिसकी प्रभासे वह गुफा सुवर्णसे बनी हुई के समान हो गई ॥११६॥ अञ्जनाके पुत्र हो चुका है यह जानकर पवनञ्जय परम संतोषको प्राप्त हुआ और फिर क्या हुआ ? फिर क्या हुआ ? वह शीघ्रतासे पूछने लगा ॥११७॥ प्रतिसूर्यने कहा कि उसके बाद अञ्जनाके उस सुन्दर चेष्टाओंके धारक पुत्रको विमानमें बैठाया जा रहा था कि वह पर्वतकी गुफामें गिर गया ॥११८॥ यह सुनकर हाहाकार करता हुआ पवनञ्जय विद्याधरोंकी सेनाके साथ पुनः विपादको प्राप्त हुआ ॥११९॥ तत्र प्रतिसूर्यने कहा कि शोकको प्राप्त मत होओ । जो कुछ वृत्तान्त हुआ वह सब सुनो । हे पवन ! पूरा वृत्तान्त तुम्हारे दुःखको दूर कर देगा ॥१२०॥ प्रतिसूर्य कहता जाता है कि तदनन्तर हाहाकारसे दिशाओंको शब्दायमान करते हुए हम लोगोंने नीचे उतरकर पर्वतके बीच उस निर्दोष बालकको देखा ॥१२१॥ चूँकि उस बालकने गिरकर पर्वतको चूर-चूर कर डाला था इसलिए हम लोगोंने विस्मित होकर उसको 'श्रीशैल' इस नामसे स्तुति की ॥१२२॥ तदनन्तर पुत्रसहित अञ्जनाको वसन्तमालाके साथ विमानमें बैठाकर मैं अपने नगर ले गया ॥१२३॥ आगे चलकर चूँकि उसका हनूरुह द्वीपमें संवर्धन हुआ है इसलिए हनूमान् यह दूसरा नाम भी रखा गया है ॥१२४॥ इस तरह आपने जिसका कथन किया है वह शीलवती अञ्जना आश्चर्यजनक कार्य करनेवाले पुत्रके साथ मेरे नगरमें रह रही है सो ब्रात कीजिए ॥१२५॥ तदनन्तर हर्षसे भरे विद्याधर अञ्जनाके देखनेके लिए उत्सुक हो पवनञ्जयको आगेकर शीघ्र ही हनूरुह नगर गये ॥१२६॥ वहाँ अञ्जना और पवनञ्जयका समागम हो जानेसे विद्याधरोंको महान् उत्सव हुआ । दोनों दम्पतियोंको जो उत्सव हुआ था वह स्वसंवेदनसे ही जाना जा सकता था विशेषकर उसका कहना अशक्य था ॥१२७॥ वहाँ विद्याधरोंने प्रसन्नचित्तसे दो महीने व्यतीत किये ।

१. अदौकृत म० । २. रुदन्ती क० । ३. तोपं च म०, ज०, व०, क० । ४. वायोर्दुःखं म०, क०, व० ।

चिरालसंप्राप्तपत्नीकं पवनोऽपि सुचेष्टितः । तत्र गीर्वाणवद्रेने सुतचेष्टामिनन्दितः ॥१२६॥
 हनूमांस्तत्र संग्राह्य यौवनश्रियसुचसाम् । मेरुकृममानाङ्गः स्तेनकः सर्वचेतसाम् ॥१२७॥
 सिद्धविद्यं प्रभावाढ्यो विनयज्ञो महाबलः । सर्वशास्त्रार्थकुशलः परोपकृतिदक्षिणः ॥१२८॥
 नाकोपमुक्तपाकस्य पुण्यशेषस्य भोजकः । रमते स्म पुनः तत्र गुरुपूजनतत्परः ॥१२९॥

शार्दूलविक्रीडितम्

श्रीशैलस्य समुद्रवेन सहितं वाचो. समं कान्तया
 यो मावेन शृणोति सङ्गमिमं नानारसैरद्भुतम् ।
 जन्तोस्तस्य समस्तसंभृतिविधिज्ञानेन लब्धान्मनो
 बुद्धिर्नाशुभकर्मणि प्रभवति प्रारब्धसन्कर्मणः ॥१३३॥
 आयुर्दीर्घमुदारविभ्रनयुतं कान्तं वपुर्नीलम्
 मेधां सर्वकृतान्तपारविषयां कीर्तिं च चन्द्रामलाम् ।
 पुण्यं स्वर्गसुखोपभोगचतुरं लोके च यद्दुर्लभं
 तत्सर्वं सकृद्वरुणे रविरिव स्तोतप्रभामण्डलम् ॥१३४॥

इत्यादि रविपेणाचार्यश्रोत्रे पद्मचरिते पवनान्जनाममागमाभिधानं नामाष्टादशं पर्व ॥१८॥

तदनन्तर पूङ्गुकर सम्मान प्राप्त करते हुए सब यथास्थान चले गये ॥१२८॥ चिरकालके बाद पत्नी-
 को पाकर पवनजयकी चेष्टाएँ भी ठीक हो गईं और वह पुत्रकी चेष्टाओंसे आनन्दित होता हुआ
 वहाँ देवकी तरह रमण करने लगा ॥१२६॥ हनूमान् भी वहाँ उत्तम यौवन-लक्ष्मीको पाकर
 सबके चित्तको चुराने लगा तथा उसका शरीर मेरु पर्वतके शिखरके समान देदीप्यमान हो
 गया ॥१२७॥ उसे समस्त विद्याएँ सिद्ध हो गई थीं, प्रभाव उसका निराला ही था, विनयका
 वह जानकार था, महा बलवान् था, समस्त शान्त्रोक्त अर्थ करनेमें कुशल था. परोपकार करनेमें
 उदार था. स्वर्गमें भोगनेसे वाकी वचे पुण्यका भोगने वाला था और गुरुजनोंकी पूजा करनेमें
 तत्पर था । इस तरह वह उस नगरमें बड़े आनन्दसे क्रीड़ा करता था ॥१२९-१३२॥

गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! जो हनूमानके साथ-साथ नाना
 रसोंसे आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले इस अञ्जना और पवनञ्जयके संगमको भावसे सुनता है
 उसे संसारकी समस्त विधिका ज्ञान हो जाता है तथा उस ज्ञानके प्रभावसे उसे आत्म-ज्ञान
 उत्पन्न हो जाता है जिससे वह उत्तम कार्य ही प्रारम्भ करता है और अशुभ कार्यमें उसकी बुद्धि
 प्रवृत्त नहीं होती ॥१३३॥ वह दीर्घ आयु, उदार विभ्रमोंसे युक्त, सुन्दर नीरोग शरीर, समस्त
 शान्त्रोक्ते पारको विषय करनेवाली बुद्धि, चन्द्रमाके समान निर्मल कीर्ति, स्वर्ग-सुखका उपभोग
 करनेमें चतुर, पुण्य तथा लोकमें जो कुछ भी दुर्लभ पदार्थ हैं उन सबको एक बार उस तरह
 प्राप्त कर लेता है जिस प्रकार कि सूर्य देदीप्यमान कान्तिके मण्डल को ॥१३४॥

इम प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्य द्वारा कथित पद्मचरितमें पवनजय और
 अञ्जनाके समागमका वर्णन करनेवाला अष्टादशो पर्व समाप्त हुआ ॥१८॥

एकोनविंशतितमं पर्व

रावणोऽथ वहन् द्रोणं क्रोधमप्राप्तनिर्वृति । आहुदौकत् पुनः सर्वान् खेचरान् लेखहारिभि ॥१॥
 किष्किन्धेन्द्रस्तमभ्यागात्तथा दुन्दुभिसञ्जक । अलङ्काराधिपो यश्च रथनूपुरपस्तथा ॥२॥
 विजयाद्वेगो ये च श्रेणिद्वयनिवाग्नि । सर्वोद्योगेन ते सर्वे प्राप्ता रत्नश्रवसुतम् ॥३॥
 अथो हनूरुहद्वीप नरो मस्तकलेखक । प्राप्तः पवनवेगस्य प्रतिसूर्यस्य चान्तिकम् ॥४॥
 लेखार्थमभिगम्यतां प्रयाणन्धस्तमानसा । श्रीगैलस्योद्यतां कर्तुमभिपेक नृपास्पदं ॥५॥
 कृतस्तदर्थमाटोपैन्तूर्यगच्छादिको महान् । नरा कलगहस्ताश्च श्रीशैलस्य पुरः स्थिता ॥६॥
 किमेतदिति तां तेन पृष्टाविदमवोचताम् । राज्य हनूरुहद्वीपे वत्स त्वपालयाधुना ॥७॥
 युद्धे सहायनां कर्तुमावासीगेन रचनाम् । आहूतो तस्य कर्तव्यं ग्रीन्यावाभ्यां यथोचितम् ॥८॥
 रसातलपुरे तस्य वरुण प्रत्यवस्थित । दुर्जयोऽसां महासैन्य पुत्रदुर्गलोक्त ॥९॥
 हनूमानेवमुक्तः मन् विनयेनेदमब्रवीत् । मयि स्थिते न युक्त वा गन्तुमायोधन गुरु ॥१०॥
 अविज्ञातरणास्त्राटो वत्स त्वमिति भाषिते । जगाद किं शिवस्थानं कटाचिद्ब्रह्ममाप्यते ॥११॥
 यदा निवार्यमाणोऽपि न स्यात्तु कुरने मन । तदा ताम्यामनुज्ञातः स युवा गमनं प्रति ॥१२॥
 स्नान्वा भुक्त्वा च पूर्वाह्ने मङ्गलार्चितविग्रह । कृतप्रणामः सिद्धानामहंताञ्च प्रयत्नत ॥१३॥

अथानन्तर रावणको संतोष नहीं हुआ सो उसने बहुत भारी क्रोध धारण कर पत्रवाहकोके द्वारा समस्त विद्याधरोको फिरसे बुलाया ॥१॥ किष्किन्धाका राजा, दुन्दुभि, अलंकारपुरका अधिपति, रथनूपुर पुरका स्वामी तथा विजयाद्वे पर्वतकी दोनों श्रेणियोंमें निवास करनेवाले अन्य समस्त विद्याधर सब प्रकारकी तैयारीके साथ रावणके समीप जा पहुँचे ॥२-३॥ तदनन्तर मस्तकपर लेखको धारण करनेवाला एक मनुष्य हनूरुह द्वीपमें पवनञ्जय और प्रतिसूर्यके पास भी आया ॥४॥ लेखका अर्थ समझकर दोनोंने रावणके पास जानेका विचार किया सो वहाँ जानेके पूर्व वे राज्यपदपर हनूमान्का अभिपेक करनेके लिए उद्यत हुए ॥५॥ राज्याभिपेककी बड़ी तैयारी की गई । तुरही आदि चादियोंका बड़ा शब्द होने लगा और मनुष्य हाथमें कलश लेकर हनूमान्के सामने खड़े हो गये ॥६॥ हनूमान्ने पवनञ्जय और प्रतिसूर्यसे पूछा कि यह क्या है ? तब उन्होंने कहा कि हे वत्स ! अब तुम हनूरुह द्वीपके राज्यका पालन करो ॥७॥ हम दोनोंको रावणने युद्धमें सहायता करनेके लिए बुलाया है सो हमे प्रेमपूर्वक यथोचित रूपसे आज्ञापालन करना चाहिए ॥८॥ रसातलपुरमें जो वरुण रहता है वही उसके विरुद्ध खड़ा हुआ है । उसकी बहुत बड़ी सेना है तथा वह पुत्र और दुर्गके बलसे उत्कट होनेके कारण दुर्जय है ॥९॥ ऐसा कहनेपर हनूमान्ने विनयसे उत्तर दिया कि मेरे रहते हुए आप गुरुजनोंका युद्धके लिए जाना उचित नहीं है ॥१०॥ 'हे वेदा ! अभी तुमने रणका स्वाद नहीं जाना है' ऐसा जब उससे कहा गया तब उसने उत्तर दिया कि जो मोक्ष प्राप्त होता वह क्या कभी पहले प्राप्त किया हुआ होता है ? जब रोकनेपर भी उसने रुकनेका मन नहीं किया तब उन दोनोंने उस युवाको जानेकी स्वीकृति दे दी ॥११-१२॥

तदनन्तर प्रातःकाल स्नान कर जिसने अरहन्त और सिद्ध भगवान्को प्रयत्नपूर्वक प्रणाम किया था, भोजन कर शरीरपर मङ्गलद्रव्य धारण किये थे, जो महा तेजसे सहित था तथा सब

१. अहुदौकत् म०, व० । २. रथनूपुरकन्तथा व०, म०, ज० । ३. सूर्यगच्छादिको म० । ४. युवयोः । ५. लब्धुमाप्यते म० । ६. कृत. प्रणाम. म० ।

पितरं मातरं मातुर्मातुलं च महाद्युतिः । प्रणम्याशेषवर्गं च संभाष्य विधिकोविदः ॥१४॥
 विमानं सूर्यसंकाशं समारुह्य दिशो दश । व्याप्य शस्त्रसमूहेन ययौ लङ्कापुरीं प्रति ॥१५॥
 त्रिकूटाभिमुखो गच्छन्विमानेऽसावराजत । मन्दराभिमुखो यद्वदशानस्त्रिदशधिपः ॥१६॥
 जलवीचिगिरौ तस्य रविरस्तमुपागमत् । समुद्रवाचिसन्ताननुम्बितोरुनितम्बके ॥१७॥
 तत्र रात्रिं सुखं नीत्वा कृतसङ्गतसंकथः । महोत्साहेन संनह्य ययौ लङ्काहितेक्षणः ॥१८॥
 नानाजनपदान् द्वीपान्नगानूर्मिसमाहतान् । ग्रहांश्च जलधौ पश्यन् रक्षःसैन्यमवाप सः ॥१९॥
 दृष्ट्वा हनूमतः सैन्यं पुरुराक्षसपुङ्गवाः । विस्मयं परमं जग्मुः श्रीशैलाहितलोचनाः ॥२०॥
 चूर्णितोऽनेन शैलोऽसौ सोऽयं भव्यजनोत्तमः । इति शब्दमसौ शृण्वन् रावणस्य गतोऽन्तिकम् ॥२१॥
 मारुतिं रावणो वीक्ष्य कुसुमैरभिपूरितात् । सौरभाकृष्टसंभ्रान्तगुञ्जन्मत्तमधुव्रतात् ॥२२॥
 उपरिन्यस्तरत्नांशुच्छुरिताम्बरमण्डपात् । पर्यन्तस्थितसामन्तादभ्युत्तस्थौ शिलातलात् ॥२३॥
 परिप्लव्य हनूमन्तं विनयानतविग्रहम् । उपविष्टः समं तेन तत्र प्रीतिस्मिताननः ॥२४॥
 अन्योन्यं कुशलं पृष्ठा दृष्ट्वा न्योन्यस्य सम्पदम् । रेमाते तौ महाभाग्यौ देवेन्द्राविव सङ्गतौ ॥२५॥
 अथावोचदृशग्रीवः प्रमदान्वितमानसः । हनूमन्तं मुहुः पश्यन्नत्यन्तस्निग्धया दृशा ॥२६॥
 अहो संवर्द्धितं प्रेम वायुना मम साधुना । यदयं प्रेषितः पुत्रः प्रख्यातगुणसागरः ॥२७॥
 एनं प्राप्य महासत्त्वं तेजोमण्डलभूपितम् । नैव मे दुस्तरं किञ्चिद्भविष्यत्यत्र विष्टपे ॥२८॥

विधि-विधानके जाननेमें निपुण था ऐसा हनूमान् माता-पिता तथा माताके मामाको प्रणाम कर
 और समस्त लोगोंसे संभाषण कर सूर्यके समान चमकते हुए विमानपर बैठकर शस्त्रोंके समूहसे
 दशों दिशाओंको व्याप्त करता हुआ लङ्कापुरीकी ओर चला ॥१३-१५॥ विमानमें बैठकर त्रिकूटा-
 चलके सन्मुख जाता हुआ हनूमान् ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि मेरुके सन्मुख जाता
 हुआ ऐशानेन्द्र सुशोभित होता है ॥१६॥ समुद्रकी लहरोंकी सन्तति जिसके विशाल नितम्बको
 चूम रही थी ऐसे जल-वीचि गिरि पर जब वह पहुँचा तब सूर्य अस्त होगया ॥१७॥ सो वहाँ उत्तम
 योद्धाओंके साथ वार्तालाप करते हुए उसने सुखसे रात्रि बिताई और प्रातःकाल होनेपर बड़े
 उत्साहसे लङ्काकी ओर दृष्टि रखकर आगे चला ॥१८॥ इस तरह नाना देशों, द्वीपों, तरङ्गोंसे
 आहत, पर्वतों और समुद्रमें किलोल करते मगर-मच्छोंको देखता हुआ राक्षसोंकी सेनामें जा
 पहुँचा ॥१९॥ हनूमान्की सेना देखकर बड़े-बड़े राक्षसोंके शिरोमणि हनूमान्की ओर दृष्टि लगा-
 कर परम आश्चर्यको प्राप्त हुए ॥२०॥ जिसने पर्वतको चूर्ण किया था यह वही भव्य जनोत्तम है
 इस शब्दको सुनता हुआ हनूमान् रावणके समीप गया ॥२१॥ उस समय रावण उस शिला-
 तलपर बैठा था जो कि फूलोंसे व्याप्त था, सुगन्धिके कारण खिंचे हुए मदीन्मत्त भ्रमर जिसपर
 गुञ्जार कर रहे थे, जिसके ऊपर रत्नोंकी किरणोंसे व्याप्त कपड़ेका उत्तम मण्डप लगा हुआ था
 और जिसके चारों ओर सामन्त लोग बैठे थे । रावण हनूमान्को देखकर उस शिलातलसे उठकर
 खड़ा हो गया ॥२२-२३॥ तदनन्तर विनयसे जिसका शरीर झुक रहा था ऐसे हनूमान्का आलि-
 ङ्गन कर वह प्रीतिसे हँसता हुआ उसके साथ उसी शिलातलपर बैठ गया ॥२४॥ परस्परकी कुशल
 पूछकर तथा एक दूसरेकी सम्पदा देखकर दोनों महा भाग्यशाली इस तरह रमण करने लगे
 मानो दो इन्द्र ही परस्पर मिले हों ॥२५॥

अथानन्तर जो प्रसन्न चित्तका धारक था और अत्यन्त स्नेहभरी दृष्टिसे बार-बार उसी
 की ओर देख रहा था ऐसा रावण हनूमान्से बोला कि ॥२६॥ अहो, सज्जनोत्तम पवनकुमारने मेरे
 साथ खूब प्रेम बढ़ाया है जो प्रसिद्ध गुणोंके सागरस्वरूप इस पुत्रको भेजा है ॥२७॥ इस महा-

गुणेषु भाष्यमाणेषु श्रीशैलो नतविग्रहः । सग्रीव इव सवृत्त प्रायो वृत्तिरिय सताम् ॥२६॥
 भविष्यतोऽथ सग्रामाद्भयेनेव द्विवाकरः । अस्त सेवितुमारिभे मन्दारुणकरोत्करः ॥३०॥
 सन्ध्यास्य पृष्ठतो यान्ती वहन्ती रागमुत्कटम् । शुशुभे प्राणनाथस्य विनीता रमणी यथा ॥३१॥
 ततो निशावधू रेजे कृतचन्द्रविशेषका । कुर्वाणानुगति मर्तुर्वासरस्य निरन्तरम् ॥३२॥
 अन्येद्युर्भानुभिर्भानोरुज्ज्वले भुवने कृते । दगग्रीवः सुसन्नद्धः समस्तबलमध्यग ॥३३॥
 आसन्नस्थहनूमत्कः कृतमङ्गलविग्रहः । विद्यया जलधिभित्त्वा प्रयातो वारुण पुरम् ॥३४॥
 प्रत्यरि व्रजतोऽमुष्य दीक्षिरासीदनुत्तमा । कुंडारराममुद्दिश्य सुभूमस्येव चक्रिण ॥३५॥
 ज्ञात्वा दशानन प्रांस सैन्यनिस्वनसूचितम् । सञ्चोभ पुर सर्वं वरुणस्य महारवम् ॥३६॥
 पातालपुण्डरीकाख्य तत्पुर प्रबलध्वजम् । सुरतोरण जात सन्नाहरवसङ्कलम् ॥३७॥
 तत्रासुरपुराकारे पुरे सर्वमनोहरे । आसीच्चकितनेत्राणा स्त्रीणामाकुलता परा ॥३८॥
 योधास्तत्र निराक्रामन् समा भवनवासिनाम् । चमरासुरतुल्यश्च वरुणः शौर्यगर्वितः ॥३९॥
 तस्य पुत्रगत तावदुत्थित योद्धुमुद्धतम् । नाना प्रहरणद्वातरुद्धभास्करदर्शनम् ॥४०॥
 आपातमात्रक्रेणैव भग्न तै राक्षस बलम् । असुराणामिवोदारैः कुमारैः क्षौद्रदैवतम् ॥४१॥

बलवान् तथा तेजोमण्डलके धारक वीरको पाकर मुझे इस संसारमे कोई भी कार्य कठिन नहीं रह जायगा ॥२६॥ जब रावण हनूमान्के गुणोंका वर्णन कर रहा था तब वह लज्जितके समान नम्र शरीरका धारक हो गया था सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंकी यही वृत्ति है ॥२६॥ तदनन्तर जिसकी किरणोंका समूह लाल पड़ गया था ऐसा सूर्य मानो होनेवाले संग्रामके भयसे ही अस्त हो गया था ॥३०॥ उसके पीछे-पीछे जाती और उत्कट राग अर्थात् लालिमा (पक्षमे प्रेम) को धारण करती हुई संध्या ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो अपने प्राणनाथके पीछे-पीछे जाती हुई विनीत स्त्री—कुलवधू ही हो ॥३१॥ जो निरन्तर सूर्यके पीछे-पीछे चला करती थी ऐसी रात्रिरूपी वधू चन्द्रमारूपी तिलक धारण कर अतिशय सुशोभित होने लगी ॥३२॥ दूसरे दिन जब सूर्यकी किरणोंसे संसार प्रकाशमान हो गया तब रावण तैयार होकर वरुणके नगरकी ओर चला । उस समय रावण अपनी समस्त सेनाके मध्यमे चल रहा था । हनूमान् उसके पास ही स्थित था और मङ्गलद्रव्य उसने शरीरपर धारण कर रखे थे । वह विद्याके द्वारा समुद्रको भेदन कर वरुणके नगरकी ओर चला ॥३३-३४॥ जिस प्रकार परशुरामको लक्ष्य कर चलनेवाले सुभौम चक्रवर्तीकी अनुपम दीप्ति थी उसी प्रकार शत्रुके सन्मुख जानेवाले रावणकी दीप्ति भी अनुपम थी ॥३५॥ सेनाकी कल-कलसे दशाननको आया जान वरुणका समस्त नगर लुभित हो गया उसमे बड़ा कुहराम मच गया ॥३६॥ वरुणका वह नगर पातालपुण्डरीक नामसे प्रसिद्ध था । उसमें मजबूत ध्वजाएँ लगी हुई थीं और रत्नमयी तोरण उसको शोभा बढ़ा रहे थे, पर रावणके पहुँचने पर सारा नगर युद्धकी तैयारी सम्बन्धी कल-कलसे व्याप्त हो गया ॥३७॥ असुरोंके नगरके समान सबके मनको हरनेवाले उस नगरमे खास कर स्त्रियोंमें बड़ी आकुलता उत्पन्न हो रही थी । भयसे उनके नेत्र चकित हो गये थे ॥३८॥ वहाँ भवनवासी देवोंके समान जो योद्धा थे वे बाहर निकल आये तथा चमरेन्द्रके समान पराक्रमसे गर्वाला वरुण भी निकलकर बाहर आया ॥३९॥ जिन्होंने नाना प्रकारके शस्त्रोंके समूहसे सूर्यका दिखना रोक दिया था ऐसे वरुणके सौ पराक्रमी पुत्र भी युद्ध करनेके लिए उठ खड़े हुए ॥४०॥ सो जिस प्रकार असुरकुमार अन्य लुद्ध देवताओंको क्षण एकमे पराजित कर देते हैं उसी प्रकार वरुणके सौ पुत्रोंने क्षण एकमे ही राक्षसोंकी सेनाको परा-

१. वरुण म० । २ प्रत्यरि म०, ज०, क०, ख० । ३. परशुरामम् । ४. प्राप्य म० । ५. पौण्डरी-
 काख्य म० । ६. महाभवन ख०, ज० । ७. क्षुद्रदैवतम् म०, व० ।

अन्तर्भ्रातृशतेनैतद्राक्षसानां बलं क्षतम् । गीयूथवदरं चक्रे भ्रमणं भयसंकुलम् ॥४२॥
 चक्रचापघनप्रासगतर्वाप्रभृतीनि च । शस्त्राणि रक्षसां पेतुः कराव्यस्वेदपिच्छलात् ॥४३॥
 ततस्तं शरजालेन समालोक्याकुलीकृतम् । स्वसैन्यं वेगवद्वर्षहतोऽरुणकरोपमम् ॥४४॥
 विगत्यर्द्धमुखः क्रुद्धो भित्त्वा रिपुबलं क्षणात् । प्रविष्टः पातयन्वीरान् गजेन्द्र इव पादपान् ॥४५॥
 ततोऽसौ युगपत्पुत्रै वरुणस्य समावृतः । आदित्य इव गर्जद्भिः प्रावृपेण्यवलाहकैः ॥४६॥
 तस्येषुभिर्वपुर्भिन्नं सर्वदिग्भ्यः समागतैः । तथापि मानिसिंहोऽसौ न मुञ्चति रणानिरम् ॥४७॥
 भास्करध्रुवणः श्रेष्ठो नृणामिन्द्रजितस्तथा । अन्ये च रक्षसां नाथा वरुणेनाग्रतः कृताः ॥४८॥
 ततो लक्ष्मीकृतं दृष्ट्वा शराणां वरुणात्मजैः । रावणं शोणितक्षुत्या किशुकोत्करसन्निभम् ॥४९॥
 रथमाशु^१ समाह्वय महापुरुषमध्यगम् । बन्धुवन्प्रीतिचेतस्कः स^२ रराज तमोरविः ॥५०॥
 माहतिर्माहृतं वेगाज्यन्^३ जयकृतादरः । उद्यतः कालवद्योद्भुं रविमण्डलभासुरः ॥५१॥
 तेन^४ वारुण्यः सर्वे प्रेरिताः प्रपलायिताः । महारथसमीरेण घनसंघा इवोन्नता ॥५२॥
 प्रविष्ट परसैन्यं स दृष्टोऽन्यत्र मुहुर्मुहुः । कदलीकाननच्छेदक्रीडां चक्रेऽरिभृतिषु ॥५३॥
 कञ्चिद्वाङ्गूल पाशेन विद्यारचितनृतिना । आकर्षत्परम वीरं स्नेहेन सुहृदं यथा ॥५४॥

जित कर दिया ॥४१॥ जिसके अन्दर सौ भाई अपनी कला दिखा रहे थे ऐसी वरुणकी सेनासे खण्डित हुई रावणकी सेना गायोंके झुण्डके समान भयभीत हो तितर-वितर हो गई ॥४२॥ राक्षसोंके हाथ पसीनेसे गोले हो गये जिससे चक्र, धनुष, घन, प्रास, शतघ्नी आदि शस्त्र उनसे छूट-छूट कर नीचे गिरने लगे ॥४३॥ तदनन्तर रावणने देखा कि हमारी सेना वागोंके समूहसे व्याकुल होकर प्रातःकालीन सूर्यको किरणोंके समान लाल-लाल हो रही है तब वह वागोंकी वेग-शाली वर्षासे स्वयं ताड़ित होता हुआ भी क्रुद्ध हो क्षण एकमे शत्रुदलको भेदकर भीतर घुस गया और जिस प्रकार गजराज वृक्षांको नीचे गिराता है उसी प्रकार वरुणकी सेनाके वीरोंको मार-मारकर नीचे गिराने लगा ॥४४-४५॥ तदनन्तर वरुणके सौ पुत्रोंने रावणको इस प्रकार घेर लिया जिस प्रकार कि वर्षाऋतुके गरजते हुए वादल सूर्यको घेर लेते हैं ॥४६॥ यद्यपि सब दिशाओंसे आनेवाले वागोंसे रावणका शरीर खण्डित हो गया तो भी वह अभिमानी युद्धके मैदानको नहीं छोड़ रहा था ॥४७॥ उधर वरुणने भी देदीप्यमान कानोंको धारण करनेवाले नर-श्रेष्ठ इन्द्रजित् तथा राक्षसोंके अन्य अनेक राजाओंको अपने सामने किया अर्थात् उनसे युद्ध करने लगा ॥४८॥

तदनन्तर वरुणके पुत्रोंने जिसे अपने वागोंका निशाना बनाया था और जो रुधिरके वहनेसे पलाशके फूलोंके समूहके समान जान पड़ता था ऐसे रावणको देखकर हनूमान् शीघ्र ही महापुरुषोंके बीचमें चलनेपर रथपर सवार हुआ । उस समय उसका चित्त रावणके भाईके समान प्रीतिसे युक्त था तथा वह सूर्यके समान सुशोभित हो रहा था ॥४९-५०॥ तत्पश्चात् जो अपने वेगसे पवनको जीत रहा था, विजय प्राप्त करनेमें जिसका आदर था और जो सूर्यमण्डलके समान देदीप्यमान हो रहा था ऐसा हनूमान् यमराजके समान युद्ध करनेके लिए उद्यत हुआ ॥५१॥ सौ जिस प्रकार महावेगशाली वायुसे प्रेरित उन्नत मेघोंका समूह इधर-उधर उड़ जाता है उसी प्रकार हनूमान्के द्वारा प्रेरित हुए वरुणके सब पुत्र इधर-उधर भाग खड़े हुए ॥५२॥ वह बार-बार शत्रुओंके शरीरोंके साथ कदली वनको छेदनेकी क्रीड़ा करता था अर्थात् शत्रुओंके शरीरको कदली वनके समान अनायास ही काट रहा था ॥५३॥ जिस प्रकार कोई पुरुष स्नेहके द्वारा अपने मित्रको खींच लेता है उसी प्रकार उसने किसी वीरको विद्यानिर्मित लांगूलरूपी

१. दशाननः । २. शोणितक्षुत्या म० । ३. समाह्वय । ४. पराजिततमो रविः म० । ५. -जयं जय- म० । ६. वरुणस्या पत्न्यानि पुमांसः, वारुण्यः । ७. महारथसमीरेण म० ।

१कञ्चिदुल्काभिघातेन मस्तकोपर्यताडयत् । हेतुमुद्गरघातेन २मिथ्यादृष्टिमिवाहृतः ॥५५॥
 क्रोढन्तमिति त दृष्ट्वा श्रीशैल वानरध्वजम् । अभ्याजगाम वरुणो कोपारुणनिरीक्षणः ॥५६॥
 श्रीशैलाभिमुखं दृष्ट्वा वारुण राक्षसाधिपः । धावमान रुरोधारि गिरिवन्निग्नगाजलम् ॥५७॥
 वरुणस्याभवद् युद्ध यावन्नाथेन रक्षसाम् । वाजिवारणापदातशस्त्रसङ्घातसङ्कुलम् ॥५८॥
 तावत्पुत्रशत तस्य बद्ध पवनसूनुना । ३चिर युद्धसमुद्भूतखेद विहतसैनिकम् ॥५९॥
 श्रुत्वा पुत्रशत बद्ध वरुण शोकविह्वलः । विद्यास्मरणनिर्मुक्तो बभूव श्लथविक्रम ॥६०॥
 प्राप्यास्य रावणश्छिद्रं विद्यामुच्छिद्य योधिनीम् । जीवग्राहमिम क्षिप्र जग्राह रणकोविदं ॥६१॥
 तदा वरुणचन्द्रस्य ४अष्टपुत्रकरश्रियः ५ । उदयेन विमुक्तस्य रावणो राहुतामगात् ॥६२॥
 शस्त्रपञ्जरमध्यस्थो भग्नमानश्च सोऽर्पितः । सादर कुम्भकर्णस्य रक्षितु विस्मयेक्षितं ॥६३॥
 ततो विश्रमयन् सैन्य रावणश्चिरनिर्वृतं ६ । उद्याने प्रवरे तस्थौ भवनोन्मादनामनि ॥६४॥
 समुद्रासङ्गशीतेन वायुनास्य व्यनीयत । सैन्यस्य रणज. खेदो वृक्षच्छायायानुवर्तिनः ॥६५॥
 गृहीत नायक ज्ञात्वा वरुणस्याखिल बलम् । प्रविवेश पुर भीत पौण्डरीक समाकुलम् ॥६६॥
 तदेव साधन तावत्त एव च महामदा । प्रधानस्य वियोगेन प्रापुर्व्यर्थंशरीरताम् ॥६७॥
 पुण्यस्य पश्यतौदार्यं यदुद्भवति तद्वति । बहूनामुद्भव पुसा पतिते पतन तथा ॥६८॥

पाशसे खींच लिया था ॥५४॥ और जिस प्रकार कोई जिनभक्त हेतुरुपी मुद्गरके प्रहारसे मिथ्यादृष्टिके मस्तकपर प्रहार करता है उसी प्रकार वह किसीके शिर पर उल्काके प्रहारसे चोट पहुँचा रहा था ॥५५॥ इस प्रकार वानरकी ध्वजासे सुशोभित हनूमान्को क्रीड़ा करते देख क्रोधसे लाल-लाल नेत्र करता हुआ वरुण उसके सामने आया ॥५६॥ ज्योंही रावणने वरुणको हनूमान्के सामने दौड़ता आता देखा त्योंही उसने शत्रुको बीचमे उस प्रकार रोक लिया जिस प्रकार कि पहाड़ नदीके जलको रोक लेता है ॥५७॥ इधर जब तक वरुणका रावणके साथ, घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही तथा शस्त्रोंके समूहसे व्याप्त युद्ध हुआ ॥५८॥ तब तक हनूमान्ने वरुणके सौके सौ ही पुत्र बँध लिये । वे चिरकाल तक युद्ध करते-करते थक गये थे तथा उनके सैनिक मारे गये थे ॥५९॥ सौके सौ ही पुत्रोंको बँधा सुनकर वरुण शोकसे विह्वल हो गया । वह विद्याका स्मरण भूल गया और उसका पराक्रम ढीला पड़ गया ॥६०॥ रण-निपुण रावणने छिद्र पाकर वरुणकी योधिनी नामा विद्या छेद डाली तथा उसे जीवित पकड़ लिया ॥६१॥ उस समय जिसके पुत्र रूपी किरणोंकी शोभा नष्ट हो गई थी तथा जो उदयसे रहित था ऐसे वरुण-रूपी चन्द्रमाके लिए रावणने राहुका काम किया था ॥६२॥ जो शत्रु रूपी पिंजड़ेके मध्यमे स्थित था, जिसका मान नष्ट हो गया था और जिसे लोग बड़े आश्चर्यसे देखते थे ऐसा वरुण-रक्षा करनेके लिए आदरके साथ कुम्भकर्णको सौंपा गया ॥६३॥ तदनन्तर बहुत दिन बाद निश्चिन्तताको प्राप्त हुआ रावण सेनाको विश्राम देता हुआ भवनोन्माद नामक उत्कृष्ट उद्यानमे ठहरा रहा ॥६४॥ वृक्षोंकी छायाके नीचे ठहरी हुई इसकी सेनाका युद्धजनित खेद समुद्रके सम्बन्धसे शीतल वायुने दूर कर दिया था ॥६५॥ स्वामीको पकड़ा जानकर वरुणकी समस्त सेना भयभीत हो व्याकुलतासे भरे पुण्डरीक नगरमें घुस गई ॥६६॥ यद्यपि वही सेना थी, और वे ही महायोद्धा थे तो भी प्रधान पुरुषके विना सब व्यर्थ हो गये ॥६७॥ अहो ! पुण्यका माहात्म्य देखो कि पुण्यवान्के उत्पन्न होते ही अनेक पुरुषोंका उद्भव हो जाता है और उसके नष्ट होनेपर अनेक पुरुषोंका पतन हो जाता है ॥६८॥

१. दुल्कासि -म० । २. मिथ्यादृष्टिःमिवाहृतः म० । ३. चिरयुद्ध ख० । ४. वरुणयोधस्य म० ।
 ५. अष्टपुत्रकरः श्रियः म० । ६. -श्चरनिर्वृतः ख०, ज०, म० ।

अथ भास्करकर्णस्तन्मथेनाति स्म पुर रिपोः । विह्वलीभूतनिशेषजनसद्घातसङ्कुलम् ॥६६॥
 लुण्ठितं चात्र सकलं धनरत्नादिकं भटैः । भरातिपुरकोपेन न तु लोभवशस्थितैः ॥७०॥
 रतिविभ्रमधारिण्यः स्रवदत्ताकुलेक्षणाः । विलपन्त्यो वराकाश्च गृह्यन्ते स्म वराङ्गना ॥७१॥
 स्तनावनम्रदेहास्ताश्चलत्पल्लवपाणयः । कूजन्यो बान्धवान् सर्वान् गृहीता निष्ठुरैर्नरैः ॥७२॥
 विमानाभ्यन्तरन्यस्ता काचिदेवमभापत । सखी शोकग्रहग्रस्तसमस्तास्यनिशाकराः ॥७३॥
 सखि ! शीलविनाशो मे यदि नाम भवेदिह । उल्लम्ब्यांशुकपट्टेन मरिष्यामि न सशय ॥७४॥
 सदिग्धमरण काचिद् व्याहरन्ती मुहुः प्रियम् । सस्मृत्य तद्गुणान् सूच्छर्मानच्छर् म्लानलोचना ॥७५॥
 मातर पितर कान्त भ्रातरं मातुल सुतम् । आह्वयन्त्यः क्षरन्नेत्रास्ता मुनेरपि दुःखदाः ॥७६॥
 काचिद्भास्करकर्णस्य शोभया हृतलोचना । जगादोपाशुविस्त्रम्भात् सखी कमललोचना ॥७७॥
 सखि कापि मसोत्पन्ना दृष्ट्वैतं नरपुङ्गवम् । धृतिर्यया कृतेवाह परायत्तशरीरिका ॥७८॥
 इति शुद्धा विरुद्धाश्च विकल्पास्तत्र योपिताम् । बभूवुः कर्मवैचिन्याल्लोकोऽयं चित्रचेष्टितः ॥७९॥
 कुबेर इव सद्भूतिः प्रवीरभटसेवितः । जयनिस्वानमुखरः कान्तलीलासमन्वित ॥८०॥
 अवतीर्य विमानान्ताद् भास्करश्रवणो मुदा । पुरो राक्षसनाथस्य धूसरोऽपीरतिष्ठत् ॥८१॥
 ता विषादवतीर्दृष्ट्वा वाष्पपूरितलोचनाः । बन्धुभी रहिता नम्राः सवेपथुशरीरिकाः ॥८२॥

अथानन्तर कुम्भकर्ण घबड़ाये हुए समस्त मनुष्योंके समूहसे व्याप्त शत्रुके उस नगरको नष्ट-भ्रष्ट करने लगा ॥६६॥ योद्धाओने उस नगरकी धन रत्न आदिक समस्त कीमती वस्तुएँ लूट लीं । यह लूट शत्रुके नगरपर क्रोध होनेके कारण ही की गई थी न कि लोभके वशीभूत होकर ॥७०॥ जो रतिके समान विभ्रमको धारण करनेवाली थीं, जिनके नेत्र भरते हुए आँसुओसे व्याप्त थे, तथा जो विलाप कर रही थीं ऐसी बेचारी उत्तमोत्तम स्त्रियों पकड़कर लाई गई ॥७१॥ जिनके शरीर स्तनोके भारसे नम्र थे, जिनके पल्लवोके समान कोमल हाथ हिल रहे थे, और जो समस्त बन्धुजनोको चिल्ला-चिल्लाकर पुकार रही थीं ऐसी उन स्त्रियोको निष्ठुर मनुष्य पकड़कर ला रहे थे ॥७२॥ जिसका मुखरूपी पूर्ण चन्द्रमा शोकरूपी राहुके द्वारा ग्रसा गया था ऐसी विमानके भीतर डाली गई कोई स्त्री सखीसे कह रही थी कि हे सखि ! यदि कदाचित् मेरे शोका भङ्ग होगा तो मैं वस्त्रकी पट्टीसे लटककर मर जाऊँगी इसमें संशय नहीं है ॥७३-७४॥ जिसके मरनेमें संदेह था ऐसे पतिको बार-बार पुकारती हुई म्लान लोचनवाली कोई स्त्री उसके गुणोंका स्मरणकर सूच्छर्माको प्राप्त हो रही थी ॥७५॥ जो माता पिता पति भाई मामा और पुत्रको बुला रही थीं तथा जिनके नेत्रोसे आँसू भर रहे थे ऐसी वे स्त्रियों मुनिके लिए भी दुःख-दायिनी हो रही थीं अर्थात् उनकी दशा देख मुनिके हृदयमें भी दुःख उत्पन्न हो जाता था ॥७६॥ कुम्भकर्णकी शोभासे जिसके नेत्र हरे गये थे ऐसी कोई एक कमल-लोचना स्त्री एकान्त पाकर विश्वासपूर्वक सखीसे कह रही थी कि हे सखि ! इस श्रेष्ठ नरको देख कर मुझे कोई अद्भुत ही आनन्द उत्पन्न हुआ है और जिस आनन्दसे मानो मेरा समस्त शरीर पराधीन ही हो गया है ॥७७-७८॥ इस प्रकार कर्मोंकी विचित्रतासे उन स्त्रियोमें शुद्ध तथा विरुद्ध दोनो प्रकारके विकल्प उत्पन्न हो रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि लोगोकी चेष्टाएँ विचित्र हुआ करती है ॥७९॥ तदनन्तर जो कुबेरके समान समीचीन विभूतिका धारक था, अत्यन्त बलवान् योद्धा जिसकी सेवा कर रहे थे, जो जय-जयकी ध्वनिसे मुखर था, और सुन्दर लीलासे सहित था ऐसे कुम्भ-कर्णने विमानसे उतरकर बड़े हर्षके साथ उन धूसर ओंठोंवाली अपहृत स्त्रियोको रावणके सामने खड़ा कर दिया ॥८०-८१॥ वे स्त्रियों विषादसे युक्त थीं, उनके नेत्र आँसुओसे भरे हुए थे,

१. लोभकशस्थितैः म० । २. -किरणस्य म० । ३. मुनिपुङ्गवम् म० । ४. शुद्धविरुद्धाश्च म० । ५. विषादवती दृष्ट्वा म० । ६. -शरीरिका म० ।

वदन्ती* करुण स्वैर किमपि त्रपयान्विता* । रावण करुणाविष्टो जगादेति सहोदरम् ॥८३॥
 अहोत्यन्तमिदं बाल त्वया दुश्चरितं कृतम् । कुलनार्यो यदानीता वन्दीग्रहणपञ्जरम् ॥८४॥
 द्रोप कोऽत्र वरार्कीणा नारीणा मुग्धचेतसाम् । खलुकारमिमा येन त्वैयका प्रापिता मुधा ॥८५॥
 पालिका मुग्धलोकस्य शत्रुलोकस्य नाशिका । गुरुशुश्रूषिणी चेष्टा ननु चेष्टा महात्मनाम् ॥८६॥
 इत्युक्त्वा मोचितास्तेन क्षिप्रं ता ययुरालयम् । आश्रवासिता गिरा साध्व्य द्यन्नं गिथिलसाध्वसां ॥८७॥
 भानारय वरुणोऽवाचि रावणेनाथ सन्नप । भद्रदर्शनमात्रेण कृतरचोनतानन ॥८८॥
 प्रवीण मा कृथा शोक युद्धग्रहणसंभवम्^१ । ग्रहणं ननु वीराणां रणे सक्तीर्तिकारणम् ॥८९॥
 द्वयमेव रणे वीरैः प्राप्यते मानशालिभिः । ग्रहणं मरणं वापि कातरैश्च पलायितुम् ॥९०॥
 पुरावदखिलं स त्वं राज्यं रचं निजे पदे । मित्रवान्धवसम्पन्नं सकलोपद्रवोऽजितम् ॥९१॥

उपजातिवृत्तम्

अथैवमुक्तो वरुण स वीरं कृत्वाञ्जलिं प्रावददेतमेव ।
 विशालपुण्यस्य तवात्र लोके मूढो जनो तिष्ठति वैरभावे ॥९२॥

उपेन्द्रवज्रावृत्तम्

अहो महद्वैर्यमिदं त्वदीयं मुनेरिव स्तोत्रसहस्रयोग्यम् ।
 विहाय रत्नानि पराजितोऽहं त्वया यदभ्युन्नतशासनेन ॥९३॥

वन्धुजनोसे रहित थीं, नम्र थीं, उनके शरीर काँप रहे थे, वे इच्छानुसार कुछ दयनीय शब्दोंका उच्चारण कर रही थीं तथा लज्जासे युक्त थीं । उन स्त्रियोंको देखकर रावण करुणायुक्त हो कुम्भ-कर्णसे इस प्रकार कहने लगा ॥८२-८३॥ कि अहो बालक ! जो तू कुलवती स्त्रियोंको वन्दीके समान पकड़कर लाया है यह तूने अत्यन्त दुश्चरितका कार्य किया है ॥८४॥ इन वैचारी भोली-भाली स्त्रियोंका इसमें क्या दोष था जो तूने व्यर्थ ही इन्हें कष्ट पहुँचाया है ? ॥८५॥ जो चेष्टा मुग्धजनोंका पालन करनेवाली है, शत्रुओंका नाश करनेवाली है और गुरुजनोंकी शुश्रूषा करनेवाली है यथार्थमे वही महापुरुषोंकी चेष्टा कहलाती है ॥८६॥ ऐसा कहकर उसने उन्हें शीघ्र ही छोड़वा दिया जिससे वे अपने-अपने घर चली गईं । यही नहीं उसने साध्वी स्त्रियोंको अपनी वाणीसे आश्रवासन भी दिया जिससे उन सबका भय शीघ्र ही कम हो गया ॥८७॥

अथानन्तर जो लज्जासे सहित था तथा जिसने सुभटोंके देखने मात्रसे राजसोंका मुख नीचा कर दिया था ऐसे वरुणको बुलाकर रावणने कहा कि हे प्रवीण ! युद्धमे पकड़े जानेका शोक मत करो क्योंकि युद्धमे वीरोंका पकड़ा जाना तो उनकी उत्तम कीर्तिका कारण है ॥८८-८९॥ मानशाली वीर युद्धमे दो ही वस्तुएँ प्राप्त करते हैं एक तो पकड़ा जाना और दूसरा मारा जाना । इनके सिवाय जो कायर लोग हैं वे भाग जाना प्राप्त करते हैं ॥९०॥ तुम पहलेके समान ही समस्त मित्र और वन्धुजनोंसे सम्पन्न हो सकल उपद्रवोंसे रहित अपने सम्पूर्ण राज्यका अपने ही स्थानमे रह कर पालन करो ॥९१॥ इस प्रकार कहने पर वरुणने हाथ जोड़कर वीर रावणसे कहा कि इस संसारमें आपका पुण्य विशाल है जो आपके साथ वैर रखता है वह मूर्ख है ॥९२॥ अहो ! यह तुम्हारा बड़ा धैर्य है, यह मुनिके धैर्यके समान हजारों स्तवन करनेके योग्य है, कि जो तुमने दिव्य रत्नोंका प्रयोग किये बिना ही मुझे जीत लिया । यथार्थमे तुम्हारा शासन उन्नत

१. वदन्ती म० । २. त्रपयान्विता म० । ३. त्वयि ऋ म० । ४. क्षिप्रा म० । ५. -साध्वसा म० ।
 ६. -संभव म० ।

उपजातिवृत्तम्

वायो. सुतस्यैव कथ प्रभावो निगद्यतामद्भुतकर्मणोऽपि ।
 यतस्त्वदीयेन शुभेन साधो^१ समाहृतः सोऽपि महानुभावः ॥६४॥
 न कस्यचिन्नाम महीयमेता गोत्रक्रमाद्विक्रमकोशधारिता ।
 वीरस्य भोग्येयमसौ भवांश्च तेषां स्थितो मूर्धनि शशि लोकम् ॥६५॥
 स्वामी त्वमस्माकमुदारकीर्ते क्षमस्व दुर्वाक्यकृत निकारम् ।
 वक्तव्यमित्येव वदामि नाथ क्षमा तु दृष्टैव तवात्युदारा ॥६६॥
 तेन त्वया सार्धमहं विधाय सम्बन्धमत्युन्नतचेष्टितेन ।
 कृतार्थतामेमि ततो गृहाण तन्मे सुतां योग्यतमस्त्वमस्याः ॥६७॥
 एव गदित्वा^२ तनुजां विनीतां प्रकीर्तितां सत्यवतीति नाम्ना ।
 ललाम रूपां जनितां सुदेव्या^३ समर्पयतां मरसाभवक्त्राम् ॥६८॥
 तयोर्महान् संवृते विवाहे समुत्सवः पूजितसर्वलोकः ।
 तयोर्हि निःशेषसमृद्धिभाजोरन्वेषणीयं न समस्ति किञ्चित् ॥६९॥
 सन्मानितस्तेन च मानितेन कृतानुयानः कतिचिद्दिनानि ।
 सुतावियोगव्यथितान्तरात्मा स्वराजधानी चरुणो विवेश ॥१००॥
 कैलासकम्पोऽपि समेत्य लङ्का त्रियाय सन्मानमतिप्रधानम् ।
 महाप्रभां चन्द्रनखातनूजां ददौ^४ समीरप्रभाय कन्याम् ॥१०१॥
 अनङ्गपुष्पेति समस्तलोके गता प्रसिद्धिं गुणराजधानीम् ।
 अनङ्गपुष्पायुधभूतनेत्रा लब्ध्वा स ता तोपमुदारमार^५ ॥१०२॥

है ॥६३॥ अथवा आश्चर्यकारी कार्य करने वाले हनुमानका ही प्रभाव कैसे कहा जाय ? क्योंकि हे सत्पुरुष ! वह महानुभाव भी आपके ही शुभोदयसे यहाँ आया था ॥६४॥ पराक्रमरूपी कोशसे जिसकी रक्षा की गई ऐसी यह पृथिवी गोत्रकी परिपाटीके अनुसार किसीको प्राप्त नहीं हुई । यह तो वीर मनुष्यके भोगने योग्य है और आप वीर मनुष्योमे अग्रसर हो अतः आप लोकका पालन करो ॥६५॥ हे उदार यशके धारक ! आप हमारे स्वामी हो । मेरे दुर्वचनोसे आपको जो दुःख हुआ हो उसे क्षमा करो । हे नाथ ! ऐसा कहना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ । वैसे आपकी अत्यन्त उदार क्षमा तो देख ही ली है ॥६६॥ आप अत्यन्त चेष्टाके धारक हो इसलिए आपके साथ सम्बन्ध कर मैं कृतकृत्य होना चाहता हूँ । आप मेरी पुत्री स्वीकृत कीजिए क्योंकि इसके योग्य आप ही है ॥६७॥ ऐसा कह कर उसने सुन्दर रूपकी धारक, सुदेवी रानीसे उत्पन्न, कमलके समान मुखवाली, सत्यवती नामसे प्रसिद्ध अपनी विनीत कन्या रावणके लिए समर्पित कर दी ॥६८॥ उन दोनोंके विवाहमे ऐसा बड़ा भारी उत्सव हुआ था कि जिसमे सब लोगोका सन्मान किया गया तो ठीक ही है क्योंकि दोनों ही समस्त समृद्धिको प्राप्त थे, अतः उन्हें कोई भी वस्तु खोजनी नहीं पड़ी थी ॥६९॥ इस प्रकार सन्मानको प्राप्त हुए रावणने जिसका सन्मान किया था तथा रावण स्वयं जिसे भेजनेके लिए पीछे-पीछे गया था ऐसा चरुण अपनी राजधानीमे प्रविष्ट हुआ । वहाँ पुत्रीके वियोगसे कुछ दिन तक उसकी अन्तरात्मा दुःखी रही ॥१००॥ कैलासको कम्पित करनेवाले रावणने भी लङ्कामे आकर तथा बहुत भारी सन्मान कर हनुमानके लिए चन्द्रनखाकी कान्तिमती पुत्री समर्पित की । उस कन्याका नाम लोकमें 'अनङ्गपुष्पा' प्रसिद्ध था । वह गुणोकी राजधानी थी और उसके नेत्र कामदेवके पुष्परूपी शस्त्र अर्थात् कमलके समान थे ।

१. समाहितः म० । २. विदित्वा म० । ३. सुदेव्या म० । ४. ताम्रसामभवक्त्राम् म० । ५. हनुमते ।

उपेन्द्रवज्रावृत्तम्

श्रिया च सम्पादिनि कर्णकुण्डले पुरेऽस्य चक्रे चित्तिपाभिपेचनम् ।
स्थितः स तत्रोत्तमभोगसंगतो यथोर्ध्वलोके भुवनस्य पालकः ॥१०३॥
तथा नल किङ्कपुरे शरीरजा प्रसिद्धिमेवा हरिमालिनी श्रुतिम् ।
श्रिय जयन्तीमपि रूपसम्पदा ददौ विभूत्या परया हनूमते ॥१०४॥
पुरे तथा किन्नरगीतसङ्गके स लब्धवान् किन्नरकन्यकाशतम् ।
इति क्रमेणास्य वभूव योपिता पर सहस्राङ्गण महात्मनः ॥१०५॥

उपजातिवृत्तम्

भ्रमन्नसौ येन महीधरेऽस्थाच्छ्रीशैलसज्ञोऽत्र समीरसूनुः ।
श्रीशैल इत्यागतवानसौ तत् ख्याति पृथिव्यामिति रम्यसानुः ॥१०६॥
तदास्ति किष्किन्धपुरे महात्मा सुग्रीवसज्ज पुरखेचरेशः ।
तारैति तारापति कान्तवक्त्रा वभूव रामास्थ रते समाना ॥१०७॥
तयोस्तनूजा नवपद्मरागा गुणै प्रतीता भुवि पद्मरागा ।
पद्मेव रूपेण विशालनेत्रा भामण्डलप्रावृतवक्त्रपद्मा ॥१०८॥

उपेन्द्रवज्रावृत्तम्

महेभकुम्भोन्नतपीवरस्तनी सुरेन्द्रशस्त्रग्रहणोपमोदरी ।
विशाललावण्यतटागमध्यगा मलिम्लुचा सर्वजनान्तरात्मनाम् ॥१०९॥

उपजातिवृत्तम्

विचिन्तयन्तौ पितरौ च तस्या योग्य वर शोभनविभ्रमाया ।
नक्त न निद्रा सुखतो लभेता दिवा तु नैव प्रविकीर्णचित्तौ ॥११०॥

उसे पाकर हनूमान् अत्यधिक संतोषको प्राप्त हुआ ॥१०१-१०२॥ कन्या ही नहीं दी किन्तु लक्ष्मी से भरपूर कर्णकुण्डलनामा नगरमें उसका रात्र्याभिषेक भी किया सो जिस प्रकार स्वर्गलोकमें इन्द्र रहता है उसी प्रकार वह उस नगरमें उत्तमभोग भोगता हुआ रहने लगा ॥१०३॥ किष्कु-पुरके राजा नलने भी रूपसम्पदाके द्वारा लक्ष्मीको जीतने वाली अपनी हरिमालिनी नामकी प्रसिद्ध पुत्री बड़े वैभवके साथ हनूमान्को दी ॥१०४॥ इसी प्रकार किन्नरगीत नामा नगरमें भी उसने किन्नरजातिके विद्याधरो की सौ कन्याएँ प्राप्त की । इस तरह उस महात्माके यथाक्रमसे एक हजारसे भी अधिक स्त्रियाँ हो गई ॥१०५॥ चूँकि श्रीशैल नामको धारण करने वाले हनूमान् भ्रमण करते हुए उस पर्वतपर आकर ठहर गये थे इसलिए सुन्दर शिखरो वाला वह पर्वत पृथिवी में 'श्रीशैल' इस नामसे ही प्रसिद्ध हो गया ॥१०६॥

अथानन्तर उस समय किष्किन्धपुर नामा नगरमें विद्याधरोके राजा उदारचेता सुग्रीव रहते थे उनकी चन्द्रमाके समान मुखवाली तथा सुन्दरतामें रतिकी समानता करनेवाली तारा नामकी स्त्री थी ॥१०७॥ उन दोनोंके एक पद्मरागा नामकी पुत्री थी । उस पुत्रीका रङ्ग नूतन कमलके समान था, गुणोंके द्वारा वह पृथ्वीमें अत्यन्त प्रसिद्ध थी, रूपसे लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी, उसके नेत्र विशाल थे, उसका मुख कमल कान्तिके समूहसे आवृत था, इसके स्तन किसी बड़े हाथीके गण्डस्थलके समान उन्नत और स्थूल थे, उसका उदर इन्द्रायुध अर्थात् वज्रके पकड़नेकी जगहके समान कृश था, वह अत्यधिक सौन्दर्यरूपी सरोवरके मध्यमें सञ्चार करनेवाली थी तथा सर्व मनुष्योंकी अन्तरात्माको चुराने वाली थी ॥१०८-१०९॥ सुन्दर विभ्रमोंसे

ततः पटेष्विन्द्रजितप्रधाना विद्याधराः सूचितशीलवशाः ।
 चित्रीकृताश्चित्रगुणा द्रुहित्रे प्रदर्शिताश्चारुरुचः पितृभ्याम् ॥१११॥
 अनुक्रमत्साथ निरीक्षमाणा मुहुर्मुहुः संहतनेत्रकान्तिः ।
 सद्यः समाकृष्टविचेष्टदृष्टिर्वाला हनूमत्प्रतिमां ददर्श ॥११२॥
 दृष्ट्वा च तं वायुसुतं पटस्थं सादृश्यनिर्मुक्तसमस्तदेहम् ।
 अतादृघतासौ मदनस्य बाणैः सुदुस्सहैः पञ्चभिरेककालम् ११३॥
 तत्रानुरक्तमधिगम्य वादमेतामुवाचेति सखी गुणज्ञा ।
 अयं स बाले पवनञ्जयस्य श्रीशैलनामा तनयः प्रतीतः ॥११४॥
 गुणास्तवास्य प्रथिता पुरैव शोभा तु दृग्गोचरतां प्रयाता ।
 एतेन सार्धं भज कामभोगान् पित्रोः प्रयच्छातिचिरेण निद्राम् ॥११५॥

वशस्थवृत्तम्

अहो पुनश्चित्रगतेन ते सता मनोविकारो जनितो हनूमता ।
 सखीं वदन्तीमिति लज्जया नता जघान लीलाकमलेन कन्यका ॥११६॥

उपजातिवृत्तम्

ततो विदित्वा जनकेन तस्या हतं मनो मास्तनन्दनेन ।
^३पटः समारूढसुताशरीरः सप्रेपितो वायुसुताय शीघ्रम् ॥११७॥
 दूतो युवा श्रीनगर समेत्य ^४जातः प्रविष्टो विहितप्रणामः ।
 हनूमते दर्शयति स्म विस्व तारात्मजाया पटमध्ययातम् ॥११८॥

युक्त उस कन्याके योग्य वरकी खोज करते हुए माता-पिता न रातमें सुखसे नींद लेते थे और न दिनमें चैन । उनका चित्त सदा इसी उलझनमें उलझा रहता था ॥११०॥

तदनन्तर जो नाना गुणोंके धारक थे, जिनकी कान्ति अत्यन्त मनोहर थी, और साथ ही जिनके शील तथा वंशका परिचय दिया गया था ऐसे इन्द्रजित आदि प्रधान विद्याधरोंके चित्रपट लिखाकर माता-पिताने पुत्रीको दिखलाये ॥१११॥ अनुक्रमसे उन चित्रपटोंको देखकर कन्याने बार-बार अपनी दृष्टि सङ्कुचित कर ली । अन्तमें हनूमान्का चित्रपट उसे दिखाया गया तो उस ओर उसकी दृष्टि शीघ्र ही आकर्षित होकर निश्चल हो गई । उसे वह अनुरागसे देखती रही ॥११२॥ तदनन्तर जिसका समस्त शरीर सद्गुणोंसे रहित था ऐसे चित्रपटमें स्थित हनूमान्को देखकर वह कन्या एक ही साथ कामदेवके पाँचों दुःसह बाणोंसे ताड़ित हो गई ॥११३॥ उसे हनूमान्में अनुरक्त देख गुणोंको जाननेवाली सखीने कहा कि हे बाले ! यह पवनञ्जयका श्रीशैल नामसे प्रसिद्ध पुत्र है ॥११४॥ इसके गुण तो तुम्हें पहिलेसे ही विदित थे और सुन्दरता तुम्हारे नेत्रोंके सामने है इसलिए इसके साथ कामभोगको प्राप्त करो तथा माता-पित को चिरकाल वाद निद्रा प्रदान करो अर्थात् निश्चित होकर सोने दो ॥११५॥ आश्चर्यकी बात है कि हनूमान्ने चित्रगत होकर भी तेरे मनमें विकार उत्पन्न कर दिया ऐसा कहती हुई सखीको कन्याने लज्जावन्त हो लीलाकमलसे ताड़ित किया ॥११६॥ तदनन्तर जब पिताको पता चला कि कन्याका मन पवनपुत्र हनूमान्के द्वारा हरा गया है तब उसने शीघ्र ही हनूमान्के पास कन्याका चित्रपट भेजा ॥११७॥ सो सुग्रीवका भेजा हुआ दूत श्रीनगर पहुँचा वहाँ जाकर उसने अपना परिचय दिया, प्रणाम किया और उसके बाद हनूमान्के लिए ताराकी पुत्री पद्मरागाका चित्रपट दिखलाया ॥११८॥

१ निरीक्ष्यमाणा म०, ख०, ब०, व० । २. तेन म० । ३. परः म० । ४. जातः म० ।

सत्य शराः पञ्चमनोभवस्य स्युर्यधमुष्मिन् जगति प्रसिद्धा ।
 कन्या नियुक्तै कथमेककाल तत शतैर्वायुसुत जघान ॥११६॥
 अजात एवास्मि न यावदेनां प्राप्नोमि कन्यामिति जातचित्त ।
 समीरसूनुर्विभवेन युक्त क्षणेन सुग्रीवपुर जगाम ॥१२०॥
 श्रुत्वा तमासन्नतर प्रवृष्ट सुग्रीवराजोऽभ्युदियाय सद्य ।
 प्रयुज्यमानोऽर्धशतैर्हनुमान् पुर प्रविष्टः श्वसुरेण सार्धम् ॥१२१॥
 तस्मिंस्तदा राजगृह प्रयाति प्रासादमालामणिजालकस्था ।
 तद्दर्शनव्याकुलनेत्रपद्मा मुक्तान्यचेष्टा ललना बभूवुः ॥१२२॥
 गवाक्षजालेन निरीक्षमाणा सुग्रीवजा वायुसुतस्य रूपम् ।
 कामप्यवस्था मनसा प्रपन्ना स्ववेदनीया सुकुमारदेहा ॥१२३॥
 अय स नाय पुरुषोऽपरोऽय कोऽप्येष सोऽसौ सखि सोऽयमेव ।
 इत्यङ्गनाभिः परितर्क्यमाणो विवेश सुग्रीवपुर हनुमान् ॥१२४॥
 तयोर्विवाहः परया विभूत्या विनिर्मित सङ्गतसर्वबन्धुः ।
 तौ दम्पती योग्यसमागमेन प्राप्तौ प्रमोद परम सुरूपौ ॥१२५॥
 जगाम वध्वा सहितो हनुमान् स्थान निज निर्वृतचित्तवृत्तिः ।
 कृत्वा सशोकौ श्वसुरौ सैवगौ सुतावियोगात्स्ववियोजनाच्च ॥१२६॥
 तस्मिंस्तथा श्रीमति वर्तमाने सुते समस्तचित्तियातकीर्तौ ।
 महासुखास्वादसमुद्रमध्ये ममज्ज वायु चित्तिपोऽञ्जना च ॥१२७॥

जैसा कि इस संसारमे प्रसिद्ध है कि कामदेवके पाँच बाण है यदि यह बात सत्य है तो कन्याने एक ही समय सौ बाणोंके द्वारा हनुमानको कैसे घायल किया ॥११६॥ यदि मैं इस कन्याको नहीं प्राप्त करता हूँ तो मेरा जन्म लेना व्यर्थ है ऐसा मनमें विचारकर हनुमान् बड़े वैभवके साथ क्षण एकमे सुग्रीवके नगरकी ओर चल पड़ा ॥१२०॥ उसे अत्यन्त निकटमें आया सुन सुग्रीव राजा हर्षित होता हुआ शीघ्र ही उसकी अगवानीके लिए गया । तत्पश्चात् जिसे सैकड़ों अर्घ दिये गये थे ऐसे हनुमान्ने श्वसुरके साथ नगरमे प्रवेश किया ॥१२१॥ उस समय जब हनुमान् राजमहलकी ओर जा रहा था तब नगरकी स्त्रियों अन्य सब काम छोडकर महलोंके मणिमय झरोखेमे जा खडी हुई थीं और उस समय उनके नेत्रकमल हनुमान्को देखनेके लिए व्याकुल हो रहे थे ॥१२२॥ सुकुमार शरीरकी धारक सुग्रीवकी पुत्री पद्मरागा झरोखेसे हनुमान्का रूप देखकर मन-ही-मन अपने आपके द्वारा अनुभव करने योग्य किसी अद्भुत अवस्थाको प्राप्त हुई ॥१२३॥ सखि ! यह वह पुरुष नहीं है, यह तो कोई दूसरा है, अथवा नहीं सखि ! यह वही है, इस प्रकार स्त्रियों जिसके विषयमे तर्कणा कर रहीं थीं ऐसे हनुमान्ने नगरमे प्रवेश किया ॥१२४॥ तदनन्तर बड़े वैभवके साथ उन दोनोंका विवाह हुआ । विवाहमे समस्त बन्धुजन सम्मिलित हुए और अत्यन्त सुन्दर रूपके धारक दोनों दम्पति परम-प्रमोदको प्राप्त हुए ॥१२५॥ जिसका चित्त सन्तुष्ट हो रहा था ऐसा हनुमान् पुत्री तथा अपने आपके वियोगसे परिवार सहित सास-श्वसुरको शोकयुक्त करता हुआ नववधूके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥१२६॥ इस प्रकार जिसकी कीर्ति समस्त संसारमे फैल रही थी ऐसे शोभा अथवा लक्ष्मी सम्पन्न पुत्रके रहते हुए राजा पवनऋजय और अञ्जना महासुखानुभव रूपी सागरके मध्यमे गोता लगा रहे थे ॥१२७॥

श्रीशैलतुल्यैरथ खेचरेशैः सन्मान्यमानो बहुमानधारी ।
 अभूदशास्य. क्षतसर्वशत्रुः त्रिखण्डनाथो हरिकण्ठतुल्यः ॥१२८॥
 लङ्कानगर्यां स विशालकान्ति. सुखेन रेमे पृथुभोगजेन ।
 समस्तलोकस्य धृतिं प्रयच्छन् यथा सुरेन्द्र. सुरलोकपुर्याम् ॥१२९॥
 महानुभाव. प्रमदाजनस्य स्तनेष्वसौ लालितरक्तपाणिः ।
 विवेद नो दीर्घमपि व्यतीत काल प्रियावक्त्रतिगिच्छ्मृङ्गः ॥१३०॥
 एकापि यस्येह भवेद्विरूपा नरस्य जाया प्रतिकूलचेष्टा ।
 रतेः पतित्वं स नरः करोति स्थित. सुखे ससृतिधर्मजाते ॥१३१॥
 युक्त. प्रियाणां दशभिः सहस्रैस्तथाष्टभिः श्रीजनितोपमानाम् ।
 महाप्रभावः किमुतैप राजा खण्डत्रयस्यानुपमानकान्तिः ॥१३२॥

उपेन्द्रवज्रावृत्तम्

एवं समस्तखगपैरभिनृत्यमानः संभ्रान्तसन्नतपराङ्मृतानुशिष्टिः ।
 खण्डत्रयाधिपतिता विहिताभिपेकः साम्राज्यमाप जनताभिनुतं दशास्यः ॥१३३॥
 विद्याधराधिपतिपूजितपादपद्म. श्रीकीर्तिकान्तिपरिवारमनोज्ञदेहः ।
 सर्वग्रहैः परिवृतो दशवक्त्रराजो जात. शशाङ्क इव कस्य न चित्तहारी ॥१३४॥
 चक्रं सुदर्शनममोघममुष्य दिव्य मध्याह्नभास्करकरोपममध्यजालम् ।
 उद्वृत्तशत्रुनृपवर्गविनाशदत्त रेजेऽदृष्टमतिभासुररत्नचित्रम् ॥१३५॥
 वण्डश्च मृत्युरिव जातशरीरवन्धो दुष्टात्मनां भयकरः स्फुरितोग्रतेजाः ।
 उत्कासमूह इव संगतवान् प्रचण्डो जज्वाल शस्त्रभवने प्रतिपन्नपूज. ॥१३६॥

अथानन्तर हनूमान् जैसे उत्तमोत्तम विद्याधर राजा जिसका सन्मान करते थे, जो अत्यधिक मानको धारण करनेवाला था, तीन खण्डका स्वामी था और हरिकण्ठके समान था ऐसा रावण समस्त शत्रुओंसे रहित हो गया ॥१२८॥ जिस प्रकार इन्द्र स्वर्गलोकमें क्रीड़ा करता है उसी प्रकार समस्त लोगोंको आनन्द प्रदान करता हुआ विशाल कान्तिका धारक रावण विशाल भोगोंसे समुत्पन्न सुखसे लङ्का नगरीमें क्रीड़ा करने लगा ॥१२९॥ स्त्रियोंके मुखरूपी कमलका भ्रमर रावण स्त्रीजनोके स्तनों पर हाथ चलाता हुआ वीते हुए बहुत भारी कालको भी नहीं जान पाया अर्थात् कितना अधिक काल वीत गया इसका उसे पता ही नहीं चला ॥१३०॥ जिस मनुष्यके पास एक ही विरूप तथा निरन्तर भगइनेवाली स्त्री होती है वह भी सांसारिक सुखमें निमग्न हो अपने आपको रतिपति अर्थात् कामदेव समझता है ॥१३१॥ फिर रावण तो लक्ष्मीकी उपमा धारण करनेवाली अठारह हजार स्त्रियोंसे युक्त था, महाप्रभावशाली था, तीन खण्डका स्वामी था, अनुपम कान्तिका धारी था अतः उसके विषयमें क्या कहना है ? ॥१३२॥ इस प्रकार समस्त विद्याधर जिसकी स्तुति करते थे, सब लोग घबड़ाकर नम्रीभूत मस्तक पर जिसकी आज्ञा धारण करते थे और तीन खण्डके राज्य पर जिसका अभिपेक किया गया था ऐसा रावण जनसमूहके द्वारा स्तुत साम्राज्यको प्राप्त हुआ ॥१३३॥ समस्त विद्याधर राजा जिसके चरणकमलो की पूजा करते थे और जिसका शरीर श्री, कीर्ति और कान्तिसे मनोज्ञ था ऐसा रावण सर्वग्रहोंसे परिवृत चन्द्रमाके समान किसका मन हरण नहीं करता था ॥१३४॥ जिसकी मध्यजाली मध्याह्नके सूर्यकी किरणोंके समान थी, जो उदण्ड शत्रु राजाओंके नष्ट करनेमें समर्थ था, जिसके अर स्पष्ट दिखाई देते थे, तथा जो अत्यन्त देदीप्यमान रत्नोंसे चित्र-विचित्र जान पड़ता था ऐसा इसका सुदर्शन नामका अमोघ देवोपनीत चक्र अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥१३५॥ जिसका

१. प्रियामुखकमलमकरन्दभ्रमरः । २. राजा क०, ख०, म०, व०, ज० । 'राजाहः सखिभ्यष्टच्' इति टच् समासान्तः ।

सौम्य स्वकर्मवशात् कुलमक्रमेण सप्राप्य राक्षसपुरी पुरुचास्कर्ति ।
 ऐश्वर्यमद्भुतर च समन्तभद्रं रक्ष पति परममस्त्वितिसौख्यमेत ॥१३७॥
 सद्दृष्टिवोधचरणप्रतिपत्तिहेतौ दूर गतेऽथ मुनि सुव्रतनाथतीर्थे ।
 अत्यन्तमूढकविभिः परमार्थदूरैर्लोकैऽन्यथैव कथितं पुरुष प्रधानं ॥१३८॥

मालिनीच्छन्दः

विषयवशमुपेतैर्नष्टतत्त्वार्थबोधै

कविभिरतिक्रुशीलैर्नित्यपापाजुरक्तै ।

कुरचित्तगैरहेतुग्रन्थवाग्वागुराभि

प्रगुणजनमृगाँघो वध्यते मन्दभाग्य ॥१३९॥

इति विदितयथावद्वृत्तवस्तुप्रपञ्च

क्षतकुमन्तजनोक्तग्रन्थपङ्कप्रसङ्ग ।

भञ्ज सुरपतिवन्द्य शास्त्ररत्न जिनाना

रविसमधिकतेज श्रेणिक श्रीविशालं ॥१४०॥

इत्यार्षे रविपेणाचार्यैः प्रोक्ते पद्मचरिते रावणसाम्राज्याभिधान नामैकोनविंशतितमं पव ॥१४॥

इति विद्याधरकाण्डं प्रथमं समाप्तम् ।



उग्रतेज सब ओर फैल रहा था ऐसा रावण, दुष्टजनोको तो ऐसा भय उत्पन्न कर रहा था मानो शरीरधारी दण्ड अथवा मृत्यु ही हो । जब वह शस्त्रशालामें शस्त्रोंकी पूजा करता था तब ऐसा जान पड़ता था मानो झकड़ा हुआ प्रचण्ड उल्काधोका समूह ही हो ॥१३६॥ इस प्रकार विशाल तथा सुन्दर कीर्तिको धारण करनेवाला रावण स्वकीय कर्मोदयसे वंशपरम्परागत लङ्कापुरीको पाकर सर्वकल्याणयुक्त आश्चर्यकारक ऐश्वर्यको तथा ससार सम्बन्धी श्रेष्ठ सुखको प्राप्त हुआ था ॥१३७॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी प्राप्तिका कारण जो मुनिसुव्रत भगवान्का तीर्थ था उसे द्र्यतीत हुए जब बहुत दिन हो गये तब परमार्थसे दूर रहनेवाले अत्यन्त मूढ कवियोने इस प्रधान पुरुषका लोकमें अन्यथा ही कथन कर डाला ॥१३८॥

जो विषयोंके अधीन हैं, जिनका तत्त्वज्ञान नष्ट हो गया है, जो अत्यन्त कुशील हैं और निरन्तर पापमें अनुरक्त रहते हैं ऐसे कवि लोग स्वरचित पापवर्धक ग्रन्थरूपी जालसे मन्द-भाग्य तथा अत्यन्त सरल मनुष्यरूपी मृगोंके समूहको नष्ट करते रहते हैं । इसलिए जिसने वस्तुका यथार्थस्वरूप समझ लिया है, जिसने मिथ्यादृष्टि जनोके द्वारा रचित कुशास्त्ररूपी कीचड़का प्रसङ्ग नष्ट कर दिया है, जिसका सूर्यके समान विशाल तेज है और जो लक्ष्मीसे विशाल है ऐसे हे श्रेणिक ! तू इन्द्रद्वारा वन्दनीय जिनशास्त्ररूपी रत्नका उपासना कर—उसीका अध्ययन-मनन कर ॥१३९-१४०॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, रविपेणाचार्य कथित पद्मचरितमें रावणके साम्राज्यका

कथन करनेवाला उन्नीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥१४॥

इस प्रकार विद्याधरकाण्ड नामक प्रथम काण्ड समाप्त हुआ ।



विंशतितमं पर्व

अथैव श्रेणिकः श्रुत्वा विनीतात्मा प्रसन्नवीः । प्रणम्य गणिनः पादौ पुनरुच्ये सविस्मयः ॥१॥
 प्रसादात्तत्र विज्ञातः प्रतिशत्रोः समुद्रवः । अष्टमस्य तथा भेदः कुलयोः कपिरक्षसाम् ॥२॥
 साम्प्रत श्रोतुमिच्छामि चरितं जिनचक्रिणाम् । नाथ पूर्वभवैर्युक्तं बुद्धिशोधनकारणम् ॥३॥
 अष्टमो यश्च विख्यातो हली सकलविष्टे । वशे कस्य समुद्रभूतः किं वा तस्य विचेष्टितम् ॥४॥
 अमोपां जनकादीनां तथा नामानि सन्मुने । जिज्ञासितानि मे नाथ तत्सर्वं वक्तुमर्हसि ॥५॥
 इत्युक्तः स महासत्त्वः परमार्थविशारदः । जगाद् गणभृद्वाक्य चारुप्रश्नाभिनन्दितः ॥६॥
 शृणु श्रेणिक वक्ष्यामि जिनानां भवकीर्तनम् । पापविध्वंसकरणं त्रिदशेन्द्रनमस्कृतम् ॥७॥
 ऋषभोऽजितनाथश्च संभवश्चाभिनन्दनः । सुमतिः पद्मभासश्च^१ सुपार्श्वः शशभृत्प्रभः^२ ॥८॥
 सुविधिः शीतलः श्रेयान् वासुपूज्योऽमलप्रभुः । अनन्तो धर्मशान्ति च कुन्धुदेवो महानरः^३ ॥९॥
 मल्लिः सुव्रतनाथश्च नमिर्नेमिश्च तीर्थकृत् । पार्श्वोऽयं पश्चिमो वीरो शासनस्य वर्तते ॥१०॥
 नगरी परमोदारा नामतः पुण्डरीकिणी । सुसीमेत्यपरा ख्याता क्षेमेत्यन्यातिशोभना ॥११॥
 तथा रत्नवरैर्दीप्ता रत्नसंचयनामिका । चतस्रः परमोदाराः सुव्यवस्था इमाः पुरः ॥१२॥
 वासुपूज्यजिनान्तानां जिनानामृषभादितः । आसन् पूर्वभवे रम्या राजधान्यः सदोत्सवाः ॥१३॥
 सुमहानगरं चारु तथारिष्टपुरं वरम् । सुमाद्रिका च विख्याता तथासौ पुण्डरीकिणी ॥१४॥

अथानन्तर जिसकी आत्मा अत्यन्त नम्र थी और बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ थी ऐसा श्रेणिक विद्याधरोका वर्णन सुन आश्चर्यचकित होता हुआ गणधर भगवान्‌के चरणोंको नमस्कार कर फिर बोला कि ॥१॥ हे भगवन् ! आपके प्रसादसे मैंने अष्टम प्रतिनारायणका जन्म तथा वानर वंश और राक्षस वंशका भेद जाना । अब इस समय हे नाथ ! चौबीस तीर्थकरो तथा बारह चक्रवर्तियोंका चरित्र उनके पूर्वभवोंके साथ सुनना चाहता हूँ क्योंकि वह बुद्धिको शुद्ध करनेका कारण है ॥२-३॥ इनके सिवाय जो आठवाँ बलभद्र समस्त संसारमें प्रसिद्ध है वह किस वंशमें उत्पन्न हुआ तथा उसकी क्या-क्या चेष्टाएँ हुई ! ॥४॥ हे उत्तम मुनिराज ! इन सबके पिता आदिके नाम भी मैं जानना चाहता हूँ सो हे नाथ ! यह सब कहनेके योग्य हो ॥५॥ श्रेणिकके इस प्रकार कहनेपर महाधैर्यशाली, परमार्थके विद्वान् गणधर भगवान् उत्तम प्रश्नसे प्रसन्न होते हुए इस प्रकारके बचन बोले कि हे श्रेणिक ! सुन, मैं तीर्थकरोका वह भवोपाख्यान कहूँगा जो कि पापको नष्ट करनेवाला है और इन्द्रोके द्वारा नमस्कृत है ॥६-७॥ ऋषभ, अजित, संभव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चन्द्रप्रभ, सुविधि (पुष्पदन्त), शीतल, श्रेयान्स, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्धु, अर, मल्लि, (मुनि) सुव्रतनाथ, नमि, नेमि, पार्श्व और महावीर ये चौबीस तीर्थकरोके नाम हैं । इनमें महावीर अन्तिम तीर्थङ्कर हैं तथा इस समय इन्हींका शासन चल रहा है ॥८-१०॥ अब इनकी पूर्व भवकी नगरियोंका वर्णन करते हैं—अत्यन्त श्रेष्ठ पुण्डरीकिणी, सुसीमा, अत्यन्त मनोहर क्षेमा, और उत्तमोत्तम रत्नोसे प्रकाशमान रत्नसंचयपुरी ये चार नगरियाँ अत्यन्त उत्कृष्ट तथा उत्तम व्यवस्थासे युक्त थीं । ऋषभदेवको आदि लेकर वासुपूज्य भगवान् तक क्रमसे तीन-तीन तीर्थङ्करोंकी ये पूर्व भवकी राजधानियाँ थीं । इन नगरियोंमें सदा उत्सव होते रहते थे ॥११-१३॥ अवशिष्ट बारह तीर्थङ्करोंकी पूर्वभवकी राजधानियाँ निम्न प्रकार थीं सुमहानगर, अरिष्टपुर, सुमाद्रिका, पुण्डरीकिणी, सुसीमा, क्षेमा,

सुसीमा सीमसपत्ना क्षेमा च क्षेमकारिणी । ज्यतीतशोकनामा च चम्पा च विदिता भुवि ॥१५॥
 कौशाम्बी च महाभोगा तथा नागपुर पृथु । साकेता कान्तभवना छत्राकारपुर तथा ॥१६॥
 अनुक्रमेण शेषाणां जिनाना पूर्वजन्मनि । राजधान्य इमा ज्ञेया पुर्यः स्वर्गपुरीसमा ॥१७॥
 वज्रनाभिरिति ख्यातस्तथा विमलवाहन । अन्यश्च विपुलख्याति श्रीमान् विपुलवाहन ॥१८॥
 महाबलोऽपरः कान्तस्तथातिबलकीर्तनः । अपराजितसञ्जश्च नन्दिषेणाभिधोऽपर ॥१९॥
 पद्मश्चान्यो महापद्मस्तथा पद्मोत्तरो भुवि । नाथः पङ्कजगुल्माख्यः पङ्कजप्रतिमाननः ॥२०॥
 विभुर्नलिनगुल्मश्च तथा पद्मासनः सुखी । स्मृत पद्मरथो नाथः श्रीमान् दृढरथोऽपरः ॥२१॥
 महामेघरथो नाम शूरः सिंहस्थाभिधः । स्वामी वैश्रवणो धीमान् श्रीधर्मोऽन्यो महाधनः ॥२२॥
 अप्रतिष्ठः सुरश्रेष्ठः सिद्धार्थः सिद्धशासनः । आनन्दो नन्दनीयोऽन्यः सुनन्दश्चेति विश्रुतः ॥२३॥
 पूर्वजन्मनि नामानि जिनानामिति विष्टे । प्रख्यातानि मयोक्तानि क्रमेण मगधाधिप ॥२४॥
 वज्रसेनो महातेजास्तथा वीरो रिपुदमः । अन्य स्वयंप्रभामिख्यः श्रीमान् विमलवाहनः ॥२५॥
 गुरुः सीमन्धरो ज्ञेयो नाथश्च पिहितास्रवः । महातपस्विनावन्यावरिन्दमयुगन्धरौ ॥२६॥
 तथा सर्वजनानन्दः सार्थकामिख्यानितः । अभयानन्दपद्मश्च वज्रदन्तोऽपरः प्रभुः ॥२७॥
 वज्रनाभिश्च विज्ञेयः सर्वगुप्तिश्च गुप्तिमान् । चिन्तारक्षप्रसिद्धिश्च पुनर्विपुलवाहनः ॥२८॥
 मुनिर्घनरवो धीरः सवरः साधुसवरः । वरधर्मस्त्रिलोकीयः सुनन्दो नन्दनाममृतः ॥२९॥
 ज्यतीतशोकसञ्जश्च डामरः प्रोष्ठिलस्तथा । क्रमेण गुरवो ज्ञेया जिनाना पूर्वजन्मनि ॥३०॥
 सर्वार्थसिद्धिसशब्दो वैजयन्तः सुखावहः । प्रैवेयको महामासः वैजयन्तः स एव च ॥३१॥
 ऊर्ध्वप्रैवेयको ज्ञेयो मध्यमश्च प्रकीर्तितः । वैजयन्तो महातेजा अपराजितसञ्जकः ॥३२॥
 आरणश्च समाख्यातस्तथा पुष्पोत्तराभिधः । कापिष्ठः पुरुशुकश्च सहस्रारो मनोहरः ॥३३॥
 त्रिपुष्पोत्तरसञ्ज्ञोऽतो मुक्तिस्थानधरस्थितः । विजयाख्यस्तथा श्रीमानपराजितसञ्जकः ॥३४॥

वीतशोका, चम्पा, कौशाम्बी, नागपुर, साकेता, और छत्राकारपुर । ये सभी राजधानियों
 स्वर्गपुरीके समान सुन्दर, महाविस्तृत तथा उत्तमोत्तम भवनोपे सुशोभित थीं ॥१४-१७॥ अब
 इनके पूर्वभवके नाम कहता हूँ—१ वज्रनाभि, २ विमलवाहन, ३ विपुलख्याति, ४ विपुलवाहन,
 ५ महाबल, ६ अतिबल, ७ अपराजित, ८ नन्दिषेण, ९ पद्म, १० महापद्म, ११ पद्मोत्तर, १२ कमल
 के समान मुखवाला पङ्कजगुल्म, १३ नलिनगुल्म, १४ पद्मासन, १५ पद्मरथ, १६ दृढरथ, १७ महा
 मेघरथ, १८ सिंहस्था, १९ वैश्रवण, २० बुद्धिमान् श्रीधर्म, २१ उपमारहित सुरश्रेष्ठ, २२ सिद्धार्थ,
 २३ आनन्द और २४ सुनन्द । हे मगधराज ! ये चौबीस तीर्थकरोके पूर्वभवके नाम तुमसे कहे
 हैं । ये सब नाम संसारमें अत्यन्त प्रसिद्ध थे ॥१८-२४॥ अब इनके पूर्वभवके पिताओके नाम
 सुन—१ वज्रसेन, २ महातेज, ३ रिपुदम, ४ स्वयंप्रभ, ५ विमलवाहन, ६ सीमन्धर, ७ पिहितास्रव,
 ८ अरिन्दम, ९ युगन्धर, १० सार्थक नामके धारक सर्वजनानन्द, ११ अभयानन्द, १२ वज्रदन्त,
 १३ वज्रनाभि, १४ सर्वगुप्ति, १५ गुप्तिमान्, १६ चिन्तारक्ष, १७ विपुलवाहन, १८ घनरव, १९ धीर,
 २० उत्तम संवरको धारण करनेवाले संवर, २१ उत्तमधर्मको धारण करनेवाले त्रिलोकीय, २२ सुनन्द,
 २३ वीतशोक डामर और २४ प्रोष्ठिल । इस प्रकार ये चौबीस तीर्थकरोके पूर्वभव सम्बन्धी
 चौबीस पिताओके नाम जानना चाहिये ॥२५-३०॥ अब चौबीस तीर्थकर जिस-जिस स्वर्गलोकसे
 आये उनके नाम सुन—१ सर्वार्थसिद्धि, २ वैजयन्त, ३ प्रैवेयक, ४ वैजयन्त, ५ वैजयन्त, ६ ऊर्ध्व
 प्रैवेयक, ७ मध्यम प्रैवेयक, ८ वैजयन्त, ९ अपराजित, १० आरण, ११ पुष्पोत्तर, १२ कापिष्ठ, १३
 महाशुक, १४ सहस्रार, १५ पुष्पोत्तर, १६ पुष्पोत्तर, १७ पुष्पोत्तर, १८ सर्वार्थसिद्धि, १९ विजय,

प्राणतोऽनन्तरातीतो वैजयन्तो महाद्युतिः । पुष्पोत्तर इति ज्ञेयो जिनानाममरालयाः ॥३५॥
 जिनानां जन्मनक्षत्र मातरं पितरं पुरम् । चैत्यवृक्षं तथा मोक्षस्थानं ते कथयाम्यतः ॥३६॥
 विनीता नगरी नाभिरुदेव्युत्तरा तथा । आपाढा वटवृक्षश्च कैलाशः प्रथमो जिनः ॥३७॥
 साकेता विजयानाथो जितशत्रुर्जिनोत्तमः । रोहिणी सप्तपर्णश्च मङ्गलं श्रेणिकास्तु ते ॥३८॥
 सेना जितारिजश्च श्रावस्तीसभवो जिनः । ऐन्द्रमृचं ततः शालः परम तेऽस्तु मङ्गलम् ॥३९॥
 सिद्धार्था सवरोऽयोध्या सरलश्च पुनर्वसुः । अभिनन्दननाथश्च भवन्तु तव मङ्गलम् ॥४०॥
 सुमङ्गला प्रियङ्गुश्च मघा मेघप्रभः पुरी । साकेता सुमतिर्नाथो जगदुत्तममङ्गलम् ॥४१॥
 सुसीमा वत्सनगरी च चित्रा धरणशब्दितः । पद्मप्रभः प्रियङ्गुश्च भवन्तु तव मङ्गलम् ॥४२॥
 सुप्रतिष्ठ. पुरी काशी विशाखा पृथिवी तथा । शिरीषश्च सुपार्श्वश्च राजन् परममङ्गलम् ॥४३॥
 नागवृक्षोऽनुराधर्च महासेनाश्च लक्ष्मणा । ख्याता चन्द्रपुरी चन्द्रप्रभश्च तत्र मङ्गलम् ॥४४॥
 काकन्दी सुविधिर्मूल रामा सुग्रीवपार्थिव । सालस्तरुश्च ते सन्तु चित्तपावनकारणम् ॥४५॥
 प्लक्षो दृढरथो राजा भद्रिका शीतलो जिनः । सुनन्दा प्रथमापाढा सन्तु ते मङ्गल परम् ॥४६॥
 विष्णुश्री श्रवणो विष्णु सिंहनादश्च^१ तिन्दुक. । सततं नु जिनः श्रेयान् श्रेयः कुर्वन्तु ते नृप ॥४७॥
 पाडला वसुपूज्यश्च जया शतभिष तथा । चम्पा च वासुपूज्यश्च लोकपूजां दिशन्तु ते ॥४८॥
 काम्पिल्यं कृतवर्मा च शर्मा प्रौष्ठपदोत्तरा । जम्बूविमलनाथश्च कुर्वन्तु त्वां मलोद्भूतम् ॥४९॥

२० अपराजित, २१ प्राणत, २२ आनत, २३ वैजयन्त और २४ पुष्पोत्तर । ये चौबीस तीर्थङ्करोंके आनेके स्वर्गोंके नाम कहे ॥३१-३५॥

अब आगे चौबीस तीर्थकरोकी जन्मनगरी, जन्मनक्षत्र, माता, पिता, वैराग्यका वृक्ष और मोक्षका स्थान कहता हूँ—विनीता (अयोध्या) नगरी, नाभिराजा पिता, मरुदेवी रानी, उत्तराषाढा नक्षत्र, वट वृक्ष, कैलाशपर्वत और प्रथम जिनेन्द्र हे श्रेणिक ! तेरे लिए ये मङ्गलस्वरूप हो ॥३६-३७॥ साकेता (अयोध्या) नगरी, जितशत्रु पिता, विजया माता, रोहिणी नक्षत्र, सप्तपर्ण वृक्ष और अजितनाथ जिनेन्द्र, हे श्रेणिक ! ये तेरे लिए मङ्गलस्वरूप हो ॥३८॥ श्रावस्ती नगरी, जितारिपिता, सेना माता, पूर्वाषाढा नक्षत्र, शाल वृक्ष और संभवनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे लिए मङ्गलस्वरूप हों ॥३९॥ अयोध्या नगरी, संवर पिता, सिद्धार्था माता, पुनर्वसु नक्षत्र, सरल अर्थात् देवदारु वृक्ष और अभिनन्दन जिनेन्द्र, ये तेरे लिए मङ्गलस्वरूप हो ॥४०॥ साकेता (अयोध्या) नगरी, मेघप्रभ राजा पिता, सुमङ्गला माता, मघानक्षत्र, प्रियङ्गु वृक्ष, और सुमतिनाथ जिनेन्द्र ये जगत्के लिए उत्तम मङ्गलस्वरूप हों ॥४१॥ वत्सनगरी (कौशाम्बीपुरी), धरणराजा पिता, सुसीमा माता, चित्रा नक्षत्र, प्रियङ्गु वृक्ष और पद्मप्रभ जिनेन्द्र, ये तेरे लिए मङ्गलस्वरूप हो ॥४२॥ काशी नगरी, सुप्रतिष्ठ पिता, पृथ्वी माता, विशाखा नक्षत्र, शिरीष वृक्ष और सुपार्श्व जिनेन्द्र, हे राजन् ! ये तेरे लिए मङ्गलस्वरूप हो ॥४३॥ चन्द्रपुरी नगरी, महासेन पिता, लक्ष्मणा माता, अनुराधा नक्षत्र, नाग वृक्ष और चन्द्रप्रभ भगवान्, ये तेरे लिए मङ्गलस्वरूप हों ॥४४॥ काकन्दी नगरी, सुग्रीव राजा पिता, रामा माता, मूल नक्षत्र, साल वृक्ष और पुष्पदन्त अथवा सुविधिनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे चित्तको पवित्र करनेवाले हो ॥४५॥ भद्रिका पुरी, दृढरथ पिता, सुनन्दा माता, पूर्वाषाढा नक्षत्र, प्लक्ष वृक्ष और शीतलनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे लिए परम मङ्गलस्वरूप हो ॥४६॥ सिंहपुरी नगरी, विष्णुराज पिता, विष्णुश्री माता, श्रवणनक्षत्र, तेदूका वृक्ष और श्रेयान्सनाथ जिनेन्द्र हे राजन् ! ये तेरे लिए कल्याण करें ॥४७॥ चम्पा पुरी, वसुपूज्य राजा पिता, जया माता, शतभिषा नक्षत्र, पाटला वृक्ष, चम्पापुरी सिद्धक्षेत्र और वासुपूज्य जिनेन्द्र, ये तेरे लिए लोकप्रतिष्ठा प्राप्त करावे ॥४८॥ काम्पिल्य नगरी, कृतवर्मा पिता, शर्मा माता, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, जम्बू वृक्ष,

अश्वत्थः सिंहसेनश्च विनीता रेवती तथा । ग्लाव्या सर्वयशा नाथोऽनन्तश्च तव मङ्गलम् ॥५०॥
 धर्मो रत्नपुरी भानुर्दधिपर्णश्च सुव्रता । पुष्यश्च तव पुष्पात्तु श्रिय श्रेणिक धर्मिणीम् ॥५१॥
 भरणी हास्तिनस्थानमैराणी नन्दपाटप । विश्वसेनचूष शान्ति शान्ति कुर्वन्तु ते सदा ॥५२॥
 सूर्यो गजपुरं कुन्थुस्तिलक श्रीश्च कृत्तिका । भवन्तु तव राजेन्द्र पापद्रवणहेतव ॥५३॥
 मित्रा सुदर्शनचूतो नगरं पूर्वकीर्तितम् । रोहिण्यरजिनेन्द्रश्च नागयन्तु रजस्तत्र ॥५४॥
 रक्षिता मिथिला कुम्भो जिनेशो मल्लिरश्विनी । अशोकश्च तवागोक मन कुर्वन्तु पार्थिव ॥५५॥
 पद्मावती कुशाग्र च सुमित्र श्रवणस्तथा । चम्पक सुव्रतेश्च ब्रजन्तु तव मानसम् ॥५६॥
 विजयो मिथिला वप्रा वकुलो नमितीर्थकृत् । अश्विनी च प्रयच्छन्तु तव धर्मसमागमम् ॥५७॥
 समुद्रविजयश्चित्रा नेमिः शौरिपुर शिवा । ऊर्जयन्तश्च ते मेपशृङ्गश्चास्तु सुरप्रदः ॥५८॥
 वाराणसी विशाखा च पार्श्वो वर्मा धवोऽङ्घ्रिप । अश्वसेनश्च ते राजन् दिग्गन्तु मनसो धृतिम् ॥५९॥
 सालः कुण्डपुरं पावा सिद्धार्थः प्रियकारिणी । हस्तोत्तर महावीर परम तव मङ्गलम् ॥६०॥
 चम्पैव वासुपूज्यस्य मोक्षस्थानमुदाहृतम् । पूर्वमुक्त त्रयाणा तु शेषा सम्मेदनिर्वृताः ॥६१॥
 शान्ति कुन्थुरश्चेति राजानश्चक्रवर्तिन । सन्तस्तीर्थकरा जाताः शेषा सामान्यपार्थिवाः ॥६२॥
 चन्द्राभश्चन्द्रमकाशः पुष्पदन्तश्च कीर्तितः । प्रियङ्गुमङ्गरीवर्णं सुपार्श्वो जिनसत्तम ॥६३॥

विमलनाथ जिनेन्द्र ये तुम्हे निर्मल करे ॥४६॥ विनीता नगरी, सिंहसेन पिता, सर्वयशा माता, रेवती नक्षत्र, पीपलका वृक्ष और अनन्तनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे लिए मङ्गलस्वरूप हो ॥५०॥ रत्नपुरी नगरी, भानुराजा पिता, सुव्रता माता, पुष्य नक्षत्र, दधिपर्ण वृक्ष और धर्मनाथ जिनेन्द्र, हे श्रेणिक । ये तेरी धर्मयुक्त लक्ष्मीको पुष्ट करे ॥५१॥ हस्तिनागपुर नगर, विश्वसेन राजा पिता, ऐराणी माता, भरणी नक्षत्र, नन्द वृक्ष और शान्तिनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे लिए सदा शान्ति प्रदान करे ॥५२॥ हस्तिनागपुर नगर, सूर्य राजा पिता, श्रीदेवी माता, कृत्तिका नक्षत्र, तिलक वृक्ष और कुन्थुनाथ जिनेन्द्र, हे राजन् ये तेरे पाप दूर करनेमें कारण हो ॥५३॥ हस्तिनागपुर नगर, सुदर्शन पिता, मित्रा माता, रोहिणी नक्षत्र, आम्र वृक्ष और अर जिनेन्द्र, ये तेरे पापको नष्ट करे ॥५४॥ मिथिला नगरी, कुम्भ पिता, रक्षिता माता, अश्विनी नक्षत्र, अशोक वृक्ष और मल्लिनाथ जिनेन्द्र हे राजन् । ये तेरे मनको शोक रहित करे ॥५५॥ कुशाग्र नगर (राजगृह) सुमित्र, पिता, पद्मावती माता, श्रवण नक्षत्र, चम्पक वृक्ष और सुव्रतनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे मनको प्राप्त हो अर्थात् तू हृदयसे इनका ध्यान कर ॥५६॥ मिथिला नगरी, विजय पिता, वप्रा माता, अश्विनी नक्षत्र, वकुल वृक्ष और नमिनाथ तीर्थङ्कर, ये तेरे लिए धर्मका समागम प्रदान करे ॥५७॥ शौरिपुरनगर, समुद्रविजय पिता, शिवा माता, चित्रा नक्षत्र, मेपशृङ्ग वृक्ष, ऊर्जयन्त (गिरनार) पर्वत और नेमि जिनेन्द्र, ये तेरे लिए सुखदायक हो ॥५८॥ वाराणसी (बनारस) नगरी, अश्वसेन पिता, वर्मादेवी माता, विशाखा नक्षत्र, धव (धौ) वृक्ष और पार्श्वनाथ जिनेन्द्र ये तेरे मनमें धैर्य उत्पन्न करे ॥५९॥ कुण्डपुर नगर, सिद्धार्थ पिता, प्रियकारिणी माता, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, साल वृक्ष, पावा नगर और महावीर जिनेन्द्र, ये तेरे लिए परम मङ्गल स्वरूप हो ॥६०॥ इनमेंसे वासुपूज्य भगवान्का मोक्षस्थान चम्पापुरी ही है । ऋषभदेव, नेमिनाथ तथा महावीर इनके मोक्ष स्थान क्रमसे कैलास, ऊर्जयन्त गिरि तथा पावापुर ये तीन पहले कहे जा चुके हैं और शेष बीस तीर्थङ्कर सम्मेदाचलसे निर्वाण धामको प्राप्त हुए हैं ॥६१॥ शान्ति, कुन्थु और अर ये तीन राजा चक्रवर्ती होते हुए तीर्थङ्कर हुए । शेष तीर्थङ्कर सामान्य राजा हुए ॥६२॥ चन्द्रप्रभ और पुष्पदन्त ये चन्द्रमाके समान श्वेतवर्णके धारक थे । सुपार्श्व जिनेन्द्र

चतुःपञ्चाशदाख्यातं समा लक्षास्तु तत्परम् । षड्लक्षा उत्तरं तस्मात्ततः पञ्च प्रकाशितम् ॥८६॥

सहस्राणि त्र्यशीतिस्तु सार्धाष्टमशत परम् । शतान्यर्द्धवृत्तीयानि समानां कीर्तितं ततः ॥९०॥

वर्द्धमानजिनेन्द्रस्य धर्मः संस्पृष्टदुःषमः । निवृत्ते तु महावीरे धर्मचक्रे महेश्वरे ।

सुरेन्द्रमुकुटच्छायापयोधौतक्रमद्वये ॥९१॥

देवागमननिर्मुक्ते कालेऽतिशयवर्जिते । प्रनष्टकेवलोत्पादे हलचक्रधरोज्जिते ॥९२॥

भवद्विधमहाराजगुणसंघातरिक्तके । भविष्यन्ति प्रजा दुष्टा वन्नोद्यतमानसाः ॥९३॥

निश्लैला निर्ब्रता प्रायः क्लेशन्याधिसमन्विता । मिथ्यादृशो महाबोरा भविष्यन्त्यसुधारिणः ॥९४॥

अतिवृष्टिरवृष्टिश्च विपमावृष्टिरीतयः । त्रिविधाश्च भविष्यन्ति दुस्सहाः प्राणधारिणाम् ॥९५॥

मोहकादम्बरीमत्ता रागद्वेषात्ममूर्तयः । नर्तितभ्रूकरा पापा मुहुर्गर्वस्मिता नराः ॥९६॥

कुत्रान्यमुखरा क्रूरा धनलाभपरायणाः । विचरिष्यन्ति खद्योता रात्राविव्र महीतले ॥९७॥

गोदण्डपथतुल्येषु मूढास्ते पतिताः स्वयम् । कुधर्मेपु जनानन्यान्पातयिष्यन्ति दुर्जनाः ॥९८॥

अपकारे समासक्ता परस्य स्वस्य चानिशम् । ज्ञास्यन्ति सिद्धमात्मानं नरा दुर्गतिगामिनः ॥९९॥

बाद तीस सागर बीतने पर तेरहवे विमलनाथ हुए, उनके बाद नौ सागर बीतने पर चौदहवें अनन्तनाथ हुए, उनके बाद चार सागर बीतने पर पन्द्रहवे श्रीधर्मनाथ हुए, उनके बाद पौन पत्य कम तीन सागर बीतने पर सोलहवे शान्तिनाथ हुए, उनके बाद आधापत्य बीतने पर सत्रहवें कुन्थुनाथ हुए, उनके बाद हजार वर्ष कम पावपत्य बीतने पर अठारहवें अरनाथ हुए, उनके बाद पैंसठ लाख चौरासी हजार वर्ष कम हजार करोड़ सागर बीतने पर उन्नीसवे मल्लिनाथ हुए, उनके बाद चौअन लाख वर्ष बीतने पर बीसवे मुनिसुव्रतनाथ हुए, उनके बाद छह लाख वर्ष बीतने पर इक्कीसवे नमिनाथ हुए, उनके बाद पाँच लाख वर्ष बीतने पर बाईसवे नेमिनाथ हुए, उनके बाद पौनेचौरासी हजार वर्ष बीतने पर तेईसवे श्रीपार्श्वनाथ हुए, और उनके बाद ढाईसौ वर्ष बीतने पर चौबीसवें श्री वर्द्धमानस्वामी हुए हैं । भगवान् वर्द्धमानस्वामीका धर्म ही इस समय पञ्चम कालमे व्याप्त हो रहा है । इन्द्रोके मुकुटोकी कान्तिरूपी जलसे जिनके दोनों चरण धुल रहे हैं जो धर्म-चक्रका प्रवर्तन करते हैं तथा महान् ऐश्वर्यके धारक थे, ऐसे महावीर स्वामीके मोक्ष चले जानेके बाद जो पञ्चम काल आवेगा, उसमे देवोंका आगमन बन्द हो जायगा, सब अतिशय नष्ट हो जावेगे, केवलज्ञानकी उत्पत्ति समाप्त हो जावेगी । बलभद्र, नारायण तथा चक्रवर्तियोंका उत्पन्न होना भी बन्द हो जायगा । और आप जैसे महाराजाओंके योग्य गुणोंसे समय शून्य हो जायगा । तब प्रजा अत्यन्त दुष्ट हो जावेगी, एक दूसरेको धोखा देनेमे ही उसका मन निरन्तर उद्यत रहेगा । उस समयके लोग निःशील तथा निर्ब्रत होंगे, नाना प्रकारके क्लेश और व्याधियोंसे सहित होंगे, मिथ्यादृष्टि तथा अत्यन्त भयङ्कर होंगे ॥८४-९४॥ कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं अवृष्टि होगी और कहीं विषम वृष्टि होगी । साथ ही नाना प्रकार की दुःसह रीतियों प्राणियोंको दुःसह दुःख पहुँचावेगी ॥९५॥ उस समयके लोग मोहरूपी मदिराके नशामें चूर रहेंगे, उनके शरीर राग-द्वेषके पिण्डके समान जान पड़ेंगे, उनकी भौंहें तथा हाथ सदा चलते रहेंगे, वे अत्यन्त पापी होंगे, बार-बार अहङ्कारसे मुसकराते रहेंगे, खोटे वचन बोलनेमे तत्पर होंगे, निर्दय होंगे, धनसञ्चय करनेमे ही निरन्तर लगे रहेंगे, और पृथ्वी पर ऐसे विचरेगे जैसे कि रात्रिमें जुगुनू अथवा पटवीजना विचरते हैं अर्थात् अल्प प्रभावके धारक होंगे ॥९६-९७॥ वे स्वयं मूर्ख होंगे और गोदण्ड पथके समान जो नाना कुधर्म हैं उनमे स्वयं पड़कर दूसरे लोगोंको भी ले जायेगे । दुर्जन प्रकृतिके होंगे, दूसरेके तथा अपने अपकारमे

१. ख० पुस्तके ९१तमः श्लोकः षड्भिः पादैरत्र समाप्यते । ज० पुस्तके मूलतः म० पुस्तकवत् पाठोऽस्ति किन्तु पश्चात्केनापि टिप्पणकर्त्रा उज्जितश्लोकचिह्न दत्त्वा ८५तमः-श्लोकः मूलान् योजितः ।

कुशास्त्रमुक्तहुंकारं, कर्ममूलेच्छेर्मदोद्धतैः । अनर्थजनितो माहर्षोऽह्यतमयावृत्ते ॥१००॥
 छेद्यन्ते सनतोद्युक्तैर्मन्दैकालालुभावत । हिंसागाम्ब्रुटारेण भय्यतरं जनाद्भ्रिषा ॥१०१॥
 आडावरल्लयः मस जनाना दु पमे मृतताः । प्रमाण क्रमतो हानिन्तनन्तेषा भविष्यति ॥१०२॥
 द्विहस्तमस्मिता मर्यां विगयच्छाद्युपस्तनः । भविष्यन्ति परे दस्तमात्रोत्प्रेथा सुदु पमे ॥१०३॥
 आयु पोडगवर्षाणि तेषा गदितमुत्तमम् । वृत्त्या मर्गसृपाणा ते जीवियन्त्यन्तदु गिता ॥१०४॥
 ते विरूपममस्ताद्वा नित्य पापक्रियारताः । तिर्य्यब् इव मोहानां भविष्यन्ति रजार्दिना ॥१०५॥
 न व्यवस्था न सम्यन्था नेश्वरा न च मेवका । न धन न गृह नैव सुखमेकान्तदु पमे ॥१०६॥
 कामार्थधर्मं मभारहेतुभिः परिचेष्टिनैः । शून्याः प्रजा भविष्यन्ति पापपिण्डचिता इव ॥१०७॥
 कृष्णपक्षे चयं याति यथा शुक्ले च वर्धने । इन्दुस्तथैतयोरायुगतीनां हानिवर्धने ॥१०८॥
 उत्पवादिप्रवृत्ताना रात्रिवात्मयोर्यथा । हानिवृद्धौ च विज्ञेये कालयोस्तद्वदंतयो ॥१०९॥
 येनावमर्षिणीकाले क्रमेणोदाहतः चय । उत्पर्षिण्यामनेनैव परिवृद्धिं प्रकीर्तिना ॥११०॥
 जिनानामन्तर प्रोक्तमुल्लेध शृण्वतः परम् । क्रमन कीर्तयिष्यामि राजन्नवहितो भव ॥१११॥
 जनानि पञ्च चापानां प्रथमस्य मतामनः । उत्तयो जिननायस्य वपुष परिकीर्तित ॥११२॥

रात-दिन लगे रहेंगे। उस समयके लोग होंगे तो दुर्गतिमें जानेवाले पर अपने आपको ऐमा समझेंगे जैसे सिद्ध हुए जा रहे हों अर्थात् मोक्ष प्राप्त करनेवाले हों ॥६८-६९॥ जो मिथ्या शास्त्रोंका अध्ययन कर अहंकारवश हुंकार छोड़ रहे हैं, जो कार्य करनेमें म्लेच्छोंके समान हैं, सदा मदसे उद्वन रहते हैं, निरर्थक कार्योंमें जिनका उत्साह उत्पन्न होता है, जो मोह रूपी अन्धकारसे मदा आवृत रहते हैं और सदा दाव-पेच लगानेमें ही तत्पर रहते हैं, ऐसे ब्राह्मणादिकके द्वारा उस समयके अभव्य जीवरूपी वृत्त, हिंसाशास्त्र रूपी कुठारसे सदा छेद जावेगे। यह सब हीन कालका प्रभाव ही समझना चाहिए ॥१००-१०१॥ दुःपम नाम पञ्चम कालके आदिमें मनुष्योंकी ऊँचाई सात हाथ प्रमाण होगी फिर क्रमसे हानि होती जावेगी। इस प्रकार क्रमसे हानि होते होते अन्तमें दो हाथ ऊँचे रह जावेंगे। वीम वर्षकी उनकी आयु रह जावेगी। उनके बाद जब छठों काल आवेगा तब एक हाथ ऊँचा शरीर और सोलह वर्षकी आयु रह जावेगी। उस समयके मनुष्य सर्गसृष्टीके समान एक दूसरेको मारकर बड़े कष्टसे जीवन वितावेंगे ॥१०२-१०४॥ उनके समस्त अङ्ग विरूप होंगे, वे निरन्तर पाप-क्रियामें लीन रहेंगे, निर्य्यञ्चोंके समान मोहसे दुःखी तथा रोगसे पीड़ित होंगे ॥१०५॥ छठे कालमें न कोई व्यवस्था रहेगी, न कोई सम्बन्ध रहेंगे, न राजा रहेंगे, न सेवक रहेंगे। लोगोंके पाम न धन रहेगा, न घर रहेगा, और न सुख ही रहेगा ॥१०६॥ उस समयकी प्रजा धर्म अर्थ काम सम्बन्धी चेट्राओंसे सदा शून्य रहेगी और ऐसी दिवेंगी मानों पापके समूहसे व्याप्त ही हो ॥१०७॥ जिस प्रकार कृष्ण पक्षमें चन्द्रमा हासको प्राप्त होता है और शुक्ल पक्षमें वृद्धिको प्राप्त होता है उसी प्रकार अवमर्षिणी कालमें लोगोंकी आयु आदिमें ह्याम होने लगता है तथा उत्पर्षिणीकालमें वृद्धि होने लगती है ॥१०८॥ अथवा जिस प्रकार रात्रिमें उत्सवादि अच्छे-अच्छे कार्योंकी प्रवृत्तिका ह्याम होने लगता है और दिनमें वृद्धि होने लगती है उसी प्रकार अवमर्षिणी और उत्पर्षिणीकालका हाल जानना चाहिए ॥१०९॥ अवमर्षिणी कालमें जिस क्रमसे चयका उल्लेख किया है उत्पर्षिणीकालमें उसी क्रमसे वृद्धिका उल्लेख जानना चाहिए ॥११०॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! मैंने चौबीस तीर्थकरोंका अन्तर तो कहा। अब क्रमसे उनकी ऊँचाई कहेंगा सो सावधान होकर सुन ॥१११॥

पहले ऋषभदेव भगवान्के शरीरकी ऊँचाई पाँच माँ धनुष कही गई है ॥११२॥

पञ्चाशच्चापहान्यातः प्रत्येकं परिकीर्तितम् । शीतलात् प्राग्जिनेन्द्राणां नवतिः शीतलस्य च ॥११३॥
 ततो धर्मजिनात् पूर्वं दशचापपरिचयः । प्रत्येक धर्मनाथस्य चत्वारिंशत्सपञ्चिकाः ॥११४॥
 ततः पार्श्वजिनात् पूर्वं प्रत्येकं पञ्चभिः चयः । नवारलिमितः पार्श्वो महावीरो द्विवर्जितः ॥११५॥
 पत्न्योपमस्य दशमो भाग आद्यस्य कीर्तितम् । मित्या कुलकरस्यायुर्लोकालोकवलोकिभिः ॥११६॥
 दशमो दशमो भागः पौरस्त्यस्य ततः स्मृतः । प्रमाणमायुषो राजन् शेषाणां कुलकारिणाम् ॥११७॥
 चतुर्भिरधिकाशीतिः पूर्वलक्षाः प्रकीर्तिताः । प्रथमस्य जिनेन्द्रस्य द्वितीयस्य द्विसप्ततिः ॥११८॥
 षष्टिश्च पञ्चसु ज्ञेयः क्रमेण दशभिः चयः । विज्ञेये पूर्वलक्षे द्वे तथैक परिकीर्तितम् ॥११९॥
 चतुर्भिरधिकाशीतिरब्दो लक्षा द्विसप्ततिः । षष्टिंशदशैका च समा लक्षाः प्रकीर्तिताः ॥१२०॥
 नवतिः पञ्चभिः सार्धमशीतिश्चतुरस्रः । पञ्चाशत्पञ्चभिर्युक्तास्त्रिंशदश च कीर्तितः ॥१२१॥

उसके बाद शीतलनाथके पहले-पहले तक अर्थात् पुष्पदन्त भगवान् तक प्रत्येककी पचास-पचास धनुष कम होती गई है । शीतलनाथ भगवान्की ऊँचाई नव्वे धनुष है । उसके आगे धर्मनाथके पहले-पहले तक प्रत्येककी दश-दश धनुष कम होती गई है । धर्मनाथकी पैंतालीस धनुष प्रमाण है । उनके आगे पार्श्वनाथके पहले-पहले तक प्रत्येककी पाँच-पाँच धनुष कम होती गई है । पार्श्वनाथकी नौ हाथ और वर्धमान स्वामीके उनसे दो हाथ कम अर्थात् सात हाथकी ऊँचाई है । भावार्थ—१ ऋषभनाथकी ५०० धनुष, २ अजितनाथकी ४५० धनुष, ३ सम्भवनाथकी ४०० धनुष, ४ अभिनन्दननाथकी ३५० धनुष, ५ सुमतिनाथकी ३०० धनुष, ६ पद्मप्रभकी २५० धनुष, ७ सुपार्श्वनाथकी २०० धनुष, ८ चन्द्रप्रभकी १५० धनुष, ९ पुष्पदन्तकी १०० धनुष, १० शीतलनाथकी ६० धनुष, ११ श्रेयान्सनाथकी ८० धनुष, १२ वासुपूज्यकी ७० धनुष, १३ विमलनाथकी ६० धनुष, १४ अनन्तनाथकी ५० धनुष, १५ धर्मनाथकी ४५ धनुष, १६ शान्तिनाथकी ४० धनुष, १७ कुन्थुनाथकी ३५ धनुष, १८ अरनाथकी ३० धनुष, १९ मल्लिनाथकी २५ धनुष, २० मुनिसुव्रतनाथकी २० धनुष, २१ नमिनाथकी १५ धनुष, २२ नेमिनाथकी १० धनुष, २३ पार्श्वनाथकी ९ हाथ और २४ वर्धमान स्वामीकी ७ हाथकी ऊँचाई है ॥११३-११५॥

अब कुलकर तथा तीर्थङ्करोंकी आयुका वर्णन करता हूँ—हे राजन् ! लोक तथा अलोकके देखनेवाले सर्वज्ञ देवने प्रथम कुलकरकी आयु पल्पके दशवे भाग बतलाई है । उसके आगे प्रत्येक कुलकरकी आयु दशवे-दशवे भाग बतलाई गई हैं अर्थात् प्रथम कुलकरकी आयुमें दशका भाग देनेपर जो लब्ध आवे वह द्वितीय कुलकरकी आयु है और उसमें दशका भाग देनेपर जो लब्ध आवे वह तृतीय कुलकरकी आयु है । इस तरह चौदह कुलकरोंकी आयु जानना चाहिए ॥११६-११७॥ प्रथम तीर्थङ्कर श्री ऋषभदेव भगवान्की चौरासी लाख पूर्व, द्वितीय तीर्थङ्कर श्री अजितनाथ भगवान्की बहत्तर लाख पूर्व, तृतीय तीर्थङ्कर श्री संभवनाथकी साठ लाख पूर्व, उनके बाद पाँच तीर्थङ्करोंमें प्रत्येककी दश-दश लाख पूर्व, कम अर्थात् चतुर्थ अभिनन्दननाथकी पचास लाख पूर्व, पञ्चम सुमतिनाथकी चालीस लाख पूर्व, षष्ठ पद्मप्रभकी तीस लाख पूर्व, अष्टम चन्द्रप्रभकी दश लाख पूर्व, नवम पुष्पदन्तकी दो लाख पूर्व, दशम शीतलनाथकी एक लाख पूर्व, ग्यारहवें श्रेयान्सनाथकी चौरासी लाख वर्ष, बारहवें वासुपूज्यकी बहत्तर लाख वर्ष, तेरहवें विमलनाथकी साठ लाख वर्ष, चौदहवें अनन्तनाथकी तीस लाख वर्ष, पन्द्रहवें धर्मनाथकी दश लाख वर्ष, सोलहवें शान्तिनाथकी एक लाख वर्ष, सत्रहवें कुन्थुनाथकी पञ्चानवे हजार वर्ष, अठारहवें

१. सपञ्चिका क०, ज० । २. अत्र ख० पुस्तके एव पाठः-

चतुर्भिरधिकाशीतिः पूर्वलक्षाद्विसप्ततिः । षष्टिर्लक्षाणि पूर्वाणि पञ्चाशत्सप्तक तथा ॥११८॥

चत्वारिंशत्सु लक्षाणि त्रिंशत्सप्तकानि चैव हि । तथा विंशतिलक्षाणि दश द्वे चैकमेवहि ॥११९॥

३. शीतिरब्दाः लक्षा म० । ४. समा लक्षाः ख० ।

एक चावटं सहस्राणां सख्येय परिकीर्तिता । वर्षाणा च शत द्वाभ्यामधिका सप्ततिस्तथा ॥१२२॥
 क्रमेणेति जिनेन्द्राणामायुः श्रेणिक कीर्तितम् । शृणु सम्प्रति यो यत्र जातश्चक्रधरोऽन्तरे^१ ॥१२३॥
 ऋपभेण यशोवत्या जातो भरतकीर्तित । यस्य नाम्ना गत ख्यातिमेतद्वास्य जगत्त्रये ॥१२४॥
 अभूद् य पुण्डरीकिण्या पीठः पूर्वत्र जन्मनि । सर्वार्थसिद्धिमैकृत्वा कुशसेनस्य शिष्यताम् ॥१२५॥
 लोचनान्तरमुत्पाद्य महामवेगयोगत^२ । सर्वावभासन ज्ञान निर्वाण स समीथिवान् ॥१२६॥
 बभूव नगरे राजा पृथिवीपुरनामनि । विजयो नाम शिष्योऽभूद् यशोधरगुरोरसौ ॥१२७॥
 स मृतो विजय गत्वा भुक्त्वा भोगमनुत्तमम् । चिनीतायामिह च्युत्वा विजयस्याप्य पुत्रताम् ॥१२८॥
 सौमङ्गलो बभूवासौ चक्रा सगरसञ्चित । भुक्त्वा भोग महासार सुरपूजितशासन. ॥१२९॥
 प्रतुद् पुत्रशोकैः प्रव्रज्य जिनशासने । उत्पाद्य केवल नाथः सिद्धानामालय गत. ॥१३०॥
 शशिभः पुण्डरीकिण्या शिष्योऽभूद् विमले गुरौ । गत्वा ग्रैवेयक भुक्त्वा ससारसुखमुत्तमम् ॥१३१॥
 च्युत्वा सुमित्रराजस्य भद्रवत्यामभूत् सुत । श्रावस्त्या मघवा नाम चक्रलक्ष्मीलतातरु ॥१३२॥
 श्रामण्यव्रतमास्थाय धर्मशान्तिजिनान्तरे । समाधानानुरूपेण गतः सौधर्मवासिताम् ॥१३३॥
 सनत्कुमारचक्रेशे स्तुते मगधपुङ्गव । ब्रवीति केन पुण्येन जातोऽमाविति रूपवान् ॥१३४॥

अरनाथकी चौरासी हजार वर्ष, उन्नीसवे मल्लिनाथकी पचपन हजार वर्ष, बीसवे मुनिसुव्रतनाथकी तीस हजार वर्ष, इक्कीसवे नमिनाथकी दश हजार वर्ष, बाईसवें नेमिनाथकी एक हजार वर्ष, तेईसवे पार्वनाथकी सौ वर्ष और चौबीसवे महावीरकी बहत्तर वर्षकी आयु थी ॥११८-१२२॥ हे श्रेणिक ! मैंने इस प्रकार क्रमसे तीर्थङ्करोंकी आयुका वर्णन किया । अब जिस अन्तरालमें चक्रवर्ती हुए हैं उनका वर्णन मुन ॥१२३॥

भगवान् ऋपभदेवकी यशस्वती रानीसे भरत नामा प्रथम चक्रवर्ती हुआ । इस चक्रवर्तीके नामसे ही यह क्षेत्र तीनों जगत्में भरत नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥१२४॥ यह भरत पूर्व जन्ममें पुण्डरीकिणी नगरीमें पीठ नामका राजकुमार था । तदनन्तर कुशसेन मुनिका शिष्य होकर सर्वार्थसिद्धि गया । वहाँसे आकर भरत चक्रवर्ती हुआ । इसके परिणाम निरन्तर वैराग्यमय रहते थे जिससे केशलोचके अनन्तर ही लोकालोकावभासी केवलज्ञान उत्पन्न कर निर्वाण धामका प्राप्त हुआ ॥१२५-१२६॥ फिर पृथ्वीपुर नगरमें राजा विजय था जो यशोधर गुरुका शिष्य होकर मुनि हो गया । अन्तमें सल्लेखनासे मरकर विजय नामका अनुत्तम विमानमें गया वहाँ उत्तम भोग भोगकर अयोध्या नगरीमें राजा विजय और रानी सुमङ्गलाके सगर नामका द्वितीय चक्रवर्ती हुआ । वह इतना प्रभावशाली था कि देव भी उसकी आज्ञाका सम्मान करते थे । उसने उत्तमोत्तम भोग भोगकर अन्तमें पुत्रोंके शोकसे प्रवृत्ति हो जिन दीक्षा धारण कर ली और केवलज्ञान उत्पन्न कर सिद्धालय प्राप्त किया ॥१२७-१३०॥ तदनन्तर पुण्डरीकिणी नगरीमें शशिप्रभ नामका राजा था । वह विमल गुरुका शिष्य होकर ग्रैवेयक गया वहाँ संसारका उत्तम सुख भोगकर वहाँसे न्युत हो श्रावस्ती नगरीमें राजा सुमित्र और रानी भद्रवतीके मघवा नामका तृतीय चक्रवर्ती हुआ । यह चक्रवर्तीकी लक्ष्मीरूपी लताके लिपटनेके लिए मानो वृत्त ही था । यह धर्मनाथ और शान्तिनाथ तीर्थङ्करके बीचमें हुआ था तथा मुनिव्रत धारण कर समाधिके अनुरूप सौधर्म स्वर्गमें उत्पन्न हुआ था ॥१३१-१३३॥

इसके बाद गौतमस्वामी चतुर्थ चक्रवर्ती सनत्कुमारकी बहुत प्रशंसा करने लगे तब राजा श्रेणिकने पूछा कि हे भगवन् ! वह किस पुण्यके कारण इस तरह अत्यन्त रूपवान् हुआ था

१. चक्रधरान्तरे म० । २. यशस्वत्यामिति भवितव्यम् । ३. कुशसेनस्य म० । ४. लुब्धानन्तर ज०, लोचनान्तर म० । ५. गत म० ।

तस्मै समासतोऽत्रोचत् पुराणार्थं महामुनिः । यन्न वर्षशतेनापि सर्वं कथयितुं क्षमम् ॥१३५॥
 तिर्यग्नरकटु खानि कुमानुपभवांस्तथा । जीव. प्रपद्यते तावद्यावन्नायाति जैनताम् ॥१३६॥
 अस्ति गोवर्धनाभिख्यो ग्रामो जनसमाकुलः । जिनदत्ताभिधानोऽत्र बभूव गृहिणां वरः ॥१३७॥
 यथा सर्वांश्चुधानानां सागरो मूर्द्धनि स्थितः । भूधराणां च सर्वेषां मन्दरश्चारुकन्दरः ॥१३८॥
 ग्रहाणा हरिदश्वश्च^१ तृणानामिक्षुरर्चितः । ताम्बूलाख्या च वल्लीनां तरुणां हरिचन्दनः^२ ॥१३९॥
 कुलानामिति सर्वेषां श्रावकाणां कुलं स्तुतम् । आचारेण हि तत्पूत सुगत्यर्जनतत्परम् ॥१४०॥
 स गृही तत्र जातः सन् कृत्वा श्रावकचेष्टितम् । गुणभूषणसम्पन्नः प्रशस्तामाश्रितो गतिम् ॥१४१॥
 भार्या विनयवत्यस्य तद्वियोगेन दुःखिता । शीलशेखरसद्गन्धा गृहिधर्मपरायणा ॥१४२॥
 स्वनिवेशे जिनेन्द्राणां कारयित्वा वरालयम् । प्रव्रज्य सुतपः कृत्वा जगाम गतिमर्चिताम् ॥१४३॥
 तत्रैवान्योऽभवद् ग्रामे हेमवाहुर्महागृही । आस्तिकः परमोत्साहो दुराचारपराङ्मुखः ॥१४४॥
 तथा विनयवत्यासौ कारित जैनमालयम् । अनुमोद्य महापूजां यच्चोऽभूदायुपः क्षये ॥१४५॥
 चतुर्विधस्य संघस्य निरतः पर्युपासने । सम्यग्दर्शनसम्पन्नो जिनवन्दनतत्परः ॥१४६॥
 ततः सुमानुषो देव इति त्रि. परिवर्तनम् । कुर्वन्नसौ महापुर्यामासीद्धर्मरुचिर्नृपः ॥१४७॥
 अस्य सानत्कुमारस्य पितासीत् सुप्रभाह्वयः । वरस्त्रीगुणमञ्जूपा माता तिलकसुन्दरी ॥१४८॥
 कृत्वा सुप्रभशिष्यत्व महाव्रतधरस्ततः । महासमितिसम्पन्नश्चारुगुप्तिसमावृतः ॥१४९॥

॥१३४॥ इसके उत्तरमें गणधर भगवान्ने संक्षेपसे ही पुराणका सार वर्णन किया क्योंकि उसका पूरा वर्णन तो सौ वर्षमें भी नहीं कहा जा सकता था ॥१३५॥ उन्होंने कहा कि जबतक यह जीव जैनधर्मको प्राप्त नहीं होता है तबतक तिर्यञ्च नरक तथा कुमानुप सम्बन्धी दुःख भोगता रहता है ॥१३६॥ पूर्वभवका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्योसे भरा एक गोवर्धन नामका ग्राम था उसमें जिनदत्त नामका उत्तम गृहस्थ रहता था ॥१३७॥ जिस प्रकार समस्त जलाशयोमें सागर, समस्त पर्वतोमें सुन्दर गुफाओसे युक्त सुमेरु पर्वत, समस्त ग्रहोमें सूर्य, समस्त तृणोमें इक्षु, समस्त लताओमें नागवल्ली और समस्त वृक्षोमें हरिचन्दन वृक्ष प्रधान है, उसी प्रकार समस्त कुलोमें श्रावकोका कुल सर्वप्रधान है क्योंकि वह आचारकी अपेक्षा पवित्र है तथा उत्तम गति प्राप्त करानेमें तत्पर है ॥१३८-१४०॥ वह गृहस्थ श्रावक कुलमें उत्पन्न हो तथा श्रावकाचारका पालन कर गुणरूपी आभूषणोंसे युक्त होता हुआ उत्तम गतिको प्राप्त हुआ ॥१४१॥ उसकी विनयवती नामकी पतिव्रता तथा गृहस्थका धर्म पालन करनेमें तत्पर रहनेवाली स्त्री थी सो पतिके वियोगसे बहुत दुःखी हुई ॥१४१-१४२॥ उसने अपने घरमें जिनेन्द्र भगवान्का उत्तम मन्दिर बनवाया तथा अन्तमें आर्थिकाकी दीक्षा ले उत्तम तपश्चरण कर देवगति प्राप्त की ॥१४३॥ उसी नगरमें हेमवाहु नामका एक महागृहस्थ रहता था जो आस्तिक, परमोत्साही और दुराचारसे विमुख था ॥१४४॥ विनयवतीने जो जिनालय बनवाया था तथा उसमें जो भगवान्की महापूजा होती थी उसकी अनुमोदना कर वह आयुके अन्तमें यज्ञ जातिका देव हुआ ॥१४५॥ वह यज्ञ चतुर्विध संघकी सेवामें सदा तत्पर रहता था । सम्यग्दर्शनसे सहित था और जिनेन्द्रदेवकी वन्दना करनेमें सदा तत्पर रहता था ॥१४६॥ वहाँ से आकर वह उत्तम मनुष्य हुआ, फिर देव हुआ । इस प्रकार तीन बार मनुष्य देवगतिमें आवागमन कर महापुरी नगरीमें धर्मरुचि नामका राजा हुआ । यह धर्मरुचि सनत्कुमार स्वर्गसे आकर उत्पन्न हुआ था । इसके पिताका नाम सुप्रभ और माताका नाम तिलकसुन्दरी था । तिलकसुन्दरी उत्तम स्त्रियोंके गुणोंकी मानो मञ्जूपा ही थी ॥१४७-१४८॥ राजा धर्मरुचि सुप्रभ मुनिका शिष्य होकर पाँच महाव्रतों, पाँच सर्मितियों

१. सूर्यः । २. हरिचन्दनम् म० । ३. यक्षीभूदा म० । ४. यस्य म०, ज० । ५. पिता चासीत्प्रभाह्वयः ख० ।

आत्मनिन्दापरो धीर स्वदेहेऽत्यन्तनिःस्पृहः । दयादमपरो धीमान् शीलवैवधिक पर ॥१५०॥
 शङ्कादिदृष्टिदोषाणामतिदूरव्यवस्थित । साधूना सतत सक्तो वैयावृत्त्ये यथोचिते ॥१५१॥
 मयुक्त कालधर्मेण माहेन्द्र कल्पमाश्रितः । अवाप परमान् भोगान् देवीनिवहमध्यग ॥१५२॥
 स्युतो नागपुरे जात मोहदेवः स वैजयि । सनत्कुमारशब्देन ख्यातश्चक्राङ्गशासन ॥१५३॥
 सकथानुक्रमाद् यम्य सौधर्मेण कीर्तितम् । रूप द्रष्टु समाजगमु सुरा विस्मयकारणम् ॥१५४॥
 कृतभ्रम म तैर्दृष्टो भूरजोधूमरद्युति । गन्धामलकपटकेन दिग्धमौलिर्महातनुः ॥१५५॥
 स्नानैःकशाटक श्रीमान् स्थित स्नानोचितासने । नानावर्णपय पूर्णकुम्भमण्डलमध्यग ॥१५६॥
 उक्तः स तैरतो रूप साधु शक्रेण वर्तितम् । मानुपस्य सतो देवचित्ताकर्षणकारणम् ॥१५७॥
 तेनोक्तास्ते कृतस्नान भुक्तवन्त सम्भूषणम् । सुरा द्रक्ष्यथ मा स्तोका वेलामत्रैव तिष्ठत ॥१५८॥
 एवमित्युदिते कृत्या य ममस्त यथोचितम् । स्थितः सिंहासने रत्नशैलकूटसमद्युति ॥१५९॥
 दृष्ट्वा तस्य पुनारूप निनिन्दुर्गोकवासिनः । असारा धिगिमा शोभा मर्त्याना क्षणिकामिति ॥१६०॥
 प्रथमे दर्शने याऽस्य यौवनेन समन्विता । सेय क्षणात् कथं हास प्राप्ता सौदामिनीत्वरी ॥१६१॥
 विज्ञाय क्षणिका लक्ष्मी सुरेभ्यो रागवजित । भ्रमणत्व परिग्राप्य महाघोरतपोऽन्वित ॥१६२॥

और तीन गुप्तियाँका धारक हो गया ॥१४६॥ वह सदा आत्मनिन्दामें तत्पर रहता था, आगत उपसर्गादिके सहनेमें धीर था, अपने शरीरसे अत्यन्त निःस्पृह रहता था, दया और दमको धारण करनेवाला था, बुद्धिमान् था, शीलरूपी कोंवरका धारक था, शङ्का आदि सम्यग्दर्शनके आठ दोषोंसे बहुत दूर रहता था, और साधुओंकी यथायोग्य वैयावृत्त्यमें सदा लगा रहता था ॥१५०-१५१॥ अन्तमें आयु समाप्त कर वह माहेन्द्र स्वर्गमें उत्पन्न हुआ और वहाँ देवियोंके समूहके मध्यमें स्थित हो परम भोगोंको प्राप्त हुआ ॥१५२॥ तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर हस्तिनागपुरमें राजा विजय और गनी सहदेवीके सनत्कुमार नामका चतुर्थ चक्रवर्ती हुआ ॥१५३॥

एक बार सौधर्मेन्द्रने अपनी सभामें कथाके अनुक्रमसे सनत्कुमार चक्रवर्तीके रूपकी प्रशंसा की । सो आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले उसके रूपको देखनेके लिए कुछ देव आये ॥१५४॥ जिस समय इन देवाने छिपकर उसे देखा उस समय वह व्यायाम कर निवृत्त हुआ था, उसके शरीर की कान्ति असाडेकी धूलिसे धूसरित हो रही थी, शिरमें सुगन्धित आँवलेका पङ्क लगा हुआ था, शरीर अत्यन्त ऊँचा था, स्नानके समय धारण करने योग्य एक वस्त्र पहने था, स्नानके योग्य आमन पर बैठता था, और नाना वर्णके सुगन्धित जलसे भरे हुए कलशोंके बीचमें स्थित था ॥१५५-१५६॥ उसे देखकर देवाने कहा कि अहो ! इन्द्रने जो इसके रूपकी प्रशंसा की है सो ठीक ही की है । मनुष्य होने पर भी इसका रूप देवोंके चित्तको आकर्षित करनेका कारण बना हुआ है ॥१५७॥ जब सनत्कुमारको पता चला कि देव लोग हमारा रूप देखना चाहते हैं तब उसने उनसे कहा कि आप लोग थोड़ा देर यहीं ठहरिए । मुझे स्नान और भोजन करनेके बाद आभूषण धारण कर लेने दीजिए फिर आपलोग मुझे देखें ॥१५८॥ 'ऐसा ही हो' इस प्रकार कहने पर चक्रवर्ती सनत्कुमार सब कार्य यथायोग्य कर सिंहासन पर आ बैठा । उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो गन्धमय पर्वतका शिखर ही हो ॥१५९॥

तदनन्तर पुनः उसका रूप देखकर देव लोग आपसमें निन्दा करने लगे कि मनुष्योंकी शोभा असार तथा क्षणिक है, अतः इसे धिक्कार है ॥१६०॥ प्रथम दर्शनके समय जो इसकी शोभा यौवनसे सम्पन्न देखी थी वह विजलीके समान नश्वर होकर क्षण भरमें ही हासको कैसे प्राप्त हो गई ? ॥१६१॥ लक्ष्मी क्षणिक है ऐसा देवोंसे जानकर चक्रवर्ती सनत्कुमारका राग बूट

अधिसह्य महारोगान् महालब्धियुतोऽपि सन् । सनत्कुमारमारूढः स्वध्यानस्थितियोगतः ॥१६३॥
 बभूव पुण्डरीकिण्यां नाम्ना मेघरथो नृपः । सर्वार्थसिद्धिमेतोऽसौ शिष्यो घनरथस्य सन् ॥१६४॥
 च्युत्वा नागपुरे विश्वसेनस्यैराशरीरजः । तनयः प्रथितो जातः शान्तिः शान्तिकरो नृणाम् ॥१६५॥
 जातमात्रोऽभिपेकं यः सुरेभ्यः प्राप्य मन्दिरे । अभूच्चक्राङ्गभोगस्य नाथोऽसाविन्द्रसंस्तुतः ॥१६६॥
 विहाय नृणवद्राज्यं प्रात्राज्यं समश्रियत् । चक्रिणां पञ्चमो भूत्वा जिनानां षोडशोऽभवत् ॥१६७॥
 कुन्धवरौ परतस्तस्य सजातौ चक्रवर्तिनौ । जिनेन्द्रत्वं च सप्राप्तौ पूर्वसंचितकारणौ ॥१६८॥
 सनत्कुमारराजोऽभूद्धर्मशान्तिजिनान्तरे । निजमेवान्तरं ज्ञेयं त्रयाणां जिनचक्रिणाम् ॥१६९॥
 कनकाभ इति ख्यातो नाम्ना धान्यपुरे नृपः । विचित्रगुप्तशिष्यः सन् स जयन्तं समाश्रयत् ॥१७०॥
 ईशावत्यां नरेन्द्रस्य कार्तवीर्यस्य भामिनी । तारति तनयस्तस्यामभून्नाकादुपागतः ॥१७१॥
 सुभूम इति चाख्यातश्चक्राङ्गायाः श्रियः पतिः । येनेयं शोभना भूमिः कृता परमचेष्टिना ॥१७२॥
 पितुर्यो वधकं युद्धे जामदग्न्यममीमरत् । भुञ्जान् पायसं पात्र्या चक्रवपरिवृत्तया ॥१७३॥
 जामदग्न्याहतक्षत्रदन्ता एवास्य पायसम् । सत्रे किलाशनतो जाता नैमित्तोक्त समन्ततः ॥१७४॥

गया । फलस्वरूप वह मुनि-दीक्षा लेकर अत्यन्त कठिन तप करने लगा ॥१६२॥ यद्यपि उसके शरीरमें अनेक रोग उत्पन्न हो गये थे तो भी वह उन्हें बड़ी शान्तिसे सहन करता रहा । तपके प्रभावसे अनेक ऋद्धियों भी उसे प्राप्त हुई थीं । अन्तमें आत्मध्यानके प्रभावसे वह सनत्कुमार स्वर्गमें देव हुआ ॥१६३॥

अब पञ्चम चक्रवर्तीका वर्णन करते हैं—

पुण्डरीकिणी नगरमें राजा मेघरथ रहते थे । वे अपने पिता घनरथ तीर्थंकरके शिष्य होकर सर्वार्थसिद्धि गये । वहाँसे च्युत होकर हस्तिनागपुरमें राजा विश्वसेन और रानी ऐरादेवीके मनुष्योको शान्ति उत्पन्न करनेवाले शान्तिनाथ नामक प्रसिद्ध पुत्र हुए ॥१६४-१६५॥ उत्पन्न होते ही देवोंने सुमेरु पर्वतपर इनका अभिषेक किया था । इन्द्रने स्तुति की थी और इस तरह वे चक्रवर्तीके भोगोके स्वामी हुए ॥१६६॥ ये पञ्चम चक्रवर्ती तथा सोलहवे तीर्थंकर थे । अन्तमें नृणके समान राज्य छोड़कर इन्होंने दीक्षा धारण की थी ॥१६७॥ इनके बाद क्रमसे कुन्धुनाथ और अरनाथ नामके छठवे तथा सातवे चक्रवर्ती हुए । ये पूर्वभवमें सोलह कारण भावनाओका संचय करनेके कारण तीर्थंकर पदको भी प्राप्त हुए थे ॥१६८॥ सनत्कुमार नामका चौथा चक्रवर्ती धर्मनाथ और शान्तिनाथ तीर्थंकरके बीचमें हुआ था और शान्ति, कुन्धु तथा अर इन तीन तीर्थंकर तथा चक्रवर्तियोंका अन्तर अपना-अपना ही काल जानना चाहिए ॥१६९॥

अब आठवे चक्रवर्तीका वर्णन करते हैं—

धान्यपुर नगरमें राजा कनकाभ रहता था वह विचित्रगुप्त मुनिका शिष्य होकर जयन्त नामक अनुत्तर विमानमें उत्पन्न हुआ ॥१७०॥ वहाँसे आकर वह ईशावती नगरीमें राजा कार्तवीर्य और रानी ताराके सुभूम नामका आठवाँ चक्रवर्ती हुआ । यह उत्तम चेष्टाओंको धारण करनेवाला था तथा इसने भूमिको उत्तम किया था इसलिए इसका सुभूम नाम सार्थक था ॥१७१-१७२॥ परशुरामने युद्धमें इसके पिताको मारा था सो इसने उसे मारा । परशुरामने क्षत्रियोंको मारकर उनके दन्त इकट्ठे किये थे । किसी निमित्तज्ञानीने उसे बताया था कि जिसके देखनेसे ये दन्त खीर रूपमें परिवर्तित हो जायेंगे उसीके द्वारा तेरी मृत्यु होगी । सुभूम एक यज्ञमें परशुराम के यहाँ गया था । जब वह भोजन करनेको उद्यत हुआ तब परशुरामने वे सब दन्त एक पात्रमें रखकर उसे दिखाये । उसके पुण्य प्रभावसे वे दन्त खीर बन गये और पात्र चक्रके रूपमें बदल

ससवारान् कृताक्षत्रारिपूर्णां किल भूरिति । चक्रे त्रिसवारान् य क्षितिं निष्कण्ठसूत्रिकाम् ॥१७५॥
 अत्युग्रगामनात्तन्मातृ विप्रा प्राप्य महाभयम् । कुलेषु रजकादीनां क्षत्रिया इव लिखियरे ॥१७६॥
 अरमज्ज्यन्तरे चक्री भोगाद्विरतात्मक । कालधर्मेण न्युक्त मसमी क्षितिमाश्रितः ॥१७७॥
 नगर्यां वीतशोकाया चिन्ताद्वा पार्थिवोऽभवत् । भूत्वा सुप्रभगिष्योऽसौ ब्रह्माह्व कल्पमाश्रितः ॥१७८॥
 च्युतो नागपुरे पद्मरथस्य धरणीपते । मयूयां तनयो जातो महापद्मः प्रकीर्तितः ॥१७९॥
 अष्टौ दृष्टितरन्तस्य रूपानि गयगर्विता । नेच्छन्ति भुवि भर्तारं हता विद्याधरैरिमा ॥१८०॥
 उपलभ्य समनीता निर्वेदिन्यः प्रवदन्तु । समाश्रितकल्याणा देवलोक समाश्रिता ॥१८१॥
 तेऽप्यष्टौ तद्वियोगेन प्रवज्यां व्योमचारिण । चक्रुर्विचित्रम्यमारदर्शनत्रासमागताः ॥१८२॥
 हेतुना तेन चक्रेण प्रतिबुद्धो महागुण । सुते न्यस्य श्रिय पद्मे निष्क्रान्तो विष्णुना समम् ॥१८३॥
 महापद्मस्तप कृत्वा पर मप्राप्तयेत्तल । लोकाग्रभारमारुह्यदरमल्लिजिनान्तरे ॥१८४॥
 महेन्द्रदत्तनामार्मात् पुरे विजयनामनि । कृत्वा नन्दनगिष्यत्व माहेन्द्र कल्पमुद्ययौ ॥१८५॥
 काम्पिल्यनगरे च्युत्वा त्रयाया हरिनेतुत् । हरिपेण इति ख्यातो जज्ञे चक्राङ्कितेण ॥१८६॥
 स कृत्वा धरणी मत्रां निजां चैत्यत्रिभूषणाम् । तीर्थं सुव्रतनाथस्य सिद्धानां पदमाश्रितः ॥१८७॥

गया । सुभूमने उसी चक्रके द्वारा परशुरामको मारा था । परशुरामने पृथ्वीको सात बार क्षत्रियोसे रहित किया था इसलिए उसके बदले इमने ढधीस बार पृथ्वीको ब्राह्मणरहित किया था ॥१७३-१७५॥ जिम प्रकार पहले परशुरामके भयसे क्षत्रिय धोवी आदिके कुलोमें छिपते फिरते थे उसी प्रकार अत्यन्त कठिन शामनके धारक सुभूम चक्रवर्तीसे ब्राह्मण लोग भयभीत होकर धोवी आदिके कुलोमें छिपते फिरते थे ॥१७६॥ यह सुभूम चक्रवर्ती अरनाथ और मल्लिनाथके बीचमें हुआ था तथा भोगासे विरक्त न होनेके कारण मरकर सातवें नरक गया था ॥१७७॥

अब नावें चक्रवर्तीका वर्णन करते हैं—

वीतशोका नगरीमें चिन्त नामका राजा था । वह सुप्रभमुनिका शिष्य होकर ब्रह्मस्वर्ग गया ॥१७८॥ वहाँसे च्युत होकर हस्तिनागपुरमें राजा पद्मरथ और रानी मयूरीके महापद्म नामका नवौं चक्रवर्ती हुआ ॥१७९॥ इसकी आठ पुत्रियाँ थीं जो सौन्दर्यके अतिशयसे गर्वित थीं तथा पृथ्वीपर किसी भर्ताकी इच्छा नहीं करती थीं । एक समय विद्याधर इन्हें हरकर ले गये । पता चलाकर चक्रवर्तीने उन्हें वापिस बुलाया परन्तु विरक्त होकर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली तथा आत्म-कल्याण कर स्वर्गलोक प्राप्त किया ॥१८०-१८१॥ जो आठ विद्याधर इन्हें हरकर ले गये थे वे भी उनके वियोगसे तथा ससारकी विचित्र दशाके देखनेसे भयभीत हो दीक्षित हो गये ॥१८२॥ इस घटनासे महागुणाका धारक चक्रवर्ती प्रतिबोधको प्राप्त हो गया तथा पद्म नामक पुत्रके लिए राज्य दे विष्णु नामक पुत्रके साथ घरसे निकल गया अर्थात् दीक्षित हो गया ॥१८३॥ इस प्रकार महापद्म मुनिने परम तप कर केवलज्ञान प्राप्त किया तथा अन्तमें लोकके शिरसरसे जा पहुँचा । यह चक्रवर्ती अरनाथ और मल्लिनाथके बीचमें हुआ था ॥१८४॥

अब दशावें चक्रवर्तीका वर्णन करते हैं—

विजय नामक नगरमें महेन्द्रदत्त नामका राजा रहता था । वह नन्दन मुनिका शिष्य बनकर महेन्द्र स्वर्गमें उत्पन्न हुआ ॥१८५॥ वहाँसे च्युत होकर काम्पिल्यनगरमें राजा हरिकेतु और रानी वप्राके हरिपेण नामका दशावाँ प्रसिद्ध चक्रवर्ती हुआ ॥१८६॥ उसने अपने राज्यकी समस्त पृथिवीको जिन-प्रतिमाओंसे अलंकृत किया था तथा मुनिसुव्रतनाथ भगवान्के तीर्थमें सिद्धपद प्राप्त किया था ॥१८७॥

अमिताङ्गोऽभवद् राजा पुरे राजपुराभिधे । सुधर्ममित्रशिष्यत्वं कृत्वा ब्रह्मालय ययौ ॥१८८॥
 ततश्च्युतो यशोवत्यां जातस्तत्रैव वैजयि । जयसेन इति ख्यातश्चक्रचुम्बितशासनः ॥१८९॥
 परित्यज्य महाराज्य दीक्षा दैगम्बरीमितः । रत्नत्रितयमाराध्य सैद्ध पद्मशिष्रियत् ॥१९०॥
 स्वतन्त्रलिङ्गसज्ञस्य सम्भूतः प्राप्य शिष्यताम् । काश्यां कमलगुल्ममाख्यं विमान समुपाश्रितः ॥१९१॥
 च्युतो ब्रह्मरथस्याभूत् पुरे काम्पित्यनामनि । चूलाह्लासभवः पुत्रो ब्रह्मदत्त प्रकीर्तितः ॥१९२॥
 चक्रचिह्नमसौ भुक्त्वा श्रियं विरतिवर्जितम् । सप्तमी च्छित्तिमश्लिच्छन्नेमिपार्श्वजिनान्तरे ॥१९३॥
 एते पट्खण्डभूनाथाः कीर्तिता मगधाधिप । गतिर्न शक्यते येषां रोद्धु देवासुरैरपि ॥१९४॥
 प्रत्यक्षमक्षमुक्तं च फलमेतच्छुभाशुभम् । श्रुत्वानुभूय दृष्ट्वा च युक्तं न क्रियते कथम् ॥१९५॥
 न पाथेयमपूपादि गृहीत्वा कश्चिदृच्छति । लोकान्तरं न चायाति किन्तु तत्सुकृतेतरम् ॥१९६॥
 कैलासकूटकल्पेषु वरस्त्रीपूर्णकुक्षिपु । यद्वसन्ति स्वगारेषु तत्फल पुण्यवृत्तजम् ॥१९७॥
 शीतोष्णवातयुक्तेषु कुगृहेषु वसन्ति यत् । दारिद्र्यपङ्कनिर्मग्नास्तदधर्मतरोः फलम् ॥१९८॥
 विन्ध्यकूटसमाकारैर्वारणेन्द्रैर्व्रजन्ति यत् । नरेन्द्राश्चामरोद्धूर्ताः पुण्यशालेरिदं फलम् ॥१९९॥
 तुरङ्गैर्यदल स्वङ्गैर्गम्यते चलचामरैः । पादातमध्यगैः पुण्यनृपतेस्तद्विचेष्टितम् ॥२००॥

अब ग्यारहवे चक्रवर्तीका वर्णन करते हैं—

राजपुर नामक नगरमें एक अमिताङ्क नामका राजा रहता था । वह सुधर्म मित्र नामक मुनिराजका शिष्य होकर ब्रह्म स्वर्ग गया ॥१८८॥ वहाँसे च्युत होकर उसी काम्पित्यनगरमें राजा विजयकी यशोवती रानीसे जयसेन नामका ग्यारहवाँ चक्रवर्ती हुआ ॥१८९॥ वह अन्तमें महाराज्यका परित्याग कर दैगम्बरी दीक्षाको धारण कर रत्नत्रयकी आराधना करता हुआ सिद्धपदको प्राप्त हुआ ॥१९०॥ यह मुनिसुव्रतनाथ और नमिनाथके अन्तरालमें हुआ था ।

अब बारहवे चक्रवर्तीका वर्णन करते हैं—

काशी नगरीमें सम्भूत नामका राजा रहता था । वह स्वतन्त्रलिङ्ग नामक मुनिराजका शिष्य हो कमलगुल्म नामक विमानमें उत्पन्न हुआ ॥१९१॥ वहाँसे च्युत होकर काम्पित्यनगरमें राजा ब्रह्मरथ और रानी चूलाके ब्रह्मदत्त नामका बारहवाँ चक्रवर्ती हुआ ॥१९२॥ यह चक्रवर्ती लक्ष्मीका उपभोगकर उससे विरत नहीं हुआ और उसी अविरत अवस्थामें मरकर सातवे नरक गया । यह नेमिनाथ और पार्श्वनाथ तीर्थकरके बीचमें हुआ था ॥१९३॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे मगधराज ! इस प्रकार मैंने छह खण्डके अधिपति-चक्रवर्तियोंका वर्णन किया । ये इतने प्रतापी थे कि इनकी गतिको देव तथा असुर भी नहीं रोक सकते थे ॥१९४॥ यह मैंने पुण्य-पापका फल प्रत्यक्ष कहा है, सो उसे सुनकर, अनुभव कर तथा देखकर लोग योग्य कार्य क्यों नहीं करते हैं ? ॥१९५॥ जिस प्रकार कोई पथिक अपूप आदि पाथेय (मार्ग हितकारी भोजन) लिये बिना ग्रामान्तरको नहीं जाता है उसी प्रकार यह जीव भी पुण्य-पापरूपी पाथेयके बिना लोकान्तरको नहीं जाता है ॥१९६॥ उत्तमोत्तम स्त्रियोंसे भरे तथा कैलासके समान ऊँचे उत्तम महलोमें जो मनुष्य निवास करते हैं वह पुण्यरूपी वृत्तका ही फल है ॥१९७॥ और जो दरिद्रतारूपी कीचड़में निमग्न हो सरदी, गरमी तथा हवाकी बाधासे युक्त खोटे घरोंमें रहते हैं वह पापरूपी वृत्तका फल है ॥१९८॥ जिनपर चमर दुल रहे हैं ऐसे राजा महाराजा जो विन्ध्याचलके शिखरके समान ऊँचे-ऊँचे हाथियों पर बैठकर गमन करते हैं वह पुण्यरूपी शालि (धान) का फल है ॥१९९॥ जिनके दोनों ओर चमर हिल रहे हैं ऐसे सुन्दर शरीरके धारक घोड़ों पर बैठकर जो पैदल सेनाओंके बीचमें चलते हैं वह पुण्यरूपी राजाकी मनोहर

कल्पप्रासादसंकाशं रथमारुह्य यजन्ताः । व्रजन्ति पुण्यशैलेन्द्रात् स्रुतोऽसौ स्वादुनिर्भरः ॥२०१॥
 स्फुटिताभ्यां पदाङ्घ्रिभ्यां मलयस्तपटचरैः । भ्रम्यते पुरुषैः पापविपवृक्षस्य तत्फलम् ॥२०२॥
 अन्नं यदमृतप्रार्यं हेमपात्रेषु भुज्यते । स प्रभावो मुनिश्रेष्ठैरुक्तो धार्मरसायनः ॥२०३॥
 देवाधिपतिता चक्रचुम्बिता यच्च राजता । लभ्यते भव्यशार्दूलैस्तदहिंसालताफलम् ॥२०४॥
 रामकेशवयोरलक्ष्मीलभ्यते यच्च पुङ्गवैः । तद्धर्मफलमुत्प्रेष्ये तत्कीर्तनमथाधुना ॥२०५॥
 हास्तिनं नगरं रम्यं साकेता केतुभूपिता । श्रावस्ती वरविस्तीर्णा कौशाम्बी भासिताम्बरा ॥२०६॥
 पोदनं शैलनगरं तथा सिंहपुरं पुरम् । कौशाम्बी हास्तिनं चेति क्रमेण परिकीर्तिता ॥२०७॥
 सर्वद्रविणसंपन्ना भयसंपर्कवर्जिता । नगर्यो वासुदेवानामिमाः पूर्वत्र जन्मनि ॥२०८॥
 विश्वनन्दी महातेजास्ततः पर्वतकाभिधः । धनमित्रस्ततो ज्ञेयस्त्वृतीयश्चक्रधारिणाम् ॥२०९॥
 ततः सागरदत्ताख्यः क्षुब्धसागरनिस्वनः । विकटः प्रियमित्रश्च तथा मानसचेष्टितः ॥२१०॥
 पुनर्वसुश्च विज्ञातो गङ्गदेवश्च कीर्तितः । उक्तान्यमूनि नामानि कृष्णानां पूर्वजन्मनि ॥२११॥
 नैविकीयातनं युद्धविजयाप्रमदाहतिः । उद्यानारण्यरमणं वनक्रीडाभिकाङ्क्षणम् ॥२१२॥
 अत्यन्तविपयासङ्गो विप्रयोगस्तनूनपात् । दौर्भाग्यं प्रेत्य हेतुभ्य एतेभ्यो हरयोऽभवन् ॥२१३॥
 विरूपा दुर्भगाः सन्तः सनिदानतपोधनाः । तत्त्वविज्ञाननिर्मुक्ताः संभवन्ति बलानुजाः ॥२१४॥
 सनिदानं तपस्तस्माद्दर्जनीयं प्रयत्नतः । तद्धि पश्चान्महाघोरदुःखदानसुशिक्षितम् ॥२१५॥

चेष्टा है ॥२००॥ जो मनुष्य स्वर्गके भवनके समान सुन्दर रथपर सवार हो गमन करते हैं वह उनके पुण्यरूपी हिमालयसे भरा हुआ स्वादिष्ट भरना है ॥२०१॥ जो पुरुष मलिन वस्त्र पहिनकर फटे हुए पैरोंसे पैदल ही भ्रमण करते हैं वह पापरूपी विपवृक्षका फल है ॥२०२॥ जो मनुष्य सुवर्णमय पात्रोंमें अमृतके समान मधुर भोजन करते हैं उसे श्रेष्ठ मुनियोंने धर्मरूपी रसायनका प्रभाव बतलाया है ॥२०३॥ जो उत्तम भव्य जीव इन्द्रपद, चक्रवर्तीका पद तथा सामान्य राजाका पद प्राप्त करते हैं वह अहिंसारूपी लताका फल है ॥२०४॥ तथा उत्तम मनुष्य जो बलभद्र और नारायणकी लक्ष्मी प्राप्त करते हैं वह भी धर्मका ही फल है । हे श्रेणिक ! अब मैं उन्हीं बलभद्र और नारायणोंका कथन करूँगा ॥२०५॥ प्रथम ही भरत क्षेत्रके नौ नारायणोंकी पूर्वभव सम्बन्धी नगरियोंके नाम सुनो—१ मनोहर हस्तिनापुर २ पताकाओंसे सुशोभित अयोध्या ३ अत्यन्त विस्तृत श्रावस्ती ४ निर्मल आकाशसे सुशोभित कौशाम्बी ५ पोदनपुर ६ शैलनगर ७ सिंहपुर ८ कौशाम्बी और ९ हस्तिनापुर ये क्रमसे नौ नगरियाँ कहीं गई हैं । ये सभी नगरियाँ सर्वप्रकारके धन-धान्यसे परिपूर्ण थीं, भयके संपर्कसे रहित थीं, तथा वासुदेव अर्थात् नारायणोंके पूर्वजन्म सम्बन्धी निवाससे सुशोभित थीं ॥२०६-२०८॥ अब इन वासुदेवोंके पूर्व भवके नाम सुनो—१ महाप्रतापी विश्वनन्दी २ पर्वत ३ धनमित्र ४ ज्ञोभको प्राप्त हुए सागरके समान शब्द करनेवाला सागरदत्त ५ विकट ६ प्रियमित्र ७ मानसचेष्टित ८ पुनर्वसु और ९ गङ्गदेव ये नारायणोंके पूर्व जन्मके नाम कहे ॥२०९-२११॥ ये सभी पूर्वभवमें अत्यन्त विरूप तथा दुर्भाग्यसे युक्त थे । मूलधनका अपहरण १ युद्धमें हार २ स्त्रीका अपहरण ३ उद्यान तथा वनमें क्रीड़ा करना ४ वन क्रीड़ाकी आकाङ्क्षा ५ विपयोंमें अत्यन्त आसक्ति ६ इष्टजनवियोग ७ अग्निवाधा ८ और दौर्भाग्य ९ क्रमशः इन निमित्तोंको पाकर ये मुनि हो गये थे । निदान अर्थात् आगामी भोगोंकी लालसा रखकर तपश्चरण करते थे तथा तत्त्वज्ञानसे रहित थे इसी अवस्थामें मरकर ये नारायण हुए थे । ये सभी नारायण बलभद्रके छोटे भाई होते हैं ॥२१२-२१४॥ हे श्रेणिक ! निदानसहित तप प्रयत्नपूर्वक छोड़ना चाहिए क्योंकि वह पीछे चलकर

१. शैलेन्द्राच्छ्रुतोऽसौ म० । २. यदमृतं प्रार्यं म० । ३. राजिता म० । ४. नारायणानाम् ।
 ५. युद्धं विजया म० । ६. भरणं म० । ७. वनक्रीडाभिकाङ्क्षणः म० ।

संभूतस्तपसो^१ मूर्तिं सुभद्रो वसुदर्शनः । श्रेयान्^२ सुभूतिसंज्ञश्च वसुभूतिश्च कीर्तितः ॥२१६॥
 घोपसेनपराम्भोधिनामानौ च महामुनी । द्रुमसेनश्च कृष्णानां गुरवः पूर्वजन्मनि ॥२१७॥
 महाशुक्राभिधः कल्पः प्रागतो लान्तवस्तथा । सहस्रारोऽपरो ब्रह्मनामा माहेन्द्रसञ्जितः ॥२१८॥
 सौधर्मश्च समाख्यातः कल्पः सच्चैष्टितालयः । सनत्कुमारनामा च महाशुक्राभिधोऽपरः ॥२१९॥
 पुत्रेभ्यः प्रच्युताः सन्तः प्राप्तपुण्यफलोदयाः । पुण्यावशेषतो जाता वासुदेवा नराधिपाः ॥२२०॥
 पोदनं द्वापुरी हस्तिनगरं तत्पुनः स्मृतम् । तथा चक्रपुरं रम्य कुशाग्र मिथिलापुरी ॥२२१॥
 विनीता मथुरा चेति माधवोत्पत्तिभूमयः । समस्तधनसम्पूर्णाः सदोत्सवसमाकुलाः ॥२२२॥
 आद्यः प्रजापतिर्ज्ञेयो ब्रह्मभूतिरतोऽपरः । रौद्रनादस्तथा सोमः प्रख्यातश्च शिवाकरः ॥२२३॥
^३सममूर्द्धाग्निनादश्च ख्यातो दशरथस्तथा । वसुदेवश्च कृष्णानां पितरः परिकीर्तिताः ॥२२४॥
 आद्या मृगावती ज्ञेया माधवी पृथिवी तथा । सीतान्विका च लक्ष्मीश्च केशिनी कैकयी शुभा ॥२२५॥
 देवकी चरमा ज्ञेया महासौभाग्यसयुता । उदाररूपमपन्नाः कृष्णानां मातरः स्मृताः ॥२२६॥
 सुप्रभा प्रथमा देवी रूपिणी प्रभवा परा । मनोहरा सुनेत्रा च तथा विमलसुन्दरी ॥२२७॥
 तथानन्दवती ज्ञेया कीर्तिता च प्रभावती । रुक्मिणी चेति कृष्णानां महादेव्यः प्रकीर्तिताः ॥२२८॥

महाभयङ्कर दुःख देनेमें निपुण होता है ॥२१५॥ अब नारायणोंके पूर्वभवके गुरुओंके नाम सुनो—
 तपकी मूर्तिस्वरूप संभूत १ सुभद्र २ वसुदर्शन ३ श्रेयान्स ४ सुभूति ५ वसुभूति ६ घोपसेन
 ७ पराम्भोधि ८ और द्रुमसेन ९ ये नौ इनके पूर्वभवके गुरु थे अर्थात् इनके पास इन्होंने दीक्षा
 धारण की थी ॥२१६-२१७॥ अब जिस-जिस स्वर्गसे आकर नारायण हुए उनके नाम सुनो—
 महाशुक्र १ प्राणत २ लान्तव ३ सहस्रार ४ ब्रह्म ५ माहेन्द्र ६ सौधर्म ७ सनत्कुमार ८ और
 महाशुक्र ९ । पुण्यके फलस्वरूप नाना अभ्युदयोको प्राप्त करनेवालेये देव इन स्वर्गोंसे च्युत होकर
 अचशिष्ट पुण्यके प्रभावसे नारायण हुए हैं ॥२१८-२२०॥ अब इन नारायणोंकी जन्म-नगरियोंके
 नाम सुनो—पोदनपुर १ द्वापुरी २ हस्तिनापुर ३ हस्तिनापुर ४ चक्रपुर ५ कुशाग्रपुर ६
 मिथिलापुरी ७ अयोध्या ८ और मथुरा ९ ये नगरियां क्रमसे नौ नारायणोंकी जन्म नगरियां थीं
 ये सभी समस्त धनसे परिपूर्ण थी तथा सदा उत्सवोंसे आकुल रहती थीं ॥२२१-२२२॥ अब इन
 नारायणोंके पिताके नाम सुनो—प्रजापति १ ब्रह्मभूति २ रौद्रनाद ३ सोम ४ प्रख्यात ५ शिवाकर ६
 सममूर्द्धाग्निनाद ७ दशरथ ८ और वसुदेव ९ ये नौ क्रमसे नारायणोंके पिता कहे गये हैं ॥२२३-२२४॥
 अब इनकी माताओंके नाम सुनो—मृगावती १ माधवी २ पृथ्वी ३ सीता ४ अम्बिका ५ लक्ष्मी ६
 केशिनी ७ कैकयी ८ और देवकी ९ ये क्रमसे नौ नारायणोंकी माताये थीं । ये सभी महा-
 सौभाग्यसे सम्पन्न तथा उत्कृष्ट रूपसे युक्त थीं ॥२२५-२२६॥ ❀ [अब इन नारायणोंके नाम
 सुनो—त्रिपृष्ठ १ द्विपृष्ठ २ स्वयंभू ३ पुरुपोत्तम ४ पुरुपसिंह ५ पुण्डरीक ६ दत्त ७ लक्ष्मण ८ और
 कृष्ण ९ ये नौ नारायण हैं] अब इनकी पट्टरानियोंका नाम सुनो—सुप्रभा १ रूपिणी २ प्रभवा ३
 मनोहरा ४ सुनेत्रा ५ विमलसुन्दरी ६ आनन्दवती ७ प्रभावती और रुक्मिणी ८ ये नौ नारायणोंकी
 क्रमशः नौ पट्टरानियां कहीं गई हैं ॥२२७-२२८॥

❀ हस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियोंमें नारायणोंके नाम ब्रतलानेवाले श्लोक उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु
 उनका होना आवश्यक है । प० दौलतरामजीने भी उनका अनुवाद किया है । अतः प्रकरण सगतिके लिए []
 कोष्ठकान्तर्गत पाठ अनुवादमें दिया है ।

१. तापसो मूर्ति न० । २. श्रेयान्सभूतिसंज्ञश्च म० । ३. समस्तमूर्द्धाग्निनादश्च म० । समस्तद्वर्द्धाग्नि-
 नादश्च व० ।

प्रलम्बितमहाभोगिभोगभासुरसद्गुजम् । शैलेन्द्रतटसंकाशपीवरोदारवत्सम् ॥६२॥
 दिग्नागवन्दनस्तम्भस्थिरभास्वद्भरोद्धम् । तपसापि कृशं कान्त्या दृश्यमानं सुपीवरम् ॥६३॥
 नासिकाग्रनिविष्टातिसौम्यनिश्चलचक्षुषम् । सुनिं ध्यायन्तमैकाग्रयं दृष्ट्वा राजेत्यचिन्तयत् ॥६४॥
 अहो धन्योऽयमत्यन्तं प्रशान्तो मानवोत्तमः । यद्विहायाखिलं सङ्गं तपस्यति मुमुक्षुया ॥६५॥
 विमुन्यानुगृहीतोऽयं कल्याणाभिनिविष्टयोः । परपोडानिवृत्तात्मा मुनिर्लक्ष्मीपरिष्कृतः ॥६६॥
 समः सुहृदि शत्रौ च रत्नराशौ तृणे तथा । मानमत्सरनिर्मुक्तः सिद्ध्यालिङ्गनलालसः ॥६७॥
 वशीकृतहृषीकाल्मा निष्प्रकम्पो गिरीन्द्रवत् । श्रेयो ध्यायति नारागः कुशलस्थितमानसः ॥६८॥
 फलं पुष्कलमेतेन लब्धं मानुषजन्मनः । अयं न वञ्चितः क्रूरैः कृपायास्त्र्यैर्मल्लुचैः ॥६९॥
 अहं नु वेष्टितः पापः कर्मपाशैरनन्तरम् । आशीविषैर्महानागैर्यथा चन्दनपादपः ॥७०॥
 प्रमत्तचेतसं पापं धिग्मां निश्चेतनोपमम् । योऽहं निद्राभिभोगाद्रिमहानृगुशिरःस्थितः ॥७१॥
 यदि नाम भजेयमामवस्थामस्य योगिनः । भवेयं लब्धलब्धव्यस्ततो मानुषजन्मनि ॥७२॥
 इति चिन्तयन्तस्तस्य राज्ञो निर्ग्रन्थपुङ्गवे । दृष्टिः स्तम्भनिबद्धेव बभूवाव्यन्तनिश्चला ॥७३॥
 पृथं निश्चलपद्ममाणं निरोच्योदयसुन्दरः । कुर्वन्नर्म जगादैवं वज्रवाहुं कृतस्मितः ॥७४॥
 चरं निरीक्षितो देवस्त्वयैष मुनिपुङ्गव । वृष्णोपे किमिमां दीक्षां रागवानत्र दृश्यसे ॥७५॥
 वत्रयाहुरधोवोचत् कृतभावनिगूहनः । वर्तते कः पुनर्भावस्तवोदय निवेदय ॥७६॥

शिलाओंसे विपम धरातलमें स्थिर विराजमान थे, सूर्यकी किरणोंसे आलिङ्गित होनेके कारण उनका मुखकमल न्लान हो रहा था, किसी बड़े सर्पके समान सुशोभित उनकी दोनों उत्तम भुजाएँ नीचेकी ओर लटक रहीं थीं, उनका वक्षःस्थल सुमेरुके तटके समान स्थूल तथा चौड़ा था, उनकी देदीप्यमान दोनों उत्कृष्ट जाँघें दिग्गजोंके बाँधनेके खम्भोंके समान स्थिर थीं, यद्यपि वे तपके कारण कृश थे तथापि कान्तिसे अत्यन्त स्थूल जान पड़ते थे, उन्होंने अपने अत्यन्त सौम्य निश्चल नेत्र नासिकाके अग्रभाग पर स्थापित कर रक्खे थे, इस प्रकार एकाग्र रूपसे ध्यान करते हुए मुनिराजको देखकर राजा वज्रवाहु इस प्रकार विचार करने लगा कि ॥६१-६४॥ अहो ! इन अत्यन्त प्रशान्त उत्तम मानवको धन्य है जो समस्त परिग्रहका त्यागकर मोक्षकी इच्छासे तपस्या कर रहे हैं ॥६५॥ इन मुनिराज पर मुक्ति लक्ष्मीने अनुग्रह किया है, इनकी बुद्धि आत्मकल्याणमें लीन है, इनकी आत्मा परपीडासे निवृत्त हो चुकी है, ये अलौकिक लक्ष्मीसे अलङ्कृत हैं, शत्रु और मित्र, तथा रत्नोंकी राशि और तृणमें समान बुद्धि रखते हैं, मान एवं मत्सरसे रहित हैं, सिद्धिरूपी वधूका आलिङ्गन करनेमें इनकी लालसा बढ़ रही है, इन्होंने इन्द्रियों और मनको वशमें कर लिया, ये सुमेरुके समान स्थिर हैं, वीतराग हैं तथा कुशल कार्यमें मन स्थिर कर ध्यान कर रहे हैं ॥६६-६८॥ मनुष्यमें जन्मका पूर्णफल इन्होंने प्राप्त किया है, इन्द्रियरूपी दुष्ट चोर इन्हें नहीं ठग सके हैं ॥६९॥ और मैं ? मैं तो कर्मरूपी पाशोंसे उस तरह निरन्तर वेष्टित हूँ जिस तरह कि आशीविष जातिके बड़े-बड़े सर्पोंसे चन्दनका वृक्ष वेष्टित होता है ॥७०॥ जिसका चित्त प्रमादसे भरा हुआ है ऐसे जड़तुल्य मुक्त पापीके लिए धिक्कार है मैं । भोगरूपी पर्वतकी बड़ी गोलचट्टानके अग्रभाग पर बैठकर सो रहा हूँ ॥७१॥ यदि मैं इन मुनिराजको इस अवस्थाको धारण कर सकूँ तो मनुष्य-जन्मका फल मुझे प्राप्त हो जावे ॥७२॥ इस प्रकार विचार करते हुए राजा वज्रवाहुकी दृष्टि उन निर्ग्रन्थ मुनिराजपर खम्भोंमें बाँधी हुई के समान अत्यन्त निश्चल हो गई ॥७३॥ इस तरह वज्रवाहुको निश्चल दृष्टि देख उदय-सुन्दरने मुसकराकर हँसी करते हुए कहा कि आप इन मुनिराजको बड़ी देरसे देख रहे हैं सो क्या इस दीक्षाको ग्रहण कर रहे हो ? इसमें आप अनुरक्त दिखाई पड़ते हैं ॥७४-७५॥ तदनन्तर अपने भावको छिपाकर वज्रवाहुने कहा कि हे उदय ! तुम्हारा क्या भाव है सो तो कहो ॥७६॥

लङ्काराजगृह चान्यक्रमेण प्रतिवक्रिणाम् । स्थानान्यमूनि वेद्यानि दीप्तानि मणिरश्मिभिः ॥२४३॥
 अश्वग्रीव इति ख्यातस्तारको मेरकस्तथा । मधुकैटभसज्ञश्च निशुम्भश्च तथा वलिः ॥२४४॥
 प्रह्लादो दशवक्त्रश्च जरासन्धश्च कीर्तितः । क्रमेण वासुदेवानां विज्ञेया प्रतिचक्रिणः ॥२४५॥
 सुवर्णकुम्भ सत्कीर्तिः सुधर्मोऽथ महामुनिः । मृगाङ्कः श्रुतिकीर्तिश्च सुमित्रो भवनश्रुतः ॥२४६॥
 सुव्रतश्च सुसिद्धार्थो^३ रामाणां गुरवः स्मृताः । तपःसंभारसजातकीर्तिवेष्टितविष्टयाः ॥२४७॥

स्रग्धराच्छुन्दः

दग्ध्वा कर्मोत्कृष्ट क्षुभितबहुविधव्याधिसभ्रान्तसत्त्व
 मृत्युव्याघ्राति^१भीमं भवविपुलसमुत्तुङ्गवृक्षोरुखण्डम् ।
 याता निर्वाणमष्टौ हलधरविभव प्राप्य सविग्गभावाः
 सप्राप ब्रह्मलोक चरमहलधरः कर्मबन्धावशोपात् ॥२४८॥
 आदौ कृत्वा जिनेन्द्रान् भरतजयकृता^४ केशवानां बलाना-
 मेतत्ते पूर्वजन्मप्रभृति निगदितं वृत्तमत्यन्तचित्रम् ।
 केचिद् गच्छन्ति मोक्ष कृतपुरुतपसः स्तोकपङ्काश्च केचित्
 केचिद् भ्राम्यन्ति^५ भूयो बहुभवगहनां संसृतिं निर्विरामाः ॥२४९॥

विजय २ भद्र ३ सुप्रभ ४ सुदर्शन ५ नन्दिमित्र ६ नन्दिषेण ७ रामचन्द्र (पद्म) और वल] नारायणोके प्रतिद्वन्द्वो नौ प्रतिनारायण होते हैं । उनके नगरोके नाम इस प्रकार जानना चाहिए । अलकपुर १ विजयपुर २ नन्दनपुर ३ पृथ्वीपुर ४ हरिपुर ५ सूर्यपुर ६ सिंहपुर ७ लङ्का ८ और राजगृह ९ । ये सभी नगर मणियोंकी किरणोसे देदीप्यमान थे ॥२४२-२४३॥ अब प्रतिनारायणोके नाम सुनो—अश्वग्रीव १ तारक २ मेरक ३ मधुकैटभ ४ निशुम्भ ५ वलि ६ प्रह्लाद ७ दशानन ८ और जरासन्ध ९ ये नौ प्रतिनारायणोके नाम जानना चाहिए ॥२४४-२४५॥ सुवर्णकुम्भ १ सत्कीर्ति २ सुधर्म ३ मृगाङ्क ४ श्रुतिकीर्ति ५ सुमित्र ६ भवनश्रुत ७ सुव्रत ८ और सुसिद्धार्थ ९ बलभद्रोंके गुरुओके नाम हैं । इन सभीने तपके भारसे उत्पन्न कीर्तिके द्वारा समस्त संसारको व्याप्त कर रक्खा था ॥२४६-२४७॥ नौ बलभद्रोंमेसे आठ बलभद्र तो बलभद्रका वैभव प्राप्त कर तथा संसारसे उदासीन हो उस कर्मरूपी महावनको भस्म कर निर्वाणको पधारे जिसमें कि क्षोभको प्राप्त हुए नाना प्रकारके रोगरूपी जन्तु भ्रमण कर रहे थे, जो मृत्युरूपी व्याघ्रसे अत्यन्त भयंकर था तथा जिसमें जन्मरूपी बड़े-बड़े ऊँचे वृक्षोके खण्ड लग रहे थे । अन्तिम बलभद्र कर्म-बन्धन शेष रहनेके कारण ब्रह्म स्वर्गको प्राप्त हुआ था ॥२४८॥ गौतम गणधर राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! मैंने तीर्थङ्करोंको आदि लेकर भरत क्षेत्रको जीतनेवाले चक्रवर्तियों, नारायणो तथा बलभद्रोंका अत्यन्त आश्चर्यसे भरा हुआ पूर्व-जन्म आदिका वृत्तान्त तुझसे कहा । इनमेंसे कितने ही तो विशाल तपश्चरण कर उसी भवसे मोक्ष जाते हैं, किन्हींके कुछ पाप कर्म अवशिष्ट रहते हैं तो वे कुछ समय तक संसारमें भ्रमणकर मोक्ष जाते हैं और कुछ कर्मोंकी सत्ता अधिक प्रबल होनेसे दीर्घ काल तक अनेक जन्म-मरणोंसे सघन इस संसार-

१. वेदानि म० । २. सधर्मोऽथ म०, ख० । ३. सुसिद्धार्थ म० । ४. व्याघ्रादि ख०, ब० । ५. कृतान् म० । ६. केचिद्भ्राम्यन्ति म० । ७. परतपसः ख०, युजतपसः म० । ८. गच्छन्ति म० ।

ततः समाप्तयोगेन गुल्फेन्यनुमोदितः । महासंवेगसंपन्नस्त्यक्तवस्त्रविभूषणः ॥१२१॥
 पर्यङ्कासनमास्थाय रभसान्वितमानसः । केशापनयनं कृत्वा पल्लवारुणपाणिना ॥१२२॥
 जानानः प्रलधुं देहसुह्लाघमिव तत्क्षणम् । दीक्षां संचक्ष्य वैवाहीं मोक्षदीक्षामशिश्रियत् ॥१२३॥
 त्यक्तरागमदद्वेषा जातसंवेगरंहसः । सुन्दरप्रमुखा वीराः कुमारः मारविभ्रमाः ॥१२४॥
 परमोत्साहसम्पन्नाः प्रणम्य मुनिपुङ्गवम् । पटुर्विशतिरमा तेन राजपुत्रा प्रवव्रजुः ॥१२५॥
 तमुद्रन्तं परिज्ञाय सोदरस्नेहकातरा । वहन्ती पुरुसंवेगमदीक्षिष्ट मनोदया ॥१२६॥
 सितांशुकपरिच्छन्नविशालस्तनमण्डला । अल्पोदरी मलच्छन्ना जाता सातितपस्विनी ॥१२७॥
 विजयस्यन्दनो वातां विदित्वा वाज्रवाहवांम् । शोकादितो जगादैवं सभामध्यव्यवस्थितः ॥१२८॥
 चित्रं पश्यत मे नष्टा वयसि प्रथमे स्थितः । विपयेभ्यो विरक्तात्मा दीक्षां दैगम्बरीमितः ॥१२९॥
 मादृशोऽपि सुदुर्मोचैर्वर्षीयान् प्रवर्णाकृतः । भोगैर्येस्ते कथं तेन कुमारेण विवर्जिताः ॥१३०॥
 अथवानुगृहीतोऽसौ भाग्यवान्मुक्तिं सम्पदा । भोगान् यस्तृणवत्यक्त्वा शान्तीभावे व्यवस्थितः ॥१३१॥
 मन्दभाग्योऽधुना चेष्टां कां व्रजामि जरादितः । सुचिरं वञ्चितः पार्ष्विपयैर्मुखसुन्दरैः ॥१३२॥
 इन्द्रनीलांशुसंघातसंकाशो योऽभवत् कथम् । केशभारः स मे जातः काशराशिसमद्यतिः ॥१३३॥
 सितसितारुणच्छाये नेत्रे ये जनहारिणी । जाते सम्प्रति ते सुभ्रूवल्लीच्छन्नस्ववर्त्मनी ॥१३४॥

तदनन्तर ध्यान समाप्त होनेपर मुनिराजने उसके इस कार्यकी अनुमोदना की । सो महा-संवेगसे भरा वज्रवाहु वस्त्राभूषण त्याग कर उनके समक्ष शीघ्र ही पद्मासनसे बैठ गया । उसने पल्लवके समान लाल-लाल हाथोंसे केश उखाड़कर फेंक दिये । उसे उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उसका शरीर रोगरहित होनेसे हलका हो गया हो । इस तरह उसने विवाह-सम्बन्धी दीक्षाका परित्याग कर मोक्ष प्राप्त करानेवाली दीक्षा धारण कर ली ॥१२१-१२३॥ तदनन्तर जिन्होंने रागद्वेष और मदका परित्याग कर दिया था, संवेगकी ओर जिनका वेग बढ़ रहा था, तथा जो कामके समान सुन्दर विभ्रमको धारण करनेवाले थे, ऐसे उदयसुन्दर आदि छत्तीस राजकुमारोंने भी परमोत्साहसे सम्पन्न हो मुनिराजको प्रणाम कर दीक्षा धारण कर ली ॥१२४-१२५॥ यह समाचार जानकर भाईके स्नेहसे भीरु मनोदयाने भी बहुत भारी संवेगसे युक्त हो दीक्षा ले ली ॥१२६॥ सफेद वस्त्रसे जिसका विशाल स्तनमण्डल आच्छादित था, जिसका उदर अत्यन्त कृश था और जिसके शरीरपर मैल लग रहा था ऐसी मनोदया बड़ी तपस्विनी हो गई ॥१२७॥

वज्रवाहुके वाचा विजयस्यन्दनको जब उसके इस समाचारका पता चला तब शोकसे पीड़ित होता हुआ वह सभाके बीचमें इस प्रकार बोला कि अहो ! आश्चर्यकी बात देखो, प्रथम अवस्थामें स्थित मेरा नाती विपयोंसे विरक्त हो दैगम्बरी दीक्षाको प्राप्त हुआ है ॥१२८-१२९॥ मेरे समान वृद्ध पुरुष भी दुःखसे छोड़ने योग्य जिन विपयोंके अधीन हो रहा है वे विपय उस कुमारने कैसे छोड़ दिये ॥१३०॥ अथवा उस भाग्यशालीपर मुक्तिरूपी लक्ष्मीने बड़ा अनुग्रह किया है जिससे वह भोगोंको तृणके समान छोड़कर निराकुल भावको प्राप्त हुआ है ॥१३१॥ प्रारम्भमें सुन्दर दिखनेवाले पापी विपयोंने जिसे चिरकालसे ठगा है तथा जो वृद्धावस्थासे पीड़ित है ऐसा मैं अभागा इस समय कौन-सी चेष्टाको धारण करूँ ? ॥१३२॥ मेरे जो केश इन्द्रनील मणिकी किरणोंके समान श्याम वर्ण थे वे ही आज कासके फूलोंकी राशिके समान सफेद हो गये हैं ॥१३३॥ सफेद काली और लाल कान्तिको धारण करनेवाले मेरे जो नेत्र मनुष्योंके मनको हरण करनेवाले थे, अब उनका मार्ग भृकुटीरूपी लताओंसे आच्छादित हो गया है अर्थात् अब वे

१. पाणिनां म० । २. संचक्ष्य क० । ३. वज्रवाहुपितामहः विजयस्यन्दिनो म०, ज० । ४. मुक्तसम्पदा म० । ५. शान्तीभावे व० । ६. वल्लीच्छन्नसुवर्त्मनी म०, क० ।

एकविंशतितमं पर्व

शृण्वतोऽष्टमरामस्य सम्बन्धार्थं वदामि ते । वशानुकीर्तनं किञ्चिन्महापुरूपसम्भवम् ॥१॥
जिनेन्द्रे दशमेऽर्ताते^१ राजासीत् सुमुखश्रुतिः । कौशाभ्यामपरोऽत्रैव^२ वाणिजो वीरकश्रुतिः ॥२॥
हत्वा तद्वयितां राजा श्रित्वा कामं यथेप्सितम् । दत्त्वा दानं विरागाणां मृत्वा रुक्मगिरिं ययौ ॥३॥
^३तत्रापि दक्षिणश्रेण्यां पुरे हरिपुरसङ्गके । उत्पन्नौ दम्पती, क्रीडन् भोगभूमिमशिश्रियत् ॥४॥
दयिताविरहाङ्गारदग्धदेहस्तु वीरकः । तपसा देवतां प्राप देवीनिवहसकुलाम्^४ ॥५॥
विदित्वावधिना देवो वैरिणं हरिसंभवम् । भरतेऽतिष्ठपद्यातं दुर्गतिं^५ पापधीरिति ॥६॥
यतोऽसौ हरितः चेत्रादानीतो भार्यया समम् । ततो हरिरिति ख्यातिं गतः सर्वत्र विष्टे ॥७॥
नाम्ना महागिरिस्तस्य सुतो हिमगिरिस्ततः । ततो वसुगिरिर्जातो वभूवेन्द्रगिरिस्ततः ॥८॥
रत्नमालोऽथ सभूतो भूतदेवो महीधरः । इत्याद्याः शतशोऽतीता राजानो हरिवंशजाः ॥९॥
वंशे तत्र महासत्त्वः सुमित्र इति विश्रुतः । वभूव परमो राजा कुशाग्रस्थे महापुरे ॥१०॥
त्रिदशेन्द्रसमो भोगैः कान्त्या जितनिशाकरः । जितप्रभाकरो दीप्या प्रतापानतशात्रवः ॥११॥

अथानन्तर गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! अब आठवें बलभद्र श्रीरामका सम्बन्ध बतलानेके लिए कुछ महापुरुषोंसे उत्पन्न वंशोका कथन करता हूँ सो सुन ॥१॥ दशवें तीर्थङ्कर श्री शीतलनाथ भगवान्के मोक्ष चले जानेके बाद कौशाभ्याम नगरीमें एक सुमुख नामका राजा हुआ । उसी समय उस नगरीमें एक वीरक नामका श्रेष्ठी रहता था । उसकी स्त्रीका नाम वनमाला था । राजा सुमुखने वनमालाका हरण कर उसके साथ इच्छानुसार कामोपभोग किया और अन्तमें वह मुनियोंके लिए दान देकर विजयार्थ पर्वत पर गया । वहाँ विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक हरिपुर नामका नगर था । उसमें वे दोनों दम्पती उत्पन्न हुए अर्थात् विद्याधर विद्याधरी हुए । वहाँ क्रीडा करता हुआ राजा सुमुखका जीव विद्याधर भोगभूमि गया । उसके साथ उसकी स्त्री विद्याधरी भी थी । इधर स्त्रीके विरहरूपी अङ्गारसे जिसका शरीर जल रहा था ऐसा वीरक श्रेष्ठी तपके प्रभावसे अनेक देवियोंके समूहसे युक्त देवपदको प्राप्त हुआ ॥२-५॥ उसने अवधि ज्ञानसे जब यह जाना कि हमारा वैरी राजा सुमुख हरिक्षेत्रमें उत्पन्न हुआ है तो पाप बुद्धिमें प्रेम करनेवाला वह देव उसे वहाँसे भरतक्षेत्रमें रख गया तथा उसकी दुर्दशा की ॥६॥ चूँकि वह अपनी भार्याके साथ हरिक्षेत्रसे हरकर लाया गया था इसलिए समस्त संसारमें वह हरि इस नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ ॥७॥ उसके महागिरि नामका पुत्र हुआ, उसके हिमगिरि, हिमगिरिके वसुगिरि, वसुगिरिके इन्द्रगिरि, इन्द्रगिरिके रत्नमाला, रत्नमालाके संभूत और संभूतके भूतदेव आदि सैकड़ों राजा क्रमशः उत्पन्न हुए । ये सब हरिवंशज कहलाये ॥८-९॥ आगे चलकर उसी हरिवंशमें कुशाग्र नामक महानगरमें सुमित्र नामका प्रसिद्ध उत्कृष्ट राजा हुआ ॥१०॥ यह राजा भोगोसे इन्द्रके समान था, कान्तिसे चन्द्रमाको जीतनेवाला था, दीप्तिसे सूर्यको

१. नीते म० । २. वाणिजो म० । ३. वीरकः श्रुतिः ख० । ४. भोगभूमिमशिश्रियत् क० । ५. क० पुस्तके एष श्लोको नास्ति, ज० पुस्तकेऽपि नास्ति किन्तु केनचित्पिष्णकर्त्रा पुस्तकान्तरादुद्धृत्य योजितः । म० व० पुस्तकयोः तृतीयश्लोकस्य 'मृत्वा रुक्मगिरि ययौ' इति स्थाने 'पुरे हरिपुरसङ्गके' इति पाठो विद्यते । तदनन्तर चतुर्थश्लोकस्येत्यं क्रमो विद्यते—उत्पन्नौ दम्पती क्रीडा कृत्वा रुक्मगिरि ययौ । तत्रापि दक्षिणश्रेण्या भोगभूमिमशिश्रियत् ॥४॥ अत्र तु मूले ख० पुस्तकीयः पाठः स्थापितः । ६. संकुलम् म० । ७. पापधीरिति म० ।

पद्मावतीति जायास्य पद्मनेत्रा महाद्युति । शुभलक्षणसपूर्णा पूर्णसर्वमनोरथा ॥१०॥
 सुसासो भवने रम्ये रात्रौ तल्पे सुखावहे । अद्राक्षीत् पश्चिमे यामे स्वप्नान् पौडग पूजितान् ॥१३॥
 द्विरद शान्कर सिंहमभिपेक श्रियस्तथा । दामनी शीतगु भानु कपो कुम्भ सरोज्ज्वल ॥१४॥
 सागर गिहसयुक्तमामन रत्नचित्रितम् । विमान भवन शुभ्र रत्नराशिं हुतागनम् ॥१७॥
 ततो विन्मितचित्ता सा विबुद्धा बुद्धिगालिनी । कृत्वा यथोचित याता विनीता भर्तुर्गन्तिकम् ॥१६॥
 कृताञ्जलि पप्रच्छ स्वस्वानार्थं न्यायवेदिनी । भद्रासने सुखासीना स्फुरद्भवनपङ्कजा ॥१७॥
 दयिनोऽक्रययद्यावत्तन्म्यै स्वप्नफल शुभम् । अपसद् गगनात्तावदृष्टी रत्नप्रसूतिनी ॥१८॥
 तिल्ल कोट्योऽर्षकोटी च वसुनोऽस्य दिने दिने । भवने मुद्रितो यज्ञो ववर्ष सुरपाज्ञया ॥१९॥
 मामान् पद्मदृशा स्रण्ड पतन्त्या वसुधाग्या । तथा रत्नसुवर्णादिमय तन्नगर कृतम् ॥२०॥
 तम्या. कमलवासिन्यो जिनमानु. प्रतिक्रियाम् । गमस्तामादता देव्यश्चक्रु. मपरिवारिका. ॥२१॥
 जातमात्रमथो मन्त जिनेन्द्र चीरवारिणा । लोकपालं गम शक्तो मेरावमनपयच्छ्रिया ॥२०॥
 संपूज्य भक्ति. स्तुत्वा प्रणम्य च सुराधिप । मानुरङ्गे पुन प्राप्या जिननाथमतिष्ठितम् ॥२३॥
 आसीत् गर्भस्थिते यस्मिन् सुव्रता जननी यत । विशेषेण तत' कीर्ति गतोऽसौ सुव्रताय्यया ॥२४॥
 अज्ञनाद्रिप्रकाशोऽपि म जिने देहतेजसा । जिगाथ 'तिग्मगु पूर्णनिगाकरनिभानन ॥२५॥

पद्मावती कर रहा था और प्रतापसे समस्त शत्रुओंको नष्ट करनेवाला था ॥११॥ उसकी पद्मावती नामकी स्त्री थी । पद्मावती बहुत ही सुन्दरी थी । उसके नेत्र कमलके समान थे, वह विशाल कान्तिकी धारक थी, शुभ लक्षणोंसे सम्पूर्ण थी तथा उसके सर्व मनोरथ पूर्ण हुए थे ॥१२॥ एक दिन वह रात्रि के समय सुन्दर महलमें सुखकारी शय्या पर सो रही थी कि उसने पिछले पहरमें निम्नलिखित सोलह उत्तम स्वप्न देखे ॥१३॥ गज १ वृषभ २ सिंह ३ लक्ष्मीका अभिपेक ४ दो मालाएँ ५ चन्द्रमा ६ मूर्य ७ दो मीन ८ कलश ९ कमलकलित सरोवर १० समुद्र ११ रत्नोंसे चित्र-विचित्र सिंहासन १२ विमान १३ उज्ज्वल भवन १४ रत्नराशि १५ और अग्नि १६ ॥ १४-१५॥

तदनन्तर जिसका चित्त आश्चर्यसे चकित हो रहा था ऐसी बुद्धिमती गनी पद्मावती जागकर तथा प्रातःकाल सन्ध्यायै यथायोग्य कार्य कर वड़ी नम्रतासे पतिके समीप गई ॥१६॥ वहाँ जाकर जिसका मुखकमल फूल रहा था ऐसी न्यायकी जाननेवाली रानी भद्रासन पर सुखसे बैठी । तदनन्तर उसने हाथ जोड़कर पतिसे अपने स्वप्नोंका फल पूछा ॥१७॥ इधर पतिने जब तक उससे स्वप्नोंका फल कहा तब तक उधर आकाशसे रत्नोंकी वृष्टि पड़ने लगी ॥१८॥ इन्द्रकी आज्ञासे प्रसन्न यज्ञ प्रति दिन इसके घरमें साढ़े तीन करोड़ रत्नोंकी वर्षा करता था ॥१९॥ पन्द्रह मास तक लगानार पडती हुई धनवृष्टिसे वह समस्त नगर रत्न तथा सुवर्णादिमय हो गया ॥२०॥ पद्म महापद्म आदि सरोवरोंके कमलोंमें रहनेवाली श्री ह्री आदि देवियाँ अपने परिवारके साथ मिलकर जिनमाताकी सत्र प्रकारकी सेवा बड़े आदरभावसे करती थीं ॥२१॥

अथानन्तर भगवान्का जन्म हुआ । सो जन्म होते ही इन्द्रने लोकपालोंके साथ बड़े वैभवसे सुमेरु पर्वतपर भगवान्का चीरसागरके जलसे अभिपेक किया ॥२२॥ अभिपेकके बाद इन्द्रने भक्तिपूर्वक जिनेन्द्रदेवकी पूजा की, स्तुति की, प्रणाम किया और तदनन्तर प्रेमपूर्वक माताकी गोदमें लाकर विराजमान कर दिया ॥२३॥ जब भगवान् गर्भमें स्थित थे तभीसे उनकी माता विशेषकर सुव्रता अर्थात् उत्तम व्रतोंकी धारण करनेवाली हो गई थीं इसलिए वे मुनिसुव्रत नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुए ॥२४॥ जिनका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान था ऐसे सुव्रतनाथ भगवान् यद्यपि अज्ञाना-

दधता परमं तेन भोगमिन्द्रेण कल्पितम् । अहमिन्द्रसुखं दूरमधरीकृतमूर्जितम् ॥२६॥
 हाहाहूहूश्रुती तस्य तुम्बुरु नारदस्तथा । विश्वावसुश्च गायन्ति किन्नर्योऽप्सरसो वराः ॥२७॥
 वीणावेण्वादिवाद्येन^१ तत्कृतेन सुचारुणा । स्नानादिविधिमाप्नोति देवीजनितवर्तनम्^२ ॥२८॥
 स्मितलज्जितदम्भेर्ष्याप्रसादादिसुविभ्रमाः । यौवनेऽरमयद्रामाः सोऽभिरामो यथेप्सितम् ॥२९॥
 शरदम्भोदविलय स दृष्ट्वा प्रतिबुद्धवान् । स्तुतो लौकान्तिकैर्देवैः प्रवित्रजिपयान्वितः ॥३०॥
 दत्त्वा सुव्रतसञ्जाय राज्यं पुत्राय निस्पृहः । प्रणताशेषसामन्तमण्डल सुखपालनम् ॥३१॥
 निर्गतः सौरमन्यासदशदिकचक्रवालतः । दिव्यानुलेपनोदारसुकान्तमकरन्दतः ॥३२॥
 सौरभाकृष्टसम्भ्रान्तभ्रमरीपृथुवृन्दतः । हरिन्मणिविभाचक्रपालाशचयसंकुलात् ॥३३॥
 दन्तपङ्क्तिसितच्छायाविसजालसमाकुलात् । नानाविभूषणध्वानविहगारावपूरितात् ॥३४॥
 वलीतरङ्गसपृक्तात् स्तनचक्राहशोभितात् । राजहंसः सितः कीर्त्या दिव्यस्त्रीपद्मखण्डतः ॥३५॥
 देवमानवराजोढां शिविकामपराजिताम् । आरुह्य विपुलोद्यानं ययौ चूडामणिर्नृणाम् ॥३६॥
 अवतीर्य ततो राज्ञा सहस्रैर्वहुभिः समम् । दधौ जैनेश्वरी दीक्षां हरिवशविभूषणः ॥३७॥
 पृष्ठोपवासयुक्ताय तस्मै राजगृहे ददौ । भक्त्या वृषभदत्ताख्यः परमान्नेन पारणम् ॥३८॥

गिरिके समान श्यामवर्ण थे तथापि उन्होंने अपने तेजसे सूर्यको जीत लिया था ॥२५॥ इन्द्रके द्वारा कल्पित (रचित) उत्तम भोगोको धारण करते हुए उन्होंने अहमिन्द्रका भारी सुख दूरसे ही तिरस्कृत कर दिया था ॥२६॥ हा-हा, हू-हू, तुम्बुरु, नारद और विश्वावसु आदि गन्धर्वदेव सदा उनके समीप गाते रहते थे तथा किन्नर देवियों और अनेक अप्सराएँ वीणा, बाँसुरी आदि वाजोके साथ नृत्य करती रहती थीं । अनेक देवियों उबटन आदि लगाकर उन्हें स्नान कराती थी ॥२७-२८॥ सुन्दर शरीरको धारण करनेवाले भगवान्ने यौवन अवस्थामे मन्द मुसकान, लज्जा, दम्भ, ईर्ष्या, प्रसाद आदि सुन्दर विभ्रमासे युक्त स्त्रियोको इच्छानुसार रमण कराया था ॥२९॥

अथानन्तर एक बार शरदऋतुके मेघको विलीन होता देख वे प्रतिबोधको प्राप्त हो गये जिससे दीक्षा लेनेकी इच्छा उनके मनमे जाग उठी । उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की ॥३०॥ तदनन्तर जिसमें समस्त सामन्तोके समूह नम्रीभूत थे तथा सुखसे जिसका पालन होता था ऐसा राज्य उन्होंने अपने सुव्रत नामक पुत्रके लिए देकर सब प्रकारकी इच्छा छोड़ दी ॥३१॥ तत्पश्चात् जिसने अपनी सुगन्धिसे दशो दिशाओको व्याप्त कर रक्खा था, जिसमे शरीर पर लगा हुआ दिव्य विलेपन ही सुन्दर मकरन्द था, जिसने अपनी सुगन्धिसे आतुर भ्रमरियोके भारी समूहको अपनी ओर खींच रक्खा था, जो हरे मणियोकी कान्तिरूपी पत्तोके समूहसे व्याप्त था, जो दाँतोकी पंक्तिकी सफेद कान्तिरूपी मृणालके समूहसे युक्त था, जो नाना प्रकारके आभूषणोंकी ध्वनिरूपी पक्षियोंकी कलकूजनसे परिपूर्ण था, जो वलिरूपी तरङ्गोसे युक्त था और जो स्तनरूपी चक्रवाक पक्षियोसे सुशोभित था ऐसी उत्तम स्त्रियोरूपी कमल-वनसे वे कीर्तिधवल राजहंस (श्रेष्ठ राजा भगवान् मुनिसुव्रतनाथ) इस प्रकार बाहर निकले जिस प्रकार कि किसी कमल-वनसे राजहंस (हंस विशेष) निकलता है ॥३२-३५॥ तदनन्तर मनुष्योके चूडामणि भगवान् मुनिसुव्रतनाथ, देवों तथा राजाओके द्वारा उठाई हुई अपराजिता नामकी पालकीमें सवार होकर विपुलनामक उद्यानमे गये ॥३६॥ तदनन्तर पालकीसे उतर कर हरिवंशके आभूषणस्वरूप भगवान् मुनिसुव्रतनाथने कई हजार राजाओके साथ जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली ॥३७॥ भगवान्ने दीक्षा लेते समय दो दिनका उपवास किया था । उपवास समाप्त होनेपर राजगृह नगरमें वृषभदत्तने उन्हें परमान्न अर्थात् खीरसे भक्तिपूर्वक

१ शासनाचारवृत्त्यर्थं भुक्तिश्च विभुना कृता । प्राप्ते वृषभदत्तश्च पञ्चातिशयपूजनम् ॥३६॥
 अधश्चम्पकवृत्तस्य शुक्लध्यानमुपेयुषः । उत्पन्न घातिक्रमान्ते केवल परमेष्ठिनः ॥४०॥
 ततो देवाः समागत्य सेन्द्राः स्तुत्वा प्रणम्य च । सजातगणिनस्तन्माच्छुश्रुवुर्धर्मसुत्तमम् ॥४१॥
 सागार च निरागार बहुभेद यथाविधि । श्रुत्वा ते विमल धर्मं नत्वा जगमुर्यथायथम् ॥४२॥
 मुनिसुव्रतनाथोऽपि धर्मतीर्थप्रवर्तनम् । कृत्वा सुरासुरैर्नष्टैः स्तूयमानः प्रमोदिति ॥४३॥
 गणनाथैर्महासत्त्वैर्गणपालनकारिभिः । अन्यैश्च साधुभिर्युक्तो विहृत्य वसुधातलम् ॥४४॥
 सम्मेदगिरिमूर्धानं समारूढ्य चतुर्विधम् । विधूय कर्म सप्राप लोकचूडामणिस्थितम् ॥४५॥
 मुनिसुव्रतमाहात्म्यमिदं येष्वधीयते जनाः । शृण्वन्ति वा सुभाषेन तेपा नश्यति दुष्कृति ॥४६॥
 भूयश्च बोधिमागत्य ततः कृत्वा सुनिर्मलम् । गच्छन्ति परम स्थानं यतो नागमन पुन ॥४७॥
 अथामौ सुव्रतः कृत्वा चिरं राज्यं सुनिश्चलम् । दत्तं तत्र विनिश्चित्य प्रव्रज्यावाप निर्वृतिम् ॥४८॥
 दत्तात् समभवत् सूनुरिलावर्द्धनसञ्चितः । ततः श्रीवर्द्धनो जज्ञे श्रीवृक्षाख्यस्ततोऽभवत् ॥४९॥
 सञ्जयन्तो बभूवास्माद्दुदभूत्कुणिमस्ततः । महारथः पुलोमा चेत्येवमाद्या नरेश्वराः ॥५०॥
 सहस्रशः समुत्पन्ना हरीणामन्वये शुभे । सप्रापुर्निर्वृतिं केचित् केचिन्नाकनिवासिताम् ॥५१॥
 एवं क्रमात् प्रयातेषु पार्थिवेषु च भूरिषु । नृपो वासव केत्वाख्य कुलेऽस्मिन्मैथिलोऽभवत् ॥५२॥

पारणा कराया ॥३८॥ जिनशासनमें आचारकी वृत्ति किस तरह है यह बतलानेके लिए ही भगवान्ने आहार ग्रहण किया था । आहारदानके प्रभावसे वृषभदत्त पञ्चातिशयको प्राप्त हुआ ॥३६॥

तदनन्तर चम्पक वृक्षके नीचे शुक्लध्यानसे विराजमान भगवान्को घातियों कर्मोका क्षय होनेके उपरान्त केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥४०॥ तदनन्तर इन्द्रोसहित देवोंने आकर स्तुति की, प्रणाम किया तथा उत्तम गगधरोसे युक्त उन मुनिसुव्रतनाथ भगवान्से उत्तम धर्मका उपदेश सुना ॥४१॥ भगवान्ने सागार और अनगारके भेदसे अनेक प्रकारके धर्मका निरूपण किया सो उस निर्मल धर्मको विधिपूर्वक सुनकर वे सब यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर गये ॥४२॥ हर्षसे भरे नम्रोभूत सुरासुर जिनकी स्तुति करते थे ऐसे भगवान् मुनिसुव्रतनाथने भी धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति कर महा धैर्यके धारक तथा गणकी रक्षा करनेवाले गणधरो एवं अन्यान्य साधुओके साथ पृथिवीतलपर विहार किया ॥४३-४४॥ तदनन्तर सम्मेदाचलकी शिखरपर आरूढ होकर तथा चार अघातिया कर्मोका क्षय कर वे लोकके चूडामणि हो गये अर्थात् सिद्धालयमें जाकर विराजमान हो गये ॥४५॥ जो मनुष्य उत्तम भावसे मुनिसुव्रत भगवान्के इस माहात्म्यको पढते अथवा सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं ॥४६॥ वे पुन आकर रत्नत्रयको निर्मल कर उस परम स्थानको प्राप्त होते हैं जहाँसे कि फिर आना नहीं होता ॥४७॥

तदनन्तर मुनिसुव्रतनाथके पुत्र सुव्रतने भी चिरकाल तक निश्चल राज्य कर अन्तमें अपने पुत्र दत्तके लिए राज्य सौंप दिया ओर स्वयं दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त किया ॥४८॥ राजा दत्तके इलावर्द्धन, इलावर्द्धनके श्रीवर्द्धन, श्रीवर्द्धनके श्रीवृत्त, श्रीवृत्तके संजयन्त, संजयन्तके कुणिम, कुणिमके महारथ और महारथके पुलोमा इत्यादि हजारों राजा हरिवंशमें उत्पन्न हुए । इनमेंसे कितने ही राजा निर्वाणको प्राप्त हुए और कितने ही स्वर्ग गये ॥४९-५१॥ इस प्रकार क्रमसे अनेक राजाओके हो चुकनेपर इसी वंशमें मिथिलाका राजा

१. असमाचार- म०, व० । २. -राध्य म० । ३. एतन्नामान पुत्रम् । ४. प्रव्रज्य प्राप म० । ५. मिथिलाया अधिपो मैथिलः ।

विपुलेति महादेवी तस्यासीत् विपुलेक्षणा । परमश्रीरपि प्राप्ता या मध्येन दरिद्रताम् ॥५३॥
 तस्य जनकनामाभूत्तनयो नयकोविदः । हित यः सतत चक्रे प्रजानां जनको यथा ॥५४॥
 पुत्रं जनकसभूतिः कथित्ता ते नराधिप । शृणु सप्रति यद्वंशे नृपो दशरथोऽभवत् ॥५५॥
 इक्ष्वाकूणां कुले रम्ये निवृत्ते नाभिजे जिने । भरते भास्करे सोमे व्यतीते वशभूपणे ॥५६॥
 सख्यातीतेन कालेन कुले तत्र नराधिपाः । अतिक्रामन्ति कुर्वन्तस्तपः परमदुश्चरम् ॥५७॥
 क्रीडन्ति भोगनिर्मगनाः शुष्यन्त्यकृतपुण्यकाः । लभन्ते कर्मणः स्वस्य विपत्कमध्रुधारिणः ॥५८॥
 चक्रवत्परिवर्तन्ते व्यसनानि महोत्सवैः । शनैर्मायादयो दोषाः प्रयान्ति परिवर्द्धनम् ॥५९॥
 विलश्यन्ते द्रव्यनिर्मुक्ता म्रियन्ते बालतासु च । पुरोपात्तायुपि क्षीणे हेतुना चोपसहृते ॥६०॥
 नाना भवन्ति तिष्ठन्ति निघ्नन्ते शोचयन्ति च । रुदन्त्यदन्ति वाधन्ते विवदन्ति पठन्ति च ॥६१॥
 ध्यायन्ति यान्ति वदन्ति प्रभवन्ति वहन्ति च । गायन्त्युपासतेऽर्चन्ति दरिद्रति नदन्ति च ॥६२॥
 जयन्ति रान्ति मुञ्चन्ति राजन्ते विलसन्ति च । तुष्यन्ति शासति क्षान्ति स्पृहयन्ति हरन्ति च ॥६३॥
 त्रपन्ते द्रान्ति सज्जन्ति दूयन्ते कूटयन्ति च । मार्गयन्तेऽभिधावन्ते कुहयन्ते सृजन्ति च ॥६४॥

वासवकेतु हुआ ॥५२॥ उसकी विपुला नामकी पट्टरानी थी । वह विपुला, विपुल अर्थात् दीर्घ नेत्रोको धारण करनेवाली थी और उत्कृष्ट लक्ष्मीकी धारक होकर भी मध्यभागसे दरिद्रताको प्राप्त थी अर्थात् उसकी कमर अत्यन्त कृश थी ॥५३॥ उन दोनोंके नीतिनिपुण जनक नामका पुत्र हुआ । वह जनक, जनक अर्थात् पिताके समान ही निरन्तर प्रजाका हित करता था ॥५४॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! इस तरह मैंने तेरे लिए राजा जनककी उत्पत्ति कही । अब जिस वंशमें राजा दशरथ हुए उसका कथन करता हूँ सो सुन ॥५५॥

अथानन्तर इक्ष्वाकूओंके रमणीय कुलमें जब भगवान् ऋषभदेव निर्वाणको प्राप्त हो गये और उनके वाद चक्रवर्ती भरत, अर्ककीर्ति तथा वंशके अलङ्कारभूत सोम आदि राजा व्यतीत हो चुके तब असंख्यात कालके भीतर उस वंशमें अनेक राजा हुए । उनमें कितने ही राजा अत्यन्त कठिन तपश्चरण कर निर्वाणको प्राप्त हुए, कितने ही स्वर्गमें जाकर भोगोंमें निमग्न हो क्रीड़ा करने लगे, और कितने ही पुण्यका सञ्चय नहीं करनेसे शुष्क हो गये अर्थात् नरकादि गतियोंमें जाकर रोते हुए अपने कर्मोंका फल भोगने लगे ॥५६-५८॥ हे श्रेणिक ! इस संसारमें जो व्यसन-कष्ट हैं वे चक्रकी नाई बदलते रहते हैं अर्थात् कभी व्यसन महोत्सवरूप हो जाते हैं और कभी महोत्सव व्यसनरूप हो जाते हैं, कभी इस जीवमें धीरे-धीरे माया आदि दोष वृद्धिको प्राप्त हो जाते हैं ॥५९॥ कभी ये जीव निर्धन होकर क्लेश उठाते हैं और कभी पूर्ववद्ध आयुके क्षीण हो जाने अथवा किसी कारणवश कम हो जानेसे बाल्य अवस्थामें ही मर जाते हैं ॥६०॥ कभी ये जीव नाना रूपताको धारण करते हैं, कभी ज्यों-के-स्यों स्थिर रह जाते हैं, कभी एक दूसरेको मारते हैं, कभी शोक करते हैं, कभी रोते हैं, कभी खाते हैं, कभी वाधा पहुँचाते हैं, कभी विवाद करते हैं, कभी गमन करते हैं, कभी चलते हैं, कभी प्रभावशील होते हैं, अर्थात् स्वामी बनते हैं, कभी भार ढोते हैं, कभी गाते हैं, कभी उपासना करते हैं, कभी भोजन करते हैं, कभी दरिद्रताको प्राप्त करते हैं, कभी शब्द करते हैं ॥६१-६२॥ कभी जीतते हैं, कभी देते हैं, कभी कुल्ल छोड़ते हैं, कभी विराजमान होते हैं, कभी अनेक विलास धारण करते हैं, कभी सन्तोष धारण करते हैं, कभी शासन करते हैं, कभी क्षान्ति अर्थात् क्षमा की अभिलाषा करते हैं, कभी शान्तिका हरण करते हैं, ॥६३॥ कभी लज्जित होते हैं, कभी कुत्सित चाल चलते हैं, कभी किसीको सताते हैं, कभी सन्तप्त होते हैं, कभी कपट धारण करते हैं, कभी याचना करते हैं, कभी सम्मुख दौड़ते हैं, कभी

१श्रीरुन्ति स्यन्ति यच्छन्ति ग्रीलयन्ति वसन्ति च । लुच्यन्ति २मान्ति सीदन्ति क्रुध्यन्ति विपलन्ति च ॥६५॥
 ३तुप्यन्त्यर्चन्ति वज्रन्ति सान्त्वयन्ति विदन्ति च । मुण्यन्त्यर्चन्ति नृत्यन्ति स्निह्यन्ति विनयन्ति च ॥६६॥
 नुदन्त्युच्छन्ति कर्षन्ति भृजन्ति विनमन्ति च । ढीव्यन्ति दान्ति शृण्वन्ति जुह्वत्यङ्गन्ति जाग्रति ॥६७॥
 स्वपन्ति विभ्यतीकन्ति श्यन्ति षन्ति ४तुदन्ति च । प्रान्ति सुन्वन्ति सिन्वन्ति रुन्धन्ति विरुवन्ति च ॥६८॥
 सीव्यन्त्यटन्ति ५जीर्यन्ति पिबन्ति रचयन्ति च । नृणते परिमृदन्ति विस्तृणन्ति पृणन्ति च ॥६९॥
 मीमासन्ते जुगुप्सन्ते कामयन्ते तरन्ति च । चिकित्स्यन्त्यनुमन्यन्ते वारयन्ति गृणन्ति च ॥७०॥
 एवमाद्रिक्रियाजालमततव्याप्तमानसा । शुभाशुभसमासका व्यतिक्रामन्ति मानवा ॥७१॥
 इति चित्रपटाकारचेष्टितारिलमानवे । कालेऽत्रसर्पिणोनाम्नि प्रयाति विलय शनै ६ ॥७२॥
 जाते त्रिंशत्तिस्रस्थाने वर्तमानजिनान्तरे । देवागमनसयुक्ते विनीतायासुरो पुरि ॥७३॥
 विजयो नाम राजेन्द्रो विजिताखिलशात्रवः । सौर्यप्रतापसयुक्तः प्रजापालनपण्डित ७ ॥७४॥
 सभूतो हेमचूलिन्या महादेव्या सुतेजसि । सुरेन्द्रमन्युनामाभूत्सुसुस्तस्य महागुण ८ ॥७५॥
 तस्य कीर्तिसमारयाया जायाया तनयद्वयम् । चन्द्रसूर्यममच्छाय जात गुणसमर्चितम् ९ ॥७६॥

मायाचार दिखाते हैं, कभी किसीके द्रव्यादिका हरण करते हैं, ॥६४॥ कभी क्रीड़ा करते हैं, कभी किसी वस्तुको नष्ट करते हैं, कभी किसीको कुछ देते है, कभी कही वास करते हैं, कभी किसीको लांचते हैं, कभी किसीको नापते हैं, कभी दुःखी होते हैं, कभी क्रोध करते हैं, कभी विचलित होते हैं, ॥६५॥ कभी सन्तुष्ट होते हैं, कभी किसीकी पूजा करते हैं, कभी किसीको छलते हैं, कभी किसीको सान्त्वना देते है, कभी कुछ समझते है, कभी मोहित होते हैं, कभी रक्षा करते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी स्नेह करते हैं, कभी विनय करते हैं, ॥६६॥ कभी किसीको प्रेरणा देते हैं, कभी दाने-दाने वीनकर पेट भरते हैं, कभी खेल जोतते हैं, कभी भाड़ भूँजते हैं, कभी नमस्कार करते है, कभी क्रीडा करते हैं, कभी लुनते हैं, कभी सुनते है, कभी होम करते हैं, कभी चलते हैं, कभी जागते हैं ॥६७॥ कभी सोते हैं, कभी डरते हैं, कभी नाना चेष्टा करते हैं, कभी नष्ट करते हैं, कभी किसीको स्रण्डित करते हैं, कभी किसीको पीडा पहुँचाते हैं, कभी पूर्ण करते हैं, कभी स्नान करते है, कभी बौधते है, कभी रोकते हैं, कभी चिह्लाते हैं, ॥६८॥ कभी सीते हैं, कभी धूमते हैं, कभी जीर्ण होते हैं, कभी पीते हैं, कभी रचते हैं, कभी वरण करते है, कभी मसलते हैं, कभी फैलाते है, कभी तर्पण करते हैं ॥६९॥ कभी मीमासा करते हैं, कभी घृणा करते हैं, कभी इच्छा करते हैं, कभी तरते है, कभी चिकित्सा करते हैं, कभी अनुमोदना करते हैं, कभी रोकते हैं और कभी निगलते है ॥७०॥ हे राजन् ! इत्यादि क्रियाओके जालसे जिनके मन व्याप्त हो रहे थे तथा जो शुभ-अशुभ कार्योंमें लीन थे ऐसे अनेक मानव उस इच्चाकुवशसे क्रमसे हुए थे ॥७१॥ इस प्रकार जिसमे समस्त मानवोंकी चेष्टाएँ चित्रपटके समान नाना प्रकारकी हैं ऐसा यह अवसर्पिणी नामका काल धीरे-धीरे समाप्त होता गया ॥७२॥

अथानन्तर जिसमे देवोंका आगमन जारी रहता था ऐसे वीसवे वर्तमान तीर्थङ्करका अन्तराल शुरू होनेपर अयोध्यानामक विशाल नगरीमे विजय नामका बड़ा राजा हुआ । उसने समस्त शत्रुओंको जीत लिया था वह सूर्यके समान प्रतापसे संयुक्त था तथा प्रजाका पालन करनेमे निपुण था ॥७३-७४॥ उसकी हेमचूला नामकी महातेजस्विनी पट्टरानी थी सो उसके सुरेन्द्रमन्यु नामका महागुणवान् पुत्र उत्पन्न हुआ ॥७५॥ सुरेन्द्रमन्युकी कीर्तिसमा खी हुई सो उसके चन्द्रमा और सूर्यके समान कान्तिको धारण करनेवाले दो पुत्र हुए । ये दोनों ही पुत्र गुणोंसे सुशोभित

१. शीरुन्ति म० । २. भान्ति म० । ३. स्तुत्यर्चन्ति म० । ४. रुदन्ति च म० । ५. सीव्यन्त्यवन्ति म० । ६. शनै म० । ७. सौर्य -ख० ।

वज्रवाहुस्तयोराद्यो द्वितीयश्च पुरन्दरः । अन्वर्थनामयुक्तौ तौ रेमाते भुवने सुखम् ॥७७॥
 इभवाहननामासीत्तस्मिन् काले नराधिपः । रम्ये नागपुरे तस्य नाम्ना चूडामणिः प्रिया ॥७८॥
 तयोर्दुहितरं चार्वां ख्यातां नाम्ना मनोदयाम् । वज्रवाहुकुमारोऽसौ लेभे श्लाघ्यतमो नृणाम् ॥७९॥
 'तां कन्यां सोदरो नेतुमागादुदयसुन्दरः । सार्धं तेनोच्छ्रितः श्रीमत्सितातपनिवारणः' ॥८०॥
 कन्यां तां रूपतः ख्यातां सकले वसुधातले । मानसेन वहन् भूत्या प्रतस्थे श्वाशुर पुरम् ॥८१॥
 अथास्य व्रजतो दृष्टिर्वसन्तकुसुमाकुले । गिरौ वसन्तसंज्ञाङ्गे^३ निपपात मनोहरे ॥८२॥
 यथा यथा सर्मापत्वं यस्य याति गिरेरसौ । तथा तथा परां लक्ष्मीं पश्यन् हर्षमुपागमत् ॥८३॥
 पुष्पधूलीविमिश्रेण वायुना स सुगन्धिना । समालिङ्गयन्त मित्रेण सम्प्राप्तेन चिरादिव ॥८४॥
 पुंस्कोकिलकलालापैर्जयशब्दमिवाकरोत् । वातकम्पितवृक्षाग्रो वज्रवाहोर्धराधरः^४ ॥८५॥
 वीणाभङ्गाररम्याणां भृङ्गाणां मदशालिनाम् । नादेन श्रवणौ तस्य मानसेन सम हर्ता ॥८६॥
 चूतोऽयं कर्णिकारोऽयं लोभ्रोऽयं कुसुमान्वितः । प्रियालोऽयं पलाशोऽयं ज्वलत्पावकभासुरः ॥८७॥
 व्रजन्तीति क्रमेणास्य दृष्टिर्निश्चलपश्चिमका । सद्विग्धमानुपाकारे पपात मुनिपुङ्गवे ॥८८॥
 स्थाणुः स्याच्छ्रमणोऽयं नु शैलकूटमिदं भवेत् । इति राज्ञो वितर्कोऽभूत् कायोत्सर्गस्थिते मुनिं ॥८९॥
 'नेदीयानसं ततो मार्गं प्रयातस्यास्य निश्चयः । उदपादि महायोगिदेहविन्दनतत्परः ॥९०॥
 उच्चावचशिलाजालविषमेऽवस्थित स्थिरम् । दिवाकरकराश्लिष्टाग्लानवक्त्रसरोरुहम् ॥९१॥

थे । उनमेसे बड़े पुत्रका नाम वज्रवाहु और छोटे पुत्रका नाम पुरन्दर था । दोनों ही सार्थक नामको धारण करनेवाले थे और संसारमें सुखसे क्रीड़ा करते थे ॥७६-७७॥

उसी समय अत्यन्त मनोहर हस्तिनापुर नगरमें इभवाहन नामका राजा रहता था उसकी स्त्रीका नाम चूडामणि था उन दोनोंके मनोदय नामकी अत्यन्त सुन्दरी पुत्री थी सो उसे मनुष्योंमें अत्यन्त प्रशंसनीय वज्रवाहु कुमारने प्राप्त किया ॥७८-७९॥ कदाचित् कन्याका भाई उदयसुन्दर उस कन्याको लेनेके लिए वज्रवाहुके घर गया सो जिसपर अत्यन्त सुशोभित सफेद छत्र लग रहा था ऐसा वज्रवाहु स्वयं भी उसके साथ चलनेके लिए उद्यत हुआ ॥८०॥ वह कन्या अपने सौन्दर्यसे समस्त पृथ्वीमें प्रसिद्ध थी उसे मनमें धारण करता हुआ वज्रवाहु बड़े वैभवके साथ श्वसुरके नगरकी ओर चला ॥८१॥

अथानन्तर चलते-चलते उसकी दृष्टि वसन्त ऋतुके फूलोंसे व्याप्त वसन्त नामक मनोहर पर्वत पर पड़ी ॥८२॥ वह जैसे-जैसे उस पर्वतके समीप आता जाता वैसे-वैसे ही उसकी परम शोभाको देखता हुआ हर्षको प्राप्त हो रहा था ॥८३॥ फूलोंकी धूलिसे मिली सुगन्धित वायु उसका आलिङ्गन कर रही थी सो ऐसा जान पड़ता था मानो चिरकालके बाद प्राप्त हुआ मित्र ही आलिङ्गन कर रहा हो ॥८४॥ जहाँ वृक्षोंके अग्रभाग वायुसे कम्पित हो रहे थे ऐसा वह पर्वत पुंस्कोकिलाओंके शब्दोंके वहाने मानो वज्रवाहुका जय-जयकार ही कर रहा था ॥८५॥ वीणाकी भङ्गारके समान मनोहर मदशाली भ्रमरोंके शब्दसे उसके श्रवण तथा मन साथ-ही-साथ हरे गये ॥८६॥ 'यह आम है, यह कनेर है, यह फूलोंसे सहित लोभ्र है, यह प्रियाल है और यह जलती हुई अग्निके समान सुशोभित पलाश है' इस प्रकार क्रमसे चलती हुई उसकी निश्चल दृष्टि दूरीके कारण जिसमें मनुष्यके आकारका संशय हो रहा था ऐसे मुनिराज पर पड़ी ॥८७-८८॥ कायोत्सर्गसे स्थित मुनिराजके विषयमें वज्रवाहुको वितर्क उत्पन्न हुआ कि क्या यह ठूठ है ? या साधु हैं, अथवा पर्वतका शिखर है ? ॥८९॥ तदनन्तर जब अत्यन्त समीपवर्ती मार्गमें पहुँचा तब उसे निश्चय हुआ कि ये महायोगी-मुनिराज हैं ॥९०॥ वे मुनिराज ऊँची-नीची

१. तं कन्या ख०, व० । तत्कन्या- म० । २. श्रीमान् सितातपनिवारणः म० । ३. सजाके म०
 ४. पर्वतः । ५. मन्दशालिनाम् म० । ६. ततो नेदीयतं मार्गं म०, व०, क०, ख०, ज० ।

प्रलम्बितमहाभोगिभोगभासुरसद्गुजम् । शैलेन्द्रतटसंकाशपीवरोदारवत्सम् ॥६२॥
 दिग्नागवन्धनस्तम्भस्थिरभास्वद्वरोत्कम् । तपसापि कृशं कान्त्या दृश्यमानं सुपीवरम् ॥६३॥
 नासिकाग्रनिविष्टातिसौम्यनिश्चलचक्षुषम् । मुनिं ध्यायन्तमैकाग्रं दृष्ट्वा राजेत्यचिन्तयत् ॥६४॥
 अहो धन्योऽयमत्यन्तं प्रशान्तो मानवोत्तमः । यद्विहायाखिलं सङ्गं तपस्यति मुमुक्षुया ॥६५॥
 विमुक्त्यानुगृहीतोऽयं कल्याणाभिनिविष्टधीः । परपीडानिवृत्तात्मा मुनिर्लक्ष्मीपरिष्कृतः ॥६६॥
 समः सुहृदि शत्रौ च रत्नराशौ वृणे तथा । मानमत्सरनिर्मुक्तः सिद्ध्यालिङ्गनलालसः ॥६७॥
 वशाकृतहृषीकात्मा निष्प्रकम्पो गिरीन्द्रवत् । श्रेयो ध्यायति नीरागः कुशलस्थितमानसः ॥६८॥
 फलं पुष्कलमेतेन लब्धं मानुषजन्मनः । अयं न वञ्चितः क्रूरैः कपायास्त्रैर्मल्लिखुचैः ॥६९॥
 अहं नु वेष्टितः पापः कर्मपाशैरनन्तरम् । आशीविषैर्महानागैर्यथा चन्दनपादपः ॥१००॥
 प्रमत्तचेतसं पापं विग्मां निश्चेतनोपमम् । योऽहं निद्राभिभोगाद्रिमहाभृगुशिरःस्थितः ॥१०१॥
 यदि नाम भजेयैमामवस्थामस्य योगिनः । भवेयं लब्धलब्धव्यस्ततो मानुषजन्मनि ॥१०२॥
 इति चिन्तयतस्तस्य राज्ञो निर्ग्रन्थपुङ्गवे । दृष्टिः स्तम्भनिवद्धेव बभूवात्यन्तनिश्चला ॥१०३॥
 पत्रं निश्चलपद्ममाणं निरोच्योदयसुन्दरः । कुर्वन्नर्म जगादैवं वज्रबाहुं कृतस्मितः ॥१०४॥
 चरं निरोक्षितो देवस्त्वयैव मुनिपुङ्गवः । वृणांये किमिमां दीक्षां रागवानत्र दृश्यसे ॥१०५॥
 वज्रबाहुरथोवोचत् कृतभावनिगूहनः । वर्तते कः पुनर्भावस्तवोदय निवेदय ॥१०६॥

शिलाओंसे विपम धरातलमें स्थिर विराजमान थे, सूर्यकी किरणोंसे आलिङ्गित होनेके कारण उनका मुखकमल म्लान हो रहा था, किसी बड़े सर्पके समान सुशोभित उनकी दोनों उत्तम भुजाएँ नीचेकी ओर लटक रहीं थीं, उनका वक्षःस्थल सुमेरुके तटके समान स्थूल तथा चौड़ा था, उनकी देदीप्यमान दोनों उत्कृष्ट जाँघें दिग्गजोंके बाँधनेके खम्भोंके समान स्थिर थीं, यद्यपि वे तपके कारण कृश थे तथापि कान्तिसे अत्यन्त स्थूल जान पड़ते थे, उन्होंने अपने अत्यन्त सौम्य निश्चल नेत्र नासिकाके अग्रभाग पर स्थापित कर रखे थे, इस प्रकार एकाग्र रूपसे ध्यान करते हुए मुनिराजको देखकर राजा वज्रबाहु इस प्रकार विचार करने लगा कि ॥६१-६४॥ अहो ! इन अत्यन्त प्रशान्त उत्तम मानवको धन्य है जो समस्त परिग्रहका त्यागकर मोक्षकी इच्छासे तपस्या कर रहे हैं ॥६५॥ इन मुनिराज पर मुक्ति लक्ष्मीने अनुग्रह किया है, इनकी बुद्धि आत्मकल्याणमें लीन है, इनकी आत्मा परपीड़ासे निवृत्त हो चुकी है, ये अलौकिक लक्ष्मीसे अलङ्कृत हैं, शत्रु और मित्र, तथा रत्नोंकी राशि और वृणमें समान बुद्धि रखते हैं, मान एवं मत्सरसे रहित हैं, सिद्धिरूपी वधूका आलिङ्गन करनेमें इनकी लालसा बढ़ रही है, इन्होंने इन्द्रियों और मनको वशमें कर लिया, ये सुमेरुके समान स्थिर हैं, वीतराग हैं तथा कुशल कार्यमें मन स्थिर कर ध्यान कर रहे हैं ॥६६-६८॥ मनुष्यमें जन्मका पूर्ण-फल इन्होंने प्राप्त किया है, इन्द्रियरूपी दुष्ट चोर इन्हें नहीं ठग सके हैं ॥६९॥ और मैं ? मैं तो कर्मरूपी पाशोंसे उस तरह निरन्तर वेष्टित हूँ जिस तरह कि आशीविष जातिके बड़े-बड़े सर्पोंसे चन्दनका वृक्ष वेष्टित होता है ॥१००॥ जिसका चित्त प्रमादसे भरा हुआ है ऐसे जड़तुल्य मुझ पापीके लिए धिक्कार है मैं ! भोगरूपी पर्वतकी बड़ी गोलचट्टानके अग्रभाग पर बैठकर सो रहा हूँ ॥१०१॥ यदि मैं इन मुनिराजकी इस अवस्थाको धारण कर सकूँ तो मनुष्य-जन्मका फल मुझे प्राप्त हो जावे ॥१०२॥ इस प्रकार विचार करते हुए राजा वज्रबाहुकी दृष्टि उन निर्ग्रन्थ मुनिराजपर खम्भोंमें बँधी हुई के समान अत्यन्त निश्चल हो गई ॥१०३॥ इस तरह वज्रबाहुको निश्चल दृष्टि देख उदय-सुन्दरने मुसकराकर हँसी करते हुए कहा कि आप इन मुनिराजको बड़ी देरसे देख रहे हैं सो क्या इस दीक्षाको ग्रहण कर रहे हो ? इसमें आप अनुरक्त दिखाई पड़ते हैं ॥१०४-१०५॥ तदनन्तर अपने भावको छिपाकर वज्रबाहुने कहा कि हे उदय ! तुम्हारा क्या भाव है सो तो कहो ॥१०६॥

अन्तर्विरक्तमज्ञात्वा तमाहोदयसुन्दरः । परिहासानुरागेण दन्तांशुच्छुरिताधरः ॥१०७॥
दीक्षाभिमां वृणीषे चेततोऽहमपि ते सखा । अहो विराजसेऽन्यथं कुमार श्रमणश्रिया ॥१०८॥
अस्त्वेवमिति भापित्वा युक्तो वीर्वाहभूषणैः । अवारोहदसौ नागादारोहद्धरणीधरम् ॥१०९॥
ततो वराङ्गनास्तारं रुद्रदुरुलोचनाः । छिन्नमुक्तकलापाभस्थूलनेत्रास्तुविन्दवः ॥११०॥
व्यज्ञापयत् सवाष्पाक्षस्तमथोदयसुन्दरः । प्रसीद देव नमैदं कृत किमनुतिष्ठसि ॥१११॥
उवाच वज्रबाहुस्त मधुरं परिसान्त्वयन् । कल्याणाशयकूपेऽह पतन्नुत्तारितस्त्वया ॥११२॥
भवता सदृश मित्र नास्ति मे भुवनत्रये । जातस्य सुन्दरावश्य मृत्युः प्रेतस्य सभवः ॥११३॥
मृत्युजन्मघटीयन्त्रमेतद्भ्राम्यत्यनारतम् । विद्युत्तरङ्गदुष्टाहिरसनेभ्योऽपि चञ्चलम् ॥११४॥
जगतो दुःखमग्नस्य किन्न पश्यसि जीवितम् । स्वप्नभोगोपमा भोगा जीवित बुद्बुदोपमम् ॥११५॥
सन्ध्यारागोपमः स्नेहस्तारुण्य कुसुमोपमम् । परिहासोऽपि ते भद्र मम जातोऽमृतोपमम् ॥११६॥
परिहासेन कि पीतं नौषध हरते रुजम् । स त्वमेकोऽद्य मे बन्धुर्यः सुश्रेयः प्रवृत्तये ॥११७॥
ससाराचारसक्तस्य प्रतिपन्नोऽसि हेतुताम् । एपोऽह प्रव्रजाम्यद्य कुरु त्व स्वमनीषितम् ॥११८॥
गुणसागरनामान तमुपेत्य तपोधनम् । प्रणम्य चरणानूचे विनीतो रचिताञ्जलिः ॥११९॥
स्वामिन् भवत्प्रसादेन पवित्रीकृतमानसः । अद्य निष्क्रमितु भीमादिच्छामि भवचारकात् ॥१२०॥

उसे अन्तरसे विरक्त न जानकर उदयसुन्दरने परिहासके अनुरागवश दाँतोकी किरणोंसे ओठोंको व्याप्त करते हुए कहा कि ॥१०७॥ यदि आप इस दीक्षाको स्वीकृत करते हैं तो मैं भी आपका सखा अर्थात् साथी होऊँगा । अहो कुमार ! आप इस मुनि दीक्षासे अत्यधिक सुशोभित होओगे ॥१०८॥ 'ऐसा हो' इस प्रकार कहकर विवाहके आभूषणोंसे युक्त वज्रबाहु हाथीसे उतरा और पर्वतपर चढ़ गया ॥१०९॥ तब विशाल नेत्रोंको धारण करनेवाली स्त्रियों जोर-जोरसे रोने लगीं । उनके नेत्रोंसे टूटे हुए मोतियोंके हारके समान आँसुओकी बड़ी-झड़ी बूँदें गिरने लगीं ॥११०॥ उदयसुन्दरने भी आँखोंमें आँसू भरकर कहा कि हे देव ! प्रसन्न होओ, यह क्या कर रहे हो ? मैंने तो हँसी की थी ॥१११॥ तदनन्तर मधुर शब्दोंमें सान्त्वना देते हुए वज्रबाहुने उदयसुन्दरसे कहा कि हे उत्तम अभिप्रायके धारक ! मैं कुँएमें गिर रहा था सो तुमने निकाला है ॥११२॥ तीनों लोकोमें तुम्हारे समान मेरा दूसरा मित्र नहीं है । हे सुन्दर ! संसारमें जो उत्पन्न होता है उसका मरण अवश्य होता है और जो मरता है उसका जन्म अवश्यभावी है ॥११३॥ यह जन्म-मरणरूपी घटीयन्त्र विजली, लहर तथा दुष्ट सर्पकी जिह्वासे भी अधिक चञ्चल है तथा निरन्तर घूमता रहता है ॥११४॥ दुःखमें फँसे हुए संसारके जीवनकी ओर तुम क्यों नहीं देख रहे हो ? ये भोग स्वप्नके भोगोंके समान हैं, जीवन बुद्बुदके तुल्य है, स्नेह सन्ध्याकी लालिमाके समान है और यौवन फूलके समान है । हे भद्र ! तेरी हँसी भी मेरे लिए अमृतके समान हो गई ॥११५-११६॥ क्या हँसीमें पीगई औषधि रोगको नहीं हरती ? चूँकि तुमने मेरी कल्याणकी ओर प्रवृत्ति कराई है इसलिए आज तुम्हीं एक मेरे बन्धु हो ॥११७॥ मैं संसारके आचारमें लीन था सो आज तुम उससे विरक्तिके कारण हो गये । लो, अब मैं दीक्षा लेता हूँ । तुम अपने अभिप्रायके अनुसार कार्य करो ॥११८॥ इतना कहकर वह गुणसागर नामक मुनिराजके पास गया और उनके चरणोंमें प्रणाम कर बड़ी विनयसे हाथ जोड़ता हुआ बोला कि हे स्वामिन् ! आपके प्रसादसे मेरा मन पवित्र हो गया है सो आज मैं इस भयङ्कर संसाररूपी कारागृहसे निकलना चाहता हूँ ॥११९-१२०॥

१. यज्ञत्वात्तमाहो- म०, ज० । -मन्यत्वात्त- ब० । २. कुमारः म० । ३. वैवाह- म० । ४. पीतमौषध म० । ५. विषम् म० । ६. स त्वमेषोद्यमे बन्धु -म० । ७. चरणानूचे म० । ८. संसारकारागृहात् । भवतारकात् म० ।

तत' समाप्तयोगेन गुरुणेत्यनुमोदित । महासवेगसपन्नस्यक्तवस्त्रविभूषणः ॥१२१॥
 पर्यङ्गासनमास्थाय रभसान्वितमानस' । केशापनयनं कृत्वा पल्लवारुणपाणिना' ॥१२२॥
 जानान' प्रलघु देहसुह्लाघमिव तत्क्षणम् । दीक्षा सचक्ष्य' वैवाहीं मोक्षदीक्षामशिष्रियत् ॥१२३॥
 त्यक्तरागमदद्वेषा जातसवोारहस । सुन्दरप्रमुखा वीरा कुमारा मारविभ्रमा ॥१२४॥
 परमोत्साहसम्पन्ना' प्रणम्य मुनिपुङ्गवम् । पङ्क्तिशतिरमा तेन राजपुत्रा प्रववञ्जु ॥१२५॥
 तमुदन्त परिज्ञाय सोदरस्नेहकातरा । वहन्ती पुरुसंवेगमदीक्षिष्ट मनोदया ॥१२६॥
 सितांशुकपरिच्छन्नविशालस्तनमण्डला । अल्पोदरी मलच्छन्ना जाता सातितपस्विनी ॥१२७॥
 विजयस्यन्दनो वार्तां विदित्वा वाज्रवाह्वीम् । शोकार्दितो जगादैव सभामध्यव्यवस्थितः ॥१२८॥
 चित्र पर्यत मे नसा वयसि प्रथमे स्थित' । विषयेभ्यो विरक्तात्मा दीक्षा दैगम्बरीमित ॥१२९॥
 मादृशोऽपि सुदुर्मोक्षैर्वर्षीयान् प्रवणीकृत' । भोगैर्यैस्ते कथ तेन कुमारेण विवर्जिताः ॥१३०॥
 अथवानुगृहीतोऽसौ भाग्यवान्मुक्ति'सम्पदा । भोगान् यस्तृणवत्त्वक्त्वा' शीतीभावे व्यवस्थित' ॥१३१॥
 मन्दभाग्योऽधुना चेष्टां का व्रजामि जरार्दित । सुचिर वञ्चित पापैर्विषयैर्मुखसुन्दरै ॥१३२॥
 इन्द्रनीलांशुसघातसकाशो योऽभवत् कथम् । केशभार स मे जात काशराशिसमद्युति' ॥१३३॥
 सितासितारुणच्छाये नेत्रे ये जनहारिणी । जाते सम्प्रति ते सुभ्रूवर्णाच्छन्नस्ववर्त्मनी ॥१३४॥

तदनन्तर ध्यान समाप्त होनेपर मुनिराजने उसके इस कार्यकी अनुमोदना की । सो महा-
 सवेगसे भरा वज्रवाहु वस्त्राभूषण त्याग कर उनके समक्ष शीघ्र ही पद्मासनसे बैठ गया । उसने
 पल्लवके समान लाल-लाल हाथोंसे केश उखाड़कर फेंक दिये । उसे उस समय ऐसा जान पड़ता
 था मानो उसका शरीर रोगरहित होनेसे हलका हो गया हो । इस तरह उसने विवाह-सम्बन्धी
 दीक्षाका परित्याग कर मोक्ष प्राप्त करानेवाली दीक्षा धारण कर ली ॥१२१-१२३॥ तदनन्तर
 जिन्होंने रागद्वेष और मदका परित्याग कर दिया था, संवेगकी ओर जिनका वेग बढ़ रहा था,
 तथा जो कामके समान सुन्दर विभ्रमको धारण करनेवाले थे, ऐसे उदयसुन्दर आदि छत्वीस
 राजकुमारोंने भी परमोत्साहसे सम्पन्न हो मुनिराजको प्रणाम कर दीक्षा धारण कर ली ॥१२४-
 १२५॥ यह समाचार जानकर भाईके स्नेहसे भीरु मनोदयाने भी बहुत भारी सवेगसे युक्त हो
 दीक्षा ले ली ॥१२६॥ सफेद वस्त्रसे जिसका विशाल स्तनमण्डल आच्छादित था, जिसका उदर
 अत्यन्त कृश था और जिसके शरीरपर मैल लग रहा था ऐसी मनोदया बड़ी तपस्विनी हो
 गई ॥१२७॥

वज्रवाहुके वाचा विजयस्यन्दनको जब उसके इस समाचारका पता चला तब शोकसे
 पीडित होता हुआ वह सभाके बीचमें इस प्रकार बोला कि अहो ! आश्चर्यकी बात देखो, प्रथम
 अवस्थामें स्थित मेरा नाती विषयोसे विरक्त हो दैगम्बरी दीक्षाको प्राप्त हुआ है ॥१२८-१२९॥
 मेरे समान वृद्ध पुरुष भी दुःखसे छोड़ने योग्य जिन विषयोंके अधीन हो रहा है वे विषय उस
 कुमारने कैसे छोड़ दिये ॥१३०॥ अथवा उस भाग्यशालीपर मुक्तिरूपी लक्ष्मीने बड़ा अनुग्रह
 किया है जिससे वह भोगोंको तृणके समान छोड़कर निराकुल भावको प्राप्त हुआ है ॥१३१॥
 प्रारम्भमें सुन्दर दिखनेवाले पापी विषयोंने जिसे चिरकालसे ठगा है तथा जो वृद्धावस्थासे पीड़ित
 है ऐसा मैं अभाग्य इस समय कौन-सी चेष्टाको धारण करूँ ? ॥१३२॥ मेरे जो केश इन्द्रनील
 मणिकी किरणोंके समान श्याम वर्ण थे वे ही आज कासके फूलोंकी राशिके समान सफेद हो गये
 हैं ॥१३३॥ सफेद काली और लाल कान्तिको धारण करनेवाले मेरे जो नेत्र मनुष्योंके मनको हरण
 करनेवाले थे, अब उनका मार्ग भृकुटीरूपी लताओंसे आच्छादित हो गया है अर्थात् अब वे

१. पाणिना म० । २. सचीक्ष्य क० । ३. वज्रवाहुपितामहः विजयस्यन्दिनो म०, ज० । ४. मुक्तसम्पदा
 म० । ५. शान्तीभावे व० । ६. वलीच्छन्नसुवर्त्मनी म०, क० ।

प्रभासमुज्ज्वलः कायो योऽयमासीन्महाबलः । जातः सप्रत्यसौ वर्षाहतचित्रसमच्छविः ॥१३५॥
 अर्थो धर्मश्च कामश्च त्रयस्ते तरुणोचिताः । जरापरीतकायस्य दुष्कराः प्राणधारिणः ॥१३६॥
 धिङ्मामचेतनं पाप दुराचार प्रमादिनम् । अलीकवान्धवस्नेहसागरावर्तवर्तिनम् ॥१३७॥
 हृत्युक्त्वा बान्धवान् सर्वानापृच्छ्य विगतस्पृहः । दत्त्वा पुरन्दरे राज्यं राजा जर्जरविग्रहः ॥१३८॥
 १ पाश्वे निर्वाणघोषस्य निर्ग्रन्थस्य महात्मनः । सुरेन्द्रमन्युना सार्धं प्रवव्राज महामनाः ॥१३९॥
 पुरन्दरस्य तनयमसूत पृथिवीमती । भार्या कीर्तिधराभिख्य विख्यातगुणसागरम् ॥१४०॥
 क्रमेण स प्ररिप्राप्तो यौवनं विनयाधिकः । पृथयन् सर्वबन्धूनां प्रसादं चारुचेष्टया ॥१४१॥
 कौशलस्थनरेन्द्रस्य वृता तस्मै शरीरजा । सुतमुद्वाह्य तां गेहान्निश्चक्राम पुरन्दरः ॥१४२॥
 क्षेमंकरमुनेः पाश्वे प्रव्रज्य गुणभूषणः । तपः कर्तुं समारेभे कर्मनिर्जरकारणम् ॥१४३॥
 कुलक्रमागत राज्यपालयन् जितशात्रवः । रेमे देवोत्तमैर्भोगैः सुखकीर्तिधरो नृपः ॥१४४॥

वंशस्थवृत्तम्

अथान्यदा कीर्तिधरः क्षितीश्वरः प्रजासुबन्धुः कृतभौररातिषु ।
 सुखासनस्थो भवने मनोरमे विराजमानो नलकूबरो यथा ॥१४५॥
 निरीच्य राह्वक्षयनीलतेजसा तिरोहितं भास्करभासमण्डलम् ।
 अचिन्तयत् कष्टमहो न शक्यते विधिर्विनेतु प्रकटीकृतोदयः ॥१४६॥

लताओसे आच्छादित गर्तके समान जान पड़ते हैं ॥१३४॥ मेरा जो यह शरीर कान्तिसे उज्ज्वल तथा महाबलसे युक्त था वह अब वर्षासे ताड़ित चित्रके समान निष्प्रभ हो गया ॥१३५॥ अर्थ, धर्म और काम ये तीनों पुरुषार्थ तरुण मनुष्यके योग्य हैं । वृद्ध मनुष्यके लिए इनका करना कठिन है ॥१३६॥ चेतनाशून्य, दुराचारी, प्रमादी तथा भाई-बन्धुओके मिथ्या स्नेहरूपी सागरकी भँवरमे पड़े हुए मुझ पापीको धिक्कार हो ॥१३७॥ इस प्रकार कहकर तथा समस्त बन्धुजनोसे पूछकर उदारहृदय वृद्ध राजा विजयस्यन्दनने निःस्पृह हो छोटे पोते पुरन्दरके लिए राज्य सौंप दिया और स्वयं निर्वाणघोष नामक निर्ग्रन्थ महात्माके समीप अपने पुत्र सुरेन्द्रमन्युके साथ दीक्षा ले ली ॥१३८-१३९॥

तदनन्तर पुरन्दरकी भार्या पृथिवीमतीने कीर्तिधर नामक पुत्रको उत्पन्न किया । वह पुत्र समस्त प्रसिद्ध गुणोका मानो सागर ही था ॥१४०॥ अपनी सुन्दर चेष्टासे समस्त बन्धुओंकी प्रसन्नताको बढ़ाता हुआ विनयी कीर्तिधर क्रम-क्रमसे यौवनको प्राप्त हुआ ॥१४१॥ तब राजा पुरन्दरने उसके लिए कौशल देशके राजाकी पुत्री स्वीकृत की । इस तरह पुत्रका विवाह कर राजा पुरन्दर विरक्त हो घरसे निकल पड़ा ॥१४२॥ गुणरूपी आभूषणोको धारण करनेवाले राजा पुरन्दरने क्षेमंकर मुनिराजके समीप दीक्षा लेकर कर्मोंकी निर्जराका कारण कठिन तप करना प्रारम्भ किया ॥१४३॥ इधर शत्रुओको जीतनेवाला राजा कीर्तिधर कुल क्रमागत राज्यका पालन करता हुआ देवोंके समान उत्तम भोगोंके साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करने लगा ॥१४४॥

अथानन्तर किसी दिन शत्रुओको भयभीत करनेवाला प्रजा-वत्सल राजा कीर्तिधर, अपने सुन्दर भवनके ऊपर नलकूबर विद्याधरके समान सुखसे बैठा हुआ सुशोभित हो रहा था कि उसकी दृष्टि राहु विमानकी नील कान्तिसे आच्छादित सूर्यमण्डलपर (सूर्यग्रहण) पड़ी । उसे देखकर वह विचार करने लगा कि अहो ! उदयमें आया कर्म दूर नहीं किया जा सकता ॥१४५-१४६॥

उपजातिवृत्तम्

उत्तमार्य यो भीषणमन्धकार करोति निष्कान्तिकमिन्दुविम्बम् ।
अस्मां रयि पद्मवनप्रबोध स्वभानुमुत्सारयितु न शक्त ॥१४७॥
तारुण्यसूर्योऽप्ययमेवमेव प्रणश्यति प्राप्तजरोपराग ।
जन्तुर्वराको वरपाशवद्धो मृत्योरवश्य मुपमभ्युपति ॥१४८॥

उपेन्द्रचक्रावृत्तम्

अनित्यमेतज्जगदेष मत्वा सभाममेतानगदीडमात्यान् ।
मन्मागरा रक्षत भो धरित्रीमह प्रयाग्येष त्रिमुक्तिमार्गम् ॥१४९॥

उपजातिवृत्तम्

दयुक्तमात्रे बुधग्रन्थुपूर्णां सभा विपाद प्रगता तमूचे ।
राजन्ममस्या. पतिरद्वितीयो विराजमे सर्वधसुन्धराया ॥१५०॥
म्यथा वनस्था धरणी त्वयेय न राजते निजितशत्रुपक्षा ।
नचे वयन्युत्तरीरराज्य रुग्ण तावन सुरनाथतुल्यम् ॥१५१॥

वंशस्थवृत्तम्

जगात् राजा भववृक्षमकटा जरावियोगारतिवह्निदीपिताम् ।
निरीदय त्रीर्षां व्यमनाटरीमिमा भय ममायन्तसुरु प्रजायते ॥१५२॥

इन्द्रचक्रावृत्तम्

तन्निश्चित मन्त्रिजनोऽपगम्य विध्यातमद्भारचय महान्तम् ।
धानाग्य मप्येऽप्य मर्गचिरग्य वेदूर्यमस्थापयदत्युदारम् ॥१५३॥

नृप भीषण अन्धकारको नष्ट कर चन्द्रमण्डलको कान्तिहीन कर देता है तथा कमलोके वनको विनमित करता है वह सूर्य राहुको दूर करनेमें समर्थ नहीं है ॥१४७॥ जिस प्रकार यह सूर्य नष्ट हो रहा है उसी प्रकार यह यौवनरूपी सूर्य भी जरारूपी ग्रहणको प्राप्त कर नष्ट हो जावेगा । मजवृत पाशसे बंधा हुआ यह वेचारा प्राणी अवश्य ही मृत्युके मुखमें जाता है ॥१४८॥ इस प्रकार समस्त मन्मार्गको अनित्य मानकर राजा कीर्तिघरने सभामें बैठे हुए मन्त्रियोंसे कहा कि अहो मन्त्री जनों ! इस मागगान्त पृथिवीकी आप लोग रक्षा करो । मैं तो मुक्तिके मार्गमें प्रयाण करता हूँ ॥१४९॥ राजाके ऐसा कहने पर विद्वानो तथा बन्धुजनोंसे परिपूर्ण सभा विपादको प्राप्त हो उसमें इस प्रकार बोली कि हे राजन् ! इस समस्त पृथिवीके तुम्हीं एक अद्वितीय पति हो ॥१५०॥ यह पृथिवी आपके आधीन है तथा आपने समस्त शत्रुओंको जीता है, इसलिए आपके छोड़नेपर सुशोभित नहीं होगी । हे उन्नत पराक्रमके धारक ! अभी आपकी नई अवस्था है इमलिए इन्द्रके समान राज्य करो ॥१५१॥

इसके उत्तरमें राजाने कहा कि जो जन्मरूपी वृक्षांसे संकुल है, व्याप्त है, चुढापा, वियोग तथा अग्निरूपी अग्निसे प्रज्वलित है, तथा अत्यन्त दीर्घ है ऐसी इस व्यसनरूपी अटवीकी देखकर मुझे भारी भय उत्पन्न हो रहा है ॥१५२॥ जब मन्त्रीजनोंको राजाके दृढ निश्चयका बोध हो गया तब उन्होंने बहुतसे बुझे हुए अगारोका समूह बुझाकर उसमें किरणोंसे सुशोभित उत्तम वैदूर्यमणि रक्मना सो उसके प्रभावसे वह बुझे हुए अगारोका समूह प्रकाशमान हो

उपेन्द्रवज्रावृत्तम्

पुनस्तदुद्बृत्य जगाद् राजन् यथामुनां रत्नवरेण हीनः ।
न शोभतेऽङ्गार कलाप एव त्वया विनेदं भुवनं तथैव ॥१५४॥

उपजातिवृत्तम्

नाथ त्वयेमा विकला विनाथा प्रजा विनश्यन्त्यखिला वराक्यः ।
प्रजासु नष्टासु तथैव धर्मो धर्मे विनष्टे वद किं न नष्टम् ॥१५५॥
तस्माद्यथा ते जनकः प्रजाभ्यो दत्त्वा भवन्तं परिपालनाय ।
तपोऽकरोन्निरृतिदानदत्तं^१ तथा भवान् रक्षतु गोत्रधर्मम् ॥१५६॥
अथैवमुक्तः कुशलैरमात्यैरवग्रहं^२ कीर्तिधरश्चकार ।
श्रुत्वा प्रजातं तनयं प्रपत्स्ये^३ ध्रुवं मुनीनां पदमप्युदारम्^४ ॥१५७॥
ततः स शक्रोपमभोगवीर्यः स्फीतां व्यवस्थामहतीं धरित्रीम् ।
सुखं शशासाखिलर्भातिमुक्तां स भूरिकालं सुसमाहितात्मा ॥१५८॥

उपेन्द्रवज्रावृत्तम्

चिरं ततः कीर्तिधरेण साकं सुखं भजन्ती सहदेवदेवी ।
क्रमेण संपूर्णगुणं प्रसूता सुतं धरित्रीधरणे समर्थम् ॥१५९॥

उपजातिवृत्तम्

समुत्सवस्तत्र कृतो न जाते मागाद्धरित्रीपतिकर्णजाहम् ।
वातेति कांश्चिद्विवसान्निगूढः कालः कथञ्चित्सवस्य जातः ॥१६०॥

गया ॥१५३॥ तदनन्तर वह रत्न उठाकर बोले कि हे राजन् ! जिस प्रकार इस उत्तम रत्नसे रहित अंगारोंका समूह शोभित नहीं होता है उसी प्रकार आपके विना यह संसार शोभित नहीं होगा ॥१५४॥ हे नाथ ! तुम्हारे विना यह बेचारी समस्त प्रजा अनाथ तथा विकल होकर नष्ट हो जायगी । प्रजाके नष्ट होने पर धर्म नष्ट हो जायगा और धर्मके नष्ट होने पर क्या नहीं नष्ट होगा सो तुम्हीं कहो ॥१५५॥ इसलिए जिस प्रकार आपके पिताने प्रजाकी रक्षाके लिए आपको देकर मोक्ष प्रदान करनेमें दत्त तपश्चरण किया था उसी प्रकार आप भी अपने इस कुलधर्मकी रक्षा कीजिए ॥१५६॥

अथानन्तर कुशल मन्त्रियोंके इस प्रकार कहने पर राजा कीर्तिधरने नियम किया कि जिस समय मैं पुत्रको उत्पन्न हुआ सुनूँगा उसी समय मुनियोंका उत्कृष्ट पद अवश्य धारण कर लूँगा ॥१५७॥ तदनन्तर जिसके भोग और पराक्रम इन्द्रके समान थे तथा जिसकी आत्मा सदा सावधान रहती थी ऐसे राजा कीर्तिधरने सब प्रकारके भयोंसे रहित तथा व्यवस्थासे युक्त दीर्घ पृथ्वीका चिरकाल तक पालन किया ॥१५८॥ तदनन्तर राजा कीर्तिधरके साथ चिरकाल तक सुखका उपभोग करती हुई रानी सहदेवीने सर्वगुणोंसे परिपूर्ण एवं पृथ्वीके धारण करनेमें समर्थ पुत्रको उत्पन्न किया ॥१५९॥ पुत्र जन्मका समाचार राजाके कानों तक न पहुँच जावे इस भयसे पुत्र जन्मका उत्सव नहीं किया गया तथा इसी कारण कितने ही दिन तक प्रसवका

१. दानदत्तं म० । १. प्रतिज्ञां म० । ३. प्रश्ये म०, ज०, ख० । ४. पदमप्युदारं म० । पदमप्यु-
दारः ज० । पदमप्युदाराः व० ।

वंशस्थवृत्तम्

तत समुद्यद्विवमप्रभूपमञ्चिर स शक्य कथमेव गोपितुम् ।
निवेदितो दुर्विधिनातिट्ट सिना नृपाय केनापि नरेण निश्चितः ॥१६१॥

उपजातिवृत्तम्

तस्मै नरेन्द्रो मुकुटादि लघो विभूषण सर्वमदान्महात्मा ।
घोषारण्यजापानगर च रम्य महाधनग्रामशतेन युक्तम् ॥१६२॥
पुत्र ममानाय्य च पद्मजात स्थित महातेजसि मातुरङ्गे ।
भक्तिद्विपद्मविभूतियुक्त निजे पत्रे पूजितसर्वलोकः ॥१६३॥
जाने यतन्तत्र बभूव रम्या पुरी विभूत्या किल कोशलाख्या ।
मुकोशलाख्या स जगाम तस्माद् तालः समस्ते भुवने सुचेष्टः ॥१६४॥

वंशस्थवृत्तम्

ततो त्रिनिष्कय निवासचारकादशिक्षियतकीर्तिधरस्तपोवनम् ।
तपोभवेनेप रराज तेजसा घनागमोन्मुक्ततनुर्यथा रविः ॥१६५॥

इत्याहं रविपेणाचार्यप्रोक्तो पद्मचरिते सुव्रत-वज्रचाहु-कीर्तिमाहात्म्यवर्णन
नामकविशतितम पर्व ॥२१॥



समय गुप्त रक्ष्या गया ॥१६०॥ तदनन्तर उगते हुए सूर्यके समान वह बालक चिरकाल तक छिपाकर कैसे रक्ष्या जा सकता था ? फलस्वरूप किसी दरिद्र मनुष्यने पुरस्कार पानेके लोभसे राजाको उमकी खबर दे दी ॥१६१॥ राजाने हर्षित होकर उमके लिए मुकुट आदि दिये तथा विपुल धनसे युक्त सौ गावोंके साथ घोष नामका मनोहर शाखानगर दिया ॥१६२॥ और मानाकी महा तेजपूर्ण गोदमे स्थित उम एक पक्षके बालकको बुलवाकर उसे बड़े वैभवके साथ अपने पदपर बंटाया तथा सब लोगोका सन्मान किया ॥१६३॥ चूँकि उसके उत्पन्न होने पर वह कोमला नगरी वैभवसे अत्यन्त मनोहर हो गई थी इसलिए उत्तम चेष्टाओको धारण करनेवाला वह बालक 'मुकोशल' उम नामको प्राप्त हुआ ॥१६४॥

तदनन्तर राजा कीर्तिधर भवनरूपी कारागारसे निकलकर तपोवनमे पहुँचा और तप सम्यन्धी तेजसे वर्षाकालमे रहित सूर्यके समान अत्यन्त सुशोभित होने लगा ॥१६५॥

इस प्रकार आर्य नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्यके द्वारा कथित पद्मचरितमें भगवान् मुनिमुव्रतनाथ, वज्रचाहु तथा राजा कीर्तिधरके माहात्म्यको वर्णन करनेवाला इनकीसवों पर्व समाप्त हुआ ॥२१॥



द्वाविंशतितमं पर्व

अथ घोरतपोधारी ^१धरातुल्यक्षमः प्रभुः । मलकञ्चुकसर्वातो ^२वीतमानो महामनाः ॥१॥
 तपःशोपितसर्वाङ्गो धीरो लुब्धविभूषणः । प्रलग्नितमहाबाहुयुगाध्वन्यस्तलोचनः ॥२॥
 स्वभावान्मत्तनागेन्द्रमन्थरायणविभ्रमः । निर्विकारः समाधानी विनीतो लोभवर्जितः ॥३॥
^४अनुसूत्रसमाचारो दयाविमलमानसः । स्नेहपङ्कविनिर्मुक्तः श्रमणश्रीसमन्वितः ॥४॥
 गृहपङ्क्तिक्रमप्राप्त आभ्यन्नात्मन्चर ^५गृहम् । मुनिर्विवेश भिक्षार्थं चिरकालोपवासवान् ॥५॥
 निरीक्ष्य ^६सहदेवीं त गवाक्षनिहितेक्षणा । परम क्रोधमायाता विस्फुरह्योहितानना ॥६॥
 प्रतीहारगणानूचे कुञ्चितोष्ठी दुराशया । श्रमणो गृहभजोऽयमाशु निर्वास्यतामिति ॥७॥
 मुग्धः सर्वजनप्रीतः स्वभावमृदुमानसः । यावन्निराक्षते ^७नैनं कुमारः सुकुमारकः ॥८॥
 अन्यानपि यदीक्षे तु भवने नग्नमानवान् । निग्रहं वः करिष्यामि प्रतीहारा न सशयः ॥९॥
 परित्यज्य दयामुक्तो गतोऽसौ शिशुपुत्रकम् । यतः प्रभृति नामीषु तदारभ्य धृतिर्मम ॥१०॥
^८राज्यश्रियं द्विपन्थ्येते महाशूरनिपेविताम् । नयन्त्यत्यन्तनिर्वेदं महोद्योगपरान्नरान् ॥११॥
 क्रूरैरित्युदितैः क्षिप्रं दुर्वाक्यं ^९जनिताननैः । दूरं निर्धारितो ^{१०}योगी वेत्र ^{११}ग्राहितपाणिभिः ॥१२॥

अथानन्तर जो घोर तपस्वी थे, पृथ्वीके समान क्षमाके धारक थे, प्रभु थे, जिनका शरीर मैलरूपी कञ्चुकसे व्याप्त था, जिन्होंने मानको नष्ट कर दिया था, जो उदार हृदय थे, जिनका समस्त शरीर तपसे सूख गया था, जो अत्यन्त धीर थे, केश लोच करनेको जो आभूषणके समान समझते थे, जिनकी लम्बी भुजाएँ नीचेकी ओर लटक रही थीं, जो युगप्रमाण अर्थात् चार हाथ प्रमाण मार्गमें दृष्टि डालते हुए चलते थे, जो स्वभावसे ही मत्त हाथीके समान मन्दगतिसे चलते थे, विकार-शून्य थे, समाधान अर्थात् चित्तकी एकाग्रतासे सहित थे, विनीत थे, लोभरहित थे, आगमानकूल आचारका पालन करते थे, जिनका मन दयासे निर्मल था, जो स्नेहरूपी पङ्कसे रहित थे, मुनिपदरूपी लक्ष्मीसे सहित थे और जिन्होंने चिरकालका उपवास धारण कर रक्खा था, ऐसे कीर्तिधर मुनिराज भ्रमण करते हुए गृहपङ्क्तिके क्रमसे प्राप्त अपने पूर्व घरमें भिक्षाके लिए प्रवेश करने लगे ॥१-५॥ उस समय उनकी गृहस्थावस्थाकी स्त्री सहदेवी क्रोडसे दृष्टि लगाये खड़ी थी सो उन्हें आते देख परमक्रोधको प्राप्त हुई । क्रोधसे उसका मुँह लाल हो गया । ओंठ चाबती हुई उस दुष्टाने द्वारपालोसे कहा कि यह मुनि घरको फोड़ने वाला है इसलिए यहाँसे शीघ्र ही निकाल दिया जाय ॥६-७॥ मुग्ध, सर्वजन प्रिय और स्वभावसे ही कोमल चित्तका धारक, सुकुमार कुमार जबतक इसे नहीं देखता है तबतक शीघ्र ही दूर कर दो । यही नहीं यदि मैं और भी नग्न मनुष्योंको महलके अन्दर देखूँगी तो हे द्वारपालो ! याद रक्खो मैं अवश्य ही तुम्हें दण्डित करूँगी । यह निर्दय जबसे शिशुपुत्रको छोड़कर गया है तभीसे इन लोगोमें मेरा सन्तोष नहीं रहा ॥८-१०॥ ये लोग महा शूर वीरोसे सेवित राज्यलक्ष्मीसे द्वेष करते हैं तथा महान् उद्योग करनेमें तत्पर रहनेवाले मनुष्योंको अत्यन्त निर्वेद प्राप्त करा देते हैं ॥११॥ सहदेवीके इस प्रकार कहनेपर जिनके मुखसे दुर्वाचन निकल रहे थे तथा जो हाथमें वेत्र धारण कर रहे थे

१. धरातुल्यः म० । २. सर्वातोवीतमानो म०, ज० । ३. नागेन्द्र म०, व० । ४. अनुस्नात व० । ५. नात्मवर म० । ६. कीर्तिधरपत्नी । ७. निरीक्ष्यते म० । ८. राजश्रिय व०, क० । ९. दुर्वाक्याद्वालिताननैः क० । दुर्वाक्य जनिताननैः व० । १०. निर्वासितो म० । ११. वेशग्राहित- म० ।

अन्येऽपि लिङ्गिन सर्वे पुरात्रिर्वाग्नितास्तदा । कुमारो धर्मगच्छ मा श्रीपीडिति नृपास्पदे ॥१३॥
 इति सततच्यमाण त वाग्वास्या मुनिपुङ्गवम् । श्रुत्वा दृष्ट्वा च सजातप्रत्यग्रौदारणोक्तिका ॥१४॥
 स्वामिन प्रत्यभिज्ञाय भक्ता कीर्तिधर चिरात् । धात्री सौकोशली दीर्घमरोर्दन्मुक्तकण्ठिका ॥१५॥
 श्रुत्वा ता रुदतीमाशु समागत्य सुकोशल । जगाद सान्त्वयन्मात' केन तेषुकृत वद ॥१६॥
 गर्भधारणमात्रेण जनन्या ममजुष्टितम् । त्वत्पयोमयमेतत्तु शरीर जातमीदृशम् ॥१७॥
 सा मे त्व जननीतोऽपि पर गौरवमाश्रिता । वदापमानिता केन मृत्युवक्त्र विविक्षुणा ॥१८॥
 अद्य मे त्व जनन्यापि परिभूता भवेद्यदि । करोम्यविनय तस्या जन्तोर्न्यस्य किं पुनः ॥१९॥
 ततस्तस्मै समाख्यात वसन्तलतया तया । कृच्छ्रेण विरलीकृत्य नेत्राम्बुप्लवसन्तितम् ॥२०॥
 अभिपिच्य शिशुं राज्ये भवन्त यस्तपोवनम् । प्रविष्टस्ते पिता भीता भवव्यसनपञ्जरात् ॥२१॥
 भिक्षार्थमागत' मोऽद्य प्रविष्टो भवतो गृहम् । जनन्यास्ते नियोगेन प्रतिहारैर्निराकृत ॥२२॥
 दृष्ट्वा निर्धार्यमाण त जातशोकोरुवेलया । रुदित मयका वत्स शोक वर्तुमगच्छया ॥२३॥
 भवद्गौरवदृष्ट्याया कुरुते क पराभवम् । मम कारणमेतत्तु कथित रुदितस्य ते ॥२४॥
 प्रसादस्तेन नाथेन तद्र'स्माकमकारि य । स्मर्यमाण' शरीर म दहत्येप निरङ्कुशः ॥२५॥
 धृतमेतद्रपुण्यैर्मे शरीर दु ग्भजनम् । वियोगे तस्य नाथस्य ध्रियते यदयोमयम् ॥२६॥

ऐसे दुष्ट द्वारपालोंने उन मुनिराजको दूरसे ही शीघ्र निकाल दिया ॥१२॥ इन्हें ही नहीं, 'राज-
 भवनमें विद्यमान राजकुमार धर्मका शब्द न सुन ले' इस भयसे नगरमें जो और भी मुनि
 विद्यमान थे उन सबको नगरसे बाहर निकाल दिया ॥१३॥

इस प्रकार वचनरूपी वसूलोके द्वारा छीले हुए मुनिराजको सुनकर तथा देखकर जिसका
 भारी शोक फिरसे नवीन हो गया था, तथा जो भक्तिसे युक्त थी ऐसी सुकोशलकी धाय चिर-
 काल बाद अपने स्वामी कीर्तिधरको पहचानकर गला फाड़-फाड़ कर रोने लगी ॥१४-१५॥ उसे
 रोती सुनकर सुकोशल शीघ्र ही उसके पास आया और सान्त्वना देता हुआ बोला कि हे माता !
 कह तेरा अपकार किसने किया है ? ॥१६॥ माताने तो इस शरीरको गर्भमात्रमें ही धारण किया
 है पर आज यह शरीर तेरे दुग्ध-पानसे ही इस अवस्थाको प्राप्त हुआ है ॥१७॥ तू मेरे लिए
 मातासे भी अधिक गौरवको धारण करती है । वता, यमराजके मुखमें प्रवेश करनेकी इच्छा
 करनेवाले किस मनुष्यने तेरा अपमान किया है ? ॥१८॥ यदि आज माताने भी तेरा पगभव
 किया होगा तो मैं उमकी अविनय करनेको तैयार हूँ फिर दूसरे प्राणीकी तो बात ही क्या है ?
 ॥१९॥ तदनन्तर वसन्तलता नामक धायने बड़े दुःखसे आँसुओंकी धाराको कम कर सुकोशलसे
 कहा कि तुम्हारा जो पिता शिशु अवस्थामें ही तुम्हारा राव्याभिपेक कर संभाररूपी दु खदायी
 पञ्जरसे भयभीत हो तपोवनमें चला गया था आज वह भिक्षाके लिए आपके घरमें प्रविष्ट हुआ
 सो तुम्हारी माताने अपने अधिकारसे उसे द्वारपालोके द्वारा अपमानित कर बाहर निकलवा
 दिया ॥२०-२१॥ उसे अपमानित होते देख मुझे बहुत शोक हुआ और उस शोकको मैं रोक
 नहीं सकी । इसलिए हे वत्स ! मैं रो रही हूँ ॥२३॥ जिसे आप सदा गौरवसे देखते हैं उसका
 पराभव कौन कर सकता है ? मेरे रोनेका कारण यही है जो मैंने आपसे कहा है ॥२४॥ उस
 समय स्वामी कीर्तिधरने हमारा जो उपकार किया था वह स्मरणमें आते ही शरीरको स्वतन्त्रतासे
 जलाने लगता है ॥२५॥ पापके उदयसे दु खका पात्र बननेके लिए ही मेरा यह शरीर रुका हुआ है ।
 जान पड़ता है कि यह लोहेसे बना है इसलिए तो स्वामीका वियोग होनेपर भी स्थिर है ॥२६॥

निर्ग्रन्थं भवतो दृष्ट्वा साभूक्तिर्वेदधीरिति । तपस्विनां प्रवेशोऽस्मिन्नगरेऽपि निवारितः ॥२७॥
 गोत्रे परम्परायातो धर्मोऽय भवतां किल । राज्ये यत्तनय न्यस्य तपोवननिषेवणम् ॥२८॥
 किं नास्मादपि जानासि मन्त्रिणां सम्प्रधारणम् । न कदाचिदतो गेहाह्लभसे यद्विनिर्गमम् ॥२९॥
 एतस्मात् कारणात् सर्वं बाह्यालीभ्रमणादिकम् । अमात्यैः कृतमत्रैव भवने नयशालिभिः ॥३०॥
 ततो निगम्य वृत्तान्त सकलं तन्निवेदितम् । अवतीर्य त्वरायुक्तः प्रासादाग्रात् सुकोशलः ॥३१॥
 परिशिष्टात्पत्रादिपृथिवीपतिलान्धनः । पद्मकोमलकान्तिभ्यां चरणाभ्यां श्रियान्वितः ॥३२॥
 इतो वरमुनिर्दष्टो भवद्भिरिति नाडवान् । परमोत्कण्ठया युक्तः संप्राप^१ पितुरन्तिकम् ॥३३॥
 अस्यानुपदर्वाभूता महासंभ्रमसगताः । छत्रधारादयः सर्वे व्याकुलीभूतचेतसः ॥३४॥
 निविष्ट प्रासुकोदारे प्रवरेऽमु शिलातले । बाष्पाकुलविशालाक्षिः परीत्य सुभावनः ॥३५॥
 करयुग्मान्तिक कृत्वा मूर्धानं स्नेहनिर्भरः । ननाम पादयोजानुमस्तकस्पृष्टभूतलः ॥३६॥
 कृताञ्जलिरथोवाच विनयेन पुरस्थितः । ब्रीडामिव परिप्राप्तो मुनेर्गेहादपाकृतेः ॥३७॥
 अग्निज्वालाकुलागारे सुप्तः कश्चिन्नरो यथा । बोध्यते पटुनादेन समूहेन पयोमुचाम् ॥३८॥
 तद्द्रसंसारगेहेऽहं मृत्युजन्माग्निदीपिते । मोहनिद्रापरिष्वक्तो बोधितो भवता प्रभो ॥३९॥
 प्रसादं कुरु मे दीक्षां प्रयच्छ स्वयमाश्रिताम् । मामप्युत्तारयामुष्माद् भवव्यसन संकटात् ॥४०॥
 ब्रवीति यावदेतावन्नतवक्त्रः सुकोशलः । तावत्सामन्तलोकोऽस्य समस्तः समुपागतः ॥४१॥

निर्ग्रन्थ मुनिको देखकर तुम्हारी बुद्धि वैराग्यमय न हो जावे इस भयसे नगरमें मुनियोका प्रवेश रोक दिया गया है ॥२७॥ परन्तु तुम्हारे कुलमें परम्परासे यह धर्म चला आया है कि पुत्रको राज्य देकर तपोवनकी सेवा करना ॥२८॥ तुम कभी घरसे बाहर नहीं निकल सकते हो इतनेसे ही क्या मन्त्रियोंके इस निश्चयको नहीं जान पाये हो ॥२९॥ इसी कारण नीतिके जाननेवाले मन्त्रियोंने तुम्हारे भ्रमण आदिकी व्यवस्था इसी भवनमें कर रखी है ॥३०॥

तदनन्तर वसन्तलता धायके द्वारा निरूपित समस्त वृत्तान्त सुनकर सुकोशल शीघ्रतासे महलके अग्रभागसे नीचे उतरा ॥३१॥ और छत्र चमर आदि राज-चिह्नोंको छोड़कर कमलके समान कोमल कान्तिको धारण करनेवाले पैरोसे पैदल ही चल पड़ा । वह लक्ष्मीसे मुशोभित था तथा मार्गमें लोगोंसे पूछता जाता था कि यहाँ कहीं आप लोगोंने उत्तम मुनिराजको देखा है ? इस तरह परम उत्कण्ठासे युक्त सुकोशल राजकुमार पिताके समीप पहुँचा ॥३२-३३॥ इसके जो छत्र धारण करनेवाले आदि सेवक थे वे सब व्याकुल चित्त होते हुए हड़बड़ाकर उसके पीछे दौड़ते आये ॥३४॥ जाते ही उसने प्रासुक विशाल तथा उत्तम शिलातल पर विराजमान अपने पिता कीर्तिधर मुनिराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं । उस समय उसके नेत्र आँसुओंसे व्याप्त थे, और उसकी भावनाएँ अत्यन्त उत्तम थीं ॥३५॥ उसने दोनों हाथ जोड़कर मस्तकसे लगाये तथा घुटनों और मस्तकसे पृथिवीका स्पर्श कर बड़े स्नेहके साथ उनके चरणोंमें नमस्कार किया ॥३६॥ वह हाथ जोड़कर विनयसे मुनिराजके आगे बैठ गया । अपने घरसे मुनिराजका तिरस्कार होनेके कारण मानो वह लज्जाको प्राप्त हो रहा था ॥३७॥ उसने मुनिराजसे कहा कि जिस प्रकार अग्निकी ज्वालाओंसे व्याप्त घरमें सोते हुए मनुष्योंको तीव्र गर्जनासे युक्त मेघोंका समूह जगा देता है उसी प्रकार जन्म मरणरूपी अग्निसे प्रज्वलित इस संसाररूपी घरमें मैं मोहरूपी निद्रासे आलिङ्गित होकर सो रहा था सो हे प्रभो ! आपने मुझे जगाया है ॥३८-३९॥ आप प्रसन्न हूजिये तथा आपने स्वयं जिस दीक्षाको धारण किया है वह मेरे लिए भी दीजिये । हे भगवन् ! मुझे भी इस संसारके व्यसनरूपी संकटसे बाहर निकालिए ॥४०॥ नीचेकी ओर मुख किये सुकोशल जत्र तक मुनिराजसे यह कह रहा था तब तक उसके समस्त

१. संप्रापयितुरन्तिकम् म० । २. मामप्युत्तारयामुष्माद्- म० ।

कृच्छ्रेण दधती गर्भमन्तःपुरसमन्विता । प्राप्ता विचित्रमालाख्या देवी चास्य विपादिनी ॥४२॥
 तं द्रीक्षाभिमुखं ज्ञात्वा भृङ्गभाङ्गारकोमलः । अन्तःपुरात् समुत्तस्थौ सम रुदितनिःस्वनः ॥४३॥
 स्याद्विचित्रमालाया गर्भोऽस्य तनयस्ततः । राज्यमस्मै मया दत्तमिति सभाप्य नि स्पृह ॥४४॥
 आशापाण समुच्छिद्य निर्दंष्ट स्नेहपङ्जरम् । कलत्रनिगढ भित्त्वा त्यक्त्वा राज्यं तृणं यथा ॥४५॥
 अलकारान् समुत्सृज्य ग्रन्थमन्तर्दहिःस्थितम् । पर्यङ्कासनमास्थाय लुञ्जित्वा केशसचयम् ॥४६॥
 महाव्रतान्युपाटाय गुरोर्गुरुविनिश्चयः । पित्रा साकं प्रशान्तात्मा विजहार सुकोशल ॥४७॥
 कुर्वन्निव वलि पद्मै पादारुणमरीचिभिः । सभ्राभ्यन् धरणीं योग्या विस्मितैरीक्षितो जनैः ॥४८॥
 आर्तध्यायेन मरुपूर्णा सहदेवी मृता सर्ता । तिर्यग्योनो समुत्पन्ना दुर्दृष्टिः पापतत्परा ॥४९॥
 तयोर्विहरतोर्युक्तं यत्रास्तमितशायिनोः । कृष्णार्कुर्वन् दिशा चक्रमुपतस्थौ घनागम ॥५०॥
 नभः पयोमुचा व्रातेरनुलिप्तमिवासितैः । बलाकाभिः क्वचिच्चक्रे कुमुदौघैरिवाचर्चनम् ॥५१॥
 कदम्बस्थूलमुकुलः कण्ठभृङ्गकदम्बकः । पयोदकालराजस्य यशोगानमिवाकरोत् ॥५२॥
 नीलाञ्जनचर्यैव्यास जगत्सुहृन्नगैरिव । चन्द्रसूर्यौ गतौ क्वापि तर्जिताविच गजितैः ॥५३॥
 अन्धिज्जलधाराभिर्द्वर्तवै नभस्तलम् । तोपाद्विचोत्तमान् मह्यां शण्पकञ्चुकमावृतम् ॥५४॥

सामन्त वहाँ आ पहुँचे ॥४१॥ सुकोशलकी स्त्री विचित्रमाला भी गर्भके भारको धारण करती, विपाद्भरी, अन्तःपुरके साथ वहाँ आ पहुँची ॥४२॥ सुकोशलको द्रीक्षाके सन्मुख जानकर अन्तःपुरसे एक साथ भ्रमरकी भाँकारके समान कोमल रोनेकी आवाज उठ पड़ी ॥४३॥

तदनन्तर सुकोशलने कहा कि 'यदि विचित्रमालाके गर्भमे पुत्र है तो उसके लिए मैंने राज्य दिया' इस प्रकार कहकर उसने निःस्पृह हो, आशारूपी पाशको छेदकर, स्नेहरूपी पजरको जलाकर, स्त्रीरूपी वेडीको तोड़कर, राज्यको तृणके समान छोड़कर, अलंकारोका त्यागकर अन्तरङ्ग वहिर्द्वार दोनो प्रकारके परिग्रहका उत्सर्ग कर, पर्यङ्कासनसे बैठकर, केशोंका लोचकर पितासे महाव्रत धारण कर लिये । और दृढ निश्चय हो शान्त चित्तसे पिताके साथ विहार करने लगा ॥४४-४७॥ जत्र वह विहारके योग्य पृथिवी पर भ्रमण करता था तब पैरोकी लाल-लाल किरणोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो कमलोका उपहार ही पृथिवी पर चढ़ा रहा हो । लोग उसे आश्चर्यभरे नेत्रोंसे देखते थे ॥४८॥

मिथ्यादृष्टि तथा पाप करनेमे तत्पर रहने वाली सहदेवी आर्तध्यानसे मरकर तिर्यञ्च योनि मे उत्पन्न हुई ॥४९॥ इस प्रकार पिता-पुत्र आगमानुकूल विहार करते थे । विहार करते-करते जहाँ सूर्य अस्त हो जाता था वे वहीं सो जाते थे । तदनन्तर दिशाओंको मलिन करता हुआ वर्षा काल आ पहुँचा ॥५०॥ काले-काले मेघोंके समूहसे आकाश ऐसा जान पड़ने लगा मानो गोबरसे लीपा गया हो और कहीं-कहीं उड़ती हुई बलाकाओंसे ऐसा जान पड़ता था मानो उसपर कुमुदोंके समूहसे अर्चा ही की गई हो ॥५१॥ जिनपर भ्रमर गुञ्जार कर रहे थे ऐसी कदम्बकी बड़ी-बड़ी व्राडियों ऐसी जान पड़ती थीं मानो वर्षाकालरूपी राजाका यशोगान ही कर रहे हो ॥५२॥ जगत् ऐसा जान पड़ता था मानो ऊँचे-ऊँचे पर्वतोंके समान नीलाञ्जनके समूहसे ही व्याप्त हो गया हो और चन्द्रमा तथा सूर्य कहीं चले गये थे मानो मेघोंकी गर्जनासे तर्जित होकर ही चले गये थे ॥५३॥ आकाशतलसे अखण्ड जलधारा बरस रही थी सो उससे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशतल पिघल-पिघल कर बह रहा हो और पृथिवीमे हरी-हरी घास उग रही थी उससे ऐसा जान पड़ता था मानो उसने सतोपसे घासरूपी कञ्चुक (चोलो) ही पहिन रक्खी हो ॥५४॥

जनितं जलपूरेण समं सर्वं नतोन्नतम् । अतिवेगप्रवृत्तेन प्रखलस्येव चेतसा ॥५५॥
 भूमौ गर्जन्ति तोयौघा विहायसि घनाघनाः । अन्विष्यन्त इवारातिं निदाघसमयं द्रुतम् ॥५६॥
 कन्दलैनिविडैश्छन्ना धरा निर्भरशोभिनः । अत्यन्तजलभारेण पतिता जलदा इव ॥५७॥
 स्थलीदेशेषु दृश्यन्ते स्फुरन्तः शक्रगोपकाः^३ । घनचूर्णितसूर्यस्य खण्डा इव महीं गताः ॥५८॥
 चचार वैद्युतं तेजो दिक्षु सर्वासु सत्वरम् । पूरितापूरितं देशं पश्यच्चक्षुरिवाम्बरम् ॥५९॥
 मण्डितं शक्रचापेन गगनं चित्रतेजसा । अत्यन्तोन्नतियुक्तेन तोरणेनेव चारुणा ॥६०॥
 कूलद्वयनिपातिन्धो भीमावर्ता महाजवाः । वहन्ति कलुषा नद्यः स्वच्छन्दप्रमदा इव ॥६१॥
 घनाघनरवत्रस्ता हरिणीचकितेक्षणा । आल्लिलिङ्गुद्भुतं स्तम्भान्नायः प्रोपितभर्तृकाः ॥६२॥
 गर्जितेनातिरौद्रेण जर्जरकृतचेतनाः । प्रोपिता विह्वलीभूताः प्रमदाशाहितेक्षणाः ॥६३॥
 अनुकम्पापराः शान्ता निर्ग्रन्थमुनिपुङ्गवाः । प्रासुकस्थानमासाद्य चातुर्मासीव्रतं श्रिताः ॥६४॥
 गृहीतां श्रावकैः शक्त्या नानानियमकारिभिः । दिग्विरामव्रतं साधुसेवात्त्परमानसैः ॥६५॥
 एवं महति संप्राप्ते समये जलदाकुले । निर्ग्रन्थौ तौ पितापुत्रौ यथोक्ताचारकारिणौ ॥६६॥
 वृत्तान्धकारगम्भीरं बहुव्यालसमाकुलम् । गिरिपादमहादुर्गं रौद्राणामपि भीतिदम् ॥६७॥

जिस प्रकार अतिशय दुष्ट मनुष्यका चित्त ऊँचीनीच सबको समान कर देता है उसी प्रकार वेगसे वहने वाले जलके पूर ने ऊँचीनीची समस्त भूमिको समान कर दिया था ॥५५॥ पृथिवी पर जलके समूह गरज रहे थे और आकाशमें मेघोंके समूह गर्जना कर रहे थे उससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे भागे हुए ग्रीष्मकालरूपी शत्रुको खोज ही रहे थे ॥५६॥ भरनोंसे सुशोभित पर्वत अत्यन्त सघन कन्दलोंसे आच्छादित हो गये थे उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो जलके बहुत भारी भारसे मेघ ही नीचे गिर पड़े हों ॥५७॥ वनकी स्वाभाविक भूमिमें जहाँ-तहाँ चलते-फिरते इन्द्रगोप (वीरवहूटी) नामक कीड़े दिखाई देते थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो मेघोंके द्वारा चूर्णीभूत सूर्यके टुकड़े ही पृथिवी पर आ पड़े हों ॥५८॥ विजलीका तेज जल्दी-जल्दी समस्त दिशाओंमें घूम रहा था उससे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशका नेत्र 'कौन देश जलसे भरा गया और कौन देश नहीं भरा गया' इस बातको देख रहा था ॥५९॥ अनेक प्रकारके तेजको धारण करनेवाले इन्द्रधनुषसे आकाश ऐसा सुशोभित हो गया मानो अत्यन्त ऊँचे सुन्दर तोरणसे ही सुशोभित हो गया हो ॥६०॥ जो दोनों तटोंको गिरा रही थीं, जिनमें भयंकर आवर्त उठ रहे थे, और जो बड़े वेगसे वह रही थीं ऐसी कलुपित नदियाँ व्यभिचारिणी स्त्रियोंके समान जान पड़ती थीं ॥६१॥ जो मेघोंके गर्जनासे भयभीत हो रहीं थीं, तथा जिनके नेत्र हरिणीके समान चञ्चल थे ऐसी प्रोपितभर्तृका स्त्रियाँ शीघ्र ही खम्भोंका आलिङ्गन कर रही थीं ॥६२॥ अत्यन्त भयङ्कर गर्जनासे जिनकी चेतना जर्जर हो रही थी ऐसे प्रवासी-परदेशी मनुष्य जिस दिशामें स्त्री थी उसी दिशामें नेत्र लगाये हुए विह्वल हो रहे थे ॥६३॥ सदा अनुकम्पा (दया) के पालन करनेमें तत्पर रहनेवाले दिगम्बर मुनिराज प्रासुक स्थान पाकर चातुर्मास व्रतका नियम लिये हुए थे ॥६४॥ जो शक्तिके अनुसार नाना प्रकारके व्रत-नियम-आखड़ी आदि धारण करते थे तथा सदा साधुओंकी सेवामें तत्पर रहते थे ऐसे श्रावकोंने दिग्व्रत धारण कर रखा था ॥६५॥ इस प्रकार मेघोंसे युक्त वर्षाकालके उपस्थित होनेपर आगमानुकूल आचारको धारण करनेवाले दोनों पिता-पुत्र निर्ग्रन्थ साधु कीर्तिधर मुनिराज और सुकोशलस्वामी इच्छानुसार विहार करते हुए उस श्मशानभूमिमें आये जो वृत्तोंके अन्धकारसे

१. प्रखलस्येव म०, ख० । २. शिङ्गना म० । ३. गोपगाः म०, ज० । ४. यस्यामाशायां-दिशि प्रमदा तस्यामाशायामाहितेक्षणाः प्रदत्तलोचनाः । ५. चतुर्णां मासानां समाहारश्चातुर्मासी तस्या व्रतम् । ६. दिग्विरामश्रितं म० ।

कङ्कगृद्धर्षगोमायुरवपूरितगह्वरम् । अर्धदग्धशवस्थान भीषण विषमावनि^१ ॥६८॥
 शिर कपालमघातै क्वचित्पाण्डुरित्चिति^२ । वसातिविन्नगन्धोप्रवेगवाहिसमीरणम् ॥६९॥
 साट्टहासभ्रमद्भीमरत्नोवेतालमकुलम् । तृणगुच्छुलताजालपरिणद्धोरुपादपम् ॥७०॥
 पृथु प्रेतवन^३ धीरात्रापाढ्या शुचिमानसो । यदृच्छ्या परिप्राप्तौ विहरन्तौ तपोधनी ॥७१॥
^४चतुर्मासोपवाम तौ गृहोत्वा तत्र निःस्पृहौ । वृक्षमूले स्थितौ^५ पत्रसङ्गप्रासुकिताम्भसि ॥७२॥
 पर्यङ्कामनयोगेन कायोत्सर्गेण जातुचित् । वीरासनादियोगेन निन्द्ये ताभ्या घनागम ॥७३॥
 ततः शरदतु. प्राप स्योद्योगाखिलमानव । प्रत्यूप इव निःशेषजगदालोकपण्डित ॥७४॥
 मितच्छ्रया घना क्वापि दृश्यन्ते गगनाङ्गणे ।^६विकासिकाशमघातसकाशा मन्दकम्पिता ॥७५॥
 घनागमविनिर्मुक्ते भाति रे पद्मवान्धव^७ । गते सुदु पमाकाले भव्यवन्धुर्जिनो यथा ॥७६॥
 तारानिकरमध्यस्थो राजते रजनीपति । कुमुदाकरमध्यस्थो राजहसयुवा यथा ॥७७॥
 ज्योत्स्नया प्लावितो लोह क्षीराकूपारकल्पया । रजनीपु निशानाथ प्रणालमुखमुक्तया ॥७८॥
 नद्य प्रसन्नता प्राप्तास्तरङ्गाङ्कितसैरुता । क्रौञ्चसारसचक्राह्वनादसभापणोद्यता ॥७९॥

गम्भीर था, अनेक प्रकारके सर्प आदि हिसक जन्तुओंसे व्याप्त था, पहाड़की छोटी-छोटी शान्वाओंसे दुर्गम था, भयङ्कर जीवोंको भी भय उत्पन्न करनेवाला था, काक, गीध, रीछ तथा शृगाल आदिके शत्रुओंसे जिसके गर्त भर रहे थे, जहाँ अधजले मुरदे पड़े हुए थे, जो भयङ्कर था, जहाँ की भूमि ऊँची-नीची थी, जो शिरकी हड्डियोंके समूहसे कहीं-कहीं सफेद हो रहा था, जहाँ चर्वाकी अत्यन्त सड़ी वाससे तीक्ष्ण वायु बड़े वेगसे बह रही थी, जो अट्टहाससे युक्त घूमते हुए भयङ्कर राजस और वेतालोंसे युक्त था तथा जहाँ वृणोंके समूह और लताओंके जालसे बड़े-बड़े वृक्ष परिणद्ध-व्याप्त थे । ऐसे विशाल श्मशानमें एक साथ विहार करते हुए, तपरूपी धनके धारक तथा उच्चल मनसे युक्त धीरवीर पिता-पुत्र—दोनों मुनिराज आपाद सुदी पूर्णिमाको अनायास ही आ पहुँचे ॥६६-७१॥ सब प्रकारकी मृहासे रहित दोनों मुनिराज, जहाँ पत्तोंके पड़नेसे पानी प्रासुक हाँ गया था ऐसे उस श्मशानमें एक वृक्षके नीचे चार मासका उपवास लेकर विराजमान हो गये ॥७२॥ वे दोनों मुनिराज कभी पर्यङ्कासनसे विराजमान रहते थे, कभी कायोत्सर्ग धारण करते थे, और कभी वीरासन आदि विविध आसनोंसे अवस्थित रहते थे । इस तरह उन्होंने वर्षाकाल व्यतीत किया ॥७३॥

तदनन्तर जिसमें समस्त मानव उद्योग-धन्धोंसे लग गये थे तथा जो प्रातः कालके समान समस्त ससारको प्रकाशित करनेमें निपुण थी ऐसी शरद् ऋतु आई ॥७४॥ उस समय आकाशाङ्गणमें कहीं-कहीं ऐसे सफेद मेघ दिखाई देते थे जो फूले हुए काशके फूलोंके समान थे तथा मन्द मन्द हिल रहे थे ॥७५॥ जिस प्रकार उत्सर्पिणी कालके दुःपमा-काल बीतनेपर भव्य जीवोंके बन्धु श्रीजिनेन्द्रदेव सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार मेघोंके आगमनसे रहित आकाशमें सूर्य सुशोभित होने लगा ॥७६॥ जिस प्रकार कुमुदोंके बीचमें तरुण राजहंस सुशोभित होता है उसी प्रकार ताराओंके समूहके बीचमें चन्द्रमा सुशोभित होने लगा ॥७७॥ रात्रिके समय चन्द्रमारूपी प्रणालीके मुखसे निकली हुई क्षीरसागरके समान सफेद चोदनीसे समस्त ससार व्याप्त हो गया ॥७८॥ जिनके रेतीले किनारे तरङ्गोंसे चिह्नित थे, तथा जो क्रौञ्च सारस चक्रवा आदि पक्षियोंके शब्दके वहाने मानो परस्परमें वार्तालाप कर रही थीं ऐसी नदियों प्रसन्नताको प्राप्त हो गई थी ॥७९॥ जिनपर भ्रमर चल रहे थे ऐसे कमलोंके समूह तालाबोंमें इस प्रकार सुशोभित

१. विषमावनिम् म० । २. च्छिति म० । ३. धीरौ + आपाढ्या आपादमासपूर्णिमायाम्, धीरा-वर्षाढ्य (१) म० । ४. चतुर्मासो- ज० । ५. यत्र सङ्ग- म० । ६. विकासकाश-म० ।

उन्मज्जन्ति चलद्भृङ्गाः सरःसु कमलाकराः । भव्यसङ्घा इवोन्मुक्तमिथ्यात्वमलसंचयाः ॥८०॥
 तलेषु तुङ्गहर्म्याणां पुष्पप्रकरचारुषु । रमन्ते भोगसम्पन्ना नरा नक्त प्रियान्विताः ॥८१॥
 सन्मानितसुहृद्वन्धुजनसंधा महोत्सवाः । दम्पतीनां वियुक्तानां संजायन्ते समागमा ॥८२॥
 कार्तिन्यामुपजातायां विहरन्ति तपोधनाः । जिनातिशयदेशेषु महिमोद्यतजन्तुषु ॥८३॥
 अथ तौ पारणाहेतोः समाप्तनियमौ मुनी । निवेश गन्तुमारब्धौ गत्या समयदृष्टया ॥८४॥
 सहदेवीचरी व्याघ्री दृष्ट्वा तौ क्रोधपूरिता । शोणितारुणसर्कीर्णधृतकेसरसंचया ॥८५॥
 दृष्ट्वाकरालवदना स्फुरत्पिङ्गनिरीक्षणा । मस्तकोर्ध्ववलत्पुच्छा नखचतवसुन्धरा ॥८६॥
 कृतगम्भीरहुकारा मारीवोपात्तविग्रहा । लसल्लोहितजिह्वाग्रा विस्फुरद्देहधारिणी ॥८७॥
 मध्याह्नरविसंकाशा कृत्वा क्रीडा विलम्बिताम् । उत्पपात महावेगाह्नचर्याकृत्य सुकोशलम् ॥८८॥
 उत्पतन्ती तु तां दृष्ट्वा तौ मुनी चारुविभ्रमौ । सालम्बं भयनिर्मुक्तौ कायोत्सर्गेण तस्थतु ॥८९॥
 सुकोशलमुनेरुर्ध्वं मूर्ध्नि प्रभृति निर्दया । दारयन्ती नखैर्देहं पतिता सा महीतले ॥९०॥
 तयासौ दारितो देहे विमुञ्चन्नसंसंहतीः । वभूव विगलद्धातुवारिनिर्भरशैलवत् ॥९१॥
 ततस्तस्य पुरः स्थित्वा कृत्वा नानाविचेष्टितम् । पापा खादितुमारब्धा मुनिमारभ्य पादतः ॥९२॥

हो रहे थे मानो मिथ्यात्वरूपी मैलके समूहको छोड़ते हुए भव्य जीवोंके समूह ही हो ॥८०॥ भोगी मनुष्य, फूलोंके समूहसे सुन्दर ऊँचे-ऊँचे महलोंके तल्लोमें रात्रिके समय अपनी वल्लभाओं के साथ रमण करने लगे ॥८१॥ जिनमें मित्र तथा वन्धुजनोके समूह सम्मानित किये गये थे तथा जिनमें महान् उत्सवकी वृद्धि हो रही थी ऐसे वियुक्त स्त्री-पुरुषोंके समागम होने लगे ॥८२॥ कार्तिक मासकी पूर्णिमा व्यतीत होनेपर तपस्वीजन उन स्थानोंमें विहार करने लगे जिनमें भगवान्के गर्भ जन्म आदि कल्याणक हुए थे तथा जहाँ लोग अनेक प्रकारकी प्रभावना करने में उद्यत थे ॥८३॥

अथानन्तर जिनका चातुर्मासोपवासका नियम पूर्ण हो गया था ऐसे वे दोनों मुनिराज आगमानुकूल गतिसे गमन करते हुए पारणाके निमित्त नगरमें जानेके लिए उद्यत हुए ॥८४॥ उसी समय एक व्याघ्री जो पूर्वभवमें सुकोशलमुनिकी माता सहदेवी थी उन्हें देखकर क्रोधसे भर गई, उसकी खूनसे लाल-लाल दिखनेवाली विखरी जटाएँ कॉप रही थी, उसका मुख दाढ़ोंसे भयंकर था, पीले-पीले नेत्र चमक रहे थे, उसकी गोल पूँछ मस्तकके ऊपर आकर लग रही थी, नखोंके द्वारा वह पृथिवीको खोद रही थी, गम्भीर हुंकार कर रही थी, ऐसी जान पड़ती थी मानो शरीरको धारण करने वाली मारी ही हो, उसकी लाल-लाल जिह्वाका अग्रभाग लपलपा रहा था, वह देदीप्यमान शरीरको धारण कर रही थी और मध्याह्नके सूर्यके समान जान पड़ती थी । बहुत देर तक क्रीड़ा करनेके बाद उसने सुकोशलस्वामीको लक्ष्यकर ऊँची छलाङ्ग भरी ॥८५-८६॥ सुन्दर शोभाको धारण करनेवाले दोनों मुनिराज, उसे छलाङ्ग भरती देख 'यदि इस उत्सर्गसे बचे तो आहार पानी ग्रहण करेंगे अन्यथा नहीं इस प्रकारकी सालम्ब प्रतिज्ञा लेकर निर्भय हो कायोत्सर्गसे खड़े हो गये ॥८६॥ वह दया हीन व्याघ्री सुकोशल मुनिके ऊपर पड़ी और नखोंके द्वारा उनके मस्तक आदि अङ्गोंको विदारती हुई पृथिवीपर आई ॥८७॥ उसने उनके समस्त शरीरको चीर डाला जिससे खूनकी धाराओंको छोड़ते हुए वे उस पहाड़के समान जान पड़ते थे जिससे गेरू आदि धातुओंसे मिश्रित पानीके निर्भर भर रहे हो ॥८८॥ तदनन्तर वह पापिनी उनके सामने खड़ी होकर तथा नाना प्रकारकी चेष्टाएँ कर उन्हें पैरकी ओरसे खाने

१. भूतपूर्वा सहदेवी, सहदेवीचरी । २. सालम्बभयनिर्मुक्तौ म० । ३. मूर्धप्रभृति म० । ४. घन्ती तं । पट्याततः । ५. एष श्लोकः ख० पुस्तके नास्ति । ६. यतेस्तस्य ख० ।

पञ्च श्रेणिक संसारे समोहस्य विचेष्टितम् । यत्राभीष्टस्य पुत्रस्य माता गात्राणि स्यादति ॥६३॥
 किमतोऽन्यत्पर कष्ट यजन्मान्तरमोहिता । वान्धवा एव गच्छन्ति वैरिता पापकारिणः ॥६४॥
 ततो मेरुस्थिरस्यास्य शुक्लध्यानावगाहिन । उत्पन्न केवलज्ञान देहमुक्तेरनन्तरम् ॥६५॥
 आगत्य च महेंद्रेण प्रमोदेन सुरासुरा । चक्रुर्देहार्चन तस्य दिव्यपुष्पादिसपदा ॥६६॥
 व्याघ्री कीर्तिधरेणापि सुवाक्यैर्वीथिता मती । सन्यासेन शुभ काल कृत्वा स्वर्गमुपागता ॥६७॥
 तत कीर्तिधरस्यापि केवलज्ञानमुद्गतम् । यात्रा सैकैव देवानां जाता महिमकारिणाम् ॥६८॥
 महिमान पर कृत्वा केवलस्य सुरासुरा । पादौ केवलिनोर्नत्वा ययुः स्थान यथायथम् ॥६९॥
 सुकोशलस्य माहात्म्यमग्नीते य पुमानिति । उपसर्गविनिर्मुक्त सुरा जीवत्यसौ चिरम् ॥१००॥
 देवी त्रिविज्रमालाथ पूर्णं समये सुखम् । प्रसूता तनय चारुलक्षणाङ्कितविग्रहम् ॥१०१॥
 हिरण्यरुचिग माता तस्मिन् गर्भस्थितेऽभवत् । यतो हिरण्यगर्भास्यामतोऽग्नौ सुन्दरोऽगमत ॥१०२॥
 नाभेयमयस्तेन गुणैः पुनरिवाहृतः । हरेः स तनयां लेभे नाम्नामृतवती शुभाम् ॥१०३॥
 सुहृद्वान्धवमम्पन' सर्वशास्त्रार्थपारग । अक्षीणद्रविण श्रीमान् हेमपर्वतसन्निभ ॥१०४॥
 पराननुभवन् भोगानन्यदामो महामना' । मध्ये भृङ्गाभ्रेशाना पलिताहुरमैक्षत ॥१०५॥
 दर्पणस्य स्थित मध्ये दृष्ट्वा त पलिताहुरम् । मृत्योर्दृत्तमभाहृतमात्मान शोकमाप्तवान् ॥१०६॥

लगा ॥६२॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक । मोहकी चेष्टा तो देखो जहाँ माता ही प्रिय पुत्रके शरीरको खाती है ॥६३॥ इससे बढ़कर और क्या कष्टकी बात होगी कि दूसरे जन्मसे मोहित हो वान्धवजन ही अनर्थकारी शत्रुताको प्राप्त हो जाते हैं ॥६४॥

तदनन्तर मेरुके समान स्थिर और शुद्ध ध्यानको धारण करनेवाले सुकोशल मुनिको शरीर छूटनेके पहले ही केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥६५॥ सुर और असुरोंने इन्द्रके साथ आकर वडे हर्षसे दिव्य पुष्पादि सम्पदाके द्वारा उनके शरीरकी पूजा की ॥६६॥ सुकोशलके पिता कीर्तिधर मुनिराजन भी उस व्याघ्रीको मधुर शब्दोंसे सम्बोधा जिससे संन्यास ग्रहणकर वह स्वर्ग गई ॥६७॥ तदनन्तर उसी समय कीर्तिधर मुनिराजको भी केवलज्ञान उत्पन्न हुआ सो महिमा को करनेवाले देवोंकी वही एक यात्रा पिता और पुत्र दोनोंका केवलज्ञान महोत्सव करनेवाली हुई ॥६८॥ सुर और असुर केवलज्ञानकी परम महिमा फैलाकर तथा दोनों केवलियोंके चरणों को नमस्कार कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर गये ॥६९॥ गौतमस्वामी कहते हैं कि जो पुरुष सुकोशलस्वामीके माहात्म्यको पढ़ता है वह उपसर्गसे रहित हो चिरकाल तक सुखसे जीवित रहता है ॥१००॥

अथानन्तर सुकोशलकी स्त्री विचित्रमालाने गर्भका समय पूर्ण होनेपर सुन्दर लक्षणों से चिह्नित शरीरको धारण करनेवाला पुत्र उत्पन्न किया ॥१०१॥ चूंकि उस बालकके गर्भमें स्थित रहनेपर माता सुवर्णके समान सुन्दर हो गई थी इसलिए वह बालक हिरण्यगर्भ नामको प्राप्त हुआ ॥१०२॥ आगे चलकर हिरण्यगर्भ ऐसा राजा हुआ कि उसने अपने गुणोंके द्वारा भगवान् ऋषभदेवका समय ही मानो पुनः वापिस लाया था । उसने राजा हरिकी अमृतवती नामकी शुभ पुत्रीके साथ विवाह किया ॥१०३॥ राजा हिरण्यगर्भ समस्त मित्र तथा वान्धव-जनोंसे सहित था, सर्व शास्त्रोंका पारगामी था, अखण्ड धनका स्वामी था, श्रीमान् था, सुमेरु-पर्वतके समान सुन्दर था, और उदार हृदय था । वह उत्कृष्ट भोगोंको भोगता हुआ समय वितता था कि एक दिन उसने अपने भ्रमरके समान काले केशोंके बीच एक सफेद बाल देखा ॥१०४-१०५॥ दर्पणके मध्यमें स्थित उस सफेद बालको देखकर वह ऐसा शोकको प्राप्त हुआ

१. चमरेन्द्रेण ख०, च महेंद्रेण न० । २. भवेत् म० ।

अचिन्तयच्च हा कष्ट बलादङ्गानि मेऽनया^१ । शक्तिकान्तिविनाशिन्या व्याप्यन्ते जरसाधुना ॥१०७॥
 चन्दनद्रुमसंकाशः^२ कायोऽयमधुना मम । जराज्वलननिर्दग्धोऽङ्गारकल्पो भविष्यति ॥१०८॥
 तर्कयन्ती रुजाच्छिद्रं या स्थिता समय चिरम् । पिशाचीवाधुना सा मे शरीरं बाधयिष्यति ॥१०९॥
 चिरं बद्धक्रमो योऽस्याद् व्याघ्रवद्ग्रहणोत्सुकः । मृत्युं स मेऽधुना देहं प्रसभं भक्षयिष्यति ॥११०॥
 कर्मभूमिमिमां प्राप्य धन्यास्ते युवपुङ्गवाः । व्रतपोतं समारूढ्य तेऽर्थं भवसागरम् ॥१११॥
 इति अचिन्त्य विन्यस्य राज्येऽमृतवतीसुतम् । नद्युपाख्यं प्रवव्राज पार्श्वं विमलयोगिनः ॥११२॥
 न घोषितं यतस्तस्मिन् गर्भस्येऽप्यशुभं भुवि । नद्युपोऽसौ ततः ख्यातो 'गुणनामितविष्टपः ॥११३॥
 स जाया सिंहिकाभिख्यां स्थापयित्वा पुरे ययौ । उत्तरा ककुभ जेतु सामन्तान् प्रत्यवस्थितान् ॥११४॥
 दूरीभूत नृप^६ ज्ञात्वा दक्षिणात्या नराधिपाः । 'पुरीं गृहीतुमाजगमुर्विनीतां' भूरिसाधनाः ॥११५॥
 रणे विजित्य तान् सर्वान् सिंहिकातिप्रतापिनी । स्थापयित्वा दृढ स्थाने रक्षमासतर नृपम् ॥११६॥
 सामन्तैर्निर्जितैः सार्द्धं जेतु शोषान्नराधिपान् । जगाम दक्षिणामाशां शस्त्रशास्त्रकृतश्रमा^३ ॥११७॥
 प्रतापेनैव निर्जित्य सामन्तान् प्रत्यवस्थितान् । आजगाम पुरीं राज्ञी जयनिस्वनपूरिता ॥११८॥
 नद्युपोऽप्युत्तरामाशा वशीकृत्य समागत^४ । कोपं परममापन्नः श्रुतदाग्पराक्रमः ॥११९॥

मानो अपने आपको बुलानेके लिए यमका दूत ही आ पहुँचा हो ॥१०६॥ वह विचार करने लगा कि हाय वड़े कष्टकी बात है कि इस समय शक्ति और कान्तिको नष्ट करनेवाली इस वृद्धावस्थाके द्वारा मेरे अङ्ग बलपूर्वक हरे जा रहे हैं ॥१०७॥ मेरा यह शरीर चन्दनके वृक्षके समान सुन्दर है सो अब वृद्धावस्थारूपी अग्निसे जलकर अङ्गारके समान हो जावेगा ॥१०८॥ जो वृद्धावस्था रोगरूपी छिद्रकी प्रतीक्षा करती हुई चिरकालसे स्थित थी अब वह पिशाचीकी नाई प्रवेश कर मेरे शरीरको बाधा पहुँचावेगी ॥१०९॥ ग्रहण करनेमे उत्सुक जो मृत्यु व्याघ्रकी तरह चिरकालसे बद्धक्रम होकर स्थित था अब वह हठात् मेरे शरीरका भक्षण करेगा ॥११०॥ वे श्रेष्ठ तरुण धन्य हैं जो इस कर्मभूमिको पाकर तथा व्रतरूपी नावपर सवार हो संसाररूपी सागरसे पार हो चुके हैं ॥१११॥ ऐसा विचारकर उसने अमृतवतीके पुत्र नद्युपको राज्य-सिंहासनपर बैठाकर विमल योगीके समीप दीक्षा धारण कर ली ॥११२॥ चूँकि उस पुत्रके गर्भमें स्थित रहते समय पृथिवीपर अशुभकी घोषणा नहीं हुई थी अर्थात् जबसे वह गर्भमें आया था तभीसे अशुभ शब्द नहीं सुनाई पडा था इसलिए वह 'नद्युप' इस नामसे प्रसिद्ध हुआ था । उसने अपने गुणोंसे समस्त संसारको नम्रीभूत कर दिया था ॥११३॥

अथानन्तर किसी समय राज नद्युष अपनी सिंहिका नामक रानीको नगरमे रखकर प्रतिकूल शत्रुओंको वश करनेके लिए उत्तर दिशाकी ओर गया ॥११४॥ इधर दक्षिण दिशाके राजा नद्युपकी दूरवर्ती जानकर उसकी अयोध्या नगरीको हथियानेके लिए आ पहुँचे । वे राजा बहुत भारी सेनासे सहित थे ॥११५॥ परन्तु अत्यन्त प्रतापिनी सिंहिका रानीने उन सबको युद्धमें जीत लिया । इतना ही नहीं वह एक विश्वासपात्र राजाको नगरकी रक्षाके लिए नियुक्त कर युद्धमें जीते हुए सामन्तोंके साथ शेष राजाओंको जीतनेके लिए दक्षिण दिशाकी ओर चल पड़ी । शस्त्र और शास्त्र दोनोंमें ही उसने अच्छा परिश्रम किया था ॥११६-११७॥ वह प्रतिकूल सामन्तोंको अपने प्रतापसे ही जीतकर विजयनादसे दिशाओंको पूर्ण करती हुई नगरीमें वापिस आ गई ॥११८॥ उधर जब राजा नद्युप उत्तर दिशाको वश कर वापिस आया तब स्त्रीके पराक्रम

१. मे तथा म० । २. सकाशकायोऽयमधुना म०, क०, ख० । ३. युगपुङ्गवाः म० । ४. तरुण्यं म० । ५. गुणनामितविष्टपे म० । गुणानामिति विष्टपे व० । ६. नर म० । मृशं ख० । ७. पुरी म० । ८. विनीता म० । अयोव्याम् । ९. श्रमाः म० ।

अत्रिण्डितशीलाया नैद्वयार्थं कुलस्त्रियाः । भवतीति विनिश्चय मिहिकायां व्यरज्यत ॥१२०॥
 महादेवीपदान् माय न्याविता साधुचेष्टिता । महादरिद्रतां प्राप्ता काल कद्विद्रवस्थिता ॥१२१॥
 अन्यदाथ महादाहज्वरोऽभूत् पृथिवीपते । सर्ववेद्यप्रयुक्तानामौपधानामगोचरः ॥१२२॥
 सिहिका त तथाभूत् ज्ञान्वा गौरुममाकुला । स्व च गोधयितुं माध्वी क्रियामेतां समाश्रिता ॥१२३॥
 ममाहूयारिलान् वन्धून् सामन्तान् प्रवृत्तीस्तथा । करकोणे समादाय वारि दत्त दुगोधसा ॥१२४॥
 जगत् यद्वि मे भर्ता नान्यश्चेतस्यपि स्थितः । तत्. मिकोऽभ्रुनानेन राजास्तु विगतज्वरः ॥१२५॥
 ततोऽसौ मिकमात्रेऽग्निम् तत्करोदङ्गीकरे । दन्तवीणाकृतम्वानो हिममग्न इवाभवत् ॥१२६॥
 साधु साश्रिति शब्देन गगन परिपूरितम् । अदृष्टजननिर्मुक्तैर्दृष्ट सुमनसा चयै ॥१२७॥
 इति तां शीलसम्पन्न विज्ञाय नरपुङ्गव । महादेवीपदे भूय कृतपूजामतिष्ठित ॥१२८॥
 अनुभूय चिर भोगान् तथा सार्धमरुणकः । नि शेषपूर्वजाचार कृत्वा मनसि नि स्पृहः ॥१२९॥
 मभूत् सिहिकादेव्यां सुत राज्ये निनाय स । जगाम पदवी धीरो जनकेन निपेविताम् ॥१३०॥
 नद्युपस्य सुतो यस्मान् सुदासीकृतविद्विष । सौद्राम इति तेनामौ सुवने परिकीर्तित ॥१३१॥
 तस्य गोत्रे दिनान्यष्टौ चतुर्मासीममासिषु । भुक्त न केनचिन्मांममपि मासैधितामना ॥१३२॥

की बात सुनकर वह परम क्रोधको प्राप्त हुआ ॥११६॥ अखण्डशीलको धारण करनेवाली कुला-
 ज्ञानाकी ऐसी धृष्टता नहीं हो सकती ऐसा निश्चय कर वह मिहिकासे चिरकत हो गया ॥१२०॥
 वह उत्तम चेष्टाओंसे सहित थी फिर भी गजाने उसे महादेवीके पदसे च्युत कर दिया । इस तरह
 महादरिद्रताको प्राप्त हो वह कुछ समय तक बड़े कष्टसे रही ॥१२१॥

अनानन्तर किसी समय राजाको ऐसा महान् दाहज्वर हुआ कि जो समस्त वैद्योंके द्वारा
 प्रयुक्त औषधियोंसे भी अच्छा नहीं हो सका ॥१२२॥ जब सिहिकाको इस बातका पता चला
 तब वह शोकसे बहुत ही आकुल हुई । उसी समय उसने अपने आपको निर्दोष सिद्ध करनेके
 लिए यह काम किया ॥१२३॥ कि उसने समस्त वन्धुजनों, सामन्तों और प्रजाको बुलाकर अपने
 कमपुटमें पुरोहितके द्वारा दिया हुआ जल धारण किया और कहा कि यदि मैं अपने चित्तमें
 किसी दूसरे भर्ताको स्थान नहीं दिया हूं तो इस जलसे सींचा हुआ भर्ता दाहज्वरसे रहित हो
 जावे ॥१२४-१२५॥ तदनन्तर सिहिका रानीके हाथमें स्थित जलका एक छीटा ही राजा पर
 सींचा गया था कि वह इतना शीतल हो गया मानो बर्फमें ही डुबा दिया गया हो । शीतके कारण
 उसकी दन्तावली वीणाके समान शब्द करने लगी ॥१२६॥ उसी समय 'साधु'-'साधु' शब्दसे
 आकाश भर गया और अदृष्टजनोंके द्वारा छोड़े हुए फूलोंके समूह वरसने लगे ॥१२७॥ इस
 प्रकार राजा नद्युपने सिहिका रानीको शीलसम्पन्न जानकर फिरसे उसे महादेवी पदपर अधिष्ठित
 किया तथा उसकी बहुत भारी पूजा की ॥१२८॥ शत्रुग्रहित होकर उसने चिरकाल तक उसके
 साथ भोगोका अनुभव किया और अपने पूर्वपुरुषोंके द्वारा आचारित समस्त कार्य किये । उसकी
 यह विशेषता थी कि भोगरत रहने पर भी वह मनमें सदा भोगोंसे निःस्पृह रहता था ॥१२९॥
 अन्तमें वह धीरवीर सिहिकादेवीसे उत्पन्न पुत्रको राज्य देकर अपने पिताके द्वारा सेवित मार्गका
 अनुसरण करने लगा अर्थात् पिताके समान उसने जिनदीक्षा धारण कर ली ॥१३०॥

राजा नद्युप समस्त शत्रुओंको वश कर लेनेके कारण सुदास कहलाता था । इसलिए उसका
 पुत्र ससारमें सौदास (सुदासस्यापत्यं पुमान् सौदासः) नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥१३१॥ प्रत्येक चार

१. नैद्वयार्थं कुलस्त्रिया. म० । २. मोपधानामगोचरः म० । ३. करे कोण ख०, व० । ४. कृतस्थानो
 म० । ५. दृष्ट क०, ख०, ज० । ६. भूयः म० । ७. निःशेष म० । ८. न्यष्ट म० । ९. चतुर्वामी म०
 १०. मासैर्धृतात्मना व० ।

कर्मणस्त्वशुभस्यास्य कस्यापि समुदीरणात् । बभूव खादितुं मांसं तेष्वेव दिवसेषु धीः ॥१३३॥
 ततोऽनेन समाह्वाय सूदः स्वैरमभाष्यत् । मांसमत्तुं समुत्पन्ना मम भद्राद्य धीरिति ॥१३४॥
 तेनोक्त^१ देव जानासि दिनेष्वेतेष्वमारणम् । जिनपूजासमृद्धेषु समस्तायामपि चितौ ॥१३५॥
 नृपेणोचे पुनः सूदो प्रियेऽद्य यदि नाधि तत् । इति निश्चित्य यद्युक्तं तदाचर किमुक्तिभिः ॥१३६॥
 तदवस्थ नृपं ज्ञात्वा पुरात् सूदो बहिर्गतः । ददर्श मृतकं बालं तद्दिने परिखोज्झितम् ॥१३७॥
 तं वस्त्रावृतमातीय संस्कृत्य स्वादुवस्तुभिः । नरेन्द्राय ददावत्तु मन्यसेऽमुष्य गोचरम् (?) ॥१३८॥
 महामांसरसास्वादनितान्तप्रीतमानसः । भुक्त्वोत्थितो मिथः सूद स जगाद सविस्मयः ॥१३९॥
 वद भद्र कुतः प्राप्त मांसमेतत्त्वयेदृशम् । अनास्वादितपूर्वोऽय रसो यस्यातिपेशलः ॥१४०॥
 सोऽभय मार्गयित्वास्मै यथावद् विन्यवेदयत् । ततो राजा जगादेद सर्वदा^४ क्रियतामिति ॥१४१॥
 सूदोऽथ दातुमारब्धः शिशुवर्गाय मोदकान् । शिशवस्तत्प्रसङ्गेन प्रत्यह तं समाययुः ॥१४२॥
 गृहीत्वा मोदकान्^५ यातां शिशूनां पश्चिमं ततः । मारयित्वा ददौ^६ सूदो राज्ञे संस्कृत्य सततम् ॥१४३॥
 प्रत्यह क्षीयमाणेषु पौरबालेषु निश्चितः । सूदेन सहितो राजा देशात् पौरैर्निराकृतः ॥१४४॥
 कनकाभासमुत्पन्नस्तस्य सिंहस्थः सुतः । राज्येऽत्रस्थापितः पौरैः प्रणतः सर्वपार्थिवैः ॥१४५॥
 महामांसरसासक्तः सौदासो जग्धसूदकः । वभ्राम धरणी दुःखी भक्षयन्नुज्झितान् शवान् ॥१४६॥

मांस समाप्त होनेपर जब अष्टाह्निकाके आठ दिन आते थे तब उसके गोत्रमें कोई भी मांस नहीं खाता था भले ही उसका शरीर मांससे ही क्यों न वृद्धिगत हुआ हो ॥१३२॥ किन्तु इस राजा सौदासको किसी अशुभ कर्मके उदयसे इन्हीं दिनोंमें मांस खानेकी इच्छा उत्पन्न हुई ॥१३३॥ तब उसने रसोइयाको बुलाकर एकान्तमें कहा कि हे भद्र ! आज मेरे मांस खानेकी इच्छा उत्पन्न हुई है ॥१३४॥ रसोइयाने उत्तर दिया कि देव ! आप यह जानते हैं कि इन दिनोंमें समस्त पृथ्वीमें बड़ी समृद्धिके साथ जिनपूजा होती है तथा जीवोंके मारनेकी मनाही है ॥१३५॥ यह सुन राजाने रसोइयासे कहा कि यदि आज मैं मांस नहीं खाता हूँ तो मर जाऊँगा । ऐसा निश्चय कर जो उचित हो सो करो । बात करनेसे क्या लाभ है ? ॥१३६॥ राजाकी ऐसी दशा जानकर रसोइया नगरके बाहर गया । वहाँ उसने उसी दिन परिखामे छोड़ा हुआ एक मृतक बालक देखा ॥१३७॥ उसे वस्त्रसे लपेटकर वह ले आया और स्वादिष्ट वस्तुओंसे पकाकर खानेके लिए राजाको दिया ॥१३८॥ महामांस (नरमांस) के रसास्वादसे जिसका मन अत्यन्त प्रसन्न हो रहा था ऐसा राजा उसे खाकर जब उठा तब उसने आश्चर्यचकित हो रसोइयासे कहा कि भद्र ! जिसके इस अत्यन्त मधुर रसका मैंने पहले कभी स्वाद नहीं लिया ऐसा यह मांस तुमने कहाँ से प्राप्त किया है ? ॥१३९-१४०॥ इसके उत्तरमें रसोइयाने अभयदानकी याचना कर सब बात ब्योकी-न्त्यो बतला दी । तब राजाने कहा कि सदा ऐसा ही किया जाय ॥१४१॥

अथानन्तर रसोइयाने छोटे-छोटे बालकोंके लिए लड्डू देना शुरू किया उसके लोभसे बालक प्रतिदिन उसके पास आने लगे ॥१४२॥ लड्डू लेकर जब बालक जाने लगते तब उनमें जो पीछे रह जाता था उसे मारकर तथा पकाकर वह निरन्तर राजाको देने लगा ॥१४३॥ जब प्रतिदिन नगरके बालक कम होने लगे तब लोगोंने इसका निश्चय किया और रसोइयाके साथ साथ राजाको नगरसे निकाल दिया ॥१४४॥ सौदासकी कनकाभा स्त्रीसे एक सिंहस्थ नामका पुत्र हुआ था । नगरवासियोंने उसे ही राज्यपदपर आरूढ़ किया तथा सब राजाओंने उसे प्रणाम किया ॥१४५॥ राजा सौदास नरमांसमें इतना आसक्त हो गया कि उसने अपने रसोइयाको ही खा लिया । अन्तमें वह छोड़े हुए मुर्दोंको खाता हुआ दुःखी हो पृथ्वीपर भ्रमण करने लगा ॥१४६॥

१. तेनोक्तो म०, ख०, ज०, क० । २. वस्त्रावृत्त-म० । ३. मन्यसे मुख्यगोचरम् म०, ख०, ज० । ४. सर्वथा म० । ५. गच्छताम् । यातान् म० । ६. 'राज्ञे सतत सोऽथ सूदकः' म० ।

मिहस्येव यतो मासमाहारोऽस्याभवत्तत । सिंहर्मादासशब्देन भुवने ख्यातिमागत ॥१४७॥
 दक्षिणापथमामाद्य प्राच्यानम्यग्मश्रयम् । श्रुत्वा धर्मं धभूवासावणुवतधरो महान् ॥१४८॥
 ततो महापुरे राजि मृते पुत्रविवर्जिते । स्कन्धमारोपित प्राप राज्य राजद्विपेन स ॥१४९॥
 व्यमर्जयञ्च पुत्रस्य नतये दत्तमूर्जित । सोऽल्लिवत्तव गर्हस्य न नमामीति निर्भयः ॥१५०॥
 तस्योपरि नतो याति सौदामे विपयोऽगित । प्रपलायितुमारमे भक्षणत्रासकम्पितः ॥१५१॥
 'स जित्वा तनय युद्धे राज्ये न्यस्य पुन कृती । महान्वेगसपत्न प्रविशेश तपोवनम् ॥१५२॥
 ततो ब्रह्मरथो जातश्चतुर्वक्त्रस्ततोऽभवत् । तस्मान्नेमरथो जज्ञे जात शतरथस्तत ॥१५३॥
 ददपादि पृथुस्तस्मादजस्तस्मात् पयोऱथ । वभूवेन्द्ररथोऽमुष्माहिननाथरथस्तत ॥१५४॥
 मान्धाता वीरसेनश्च प्रतिमन्युस्तत क्रमान् । नान्ना कमलवन्धुश्च दीप्या कमलवान्धवः ॥१५५॥
 प्रतापेन रवेस्तुज्य समस्तस्थितिज्ञोऽत्रिद । रविमन्युश्च विज्ञेयो वसन्ततिलकस्तथा ॥१५६॥
 कुवेरदत्तनामा च कुन्धुभक्तिश्च कीर्तिमान् । गरभद्विर्दो प्रोक्ती रथगच्छोत्तरश्रुती ॥१५७॥
 मृगेणदमनाभिरथो हिरण्यकशिपुस्तथा । पुञ्जस्थल ककुत्थश्च रघु परमविक्रम ॥१५८॥
 इतीष्वारुणुलोद्गता कीर्तिता भुवनाधिपाः । मृदिगोऽत्र गता मोक्ष कृत्वा देगम्बर व्रतम् ॥१५९॥
 धार्मात्ततो विनीतायामनरण्यो महानृपः । अनरण्य कृतो येन देशो वामयता जनम् ॥१६०॥

जिस प्रकार मिहका आहार मांस है उसी प्रकार इसका भी आहार मांस हो गया था । इसलिए यह समागम मिहर्मादासके नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ ॥१४७॥

अथानन्तर वह दक्षिण देशमें जाकर एक दिगम्बर मुनिके पास पहुँचा और उनसे धर्म श्रवणकर बड़ा भारी अणुव्रतोंका धारी हो गया ॥१४८॥ तदनन्तर उसी समय महापुर नगरका राजा मर गया था । उसके कोई सन्तान नहीं थी । सो लोगोंने निश्चय किया कि पट्टवध हाथी छोड़ा जावे । वह जिसे कन्वेपर बँठाकर लावे उसे ही राजा बना दिया जाय । निश्चयानुसार पट्टवन्ध हाथी छोड़ा गया और वह सिंहर्मादामको कन्वेपर बँठाकर नगरमें ले गया । फलस्वरूप उसे राज्य प्राप्त हो गया ॥१४९॥ कुछ समय बाद जब सौदाम बलिष्ठ हो गया तब उसने नमस्कार करनेके लिए पुत्रके पाम दूत भेजा । इसके उत्तरमें पुत्रने निर्भय होकर लिख दिया कि चूँकि तुम निन्दित आचरण करनेवाले हो अतः तुम्हें नमस्कार नहीं करूँगा ॥१५०॥ तदनन्तर सौदास पुत्रके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए चला सो 'कहीं यह खा न ले' इस भयसे समस्त देशवासी लोगोंने भागना शुरू कर दिया ॥१५१॥ अन्तमें सौदासने युद्धमें पुत्रको जीतकर उसे ही राजा बना दिया और स्वयं कृतकृत्य हो वह महावैराग्यसे युक्त होता हुआ तपोवनमें चला गया ॥१५२॥

तदनन्तर मिहरथके ब्रह्मरथ, ब्रह्मरथके चतुर्मुख, चतुर्मुखके हेमरथ, हेमरथके शतरथ, शतरथके मान्धाता, मान्धाताके वीरसेन, वीरसेनके प्रतिमन्यु, प्रतिमन्युके दीपिसे सूर्यकी तुलना करनेवाला कमलवन्धु, कमलवन्धुके प्रतापसे सूर्यके समान तथा समस्त मर्यादाको जाननेवाला रविमन्यु, रविमन्युके वसन्ततिलक, वसन्ततिलकके कुवेरदत्त, कुवेरदत्तके कीर्तिमान् कुन्धुभक्ति, कुन्धुभक्तिके शरभरथ, शरभरथके द्विदरथ, द्विदरथके सिंहदमन, सिंहदमनके हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपुके पुञ्जस्थल, पुञ्जस्थलके ककुत्थ और ककुत्थके अतिशय पराक्रमी रघु पुत्र हुआ ॥१५३-१५८॥ इस प्रकार इच्छ्वाकु वंशमें उत्पन्न हुए राजाओंका वर्णन किया । इनमेंसे अनेक राजा दिगम्बर व्रत धारण कर मोक्षको प्राप्त हुए ॥१५९॥ तदनन्तर राजा रघुके अयोध्यामें अनरण्य नामका ऐसा पुत्र हुआ कि जिसने लोगोंको बसा बसाकर देशको अनरण्य अर्थात् वनोसे

१. सजित्वा म० । २. पुञ्जस्थलककुत्थश्च म० । ३. वनरहितः ।

पृथिवीमत्यभिख्यास्य महादेवी महागुणा । कान्तिमण्डलमध्यस्था सर्वेन्द्रियसुखात्रहा ॥१६१॥
 द्वौ सुताबुद्धपत्न्यातां तस्यामुत्तमलक्ष्णौ । ज्येष्ठोऽनन्तरथो ज्ञेयः स्यातो दशरथोऽनुजः ॥१६२॥
 सहस्ररश्मिसञ्ज्ञस्य राज्ञो माहिष्मतीपतेः । ^१अजर्यमनरण्येन साकमासीदनुत्तमम् ॥१६३॥
 अन्योऽन्यगतिसवृद्धप्रेमाणौ तौ नरोत्तमौ । सौधर्मैशानदेवैन्द्राविवास्थातां स्वधामनि ॥१६४॥
 रावणेन जितो युद्धे सहस्रांशुर्विबुद्धवान् । दीक्षां जैनेश्वरीमाप विभ्रःसवेगमुन्नतम् ॥१६५॥
 दूतात्तद्येपिताञ् ज्ञात्वा तद्वृत्तान्तमशेषतः । ^२मासजाते श्रिय न्यस्य ^३नार्पी दशरथे भृशम् ॥१६६॥
 सकाशेऽभयसेनस्य निर्ग्रन्थस्य महात्मनः । राजानन्तरथेनामा प्रवव्राजातिनिःस्पृहः ॥१६७॥
 अनरण्योऽगमन्मोक्षमनन्तस्यन्दनो महीम् । सर्वसद्गविनिर्मुक्तो विजहार यथोचितम् ॥१६८॥
 अत्यन्तदुस्महैर्योगी द्वाविंशतिपरीपहैः । न क्षोभितस्ततोऽनन्तवीर्याख्यां स क्षितौ गतः ॥१६९॥
 वपुर्दशरथो लेभे नवयौवनभूपितम् । शैलकूटमिवोत्तुङ्ग नानाकुसुमभूपितम् ॥१७०॥
 अथामृतप्रभावायामुत्पन्नां वरयोपिति । दर्भस्थलपुरेशस्य चारुत्रिभ्रमधारिणः ॥१७१॥
 राज्ञः सुकोशलाख्यस्य तनयामपराजिताम् । उपयेमे स रत्यापि स्त्रीगुणैरपराजिताम् ॥१७२॥
 पुरमस्ति महारम्य नाम्ना कमलसंकुलम् । सुवन्धुतिलकस्तस्य राजा मित्रास्य भामिनी ॥१७३॥
 दुहिता कैकयी नाम तयोः कन्या गुणान्विता । मुण्डमाला कृता यस्या नेत्रेन्दीवरमालया ॥१७४॥

रहित कर दिया ॥१६०॥ राजा अनरण्यकी पृथिवीमती नामकी महादेवी थी जो महागुणोसे युक्त थी, कान्तिके समूहके मध्यमे स्थित थी और समस्त इन्द्रियोंके सुख धारण करनेवाली थी ॥१६१॥ उसके उत्तम लक्षणोंके धारक दो पुत्र हुए । उनमे ज्येष्ठ पुत्रका नाम अनन्तरथ और छोटे पुत्रका नाम दशरथ था ॥१६२॥ माहिष्मतीके राजा सहस्ररश्मिकी अनरण्यके साथ उत्तम मित्रता थी ॥१६३॥ परस्परके आने-जानेसे जिनका प्रेम वृद्धिको प्राप्त हुआ था ऐसे दोनों राजा अपने-अपने घर सौधर्म और ऐशानेन्द्रके समान रहते थे ॥१६४॥

अथानन्तर रावणसे पराजित होकर राजा सहस्ररश्मि प्रतिबोधको प्राप्त हो गया जिससे उत्तम संवेगको धारण करते हुए उसने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली ॥१६५॥ दीक्षा धारण करनेके पहले उसने राजा अनरण्यके पास दूत भेजा था सो उससे सब समाचार जानकर राजा अनरण्य, जिसे उत्पन्न हुए एक माह ही हुआ था ऐसे दशरथके लिए राज्यलक्ष्मी सौंपकर अभयसेन नामक निर्ग्रन्थ महात्माके समीप ज्येष्ठ पुत्र अनन्तरथके साथ अत्यन्त निःस्पृह हो दीक्षित हो गया ॥१६६-१६७॥ अनरण्यमुनि तो मोक्ष चले गये और अनन्तरथ मुनि सर्व प्रकारके परिग्रहसे रहित हो यथायोग्य पृथिवीपर विहार करने लगे ॥१६८॥ अनन्तरथमुनि अत्यन्त दुःसह बाईस परीपहोंसे क्षोभको प्राप्त नहीं हुए थे इसलिए पृथिवीपर 'अनन्त-वीर्य' इस नामको प्राप्त हुए ॥१६९॥

अथानन्तर राजा दशरथने नवयौवनसे सुशोभित तथा नाना प्रकारके फूलोंसे सुभूषित पहाड़के शिखरके समान ऊँचा शरीर प्राप्त किया ॥१७०॥ तदनन्तर उसने दर्भस्थल नगरके स्वामी तथा सुन्दर विभ्रमोको धारण करनेवाले राजा सुकोशलकी अमृतप्रभावा नामकी उत्तम स्त्रीसे उत्पन्न अपराजिता नामकी पुत्रोंके साथ विवाह किया । अपराजिता इतनी उत्तम स्त्री थी कि स्त्रियोंके योग्य गुणोंके द्वारा रति भी उसे पराजित नहीं कर सकी थी ॥१७१-१७२॥ तदनन्तर कमलसंकुल नामका एक महा सुन्दर नगर था उसमे सुवन्धुतिलक नामका राजा राज्य करता था । उसकी मित्रा नामकी स्त्री थी । उन दोनोंके कैकयी नामकी गुणवती पुत्री थी । वह इतनी सुन्दरी थी कि उसके नेत्ररूपी नील कमलोंकी मालासे मस्तक मालारूप हो गया

१. संगत, मैत्रीत्यर्थः । २. मासो जातस्य यस्य स तस्मिन् । ३. नृपसम्बन्धिनीम् । ४. -मुत्पन्ना म० ।

मित्राया जनिता यस्मात् सुचेष्टा रूपशालिनी । सुमित्रेति तत' स्याति भुवने ससुपागता ॥१७५॥
महाराजसुतामन्या प्रापामौ सुप्रभाश्रुतिम् । लावण्यसम्पदा' बाला जनयन्ती श्रियस्त्रपाम् ॥१७६॥
न सम्यग्दर्शनं लेभे राज्यं च परमोदयम् । आद्ये रत्नमतिस्तस्य चरमे तृणशेषुपी ॥१७७॥
अधोगतिर्यतो राज्यादत्यक्ताट्टपजायते । सम्यग्दर्शनयोगात्तु गतिरूर्ध्वमसशया ॥१७८॥

ये भरताश्चैर्नृपतिभिरुद्धा. कारितपूर्वा जिनवरवासा ।
भद्रमुपेतान् ष्वच्चिद्रपि रम्यान् गोऽनयदेतानभिनवभावान् ॥१७९॥
इन्द्रनुतानां स्वयमपि रम्यान् तीर्थकराणा परमनिवामान् ।
रत्नममर्हं स्फुरदुरुभास. मन्ततपूजामघटयदेष. ॥१८०॥
अन्यभवेपु प्रथितसुधर्मा. प्राप्य सुराणा श्रियमतिरम्याम् ।
इन्द्रशजीवा पुनरिह लोके यान्ति 'समृद्धिं रविरुचिभाम ॥१८१॥

इत्यार्षे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते सुकोशलमाहात्म्ययुक्त-
दशरथोत्पत्त्यभिधानं नाम द्वाविंशति तम पर्व ॥२२॥



था ॥१७३-१७४॥ चूँकि यह मित्रा नामक मातासे उत्पन्न हुई थी, उत्तम चेष्टाओंसे युक्त थी, तथा रूपवती थी इसलिए लोकमें सुमित्रा इम नामसे भी प्रसिद्धिको प्राप्त हुई थी । राजा दशरथने उसके साथ भी विवाह किया था ॥१७५॥ इनके सिवाय लावण्यरूपी सम्पदाके द्वारा लक्ष्मीको भी लज्जा उत्पन्न करनेवाली सुप्रभा नामकी एक अन्य राजपुत्रीके साथ भी उन्होंने विवाह किया था ॥१७६॥ राजा दशरथने सम्यग्दर्शन तथा परम वैभवसे युक्त राज्य इन दोनों वस्तुओंको प्राप्त किया था । सो प्रथम जो सम्यग्दर्शन है उसे वह रत्न समझता था और अन्तिम जो राज्य था उसे तृण मानता था ॥१७७॥ इम प्रकार माननेका कारण यह है कि यदि राज्यका त्याग नहीं किया जाय तो उससे अधोगति होती है और सम्यग्दर्शनके सुयोगसे नि.सन्देह ऊर्ध्वगति होती है ॥१७८॥ भरतादि राजाओंने जो पहले जिनेन्द्र भगवान्के उत्तम मन्दिर बनवाये थे वे यदि कहीं भग्नावस्थाको प्राप्त हुए थे तो उन रमणीय मन्दिरोंको राजा दशरथने मरम्मत कराकर पुन. नवीनता प्राप्त कराई थी ॥१७९॥ यही नहीं, उसने स्वयं भी ऐसे जिनमन्दिर बनवाये थे जिनकी कि इन्द्र स्वयं स्तुति करता था तथा रत्नोंके समूहसे जिनकी विशाल कान्ति स्फुरायमान हो रही थी ॥१८०॥ गीतमन्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन्! अन्य भवोंमें जो धर्मका सञ्चय करते हैं वे देवोंकी अत्यन्त रमणीय लक्ष्मी प्राप्त कर संसारमें पुन' राजा दशरथके समान भाग्यशाली जीव होंते हैं और सूर्यके समान कान्तिको धारण करते हुए समृद्धिको प्राप्त होते हैं ॥१८१॥

इम प्रकार आर्पणनामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्य द्वारा कथित, पद्मचरितमें सुकोशल स्वामीके माहात्म्य से युक्त राजा दशरथकी उत्पत्तिका कथन करनेवाला चाईसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥२२॥



त्रयोविंशतितमं पर्व

अन्यथा सुखार्सीनं सभायां पुरुतेजसम् । जिनराजकथासक्तं सुरेन्द्रसमविभ्रमम् ॥१॥
 सहसा जनितालोको गगने देहेतेजसा । समाययाववद्धार. शिष्टो दशरथं सुधीः ॥२॥
 कृत्वाभ्युत्थानमार्सानमासने त सुखावहे । दत्ताशीर्वचनं राजा पप्रच्छ कुशलं कृती ॥३॥
 निवेद्य कुशल तेन क्षेम पृष्टो महीपतिः । सकल क्षेममित्युक्त्वा पुनरेवमभाषत ॥४॥
 आगम्यते कुतः स्थानाद्भगवन् विहतं क्व च । किमु दृष्टं श्रुतं किन्वा न ते देशोऽस्त्यगोचरः ॥५॥
 ततो मनःस्थजैनेन्द्रवर्णनोद्भूतसंमदः । उन्नतं पुलकं विभ्रदित्यभाषत नारदः ॥६॥
 विदेहे नृप यातोऽहमास चारुजनेहितम् । जिनेन्द्रभवनाधारभूरिशैलविभूषितम् ॥७॥
 तत्र निष्क्रमण दृष्टं मया सीमन्धरार्हतः । नगर्यां पुण्डरीकिण्यां नानारत्नोस्तेजसि ॥८॥
 विमानैर्विविधच्छायैः केतुच्छत्रविभूषितैः । यानैश्च विविधैर्दृष्टं देवागमनमाकुलम् ॥९॥
 मुनिसुव्रतनाथस्य यथेह सुरपैः कृतम् । तथाभिषेचन मेरौ मया तस्य मुनेः श्रुतम् ॥१०॥
 सुव्रतस्य जिनेन्द्रस्य वाच्यमानं श्रुतं यथा । तथा मे चरित तस्य तत्र गोचरित दशा ॥११॥
 नानारत्नप्रभाह्वानि तुङ्गानि विपुलानि च । दृष्टानि तत्र चैत्यानि कृतपूजान्यनारतम् ॥१२॥

अथानन्तर किसी समय विशाल तेजके धारक तथा इन्द्रके समान शोभासे सम्पन्न राजा दशरथ जिनराजकी कथा करते हुए सभामे सुखसे बैठे थे कि सहसा शरीरके तेजसे प्रकाश उत्पन्न करते हुए शिष्ट पुरुष तथा उत्तम बुद्धिके धारक नारदजी वहाँ आ पहुँचे ॥१-२॥ राजाने उठकर उनका सन्मान किया तथा सुखदायक आसनपर बैठाया। नारदने राजाको आशीर्वाद दिया। तदनन्तर बुद्धिमान् राजाने कुशल-समाचार पूछा ॥३॥ जब नारद कुशल-समाचार कह चुके तब राजाने क्षेम अर्थात् कल्याणरूप हो ? यह पूछा। इसके उत्तरमें 'राजन् ! सब कल्याण रूप है' यह उत्तर दिया ॥४॥ इतनी वार्ता हो चुकनेके बाद राजा दशरथने फिर पूछा कि हे भगवन् ! आप किस स्थानसे आ रहे हैं ? और कहाँ आपका विहार हो रहा है ? आपने क्या देखा क्या सुना सो कहिए ? ऐसा कोई देश नहीं जहाँ आप न गये हों ॥५॥

तदनन्तर मनमे स्थित जिनेन्द्रदेव सम्बन्धी वर्णनसे जिन्हें आनन्द उत्पन्न हो रहा था तथा इसी कारण जो उन्नत रोमाञ्च धारण कर रहे थे ऐसे नारदजी कहने लगे कि हे राजन् ! उत्तम जन जिसकी सदा इच्छा करते हैं तथा जो जिनमन्दिरोके आधारभूत मेरु, गजदन्त, विजयाद्व आदि पर्वतोसे सुशोभित है ऐसे विदेह क्षेत्र मे गया था ॥६-७॥ वहाँ नाना रत्नोके विशाल तेजसे युक्त पुण्डरीकिणी नगरीमे मैंने सीमन्धर स्वामीका दीक्षा कल्याणक देखा ॥८॥ पताकाओ और छत्रोंसे सुशोभित रङ्ग-विरङ्गे विमानों, तथा विविध प्रकारके वाहनोसे व्याप्त देवोंका आगमन देखा ॥९॥ मैंने वहाँ सुना था कि जिस प्रकार अपने इस भरत क्षेत्रमे इन्होंने मुनिसुव्रतनाथ भगवान्का सुमेरु पर्वतपर अभिषेक किया था वैसा ही वहाँ उन भगवान्का इन्होंने सुमेरु पर्वतपर अभिषेक किया था ॥१०॥ मुनिसुव्रत भगवान्का जैसा वांचा गया चरित्र यहाँ सुना है वैसा ही वहाँ उनका चरित्र अपनी आँखोंसे देखा है ॥११॥ जो नाना प्रकारके रत्नोंकी प्रभासे व्याप्त है, ऊँचे हैं, विशाल हैं तथा जिनमे निरन्तर पूजा होती रहती है ऐसे

विचित्रमणिभक्तानि हेमपीठानि पार्थिव । दृष्टान्यत्यन्तरस्याणि वनचैत्यानि नन्दने ॥१३॥
 चार्माकरमहान्तम्भयुक्तेषु स्फुरिताशुषु । भान्करालयतुल्येषु हारितोरणचासु ॥१४॥
 रत्नदामममृदेषु महावैदिकभूमिषु । द्विपरिहादिरूपाह्यवैद्वर्योदारभित्तिषु ॥१५॥
 कृतमर्गातद्विभ्रोजनपूरितकुक्षिषु । अमरारण्यचैत्रेषु जिनार्चा प्रणता मया ॥१६॥
 वैद्यप्रभाविजामाद्य कृत्वा मेरु प्रदक्षिणम् । पयोदपटल भित्त्वा समुल्लङ्घ्योन्नत नभः ॥१७॥
 वास्यान्तरगिरीन्द्राणा शिखरेषु महाप्रभा । चैत्यालया जिनेन्द्राणा प्रणता बहवो मया ॥१८॥
 सर्वेषु तेषु चैत्रेषु जिनाना प्रतियातना । अकृत्रिमा महाभासो मया पार्थिव वन्द्यते ॥१९॥
 इत्युक्ते देवदेवैर्मयो नम इत्युद्गनध्वनि । प्रणत करयुग्म च चक्रे दशरथ शिर ॥२०॥
 मज्जया नारदेनाथ चोदिते जगतीपति । जनस्योसारण चक्रे प्रतीहारेण सादरम् ॥२१॥
 उपायु नागदेनाथ जगदे जोगलापिप । शृणु स्वावहितो राजन् सद्भाव कथयामि ते ॥२२॥
 गतस्त्रिमूढशिखर चन्द्राररहस्युक्त । चन्द्रित शान्तिभवन मया तत्र मनोरमम् ॥२३॥
 भवपुण्यानुभावेन मया तत्र प्रधारणम् । श्रुत विभीषणादीना लङ्कानाथस्य मन्त्रिणाम् ॥२४॥
 नेमित्तेन ममाद्रिष्ट तेन सागरवृद्धिना । भविता दशरथस्य मृत्युर्दागरथि क्विल ॥२५॥
 द्रुहिता जनस्यापि हेतुत्वमुपयास्यति । इति श्रुत्वा विपण्णात्मा निश्चिन्नाय विभीषणः ॥२६॥

वहाँके जिन-मन्दिर देखें हैं ॥१३॥ हे राजन् ! वहाँ नन्दनवनमे जो अत्यन्त मनोहर चैत्यालय हैं वे भी देखें हैं । उन मन्दिरोंमें अनेक प्रकारके मणियोंके बेलवृटे निकाले गये हैं तथा उनकी कुर्मियों सुवर्णनिर्मित हैं ॥१४॥ जो सुवर्णमय खम्भोंसे युक्त हैं, जिनमें नाना प्रकारकी किरणें देदीप्यमान हो रही हैं, जो मूर्त्य-विमानके समान जान पड़ते हैं, जो हार तथा तोरणोंसे मनोहर हैं, जो रत्नमयी मालाओंसे समृद्ध हैं, जिनकी भूमियोंमें बड़ी विस्तृत वेदिकाएँ बनी हुई हैं, जिनकी वैदूर्यमणि निर्मित उत्तम दीवालें हाथी सिंह आदिके चित्रोंसे अलङ्कृत हैं और जिनके भीतरी भाग मर्गात करनेवाली दिव्य म्त्रियोंसे भरे हुए हैं, ऐसे देवारण्यके चैत्यालयोंमें जो जिन-प्रतिमाएँ हैं उन सबके लिए मैंने नमस्कार किया ॥१४-१६॥ अकृत्रिम प्रतिमाओंकी प्रभाके विक्रामसे युक्त जो मेरु पर्वत है उसकी प्रदक्षिणा देकर तथा मेघ-पटलको भेदन कर बहुत ऊँचे आकाशमें गया ॥१७॥ तथा कुलाचलोंके शिखरोंपर जो महा देदीप्यमान अनेक जिन-चैत्यालय हैं उनकी वन्दना की है ॥१८॥ हे राजन् ! उन समस्त चैत्यालयोंमें जिनेन्द्र भगवान्की महा देदीप्यमान अकृत्रिम प्रतिमाएँ हैं मैंने उन सबको वन्दना करता हूँ ॥१९॥ नारदके इस प्रकार कहने पर 'देवादिदेवोंको नमस्कार हो' शब्दोंका उच्चारण करते हुए राजा दशरथने दोनों हाथ जोड़े तथा शिर नम्रीभूत किया ॥२०॥

अथानन्तर मद्धेत द्वाग नारदकी प्रेरणा पाकर राजा दशरथने प्रतिहारीके द्वारा आदरके साथ सब लोगोंको वहाँसे अलग कर दिया ॥२१॥ तदनन्तर जब एकान्त हो गया तब नारदने कोसलाधिपति राजा दशरथसे कहा कि हे राजन् ! एकाग्रचित्त होकर सुनो मैं तुम्हारे लिए एक उत्तम बात कहता हूँ ॥२२॥ मैं बड़ी उत्सुकताके साथ वन्दना करनेके लिए त्रिकूटाचलके शिखर पर गया था सो मैंने वहाँ अत्यन्त मनोहर शान्तिनाथ भगवान्के जिनालयकी वन्दना की ॥२३॥ तदनन्तर आपके पुण्यके प्रभावसे मैंने लङ्कापति रावणके विभीषणादि मन्त्रियोंका एक निश्चय सुना है ॥२४॥ वहाँ सागरवृद्धि नामक निमित्तज्ञानीने रावणको बताया है कि राजा दशरथका पुत्र तुम्हारी मृत्युका कारण होगा ॥२५॥ इसी प्रकार राजा जनककी पुत्री भी इसमें कारणपनेको

१. प्रतिमा । २. अकृत्रिममहाभासो म०, ख०, व०, क० । ३. शृणुस्वावहितः ख०, ब०, म०, ज० ।

४. निश्चित्वाप म० ।

जायते यावदेवास्य प्रजा^१ दशरथस्य न । जनकस्य च तावत्तौ मारयामीति सादरः ॥२७॥
 पर्यटच्च चिरं चोणी तच्चरेण निवेदितौ । भवन्तौ कामरूपेण स्थानरूपादिलक्षणैः ॥२८॥
 मुनिविस्रम्भतस्तेन पृष्टोऽहमपि भो यते । ^२क्वचिद्दशरथं वेत्सि जनकं च क्षिताविति ॥२९॥
 अन्विष्य कथयामीति मया चोपात्तमुत्तरम् । आकृतं दारुणं तस्य पश्यामि नरपुङ्गव ॥३०॥
 तत्ते यावदयं किञ्चिन्न करोति विभीषण^३ । निगृह्य तावदात्मानं क्वचित्तिष्ठ महींपते ॥३१॥
 सम्यग्दर्शनयुक्तेषु गुरुपूजनकारिषु । सामान्येनैव मे प्रीतिस्त्वद्विधेषु विशेषतः ॥३२॥
 स त्व युक्तं कुरु स्वस्ति भूयान्तेऽह गतोऽधुना । इमां वेदयितुं वार्तां क्षिप्रं जनकभूभृतः ॥३३॥
 कृतानतिर्नृपैर्णवमुक्त्वोन्पत्य^४ नभस्तलम् । ^५अवद्वारयतिर्वैगान्मिथिलाभिमुखं यथा ॥३४॥
 जनकायापि तेनेदमशेषं विनिवेदितम् । भव्यजीवा हि तस्यासन् प्राणैर्म्योऽप्यतिवल्लभाः ॥३५॥
 अवद्वारयतौ याते मरणाशङ्किमानसः । समुद्रहृदयामात्यमाकारयद्विलापितः ॥३६॥
 श्रुत्वा राजमुखान्मन्त्रो समभ्यर्णं महाभयम् । जगाद^६ गदता श्रेष्ठ स्वामिभक्तिपरायणः ॥३७॥
 जीवितायाखिलं कृत्यं क्रियते नाथ जन्तुभिः । त्रैलोक्येशत्वलाभोऽपि वद तेनोष्कृतस्य कः ॥३८॥
 तस्माद्यावदरार्तानां व्यसनं रचयाम्यहम् । तावदज्ञातरूपस्त्वं विकृतो^७ विहरावनिम् ॥३९॥
 इत्युक्ते तत्र निक्षिप्य कोशं देवं पुरं जनम् । ^८निरक्रामत् पुराद् राजा सद्यस्य सुपरीक्षितः ॥४०॥

प्राप्त होगी । यह सुनकर जिसकी आत्मा विपादसे भर रही थी ऐसे विभीषणने निश्चय किया कि जबतक राजा दशरथ और जनकके सन्तान होती है उसके पहले ही मैं इन्हें मारे डालता हूँ ॥२६-२७॥ यह निश्चयकर वह तुम लोगोंकी खोजके लिए चिरकाल तक पृथ्वीमें घूमता रहा पर पता नहीं चला सका । तदनन्तर इच्छानुकूल रूप धारण करनेवाले उसके गुप्तचरने स्थान, रूप आदि लक्षणोंसे तुम दोनोंका उसे परिचय कराया है ॥२८॥ मुनि होनेके कारण मेरा विश्वास कर उसने मुझसे पूछा कि हे मुने ! पृथ्वीपर कोई दशरथ तथा जनक नामके राजा हैं सो उन्हें तुम जानते हो ॥२९॥ इस प्रश्नके बदले मैंने उत्तर दिया कि खोजकर वतलाता हूँ । हे नरपुङ्गव ! मैं उसके अभिप्रायको अत्यन्त कठोर देखता हूँ ॥३०॥ इसलिए हे राजन् ! यह विभीषण जबतक तुम्हारे विषयमें कुछ नहीं कर लेता है तबतक तुम अपने आपको छिपाकर कहीं गुप्तरूपसे रहने लगो ॥३१॥ सम्यग्दर्शनसे युक्त तथा गुरुओंकी पूजा करनेवाले पुरुषोंपर मेरी समान प्रीति रहती है और तुम्हारे जैसे पुरुषोंपर विशेषरूपसे विद्यमान है ॥३२॥ तुम जैसा उचित समझो सो करो । तुम्हारा भला हो । अब मैं यह वार्ता कहनेके लिए शीघ्र ही राजा जनकके पास जाता हूँ ॥३३॥

तदनन्तर जिसे राजा दशरथने नमस्कार किया था ऐसे नारद मुनि इस प्रकार कहकर तथा आकाशमें उड़कर वड़े वेगसे मिथिलाकी ओर चले गये ॥३४॥ वहाँ जाकर राजा जनकके लिए भी उन्होंने यह सब समाचार वतलाया सो ठीक ही है क्योंकि भव्य जीव उन्हें प्राणोंसे भी अधिक ग्यारे थे ॥३५॥ नारद मुनिके चले जानेपर जिसके मनमें मरणकी आशङ्का उत्पन्न हो गई थी ऐसे राजा दशरथने समुद्रहृदय नामक मन्त्रीको बुलवाया ॥३६॥ वक्ताओंमें श्रेष्ठ तथा स्वामिभक्तिमें तत्पर मन्त्रीने राजाके मुखसे महाभयको निकटस्थल सुन कहा ॥३७॥ कि हे नाथ ! प्राणी जितना कुछ कार्य करते हैं वह जीवनके लिए ही करते हैं । आप ही कहिए, जीवनसे रहित प्राणीके लिए यदि तीन लोकका राज्य भी मिल जाय तो किस कामका है ॥३८॥ इसलिए जबतक मैं शत्रुओंके नाशका प्रयत्न करता हूँ तबतक तुम किसीकी पहिचानमें रूप न आ सकें इस प्रकार वेप बदलकर पृथ्वीमें विहार करो ॥३९॥ मन्त्रीके ऐसा कहनेपर राजा दशरथ

१. सन्ततिः । २. क्वचिद्दश- म० । ३. मुक्त्वात्यन्त- म० । ४. नारदभिः । ५. जगादे म० । ६. विकृती म० । ७. निष्क्रामद् म० ।

गते राजन्यमात्येन ^१लेप्य द्वाशरथ वपु । कारित मुख्यवपुषो भिन्न चेतनयैकया ॥४१॥
 लाजादिरसयोगेन रुधिर तत्र निर्मितम् । मार्तच च कृत ^२तादृग्यादृक्सत्यासुधारिणः ॥४२॥
 वराम्ननिविष्ट त वेश्मन ससमे तले । युक्त पुरैव सर्वेण परिवर्गेण विग्वकम् ॥४३॥
 न मन्त्री लेप्यकारश्च कृत्रिम ^३जज्ञतुर्नृपम् । भ्रान्तिर्हि जायते तत्र पश्यतोरुभयोरपि ॥४४॥
 अथमेव च वृत्तान्तो जनकस्यापि कल्पित । उपर्युपरि हि प्रायश्चलन्ति विदुषां धिय ॥४५॥
 मयां तौ चित्तिपां नष्टौ भुवनस्थितिकोविदां । आपत्काले यथेन्द्रकौ समये जलदायिनाम् ॥४६॥
 यो पुरा वरनारीभिर्महाप्रासादवर्तिनी । उदारभोगसम्पन्नौ सेवितौ मगधाधिप ॥४७॥
 इतराविव तौ कौचिदमहायां नरोत्तमी । चरणाभ्या मही कष्ट भ्रमन्तो ^४धिग्भवस्थितिम् ॥४८॥
 इति निश्चित्य जन्तुभ्यो यो ददात्यभयं नरः । किं न तेन भवेद्वत्त साधूनां धुरि तिष्ठता ॥४९॥
 दृष्टौ तौ तत्र तत्रेति चरवर्गेण वेदितौ । अनुजेन दशास्यस्य प्रेषिता वधका भृशम् ॥५०॥
 ते गन्धपाणयः क्रूरा ^५दृष्ट्वागोचरविग्रहा । दिवा नक्त च नगरां भ्रमन्ति चलचक्षुष ॥५१॥
 प्रामादं हीनमस्वान्ते प्रवेष्टु न सहा यदा । चिरायन्ते तदायासीत् स्वयमेव विभीषणः ॥५२॥
 अन्विष्य गीतशब्देन प्रविश्य गतविभ्रमः । ददर्शान्त पुरान्तस्थ व्यक्त दशरथ विभी ॥५३॥

उसी ममुद्रहृदय मन्त्रीके लिए खजाना, देश, नगर तथा प्रजाको सौपकर नगरसे बाहर निकल गया सो ठीक ही है क्योंकि वह मन्त्री राजाका अच्छी तरह परीक्षा किया हुआ था ॥४०॥ राजाके चले जानेपर मन्त्रीने राजा दशरथके शरीरका एक पुतला बनवाया । वह पुतला मूल-शरीरसे इतना मिलता-जुलता था कि केवल एक चेतनाकी अपेक्षा ही भिन्न जान पड़ता था ॥४१॥ उसके भीतर लाख आदिका रस भराकर रुधिरकी रचना की गई थी तथा सचमुचके प्राणीके शरीरमें जैसी कोमलता होती है वैसी ही कोमलता उस पुतलेमें रची गई थी ॥४२॥ राजाका वह पुतला पहलेके समान ही समस्त परिकरके साथ महलके सातवें खण्डमें उत्तम आमनपर विराजमान किया गया था ॥४३॥ वह मन्त्री तथा पुतलाको बनानेवाला चित्रकार ये दोनों ही राजाको कृत्रिम राजा समझते थे और वाकी सबलोग उसे सचमुचका ही राजा समझते थे । यही नहीं उन दोनोंको भी देखते हुए जब कभी भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती थी ॥४४॥

उधर यही हाल राजा जनकका भी किया गया सो ठीक ही है क्योंकि विद्वानोंकी बुद्धियाँ प्रायः ऊपर-ऊपर ही चलती हैं अर्थात् एकसे-एक बढ़कर होती हैं ॥४५॥ जिस प्रकार वर्षा-ऋतुके समय चन्द्रमा और सूर्य छिपे-छिपे रहते हैं उसी प्रकार संसारकी स्थितिके जानकार दोनों राजा भी आपत्तिके समय पृथिवीपर छिपे-छिपे रहने लगे ॥४६॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे मगधाधिपते ! जो राजा पहले बड़े-बड़े महलोंमें रहते थे, उदार भोगसे सम्पन्न थे । उत्तमोत्तम स्त्रियाँ जिनकी सेवा करती थीं वे ही राजा अन्य मनुष्योंके समान असहाय हो पृथिवीपर पेरोंसे पैदल भटकते फिरते थे, सो इस संसारकी दशाको धिक्कार हो ॥४७-४८॥ ऐसा निश्चय कर जो प्राणियोंके लिए अभयदान देता है, सत्पुरुषोंके अग्रभागमें स्थित रहनेवाले उस पुरुषने क्या नहीं दिया ? अर्थात् सब कुछ दिया ॥४९॥ गुप्तचरोके समूहने जहाँ-जहाँ उनका मद्रात्र जाना वहाँ-वहाँ विभीषणने उन्हें स्वयं देखा तथा बहुतसे वधक भेजे ॥५०॥ जिनके हाथोंमें शस्त्र विद्यमान थे, जो स्वभावसे क्रूर थे, जिनके शरीर नेत्रोंसे दिखाई नहीं देते थे तथा जिनके नेत्र अत्यन्त चञ्चल थे, ऐसे वधक रात-दिन नगरीमें घूमने लगे ॥५१॥ हीन शक्तिके धारक वे वधक राजमहलमें प्रवेश करनेके लिए समर्थ नहीं हो सके इसलिए जब उन्हें अपने कार्यमें विलम्ब हुआ तब विभीषण स्वयं ही आया ॥५२॥ सङ्गीतके शब्दसे उसने दशरथ

१. लेख्य म० । २. तावत्यावत्पत्यासुधारिणः म० । ३. सजतु म० । ४. धिक्त्वस्थितिम् म० ।

५. दृष्ट्वा गोचनविग्रहा म० ।

विद्युद्विलसितो नाम चोदितस्तेन खेचरः । निकृत्य तस्य मूर्धानं स्वामिनेऽदृशयन्मुदा ॥५४॥
 श्रुतान्तःपुरजाक्रन्दो निक्षिप्यैतच्छिरोऽम्बुधौ । जनकेऽपि तथा चक्रे निर्दयं स विचेष्टितम् ॥५५॥
 ततः कृतिनमात्मानं कृत्वा सोदरवत्सलः । ययौ विभीषणो लङ्कां प्रमोदपरिपूरितः ॥५६॥
 विप्रलापं परं कृत्वा विदित्वा पुस्तकर्म च । धृति दाशरथः प्राप परिवर्गः सविस्मयः ॥५७॥
 विभीषणोऽपि सप्राप्य पुरीमशुभशान्तये । दानपूजादिकं चक्रे कर्म सञ्जनितोत्सवम् ॥५८॥
 बभूव च मतिस्तस्य कदाचिच्छान्तचेतसः । कर्मगामिति वैचित्र्यात् पश्चात्तापमुपेयुषः ॥५९॥

उपजातिवृत्तम्

असत्यभीत्या क्षितिगोचरौ तौ निरर्थकं प्रेतगतिं प्रणीतौ ।
 आशीविपाङ्गप्रभवोऽपि सर्पस्ताचर्यस्य शक्नोति किमु प्रहर्तुम् ॥६०॥
 'सुलेशशौर्यं' क्षितिगोचरः^२ क्व क्व रावणः शक्रसमानशौर्यः ।
 क्रोभः सशङ्को मदमन्दगामी क्व केसरी वायुसमानवेगः ॥६१॥

इन्द्रवज्रावृत्तम्

यद्यत्र यावच्च यतश्च येन दुःखं सुखं वा पुरुषेण लभ्यम् ।
 तत्तत्र तावच्च ततश्च तेन सप्राप्यते कर्मवशानुगेन ॥६२॥
 सम्यग्निमित्तं यदि वेत्ति कश्चिच्छ्रेयो न कस्मात् कुरुते निजस्य ।
 येनेह लोके लभतेऽतिसौख्यं मोक्षे च देहत्यजनात् पुरस्तात् ॥६३॥

का पता लगा लिया, जिससे निःसन्देह तथा निर्भय हो राजमहलमें प्रवेश किया । वहाँ जाकर उसने अन्तःपुरके बीचमें स्थित राजा दशरथको स्पष्ट रूपसे देखा ॥५३॥ उसी समय उसके द्वारा प्रेरित विद्युद्विलसित नामक विद्याधरने दशरथका शिर काटकर बड़े हर्षसे अपने स्वामी— विभीषणको दिखाया ॥५४॥ तदनन्तर जिसने अन्तःपुरके रुदनका शब्द सुना था ऐसे विभीषणने उस कटे हुए शिरको समुद्रमें गिरा दिया और राजा जनकके विषयमें भी ऐसी ही निर्दय चेष्टा की ॥५५॥ तदनन्तर भाईके स्नेहसे भरा विभीषण अपने आपको कृतकृत्य मानकर हर्षित होता हुआ लङ्का चला गया ॥५६॥ दशरथका जो परिजन था उसने पहले बहुत ही विलाप किया पर अन्तमें जब उसे यह विदित हुआ कि वह पुतला था तब आश्चर्य करता हुआ धैर्य को प्राप्त हुआ ॥५७॥ विभीषणने भी नगरीमें जाकर अशुभ कर्मकी शान्तिके लिए बड़े उत्सवके साथ दान-पूजा आदि शुभ कर्म किये ॥५८॥

तदनन्तर किसी समय जब उसका चित्त शान्त हुआ तब कर्मोंकी इस विचित्रतासे पश्चात्ताप करता हुआ इस प्रकार विचार करने लगा कि ॥५९॥ मिथ्या भयसे मैंने उन बेचारे भूमिगोचरियोको व्यर्थ ही मारा क्योंकि सर्प आशीविषके शरीरसे उत्पन्न होने पर भी क्या गरुड़के ऊपर प्रहार करनेके लिए समर्थ हो सकता है ? अर्थात् नहीं ॥६०॥ अत्यन्त तुच्छ पराक्रमको धारण करनेवाला भूमिगोचरी कहाँ और इन्द्रके समान पराक्रमको धारण करनेवाला रावण कहाँ ? शङ्कासे सहित तथा मदसे धीरे-धीरे गमन करनेवाला हाथी कहाँ और वायुके समान वेगशाली सिंह कहाँ ? ॥६१॥ जिस पुरुषको जहाँ जिससे जिस प्रकार जितना और जो सुख अथवा दुःख मिलना है कर्मोंके वशीभूत हुए उस पुरुषको उससे उस प्रकार उतना और वह सुख अथवा दुःख अवश्य ही प्राप्त होता है ॥६२॥ यदि कोई अच्छी तरह निमित्तको जानता है तो वह अपनी आत्माका कल्याण क्यों नहीं करता ? जिससे कि इस लोकमें तथा आगे

उपजातिवृत्तम्

राजोस्तयो' प्राणवियोजनेन नैमित्तमूढत्वमित विवेकम् ।
 दुःशिक्षितार्यैर्मनुजैरकार्यं प्रवर्तते जन्तुरसारबुद्धिः ॥६४॥
 अस्याश्विनाथस्य पुरी स्थितेय प्रभिन्नपातालतलस्य मध्ये ।
 कथं सुराणामपि भीतिदत्ता गम्यत्वमायात् क्षितिगोचराणाम् ॥६५॥

उपेन्द्रवज्रावृत्तम्

कृत मयात्यन्तमिदं न योग्यं करोमि नैव पुनरप्रधार्यम् ।
 इति प्रधार्योत्तमनीसियुक्तो रविर्यथा स्वे निलये स रेमे ॥६६॥
 इत्यार्यं रविपेणाचार्यं प्रोक्ते पद्मचरिते विभीषणव्यसनवर्णनं नाम त्रयोविंशतितमं पर्व ॥२३॥
 इति श्रीजनक-दशरथ कालनिवर्तनम्



चलकर शरीरका त्याग हो जानेसे मोक्षमे भी उत्तम सुखको प्राप्त होता ॥६३॥ मैंने जो उन दो राजाओंका प्राणघात किया है उससे जान पड़ता है कि मेरा विवेक निमित्तज्ञानीके द्वारा अत्यन्त मूढताको प्राप्त हो गया था । सो ठीक ही है क्योंकि हीन बुद्धि मनुष्य दुःशिक्षित मनुष्यों की प्रेरणासे अकार्यमें प्रवृत्ति करने ही लगते हैं ॥६४॥ यह लङ्कानगरी पाताल तलको भेदन करनेवाले इस समुद्रके मध्यमें स्थित है तथा देवोंको भी भय उत्पन्न करनेमें समर्थ है फिर भूमिगोचरियोंके गम्य कैसे हो सकती है ? ॥६५॥ 'मैंने जो यह कार्य किया है वह सर्वथा मेरे योग्य नहीं है अब आगे कभी भी ऐसा अविचारपूर्ण कार्य नहीं करूँगा' ऐसा विचारकर सूर्यके समान उत्तम कान्तिसे युक्त विभीषण अपने महलमें क्रीड़ा करने लगा ॥६६॥

इस प्रकार आर्षं नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्य द्वारा कथित पद्मचरितमें विभीषणके व्यसनका वर्णन करनेवाला तेईसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥



चतुर्विंशतितमं पर्व

१ यद्यथा भ्राम्यतो वृत्तमनरण्यतनूशुवः । तत्ते श्रेणिक वक्ष्यामि शृणु विस्मयकारणम् ॥१॥
 इतोऽस्युत्तरकाष्ठायां नाम्ना कौतुकमङ्गलम् । नगरं चास्य शैलाभप्राकारपरिशोभितम् ॥२॥
 राजा शुभमतिर्नाम तत्रासीत् सार्धकश्रुतिः । पृथुश्रीर्वनिता तस्य योपिद्गुणविभूषणा ॥३॥
 केकया द्रोणमेघञ्च पुत्रावभवतां तयोः । गुणैरत्यन्तविमलैः स्थिता यौ व्याप्य रोदसी ॥४॥
 तत्र सुन्दरसर्वाङ्गा चारुलक्षणधारिणी । नितरां केकया रेजे कलानां पारमागता ॥५॥
 अङ्गहाराश्रयं नृत्त तथाभिनयसंश्रयम् । व्यायामिकं च साज्ञासीत्तद्व्यभेदैः समन्वितम् ॥६॥
 अभिव्यक्तं त्रिभिः स्थानैः कण्ठेन शिरसोरसौ । स्वरेषु समवेतं च सप्तस्थानेषु तद्यथा ॥७॥
 षड्जर्षभां तृतीयश्च गान्धारो मध्यमस्तथा । पञ्चमो धैवतश्चापि निपादश्चेत्यमी स्वराः ॥८॥
 स्थितं लयैस्त्रिसंस्थानैर्दुर्लभमव्यविलम्बितैः । अस्र च चतुरस्रं च तालयोनिद्वयं दधत् ॥९॥
 न्यायिनंचारिभिर्युक्तं तथारोहवरोहिभिः । वर्णैरेभिश्चतुर्भेदैश्चतुःसंस्थपदस्थितम् ॥१०॥
 नामाख्यातोपसर्गेषु निपातेषु च संस्कृता । प्राकृती शौरसेनी च भाषा यत्र त्रयी स्मृता ॥११॥
 धैवत्यथार्पभाषड्जपड्जोर्दीच्या निपादिनी । गान्धारी चापरा षड्जकैकशी षड्जमध्यमा ॥१२॥
 गान्धारोर्दीच्यमंज्ञाभ्यां तथा मध्यमपञ्चमी । गान्धारपञ्चमी रक्तगान्धारी मध्यमा तथा ॥१३॥

अथानन्तर गौतमस्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! प्राण-रक्षाके लिए भ्रमण करते समय राजा दशरथका जो आश्चर्यकारी वृत्तान्त हुआ वह मैं तेरे लिए कहता हूँ सो सुन । यहाँसे उत्तर दिशामें पर्वतके समान ऊँचे कोटसे सुशोभित कौतुकमङ्गल नामका नगर है ॥१-२॥ वहाँ सार्धक नामको धारण करनेवाला शुभमति नामका राजा राज्य करता था । उसकी पृथुश्री नामकी स्त्री थी जो कि स्त्रियोंके योग्य गुणरूपी आभूषणसे विभूषित थी ॥३॥ उन दोनोंके केकया नामकी पुत्री और द्रोणमेघका नामका पुत्र ये दो सन्तानें हुईं । ये दोनों ही अपने अत्यन्त निर्मल गुणोंके द्वारा आकाश तथा पृथिवीके अन्तरालको व्याप्त कर स्थित थे ॥४॥ उनमें जिसके सर्व अङ्ग सुन्दर थे, जो उत्तम लक्षणोंको धारण करनेवाली तथा समस्त कलाओंकी पारगामिनी थी, ऐसी केकया नामकी पुत्री अत्यन्त सुशोभित हो रही थी ॥५॥ अङ्गहाराश्रय, अभिनयाश्रय और व्यायामिकके भेदसे नृत्यके तीन भेद हैं तथा इनके अन्य अनेक अवान्तर भेद हैं सो वह इन सबको जानती थी ॥६॥ वह उस संगीतको अच्छी तरह जानती थी जो कण्ठ शिर और उरस्थल इन तीन स्थानोंसे अभिव्यक्त होता था, तथा नीचे लिखे सात स्वरोंमें समवेत रहता था ॥७॥ षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निपाद ये सात स्वर कहलाते हैं ॥८॥ जो द्रुत, मध्य और विलम्बित इन तीन लयोंसे सहित था, तथा अस्र और चतुरस्र इन तालकी दो योनियोंको धारण करता था ॥९॥ न्यायी, संचारी, आरोही और अवरोही इन चार प्रकारके वर्णोंसे सहित होनेके कारण जो चार प्रकारके पदोंसे स्थित था ॥१०॥ प्रातपदिक, तिङन्त, उपसर्ग, और निपातोमें संस्कारको प्राप्त संस्कृत, प्राकृत और शौरसेनी यह तीन प्रकारकी भाषा जिसमें स्थित थी ॥११॥ धैवती, आर्पभी, षड्ज-पड्जा, उदीच्या, निपादिनी, गान्धारी, षड्जकैकशी और षड्जमध्यमा ये आठ जातियाँ हैं अथवा गान्धारोर्दीच्या, मध्यमपञ्चमी, गान्धारपञ्चमी,

१. यद्यथा ज० । २. यत्रा म० । ३. परमागता म०, ख० । ४. शिरसोस्ता म०, ज० । ५. तथारोह-वरोहिभिः म० । ६. पदास्थितम् म० ।

कर्तरीच्छेदनोद्भूतं द्विन्नं सम्बन्धसंयुतम् । विच्छिन्नं तु तदुद्भूतं सम्बन्धपरिवर्जितम् ॥४२॥
 पत्रवस्त्रसुवर्णादिसंभवं स्थिरचञ्चलम् । निर्णिन्ये सा परं चार्वां संवृतासंवृतादिजम् ॥४३॥
 आर्द्रं शुष्कं तदुन्मुक्तं मिश्रं चेति चतुर्विधम् । माल्यं तत्रार्द्रपुष्पादिसंभवं प्रथमं मतम् ॥४४॥
 शुष्कपत्रादिसंभूतं शुष्कमुक्तं तदुज्जितम् । सिन्धुकादिसमुद्भूतं संकीर्णं तु त्रिसंकरात् ॥४५॥
 रणप्रबोधनव्यूहसंयोगादिभिरन्वितम् । तद्विधातुमलं प्राज्ञा साज्ञासीत् पूरणादिजम् ॥४६॥
 योनिद्रव्यमधिष्ठानं रसो वीर्यं च कल्पना । परिकर्म गुणा दोषा युक्तिरेषा तु कौशलम् ॥४७॥
 योनिर्विशिष्टमूलादिद्रव्यं तु तगरादिकम् । यद्गर्णवर्तिकाद्येतदधिष्ठानं प्रकीर्तितम् ॥४८॥
 कपायो मधुरस्तिक्तः कटुकाग्लश्च कीर्तितः । रसः पञ्चविधो यस्य निहरिण विनिश्चयः ॥४९॥
 द्रव्याणां शीतमुष्णं च वीर्यं तत्र द्विधा स्मृतम् । कल्पनात्र विवादानुवादसंवाद्योजनम् ॥५०॥
 परिकर्म पुनः स्नेहशोधनचालनादिकम् । ज्ञानं च गुणदोषाणां पाटवार्दीतरात्मनाम् ॥५१॥
 स्वतन्त्रानुगताख्येन तां भेदेन समन्विताम् । गन्धयुक्तिमत्सां सर्वामजानाद्युक्तविभ्रमा ॥५२॥
 भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चूप्यं च पञ्चधा । आसाद्यं तत्र भक्ष्यं तु कृत्रिमाकृत्रिमं स्मृतम् ॥५३॥
 भोज्यं द्विधा यवाद्यादिविशेषाश्चादनादयः । शीतयोगो जलं मद्यमिति पेयं त्रिधोदितम् ॥५४॥
 रागत्राण्डवलेह्याख्यं लेह्यं त्रिविधमुच्यते । कृत्रिमाकृत्रिमं चूप्यं द्विविधं परिकीर्तितम् ॥५५॥

द्विन्न कहते हैं । जो केंची आदिसे काटकर बनाया जाता है तथा अन्य अवयवोंके सम्बन्धसे रहित होता है उसे अच्छिन्न कहते हैं ॥४१-४२॥ यह पत्रच्छेद्यक्रिया पत्र, वस्त्र तथा सुवर्णादिके ऊपर की जाती है तथा स्थिर और चञ्चल दोनों प्रकारकी होती है । सुन्दरी केकयाने इस कलाका अच्छी तरह निर्णय किया था ॥४३॥

आर्द्र, शुष्क, तदुन्मुक्त और मिश्रके भेदसे मालानिर्माणकी कला चार प्रकारकी है । इनमेंसे गीले अर्थात् ताजे पुष्पादिसे जो माला बनाई जाती है उसे आर्द्र कहते हैं, सूखे पत्र आदिसे जो बनाई जाती है उसे शुष्क कहते हैं । चावलोंके सीध अथवा जवा आदिसे जो बनाई जाती है उसे तदुज्जित कहते हैं और जो उक्त तीनों चीजोंके मेलसे बनाई जाती है उसे मिश्र कहते हैं ॥४४-४५॥ यह माल्यकर्म रणप्रबोधन, व्यूहसंयोग आदि भेदोंसे सहित होता है वह बुद्धिमती केकया इस समस्त कार्यको करना अच्छी तरह जानती थी ॥४६॥ योनिद्रव्य, अधिष्ठान, रस, वीर्य, कल्पना, परिकर्म, गुण दोष विज्ञान तथा कौशल ये गन्धयोजना अर्थात् सुगन्धित पदार्थ निर्माणरूप कलाके अङ्ग हैं । जिनसे सुगन्धित पदार्थोंका निर्माण होता है ऐसे तगर आदि योनिद्रव्य हैं, जो धूपवत्ती आदिका आश्रय है उसे अधिष्ठान कहते हैं, कपायला, मधुर, चिरपरा, कड़वा और खट्टा यह पाँच प्रकारका रस कहा गया है जिसका सुगन्धित द्रव्यमें खासकर निश्चय करना पड़ता है ॥४७-४९॥ पदार्थोंकी जो शीतता अथवा उष्णता है वह दो प्रकारका वीर्य है । अनुकूल प्रतिकूल पदार्थोंका मिलाना कल्पना है ॥५०॥ तेल आदि पदार्थोंका शोधना तथा धोना आदि परिकर्म कहलाता है, गुण अथवा दोषका जानना सो गुण-दोष विज्ञान है और परकीय तथा स्वकीय वस्तुकी विशिष्टता जानना कौशल है ॥५१॥ यह गन्धयोजनाकी कला स्वतन्त्र और अनुगतके भेदसे सहित है । केकया इस सबको अच्छी तरह जानती थी ॥५२॥ भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह्य और चूप्यके भेदसे भोजन सम्बन्धी पदार्थोंके पाँच भेद हैं । इनमेंसे जो स्वादके लिए खाया जाता है उसे भक्ष्य कहते हैं । यह कृत्रिम तथा अकृत्रिमके भेदसे दो प्रकारका है ॥५३॥ जो जुधा निवृत्तिके लिए खाया जाता है उसे भोज्य कहते हैं, इसके भी मुख्य और साधककी अपेक्षा दो भेद हैं । ओदन रोटी आदि मुख्य भोज्य हैं और लप्सी दाल शाक आदि साधक भोज्य है ॥५४॥ शीतयोग (शर्वत) जल और मद्य के भेदसे पेय

संस्कारो द्विविधः प्रोक्तो लक्षणोद्देशतस्तथा । विन्यासस्तु सखण्डाः स्युः पदवाक्यास्तदुत्तराः ॥३०॥
 सापेक्षा निरपेक्षा च काकुर्भेदद्वयान्विता । गद्यः पद्यश्च मिश्रश्च समुदायस्त्रिधोदितः ॥३१॥
 सच्चिदा विरामस्तु सामान्याभिहितः पुनः । शब्दानामेकवाच्यानां प्रयोगः परिकीर्तितः ॥३२॥
 तुल्यार्थतैकशब्देन बहुर्थप्रतिपादनम् । भाषार्यलक्षणम्लेच्छनियमास्त्रिविधा स्मृता ॥३३॥
 पद्यव्यवहृतिर्लेख एवमाद्यास्तु जातयः । व्यक्तवाग्लोकवाग्व्यवहारश्च मातरः ॥३४॥
 एतेषामपि भेदानां ये भेदा बुधगोचराः^२ । सर्वैरेभिः समायुक्तं सात्यवैदुक्तिकौशलम् ॥३५॥
 शुष्कचित्रं द्विधा प्रोक्तं नानाशुष्कं च वर्जितम् । आर्द्रचित्रं पुनर्नाना चन्दनादिद्रवोद्भवम् ॥३६॥
 कृत्रिमाकृत्रिमैरङ्गैर्भूजलाम्बरगोचरम् । वर्णकैश्लेषसंयुक्तं सा विवेदाखिलं शुभा ॥३७॥
 पुस्तकर्म त्रिधा प्रोक्तं त्रयोपचयसंक्रमैः । तच्छणादिक्रमोद्भूतं काष्ठादौ^४ त्रयजं स्मृतम् ॥३८॥
 उपचिन्त्या मृदादीनामुपचेय तु कथ्यते । संक्रान्तं तु यदाहृत्य प्रतिबिम्बं विभाव्यते ॥३९॥
 यन्त्रनिर्यन्त्रसच्छिद्रनिश्छिद्रादिभिरन्वितम् । सा जज्ञे तद्यथा भद्रा लोकेभ्यो दुर्लभस्तथा ॥४०॥
 बुष्किम छिन्नमच्छिन्न पत्रच्छेद्यं त्रिधोदितम् । सूचीदन्तादिभिस्तत्र निर्मितं बुष्किम स्मृतम् ॥४१॥

तीन प्रकारका माना गया है । स्वरके पड्ज आदि सात भेद पहले कह ही आये है ॥२६॥ लक्षण और उद्देश अथवा लक्षणा और अभिधाकी अपेक्षा संस्कार दो प्रकारका कहा गया है । पदवाक्य महावाक्य आदिके विभागसहित जो कथन है वह विन्यास कहलाता है ॥३०॥ सापेक्षा और निरपेक्षाकी अपेक्षा काकु दो भेदोसे सहित है । गद्य, पद्य और मिश्र अर्थात् चम्पूकी अपेक्षा समुदाय तीन प्रकारका कहा गया है ॥३१॥ किसी विषयका संक्षेपसे उल्लेख करना विराम कहलाता है । एकार्थक अर्थात् पर्यायवाची शब्दोका प्रयोग करना सामान्याभिहित कहा गया है ॥३२॥ एक शब्दके द्वारा बहुत अर्थका प्रतिपादन करना समानार्थता है । आर्य, लक्षण और म्लेच्छके नियमसे भाषा तीन प्रकारकी कही गई है ॥३३॥ इनके सिवाय जिसका पद्यरूप व्यवहार होता है उसे लेख कहते हैं । ये सब जातियाँ कहलाती हैं । व्यक्तवाक्, लोकवाक् और मार्गव्यवहार ये मातृकाएँ कहलाती हैं । इन सब भेदोके भी अनेक भेद हैं जिन्हें विद्वज्जन जानते हैं । इन सबसे सहित जो भाषण-चातुर्य है उसे उक्ति-कौशल कहते हैं । केकया इस उक्ति-कौशलको अच्छी तरह जानती थी ॥३४-३५॥

नानाशुष्क और वर्जितके भेदसे शुष्कचित्र दो प्रकारका कहा गया है तथा चन्दनादिके द्रवसे उत्पन्न होनेवाला आर्द्रचित्र अनेक प्रकारका है ॥३६॥ कृत्रिम और अकृत्रिम रङ्गोके द्वारा पृथ्वी, जल तथा वस्त्र आदिके ऊपर इसकी रचना होती है । यह अनेक रङ्गोके सम्बन्धसे संयुक्त होता है । शुभ लक्षणवाली केकया इस समस्त चित्रकलाको जानती थी ॥३७॥ त्रय, उपचय और संक्रमके भेदसे पुस्तकर्म तीन प्रकारका कहा गया है । लकड़ी आदिको छील-छालकर जो खिलौना आदि बनाये जाते हैं उसे त्रयजन्य पुस्तकर्म कहते हैं । ऊपरसे मिट्टी आदि लगाकर जो खिलौना आदि बनाये जाते हैं उसे उपचयजन्य पुस्तकर्म कहते हैं तथा जो प्रतिबिम्ब अर्थात् सौंचे आदि गड़ाकर बनाये जाते हैं उसे संक्रमजन्य पुस्तकर्म कहते हैं ॥३८-३९॥ यह पुस्तकर्म, यन्त्र, निर्यन्त्र, सच्छिद्र तथा निश्छिद्र आदिके भेदोसे सहित है, अर्थात् कोई खिलौना यन्त्रचालित होते हैं, और कोई बिना यन्त्रके होते हैं, कोई छिद्रसहित होते हैं, कोई छिद्ररहित । वह केकया पुस्तकर्मको ऐसा जानती थी जैसा दूसरोके लिए दुर्लभ था ॥४०॥ पत्रच्छेदके तीन भेद हैं बुष्किम छिन्न और अच्छिन्न । सुई अथवा दन्त आदिके द्वारा जो बनाया जाता है उसे बुष्किम कहते हैं । जो कैचीसे काटकर बनाया जाता है तथा जो अन्य अवयवोके सम्बन्धसे युक्त होता है उसे

कर्नरीच्छेदभूतं तद्विभक्तं सन्ध्यायुतम् । विच्छिन्नं तु तदुदभूतं सन्ध्यापरिवर्जितम् ॥४२॥
 पत्रवस्त्रमुच्यते इति मन्थरचञ्चलम् । निर्गन्धे मा पर चार्वा सवृतामवृतादिजम् ॥४३॥
 आर्द्रं शुष्कं तदुन्मुक्तं मिश्रं चेति चतुर्विधम् । माल्यं तत्रार्द्रपुष्पादिमन्थं प्रथमं मतम् ॥४४॥
 शुष्कपत्रादिमन्थं शुष्कमुक्तं तदुन्मुक्तम् । मन्थयन्नादिमन्थुदभूतं सर्वाणि तु त्रिसकरात् ॥४५॥
 रणप्रबोधनच्युहनयोगादिभिरन्वितम् । तद्विधानुमूलं प्राज्ञा साज्ञानीत् पूरणादिजम् ॥४६॥
 योनिद्रव्यमधिष्ठानं रसो वीर्यं च कल्पना । परिकर्मं गुणा द्रोपा युक्तिरेषा तु कौशलम् ॥४७॥
 योनित्रिगिष्टमूलद्रव्यं तु तगरादिजम् । यद्वर्णवर्तिसायेतदधिष्ठानं प्रकीर्तितम् ॥४८॥
 कपायो मधुरन्तिकः कटुकालश्च कीर्तितः । रसं पञ्चविधं धर्म्यं निहरिणं त्रिनिश्रयं ॥४९॥
 द्रव्याणां शीतमुष्णं च वीर्यं तत्र द्विधा स्मृतम् । कल्पनात्र विवादानुवादाद्ययोजनम् ॥५०॥
 परिकर्मं पुनः स्नेहगोपनञ्चालनादिजम् । ज्ञानं च गुणद्रोपाणां पाटवादीतरात्मनाम् ॥५१॥
 न्वन्त्रानुगतार्येण ता भेदेन मन्थिताम् । गन्धयुक्तिमर्गां स्वर्गमजानाद्युक्तविभ्रमा ॥५२॥
 भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेप्यं च चूर्ण्यं च पञ्चधा । आमात्रं तत्र भक्ष्यं तु कृत्रिमकृत्रिमं स्मृतम् ॥५३॥
 भोज्यं द्विधा यथाग्रादिशिर्षाश्चादनादयः । शीतयोगो जलं मद्यमिति पेयं त्रिधाद्वितम् ॥५४॥
 रागाणां वलेपास्यं लेप्यं त्रिविधमुच्यते । कृत्रिमकृत्रिमं चूर्ण्यं द्विविधं परिकीर्तितम् ॥५५॥

द्विभक्तं कहते हैं। जो कर्ची आदिसे काटकर बनाया जाता है तथा अन्य अवयवोंके सम्बन्धसे रहित होता है उसे अन्विष्टं कहते हैं ॥४२-४३॥ यह पत्रच्छेद्यक्रिया पत्र, वस्त्र तथा सुवर्णादिके ऊपर की जाती है तथा मन्थर और चञ्चल दोनों प्रकारकी होती है। सुन्दरी केक्याने इस कलाका अच्छी तरह निर्णय किया था ॥४३॥

आर्द्र, शुष्क, तदुन्मुक्त और मिश्रके भेदसे मालानिर्माणकी कला चार प्रकारकी है। इनमेंसे गीले अर्थात् ताजे पुष्पादिसे जो माला बनाई जाती है उसे आर्द्र कहते हैं, सूखे पत्र आदिसे जो बनाई जाती है उसे शुष्क कहते हैं। चावलोंके सीधे अथवा जवा आदिसे जो बनाई जाती है उसे तदुन्मुक्त कहते हैं और जो उक्त तीनों चीजोंके मेलसे बनाई जाती है उसे मिश्र कहते हैं ॥४४-४५॥ यह माल्यकर्म रणप्रबोधन, व्यूहसंयोग आदि भेदोंसे सहित होता है वह बुद्धिमत्ता केक्या इस समस्त कार्यको करना अच्छी तरह जानती थी ॥४६॥ योनिद्रव्य, अधिष्ठान रस, वीर्य, कल्पना, परिकर्म, गुण द्रोप विज्ञान तथा कौशल ये गन्धयोजना अर्थात् सुगन्धित पदार्थ निर्माणरूप कलाके अङ्ग हैं। जिनसे सुगन्धित पदार्थोंका निर्माण होता है ऐसे तगर आदि योनिद्रव्य हैं, जो धूपवत्ती आदिका आश्रय है उसे अधिष्ठान कहते हैं, कपायला, मधुर, चिरपरा, कडुआ और रसुदा यह पाँच प्रकारका रस कहा गया है जिसका सुगन्धित द्रव्यमें रामकर निश्रय करना पड़ता है ॥४७-४९॥ पदार्थोंकी जो शीतता अथवा उष्णता है वह दो प्रकारका वीर्य है। अनुकूल प्रतिकूल पदार्थोंका मिलाना कल्पना है ॥५०॥ तेल आदि पदार्थोंका शोधना तथा धोना आदि परिकर्म कहलाता है, गुण अथवा द्रोपका जानना सो गुण-द्रोप विज्ञान है और परकीय तथा स्वकीय वस्तुकी विशिष्टता जानना कौशल है ॥५१॥ यह गन्धयोजनाकी कला स्वतन्त्र और अनुगतके भेदसे सहित है। केक्या इस सबको अच्छी तरह जानती थी ॥५२॥ भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेप्य और चूर्ण्यके भेदसे भोजन सम्बन्धी पदार्थोंके पाँच भेद हैं। इनमेंसे जो स्वादके लिए खाया जाता है उसे भक्ष्य कहते हैं। यह कृत्रिम तथा अकृत्रिमके भेदसे दो प्रकारका है ॥५३॥ जो लुधा निवृत्तिके लिए खाया जाता है उसे भोज्य कहते हैं, इसके भी मुख्य और साधककी अपेक्षा दो भेद हैं। ओदन रोटी आदि मुख्य भोज्य हैं और लप्सी ढाल शाक आदि साधक भोज्य हैं ॥५४॥ शीतयोग (शर्बत) जल और मद्य के भेदसे पेय

पाचनच्छेदनोष्णत्वशीतत्वकरणादिभिः । युक्तमास्वाद्यविज्ञानमासीत्तस्या मनोहरम् ॥५६॥
 वज्रमौक्तिकवैदूर्यसुवर्णं रजतायुधम् । वस्त्रसंखादि चावेदीत् सा रत्नं लक्षणादिभिः ॥५७॥
 तन्तुसन्तानयोग च वस्त्रस्य बहुवर्णकम् । रागाधानं च सा चारु विवेदातिशयान्वितम् ॥५८॥
 लोहदन्तजतुत्तारशिलासूत्रादिसभवम् । तथोपकरणं कर्तुं ज्ञातमत्यन्तमुद्धया ॥५९॥
 मेयदेशतुलाकालभेदान्मानं चतुर्विधम् । तत्र प्रस्थादिभिर्मिन्नं मेयमानं प्रकीर्तितम् ॥६०॥
 देशमान वितस्त्यादि तुलामान पलादिकम् । समयादि तु यन्मानं तत्कालस्य प्रकीर्तितम् ॥६१॥
 तच्चारोहपरीणाहतिर्यगौरवभेदतः । क्रियातश्च समुत्पन्नं साध्यगान्मानमुत्तमम् ॥६२॥
 भूतिकर्म^१ निधिज्ञानं रूपज्ञानं वणिग्विधिः^२ । अन्यथा जीवविज्ञानमासीत्तस्या विशेषवत् ॥६३॥
 मानुषद्विपगोवाजिप्रभृतीनां चिकित्सितम् । सा निदानादिभिर्भेदयुक्तं ज्ञातवती परम् ॥६४॥
 मायाकृतं त्रिधा पीडाशक्रजाल विमोहनम् । मन्त्रौषधादिभिर्जातं तच्च सर्वं विवेद सा ॥६५॥
 समयं च समीच्यादि पाखण्डपरिकल्पितम् । चारित्र्येण पदार्थैश्च विवेद विविधैर्युतम् ॥६६॥
 चेषोपकरणं^३ वाणी कलाव्यत्यसन तथा । क्रीडा चतुर्विधा प्रोक्ता तत्र चेष्टा शरीरजा ॥६७॥
^४कन्दुकादि तु विज्ञेय तत्रोपकरणं बहु । वाक्क्रीडनं पुनाना सुभाषितसमुद्भवम् ॥६८॥
 नानादुरोदरन्यासः कलाव्यत्यसन स्मृतम् । क्रीडायां बहुभेदायामस्यां सात्यन्तकोविदा ॥६९॥

तीन प्रकारका कहा गया है ॥५५॥ इन सबका ज्ञान होना आस्वाद्यविज्ञान है । यह आस्वाद्यविज्ञान पाचन, छेदन, उष्णत्वकरण तथा शीतत्वकरण आदिके भेदसे सहित है, केकयाको इस सबका सुन्दर ज्ञान था ॥५६॥

वह वज्र अर्थात् हीरा, मोती, वैदूर्य (नीलम), सुवर्ण, रजतायुध, तथा वस्त्र-शङ्खादि रत्नोंको उनके लक्षण आदिसे अच्छी तरह जानती थी ॥५७॥ वस्त्रपर धागेसे कढ़ाईका काम करना तथा वस्त्रको अनेक रङ्गोंमें रँगना इन कार्योंको वह बड़ी सुन्दरता और उत्कृष्टताके साथ जानती थी ॥५८॥ वह लोहा, दन्त, लाख, चार, पत्थर तथा सूत आदिसे बननेवाले नाना उपकरणोंको बनाना बहुत अच्छी तरह जानती थी ॥५९॥ मेय, देश, तुला और कालके भेदसे मान चार प्रकारका है । इसभेदसे प्रस्थ आदिके भेदसे जिसके अनेक भेद हैं उसे मेय कहते हैं ॥६०॥ वितस्ति हाथ देशमान कहलाता है, पल छटाक सेर आदि तुलामान कहलाता है और समय घड़ी घण्टा आदि कालमान कहा गया है ॥६१॥ यह मान आरोह, परीणाह, तिर्यगौरव और क्रियासे उत्पन्न होता है । इस सबको वह अच्छी तरह जानती थी ॥६२॥ भूतिकर्म अर्थात् वेलबूटा खींचनेका ज्ञान, निधिज्ञान अर्थात् गड़े हुए धनका ज्ञान, रूप ज्ञान, वणिग्विधि अर्थात् व्यापार कला, तथा जीवविज्ञान अर्थात् जन्तुविज्ञान इन सबको वह विशेष रूपसे जानती थी ॥६३॥ वह मनुष्य, हाथी, गौ तथा घोड़ा आदिकी चिकित्साको निदान आदिके साथ अच्छी तरह जानती थी ॥६४॥ विमोहन अर्थात् मूर्च्छाके तीन भेद हैं मायाकृत, पीडा अथवा इन्द्रजाल कृत और मन्त्र तथा औषधि आदि द्वारा कृत । सो इस सबको वह अच्छी तरह जानती थी ॥६५॥ पाखण्डिजनोके द्वारा कल्पित सांख्य आदि मतोंको वह उनमें वर्णित चारित्र्य तथा नाना प्रकारके पदार्थोंके साथ अच्छी तरह जानती थी ॥६६॥

चेष्टा, उपकरण, वाणी और कला व्यासङ्गके भेदसे क्रीडा चार प्रकारकी कही गई है उनमें शरीरसे उत्पन्न होनेवाली क्रीडाको चेष्टा कहा है ॥६७॥ गेद आदि खेलना उपकरण है, नाना प्रकारके सुभाषित आदि कहना वाणी-क्रीडा है और जुआ आदि खेलना कलाव्यासङ्ग नामक

१. वस्त्रं संखादिवावेदीत् व० । २. शिलास्तत्रादि म०, ज० । ३. कार । ४. निधिर्ज्ञानं म०, ज० । ५. विधिम् म०, व०, ज०, ख० । ६. करणा म० । ७. कन्दुकादिति म०, व०, ज० ।

आश्रिताश्रयतो भिन्नो लोको द्विविध उच्यते । आश्रिता जीवनिर्जीवा पृथिव्यादिस्तदाश्रयाः ॥७०॥
 तत्र नानाभवोत्पत्तिः स्थितिर्नश्वरता तथा । ज्ञायते यदिदं प्रोक्तं लोकज्ञत्वं सुदुर्गमम् ॥७१॥
 पौर्वापर्योधरोभूर्यद्वीपदेशादिभेदतः । स्वभावावस्थिते लोके बभूवास्यास्तदुत्तमम् ॥७२॥
 संवाहनकला द्वेषा तत्रैका कर्मसंश्रया । शय्योपचारिका चान्या प्रथमा तु चतुर्विधा ॥७३॥
 त्वच्मांसास्थिमनःसौख्यादेने त्वासासुपक्रमाः । संस्पृष्टं च गृहीतं च भुक्तितं चलितं तथा ॥७४॥
 आहतं भङ्गितं विद्धं पीडितं भिन्नपाटितम् । मृदुमध्यप्रकृष्टत्वात्तत्पुनर्भिद्यते त्रिधा ॥७५॥
 त्वत्सुखं सुकुमारं तु मध्यमं मांससौख्यकृत् । उत्कृष्टमस्त्यसौख्याय मृदुर्गति मनःसुखम् ॥७६॥
 दोषास्तस्याः^१ प्रतीपं यद्गोम्नामुद्वर्तनं तथा । निर्मांसपीडितं वाढं केशाकर्षणमद्भुतम् ॥७७॥
 भ्रष्टप्राप्तमार्गेण प्रयातमतिभुग्नकम् । आदेशाहतमत्यर्थमवसुप्तप्रतीपकम् ॥७८॥
 एभिर्दोषैर्विनिर्मुक्तं सुकुमारमतीव च । योग्यदेशप्रसुक्तं च ज्ञाताकृतं च शोभनम् ॥७९॥
 करणैर्विविधैर्या तु जन्यते चित्तसौख्यदा । संवाहनावगम्या सा शय्योपचरणात्मिका ॥८०॥
 संवाहनकलानेतामद्भ्रष्टप्रत्यङ्गोचराम् । अवेदसौ यथा कन्या नान्या नारी तथा वनम् ॥८१॥
 शरीरवेपसंस्कारकौशलं च कला परा । स्नानमूर्धञ्जवासादि निरचैपीदिमां च सा ॥८२॥

क्रीड़ा है इस प्रकार वह अनेकों भेदवाली क्रीड़ामें अत्यन्त निपुण थी ॥६८-६९॥ आश्रित और आश्रयके भेदसे लोक दो प्रकारका कहा गया है । इनमेंसे जीव और अजीव तो आश्रित हैं तथा पृथ्वी आदि उनके आश्रय हैं ॥७०॥ इसी लोकमें जीवको नाना पर्यायोंमें उत्पत्ति हुई है उसीमें यह स्थित रहा है तथा उसीमें इसका नाश होता है यह सब जानना सो लोकज्ञता है । यह लोकज्ञता प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है ॥७१॥ पूर्वापर पर्वत, पृथ्वी, द्वीप, देश आदि भेदोंमें यह लोक स्वभावसे ही अवस्थित है । केकयाको इसका उत्तम ज्ञान था ॥७२॥

संवाहन कला दो प्रकारकी है उनमेंसे एक कर्मसंश्रया है और दूसरी शय्योपचारिका । त्वचा, मांस, अस्थि और मन इन चारको सुख पहुँचानेके कारण कर्मसंश्रयाके चार भेद हैं अर्थात् किसी संवाहनसे केवल त्वचाको सुख मिलता है, किसीसे त्वचा और मांसको सुख मिलता है, किसीसे त्वचा मांस और हड्डीको सुख मिलता है और किसीसे त्वचा मांस हड्डी एवं मन इन चारोंको सुख प्राप्त होता है । इसके सिवाय इसके संस्पृष्ट, गृहीत, भुक्तित, चलित, आहत, भङ्गित, विद्धं, पीडित और भिन्नपीडित ये भेद भी हैं । ये ही नहीं मृदु, मध्य और प्रकृष्टके भेदसे तीन भेद और भी होते हैं ॥७३-७५॥ जिस संवाहनसे केवल त्वचाको सुख होता है वह मृदु अथवा सुकुमार कहलाता है । जो त्वचा और मांसको सुख पहुँचाता है वह मध्यम कहा जाता है और जो त्वचा मांस तथा हड्डीको सुख देता है वह प्रकृष्ट कहलाता है । इसके साथ जब क्रोमल सङ्गीत और होता है तब वह मनःसुखसंवाहन कहलाने लगता है ॥७६॥ इस संवाहन कलाके निम्नलिखित दोष भी हैं—शरीरके रोमोंको उलटा उद्वर्तन करना, जिस स्थानमें मांस नहीं है वहाँ अधिक दवाना, केशाकर्षण, अद्भुत, भ्रष्टप्राप्त, अमार्गप्रयात, अतिभुग्नक, अदेशाहत, अत्यर्थ और अवसुप्तप्रतीपक, जो इन दोनोंसे रहित है, योग्यदेशमें प्रयुक्त है तथा अभिप्रायको जानकर किया गया है ऐसा सुकुमारसंवाहन अत्यन्त शोभास्पद होता है ॥७७-७९॥ जो संवाहन क्रिया अनेक कारण अर्थात् आसनोंसे की जाती है वह चित्तको सुख देनेवाली शय्योपचारिका नामकी क्रिया जाननी चाहिए ॥८०॥ अङ्ग-प्रत्यङ्गसे सम्यन्ध रखनेवाली इस संवाहनकलाको जिस प्रकार वह कन्या जानती थी उस प्रकार अन्य स्त्री नहीं जानती थी ॥८१॥ स्नान करना, शिरके बाल गूँथना तथा उन्हें सुगन्धित आदि करना यह शरीर संस्कार

एवमाद्याः कलाश्चाहशीला लोकमनोहरा । अतीधरत्समस्ताः सा विनयोत्तमभूषणा^१ ॥८३॥
 कलागुणामिरूपं च समुद्रभूता त्रिविष्टपे । अद्वितीया वभौ तस्याः कीर्तिराकृष्टमानसा ॥८४॥
 बहुनात्र किमुक्तेन शृणु राजन् समासतः । तस्या वर्षशतेनापि दुःशक्य रूपवर्णनम् ॥८५॥
 पित्रा प्रधारितं तस्या योग्यः कोऽस्या भवेद् वर । स्वयं रुचितमेवेयं गृह्णात्विति विसंशयम् ॥८६॥
 तदर्थं पार्थिवाः सर्वे वसुमत्यामुपाहृताः । हरिवाहननामाद्याः पुरोविभ्रमभूषिताः ॥८७॥
 गतो दशरथोऽप्यस्य जनकेन सह भ्रमन् । स्थितः स तादृशोऽप्येतान् लक्ष्म्या प्रच्छाद्य भूपतीन् ॥८८॥
 मञ्चेषु सुप्रपञ्चेषु निविष्टान् वसुधाधिपान् । प्रत्येकमैर्त्तोदारान्प्रतीहार्यां निवेदितान् ॥८९॥
 भ्राम्यन्ती सा ततः साध्वी नगलक्षणपण्डिता । कण्ठे दाशरथे न्यास दृष्टिनीलोत्पलक्षजम् ॥९०॥
 भूपालनिवहस्थं तं सा ययौ चारुविभ्रमा । राजहंसं यथा हर्सा वक्रवृन्दव्यवस्थितम् ॥९१॥
 भावमालागुर्हातेऽन्मिन् न्यस्ता या द्रव्यमालिका । पौनरुक्त्यं प्रपेदेऽसौ लोकाचारकृतास्पदा ॥९२॥
 केचित्तत्र जगुस्तारं प्रसन्नमनसो नृपाः । अहो योग्यो वृतः कोऽपि पुरुषोऽय सुकन्यया ॥९३॥
 केषाञ्चित्त्वित्तैलक्ष्यात् स्वदेशगमन प्रति । विररामातिदूरेण मनो वैवर्ण्यमीयुषाम् ॥९४॥
 केचिदत्यन्तघृष्टत्वात् परमं क्रोपमागताः । युद्धं प्रति मनश्चक्रुः कृतकोलाहला भृशम् ॥९५॥
 जगुश्च त्थातसद्गान् महाभोगसमन्वितान् । त्यक्त्वा^२ नो गृह्णतीमेतमज्ञातकुलशीलिनम् ॥९६॥

वेपकौशल नामकी कला है सो वह कन्या इसे भी अच्छी तरह जानती थी ॥८३॥ इस तरह सुन्दर शीलकी धारक तथा विनयरूपी उत्तम आभूषणसे सुशोभित वह कन्या इन्हें आदि लेकर लोगोंके मनको हरण करनेवाली समस्त कलाओंको धारण कर रही थी ॥८३॥

कलागुणके अनुरूप उत्पन्न तथा लोगोंके मनको आकृष्ट करनेवाली उसकी कीर्ति तीनों लोकोंमें अद्वितीय अर्थात् अनुपम सुशोभित हो रही थी ॥८४॥ हे राजन् ! अधिक कहनेसे क्या ? संक्षेपमें इतना ही सुनो कि उसके रूपका वर्णन सौ वर्षोंमें भी होना असंभव है ॥८५॥ पिताने विचार किया कि इसके योग्य वर कौन हो सकता है ? अच्छा हो कि यह स्वयं ही अपनी इच्छानुसार वरको ग्रहण करे ॥८६॥ ऐसा निश्चयकर उसने स्वयंवरके लिए पृथिवी पर हरिवाहन आदि समस्त राजा एकत्रित किये । वे राजा स्वयंवरके पूर्व ही नाना प्रकारके विभ्रमों अर्थात् हावभावोंसे सुशोभित हो रहे थे ॥८७॥ राजा जनकके साथ घूमते हुए राजा दशरथ वहाँ जा पहुँचे । राजा दशरथ यद्यपि साधारण वेपभूषामें थे तो भी वे अपनी शोभासे उपस्थित अन्य राजाओंको आच्छादित कर वहाँ विराजमान थे ॥८८॥ सुसज्जित मञ्चोंके ऊपर बैठे हुए उदार राजाओंका परिचय प्रतीहारी दे रही थी और मनुष्योंके लक्षण जाननेमें पण्डित वह साध्वी कन्या घूमती हुई प्रत्येक राजाको देखती जाती थी । अन्तमें उसने अपनी दृष्टिरूपी नीलकमलकी माला दशरथके कण्ठमें डाली ॥८९-९०॥ जिस प्रकार वगलोकके बीचमें स्थित राजहंसके पास हंसी पहुँच जाती है उसी प्रकार सुन्दर हाव भावको धारण करनेवाली वह कन्या राजसमूहके बीचमें स्थित राजा दशरथके पास जा पहुँची ॥९१॥ उसने दशरथको भावमालासे तो पहले ही ग्रहण कर लिया था फिर लोकाचारके अनुसार जो द्रव्यमाला डाली थी वह पुनरुक्तताको प्राप्त हुई थी ॥९२॥ उस मण्डपमें प्रसन्नचित्तके धारक कितने ही राजा जोर-जोरसे कह रहे थे कि अहो ! इस उत्तम कन्याने योग्य तथा अनुपम पुरुष वरा है ॥९३॥ और कितने ही राजा अत्यन्त घृष्टताके कारण कुपित हो अत्यधिक कोलाहल करने लगे ॥९४॥ वे कहने लगे कि अरे ! प्रसिद्ध वंशमें उत्पन्न तथा महाभोगोंसे सम्पन्न हम लोगोंको छोड़कर इस दुष्ट कन्याने जिसके कुल और

१. भूषणाः म० । २. वदर्थं म० । ३. लक्ष्या म० । ४. -मैर्त्तोदारान् म० । ५. जग्मुश्च ख० ।
 ६. त्यक्त्वातो म० ।

भसुं कमपि वैदेशं दुरभिप्रायकारिणीम् । गृहीतं मूर्धजाकृष्टं प्रसभं दुष्टकन्यकाम् ॥६७॥
 इत्युक्त्वा ते सुसन्नद्धाः समुद्यतमहायुधाः । नृपा दशरथान्तेन चलिताः क्रुद्धचेतसः ॥६८॥
 ततः समाकूलीभूतो वरं शुभमतिर्जगौ । भद्रं यावन्नृपानेतान् सुक्षुब्धान् वारयाम्यहम् ॥६९॥
 रथमारोप्य तावत्वं कन्यामन्तर्हितो भव । कालज्ञानं हि सर्वेषां नयानां मूर्धनि स्थितम् ॥१००॥
 एवमुक्तो जगादासौ स्मितं कृत्वातिर्धरर्धाः । विश्रब्धो भव माम् त्वं पश्यैतान्कांदिशीकृतान् ॥१०१॥
 इत्युक्त्वा रथमारुह्य संयुक्तं प्रौढवाजिभिः । भृशं संवृते भीमः शरन्मध्याह्नभानुभाः^४ ॥१०२॥
 उचार्य केकया चाशु रथंवाहं रणाङ्गणे । तस्यां पौरुषमालम्ब्य तोत्रप्रग्रहधारिणी ॥१०३॥
 उवाच च प्रयच्छान्नां नाथ कस्योपरि द्रुतम् । चोदयामि रथं^५ तस्य मृत्युरद्यातिवत्सलः ॥१०४॥
 जगादासौ किमत्रान्यैर्वराकैर्निहतैर्नरैः । मूर्धानमस्य सैन्यस्य पुरुषं पातयाम्यहम्^६ ॥१०५॥
 यस्यैतत्पाण्डुरं छत्रं विभाति शशिविभ्रमम् । एतस्याभिमुखं कान्ते रथं चोदय पण्डिते ॥१०६॥
 एवमुक्ते तयात्यन्तं धीरया वाहितो रथः । समुच्छ्रितसितच्छत्रस्तरङ्गितमहाध्वजः ॥१०७॥
 केनुच्छायामहाज्वाले तत्र दम्पतिदेवते । रथाग्नी योधशलभाः दृष्ट्वा नष्टाः सहस्रशः ॥१०८॥
 दशस्यन्दननिर्मुक्तैर्नारैश्चैरदिता नृपाः । क्षणात्पराङ्मुखीभूताः परस्परविलङ्घिनः ॥१०९॥
 ततो हेमप्रभेणैते चोदिता लज्जिता जिताः^७ । निवृत्य पुनरारब्धा^८ हन्तुं दाशरथं रथम् ॥११०॥

शीलका पता नहीं ऐसे परदेशी किसी मनुष्यको चरा है सो इसका अभिप्राय दुष्ट है । इसके केश पकड़कर खींचो और इसे जवर्दस्ती पकड़ लो ॥६५-६७॥ ऐसा कहकर वे राजा वड़े-वड़े शस्त्र उठाते हुए युद्धके लिए तैयार हो गये तथा क्रुद्धचित्त होकर राजा दशरथकी ओर चल पड़े ॥६८॥

तदनन्तर कन्याके पिता शुभमतिने घबड़ा कर दशरथसे कहा कि हे भद्र ! जव तक मैं इन लुभित राजाओंको रोकता हूँ तव तक तुम कन्याको रथपर चढ़ाकर कहीं अन्तर्हित हो जाओ—छिप जाओ क्योंकि समयका ज्ञान होना सब नयोंके शिरपर स्थित है अर्थात् सब नीतियोंमें श्रेष्ठ नीति है ॥६९-१००॥ इस प्रकार कहनेपर अत्यन्त धीर-वीर बुद्धिके धारक राजा दशरथने मुसकराकर कहा कि हे माम ! निश्चिन्त रहो और अभी इन सबको भयसे भागता हुआ देखो ॥१०१॥ इतना कहकर वे प्रौढ़ घोड़ोंसे जुते रथपर सवार हो शरद्वृत्तुके मध्याह्न काल सम्बन्धी सूर्यके समान अत्यन्त भयंकर हो गये ॥१०२॥ केकयाने रथके चालक सारथिको तो उतार दिया और स्वयं शीघ्र ही साहसके साथ चानुक तथा घोड़ोंकी रास संभालकर युद्धके मैदानमें जा खड़ी हुई ॥१०३॥ और बोली कि हे नाथ ! आज्ञा दीजिए, किसके ऊपर रथ चलाऊँ ? आज मृत्यु किसके साथ अधिक स्नेह कर रही है ? ॥१०४॥ दशरथने कहा कि यहाँ अन्य लुद्र राजाओंके मारनेसे क्या लाभ है ? अतः इस सेनाके मस्तक स्वरूप प्रधान पुरुषको ही गिराता हूँ । हे चतुर वल्लभे ! जिसके ऊपर यह चन्द्रमाके समान सफेद छत्र सुशोभित हो रहा है इसीके सन्मुख रथ ले चलो ॥१०५-१०६॥ ऐसा कहते ही उस धीर वीराने जिसपर सफेद छत्र लग रहा था तथा बड़ी भारी ध्वजा फहरा रही थी ऐसा रथ आगे बढ़ा दिया ॥१०७॥ जिसमें पताकाकी कान्तिरूपी बड़ी-बड़ी ज्वालाएँ उठ रही थीं तथा दम्पती ही जिसमें देवता थे ऐसे रथरूपी अग्निमें हजारों योधारूपी पतंगे नष्ट होते हुए दिखने लगे ॥१०८॥ दशरथके द्वारा छोड़े वाणोंसे पीड़ित राजा एक दूसरेको लाँघते हुए क्षणभरमें पराङ्मुख हो गये ॥१०९॥

तदनन्तर पराजित होनेसे लज्जित हुए राजाओंको हेमप्रभने ललकारा, जिससे वे लौटकर

१. गृहीतमूर्धजा-म० । २. दशरथं तेन म०, ज०, क०, व० । ३. लुद्रचेतसः म० । ४. भानुभम् म० । ५. रथवाहान् क० । ६. पश्य म० । ७. पातयाम्यथ व० । ८. -रारब्धं म० ।

वाजिभिः स्यन्दनैर्नगैः पादावैश्च नृपा^१ वृता । कृतशूरमहानाडा घनसंघातवर्तिनः ॥१११॥
 तोमराणि शरान्याशांश्चक्राणि कनकानि च । तमेकं नृपमुद्दिश्य विचित्रिपुश्च समुद्यताः ॥११२॥
 चित्रमेकरथो भूत्वा तदा दशरथो नृपः । जातः शतरथः शक्त्या नि.सस्थानरथोऽथवा ॥११३॥
 विचित्रेण स नाराचैः समं शस्त्राणि त्रिद्विषाम् । अदृष्टाकर्षसंघानैश्चक्रांकृतशरासनः ॥११४॥
 छिन्नध्वजातपत्रः सन् विह्वलीकृतवाहनः । शरैर्हेमप्रभस्तेन क्षणेन विरथीकृतः ॥११५॥
 स स्थान्तरमाह्वय भयावतत्तमानसः । द्रुतं पलायनं चक्रे कृष्णीकुर्वल्लिलं यशः ॥११६॥
 ररन् स्वं च जायां च शत्रून्स्त्राणि चाच्छिनन् । एको दशरथः कर्म चक्रेऽन्तरथोचितम् ॥११७॥
 दृष्ट्वा दशरथं सिंहं विधूतशरकेसरम् । दुद्रुवुर्योधसारङ्गाः परिगृह्य दिगष्टकम् ॥११८॥
 अहो शक्तिर्नरस्यास्य ही^२ चित्रं कन्यया कृतम् । इति नादः समुत्तस्यौ महान् स्वपरसेनयोः ॥११९॥
 वन्दिषोपितशब्देन शक्त्या वानन्यतुल्यया । जनैर्दशरथो जज्ञे प्रतापं विभ्रदुन्नतम् ॥१२०॥
 ततः पाणिग्रहस्तेन कृतः कौतुकमङ्गले । कन्यायाः परलोकेन ^३कृतकौतुकमङ्गले^४ ॥१२१॥
 महता भूतिभारेण वृत्तोपयमनोत्सवः । ययौ दशरथोऽयोध्यां मिथिलां जनको^५ यथा ॥१२२॥
 पुनर्जन्मोत्सवं तस्य तस्यां चक्रेऽतिसम्मदः । पुनर्नृपाभिषेकं च परिवर्गो महर्द्धिभिः ॥१२३॥
 अशेषनरनिर्मुक्तो रेमे तत्र स पुण्यवान् । आस्तण्डल इव स्वर्गे प्रतिमानितशासनः ॥१२४॥

पुनः दशरथके रथको नष्ट करनेका प्रयत्न करने लगे ॥११०॥ जो घोड़ो, रथो, हाथियो तथा पैदल सैनिकोंसे घिरे थे, सिंहनाद कर रहे थे तथा बहुत बड़े समूहके साथ वर्तमान थे ऐसे अनेक राजा अकेले राजा दशरथको लक्ष्यकर तोमर, वाण, पाश, चक्र और कनक आदि शस्त्र बड़ी तत्परतासे चला रहे थे ॥१११-११२॥ बड़े आश्चर्यकी बात थी कि राजा दशरथ एकरथ होकर भी दशरथ थे तो और उस समय तो अपने पराक्रमसे शतरथ अथवा असंत्यरथ हो रहे थे ॥११३॥ चक्राकार धनुषके धारक राजा दशरथने जिनके खींचने और रखनेका पता नहीं चलता था ऐसे वाणोंसे एक साथ शत्रुओंके शस्त्र छेद डाले ॥११४॥ जिसका ध्वजा और छत्र कटकर नीचे गिर गया था तथा जिसका वाहन थककर अत्यन्त व्याकुल हो गया था ऐसे राजा हेमप्रभको दशरथने क्षणभरसे रथरहित कर दिया ॥११५॥ तदनन्तर जिसका मन भयसे व्याप्त था ऐसा हेमप्रभ दूसरे रथपर सवार हो अपने यशको मलिन करता हुआ शीघ्र ही भाग गया ॥११६॥ राजा दशरथने शत्रुओं तथा शस्त्रोंको छेद डाला और अपनी तथा स्त्रीकी रक्षा की । उस समय एक दशरथने जो काम किया था वह अनन्तरथके योग्य था ॥११७॥ जो वाणरूपी जटाओंको हिला रहा था ऐसे दशरथरूपी सिंहको देखकर योद्धारूपी हरिण आठो दिशाएँ पकड़कर भाग गये ॥११८॥ उस समय अपनी तथा शत्रुकी सेनामें यही जोरदार शब्द उठ रहा था कि अहो ! इस मनुष्यकी कैसी अद्भुत शक्ति है ? और इस कन्याने कैसा कमाल किया ? ॥११९॥ उन्नत प्रतापको धारण करनेवाले राजा दशरथको लोग पहिचान सके थे तो वन्दीजनोंके द्वारा घोषित जयनाद अथवा उनकी अनुपम शक्तिसे ही पहिचान सके थे ॥१२०॥

तदनन्तर अन्य लोगोंने जहाँ कौतुक एवं मङ्गलाचार किये थे ऐसे कौतुकमङ्गल नामा नगरमें राजा दशरथने कन्याका पाणिग्रहण किया ॥१२१॥ तत्पश्चात् बड़े भारी वैभवसे जिनका विवाहोत्सव सम्पन्न हुआ था ऐसे राजा दशरथ अयोध्या गये और राजा जनक मिथिलापुरी गये ॥१२२॥ वहाँ हर्षसे भरे परिजनोंने बड़े वैभवके साथ राजा दशरथका पुनर्जन्मोत्सव और पुनर्न्याभिषेक किया ॥१२३॥ जो सब प्रकारके भयसे रहित थे तथा जिनकी आज्ञाको सब शिरोधार्य करते थे ऐसे पुण्यवान् राजा दशरथ स्वर्गमें इन्द्रकी तरह अयोध्यामें क्रीड़ा करते थे

तत्र प्रत्यक्षमन्यासां पत्नीनां भ्रूयतां तथा । अभ्यधाथि नरेन्द्रेण केकयासन्नवर्तिनी ॥१२५॥
 पूर्णेन्द्रवदने ब्रूहि यत्ते वस्तु मनीषितम् । इह संपादयाम्यद्य प्रसन्नोऽस्मि तव प्रिये ॥१२६॥
 चोदयेन्नातिविज्ञानाद्यदि^१ नाम तथा रथम् । कथं क्रुद्धारिसंघातं विजयेयं^२ सहोत्थितम् ॥१२७॥
 अवस्थितं जगद्व्याप्यं^३ नुदेदर्कः कथं तमः । सव्येष्टा^४ चेन्नवेदस्य न मूर्तिररुणात्मिका ॥१२८॥
 गुणग्रहणसंजातैर्ग्रीडाभारनतानना । मुहुः प्रचोदितोवाच कथंचिदिति केकया ॥१२९॥
 नाथ न्यासोऽयमास्तां मे त्वयि वाञ्छितयाचनम् । प्रार्थयिष्ये यदा तस्मिन् काले दास्यसि निर्वचः ॥१३०॥

भुजङ्गप्रयातम्

इति प्रोक्तमात्रे जगो भूमिनाथः समग्रेन्दुनाथप्रतिस्पर्द्धिवक्त्रः ।
 भवत्वेव युद्धे पृथुश्रोणिसौम्ये त्रिवर्णातिकान्तप्रसन्नोरुनेत्रे ॥१३१॥
 अहो बुद्धिरस्या महागोत्रजाया नयाख्या नितान्तं कलापारगायाः ।
 समस्तोपभोगैरहं सङ्गतायाः कृतं न्यासभूतं^५ मतप्रार्थनं यत् ॥१३२॥
 समस्तोऽपि तस्यास्तदाभीष्टवर्गः प्रयातः प्रमोदं प्रकृष्टं नितान्तम् ।
 विचिन्त्य प्रधानं शुभा कञ्चिदर्थं शनैर्मागंयिष्यत्यहो केकयेति ॥१३३॥
 मतेगोचरत्वं मया तावदेतत्प्रणीतं सुवृत्तं धरित्रीपते ते ।
 समुत्पत्तिमस्मान्महामानवानां शृणु द्योतकानामुदारान्वयस्य ॥१३४॥

॥१२४॥ वहाँ राजा दशरथने अन्य सपत्नियों तथा राजाओंके समक्ष पास बैठी हुई केकयासे कहा कि हे पूर्णचन्द्रमुखि ! प्रिये ! जो वस्तु तुम्हें इष्ट हो वह कहो, मैं उसे पूर्ण कर दूँ । आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ ॥१२५-१२६॥ यदि तुम उस समय बड़ी चतुराईसे उस प्रकार रथ नहीं चलातीं तो मैं एक साथ उठे हुए कुपित शत्रुओंके समूहको किस प्रकार जीतता ? ॥१२७॥ यदि अरुण सारथि नहीं होता तो समस्त जगत्में व्याप्त होकर स्थित अन्धकारको सूर्य किस प्रकार नष्ट कर सकता ? तदनन्तर गुणग्रहणसे उत्पन्न लज्जाके भारसे जिसका मुख नीचा हो रहा था ऐसी केकयाने बार-बार प्रेरित होनेपर भी किसी प्रकार यह उत्तर दिया कि हे नाथ ! मेरी इच्छित वस्तुकी याचना आपके पास धरोहरके रूपमें रहे । जब मैं माँगूंगी तब आप विना कुछ कहे दे देंगे ॥१२८-१३०॥ केकयाके इतना कहते ही पूर्णचन्द्रमाके समान मुखको धारण करनेवाले राजा दशरथने कहा कि हे प्रिये ! हे स्थूलनितम्बे ! हे सौम्यवर्णे ! तीन रङ्गके अत्यन्त सुन्दर, स्वच्छ एवं विशाल नेत्रोंको धारण करनेवाली ! ऐसा ही हो ॥१३१॥ राजा दशरथने अन्य लोगोंसे कहा कि अहो ! महाकुलमें उत्पन्न, कलाओंकी पारगामिनी तथा महाभोगोंसे सहित इस केकयाकी बुद्धि अत्यधिक नीतिसे सम्पन्न है कि जो इसने अपने वरकी याचना धरोहररूप कर दी है ॥१३२॥ यह पुण्यशालिनी धीरे-धीरे विचारकर किसी अभिलषित उत्तम अर्थको माँग लेगी ऐसा विचारकर उसके सभी इष्ट परिजन उस समय अत्यधिक परम आनन्दको प्राप्त हुए थे ॥१३३॥

गौतमस्वामी श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! मैंने बुद्धिके अनुसार तेरे लिए यह राजा

१. -नादिविज्ञाना -म० । २. विजयेऽहं म० । ३. व्याप्यं म० । ४. संवेष्टा म० । सचेष्टा ख० 'सव्येष्टा सारथिः' । ५. संघात म० । ६. उच्चकुलसमुत्पन्नायाः इति ब० पुस्तके टिप्पणम् । ७. मनःप्रार्थनं म०, व० ।

मन्मासेन सर्वं वदाम्येष तेऽहं त्रिलोकस्य वृत्तं किमत्र प्रपञ्चः ।
दुर्गाचारयुक्ताः परं यान्ति दुःखं सुखं साधुवृत्ता रविप्रख्यनामः ॥१३५॥

इत्यापि रविपिंग्वाचार्यप्रोक्तो षड्मचारिते क्लेशावरप्रदानं नाम
चतुर्विंशतितम पर्व ॥२५॥

दशरथका सुवृत्तान्त कहा है । अब इससे अपने उदार वंशको प्रकाशित करनेवाले महामानवोंकी उत्पत्तिका वर्णन सुन ॥१३५॥ तीन लोकका वृत्तान्त जाननेके लिए विन्तारकी आवश्यकता नहीं । अब मैं संक्षेपसे ही तेरे लिए यह कहता हूँ कि दुराचारी मनुष्य अत्यन्त दुःख प्राप्त करते हैं और सूर्यके समान दीप्तिको धारण करनेवाले सदाचारी मनुष्य सुख प्राप्त करते हैं ॥१३५॥

इस प्रकार आर्य नामसे प्रसिद्ध रविपिंग्वाचार्य कथित
षड्मचारितमें क्लेशाके वरदानका वर्णन करनेवाला
चौबीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥२५॥

पञ्चविंशतितमं पर्व

अथापराजिता देवी सुख सुप्ता वरालये । गयनीये महाकान्ते रत्नोद्योतसरस्थिते ॥१॥
 रजन्या पश्चिमे यामे महापुरुषवेदिन । नितान्त परमान् स्वप्नानेक्षतागयिता यथा ॥२॥
 शुभ्र स्तम्भेरम सिंहा पद्मिनीत्रान्धव विभुम् । दृष्ट्वा विबोधमायाता तूर्यमङ्गलनिस्वनै, ॥३॥
 ततः प्रन्यङ्गकार्याणि कृत्वा त्रिस्मितमानसा । त्रिवाकरकरालोकमण्डिते भुवने सति ॥४॥
 सा त्रिनीनान्तिक भर्तुर्गन्वान्यन्तममाकुला । सस्त्रीभिरावृता भद्रर्पाठभूषणकारिणी ॥५॥
 कृताञ्जलिर्जगा स्वप्नान् किञ्चिद्विनतविग्रहा । स्वामिने सावधानाय यथादृष्टान्मनोहरान् ॥६॥
 ततो निग्निलविज्ञानपारदृशवा नराधिप । बुधमण्डलमध्यस्थः स्वप्नानामभ्यधात् फलम् ॥७॥
 परमाश्चर्यहेतुस्ते कान्ते पुत्रो भविष्यति । अन्तर्बहिश्च शत्रूणा यः करिष्यति शातनम् ॥८॥
 एवमुक्ते पर तोप हस्तस्पृष्टोदरी ययो । स्मितकेसरसरुद्धमुखपद्मापराजिता ॥९॥
 चकार च सम भर्ता पर प्रमदमोयुया । जिनेन्द्रवेश्मनुस्फीता पूजा पूजितभावना ॥१०॥
 ततः प्रभृतिकान्त्यासां सुतरां स्मावगाद्यते । बभूव चेतमश्वास्या शान्तिः कापि महोजयः ॥११॥
 सुमित्रानन्तर तस्या ईचाञ्जकेऽतिसुन्दरी । विस्मिता पुलकोपेता स्वप्नान् साधुमनोरथा ॥१२॥

अथनान्तर उत्तम महलमें रत्नोंके प्रकाशरूपी सरोवरके मध्यमें स्थित अत्यन्त सुन्दर शय्यापर मुखसे सोती हुई अपराजिता रानीने रात्रिके पिछले पहरमें महापुरुषके जन्मको सूचित करनेवाले अत्यन्त आश्चर्यकारक स्वप्न देखे । वे स्वप्न उसने इतनी स्पष्टतासे देखे थे जैसे मानो जाग ही रही थी ॥१-२॥ पहले स्वप्नमें उसने सफेद हाथी, दूसरेमें सिंह, तीसरेमें सूर्य और चौथेमें चन्द्रमा देखा था । इन सबको देखकर वह तुरहीके माङ्गलिक शब्दसे जाग उठी ॥३॥ तदनन्तर जिसका मन आश्चर्यसे भर रहा था ऐसी अपराजिता प्रातःकाल सम्बन्धी शारीरिक क्रियाएँ कर, जब सूर्यके प्रकाशसे समस्त संसार सुशोभित हो गया तब बड़ी धिनयसे पतिके पास गई । स्वप्नोंका फल जाननेके लिए उसका हृदय अत्यन्त आकुल हो रहा था तथा अनेक सखियों उमके साथ गई थीं । जाकर वह उत्तम सिंहासनको अलङ्कृत करने लगी ॥४-५॥ जिसका शरीर संकोचवश कुछ नीचेकी ओर झुक रहा था ऐसी अपराजिताने हाथ जोड़कर स्वामीके लिए सब मनोहर स्वप्न जिस क्रमसे देखे थे उसी क्रमसे सुना दिये और स्वामीने भी बड़ी सावधानीसे सुने ॥६॥ तदनन्तर समस्त ज्ञानोंके पारदर्शी एवं विद्वत्समूहके बीचमें स्थित राजा दशरथने स्वप्नोंका फल कहा ॥७॥ उन्होंने कहा कि हे कान्ते ! तुम्हारे परम आश्चर्यका कारण ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों प्रकारके शत्रुओंका नाश करेगा ॥८॥ पतिके ऐसा कहनेपर अपराजिता परम सन्तोषको प्राप्त हुई । उसने हाथसे उदरका स्पर्श किया तथा उसका मुखरूपी कमल मन्द मुमकानरूपी केशरसे व्याप्त हो गया ॥९॥ प्रशस्त भावनासे युक्त अपराजिताने परम प्रसन्नताको प्राप्त पतिके साथ जिन-मन्दिरोमें भगवान्की महापूजा की ॥१०॥ उम समयसे दिन-प्रति-दिन उसकी कान्ति बढ़ने लगी तथा उसका चित्त यद्यपि महाप्रतापसे युक्त था तो भी उसमें अद्भुत शान्ति उत्पन्न हो गई थी ॥११॥

तदनन्तर अतिशय सुन्दरी सुमित्रा रानीने स्वप्न देखे । स्वप्न देखते समय वह आश्चर्यसे चकित हो गई थी, उसके समस्त शरीरमें रोमाञ्च निकल आये थे और उसका अभिप्राय अत्यन्त

१. रत्नोद्योतशिरस्थिते म०, व० । २. हस्तस्पृष्टोदरा क० । ३. मुखकेसर- म० ।

सिच्यमानं नृगाधीश लक्ष्या कीर्त्या च साद्रम् । कलशैश्चावमानास्यकमलैश्चास्वारिभिः ॥१३॥
 आत्मानं चातितुङ्गस्य भूभृतो मूर्धनि स्थितम् । पश्यन्त मेदिनी स्फीतां निम्नगापतिमेखलाम् ॥१४॥
 स्फुरत्किरणजाल च द्विवसाधिपविभ्रमम् । नानारत्नोचितं चक्रं सौम्यं कृतविवर्तनम् ॥१५॥
 वीक्ष्य मङ्गलनादेन तथैव कृतबोधना । विनीताकथयत् पत्ये नितान्तं मधुरस्वना ॥१६॥
 सूनुयुगप्रधानस्ते शत्रुचक्रक्षयावहः । भविष्यति महातेजाश्चित्रचैष्टो वरानने ॥१७॥
 इत्युक्त्वा सा सती पत्या समदाक्रान्तमानसा । ययौ निजास्पदं लोकं पश्यन्तीवाधरस्थितम् ॥१८॥
 अथानेहसि संपूर्णं पूर्णन्दुमिव^१ पूर्वदिक् । असूत तनयं कान्त्या विशालमपराजिता ॥१९॥
 त्रिपद्म्यावर्धनकारिभ्यः प्रयच्छन् वसु पार्थिवः । बभूव चामरच्छत्रपरिधानपरिच्छदः ॥२०॥
 जमोत्सवो महानस्य चक्रे निःशेषवान्धवैः । महाविभवसम्पन्नैरुन्मत्तीभूतविष्टपः ॥२१॥
 तरुणादित्यवर्णस्य पद्मालिङ्गितवज्रमः । पद्मनेत्रस्य पद्मास्या पितृभ्यां तस्य निर्मिता ॥२२॥
 सुमित्रापि ततः पुत्रमसूत परमद्युतिम् । द्यायादिगुणयोगेन सद्गत्वं रत्नभूरिव ॥२३॥
 पद्मजन्मोत्सवस्यानुसन्धानमिव कुर्वता । जनितो बन्धुवर्गेण तस्य जन्मोत्सवः परः ॥२४॥
 उत्पाता जज्ञिरेऽरातिनगरेषु सहस्रशः । आपदां सूचका बन्धुनगरेषु च संपदाम् ॥२५॥

निर्मल हो गया था ॥१२॥ उसने देखा कि लक्ष्मी और कीर्ति आदरपूर्वक, जिनके मुखपर कमल रक्खे हुए थे तथा जिनमें सुन्दर जल भरा हुआ था ऐसे कलशोंसे सिंहका अभिषेक कर रही हैं ॥१३॥ फिर देखा कि मैं स्वयं किसी ऊँचे पर्वतके शिखरपर चढ़कर समुद्ररूपी मेखलासे सुशोभित विस्तृत पृथिवीको देख रही हूँ ॥१४॥ इसके बाद उसने देदीप्यमान किरणोंसे युक्त, सूर्यके समान सुशोभित, नाना रत्नोंसे खचित तथा घूमता हुआ सुन्दर चक्र देखा ॥१५॥ इन सब स्वप्नोंको देखकर वह मङ्गलमय वादित्तोंके शब्दसे जाग उठी । तदनन्तर उसने बड़ी विनयसे जाकर अत्यन्त मधुर शब्दों द्वारा पतिके लिए स्वप्न-दर्शनका समाचार सुनाया ॥१६॥ इसके उत्तरमें राजा दशरथने बताया कि हे उत्तम मुखको धारण करनेवाली प्रिये ! तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा कि जो युगका प्रधान होगा, शत्रुओंके समूहका क्षय करनेवाला होगा, महातेजस्वी तथा अद्भुत चैष्टाओंका धारक होगा ॥१७॥ पतिके इस प्रकार कहनेपर जिसका चित्त आनन्दसे व्याप्त हो रहा था ऐसी सुमित्रा रानी अपने स्थान पर चली गई । उस समय वह समस्त लोकको ऐसा देख रही थी मानो नीचे ही स्थित हो ॥१८॥

अथानन्तर समय पूर्ण होने पर, जिस प्रकार पूर्व दिशा पूर्ण चन्द्रमाको उत्पन्न करती है उसी प्रकार अपराजिता रानीने कान्तिमान् पुत्र उत्पन्न किया ॥१९॥ इस भाग्य-वृद्धिकी सूचना करनेवाले लोगोंको जब राजा दशरथ धन देने बैठे तो उनके पास छत्र चमर तथा वज्र ही शेष रह गये वाकी सब वस्तुएँ उन्होंने दानमें दे दीं ॥२०॥ महा विभवसे सम्पन्न समस्त भाई-वान्धवोंने इसका बड़ा भारी जन्मोत्सव किया । ऐसा जन्मोत्सव कि जिसमें सारा संसार उन्मत्त-सा हो गया था ॥२१॥ मध्याह्नके सूर्यके समान जिसका वर्ण था, जिसका वज्र-मथल लक्ष्मीके द्वाग आलिङ्गित था तथा जिसके नेत्र कमलोंके समान थे ऐसे उस पुत्रका माता-पिताने पद्म नाम रक्खवा ॥२२॥ तदनन्तर जिस प्रकार रत्नोंकी भूमि अर्थात् खान द्याया आदि गुणोंसे सम्पन्न उत्तम रत्नको उत्पन्न करती है उसी प्रकार सुमित्राने श्रेष्ठ कान्तिके धारक पुत्रको उत्पन्न किया ॥२३॥ पद्मके जन्मोत्सवका मानो अनुसन्धान ही करते हुए बन्धु-वर्गने उसका भी बहुत भारी जन्मोत्सव किया था ॥२४॥ शत्रुओंके नगरोंमें आपत्तियोंकी सूचना देनेवाले हजारों उत्पात होने लगे और बन्धुओंके नगरोंमें सम्पत्तियोंकी सूचना देनेवाले हजारों शुभ चिह्न प्रकट

प्राँदेन्द्रीवरगर्भामः कान्तिवारिकृतप्लव । सुलक्ष्मा लक्ष्मणाख्याया पितृभ्यामेव योजितः ॥२६॥
 बाली मनोजरूपौ तौ विद्रुमाभरदच्छदौ । रक्तोत्पलममच्छ्रायपाणिपादौ सुविभ्रमौ ॥२७॥
 नवनीतसुपस्पर्शौ जातिसौरभधारिणौ । कुर्वाणो गैश्वी क्रीडां चेतः कस्य न जहतुः ॥२८॥
 चन्दनद्रवद्रिग्राही कुट्टकुमन्थामकाश्रितौ । सुवर्णरममपृक्करजताचलकोपमौ ॥२९॥
 अनेकजन्ममृदस्नेहान्योन्यवगानुगौ । अन्तःपुरगती सर्ववन्तुभिः कृतपालनौ ॥३०॥
 विच्छर्दमिष कुर्वाणावमृतेन कृतस्वर्नौ । सुपपङ्केन लिम्पन्ताविव लोफ विलोकनात् ॥३१॥
 द्विन्दन्तामिव दारिद्र्यमाहृतागमकारिणौ । तर्पयन्ताविव म्वान्त सर्वेषामनुकूलतः ॥३२॥
 प्रयादमम्मर्दौ ग्राह्यादिव देहसुपागता । रेमाते तां सुप पुयां कुमारौ कृतरक्षौ ॥३३॥
 विजयश्च त्रिपृष्ठश्च यथापूर्वं प्रभुवत् । तत्तुल्यचेष्टितावैव कुमारौ तावगेपतः ॥३४॥
 तनय केकयामृत दिव्यरूपनमन्वितम् । यो जगाम महाभाग्यो सुवने भरतश्रुतिम् ॥३५॥
 सुपुत्रे सुप्रभा पुत्रं सुन्दर यस्य त्रिप्रे । स्याति शत्रुघ्नगण्डेन मकलेऽद्यापि वर्नते ॥३६॥
 बलनामापर मात्रा पत्न्येति विनिर्मितम् । सुमित्रया हरिर्नाम तनयन्य महच्छ्रया ॥३७॥
 कृतोऽर्चविक्रिनामाय मात्रेति भरताभिधाम् । दृष्ट्वा चक्रिणि सपूर्णं केकया प्रापयत् सुतम् ॥३८॥
 चक्रवर्तिध्वनि नीनो मात्रायमिति सुप्रभा । तनयस्यार्हतो नाम गव्युन्नमिति निर्ममे ॥३९॥

होने लगे ॥३५॥ प्राँड नील कमलके भीतरी भागके समान जिसकी आभा थी, जो कान्तिरूपी जलमे तैर रहा था और अनेक अच्छे-अच्छे लक्षणांसे सहित था ऐसे उस पुत्रका माता-पिताने लक्ष्मण नाम रक्खा ॥३६॥ उन दोनों बालकोंका रूप अत्यन्त मनोहर था, उनके आँठ मूँगाके समान लाल थे, हाथ और पैर लाल कमलके समान कान्तिवाले थे, उनके विभ्रम अर्थात् हाव-भाव देखते ही बनते थे, उनकी स्पर्श ममत्पनके समान कोमल था, तथा जन्मसे ही वे उत्तम सुगन्धिको धारण करनेवाले थे । बाल-क्रीडा करते हुए वे किसका मन हरण नहीं करते थे ॥३७-३८॥ चन्दनके लेपसे शरीरका लिप्त करनेके बाद जब वे ललाट पर कुट्टुमका तिलक लगाते थे तब सुवर्ण रससे मंयुक्त रजताचलकी उपमा धारण करते थे ॥३९॥ अनेक जन्मोंके संस्कारसे बड़े हुए म्नेहसे वे दोनों ही बालक परम्पर एक दूसरेके वशानुगामी थे, तथा अन्तःपुरमें समस्त बन्धु उनकी लालन-पालन करते थे ॥३०॥ जब वे शब्द करते थे तब ऐसे जान पड़ते थे मानो अमृतका बमन ही कर रहे हों और जब किसीकी ओर देखते थे तब ऐसा जान पड़ते थे मानो उस लोफको सुखदायक पट्टसे लिप्त ही कर रहे हों ॥३१॥ जब किसीके बलानेपर वे उसके पास पहुँचते थे तब ऐसे जान पड़ते थे मानो दग्धताका छेद ही कर रहे हों । वे अपनी अनुकूलतासे सबके हृदयको मानो तृप्त ही कर रहे थे ॥३२॥ उन्हें देखनेसे ऐसा जान पड़ता था मानो प्रसाद और सम्पद् नामक गुण ही देह रसक आये हों । जिनकी रक्षक लोग रक्षा कर रहे थे ऐसे दोनों बालक नगरीमें सुखपूर्वक जहाँ-तहाँ क्रीडा करते थे ॥३३॥ जिस प्रकार पहले विजय और त्रिपृष्ठ नामक बलभद्र तथा नागयण हुए थे उसी प्रकार ये दोनों बालक भी उन्हींके समान ममत्त चेष्टाओंके धारक हुए थे ॥३४॥

तदनन्तर केकया रानीने सुन्दर रूपसे सहित पुत्र उत्पन्न किया जो महाभाग्यवान् था तथा मसारमे 'भरत' इम नामको प्राप्त हुआ था ॥३५॥ तत्पश्चात् सुप्रभा रानीने सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया जिसकी समस्त ससारमे आज भी 'शत्रुघ्न' नामसे प्रसिद्धि है ॥३६॥ अपराजिताने पद्मका दृमरा नाम बल रक्खा था तथा सुमित्राने अपने पुत्रका दूसरा नाम बड़ी इच्छासे हरि घोषित किया था ॥३७॥ केकयाने देखा कि 'भरत' यह नाम सम्पूर्ण चक्रवर्ती भरतसे आया है इसलिए उसने अपने पुत्रका अर्ध-चक्रवर्ती नाम प्रकट किया ॥३८॥ सुप्रभाने विचार किया कि जब

समुद्रा इव चत्वारः कुमारस्ते नया इव । दिग्विभागा इवोदारा वभूवुर्जगतः प्रियाः ॥४०॥
 ततः कुमारकान् दृष्ट्वा विद्यासंग्रहणोचितान् । दध्यौ योग्यमुपाध्यायं पितृपां मनसाकुलः ॥४१॥
 अथास्ति नगर नाम्ना काम्पिल्यमिति सुन्दरम् । भार्गवोऽत्र शिखी ख्यातस्तस्येपुरिति भामिनी ॥४२॥
 ऐररूढिस्तयोः पुत्रो दुर्विनीतोऽतिलालितः । उपालम्भसहस्राणां कारणीभूतचेष्टितः ॥४३॥
 द्रविणोपार्जन विद्याग्रहणं धर्मसग्रहः । स्वाधीनमपि तत्प्रायो विदेशे^२सिद्धिमश्नुते ॥४४॥
 पितृभ्यां भवनादेप निर्विण्णाभ्यां निराकृतः । ययौ राजगृहं दुःखी वसानः कर्पटद्वयम् ॥४५॥
 तत्र वैवस्वतो नाम धनुर्वेदातिपण्डितः । युक्तः सहस्रमात्रेण शिष्याणामभियोगिनाम् ॥४६॥
 यथावत्तस्य पार्श्वेऽसौ धनुर्विद्यामुपागमत् । जातः शिष्यसहस्राच्च दूरेणाधिककौशलः ॥४७॥
 श्रुत कुशाग्रराजेन मत्सुतेभ्योऽपि कौशलम् । वैदेशे क्वापि विन्यस्तमिति ज्ञात्वा रुष गतः ॥४८॥
 श्रुत्वा च स्वामिनं क्रुद्धमस्त्राचार्येण शिषितः^३ । एवमेरो यथा राज्ञः पुरः कुण्ठो भविष्यति ॥४९॥
 स समाह्वयितः शिष्यैः सूतोऽसौ विभुना नृणाम् । शिष्यां पश्यामि सर्वेषां क्षात्राणमिति चोदितः ॥५०॥
 तनोऽन्तेवासिनस्तेन क्रमेण शरमोचनम् । कारिता लक्ष्यपातं च सर्वे चक्रुर्यथायथम् ॥५१॥
 तथैरोऽपि स निर्युक्तः शरान् चिन्नेप तादृशान् । दुःशिक्षित इति ज्ञातो विभुना^४तेन यादृशैः ॥५२॥
 विदित्वा वितथां सर्वा राज्ञा संप्रेषितो गतः । अस्त्राचार्यं स्वक धाम शिष्यमण्डलमध्यगः ॥५३॥

केकयाने अपने पुत्रका नाम चक्रवर्तीके नामपर रक्खा है तब मैं अपने पुत्रका नाम इससे भी बढ़कर क्यों नहीं रक्खूँ यह विचारकर उसने अर्हन्त भगवान्के नामपर अपने पुत्रका नाम शत्रुघ्न रक्खा ॥३६॥ जगत्के जीवोंको प्रिय लगनेवाले वे चारों कुमार समुद्रके समान गम्भीर थे, सम्यग् नयोके समान परस्पर अनुकूल थे तथा दिग्विभागोंके समान उदार थे ॥४०॥

तदनन्तर इन कुमारोंको विद्या ग्रहणके योग्य देखकर इनके पिता राजा दशरथने बड़ी व्यग्रतासे योग्य अध्यापकका विचार किया ॥४१॥ अथानन्तर एक काम्पिल्य नामका सुन्दर नगर था उसमे शिखी नामका ब्राह्मण रहता था । उसकी इपु नामकी स्त्री थी ॥४२॥ उन दोनोंके एक एर नामका पुत्र था जो अत्यधिक लाड-प्यारके कारण महाअविनयी हो गया था । उसकी चेष्टाएँ हजारो उलाहनोंका कारण हो रही थीं ॥४३॥ धनका उपार्जन करना, विद्या ग्रहण करना और धर्मसंचय करना ये तीनों कार्य यद्यपि मनुष्यके अपने आधीन है फिर भी प्रायःकर विदेशमें ही इनकी सिद्धि होती है ॥४४॥ ऐसा विचारकर माता-पिताने दुःखी होकर उसे घरसे निकाल दिया जिससे केवल दो कपड़ोंको धारण करता हुआ वह दुःखी अवस्थामे राजगृह नगर पहुँचा ॥४५॥ वहाँ एक वैवस्वत नामका विद्वान् था जो धनुर्विद्यामे अत्यन्त निपुण था और विद्याध्ययनमे श्रम करनेवाले एक हजार शिष्योंसे सहित था ॥४६॥ ऐर उसीके पास विधिपूर्वक धनुर्विद्या सीखने लगा और कुछ ही समयमे उसके हजार शिष्योंसे भी अधिक निपुण हो गया ॥४७॥ राजगृहके राजाने जब यह सुना कि वैवस्वतने किसी विदेशी बालकको हमारे पुत्रोंसे भी अधिक कुशल बनाया है तब वह यह जानकर क्रोधको प्राप्त हुआ ॥४८॥ राजाको कुपित सुनकर अस्त्रविद्याके गुरु वैवस्वतने ऐरको ऐसी शिक्षा दी कि तू राजाके सामने मूर्ख बन जाना ॥४९॥ तदनन्तर राजाने, मैं तुम्हारे सब शिष्योंकी शिक्षा देखूँगा, यह कहकर शिष्योंके साथ वैवस्वत गुरुको बुलाया ॥५०॥ तदनन्तर राजाने सब शिष्योंसे क्रमसे बाण छुड़वाये और सबने यथायोग्य निशाने बंध दिये ॥५१॥ इसके बाद ऐरसे भी बाण छुड़वाये तो उसने इस रीतिसे बाण छोड़े कि राजाने उसे मूर्ख समझा ॥५२॥ जब राजाने यह समझ लिया कि लोगोंने इसके विषयमे जो

१. विलालितः म० । २. सिद्धिमश्नुते म० । ३. शिष्यतः म० । ४. लक्ष्यपात च म० । ५. येन तादृशैः क० ।

वैवस्वतसुतामैरः स्वोक्तान्य गुरुसम्मताम् । रात्रौ पलायनं कृत्वा प्राप दाशरथीं पुरीम् ॥५४॥
 ढौकितश्चानरण्ये स्वं कौशलं च न्यवेदयत् । राज्ञा समर्पिता तस्मै तुष्टेन तनुसंभवाः ॥५५॥
 तेष्वन्नकौशलं तस्य संक्रान्तं स्फीततां गतम् । सरःसु सुप्रसन्नेषु चन्द्रविम्बमिवागतम् ॥५६॥
 अन्यानि च गुरुप्राप्त्या विज्ञानानि प्रकाशताम् । यातानि तेषु रत्नानि पिधानापगमादिव ॥५७॥

स्रग्धराच्छन्दः

दृष्ट्वा विज्ञानमेपामतिशयसहितं सर्वशास्त्रेषु राजा
 संप्राप्तस्तोपमग्र्यं सुतनयविनयोदारचेष्टाहृतात्मा ।
 चक्रे पूजासमेतं गुरुषु गुणगणज्ञानपाण्डित्ययुक्तो
 यातं व्युत्क्रम्य ब्राह्म्याविभवमतितरां दानविख्यातकीर्तिः ॥५८॥
 ज्ञानं संप्राप्य किञ्चिद् व्रजति परमतां तुल्यमन्यत्र यातं
 तावत्त्वेनापि नैति क्वचिदपि पुरुषे कर्मवैषम्ययोगात् ।
 अत्यन्तं स्फीतिमेति स्फटिकगिरितटे तुल्यमन्यत्र देशे
 यात्येकान्तेन नाशं तिमिरवति रवेरंशुवृन्दं खगौधैः ॥५९॥

इत्यार्षे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते चतुर्भातृसंभवामिधानं नाम पञ्चविंशतितमं पर्व ॥२५॥

कहा था वह सब मूठ है तब उसने अस्त्राचार्यको सन्मानके साथ विदा किया और वह शिष्य-मण्डलके साथ अपने घर चला गया ॥५३॥ ऐर गुरुकी सम्मतिसे उसकी पुत्रीको विवाह कर रात्रिमें वहाँसे भाग आया और राजा दशरथकी राजधानी अयोध्यापुरीमें आया ॥५४॥ वहाँ उसने राजा दशरथके पास जाकर उन्हें अपना कौशल दिखाया और राजाने सन्तुष्ट होकर उसे अपने सब पुत्र सौंप दिये ॥५५॥ सो जिस प्रकार निर्मल सरोवरोंमें प्रतिविम्बित चन्द्रमाका विम्ब विस्तारको प्राप्त होता है उसी प्रकार उन शिष्योंमें ऐरका अस्त्रकौशल प्रतिविम्बित होकर विस्तारको प्राप्त हो गया ॥५६॥ इसके सिवाय अन्य-अन्य विषयोंके गुरु प्राप्त होनेसे उनके अन्य-अन्य ज्ञान भी उस तरह प्रकाशताको प्राप्त हो गये जिस तरह कि टकनके दूर हो जानेसे छिपे रत्न प्रकाशताको प्राप्त हो जाते हैं ॥५७॥ पुत्रोंके नय, विनय और उदार चेष्टाओंसे जिनका हृदय हरा गया था ऐसे राजा दशरथ उन पुत्रोंका सर्वशास्त्रविषयक अतिशय पूर्णज्ञान देखकर अत्यन्त सन्तोषको प्राप्त हुए । वे गुणसमूहविषयक ज्ञान और पाण्डित्यसे युक्त थे तथा दानमें उनकी कीर्ति अत्यन्त प्रसिद्ध थी, इसलिए उन्होंने समस्त गुरुओंका सन्मान कर उन्हें इच्छासे भी अधिक वैभव प्रदान किया था ॥५८॥

गौतमस्वामी कहते हैं कि हे राजन् ! किसी पुरुषको प्राप्तकर थोड़ा ज्ञान भी उत्कृष्टताको प्राप्त हो जाता है, किसीको पाकर उतनाका उतना ही रह जाता है और कर्मोंकी विषमतासे किसीको पाकर उतना भी नहीं रहता । सो ठीक ही है क्योंकि सूर्यकी किरणोंका समूह स्फटिक-गिरिके तटको पाकर अत्यन्त विस्तारको प्राप्त हो जाता है, किसी स्थानमें तुल्यताको प्राप्त होता है अर्थात् उतनाका उतना ही रह जाता है और अन्धकारयुक्त स्थानमें विलकुल ही नष्ट हो जाता है ॥५९॥

इस प्रकार आर्पणामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्य कथित पद्मचरितमें राम आदि चार भाइयोंकी उत्पत्तिका कथन करनेवाला पञ्चीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥२५॥

श्लोकानामकाराद्यनुक्रमः

[अ]					
अकम्पनमुताहितो-	१२८	अचिन्तयत्ततः शक्रो	२८१	अतिशयशुभचिन्ता	३०
अकल्पात्प्रथिते मायं	८५	अचिन्तयत्तदा नाम	१७३	अतिशाखाभृगद्वीनः	१०१
अकल्पादथ पूरेण	२३०	अर्चाकरञ्च सप्राम-	१८२	अतो नाथन्य मे शिष्यः	२४२
अकर्मण ततः स्वेन	६६	अच्छिन्नजलधाराभि-	४६१	अतोऽपि समतिक्रम्य	५४
अकारणेन देवात्	२१२	अजा. पशव उद्दिष्टा	२४१	अतो यथात्र सूत्रार्थ-	३२३
अकृत्यसर्वसत्याद्यं	५४	अजात एवास्मि न यावदेना	४२१	अतो विधन्व तं यत्नं	३४३
अक्रूरं वारिण्येणोऽथ	२२	अजाते जायते येषा	२४१	अतो विपदि जाताया-	२२२
अकृया निघयस्तत्य	६१	अजितं विजिताशेष-	१	अत्ति चान्यन्तदुर्गन्धं	३२
अगमन् प्रनदोद्यान-	८८	अजितत्यावतग्ग	५	अत्यन्तः सुपम. कालः	४२६
अग्रहीद् गृहधर्मं च	३६४	अजैर्यष्टव्यमित्यत्य	२४१	अत्यन्तदीनमेतस्यां	३७६
अग्निज्वालाहृत्लागारे	४६०	अज्ञातसर्गार्थस्तेः	२६१	अत्यन्तदुस्सहैयोगी	४७०
अग्रस्तन्वेन चोदाग	२०१	अज्ञानसत्यमाकृतं	४०५	अत्यन्तफलसम्पन्नि-	१८
अङ्गप्रानेन सा तेन	४७	अङ्गनाद्रिप्रकाशोऽपि	४४५	अत्यन्तमद्भुतं कारिचद्	९६
अङ्गस्थवामगण्डु-	३८६	अजितनत्युत्कालविधाना	३०५	अत्यन्तमधिसा कुर्वन्	२०५
अङ्गेऽत्य पुरयेन्द्रत्य	३४८	अट्यामिह सौगव्यं कि	२७८	अत्यन्तमन्तरङ्गोऽयं	२०३
अङ्गणेनयवत्रीहि	६४	अदौम्बिषि तमुद्देश	४०६	अत्यन्तसुयचारजा.	३१६
अङ्गनाना ततस्तत्य	१५७	अणिमा लधिना क्षोभ्या	१६२	अत्यन्तविषयसङ्गो	४३६
अङ्गनाविष्या सृष्टि-	१७३	अणुवनानि पञ्च स्यु-	६०	अत्यन्तशुद्धचित्तस्ते	६१
अङ्गहाराश्रयं नृत्तं	८७८	अणुवनानि सप्रामा	२६	अत्यल्पेन प्रयासेन	३२८
अङ्गेषु च चतुर्दस्य	१६८	अणुवनानि मेवन्ते	२५	अन्याशिपस्ततो दृष्ट्वा	१६४
अत्रिरेणैव कालेन	३६७	अन. कर्मभिरेवेद्	२५६	अत्युग्रशासनात्समाद्	४३७
अचिन्तयच्च किन्त्वेन-	३५३	अतः परम्यरागत-	१३१	अत्रान्तरे क्लान्त्वेपी	२०८
अचिन्तयच्च दृष्ट्वैव	२८६	अतः पश्यन् वाक्रोश-	३४६	अत्रान्तरेऽत्ययं प्राप्तः	३३८
अचिन्तयच्च दृष्ट्वैतां	१०८	अतः संत्करणोमान-	४६	अत्रान्तरे नभोगाना	१२२
अचिन्तयच्च नूनं सा	१६३	अतन्तप्रतिकाराय	३५६	अत्रान्तरे पुनः प्राप्तं	४०६
अचिन्तयच्च मन्त्रेयं	१६३	अतस्तद्दर्शनो गय-	३४२	अत्रान्तरे पुरे राजा	१३६
अचिन्तयच्च यद्यथा	२७१	अतस्तिष्ठ त्वमत्रैव	१००	अत्रान्तरे प्रियात्यन्त	३४५
अचिन्तयच्च लोभेन	२४३	अतिक्रान्तमहाग्नौ	५	अत्रान्तरे महामानो	१४१
अचिन्तयच्च वीरेण	२८	अतिक्रान्तोस्ततो दृष्ट्वा	१०७	अत्रान्तरे मुनिः प्राप्तो	३००
अचिन्तयच्च हा कष्टं	२७२	अतिक्रान्ता वसुं द्रष्टुं	२४८	अत्रान्तरे विनिष्क्रान्तो	२२५
अचिन्तयच्च हा कष्टं	३४८	अनिमात्रं ततो भूरि	२८३	अत्रान्तरे विरोधोऽभू-	३५३
अचिन्तयच्च हा कष्टं	४६६	अतिवृष्टिरवृष्टिश्च	४३०	अत्रान्तरेऽविशदग्गह-	३८२
		अतिवीर्यं. सुवीर्यश्च	६७	अत्रान्तरे सदेहाना	१६१

अथ कश्चित्पराधीनो	५०	अथ बालेश्रुवा नाम्ना	२०८	अथवेन्द्रजिते यूने	३३६
अथ कालान्यतो हार्नि	३६	अथ भङ्गं गतः सिंहः	३८६	अथ वैश्रवणः क्रुद्धो	१७६
अथ किन्नरगीताख्ये पुरे रति	८०	अथ भास्करकर्ण-	४१६	अथ वैश्रवणो यासां	१७६
अथ किन्नरगीताख्ये पुरे श्री	६३	अथ भास्वन्महाशालां	२०५	अथ शब्दश्च बुद्धिश्च	२५०
अथ कुमुदपयान्तः	३०	अथ भूतरवाट्यां	४०७	अथ सूर्यरजाः पुत्रं	२०७
अथ कुम्भपुरे राज-	१७८	अथ भूतरवाभिख्यं	४०४	अथ स्वयंवराशानां	१२२
अथ केतुमती पुत्र-	४०५	अथ मन्दोदरीगर्भं	१७६	अथागन्तुकसिंहस्य	३८६
अथ केनापि त्रेणेन	३६५	अथ मालिनमित्यूचे	१४१	अथाजितजिनो जात-	७१
अथ कैलाससंज्ञोभो	२३८	अथ माली समुत्तर्था	१४४	अथाञ्जनगिरिच्छायः	१६१
अथ क्रीडनसक्ताया-	११३	अथ मेघपुरे राजा	१३४	अथात्र समये प्रात-	८६
अथ लुब्धेषु वीरेषु	२८२	अथ मेरुगुहाकारे	१५४	अथादित्यगतेः पुत्रो	६४
अथ शोरतपोधारी	४५८	अथ यज्ञध्वनिं श्रुत्वा	२३८	अथानादरतः पूर्वं	३६३
अथ धनं स चिरात् खिन्नः	२५८	अथ योऽसौ मुरेन्द्रेण	२७४	अथानेहसि संपूर्णं	४६०
अथ चन्द्रोदरे कालं	२१०	अथ रत्नपुरं नाम	६७	अथान्यदा कीर्तिधरः	४५४
अथ चारुणसाधूनां	२३३	अथ रत्नश्रवाः पुत्र-	१६३	अथान्यदाञ्जनावोचत्	३६३
अथ चेतोभुवो वैशै-	३४१	अथ रम्भागुणाकारा	२७५	अथान्यदा मधौ क्रीडा	३८०
अथ चैकान्तयुक्तोक्ति-	२५१	अथ राजपुरं प्राप्तो	२४५	अथान्यस्य दिनस्यादौ	२४२
अथ जम्बूमति द्वीपे	१०	अथर्क्षसूर्यरजसा	१४४	अथापराजिता देवी	४८६
अथ तं गमने सक्तं	२५६	अथ वक्त्रेत्रियामायाः	८६	अथापि जननात्प्रभृत्य-	३६६
अथ तत्रैव नगरे	६२	अथवा कर्मणामेत-	३००	अथाप्युद्विजमानस्य	२६६
अथ तद्भवनं तस्य	२०५	अथवा किं प्रपञ्चेन	३२५	अथामङ्गलमीताभ्यां	१३६
अथ तस्याभवत्पुत्रः	८०	अथवा कोऽत्र वो दोषः	३७५	अथामृतप्रभावाया	४७०
अथ तीर्थकरोदार-	२६	अथवा धनपालत्वं	१८४	अथालमलमेतेन	३६३
अथ तेन स्थितेनारात्	३८१	अथवा न ननु क्षुद्रे	३३२	अथावोचद्दशग्रीवः	४१२
अथ ते समये दृष्ट्वा	३८८	अथवा निर्मितं चेतो	१३०	अथासावन्यदापृच्छत्	१८७
अथ तौ पारणाहेतोः	४६४	अथवानुग्रहीतोऽसौ	४५३	अथासीद्दक्षिणश्रेण्यां	१६८
अथ दन्तप्रभाजाल-	३२	अथवा भद्रं ते कोऽत्र	३६२	अथासौ कथयन्नेवं	२००
अथ धर्मरथाख्येन	३३१	अथ वायुकुमारस्य	३४८	अथासौ दर्पणच्छाये	१०८
अथ धूतेभकीलाल-	३८६	अथवा युक्तमेवेदं	२६६	अथासौ भगवान् ध्यानी	५७
अथ नाकाधिपप्रख्यो-	३०६	अथवा वचनज्ञान	३३७	अथासौ यौवनप्राप्तां	१२२
अथ नीलाञ्जनाख्यायां-	५०	अथवा विद्यते नैव	३५३	अथासौ लोकमुत्तार्य	६६
अथ नैव कृताथोऽसा-	२५५	अथवा श्रुतमेवासी-	१०७	अथासौ विपुले कान्ते	१५१
अथ पाणिग्रहीत्यस्य	१०८	अथवा सर्वकार्येषु	३४२	अथासौ सुव्रतः कृत्वा	४४७
अथ प्रतिक्रियां चक्रे	१८५	अथवा सर्वसन्देह	३६०	अथास्ति दक्षिणश्रेण्यां	१७८
अथ प्रवर्तनं कृत्वा	५८	अथ विज्ञाय जयिनं	१६७	अथास्ति नगरं नाम्ना	४६२
अथ प्रवर्तितं तस्य	१८६	अथ विद्याबलादाशु	३६८	अथास्य चरिते पद्म	२८
अथ प्रशान्तया वाचा	३८०	अथ विद्युद्दृढ स्याभू-	७०	अथास्य पृष्ठमारूढः	१६६
अथ प्रासादशिखरे	५७	अथ विद्युद्दृढो नाम्ना	६८	अथास्य मानसं चिन्ता	३३२
अथ प्रियविमुक्तां तां	३८६	अथ वेगवती नाम्ना	१६३	अथास्य व्रजतो दृष्टि-	४५०

अथास्यातिप्रसन्नास्य	६०	अनङ्गः सन् व्यथामेता	३४२	अनेकरोगसपूर्ण-	३२७
अयेक्ष्वाकुऋलोल्येषु	७१	अनङ्गपुष्येति समस्तलोके	४१८	अनेकशः कृतोद्योग-	२८०
अयेक्षाञ्चकिरे वायुं	४०८	अनन्त दधतं ज्ञान-	२	अनेकेऽत्र ततोऽतीते	८१
अयेन्दुनखयातस्य	१७०	अनन्तगुणगेहस्य	२	अनेकोपायसंभूत-	३०७
अयेन्द्रजितये गन्तुं	२२६	अनन्तरं च स्वप्नाना	४१	अनेन नग्नरूपेण	५२
अयेन्द्रजिदुवाचेद	२३५	अनन्तवीर्यकैवल्यं	६	अनेनापि भवे स्वस्मि-	२४८
अथोपशमचन्द्रस्य	६०	अनन्तायाश्च गर्दायाः	३१६	अनेनैव सम भर्त्रा	२७६
अथोवाच विहस्यैव	६२	अनन्ता लोकनभसो	३३	अन्तःपल्लवकान्ताभ्या	३८६
अथो हनूरुहद्वीप	४११	अनन्यगतचित्ताहं	३५८	अन्तःपुरं च कुर्वाण	१५६
अथैकस्तम्भमूर्धस्ये	२६६	अनन्यजेन रूपेण	१५०	अन्तःपुरं प्रविष्टा च	२७७
अथैतदीयमंताप-	३६५	अनन्यसदृशः क्षेत्रे	२११	अन्तःपुरमहापद्म-	१८७
अथैतन्न तत्राभीष्ट	३३६	अनरण्यसहस्राशु	६	अन्तरङ्ग हि सकल्पः	३११
अथैतस्य समं देव्या	११०	अनरण्योऽगमन्मोक्ष-	४७०	अन्तरास्य कृताद्दुष्टं	३६६
अथैतस्याश्रवो भूत्वा	२७१	अनाख्येयमिदं वत्सा	१३५	अन्तरेऽस्मिन्नवद्वार-	२६२
अथैव कथित तेन	६३	अनाथान्नाथ नः कृत्वा	१२१	अन्तर्निरूप्य वाञ्छन्ती	३५१
अथैवं भाषमाणाया	३६४	अनादरेण निक्षिप्य	४०४	अन्तर्भ्रातृशतेनैत-	४१४
अथैवं श्रेणिक. श्रुत्वा	४२४	अनादरेण विक्षिप्य	२२०	अन्तर्वर्ती सतीमेता-	१३६
अथैवमुक्त. कुशलैरमात्यै-	४५६	अनाथा दुर्भगा मातृ	३२७	अन्तर्विरक्तमज्ञात्वा	४५२
अथैवमुक्तो वरुणः स वीरं	४१७	अनाध्मातस्तत. शङ्को	४३	अन्तर्वेदि पशुना च	२५०
अदृष्टपारगन्भीर	२०४	अनिच्छतो गता दृष्टिः	३५०	अन्तोऽपि तर्हि न स्या-	२५६
अदोपामपि दोपाक्ता	४	अनित्यत्वं शरीरादे-	३२३	अन्न यथेप्सितं तासां	३२८
अद्यप्रभृति मे भ्राता	२३५	अनित्यमेतज्जगदेष मत्वा	४५५	अन्नं यथेप्सितं तेभ्यः	१५७
अद्यप्रभृति मे सर्वे	२६७	अनिलोऽरिमुखस्पर्शां	५८	अन्नं यदमृतप्राय	४३६
अथ मे त्व जनन्यापि	४५६	अनुकम्पापराः शान्ता	४६२	अन्नमात्रं क्रियाः पुंसां	१६१
अथ रात्रौ मया यामे	१५१	अनुक्रमाच्च तस्याभूत्	२०७	अन्नमेकस्य हेतोर्द्यत्	२६६
अद्यापि नैव निर्लज्ज-	२२५	अनुक्रमात्साय निरीक्षमाणा	४२०	अन्य. कस्तस्य कथ्येत	११७
अद्रेर्वलाहकाख्यस्य	१६६	अनुक्रमेण शोपाणा	४२५	अन्यदा कन्दुकेनासौ	३३५
अधरं कश्चिदाङ्गुथ	१२३	अनुजातस्ततस्तेन	२७१	अन्यदा कृपिसक्ताना	२६५
अधरग्रहणे तस्याः	३६५	अनुज्ञातोऽवहत्कान्तां	४०१	अन्यदाथ तडित्केशः	११३
अधश्चम्पकवृक्षस्य	४४७	अनुदारवलीमङ्ग,	३१६	अन्यदाथ महादाह-	४६७
अधिष्ठितस्थलीपृष्ठ.	१०	अनुपाल्यसमीचीनं	३८२	अन्यदाथ विबुद्धात्मा	२७२
अधिसह्य महारोगान्	४३६	अनुभूय चिरं भोगान्	४६७	अन्यदाथ सुखासीनं	४७२
अधुना गमन तेभ्य.	३६८	अनुयानसमारुहै-	२६५	अन्यदारण्यकं शास्त्रं	२३६
अधुना दिनवक्त्रे ते	३६२	अनुयान्ती महारण्य-	३७७	अन्यदा रम्यमुद्यानं	७१
अधुनास्मिन् प्रसन्ने ते	३६२	अनुरागं गुणैरेवं	२६५	अन्यदाशनिवेगोऽथ	१३२
अधोगतिर्यतो राज्या-	४७१	अनुराधा महादु खं	६	अन्यदा स गतोऽपश्यद्	६८
अध्वतिष्ठच्च मुदिता	१४८	अनुवृत्तं लिपिज्ञानं	४७६	अन्यदा सौख्यसभार-	३६६
अध्वार्त्सीञ्चेति हा कर्तुं	३५६	अनुसूत्रसमाचारो	४५८	अन्यदा हास्तिनपुरं	५७
अनगारनहयाणा	३००	अनेकजन्मसंवृद्ध-	४६१	अन्यदेशः समं ताभ्या	७६

अन्यभवेपु प्रथितमुधर्माः	४७१	अमरेणेति तत्रोक्तं	५३	अभिनन्दितनिःपेथ	१
अन्यशासनसंबद्ध-	३२२	अमरेऽपि खगाः सर्वे	१२२	अभिनन्द्येति संविग्नः	२३७
अन्यानन्दपुरी जैया	४४१	अमरेऽवरयनोत्थ	२५६	अभिन्नचेतसस्तत्र	१५७
अन्यानपि बहूनेवं	१२६	अपरोऽभ्रमयन् पक्षं	१२३	अभिप्रायं ततस्तस्य	१००
अन्यानपि महाभागान्	१	अमश्यतां ततः शुद्ध-	३७८	अभिप्रेतेषु देशेषु	१७४
अन्यानपि यदीक्षे तु	४५८	अमश्यन्नाकुलोऽभूर्वं	१३०	अभिप्रेत्य बधं शत्रो	१४२
अन्यानि च गुरुप्राप्त्या	४६३	अपापास्तेऽधिगच्छन्ति	३२६	अभिमानात्तथाप्येनं	१००
अन्ये च बहवः शूराः	१७६	अपि बालाग्रमात्रेण	३१८	अभिमानेन तुज्ञानां	११०
अन्ये च स्वजनाः सर्वे	१६३	अपि बालेऽत्र जानामि	४०२	अभिमानोदयं मुक्त्वा	१७०
अन्येषुः प्रतिपन्नश्च	१२२	अपूर्वः पर्वताकारैः	१०	अभिलङ्कां दशास्योऽपि	३३३
अन्येषुर्भानुभिर्भानो	४१३	अपूर्वपुरपालोक-	१४६	अभिलापो यतस्तस्मिन्	१४०
अन्येनाशीविपेणेव	२६०	अपूर्वांगव्यश्च धर्मो न	२५४	अभिव्यक्तं त्रिभिः स्थानैः	४७८
अन्येनेन्द्रः समुद्दिष्टः	१६८	अपूर्वास्त्यो ध्रुवो धर्मो	२५०	अभिपिच्य शिशुं राज्ये	४५६
अन्येऽपि लिङ्गिनः सर्वे	४५६	अपूर्वायाः पराभूते	१२८	अभिपेकं जितेन्द्रस्य	४४
अन्येभ्यश्च भविष्यद्भयो	२२१	अपुच्छन् सभवं पूर्वं-	३००	अभृद् यः पुण्डरीकख्यां	४३३
अन्येऽवदन्निमं देशं	२६२	अपुष्टोऽपि जनः साधु	३८३	अभ्यर्णं रावणं श्रुत्वा	२८०
अन्यैरिव महाभूतैः	१४८	अप्येकं प्रतिवाक्यं मे	४०६	अभ्यर्थिता सुहृद्भिः सा	१३४
अन्यैश्च विविधैः शस्त्रै-	२८७	अप्रगल्भतया प्राप्ता	२७६	अभ्यवाञ्छत्यदन्वासं	१५३
अन्यैश्च विविधैरानै-	१०६	अप्रतिष्ठः सुरश्रेष्ठः	४२५	अभ्यायान्तं च तं दृष्ट्वा	१८३
अन्यैस्ते नाशिताः सन्तो	२४	अप्रमेयमृद्गुजानि	१८	अभ्युत्थाय महेन्द्रोऽपि	३३६
अन्योऽन्यं कुशलं पृष्ट्वा	४१२	अप्राप्तः पीडनं स्वस्य	२१८	अमन्दायन्त किरणा	२६
अन्योन्यकरसम्बन्ध-	१६२	अप्राप्य मानुषं जन्म	३१७	अमराणां किलाधीशो	२६
अन्योऽन्यगतिसंबद्ध-	४८०	अप्सरःशतनेत्राली	३७६	अमराणां सहनेण	२२७
अन्योऽन्यप्रेमसम्बन्धं	४०	अप्सरामण्डलान्तस्थो	३२४	अमरेन्द्रः स्वयं योद्धु-	२८६
अन्योन्यसंगमाद् भूत-	१८२	अत्रद्वारयतौ याते	४७४	अमरोदविभानुभ्यः	८४
अन्योऽन्यस्य ततो घातं	७४	अन्विकाञ्चीगुणां नील-	२६०	अमाते च ततस्तस्मिन्	६२
अन्यये भवतामासीद्	१०६	अन्नहण्यकृतारावा	२५६	अमिताङ्गोऽभवद् राजा	४३८
अन्विय कथयामीति	४७४	अन्नहण्यमहो राजन्	२६०	अमी भृगोचराः स्वल्गा-	२३२
अन्विय गीतशब्देन	४७५	अभवच्च ततो युद्धं	१४४	अमीपां जनकादीनां	४२४
अहोऽपि योजनशत-	३२२	अभवत्तनयस्तस्य	३३६	अमीपां प्रथमो माली	१३४
अहो मुहूर्त्तमात्रं यः	३२३	अभविष्यत्तवावासो	३८४	अमी समुत्थिता देवा	२८४
अमकर्यं ततो धात्रीं	१२७	अमापयदिमां बालां	१२६	अमुं कमपि वै देशं	४८५
अमकारे समासक्ताः	४३०	अभिद्यत शरैर्वद्धो	२८८	अमुञ्चच्छयनीयञ्च	४२
अमक्वशालिसंकाशः	४२८	अभिधाः कोटिशस्तेपां	६५	अमुञ्चतां ततः क्रुद्धां	२८५
अमत्रपां विमुच्याशु	३६०	अभिधानं कृतं चास्य	१३४	अमुष्मादपसर्पाशु	६५७
अमयावश्च शालोऽसौ	२७८	अभिधायेति कृत्वा च	३५६	अमोघविजया नाम	२२२
अपरत्रार्थिकासंबो	२१	अभिधायेति तैः सर्वैः	११४	अमृतारो मुनिः श्रेष्ठः	४४१
अपरीक्ष्यशीलानां	४०५	अभिधायेति सा तस्या	३७६	अमृतेन निपिक्तेन	१६
अपरीक्ष्य कथं श्वश्रु-	५३७	अभिधायेति संक्रुञ्च	१५८	अम्व कोऽयमितो याति	१५५

अग्र ते वचनादद्य	२४२	अर्धकृतं शिरोऽन्येन	२६०	अवरस्मिन् विदेहेऽथ	६२
अग्रे इहात्र किं भ्रान्ति	३७४	अर्धचन्दाकृतिर्न्यस्ता	४५	अवलोकन्यरिध्वंसी	१६२
अग्रभोजदधिमध्यादि	३१५	अर्धयामावेशपायां	३६६	अवोचत् स ततस्तस्याः	४०६
अग्रं कोऽपि रणे भाति	१६५	अर्धरात्रे ततस्तस्मि-	३६०	अवश्यमेवमेतेन	२६०
अग्रं च ते महाभाग्यः	३८५	अर्धस्वर्गात्कटश्चापि	६३	अवस्थानं चकारासौ	१८
अग्रं जलगतः शैलो	७६	अर्धस्वर्गात्कटयवर्तौ	१०१	अवस्थितं जगद्व्याप्य	४८७
अग्रं तु व्यक्त एवास्ति	११२	अर्धकस्य सतोऽन्येषा	३६६	अवादीत् सारथिश्चैव	२८६
अग्रं निरपराधः सं-	३०३	अर्हत्पदपरिध्यान-	६३	अवाप मेरुशिखरं	४४
अग्रं पतङ्गत्रिवे च	१४२	अर्हत्सिद्धमुनिभ्यो यो	३२१	अवाप्त प्रापणीयस्य	१७
अग्रं भाति सहस्रांशु	४१	अलङ्कारान् समुत्सृज्य	४६१	अवाप्य दुर्लभं तद्यः	३१५
अग्रमादित्यवंशस्ते	६७	अलङ्कारैः समं त्यक्त्वा	५२	अवाप्य यो मत्तं जैनं	३२६
अग्रं मृतोऽसि मां प्राप्य	२८८	अलंकृतस्ततो देहो	१६४	अवाप्यापि धनं क्लेशा-	२०
अग्रं रत्नपुराधीशो	१२४	अलं वत्स प्रयत्नेन	२६४	अवाप्यास्य फलं नाके-	३२४
अग्रं शक्रो मम भ्राता	२६८	अलकं विजयं ज्ञेयं	४४१	अविलखिडतशीलाया-	४६७
अग्रं शक्रो महानेते	२६१	अलकभ्रमरा एव	३८	अविज्ञातरणस्वादो	४११
अग्रं स कालमेधाख्यः	४०७	अलक्षत सरत्नेन	६५	अविदिततत्त्वस्थितयो-	३५०
अग्रं स नार्यं पुरुषोऽपरोऽग्रं	४२१	अलङ्कारपुरावासे	१३३	अविधाय नराः कार्यं	१३५
अग्रं स प्रखलैः ख्याति	१७८	अलङ्कारपुरेशस्य	१३४	अविधायेप्सितं कस्मा-	३४६
अग्रं स रावणो येन	२६४	अलङ्कारोदयं त्यक्त्वा	१८०	अविभिन्नमुखच्छाया	८५
अग्रमेव च वृत्तान्तो	४७५	अलङ्घनो नभो भानुः	१०१	अवोचत ततः सैवं	३८३
अग्रमेव स हस्तीति	४०७	अलसः कस्यचिद्वाहु	२८८	अज्ञोचद् भगवान् सङ्घो	८७
अग्रि क्रूराशु नीत्वेमां	३७१	अलावृत्रीजसंस्थान-	३२७	अशक्तस्तत्र राजान-	२५६
अग्रि नाथ तवाङ्गानि	३५२	अलीकस्वाहतवामि-	१०८	अशक्ताः स्वभुवं त्यक्तुं	२६६
अग्रि भद्रे कथं यस्मि-	३४२	अल्पकर्मकलङ्कत्वात्	१७	अशक्नुवंस्ततः कर्तुं	२२२
अग्रि मारीच मारीच	३०६	अल्पकालमिदं जन्तोः	३	अशक्यः शत्रुभिर्धर्तुं	२६१
अग्रि मित्र शमं गच्छ	३४६	अल्पैरेव च तेऽहोभिः	३७५	अशरीराः स्वभावस्था	३१३
अग्रोऽध्यानगरे श्रीमान्	१७	अवगम्य जिनेन्द्रास्या	७७	अशुद्धैः कर्तृभिः प्रोक्तं	२५०
अरघट्टघटोयन्त्र-	२१३	अवगम्य परं स्वं च	२०८	अशुभायोमयात्यन्त-	३१३
अरण्यान्यां समुद्रे वा	२४८	अवतीर्णश्च स्वादेशा	३०६	अशेषभयनिर्मुक्तो	४८६
अरमल्लयन्तरे चक्री	४३७	अवतीर्णश्च तत्रासा-	२१६	अशोकपल्लवस्पर्शः	३५०
अरातिं मूर्च्छितं कश्चित्	२६०	अवतीर्थं ततो राज्ञां	४४६	अशोकपादपस्याधो	२२
अरातिभङ्गचिह्नत्वा-	१८६	अवतीर्थं दिवो मूर्धनः	८१	अश्रद्धजिनेन्द्राणां	२७३
अरातेर्यः प्रयुङ्क्तैतौ	२१३	अवतीर्थं नभोभागात्	१७०	अश्रद्धेयमिदं सर्वं	३०
अरिञ्जयपुरे वह्नि-	३०२	अवतीर्थं विमानान्तात्	४१६	अश्रुधारां विमुञ्चन्तीं	३७१
अरिष्टनेमिमन्यूना-	२	अवधायेप्सितं कस्मा-	३४६	अश्वग्रीव इति ख्यात-	४२२
अरुन्धतीव नाथस्य	३८	अवधार्यं त्वया सार्धं	३५६	अश्वत्थः सिंहसेनश्च	४२७
अर्ककीर्तिभुजाधारा	२१२	अवधार्यति भावेन	३३२	अश्वधर्माभवत्तस्मा-	७०
अर्जुनादिमहोत्तुङ्ग-	१७४	अवधार्येदमत्यन्तं	३०२	अश्ववृन्दै- कण्ठेम-	२०५
अर्थो धर्मश्च कामश्च	४५४	अवभज्य हृषीकाणां	१६०	अश्वयां रासमेनास्ति	२५३

अश्विनौ वसवश्चाष्टौ	१४१	अस्मभ्य तव दैत्येश	१७१	अहो पराक्रमः कान्त्या	१६५
अश्विनौ वसवो विश्वे	१४७	अस्मिन्निभुवने कृत्स्ने	५६	अहो पुनश्चित्रगतेन ते-	४२०
अश्वै रथैर्म दैनांगि.	२८६	अस्मिन् यदन्तरे वृत्त	७२	अहो बुद्धिरस्या महागोत्र-	४८७
अश्वैर्मतङ्गजैस्तत्स्थै-	२५६	अस्मिन् वा भवने जैने	१७७	अहो भिनत्ति मर्माणि	१६८
अष्टकर्मविमुक्ताना	८३	अस्मिंश्च भरतक्षेत्र	३४	अहो महद्विद चित्र	३४२
अष्टभिर्दिवसै. स त्वं	६३	अस्य च प्राणभूतोऽय	२६६	अहो महद्वैर्यमिद त्वदीय	४१७
अष्टमी शर्वरोनाथ	१७२	अस्य नामेयचिह्नस्य	७१	अहो महानय मोहः	३११
अष्टमो यश्च विख्यातो	४२४	अस्य नाग्नि गते कर्ण-	१२४	अहो महानय वीरै-	२३२
अष्टादशजिनोद्दिष्ट-	३१६	अस्य बाहुद्वये लक्ष्मी-	१२६	अहो रावणधानुको	२३३
अष्टापदनगारुदो	८१	अस्य वक्षसि विस्तीर्ण	११४	अहो लोकावहासस्य	२६१
अष्टापदे महेन्द्रेण	६	अस्य सानत्कुमारस्य	४३४	अहो शक्तिर्नरस्यास्य	४८६
अष्टौ दुहितरस्तस्य	४३७	अस्याङ्गे यदि ते प्रीति.	१२४	अहो शोभनमारब्ध	२१६
असम्भाव्यमिद भद्र	३६३	अस्थानुपदवीभूता	४६०	अहो सवर्द्धित प्रेम	४१२
असमर्थस्ततो द्रष्टुं	१८६	अस्थाम्बुनाथस्य पुरी-	४७७	अहो समागम. साधु.	२६४
असत्यं नितान्त च	२५०	अस्त्युक्तिकोशल नाम	४७६	अहो हृसीयसी बुद्धि-	१५८
असत्यभीत्या क्षितिगोच-	४७६	अस्त्रैर्नानाविधैः पूर्ण	१६५	अर्हते नम इत्येत-	३२१
असह्य तेजस मख्ये	३२७	अस्त्रेवमिति भाषित्वा	४५२	अर्हद्विभ्रसनाथस्य	६६
असाध्य प्रकृतान्वाणा	२६२	अह तु वेष्टित. पाप-	४५१	अर्हन्मतामृतास्वाद-	१५२
असावपि ततस्तस्या	१२६	अह पुनरसप्राप्य	४०३	[आ]	
असिकुन्तादिभि शस्त्रै-	६६	अहमप्यनया पुत्र	१५५	आ. कुदूतपुरोऽस्माक	१८१
असिब्राण्णगदाप्रास-	२३२	अहमिन्द्र. पर सौख्य	३०१	आकल्पक च सप्राप्ता-	१७५
असिभिन्तोमरै पाणै-	२८२	अहरन्मानस पित्रो-	१३५	आकारस्यास्य जानामि-	२७७
असुराख्येन भोगाना	१४७	अहिसा निर्मल धर्म-	६०	आकाशमिव विस्तीर्ण	७६
असुराणामधीशेन	२७०	अहिसा नृपसद्भावो	६०	आकुलासितमर्षाभ-	२०२
असूत च मुतं कान्त	२१०	अहिसा सत्यमस्तेय	३१८	आक्रन्दमिति कुर्वाणा	३८६
अमो तस्य वरस्त्रीभि-	३६६	अहो कुलाङ्गनायास्ते	३५७	आक्रम्य दशनैर्दन्तान्	३७६
असौ देवाधिपग्राहो	३०६	अहो गीतमहो गीत	३६१	आखण्डलत्वमस्याद्य	२६१
असौ पलायितो भीतो-	१४२	अहो गुणा अहो रूप	२१६	आगच्छता च पुत्रेण	७४
असौ प्राप्नो वृद्धि दशमुग्-	२६६	अहो जना विडम्बन्ते	५०	आगच्छता मया दष्ट	३६१
असौ सवत्सरैर्गल्पै-	३४६	अहो तृणादिता शुष्क-	४०३	आगच्छता मया दष्टा	३६१
अस्त याते महावीर	८२	अहोत्यन्तमिद बाल-	४१७	आगता गोचर का ते	६६
अस्ताचलसमामन्न-	३५६	अत्रे द्युतिरिय जित्वा	१६५	आगत्य च सहेन्द्रेण	४६५
अस्ताचलसमीपस्थ.	२६	अहो धन्योऽयमत्यन्त	४५१	आगत्य च सुरै. सर्वै.	५१
अस्ति गोवर्धनाभिख्यो	४३४	अहो वैर्यमहोदार	२६३	आगमेन तवानेन	२५१
अस्ति मे दुहित योग्या	३४०	अहो निश्चयसम्पन्न	२१६	आगम्यते कुतः स्थाना-	४७२
अस्मत्पित्रोरभूद् वैर	७३	अहो परमधन्या त्व	३४५	आगोपालाङ्गन लोके	३२८
अस्मत्प्रयोजनात्नाथ	१७६	अहो परममजान	३४५	आचार इति पृच्छावो	३७६
अस्मदादिमते धर्मा	२५२	अहो परममाहात्म्य	११६	आचाराणा विघातेन	८१
अस्मद्व्यमनविच्छेद-	१६६	अहो परमिद चित्र	८३	आचार्ये भ्रियमाणे य	११५

आचिता विविधै रत्नै	१०१	आनाथ्य वरुणोऽवाचि-	४१७	आरोप्य सुमुखे राज्य	६५
आच्छिद्यन्त शराचारै-	३६२	आनीयासौ ततः पल्लीं	२७०	आरोहिणः प्रसन्नादि	४७६
आज्ञा दातुमभिप्रायः	१५३	अनीयासौ ततो द्रव्य	७४	आलयं कल्पयाम्यत्र	१३३
आज्ञा च मम शक्रे वा	२६८	आन्त्री च मध्यमोटीच्या	४७६	आलापमिति कुर्वन्त्य-	२६४
आज्ञेय करणीया ते	३६७	आपगानाथता याति	१७४	आलिङ्गतीव सर्वाशाः	१६
आतकीत्यङ्गना तस्य	७४	आपतन्ती ततो दृष्ट्वा	२३१	आलिङ्गनाविमुक्ताया	३६४
आतापनशिलापीठ-	२१६	आपद्भ्यः पाति यस्तस्मा-	३०६	आलिङ्गन्ती मृदुस्पर्श	४७
आतोद्यवरसम्पूर्णा	११५	आपन्मध्योत्सवावस्थाः	३६२	आलिङ्गय मित्रवत्कश्चि-	२८६
आत्मकार्यविरुद्धोऽय	२८०	आपाण्डुरशरीरा च	२४६	आलीने च यथा जात-	२८२
आत्मजाय ततो राज्य	६४	आपातमात्रकेणैव	४१३	आलोकनमथो चक्रे	६८
आत्मनः शक्तियोगेन	३२३	आपातमात्ररम्येयु	८३	आवर्तविवटाम्मोदा	६४
आत्मनिन्दापरो धीरः	४३५	आपूरयन्परित्यक्त	२६३	आवर्तेष्विव निक्षिता	२८३
आत्मानं चातितुङ्गस्य	४६०	आपृच्छन्त ततः कृत्वा	५१	आवयोर्ननु मजापि	१५२
आत्मनो वाहनाना च	३५८	आपृच्छय बान्धवान् सर्वा-	३५७	आवल्गा प्रवराजाता	२०६
आत्मीया तेन मे पत्नी	२७३	आप्तवर्गात्परिजाय	४०२	आवाञ्छता रणं कर्तुं	१६५
अतिध्यानेन सम्पूर्णा	४६१	आभोगिनौ समुत्तुङ्गौ	३४४	आवासता महर्द्दना	२१४
आर्त्विजीन ततोऽवादी-	२५०	आमगर्भेषु दुःखानि	२७२	आवृतं तेन तत्स्थान-	२१
आदाय ता शिला ते	१३०	आमृष्टानि करैरिन्दो-	२७	आशाकरिकराकार-	२१६
आदावरत्नयः सत	४३१	आमोदं परमं विभ्रत्	२६६	आशापाश समुच्छिद्य	४६१
आदित्यनगराभिख्य	३३४	आमोद रावणो जजे	२६७	आशास्तम्बे रमालात-	४७
आदित्यभवनाकार-	३०६	आमोदि कुसुमोद्भासि	८८	आशीविषसमाशेष-	२५८
आदित्यरथसकाश-	२६४	आयातमात्रकेणैव	२००	आशुशुक्ष्णिमाधाय	२४४
आदित्यवद्यभावन्त-	३२७	आयान्त पृष्ठतो दृष्ट्वा	६८	आश्रमश्च समुत्पन्नः	८१
आदित्याभिमुखस्तस्य	२१५	आयुःप्रमाणवोधार्थं	४२८	आश्रिताश्रयतो भिन्नो	४८३
आदित्येऽस्तमनुप्राप्त-	३२४	आयुः' पोडशवर्षाणि	४३१	आश्लिष्टा दयितस्यासौ	३६४
आदित्यो वर्तते मेपे	३६७	आयुर्दीर्घमुदारविभ्रम-	४१०	आश्वासयन्निज सैन्य	२८६
आदौ कृत्वा जिनेन्द्रान्	४४२	आयुधग्रहणादन्ये	३११	आसस्तोयदवाहाद्या	१६५
आद्य' प्रजापतिर्ज्यो	४४०	आयुर्विराममासाद्य	३८२	आसता चेतनास्ताव-	२६५
आद्यन्तरिपुमुक्ताय	२२०	आयुष्मन्नस्य शौर्यस्य	२६८	आसता तावदेते वा	८६
आद्यसंभाषणात्सापि	३६६	आयुष्मन्निदमस्त्येव	२३४	आसता मानुपास्ताव-	२२२
आद्या मृगावती ज्ञेया	४४०	आर्यपुत्रर्तुमत्यस्मि-	३६८	आसन शयनं पान-	४७
आन्ये तद्विषया चिन्ता	३४१	आर्या म्लेच्छाश्च तत्रापि	३०८	आसनाभिमुखे तत्र	१६
आर्द्रं शुष्कं तदुन्मुक्त	६८१	आरण्यश्च समाख्यात-	४२५	आसन्नस्थहनूमत्कः	४१३
आधिपत्य समस्ताना	१११	आरसातलमूला तां	८५	आसन् सुनयनानन्दे	७१
आनच्छालोकनगरे	२४८	आरादेव निवृत्त्याख्य-	२३६	आसीत् किं तस्य माहात्म्यं	१८८
आनन्दः परमा वृद्धि	१७	आरूढ' परमेकान्ते	२६५	आसीत्ततो विनीताया	४६६
आनन्द भव्यलोकस्य	२१४	आरूढस्तुरुशाखाया	१६३	आसीत्तत्र पुरे राजा	१४
आनन्दवचनादेव	१०२	आरूढा नवतारुख्य	१६८	आसीत्तत्रोभयो श्रेष्ठोः	१२२
आनन्दितश्च तद्वाक्यै-	१६५	आरेभे च समुद्धर्त्तुं	२१७	आसीद् गर्भस्थिते यस्मिन्	४४५

आमीडष्टोत्तर तस्य	६४	इति चित्रपटाकार-	४४६	इति सतक्ष्यमाणं नं	४५६
आमीडिन्दुरसन्तासा-	४८	इति चिन्तयतस्तस्य	३५६	इति सदृश्यं गर्वण	२७५
आसीनस्य ततो जोष	३००	इति चिन्तयतस्तस्य	४५१	इति सभापमाणोऽसौ	१४२
आसीना चासने रम्ये	२७१	इति चिन्ताप्रमोदेन	४२	इति सभापमाणोऽपि	४०८
आमीना चाञ्जलि कृत्वा	१५१	इति चोवाच त ह्यत्रै-	१६५	इति साश्रुवदन्तीं ता	३६२
आसेचनक्रीडया ता	३४४	इति ज्ञात्वा परीत्य त्रि-	३६६	इति स्तुति प्रभज्यासौ	२१
आजाययदनुभ्यात-	१६	इति तस्य प्रबुद्धस्य	५१	इति स्तुत्वामुनिं भूय.	२२०
आस्ता तत फलेन	१३६	इति ता शीलसम्पन्न	४६७	इति स्तुत्वा विधानेन	६६
आस्ता तावत्प्रिया सत्य-	४०८	इति तो गङ्गाक्षरार्प	७७	इति स्पाटे समुद्भूते	२७
आस्ता तावद्विद गजन्	३३४	इति देवयते. श्रुत्वा	२६२	इति स्वपक्ष्मैःस्थित्य	२१
आम्ना तावद्विद न्वल्प	२२२	इति व्यात्वा समाश्वाम्य	२८४	इतीक्ष्वाकुकुलोद्भूताः	४६६
आस्थानमण्डपेऽधार्मा	३१	इति यात्वा स्थित पार्श्व	३४२	इतोऽस्त्युत्तरकाष्ठया	६७८
आम्यताभिर् वा कृत्वा	२६८	इति निश्चित्य जन्तुभ्यो	४७५	इतो वरमुनिर्दृष्टो	४६०
आम्य दजेऽवतीर्णस्य	२४४	इति निश्चित्य मनसा	१०७	इत्य निजभवान् श्रुत्वा	३८५
आम्पालनमहाशब्द-	१६२	इति निश्चित्य सग्राम-	३५५	इत्य वसन्तमाला च	३८८
आहन भङ्गित विद	६८३	इति निष्क्रमणं तेन	५१	इत्यभिः यायतस्तस्य	२२५
आहतश्च सम सर्वा	१७५	इति प्रबुद्धोऽप्रतमानसा-	३३३	इत्यवगम्य जनां सुविशुद्ध	३०५
आहन्य भित्तिमालेन	२८५	इति प्रसाग्रमानोऽपि	१२१	इत्यवगम्य दुःखकुशला-	४००
आहारोऽस्य शुचि. म्वाटु	१७८	इति प्रियवचो वारि	२६८	इत्यादिदेवदेवेन	६०
आहत्या रमण मत्व	३०३	इति प्रोक्तमात्रे जगो भूमि-	४८७	इत्याद्या ब्रह्म. शशा	६८
आहताविष्ट केनेतो	१२७	इति ब्रुवत एवाम्य	२८१	इत्याशीभिः समानस्य	१६३
आहय चाभियातस्य	१२६	इति वाचास्य जातोऽसा	३६७	इत्युक्तं पुरुषायुक्त-	२७०
आहय मुहुर सर्वा	३३५	इति वाचिन्तयन् क्रोधा-	११६	इत्युक्तं सचिवः प्राह	१०१
[६]		इति विचिन्त्य न युक्तमुपा-	२०६	इत्युक्तं समरोत्साहा-	२६४
इच्छासो यथा चने	१११	इति विजाप्य मानोऽपि	१२१	इत्युक्तं स महासत्व	४२४
इच्छाकुम्भृतीना च	५	इति विजापितो दूत्या	१००	इत्युक्तं सुकृतजोऽसौ	४०४
इच्छाकु' प्रथमन्नेपा	६७	इति विजाय कर्त्तव्य-	२७५	इत्युक्तं वितथ पूर्व-	१६०
इच्छाकृणा कुले रम्ये	४४८	इति विदितयथावद	६२३	इत्युक्तमात्रे बुधवन्धु-	४५५
इन्द्रितज्ञानकुशला.	३१६	इति शुद्धा विरुद्धाश्च	६१६	इत्युक्तस्तेन दुःखेन	४०३
इन्द्रानुत्पमामाय	३८२	इति श्रीकण्ठमाहेद	१००	इत्युक्ता तनये न्यस्य	२३६
इतः सिन्दुर्गर्भोऽय-	१६१	इति श्रुत्वा ततो वप्रा	१८८	इत्युक्ता प्राहतं देवी	१६८
इतगम्यापि नो युक्त	३४६	इति श्रुत्वाऽथ खे शब्द	२३२	इत्युक्ताभ्या ततस्ताभ्या	३८५
इतगविय तो कौचिद	६७५	इति श्रुत्वा विलाप सा	४०५	इत्युक्ताभ्या परिपृष्ट-	११६
इतरेऽपि यथा मक्ष	७६	इति श्रुत्वा मुगधीशः	३०३	इत्युक्ता सा ततस्तेन	१३६
इतरचेतश्च विद्याया	२१०	इति सञ्चिन्तयन्ती सा	३४८	इत्युक्ता सानुरोवेन	३७८
इति च आतमेतेन	३६०	इति सञ्चिन्त्य जग्राह	१८६	इत्युक्तं सा परं हर्ष-	४२
इति चान्चिन्तयत्प्र	३५६	इति सचिन्त्य मूर्धान	२७२	इत्युक्ता सा परिचस्ता	३८४
इति चान्चिन्तयत्प्र	१६०	इति सचिन्त्य विन्यस्य	४६६	इत्युक्ता सा सती पत्या	४६०
इति चान्चिन्तयत्प्र	१७१	इति संजनिताशङ्क	३८७	इत्युक्ता तेन ताः माक	४६

इत्युक्तास्ते यदा तस्थुः	१५६	इत्युक्त्वा विजने काश्चिद्	२४५	इन्धनत्वं गत तस्य	२६२
इत्युक्ते कल्पिताभोग-	१३६	इत्युक्त्वा विरति याते	३३६	इभवाहननामासी-	४५०
इत्युक्ते तत्र निक्षिप्य	४७४	इत्युक्त्वा वीक्षमाणोऽसौ	२६७	इमं प्रमादनोदार्थं	३६८
इत्युक्ते देवदेवेभ्यो	४७३	इत्युक्त्वा सुहृदः खड्ग	२७२	इम ये नियम प्राजाः	३२६
इत्युक्ते नारदोऽवोच-	२५०	इत्युक्त्वासौ सम सख्या	३७५	इमा च मोहिनी दृष्ट्वा	३८३
इत्युक्ते निश्चितो बुद्ध्या	२७०	इत्युक्त्वा स्थापित तेन	३६४	इमाभिर्जातिभिर्युक्त-	४७६
इत्युक्ते पार्श्वर्गं नाम्ना	३६६	इत्युक्त्वाहूय सुग्रीव-	२१३	इमे मनोरथा नाय	१३६
इत्युक्ते पूर्वजन्मानि	३०४	इत्युपाशुकृतालाप-	३४६	इयता चापि कालेन	८३
इत्युक्ते प्रस्थितौ गन्तुं	३४४	इद तत्र पर चित्र	३३१	इयन्त धारिताः काल	४०६
इत्युक्ते भगवानाह	६३	इद ताः पुनरुचुस्त	१७७	इयन्तं समय तात	१३५
इत्युक्ते मन्त्रिभिः सान्त्वं	११०	इद ते कथित जन्म	४०१	इयाय पाण्डुता छाया	३७०
इत्युक्ते लोकपालाना	२६७	इद प्रोवाच भगवान्	७३	इष्टान् ब्रध्नून् सुतान् ढारान्	३४७
इत्युक्ते विमुख ज्ञात्वा	२११	इदानीं भोजयाम्येतान्	६४	इष्टा यशस्विनः केचित्	३०६
इत्युक्ते विस्मयोपेतौ	११५	इन्दीवरचयश्यामः	२६६	इष्टो यथात्मनो देहः	३१६
इत्युक्तैः शतशस्तस्य	१०४	इन्दीवरारविन्दाना	१७२	इह जम्बूमति द्वीपे	३८०
इत्युक्तो गणभृत्सौम्यः	४२८	इन्दीवरावली छाया	३४४	इहैव मानुषे लोके	३१७
इत्युक्तो मन्त्रिभिः सार्धं	१६८	इन्द्रः स्वर्गः सुराश्चान्ये	१४७		
इत्युक्तो राज्ञसेशाभ्या	७६	इन्द्र इन्द्र प्रभो मेघो	६५	[ई]	
इत्युक्तोऽसौ जगादैव	१६६	इन्द्रजितकुम्भकर्णाब्द-	८	ईदृक्पराक्रमाधारः	२०७
इत्युक्त्वा क्रूरनामान	३७१	इन्द्रजिन्मेघवाहश्च	२२७	ईक्षमाणो मही मुक्त	३२२
इत्युक्त्वाकाशतः खड्ग	१८१	इन्द्रजिन्मेघवाहाय	३३६	ईक्ष्णुश्चक्रे परान् स्वप्नान्	१५१
इत्युक्त्वा च ब्रह्मन्धासौ	१८८	इन्द्रत्व देवसङ्घाना	३२६	ईक्षितः पूर्वमप्येष	१६७
इत्युक्त्वा जनकादेश	२८०	इन्द्रध्वंसनमाधाय	२२७	ईदृशी च तयोः प्रीति-	२७२
इत्युक्त्वा ते व्यरसिष्टा	३७६	इन्द्रनीलप्रभाजाल-	१८६	ईदृशो पतितारण्ये	३६३
इत्युक्त्वा ते सुसनद्धा-	४८५	इन्द्रनीलप्रभाजालै-	१०२	ईदृशो याचितेऽत्यन्त	२७७
इत्युक्त्वा देवदेवस्य	३६२	इन्द्रनीलोशुसघात-	४५३	ईर्यावाक्यैष्रणादान-	३१४
इत्युक्त्वा धारयन्मान-	१५७	इन्द्रनुताना स्वयमपि रम्या-	४७१	ईर्ष्यान्मथदग्धस्य	२४७
इत्युक्त्वा निर्गतो गोहाद्	२१३	इन्द्रभूतिमिहोद्देशे	२७०	ईशावत्या नरेन्द्रस्य	४३६
इत्युक्त्वा नु गतो दूरं	२६६	इन्द्रमन्दिरसकाश	१४०	ईश्वरत्व ततः प्राप्ता	१६२
इत्युक्त्वा नुमतालापः	१३३	इन्द्रस्ततोऽवदत्	१४३	ईश्वरत्व दरिद्राणा-	१४८
इत्युक्त्वा पत्यरागेण	३४६	इन्द्रस्य पुरुषैरस्य	२१		
इत्युक्त्वा परिसृष्टा सा	२७८	इन्द्राज्ञा परितुष्टाभि-	३६	[उ]	
इत्युक्त्वा पुनरुचे सा	३८५	इन्द्राणामपि सामर्थ्य-	२१६	उक्तः स तैरहो रूप	४३५
इत्युक्त्वा ब्रान्धवान् सर्वा-	४५४	इन्द्राणीप्रमुखा देव्यः	४४	उक्त च कन्यया नून-	१७०
इत्युक्त्वा मोचितास्तेन	४१७	इन्द्राश्रयात् खगौ राजा	१४१	उक्त च नागपतिना	२२२
इत्युक्त्वा रथमारुह्य	४८५	इन्द्रियाणा जये शक्तो	२२३	उक्तश्च मुनिचन्द्रेण	२२४
इत्युक्त्वा वन्दितस्तेन	३०४	इन्द्रेण सह संग्रामे	२६६	उक्तमेव ततस्तेन	१६२
इत्युक्त्वा वलय दत्त्वा	३६८	इन्द्रोऽपि गजमारूढः	२६२	उक्तमन्यैरिदं तत्र	६४
इत्युक्त्वा वस्तु यद्वृत्त	३६५	इन्द्रोऽपि न पुरे प्रीतिं	२६६	उक्तो वर्षसहस्राणा	४२६
				उग्र कृत्वा तपस्तस्मिन्	७४

उग्रनक्रुलाकान्ता	२२८	उत्पत्स्यन्ते त्रय पुत्रा	१५२	उन्नयन्ती रजो दूर	३५६
उचिते चासने तस्मि-	२६६	उत्पाता. शशुगेहेषु	१४०	उन्मजन्ति चलद्भङ्गाः	४६४
उच्चक्रेमरकोटीना	२७	उत्पाता जज्ञिरेऽराति-	४६०	उन्मत्तत्वमुपेताना-	१६१
उच्चावचगिलाजाल-	४५०	उत्सङ्गलालिता बाल्ये	३७५	उन्मील्य स ततो ने-	१३०
उच्छलत्करभारोऽस्य	१२५	उत्सर्पिणी च तावन्त्य-	४२६	उदात्तमिति चावोचद्	१८४
उच्छ्रितेनातपत्रेण	१८७	उत्सर्पिणीसहस्राणि	३१७	उपकण्ठं च कण्ठस्य	२७२
उच्चैरुच्चैर्गुणस्थान-	२१४	उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यो-	८०	उपकण्ठ मुनेश्चैत्य-	२२०
उन्नयमानेति सा तेन	२७६	उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः सह-	३२६	उपकारसमाकृष्ट-	२७३
उज्जगाम च शीताशु	२७	उत्सवादिप्रवृत्तीना	४३१	उपकारे प्रवृत्तोऽय-	२६
उत्कृत्तश्रवणाविग्र	३२७	उत्सार्य यो भीषणमन्ध-	४५५	उपचारेण वेश्याया	७४
उत्तमप्रतप्तमक्ता	३३०	उत्सृष्टचामरच्छत्र-	१७	उपचित्या मृदादीना	४८०
उत्तरन्ती प्रयामेन	३७७	उत्तित्प्य पर्वतान् केचित्	११४	उपद्रवार्यमेतेषा	१५६
उत्तरीय च विन्यन्त-	४५	उदपादि पृथुन्तस्माद्	४६६	उपनीताश्च तत्रैव	२४६
उत्तरेण तथा पट्टि-	५१	उदपाद्यनुजा तेषा	३३५	उपमानविनिर्मुक्त	८२
उत्तमाङ्ग ततो धृत्वा	३३७	उदन्वदम्भसो विन्दु-	३४५	उपमामुक्तरूपस्य	७७
उत्तमान्ने च विन्यस्य	२२८	उदयाचलमूर्द्धस्थ	४०	उपयग्य पुरीं यातो	२१४
उत्तमोत्तमता तेषा	३८३	उदग्रस्थकिशोराणा	१२	उपरम्भा ततोऽवाटी-	२७६
उत्तान कश्यपन् भूमि	१५४	उदात्त नदित केशिचद्	१६३	उपरम्भा दशास्येन	२७६
उत्तार्य क्रेम्या चाशु	४८५	उदार भानुवत्तेजो	१८७	उपरिन्यस्तरत्नाशु	४१२
उत्तिष्ठत रह याम.	१५८	उदारगोपुराट्टाल-	५४	उपर्यय समारुह्य	५४
उत्तिष्ठन् निजान् देशान्	५३	उदारश्च तिरस्कार.	३२०	उपर्युपरि ते गत्वा	६६
उत्तिष्ठताशु गच्छामो	६४	उदारो विभजो यस्ते	२७७	उपर्युपरि यातैश्च	२२४
उत्तिष्ठतो मुग्य भट्टकु-	२८०	उदाहृतो मया यस्ते	२४५	उपर्युपरि सवृद्ध	३७६
उत्तिष्ठ भो यमो म्यगं	२५७	उदायाय च तिग्माशुः	३४७	उपलभ्य समानीता	४३७
उत्तिष्ठ भिन्न गच्छाव-	३६७	उदीची प्रस्थित. काष्ठा	२३८	उपवास चतुर्दश्या-	३३०
उत्तिष्ठ शग्ण गच्छ	१७७	उद्गूर्णश्चायमेतेन	१८१	उपवामोऽवमौट्यं	३१४
उत्तिष्ठ म्यपुर यामो	३४८	उद्गाढकघटीसिक्तै-	१०	उपविष्टस्ततो नाभि-	४६
उत्तिष्ठान्ने नखे तिष्ठ	३४४	उद्धतेषु सता तेन	१६	उपविष्टौ च विश्रब्धौ	३४०
उत्थाय च नृमिहोऽमा	५८	उद्धतुं धरिणा शक्ता	८६	उपशल्य स विज्ञाय	२७४
उत्थाय गन्तमान्मस्ते	२८३	उद्भूतो वज्रद् घोऽत-	६८	उपशान्ताशया यास्तु	३२७
उत्थितो युध्यमानेऽस्मि-	२००	उद्यत्प्रलयतीव्राशु	३८७	उपशान्तिं गते केचित्	३२६
उत्पतट्टि पतट्टिश्च	४३	उद्यत्कर्कशरालीढ-	१	उपशान्तेरशुद्धस्य	३२६
उत्पत्तान्तौ तु ता दृष्ट्वा	४६४	उद्यम्य क्षिप्रमात्मनीयैः	२००	उपसर्गजयन्तस्य	५
उत्पत्तात्रेव रोगस्य	२८०	उद्यानाना महाधसो	१४३	उपसर्गस्य विध्वसा	३६१
उत्पत्ति भगवन्नस्य	२३८	उद्बहन्तीं स्तनौ तुङ्गो	२६०	उपाध्यायि नियच्छाजा	२४१
उत्पत्ति लोकपालाना	१४६	उद्बृत्तक्रुट्टुकाचारै-	२६१	उपाध्यायीति चोदार-	२४१
उत्पत्तिममये यस्य	४६	उन्नत चररोनास्य	१२६	उपाय केचिदजात्वा	३२६
उत्पत्य त्वग्निता व्योग्नि	३८८	उन्नत नरुतुं केचिद्	१६३	उपायमत्र क कुमो	३५३
उत्पन्ना मन्ववत्यन्ने	१५०	उन्नमय ततो वत्सः	३५६	उपायमेतमुज्झित्वा	३२५

उपायेभ्यो हि सर्वेभ्यो	४०८	ऊर्ध्वाधां मन्यलोकेषु	३१७	एकेऽवोचन् गृहे वासो	२६३
उपायो गमनस्याय	३६८	ऊष्माभावेन या चन्द्र-	३८	एकोदरोपिता भ्रात-	३७५
उपाशु नारदेनाथ	४७३	[ऋ]		एकोऽपि नास्ति गेपा तु	३३१
उपाहर गज शीघ्रं	२८२	ऋतवोऽन्येऽपि चेतःस्थ-	५५	एकोऽपि भारतीनाथ	३६७
उरः कण्ठः शिरश्चेति	४७६	ऋत्विक् पराजयोद्धृत-	२५८	एको भवत्यनेकश्च	१७५
उरसा प्रेरयन् काश्चित्	८८	ऋपमस्य तु सञ्जात	२६१	एतं बन्धुजनं रक्ष	६६
उरुदण्डद्वयं दब्रे	४७	ऋपमस्य विभोर्दिव्य	२६०	एतज्जात्वा विचित्रं कलि-	४१३
उर्वराया वरीयोभिः	१०	ऋपमस्य शत पुत्रा-	६१	एतत्कुलक्रमायातो	३६५
उर्वशीमेनकामञ्चु	१४१	ऋपमस्य समुत्पत्ति-	५	एतत्तैः कृतमुत्तम	६
उल्काकारैस्ततस्तेन	१८५	ऋपमस्याभवत् पुत्रो	६७	एतत्सर्वं समाधाय	६
उल्लिख्यमानकंसोत्थ-	४२	ऋपभाय नमो नित्य-	२२१	एतत्सुनगर कस्य	२४६
उवाच च गणाधीशः	२३८	ऋपभेण यशोवत्या	४३३	एतदर्थं न वाञ्छन्ति	१८५
उवाच च न मा नृन	१७७	ऋपभोऽजितनाथश्च	४२४	एतदाग्व्यानकं श्रुत्वा	१०८
उवाच च प्रयच्छाजा	४८५	ऋपभो नाम विख्यातो	२६०	एतदानन्दर्थेश्चारु	३०
उवाच च विधातव्य	२८०	ऋपभो वृषभः पुंसा	८२	एतदाभ्यन्तरं षोढा	३१४
उवाच च मुते पश्य	१२६	ऋपिष्टृद्गादिकाना च	२५३	एतन्मधोरुपाख्यान-	२७३
उवाच भगवानेव	६६	[ए]		एतस्मात् कारणात् सर्व	४६०
उवाच वज्रबाहुस्त	४५२	एक चाब्द सहजाणा	४३३	एतस्मादेव चोदन्ताद्	२४०
उवाच सा गतः क्वासौ	४०५	एकं यो वेद तेन म्या-	२५१	एतस्मिन्नन्तरे दृतो	२५८
उवाच सारथि वीरः	२६१	एक सङ्कोच्य चरण-	१४१	एतान् समर्गजान् ढोपा-	२४८
उवाचासावयं वेत्ति	२४६	एकः मुमित्रनामामी-	२७०	एताभ्या चोदितः क्षुब्धो	१६६
उवाच स्वस्तिमत्येव	२११	एकग्रामत्वमानेतु	३१४	एतावत्तु ब्रवीम्येतौ	१६८
उवाचेति दशास्यश्च	२३६	एकचूडो द्विचूडश्च	७०	एताश्च कक्रुभस्तेपा	३०६
उवाचेति मरुत्वञ्च	२४६	एकत्र भावनस्त्रीणा-	२१	एते चान्यापदेशेन	८७
उवाचेति महेन्द्रोऽथ	३४०	एकत्वमथ समारो	३२३	एते चान्ये च बहवः	२२७
उवाचेद तथा द्रुतो	१८०	एकटा तु पुरस्यास्य	१६	एतेन चानुमानेन	१५१
उवाह विधिना माली	१३७	एकदोत्याय वलिवत	१३३	एते पितृसमाः प्रान्ताः	३७
[ऊ]		एकद्वित्रिचतुःपञ्च	३०८	एतेभ्यः प्रच्युताः सन्तः	४४०
ऊचुः केचिद्वरं भद्रा	२६२	एकभक्तेन ते कालं	३३०	एते विपरिवर्तन्ते	५१
ऊचतुर्वत्स सत्यज्य	४०८	एकया दशया कस्य	२२२	एते पट्खण्डभूनाथाः	४३८
ऊचुरन्येऽयमद्यापि	३४६	एकविंशतिवागन् ये	२६१	एतेपा प्रथमा जाया	१३७
ऊचुस्तामामिद काश्चित्	१५८	एकम्वत्सदृशोऽतीत-	८२	एतेपापि भेदाना	४८०
ऊचे ता विनयं विभ्रत्	३६४	एकाकिन्या कथं चास्मिन्	१७०	एते सुरामुराधीशौ	४२८
ऊचे प्रदसित चैव	४०१	एकाकी पृथुकः मिहः	१७७	एते हि तृणया मुक्ता	६४
ऊचे प्रहसितावश्य-	३४६	एकानास्फालयन् क्षोणी	२४५	एतैश्च प्रस्रियतः साक	२२६
ऊचे प्रहसितोऽथैवं	३६१	एकानेकमुखैः प्रान्त-	१६४	एनं प्राण्य महासत्त्व	४१२
ऊरुन्तम्भद्वय तस्य	१४०	एकानि यस्येह भवेद्विरूपा	४२२	एभिर्दोषैर्विनिमुक्तं	४८३
ऊर्ध्वं ततो दशास्यस्य	१८५	एकीभ्य ब्रजन्तोऽमी	१६३	एरण्डसदृश जाल्या	३१८
ऊर्ध्वग्रैवेयको जेयो	४२५			एवं करोमि साधून्तं	३६७

एवं ततो गदन्तं तम-	२५८	एवं श्रुत्वा महाक्रोध-	१७६	एवमुक्ते जगादासौ	६६
एवं तत्र महातोद्ये	४४	एवं संक्षेपतः प्रोक्तः	११२	एवमुक्ते तयात्यन्तं	४८५
एवं तत्रापि वैचित्र्यं	३०६	एवं संचोद्यमानोऽपि	१२१	एवमुक्तेन शक्रस्य	२६१
एवं तयोः समालापे	३६४	एवं सम्बोधितो वाक्यैः	२४८	एवमुक्ते परं तोषं	४८६
एवं तस्याप्यभूत् पुत्र-	८५	एवं समस्तस्त्रगैरभि-	४२२	एवमुक्तो गणेशः स	३२
एवं तावदिदं वृत्तं	२२४	एवं सर्वमपि प्राप्य	२४	एवमुक्तो जगादोऽसौ देवि	३६८
एवं तावदिदं वृत्तं श्रुत्वा	४०५	एवं साधौ तनोगारे	३६	एवमुक्तो जगादासौ	४८५
एवं तावद्वयं गर्भः	३८२	एवमन्विष्य नो शो-	१३२	एवमुक्तोऽथ गन्धर्वो	३८८
एवं तेष्वन्यतीनेषु	६६	एवमथ ददत्स्यत्या	१६८	एवमुक्त्वा जिनेन्द्राणां	१५३
एवं दानस्य सदृशो	३६	एवमस्तु प्रिया यूयं	१७७	एवमुक्त्वा ददावस्मै	७८
एवं द्विगलु संसारं	५०	एवमस्त्विति चोक्तेऽसा-	१४५	एवमुक्त्वावतार्येतां	३७१
एवं नानाविधाल्पस्मिन्	१०४	एवनादिक्रियाजाल-	४४६	एवमुक्तस्ततश्चान्याः	१५८
एवं निगदितं श्रुत्वा	१३५	एवमादि च ब्रह्मेव	२५५	एवमेकत्र पुरुषे	२४४
एवं निर्वाच्यमाना सा	३७४	एवनादिसनालापाः	२८८	एवमेकातपत्रायां	६२
एवं निश्चलनचमार्गं	४५१	एवमादिसमालापाः सत्व-	२८२	एवमेतद्यथा वह्नि	२६८
एवं पूर्वभर्तृजितेन पुत्रपाः	१६६	एवमाद्याः कलाश्चार	४८४	एवमेतस्य जातस्य	३६७
एवं पृष्टा सती बाला	१७०	एवमाद्या गतास्तोषं	१७१	एवमप्रकारमत्यन्त-	२४४
एवं पृष्टो गणेशोऽसा-	६३	एवनाद्या महाविद्याः	१६२	एष कल्याणि ते नाथ	४०७
एवं पृष्टो जिनो वाक्य-	८०	एवमाद्यैः खगार्थाशै-	२२६	एष भावं न वेत्तात्या	३५०
एवं प्रतिदिनं यस्य	३२२	एवमित्युदिते कृत्वा	४३५	एष ते सोमवंशोऽपि	६८
एवं प्रोक्ते गणेशेन	३५	एवमुक्तः प्रजाभिः स	४६	एष रक्षसवंशस्य	६५
एवं भवान्तरङ्गतेन तयो-	६६	एवमुक्तः स चाहूय	१४७	एषां तावदियं वार्ता	३१२
एवं महति संग्रामे	२६०	एवमुक्तस्ततोऽबोच-	३४३	एषा ते कथिता साकं	४०६
एवं महति सन्ताने	६४	एवं कर्मवशां श्रुत्वा	८३	एषा नमामि ते पादा-	२७६
एवं महति सम्प्राप्ते	४६२	एवं कुटुम्ब एकस्मिन्	८६	एषामि गृहवाप्यन्ते	४२
एवं यद्यत्प्रकुर्वन्ति	२४	एवं कृतस्तवोऽथासौ	१५६	एषा भक्तु र्नुप्या	७४
एवं त्वाधनलाभेन	५६	एवं क्रोधानलस्य	१८१	एषैव हि परा क्राष्टा	३१६
एवं वदन्नसौ पृष्टो	३२३	एवं क्रमात् प्रयातेषु	४४७	एहीदानीं पुरं यामो	३६७
एवं वानरकेतूनां	१११	एवं गतेऽपि सन्धानं	२८१		
एवं विदितमत्वा सा	२४८	एवं गदित्वा तनुजां विनीतां	४१८		
एवंविधं क्लिप्त ग्रन्थं	२६	एवं गुणाः समस्तस्य	३१६		
एवंविधशुभोत्पत्तै-	३३	एवं च रममार्याऽसौ	१७४		
एवंविधमलं दीनं	२६०	एवं चिन्तयतस्तस्य कन्या	३४७		
एवंविधस्य ते कर्तुं	२१६	एवं चिन्तयतस्तस्य	३०		
एवंविधस्य ते युक्तं	१८०	एवं जनकसम्भूतिः	४४८		
एवंविधाः कथं देवा	३१२	एवं ज्ञात्वा पुनर्वरं	१२०		
एवंविधेऽपि सम्प्राप्ते	३८८	एवमुक्ता जगादासौ	२७६		
एवंविधेषु जीवानां	११६	एवमुक्ता ज्ञानावोचत्	३६२		
एवंविधैरुपायैस्ते	१५६	एवमुक्ता विधायाङ्गे	३६७		
एवं वैद्याधरोऽयं ते	७१	एवमुक्तास्ततो जग्मु-	१४३		

[ऐ]

ऐरुद्विस्तयोः पुत्रो	४६२
ऐरावतं समावह्य	१४३
ऐरावतसमारुह-	१४६
ऐरावतो गजो यस्य	२६
ऐश्वर्यं तनये क्षित्वा	१०७
ऐश्वर्यपञ्जरान्तस्थो	२३६

[औ]

औपधत्रासदूरस्थ-	२१५
-----------------	-----

[क]

कक्षाविद्युत् कृतोद्योतै-	१५५	कन्या ता रूपतः खयाता	४५०	कर्मणानुगृहीतोऽसौ	२४०
कङ्कगृद्धर्गोमायु-	४६३	कन्या दृष्टिहराः प्रापुः-	२६७	कर्मणामिति विजाय	३०३
कञ्चिदुल्काभिघातेन	४१५	कन्याना यौवनारम्भे	१६८	कर्मणाष्टप्रकारेण	३०७
कञ्चिल्लाङ्गूलपाशेन	४१४	कन्या नाम प्रभो देया	२०६	कर्मभूमिमिमा प्राप्य	४६६
कण्ठकेन कृतत्राणः	१६१	कन्यानिवहमध्यस्थः	१७६	कर्माष्टकविनिर्मुक्तो	२२३
कति वा रत्नचक्राङ्क-	८०	कन्याऽशोकलता नाम	१७५	कलत्रनिविडाशिलष्ट-	२२६
कति वा समतिक्रान्ता	८०	कन्येय दीयता तस्मै-	३३७	कलत्रस्य पृथोर्लक्ष्मी	१४
कथं कुर्यात्तव स्तोत्र	२१	कपियातुधनैर्व्याप्त-	१४४	कलशब्दा महारत्न-	३४५
कथं चात्यन्तगुरुभिः	३२	कपोतपाल्युपान्तेषु	१०५	कलाकलापसयुक्तं	२०७
कथं चेतोविशुद्धिः स्यात्	२४	कपोलावेव सतत	३८	कलागुणाभिरूपं च	४४८
कथं जिनेन्द्रधर्मेण	२८	कमलायुधमुख्याश्च	२०	कलाना ग्रहणे चन्द्रो	१४
कथं स्फुटति वो वत्सः	८६	कम्बुकण्ठा रदच्छाया	३१६	कलाना तितृणामासा	४७६
कथञ्चिच्च हतेऽप्यस्मिन्	२०६	कम्बुग्रीवं हरिस्कन्ध	२६३	कलाविशारदा नेत्र-	२२७
कथञ्चित्सचरश्चासा-	२४६	कम्बुरेखा नतग्रीवा	१७२	कल्पद्रुमगृहाकार-	४१
कथमस्मद्विधैस्तस्य	१५	कर करेण कश्चिच्च	१२८	कल्पानां कोटिभित्ति	६२
कथाकल्पितधर्माख्य-	११६	करटच्युतदानाम्बु-	४०	कल्पपादपरम्यस्य	२२
कथायामिति जाताया	८६	करणैर्विधैर्या तु	४८३	कल्पाप्रासादसङ्काश	४३६
कथा विद्युत्प्रभस्यास्मि-	३४५	करयुगमान्तिकं कृत्वा	४६०	कल्पवासिन एकस्मिन्	२१
कथित च गणेशेन	३५	करसङ्गारुणीभूत-	३४१	कल्पवृक्षसमुत्पन्नं	३५
कदम्बस्यूलमुकुलः	४५१	कराङ्गुष्ठे ततो न्यस्त-	४७	कल्पिताश्च त्रयो वर्णाः	८१
कदलीगर्भनिःसार	८७	कराघातदलकुम्भ-	२६०	कल्याणप्रकृतित्वेन	१४
कटाचिदथ तत्रासौ	१०६	करिकण्डूयन रेजे	३३८	कल्याणमस्तु ते राजन्	२६०
कदाचिदिह जायते	३६८	करिणीभिरथावृत्य	४०७	कल्याणमित्रता यातः	१८६
कदा नु तामह कान्तां	३४२	करेण वेष्टितु याव-	१६८	कल्याणि कुशल सर्वं	३८०
कदा नु भ्रातरावेतौ	१५६	करोमि प्रातरुत्थाय	३३३	कल्याणि माभङ्गीरेवं	३६२
कदा नु वदनं तस्याः	१२५	करोमि मन्दभाग्या कि	३६३	कश्चिच्चकार पन्थान-	२८६
कनकप्रभया सार्धं	२६२	करैः शीतकरस्यापि	३५१	कश्चिच्च्युतायुध हृष्टा	२८६
कनकाम इति खयातो	४३६	करौ तस्यारुणच्छायौ	४८	किश्चित्कमन्धता प्राप्तः	२०६
कनकाभपुरेशस्य	१३७	कर्णातालसमासक्त-	१६	कश्चित्करेण सरुध्य	२८६
कनकाभासमुत्पन्न-	४६८	कर्णान्तसङ्गते कान्ति-	३३५	कश्चित्कीलालमादाय	२८६
कनकेन ततो भित्त्वा	२८५	कर्णान् विदूषकासक्त-	१०५	कश्चित्कुन्तलभालस्था	१२३
कनकोदर्यपि श्रेयः	३६४	कर्णयोर्नालिकालोका	१७३	कश्चित्कूर्परमाधाय	१२२
कनीयसैव कालेन	४७	कर्त्तुं शक्तोऽस्मि ते कान्ते	१३६	कश्चिदास्फालयद्वाम	१२७
कनीयान् जितशत्रोस्तु	७२	कर्तरीच्छेदनोद्भूत-	४८१	कश्चिदुत्प्लुत्य वेगेन	१५६
कन्दर्पदर्पसन्तोमं	१७३	कर्त्रभावश्च वेदस्य	२५२	कश्चिद्दक्षिणहस्तेन	१२७
कन्दरासु रतं मेरो-	१४२	कर्मकाष्ठकुठाराय	४६	कश्चिद्दृष्टि विचिक्षेप	१२७
कन्दलौर्निविडैश्छन्ना	४६२	कर्म किं पूर्वमाहोस्वि-	२५६	कश्चिद्विजैः पुरीतद्भिः	२८६
कन्दुकादि तु विजेय	४८२	कर्मणस्त्वशुभस्यास्य	४६८	कश्चिद्विज्ञेय कोपेन	२६०
		कर्मणा विनियोगेन	१३१	कपायो मधुरस्तिक्तः	४८१

कष्ट येरेव जीवोऽय	८३	कालधर्मं ततः कृत्वा	६६	कियत्यपि प्रयातेऽथ	३७०
कस्यचिद्दशाभिर्वर्षैः	१६१	काले दानत्रिधि पात्रे	१६१	किरणैर्जिनचन्द्रस्य	४६
कम्यासि दुहिता वाले	१५०	कालेन यावता यात-	१६०	किरता पुष्पनिकर	१०४
कासिके वाटयन्ती च	३६०	काले पूर्णं च सम्पूर्ण-	१३६	किरीटं मिश्रत नाना	१८३
काकतालीययोगेन	११८	काले यदृच्छ्या तत्र	३७६	किरीटी कवची चापि	२३२
काकन्दी सुविधिमूल	४२६	का वा नरान्तराश्लेष-	३७२	किष्किन्धनगरे रम्ये	२०७
काचित्कमलगर्भाभा	५५	काचिच्छ्रीकरजालेन	१७५	किष्किन्धेनापि निक्षि-	१३०
काचिद् कोपवती मान	२२६	काष्ठभार यथासर्वं	२४४	किष्किन्धेन्द्रस्तमभ्यागा-	४११
काचिच्चन्दनलेपेन	२३०	कि किमेतदिति क्षिप्र	१६७	किष्किन्धपुग्विन्यास	५
काचिद्दृश्यसमस्ताङ्गा	२२६	किं कम्पसे भज स्थैर्यं	२८८	किष्कुप्रमोदनगरे	२०८
काञ्चनाख्ये पुरे चाय-	१४६	कि करोम्यधुना तात	३६०	कीर्तयन्त्या गुणानेव	३४५
काञ्चनेन चिताभूमौ	३५	कि च सूर्यरजोमुक्ते	२०६	कीचकानामिवोदारो	२६२
काञ्चित्पादप्रणामेन	८८	किं तर्हि दारुणं कृत्वा	२१३	कीर्तितः सुप्रमत्तिस्त्रो	४२६
काचिदभ्यन्तरद्वार-	३६	कि दूतेन वराकेण	२१२	कीर्तिशुक्लस्ततोऽपश्यद्	६६
काचिद्भास्करकर्णस्य	४१६	कि न पश्यसि हा मातः	२०६	कीलालपदलच्छन्न-	२६१
कान्ता यदि न पश्यामि	४०५	किं न स्मरसि यत्पूर्वं	३०२	कुग्रन्थ वेदसज च	८५
कान्ताया निदधन्नेत्रे	३६७	कि नास्मादपि जानासि	४६०	कुटजाना विधूतानि	१६०
कान्तया कान्तया साक	१७६	किं नु गर्भपरिक्षिप्य	४०३	कुटुम्भी क्षितिपालाय	३४३
कान्तया रहितस्यास्य	३४३	कि मा प्रहसितपुण्या	३६२	कुठारैरसिभिश्चक्रैः	३०८
कान्तिमानेप शक्रेण	१४६	किं राजसेवन शत्रु-	३४७	कुट्टमलोद्दीपितोऽशोकः	३३६
कान्तिरेवाधरोद्भूता	३६	कि वयस्य विपणणोऽसि	४०३	कुतूहलादिति ध्यात्वा	२४६
कान्त्युत्सारिततारैशा	१५२	कि वा दुःखाच्च्युते गर्भं	४०४	कुन्ध्युप्रमृत्तिसत्वाना	२
कामक्रोधाभिभूतस्य	२४७	कि वा दुष्टेन केनापि	४०४	कुन्ध्यरौ परतस्तस्य	४३६
कामभोगोपमानेन	१६४	कि वात्यापि न त कोप	४०६	कुट्टप्या गर्वितो लिङ्गी	२४७
कामरूपभृतो वाणा	२६३	कि वान्तरायकर्म स्या-	३५३	कुन्दशुभ्रममावर्त-	१३३
कामार्थवर्मसभार	४३१	किं वा मन्दाकिर्नीं मुग्धा	४०३	कुन्दशुभ्रैः समुत्तुङ्गे	७६
काम्पिल्यं कृतवर्मां च	४२६	किशुकं धनमत्यन्तं	३३६	कुपितेनेति सा तेन	३७४
काम्पिल्यनगेर च्युत्वा	४३७	किशुकोत्करमकाशो	४२८	कुपिते मयि शक्रे वा	१८०
काम्पिल्यनगरे गजा	१८८	किञ्चोपकारिणः केचित्	२५५	कुवेर इव सद्भूतिः	४१६
कायकलेश इति प्रोक्तं	३१४	किन्तु मातेव नो शक्या	२६८	कुवेरदत्तनामा च	४६६
कायेन मनसा वाचा	३०३	किमतोऽन्यत्परं कष्ट	४६५	कुभावगहनात्यन्त	३४७
कायवाक्चेतसा वृत्तिः	३८३	किमत्र बहुनोक्तेन कुरु	२११	कुमारी व्रतकस्यान्ते	३२४
कायोत्सर्गं पग्लियञ्च	५२	किमत्र बहुनोक्तेन	६०	कुमार्गसङ्गमुत्सृज्य	२४८
काग्यन् जीर्णचैत्याना	२३८	किमर्थमेव भास्ते त्व	३३१	कुमुदैकत्वलैः पद्मे.	१७४
कारितं भरतेनेद	२१८	किम्याकफलतुल्येभ्यो	८६	कुम्भकर्ण इति ख्याति	१७८
कारिता हरिपिणेन	१८८	किमेकमाश्रयाभ्येत	३३२	कुम्भकारोऽभवद्राजा	८७
कार्त्तिकस्यामुपजाताया	४६४	किमेतदिति तौ तेन	४११	कुम्भकारोऽभवन्मृत्वा	८७
कालं कृत्वाभवत् ऋगे	२४३	किमेतदिति नाथ त्व	१५२	कुरुते यो जिनेन्द्राणा	३२१
कालक्रमात् पुनर्गर्भं	१७६	किमेतदिति पृष्टश्च	२००	कुरु नाथ प्रमाद मे	३८८
कालदेशविधानञ्च-	३५५	किमूढेवमुतान्दा	१७३	कुरु पूज्य प्रसाद मे	१६५

कुरु सजौ करं दातु	२११	कृताञ्जलिर्जगौ स्वप्नान्	४८६	केचित्कण्ठे समासाद्य	१३७
कुर्वती मानसे रूप	३५१	कृताञ्जलि पप्रच्छ स्व-	४४५	केचित्कर्मविशेषेण	६५
कुर्वतोऽनेकशो व्याख्या	२४१	कृताञ्जलिरथोवाच	४६०	केचित्केसरिणो नादं	४३
कुर्वन्तं वधिर लोक	१०६	कृतादृहासमन्येन	१२८	केचिच्चृद्धदलच्छायाः	१०३
कुर्वन्त्याराधनं यत्नात्	१५६	कृतानतिनृपेणैव	४७४	केचित्तत्र जगुस्तार	४८४
कुर्वन्मनोहरा लीला	१५१	कृतानुगमना सरल्या	३७२	केचित्तु कर्मपाशेन	६८
कुर्वन्निव बलि पद्मैः	४६१	कृतान्तवन्दनाकारै-	१८२	केचित्तु तनुकर्माणो	६८
कुर्वाण क्वणनं वाता	१८१	कृतान्तस्य ततो योद्धु-	१६६	केचित्तु पुण्यकर्माणः	२५
कुर्वाणा यशसो रक्षा	२८८	कृतार्थः साम्प्रत जातो	२३६	केचित्तु सुतपः कृत्वा	२५
कुर्यान्मह्य हित तातो	३४८	कृतार्थं मन्यमाना स्व	३६४	केचित्प्राप्य महासत्त्वा	२४
कुलधरोऽपि तत्रैव	७६	कृतार्था अपि ये सन्तो	३८३	केचित्सम्यग्मति भेजु-	६१
कुलक्रमसमायाता	२६६	कृतार्थो यद्यसौ सृष्टौ	२५५	केचिदत्यन्तवृष्टत्वात्	४८४
कुलक्रमागतं राज्य	४५४	कृते मे मन्दभाग्यायाः	४०६	केचिद्गम्भीरससार-	२५
कुलक्रमेण सास्माक-	१३५	कृतोपलम्भ स्वप्नेऽपि	२०३	केचिद्विनाशमप्राप्ते	६८
कुलपुत्रेण चासन्न-	३०	कृतोऽर्धचक्रिनामायं	४६१	केचिन्नागा इवोद्वृत्ताः	५२
कुलमेतच्छकुन्ताना	४१	कृतोऽपि कस्यचिन्मूर्धा	२६०	केचिन्निपतिता भूमौ	५२
कुलवृद्धास्तदस्माक	१३१	कृत्य कालातिपातेन	१६६	केचिन्निरन्तरायेण	२५
कुलानामिति सर्वेषा	४३४	कृत्य किं वान्धवैर्येन	२६५	केतकीधूलिधवला	११
कुलालचक्रसस्थानो	३३	कृत्रिमाकृत्रिमैरङ्गै-	४८०	केतुच्छाया महाज्वाले	६८५
कुलोचितं तथापीडं	१५६	कृत्वा गुरुजनाप्रच्छा	३६१	केयूरकरदीतास	२६३
कुवाक्यमुखरा. क्रूरा	४३०	कृत्वा चतुर्गतौ नित्यं	३०६	के वा भजन्ति ते वर्णा	१५०
कुशास्त्रमुक्तदृकारैः	४३१	कृत्वा चिरमसौ गज्य	१६६	केपाञ्चित्त्वितिवैलक्ष्यात्	४८४
कुहेतुजालसम्पूर्ण-	११६	कृत्वाञ्जलि नमस्या च	२२२	केसरिध्वनिवित्रस्ता	३८७
कृजितैः पक्षिसघाना	१६	कृत्वा धर्मं ततः केचित्	६१	कैक्यावरतो राज्य-	७
कूपादुद्धृतमेकस्मा-	३१०	कृत्वा नरकपालाना	२०१	कैकसीसूनुना दूतः	३५३
कूलद्वयनिपातिन्यो	४६२	कृत्वा पाणिगृहीता च	१५०	कैकसीनन्दनेनाथ	२०२
कृच्छ्रेण दधती गर्भ-	४६१	कृत्वा पाणिगृहीता ता	२२४	कैकसेय्याश्च वृत्तान्त	७
कृतं छेकगणस्यापि	३५७	कृत्वापि हि चिर सङ्ग	८३	कैलासकम्पोऽपि समेत्य लङ्का-	४१८
कृतं मयात्यन्तमिदं न योग्य	४७७	कृत्वा पुष्पान्तकं ध्वस्त	१५६	कैलासकृतकल्पेषु	४३८
कृतकोलाहलाः पूर्वं	३८६	कृत्वाप्येवं सुबहुदुरितं	१३८	कैलासकृतसकाशा-	४०२
कृतगम्भीरदुकारा-	४६४	कृत्वा पाणिवध जन्तु-	१८४	कैलामन्दरायातै-	१६६
कृतचन्दनचर्चेऽन्यः	१२३	कृत्वाभ्युत्थानमासीन-	४७२	कैश्चित्तत्रेष्टित तेषा	८६
कृतपूजस्ततः कैश्चित्	२६५	कृत्वा यथोचिताचार-	१७१	कोकिलाना स्वनश्चक्रे	३३८
कृतप्रत्यङ्गकर्माणं	२३४	कृत्वा सुप्रभशिष्यत्वं	४३४	कोटिभिः शुक्रचञ्चूनां	११
कृतमङ्गलकार्यार्थं	१५१	कृत्वा स्मित ततो देवी	१५२	कोटीकोट्यो दशैतेषा	४२६
कृतयुद्धश्चिर खिन्नो	४०१	कृत्वा स्मितमथापृच्छ्यु	३६७	कोट्यश्चाष्टौ दशोद्दिष्टा	६१
कृतश्रमः स तैर्दृष्टो	४३५	कृमिप्रकारसम्मिश्र-	११६	कोऽपरोऽस्ति मटुद्वीयो	७३
कृतशत्रुसमूहान्तैः	१८७	कृपीवलजनाश्चैव	२६५	कोऽप्यकारणवैरी मे	३६४
कृतसंगीतदिव्यस्त्री	४७३	कृष्णपक्षे क्ष्य याति	४३१	कोऽप्यय सुमहान् वीरः	२१५
कृतस्तदर्थमाटोप-	४११	केकया द्रोणमेघश्च	४७८	कौलेयकौ शृगालौ च	७४

को वाति मन्दभाग्योऽयं	३८०
कोऽसौ वैश्रवणो नाम	१८१
कौशाग्र्यी च महाभोगा	४२५
कौशकी ज्यायसी तत्र	१४७
कौसलस्थनरेन्द्रस्य	४५४
क्रमेणेति जिनेन्द्राणा-	४३३
क्रमेण स परिप्राप्तौ	४५४
क्रमात् स यौवनं प्राप्त-	१४०
क्रियमाणं तु तद्भक्त्या	११०
क्रियमाणमिमं ज्ञात्वा	३४८
क्रिययैव च देवोऽस्य	२७०
क्रियासु दानयुक्तासु	१५
क्रीडन्तमिति तं दृष्ट्वा	४१५
क्रीडन्ति भोगनिर्ममाः	४४८
क्रीडन्ति स्यन्ति यच्छान्ति-	४४६
क्रीडन्तीभिर्जले स्त्रीभि-	२३०
क्रीडिष्यामि कदा सार्धं	२२५
क्रीत्वा देवनिर्गोपात्ता-	७५
क्रुद्धस्य तस्य नो दृष्टिं	१७६
क्रूरयेयं यथा त्यक्त्वा	३७३
क्रूरसंधानधारिण्या	४०५
क्रूरास्ते दापयित्वा तद्	३११
क्रूरेऽपि मयि सामीप्या-	३६१
क्रूरित्युदितैः क्षिप्रं	४५८
क्रोधमूर्च्छित इत्युक्त्वा	२१२
क्रोधवह्नेस्ततस्तस्य	८५
क्रोधसम्पूर्णाचित्तेन	१३५
क्रोधसम्भाररौद्राङ्गा	११४
क्रोधो मानस्तथा माया	३१४
क्लिश्यन्ते द्रव्यनिर्मुक्ता	४५८
क्लीवास्ते तापसा येन	१६२
क्लेशात् कालो गतोऽस्माकं	२६५
क्लेशादियुक्तता चास्य	२५६
क्वचित् क्रीडन्ति गन्धर्वाः	७८
क्वचित्परिसरक्रीडत्	२१६
क्वचित्पुलकिताकारं	२१६
क्वचिद्ग्रसदितिध्वानो	२८७
क्वचिद्द्विद्युल्लतास्त्रिष्ट	२१६
क्वचिद्दिश्रब्धसंसुप्त	२१६

क्षणनेन ततोऽसीनां	१८२
क्व धर्मः क्व च संक्रोधो	२१७
क्वाचित्पद्मवनेनेव	२१६
क्षणमात्रसुखस्यार्थं	३०८
क्षणात् प्राप्तं प्रविष्टश्च	१५७
क्षणादारान् क्षणादूरे	१७४
क्षणेन च परिप्राप्तौ	३४४
क्षतं न चास्ति मे देहे	३४२
क्षतजेनाचितौ पादौ	३७७
क्षतत्राणे नियुक्ता ये	५०
क्षत्रियाणां सहन्वाणि	७२
क्षत्रियास्तु क्षतत्राणा	२५३
क्षरदानौ स्फुरद्धेम	२६२
क्षमया क्षमया तुल्याः	३१६
क्षमातो मृदुतासङ्गा	३१४
क्षमावता समर्थेन	२६८
क्षान्तमित्युदितोऽथा सा	३६४
क्षिप्तं यथैव सत्त्वेन	३१०
क्षिप्तं यथोपरे वीज-	३१०
क्षिप्रं यान्ति महानन्दं	३२२
क्षीणं पुराकृतं कर्म	३०१
क्षीणेपु द्युतिवृत्तेषु	३७
क्षीरसेकादिवोद्भूत-	१०
क्षीरोदपायिनो मेघा	२६६
क्षुत्तृष्णा व्याकुलश्चासौ	२८
क्षेत्राणि दधते वस्त्रिभन्	१०
क्षेमङ्करमुनेः पार्श्वं	४५४

[ख]

खरं खरः खमुत्क्षिप्य	१४२
खरदूषणभद्रस्य	३५५
खर्जूरामलकीनीय	१०३
खिद्यमाना प्रदिष्टेषु	३५२
खिलेगतं यथा क्षेत्रे	३६
खेचराणां विलक्षणां	१२७
खेचराणां सहस्राणि	२०६
खेचरार्भकधन्योऽसि	७७
खेचरैर्बहुभिः क्रुद्धैः	७३
ख्यातो वह्निशिखो नाम्ना	६६
ख्यातो वृषभसेनोऽस्य	५६

[ग]

गङ्गेव वाहनीशस्य	३७
गच्छतां दक्षिणाशायां	७८
गजनासासमाकृष्ट-	२६०
गजवाजिनराणाञ्च	२३१
गजवाजिसमारूढाः	२३१
गजशूलकृतनिस्सर्प-	२८८
गजा गजैः समं सक्ता	३५४
गजा गजैस्तता सार्द्धं	१२८
गजैर्घनाघनाकारैः	१४१
गणनार्थैर्महासत्त्वै-	४४७
गतभ्रमोऽनिलश्चण्डो	६५
गतमूर्च्छस्तु संक्रुद्धः	३८६
गतयः कर्मणां कस्य	३७६
गतस्त्रिकूटशिखरं	४७३
गता राक्षससैन्यस्य	२३४
गताश्चानुमतास्तेन	१७८
गतित्रयगतप्राणि	२२
गते तस्मिन्मनश्चौरै	२६४
गते राजन्यमात्येन	४७५
गतो दशरथोऽप्यस्य	४८४
गत्याकायैस्तथा योगै-	२३
गत्यागमनसंबृद्ध-	११२
गत्या जयेदयं चित्त-	१५६
गत्या च प्रणतिं कृत्वा	२१६
गत्या जनपदाश्चैव	२६४
गत्या प्रगल्भनां ब्रूहि	१३६
गत्या प्रदक्षिणीं कृत्य	११६
गत्या वा देवनिलयं	३२
गत्या वैश्रवणायेय-	१८२
गत्या शिलाकवाटख्यो	३७२
गताभिः शक्तिभिः कुन्तै-	२८७
गदाभिः शक्तिभिर्वाणैः	१२६
गदितौ द्वावलङ्कारा-	४७६
गन्तुकामो यथा पङ्क्तु-	५६
गन्तुमारेभिरे देवा	३३६
गन्धर्वकान्तयावाचि	३६०
गन्धर्वगीतनगरे	६३
गन्धर्वनगरं गीत-	१३
गन्धर्वादिकलाभिज्ञा	३३५

गन्धर्वोऽप्यनयोश्चक्रे	३६२	गुणैरेष समाकृष्टः	१७१	ग्रहाणा हरिदृश्वश्च	४३४
गन्धैरुद्धर्तनैः कान्ति-	१६४	गुणैर्नाथ तवोदारै-	१२१	ग्रहेष्वभिमुखस्येषु	१६६
गमिष्यति पतिं श्लाघ्यं	३३५	गुणैस्तव जगत्सर्वं	४६	ग्रामे तत्रैव विप्रोऽभूत्	६६
गरुडाङ्गं ततो दध्यौ	२६३	गुणैस्तस्य जगत्सर्वं	३४५	ग्राहयित्वा च तान् किङ्कु-	१०५
गरुत्मता कृताश्लेषो	२६४	गुरवः परमार्थेन	२६८	[घ]	
गर्जितेन पयोद्वाना	२६७	गुरुः पादोऽनया दृष्ट्या	३६७	घग्घग्घ्वायतेऽन्यत्र	२८७
गर्जितेनातिरौद्रेण	४६२	गुरुः शनैश्चर पाद-	३६७	घटतेनाकृतेरस्याः	३६४
गर्दापवनसंवृद्ध-	३१३	गुरुः सीमन्वरो ज्ञेयो	४२५	घनःशाखाभृता जने	३३८
गर्भधारणमात्रेण	४५६	गुरुदैत्यगुरुं दृष्ट्वा	३६७	घन केरवजं जालं	३३६
गर्भस्थानर्भकान् वृद्धा-	३०७	गुरुषु प्राप्तपूजेषु	१६५	घनदुःखावबद्धेषु	२३
गर्विता अपि विद्याभिः	१५६	गुहामुखमुखासीन-	१६	घनव्यनितवित्प्रला	२६६
गलद्गण्डस्थलामोढ-	१६८	गुहायामत्र कस्याञ्चि-	३७६	घनागमविनिर्मुक्ते	४६३
गलद्रुधिरधारोऽसौ	२३३	गुहावदनमुक्तेन	३६६	घनाघनरखत्रला	४६२
गवाक्षजालमार्गेण	३५८	गृहधर्ममिम कृत्वा	३२१	घनौघादिव निघातः	१६७
गवाक्षजालेन निरीक्षमाणा	४२१	गृहपङ्क्तिक्रमप्राप्त	४५८	घोगः पतन्ति निघाताः	१४२
गवाक्षन्यस्तसन्नारी	१४६	गृहमेतत्तया शून्यं	४०२	घोपनेनपराम्भोधि-	४४०
गवाक्षमुखनिर्यात-	२८	गृहाण जीवनं नाथ	१७६	[च]	
गवाक्षाभिमुखाः काश्चित्	२०५	गृहीतं नायक ज्ञात्वा	४१५	चकार च सम भर्त्रा	१८६
गवेषणे विनिष्क्रान्तः	२७१	गृहीतप्राभृता गत्वा	२२५	चकार विदितार्थं च	३५०
गाढमप्यपरो वद्ध-	१२३	गृहीतभूषणाल्यन्त-	२०५	चकार विप्रलाप च	३६६
गात्रं वलितमेकेन	१२८	गृहीतमण्डलाग्रेण	३१	चक्रं मुदर्शनममोघ-	४२२
गान्धर्वविधिना नर्वा	१७५	गृहीतहृदया तस्य	३७	चक्रचापघनप्राप्त-	४१४
गान्धारोद्रीच्यसन्नाभ्या	४७८	गृहीता रिपुणा लक्ष्मी	१६६	चक्रचिह्नमसौ भुक्त्वा	४३८
गायन्ति सह पत्नीभि-	८४	गृहीता श्रावकैः शक्त्या	४६२	चक्रध्वजा मणिग्रीवो	७०
गिरयोऽत्यन्तमुत्तुङ्गाः	३५	गृहीतामलशान्नाभि-	८०	चक्रवत्परिवर्तन्ते	४४८
गिर्यो दुर्गमा यत्र	१५७	गृहीतेऽस्मिन् परिग्यन्द-	२६४	चक्रवर्तिध्वनि नीतो	४६१
गुञ्जाख्यस्य ततो मूर्ध्नि	१८२	गृहीत्वा कीमस कश्चि-	२८६	चक्रवर्तिश्रिय तावत्	६१
गुणग्रहणमंजात-	४८७	गृहीत्वा कुम्भमिन्द्रोऽपि	२६७	चक्रवर्ता ततोऽप्रच्छ-	७५
गुणचिन्ताप्रवृत्तासु	१२८	गृहीत्वा च कृपायुक्तै-	२४६	चक्रवाकीव दुःखानां	२३६
गुणदोषसमाहारे गुणान्	४	गृहीत्वा मोदकान् याता	४६८	चक्राङ्गतनयोऽपश्यत्	२२४
गुणदोषसमाहारे दोषान्	४	गृहीत्वेवाखिलस्त्रैर्ण	१४६	चक्राङ्गवत्सम्प्रीत्या	२२८
गुणरूपमदग्रस्ता	१६८	गृह्यता कन्यका चर्यं	२६२	चक्राङ्किता श्रियं भुक्त्वा	८२
गुणव्रतसमृद्धेन	३३७	गोत्रनाशकरी चण्डा	१५	चक्रारुढमिवाजहं	३५२
गुणमागरनामानं	४५२	गोत्रे परम्परायातां	८६०	चक्राहेव पतिप्रीता	३८
गुणा एतावतैवास्य	२६६	गोदण्डपथतुल्येषु	४३०	चक्रुरन्ये रवं कर्णं	१५६
गुणालङ्कारमप्यत्रः	३३१	गोपालकेन सम्मन्त्र्य	७५	चक्रे च मित्रभार्याया	२७१
गुणावनमिने चापे	१५	गोपुराणि च तुङ्गानि	१०६	चक्रेण लोकपालाना	२८६
गुणास्तचास्य प्रथिता	४२०	असित्वेव विमुञ्चन्त	१५५	चक्रोलयति च सौमित्रैः	८१
गुणिना गणनाया य.	१४८	अस्ता इव विशस्तेन	१४०	चक्षुःपद्मपुटासङ्ग-	१८४
गुणेषु भाव्यमाणेषु	४१३	अहाणा परिशिष्टाना	३६७	चक्षुर्मानसयोश्चारी	८०

चक्षुषः पुटसकोचो	२३	चन्द्रालोके ततो लोक	२७ १	चिर च कृतसंग्रामो	२००
चक्षुषा वागुरातुल्या	३२८	चन्द्रशालादिभिर्भुक्तान्	३१५	चिर तत' कीर्तिधरेण साक	४५६
चक्षुषो गोचरीभूता	३५६	चम्पकद्वारकाकार-	२७	चिर निरीक्षितो देव	४५१
चक्षुष्मति ततोऽतोते	३७	चम्पायामय रुद्धाया	१८६	चिर वद्धक्रमो योऽस्थाद्	४६६
चक्षुष्मानपरस्तस्मात्	३६	चम्पेव वासुपुष्यस्य	४२७	चिरवृत्ततया बुद्धो	३०२
चचार वैद्युत तेजो	४६२	चरणं शिरसि न्यस्य	३००	चिरात्सम्प्राप्तपत्नीक.	४१०
चञ्चलत्व समुद्भूत-	१०६	चरद्भिर्हंससघातै-	१२	चूर्णितश्च ततः शैल-	४०६
चञ्चूपात्तमृणालाना	१०८	चर्मजालकसञ्छन्ना	६१	चूर्णितोऽनेन शैलोऽसौ	४१२
चतुःपञ्चाशदाख्यात	४३०	चलन्मीनमहानक्र-	४१	चूतस्य मञ्जरीजाल	३३८
चतुःशरणमाश्रित्य	३३२	चातुर्मासोपवास तौ	४६३	चूतोऽय कर्णिकारोऽय	४५०
चतुःसमुद्रपर्यन्त	२०७	चातुर्वर्ण्यं यथान्यच्च	२५४	चेष्ट यच्छ समायोग	२८२
चतुःसमुद्रपर्यन्ते	१६३	चातुर्विध्यं च यजात्या	२५३	चेष्टित वज्रकर्णस्य	७
चतुर्गतिकससार-	८२	चापत्रिशूलनिस्त्रिंश-	१८७	चेष्टोपकरणं वाणी	४८२
चतुर्गतिगतानेक-	३००	चामस्राहिणी काचित्	४०	चैत्यकाननवाह्याली-	१८६
चतुर्ज्ञानोपगूढात्मा	६२	चामीकरमहास्तम्भ-	४७३	चैत्यप्रभाविकासोढ्य	४७३
चतुर्ज्ञानोपगूढात्मा	११५	चामुण्डो मारणो भीष्मो	६५	चैत्याना वन्दना कर्तुं	६८
चतुर्णां प्राणिनामेपा	२३६	चार कश्चिदुवाचेति	१६६	चोदयन्नातिविज्ञाना	४८७
चतुर्णां लोकपालाना-	१४७	चारणेन समादिष्ट	१५४	च्युतस्तस्मादिह द्वीपे	३८१
चतुर्दशसहस्राणि	२२६	चारणैरुत्सावासः	१३	च्युता च रत्ननगरे	३०१
चतुर्दशस्वतीतेषु	७२	चारित्रमपि सप्राप्ताः	२५	च्युते शस्त्रान्तराघाता	२८८
चतुर्भिरधिकाशीतिः पूर्व-	४३२	चारित्राद् गुप्तितो धर्मा-	२२३	च्युतो नागपुरे जात.	४३५
चतुर्भिरधिकाशीतिरब्दा	४३२	चारुकर्मफल भुक्त्वा	१५२	च्युतो नागपुरे पद्म	४३७
चतुर्भिः सहिता जेयाः	४२६	चारुलक्ष्मणसम्पूर्ण	३६३	च्युतो ब्रह्मरथस्याभूत्	४३८
चतुरङ्गलमानैश्च	३५	चारुलक्ष्मणसम्पूर्ण	१७	च्युतो महाविदेहेऽय	३०१
चतुर्विधमिद वाद्य	४७६	चारुलक्ष्मणसम्पूर्णा	१७२	च्युत्वा गर्भग्रहे भूयो	६१
चतुर्विधस्य संघस्य	४३४	चिक्रीडदमयन्तोऽपि	३८१	च्युत्वा तत्र मनुष्यत्वे	३२४
चतुर्विधो जनपदो	२४२	चिच्छेद सायकान् तस्य	१८५	च्युत्वात्रैव ततो वास्ये	३८१
चन्दनेन समालम्ब्य	४५	चित्तोद्भवकरी शान्तिः	१६२	च्युत्वा नागपुरे विश्व-	४३६
चन्दनद्रवदिग्धाङ्गो	४६१	चित्र पश्यत मे नमा	४५३	च्युत्वा पुण्यावशेषेण	३८२
चन्दनद्रुमसकाश.	४६६	चित्रमेकरथो भूत्वा	४८६	च्युत्वा महेन्द्रराजस्य	३६४
चन्द्र समस्तया दृष्ट्या	३६७	चित्राम्बरस्य पुत्रोऽय	१२५	च्युत्वा सुमित्रराजस्य	४३३
चन्द्रकान्तमणिच्छाया	१०६	चित्ररत्नविनिर्माण-	३६६	[छ]	
चन्द्रकान्तशरीराश्च	१३	चिन्तयत्यन्यथा लोकः	३७६	छत्रै. शशाङ्कसङ्काशै-	२०५
चन्द्रकान्तिविनिर्माण-	५५	चिन्तयन्तमिमं चैव	१७३	छलछलायतेऽन्यत्र	२८७
चन्द्रादित्यप्रतिसर्द्धि	१६४	चिन्तयन्ती गुणान् पत्यु-	१५१	छाद्यन्तो स्वनाटेन	५६
चन्द्रादित्यसमे तस्य	४५	चिन्तयन्निति चान्यच्च	१६१	छित्वा स्नेहमयान् पाशान्	१२१
चन्द्रपादाश्रये रम्ये	१२०	चिन्तयन्निति पर्यट्य	४०४	छिन्दन्ताविव दारिद्र्य-	४६१
चन्द्रामश्चन्द्रसकाशः	४२७	चिन्ता कामपि सप्राप्ता	११६	छिन्न पित्रो शिरस्तेपा	१६०
चन्द्रामश्च परस्तस्मान्	३७	चिन्ताया अपि न क्लेश	४०	छिन्नध्वजातपत्रः सन्	४८६
चन्द्रगश्मिचयाकारै-	२२७	चिन्तितप्राप्तनि.शेष-	२७०	छेत्यन्ते स ततोऽ्युक्तै-	४२१

[ज]

जगतो दुःखमग्नस्य	४५२	जनकायापि तेनेद	४७४	जाता सदनपद्माख्या	६४
जगत्यस्मिन् महावशा	६७	जननाभिपवे यस्य	१६	जातेन सा गुहा तेन	३६३
जगद्धिता महामात्रा	३२६	जनित जलपूरेण	४६२	जाते मन्दप्रभातेऽथ	३६६
जगाद् गजनाथ त	४०४	जन्तुना सर्ववस्तुभ्यो	३६३	जाते यतस्तत्र बभूव रम्या	४५७
जगाद् च गणाधीशः	२४६	जन्तूना जीवितं नीत्वा	६०	जाते विशतिसख्याने	४४६
जगाद् च त्वरायुक्त	२७२	जन्तूना मोहिना तेषा	३८३	जातो मेघरथाभिख्या	१४६
जगाद् च न शक्नोमि	३७८	जन्मत्रयमतीत यो	३६	जानतापि ततो राजा	२४२
जगाद् च सखीस्नेहात्	३७३	जन्मनः प्रभृति क्रूरा	६१	जानानः प्रलयु देह-	५५३
जगाद् च समासन्नान्	१०४	जन्मनेत्थ कृतार्थोऽस्मि	१४२	जानामि च तथा नैतत्	२७६
जगाद् च स्मित कृत्वा	२७७	जन्मनोऽर्वाकपुरस्ताच्च	१६	जानास्येव ममाकृत-	३४२
जगाद् च स्मितं श्रुत्वा	२०३	जन्मप्रभृति दुश्चेतो	२३८	जानुभ्या भुवमाक्रम्य	३३३
जगाद् चाञ्जलिं कृत्वा	३५७	जन्म लेभे यतः शैले	३६६	जामदग्न्यादृतज्ञात्र	४३६
जगाद् चेति किं मात-	१५६	जन्मान्तर ततोऽवोचत्	११६	जामातुरथ वाभ्येन	२०३
जगाद् चेति भगवन्	२३४	जन्मान्तरसुतप्रीत्या	७८	जायते यावदेवास्य	४७४
जगाद् चेति राजास्ति	१६४	जन्मावतारः सर्वेषा	८२	जाया जायास्य तत्राभू-	३८०
जगाद् चोद्यतान् क्लेश-	२०१	जह्नु रप्सरसो भीता	२१७	जायाया कनकोदयां	३८१
जगाद् नारदो मातः	२४०	जन्मोत्सवो महानस्य	४६०	जिगीषोर्घृक्षमर्दस्य	२६७
जगाद् नारदोऽर्हद्भिः	२४०	जम्बूद्वीपपतिः प्राह	१६२	जितजेयोऽपि नो शस्त्र-	१४
जगाद् पश्यतावस्था	१५६	जम्बूद्वीपपतिर्यज्ञ	१५७	जितशत्रोः समायोज्य-	७१
जगाद् मन्त्रिणाश्चैव	३३५	जम्बूद्वीपस्य भरते	७५	जित्वा विद्याधराधीशान्	२२५
जगाद् मातुलं चैव	३६६	जम्बूभरतसजाया	३४	जिनचन्द्रकथारश्मि-	३२१
जगाद् यदि मे भर्ता	४६७	जम्बूवृक्षस्य भवने	३४	जिनदेशिततत्त्वाना	२३
जगाद् राजा भववृक्षसंकटा	४५५	जय कल्पद्रुमो नामे-	३७	जिनपादसमीपे तौ	७३
जगाद् रावण साधो	२२१	जयन्ति रान्ति मुञ्चन्ति	४४८	जिनपूजनयोग्यानि	३६२
जगाद् वचन कन्या	१२४	जय नन्द चिर जीव	२०४	जिनत्रिम्व जिनाकार	३२१
जगाद् स ततो ज्येष्ठ	१८४	जयशब्दकृतारवैः	७६	जिनमातुस्ततः कृत्वा	४४
जगादासौ किमत्रान्यै-	४८५	जयाद्रिदक्षिण स्थानं	३३६	जिनवन्दनया तुल्यं	२२२
जगादासौ ततस्तस्मै	३७२	जयार्जितसमुत्साहा	२६२	जिनवेश्मनि तौ तेन	७५
जगादेति ततो बालि-	२१२	जलकान्तस्ततः क्रुद्धः	३५४	जिनशासमासाद्य	३३०
जगाम च निज वेश्म	४०१	जलबुद्बुदनिस्सारा	३०४	जिनाना जन्मनक्षत्र	४२६
जगाम ब्रध्वा सहितो	४२१	जलबुद्बुदवत्कायः	८४	जिनानामन्तरं प्रोक्त	४३१
जगुश्च ख्यातसद्वेशान्	४८४	जलयन्त्राणि चित्राणि	२२६	जिनेन्द्रः प्रापितः पूजा	२६५
जग्मुश्चापदे तत्र	३३६	जलवीचिगिरौ तस्य	४१२	जिनेन्द्रचरणौ मुक्त्वा	२१६
जज्ञे च सुवलस्तस्मात्	६७	जलस्थलसमुद्भूत-	३२८	जिनेन्द्रमेव चापश्यत्	२८
जययुनियमप्रार्ति	७	जले यन्त्रप्रयोगेण	२२६	जिनेन्द्रवचनं यस्तु	३२४
जयमुकुटभारः क्व	१५८	जात शश्वत्प्रवृत्तापि	२६१	जिनेन्द्रे दशमेऽतीते	४४४
जटरेण मया यूयं	१६०	जातमात्रमथो सन्त	४४५	जिनेन्द्रो भगवान् वीरः	१६
जनकस्य ततो मृत्यु	७४	जातमात्रश्च यो देवै-	२६०	जिनेशपाटपूताशा	२८
		जातमात्रोऽभिपेकं यः	४३६	जिनैरपि कृतं नैतत्	२६१

जिनैरभिहितं धर्मं	३३४	तं रत्नश्रवसं श्रुत्वा	१६३	ततः क्षीरार्णवाग्भोभिः	४४
जिनोदितार्थसंसक्ता	३१६	तं वल्लवृत्तमानीय	४६८	ततः क्षेमकरो जातः	३६
जीवः करोति धर्मेण	३१५	त एवसाम्प्रतं जाता	१०१	ततः खेचरभानुं तं	१२५
जीवं जीवक्युग्मानां	१०४	त एवावयवास्तस्य	१७७	ततः खेचरस्रोक्तेन	८०
जीवति प्राणनाथे ते	२७६	तच्चारोहपरीणाह	४८२	ततः नानातदृच्छ्याया	१०४
जीवदानं च यत्प्रोक्तं	३११	तच्छ्रुत्वा भरतः क्रुद्धः	६५	ततः पटेष्विन्द्रजितप्रधाना	४२०
जीवाकर्पा कुशाकारां	३८७	तच्च चिन्तापरं ज्ञात्वा	२६६	ततः पत्यापि यत्नायां	१६२
जीवितं ननु सर्वस्या	३४३	तदपादपमारुह्य	३५६	ततः परमकोपेन	३५४
जीवितायाखिलां कृत्यं	४७४	तडित्केशः कुतो हेतो-	११३	ततः परत्रले तोप-	२८५
जीवितालम्बनं कृत्वा	३६१	तडित्केशस्य चरित-	५	ततः परत्रलध्यानं	२१२
जीविष्याम्यघुना स्वामिन्	३५७	तडित्केशस्य विनाय	११२	ततः परमया युक्तो	२६४
जैनमेवोत्तमं वाक्यं	११८	ततः कञ्चुकिमिस्तासा-	१७६	ततः परममापन्नो	३४७
जृम्भणं कम्पनं जम्भां	३४१	ततः कतिचिदावृत्तीः	३३१	ततः परममित्युक्त्वा	३६१
ज्ञातं किं न तथोत्तमाः	२६०	ततः कन्दर्पिणः केचित्	४३	ततः परिदधुः केचित्	५२
ज्ञात्वा चेतीववृत्तान्त-	२६६	ततः कन्यापिता ज्ञात्वा	३४६	ततः परिभवं दृष्ट्वा	३८२
ज्ञात्वा तं भवतस्तुष्टो	६३	ततः कलकलं श्रुत्वा	२३१	ततः परुषवाक्येन	२११
ज्ञात्वाऽथ निष्प्रभिस्ताव-	२०६	ततः कापिष्ठगमनं	१२०	ततः परुषवाग्वात-	१८०
ज्ञात्वा दशाननं प्राप्तं	४१३	ततः कामगमारुह्य	१६८	ततः पाणिग्रहश्चक्रे तयो-	१६४
ज्ञात्वा लब्धवरं चैतं	७६	ततः कामिल्यमागत्य	१६६	ततः पाणिग्रहश्चक्रे तस्य	१७८
ज्ञात्वा वयस्य पत्नीति	२७३	ततः किमिदमित्युक्त्वा	३४८	ततः पाणिग्रहस्तेन कृतः	४८६
ज्ञात्वा वसन्तमाला तां	३८६	ततः किष्कुपुरस्वामी	१२०	ततः पार्श्वजिनात् पूर्वं	४३२
ज्ञात्वा वायुकुमारं च	४०३	ततः कीर्तिधरस्यापि	४६५	ततः पितरमापृच्छय	७१
ज्ञानं संप्राप्य किञ्चिद् ब्रजति	४६३	ततः कुथाकृतच्छ्राये	१६२	ततः पिता जगद्वनं	३५६
ज्ञानैर्जिनस्त्रिभिर्युक्तः	४२	ततः कुन्तलभारेण	५८	ततः पिथाय पाणिभ्यां	२७७
ज्येष्ठो व्याधिसहस्राणां	२७१	ततः कुमारकान् दृष्ट्वा	४६२	ततः पूर्वकृतानेक-	३७६
ज्योतिर्दृग्मप्रभाजाल-	३५	ततः कुमारकैर्युक्तो	४७	ततः पितृवधात् क्रुद्धः	७२
ज्योतिश्चक्रं समुद्धु-	३१५	ततः कृतिनमात्मानं	४७६	ततः प्रणम्य तैः पृष्ट्वा	१३५
ज्योतिषां निलये जात-	४३	ततः कृपासमासक-	५०	ततः प्रत्यङ्गकार्याणि	४८६
ज्योत्सनाया प्लावितो लोकः	४६३	ततः केचिद्भृतिं कृत्वा	२४	ततः प्रत्याचचक्षे तं	१२४
ज्योतिषामावनाः कल्पा	३७	ततः केतुमती क्रुद्धा	३७०	ततः प्रत्युद्गतः पौर-	३६६
ज्वलन्नातिसमीपस्थ-	२८	ततः केतुमतस्योद्यै-	३३८	ततः प्रभुद्वराजीव-	३६४
ज्वालानजालमनलं	४१	ततः कैलासकम्पेन	२२१	ततः प्रमातनूर्येण मङ्गलै-	२२८
ज्वालारौद्रमुखी चैयं	१४२	ततः कैलासकुक्षित्या	२७५	ततः प्रमातनूर्येण शङ्ख-	१५१
[ङ]		ततः क्रमात्तयोः पुत्रौ	२२४	ततः प्रभृति कान्वासौ	४८६
डाकिनीप्रेतभृतादि-	३२५	ततः क्रीडितुमारभे	१६२	ततः प्रभृति कोपेन	३०२
[ङ]		ततः क्षणं स्थिता चेद्	३६३	ततः प्रभृति ये जाता	११०
दौकितश्चानरण्ये स्वं	४६३	ततः क्षणमिव स्थित्वा-		ततः प्रमुदितैर्देवैः	५८
[त]		निष्क्रान्ता	३६६	ततः प्रलयवातेन	१३०
तं दीक्षाभिमुखं ज्ञात्वा	४६१	ततः क्षणमिव स्थित्वा च	३६४	ततः प्रशन्नं कृत्वा	२३४
तं दृष्ट्वा सुतरां चक्रे	२४०				

ततः प्रसन्नकीर्त्याख्यं	३७२	ततः समाहता भेर्यः	४४	ततश्च तं वरद्विपं	१०३
ततः प्रहसितोऽवोचद्	३६०	ततः समुचिते काले	३४४	ततश्चतुर्विधैर्देवै-	३०७
ततः प्रहसितोऽस्मीति	३६२	ततः समुद्यता गन्तुं	६१	ततश्चन्द्रनखा जाता	१५४
ततः प्रहस्य विश्रब्धं	१६७	ततः समुद्यदिवसप्रभूप-	४५७	ततश्चरमयामादौ	२२६
ततः प्राहादिरित्युक्ते	३४६	ततः सम्यग्दृशो याता	६४	ततश्चतिशयास्तस्य	७२
ततः प्रासादमारुद्-	४०१	ततः स विकृतां त्यक्त्वा	११४	ततश्चानय तां गत्वा	२७८
ततः प्रियांसदेशस्थ-	३६६	ततः स विहरंस्तस्मिन्	१०४	ततश्चित्ते दशग्रीव	३५४
ततः फलादिकं तेषां	५२	ततः सशक्रोपमभोगवीर्यः	४५६	ततश्चिरं रुदित्वैना-	३७६
ततः शक्रधनुः साकं	१६५	ततः सहस्रकिरणः समा-	२३३	ततश्च्युताः स्फुरन्त्युच्चैः	३२७
ततः शक्रस्य सामन्ताः	२६७	ततः सहस्रकिरणो विभ्रा-	२३२	ततश्च्युतो यशोवत्यां	४३८
ततः शङ्खस्वनोद्भूत-	१६८	ततः सहस्रशः खण्डै-	३६६	ततश्च्युत्वा मनुष्यत्वं	३२६
ततः शब्देन तूर्याणां	५१	ततः सांवत्सरोऽवोचत्	३६६	ततश्च्युत्वेह संभूतो	२७२
ततः शब्दमयं सर्वं	३६६	ततः सा कथयत्तस्य	१५५	ततश्चैत्रस्य दिवसे	१०२
ततः शरणमीयुस्ता	४८	ततः साकेतनगरं	४३	ततस्त्वं कुपितं दृष्ट्वा	१६३
ततः शरद्वतुः प्राप	४६३	ततः सागरदत्ताख्यः	४३६	ततस्तं कोपगम्भीर-	१०६
ततः शस्त्रकृतध्वान्ते	२८७	ततः सान्तःपुरः पुत्र-	२०२	ततस्तं त्रिपरीत्यासौ	३२
ततः शारदजीभूत-	१६	ततः साधुं स वन्दित्वा	३८१	ततस्तं तद्विधं दृष्ट्वा	१६६
ततः शिवपदं प्राप	६२	ततः सुखासनासीने	१७०	ततस्तं नतमूर्धानं	४०८
ततः शोकोरोगेणासौ	८७	ततः सुखासनासीने	१६६	ततस्तं निर्गतं दृष्ट्वा	२०२
ततः श्रीमालिना तेषां	२८४	ततः सुतवधं श्रुत्वा	१२६	ततस्तं परया द्युत्या	१७८
ततः श्रुत्वा त्रपाहेतुं	३७३	ततः सुनिपुणं शुद्धं	३०७	ततस्तं भूषितं सन्तं	४६
ततः श्वासान् विमुञ्चन्ती	१८६	ततः सुमानुषो देव	४३४	ततस्तं यौवनादीपत्	१२४
ततः षडपि नो यावत्	५२	ततः सुरबलं सर्वं	२६४	ततस्तं विनयोपेतं	११५
ततः संप्राप्तकृत्ये तौ	३६६	ततः सुरे निवर्तस्व	३४६	ततस्तं वेपथुग्रस्तं	११४
ततः संभूय राजानो	८५	ततः सोऽमितगत्याख्यो	३८०	ततस्तं शरजालेन	४१४
ततः संवर्तकाभिख्य-	२१८	ततः स्मितमुखोऽवोचत्	४०८	ततस्तं सहसा दृष्ट्वा	३६२
ततः संब्राध्यमाना सा	१४३	ततः स्वदारनेत्राम्बु-	१२६	ततस्तं सुस्थितं देशे	११६
ततः संवाहयन् प्राप्तो	१६६	ततः स्वप्नसमं श्रुत्वा	३६२	ततस्तं स्पन्दनारूढो	२०१
ततः सकरुणायुक्तो	१६१	ततः स्वप्नोपमं दृष्ट्वा	३८६	ततस्तत्किङ्कणीजालैः	३६८
ततः सकुसुमा मुक्ता	१६६	ततः स्वामिपरीवाद-	१२७	ततस्तद्वौरवं भङ्क्त्वा-	३४६
ततः सख्यं सविन्यस्त-	३७७	ततः स्वयं मथेनोक्तं	१६६	ततस्तत इति प्रोक्ते	२००
ततः स तापसैर्भौतै-	१६६	ततः स्वयं समादाय	३५५	ततस्तत्तस्य कौटिल्य-	२७८
ततः सत्पुरुषाभिख्या	३३४	ततं तन्त्रीसमुत्थान-	४७६	ततस्तत्तादृशेनापि	३०४
ततः सन्ध्याप्रकाशेन	३४७	तत आगमनोद्भूत-	२०६	ततस्तत्रस्थ एवासौ	१८८
ततः समन्त्रिभिः साकं	३५५	तत आरभ्य संप्राप	३३५	ततस्तत्राप्यसौ कान्ता	४०२
ततः समयमासाद्य	३५०	तत इन्द्रमतो जातो	१०८	ततस्तत्प्रविशन्ती सा	३७२
ततः समाकुलीभूतो	४८५	तत उच्छेत्तुमारब्धो	१८३	ततस्तदाहतं सैन्यं	१४५
ततः समागतौ ज्ञातौ	३४७	तत उत्पत्य विन्यस्य	२६४	ततस्तद्दुःखतो मुक्तै-	३७१
ततः समाप्तनियमः	१४६	ततश्चक्रधरोऽश्वेन	७२	ततस्तद्वचनं श्रुत्वा	३०६

ततस्तद्वचनात्तेन	२७८	ततस्ते मस्तके कृत्वा	१६५	ततो दीर्घोष्णनिश्वास-	३७२
ततस्तद्वचनादेता	३७१	ततस्ते विस्वरोदार	२४५	ततो दुःखभरोद्वेल-	३६४
ततस्तमङ्गमारोप्य	४४	ततस्तेषा महान् जातो	२००	ततो दुःखमविजाय	३७२
ततस्तमङ्गमारोप्य प्रमोद-	३६३	ततस्ते सङ्गमात्प्राप्य	३८६	ततो दुर्वारवेगं त	३५४
ततस्तमम्बरैर्दिव्यै-	४६	ततस्तैः प्रहिताः क्रूरा.	१७६	ततो दृष्ट्वा समासन्न	२६५
ततस्तमवतीर्णोऽसौ	१०३	ततस्तैरनुयातोऽसा-	३१	ततो दृष्ट्वाऽस्य सरम्म	३४६
ततस्तमवधिं ज्ञाना-	५६	ततस्तैरस्थितैः सैन्य	२८३	ततो देवकुमारामै.	१६४
ततस्तयोः शनैश्छन्नं	२०२	ततस्तैर्महती रन्तु-	१०४	ततो देवनभोयाना-	११६
ततस्तयोः सता मये	२४२	ततस्तेस्तप्रतिजाय	११०	ततो देवा. समागत्य	४४७
ततस्तयोपदिष्टा सा	३७६	ततस्तौ परिवर्गेण	१३२	ततो देवासुरा भक्ताः	३३३
ततस्तस्मिन्नपि प्रीति	१२५	ततस्तौ पुत्रयो राज्य	६४	ततो धर्मजिनात्पूर्वं	४३२
ततस्तस्मै समाख्यात	४५६	ततोऽकथितविजात-	३८०	ततो धिग् धिग् ध्वनिः प्रायो	२४३
ततस्तस्य पुरः स्थित्वा	४६४	ततो गर्भं गृह्ण रम्य	१७१	ततो ध्यानगजाकृद-	१२१
ततस्तस्य विपादोऽभूत्	६३	ततो गर्भस्थिते सत्वे	१५३	ततोऽनघशरीर त	३६६
ततस्तस्य समाकार	१२६	ततो गुरुन् प्रणामेन	१६३	ततो न जात एवास्मि	३५६
ततस्तस्य मितव्यानाद्	५८	ततो गेहाजिनेन्द्राणा	१७२	ततोऽनन्तबलोवाच	३१८
ततस्तस्य सुतो जातः	१११	ततो गोत्ररूपायात-	२०५	ततोऽनया पुनर्लब्धा	६६
ततस्तस्योपकरणे ते	११६	ततो गृहीतसर्वस्वः	७०	ततोऽनयोः क्षणोद्भूत-	१७३
ततस्ता शरणं जग्मु-	१६१	ततो जगाद चक्षुष्मान्	३६	ततो नाथ बल दृष्ट्वा	२००
ततस्ता परमा मूर्ति	११६	ततो जगाद देवस्य	२७७	ततो नादापिताप्यस्याः	३६५
ततस्ता लक्ष्मणैरेभिः	३७०	ततो जगाद भगवान्	३२३	ततो नानाप्रसूनाना	१०४
ततस्तानायतो दृष्ट्वा	१७६	ततो जगाद मारीचो	३०६	ततो नानाशकुन्तोवैः	२२८
ततस्ताभ्या वदु पृथो	२४२	ततो जनोधत. श्रुत्वा	४०२	ततो नाम्ना महोत्साहः	३७३
ततस्तामन्यथाभूता	१६०	ततो जन्तुहिता सङ्ग-	११६	ततो निखिलमेतस्याः	३७२
ततस्तामाकुला जात्वा	३७७	ततो जपितुमारब्धा.	१५७	ततो निखिलविज्ञान-	४८६
ततस्तामिद्धिताभिजो	६८	ततो जन्मोल्मवस्तस्य	१५३	ततो निगदित नाग	२२२
ततस्ता युगपद् दृष्ट्वा	१७५	ततो जिनसमीपे त	७३	ततो निज बल नीत	१८३
ततस्तावुप्यतो कृत्य	१२२	ततो जातेषु रत्नेषु	१६६	ततो निजबलमूढ	२६२
ततस्तुष्ट्राव देवेन्द्रो	२०	ततो जातो महाक्रन्दः	१८५	ततो नितम्बफलक	३६५
ततस्ते तेन गर्वण	६५	ततोऽञ्जना समालोक्य	३७१	ततो निद्राक्षये दृष्ट्वा	१६३
ततस्ते तेन बहवः	१०५	ततोऽतिगहने युद्धे	३५५	ततो निरीहदेहोऽसौ	११४
ततस्तेन दशाम्यम्य	२६२	ततोऽत्यन्तमपि क्रूर	३५७	ततो निर्गत्य तेनासा-	२२६
ततस्तेऽनन्तवीर्येण-	३३१	ततोऽत्यन्तमहाभूत्या	५१	ततो निशाम्य वृत्तान्त	४६०
ततस्तेन प्रियम्बति	३५८	ततो दग्धोपमानेन	१६०	ततो निशावधू रेजे	४१३
ततस्तेन सुरेणामौ	११५	ततो दशमुखेनोक्तं	२२२	ततो निश्चयविजात-	२४०
ततस्तेन श्रुत पूर्वं	१०६	ततो दशमुखादिष्टो	२३५	ततोऽनुकम्पयाद्दृष्टं	२१६
ततस्तेनाकुल दृष्ट्वा	२६२	ततो दशाननः क्षिप्र	२३१	ततोऽनुमेनिरे तस्य	१६६
ततस्ते निर्गत धर्म-	२६	ततो दशाननोऽवाटीत्	२१०	ततोऽनुसृत्य वेगेन	२३१
ततस्तेभ्यः सुकेशेन	१३५	ततो दर्शनमन्योऽन्य	६८	ततोऽनेन समाहाय	४६८

ततोऽन्तराल एवाति-	२८४	ततो महत्तपस्तप्त्वा	६२	ततो वशीकृतस्यास्य	२३५
ततोऽन्तेवासिनस्तेन	२३६	ततो महति सजाते	१६५	ततो वसन्तमाला त	३६४
ततोऽन्य रथमारुह्य	१८५	ततो महति सग्रामे	७३	ततो वसन्तमाला तद्गोय-	३६१
ततोऽन्यदपि सप्राप्तं	२८४	ततो महति सग्रामे प्रवृत्ते	२७६	ततो वसन्तमालोचे	३६३
ततोऽपकर्णनं कृत्वा	२८२	ततो महापुरे राज-	४६६	ततोऽवसादनाद् भग्न	२८३
ततोऽपमानित यैर्यैः	१४३	ततो महात्रलो जात	६७	ततो वहन्विरागेण	३४७
ततोऽप्यार्यत्वसभूति-	६२	ततो महाभराक्रान्त-	२१८	ततो वायुस्वाचेद	३६०
ततो वभाण तान् रक्षः	२४५	ततो महोत्सव चक्रे नाभिना	४३	ततो वार्तामिव जातुं	२३४
ततो बालिरसावेप	२१६	ततो महोत्सवं चक्रे सह	१३६	ततो विक्रमसम्पन्न-	१११
ततो ब्रह्मरथो जात-	४६६	ततो महोदयोत्साहः	२०३	ततो विजयसिंहस्य	१२७
ततो भङ्ग परिप्राप्ता	२८३	ततो मानुषवेपस्थो	२४३	ततो विदित्वा जनकेन तस्या-	४२०
ततो भरतराजोऽपि	६६	ततो मालागुणः कण्ठे	१२७	ततो विद्याप्रभावेण	१५०
ततोऽभवन्महायुद्धं	१३६	ततो माल्यवतः पुत्रः	२८६	ततो विधानयोगेन	३५०
ततो भवान् मया तस्या	१६४	ततो मुनिगिरं ज्ञात्वा	२२४	ततो विध्वस्य नागारिं	३६०
ततो भाव्युपसर्गेण	३८६	ततो मुनिमुखादित्या	१२०	ततो विनयनम्रः सन्	२६७
ततो भास्करनाथस्य	३४३	ततो मेरुस्थिरस्यास्य	४६५	ततो विनिष्क्रम्य निवास-	४५७
ततोऽभिमवने सक्तं	२८६	ततो मोहमदाविष्टः	२४३	ततो विन्ध्यान्तिके तस्य	२८८
ततोऽभिमुखमायातं तमा-	२३३	ततो यथेप्सित दान	६५	ततो विभीषणो जातः	१५४
ततोऽभिमुखमायातं दृष्ट्वा	१८३	ततो यमविमर्देन	२६३	ततो विमानमारुह्य	१७७
ततोऽभिमुखमायान्त दृष्ट्वा		ततो यावदसौ हन्तुं	११४	ततो विमानमुज्झित्वा	१६८
खण्ड-	२८७	ततो यावद्दशग्रीवः	३५४	ततो विरचिते तल्पे	३६३
ततो भीतो भृशं दूतो	२१२	ततो ये निर्जितास्तेन	२००	ततो विरहतो भीता	३६८
ततो भृत्यैः समुद्धृत्य	१८५	ततो रक्षोगणास्तस्य	२०४	ततो विलोचनैः सालै-	२६
ततो भ्रात्रा शमं वैर-	६२	ततो रणादिव प्राप्त-	२३४	ततो विवाहपर्यन्त	२७१
ततो भ्रामयता तेन	१६६	ततो रत्नप्रभाजाल-	५१	ततो विश्रमयन् सैन्यं	४१५
ततो मगधराजोऽपि	२१	ततो रत्नपुटे केशान्	५२	ततो विषकरणक्षेपि	२१७
ततो मङ्गलगीतेन	१६६	ततो रत्नविनिर्माणैः	१६४	ततो विस्मितचित्ता सा	४४५
ततोऽमङ्गलभीतेन	१६५	ततो रथाश्वमातङ्ग-	३४८	ततो विस्मयमापन्न-	११४
ततो मञ्जुषु रम्येषु	१२२	ततो राक्षससैन्यस्य	२८२	ततो वैश्रवणो भूय-	१८४
ततो मत्तद्विपालान-	१४३	ततो राजासमं ताभ्या	७६	ततोऽवोचदलं प्रीतः	३४०
ततो मत्तिसमुद्रेण	६५	ततो लक्ष्मीकृत दृष्ट्वा	४१४	ततोऽष्टाङ्गनिमित्तजः	१५२
ततो मदकलमेन्द्र-	२८	ततो लेखार्थमावेद्य	३५६	ततो संभाषणादस्या	३५१
ततो मदनसंप्राप्ता	२७८	ततो वज्रधरेणासौ	७३	ततोऽसावब्रवीत् केन	१०६
ततो मघोरिदं प्राह	२६६	ततोऽवधिकृतालोकः	२७२	ततोऽसावेवमुक्तः सन्	३६०
ततो मनःस्थलैनेन्द्र-	४७२	ततोऽवधिकृतालोकस्तोष-	२२१	ततोऽसौ कालधर्मेण	१२०
ततो मन्दोदरी दीना	२१६	ततो वधिरयज्ञाशाः	१८१	ततोऽसौ कथिते पुग्भिः	२३६
ततो मया जिनेन्द्रार्चा	२३५	ततो वराङ्गनास्तारं	४५२	ततोऽसौ कामशल्येन	२२४
ततो मयि गते मोक्ष-	८२	ततो वर्षसहस्राणा	३६	ततोऽसौ क्रमतो वृद्धिं	२१०
ततोऽमरप्रभो जात-	१०८	ततो वर्षर्द्धिमात्रं स	५२	ततोऽसौ चन्द्रलेखेव	१२६

ततोऽसौ तत्परम्यर्गा-	३८६	तत्र त्रिलोक्यान्मान्ये	८६	तत्प्रदेशे कृता देवै-	२६१
ततोऽसौ नत्य मरण	७४	तत्र देव इवोदार-	३८१	तत्प्रसीद दयामार्य	१८१
ततोऽसौ तदभिप्राय-	१२४	तत्र धारयितु वेह-	३७८	तत्त्वतो यद्वि नाथो मे	३४८
ततोऽसौ नमिवजान	१४१	तत्र नानाभोज्यत्ति	४८३	तत्त्वामन्ताञ्च तुष्टेन	२६२
ततोऽसौ निहत न्यर्थ	१२०	तत्र निष्कमण्ट दृष्ट	४७२	तथा कथञ्चिदासाय	१११
ततोऽसौ पतितो बाल-	१३०	तत्र पुत्रमघमोथ-	१२६	तथा कुरु यथा भूयो	३८४
ततोऽसौ पुनरागच्छत्	११०	तत्र पूर्णधना नाम	७२	तथा कृते तत कर्णे	२७७
ततोऽसौ पुनरागीना	१७६	तत्र प्रत्यक्षमन्यासा	४८७	तथोग्रमपि कुर्वाणा	३२२
ततोऽसौ पृष्टो गन्तु-	१३२	तत्र प्रश्ने शुनो यत्ता-	४	तथा च यन्पशुर्मायु-	२५५
ततोऽसौ युगात्पुत्रं	४१४	तत्र मध्येऽस्ति सद्दीपो	७८	तथा तयो रति प्राप्ता	३६५
ततोऽसौ विलयन् भूरि-	१३१	तत्र मन्त्री जगादक	३३६	तथानन्दवती जेजा	४४०
ततोऽसौ वेपथु प्रामो	११५	तत्र मासद्वय नीत्वा	४०६	तथा नल किष्कुपुरे शरीर-	४१६
ततोऽसौ सर्वविद्याभि-	२१७	तत्र मूलफलादीनि	१८६	तथापि ते गता क्षोभं	१५८
ततोऽसौ शम्भनघान	१७७	तत्र याते हि रेवात्रा	२३५	तथापि परया युक्त-	१६६
ततोऽसौ निक्तमात्रेऽम्बिन्	४६७	तत्र रात्रि सुख नीत्वा	४१२	तथापि पौरुष विभ्रद्	२७६
ततोऽस्य सद्विमानस्य	६६	तत्र लुब्धेषु पापेषु	२४	तथापि भवतु ज्ञाता	२६६
ततोऽस्य महिमा बुद्धि-	३०२	तत्र वर्षशान्तेऽनीते	४२८	तथापि ययमतोप	३६६
ततो हनूद्गहाभिग्न्ये	४०६	तत्र त्रिप्रायरा सर्वे	३०२	तथापि ग्रहस्ताना-	२६५
ततोऽहमपि वाक्येन	३४०	तत्र वैवस्वतो नाम	४६२	तथापि श्रद्धया तन्मे	१०७
ततो हनन्नुवाचेद्	१८४	तत्र मसारिजीवाना	२३	तथा प्रव्रजितो भूत्वा	२४७
ततो हस्तिपकेनोक्त-	१६२	तत्र मुन्दरमर्वाङ्गा	४७८	तथा ग्न्वरेदीप्ता	४२४
ततो शक्राग्यञ्चरेन	४०६	तत्र स्फटिकभित्तयङ्गा	२१	तथार्क्षरजसे किष्कु-	२०३
ततो हेमपुरेशस्य	१३७	तत्र न्यगं सह्याणि	३२४	तथावस्थित एवासौ	३६४
ततो हेमप्रभेणेते	६८५	तत्र स्वमु पति गत्वा	६८	तथा वानरचिह्नेन	११२
तत्क्रोमि पुनर्यन	२३६	तत्राथ मन्त्रिभि नाथं	२६६	तथा सत्यवचोवर्म-	११७
तत्कृतात् सेवनाज्ञाताः	११२	तत्रानुरक्तमविगम्य वाढ-	४२०	तथा मर्षजनानन्द-	४२५
तच्च मूलहेतो कर्मरथौ	३५०	तत्रापश्यत् स विन्तीर्णां	१०५	तथास्तु स्वागत तस्य	३६३
तत्तत्त्वयं बलादीर्ग-	१४१	तत्रापि दक्षिण्येरेपाम्	४४४	तथा ल्लेय स्त्रिया सङ्ग	६१
तत्तस्यान्तशर्गीत्वा	६२	तत्रापि न मनन्मया	१२६	तथेति कारिते तेन	३४८
तत्तेन विशिष्यै पश्चा-	२८३	तत्रापि मुक्तनद्रोग	२८१	तथैगवतवर्षस्य	३४
तत्ते यावद्विय त्रिचिन्न	४७४	तत्रापि म्मर्षनाण तत्	१८६	तथैरोऽपि स निर्युक्त-	४६२
तत्पत्नी चेल्लना नान्नी	१६	तत्रायं चन्द्रमा जीत-	३७	तथैया जाग्रतामेप	१६६
तत्र रामेन मुक्त्वात्मा	३३०	तत्रानीन निदित्वेन	६०	तदद्यात्तन्म नचिन्त्य	२६८
तत्र कुम्भपुरे तस्य	१७८	तत्रायुःपुराकारे	४१३	तदर्थं पार्थिवा सर्व	४८४
तत्र श्रीडाप्रसक्ताना	१७५	तत्राम्ति सर्वत. ज्ञान्त	१२	तदवस्थ नृप जाल्वा	४६८
तत्र क्रीडितुमारगे	८८	तत्रास्य जगतीजाना	१६	तदस्य युक्तये बुद्धि	२७०
तत्र चैनाकिनीमंजा-	३५६	तत्रैव संचरंरेभि-	६४	तदादृष्ट. प्रहस्तोऽय	१६७
तत्र जन्मोत्सवन्नस्य	३६६	तत्रैव समये तस्य	१५०	तदपश्यजगत्कृत्स्नं	४०४
तत्र तत्रैव भूदेशे	३७७	तत्रैवान्योऽभवद् ग्रामे	४३४	तदा श्लोच्छ्रवणं भीम	१५६
		तत्रोदार सुख प्राप	३८१		

तदा वरुणचन्द्रस्य	४१५	तपो निर्दग्धपापा ये	३२३	तर्पिताध्वगसंघातेः	१२
तदाश्चर्यं ततो दृष्ट्वा	११५	तपोवन मुनिश्रेष्ठै-	१३	तलेषु तुङ्गहर्म्याणा	४६४
तदास्ति किष्किन्धपुरे महात्मा	४१६	तमदृष्ट्वा ततः शाल	२७६	तवार्पितः परप्रीत्या	१२१
तदुपाय कुरु त्वं त-	३६१	तमुदन्त ततः श्रुत्वा	२५६	तत्रास्य चानुभावेन	३६३
तदेतत्सिकतामुष्टि-	३१२	तमुदन्त ततोऽशेषं	२४२	तस्थुरेकत्र निर्ग्रन्था	२१
तदेव वैरिण शोक	१३१	तमुदन्त परिजाय	४५३	तस्मात् करोमि कर्माणि	१०७
तदेव सकुचद्वीक्ष्य	७१	तमूचे मणिचूलाख्य	३८८	तस्माच्च सभवं प्राप	१३४
तदेव साधन ताव-	४१५	तमोऽथ विमलैर्भिन्नं	२७	तस्मात्तामेव गच्छामो	२६६
तदेवेद सरो रम्य	३५६	तथापि मम पुत्राय	६७	तस्मात्पुत्र निवर्त्तस्व	१३२
तदेषा विपरीताना-	६३	तया विनयवत्यासौ	४३४	तस्मात्पृच्छाम्यमुं तावत्	३६०
तद्ग्रामवासिनैकेन	८७	तया सह महैश्वर्यं	२०८	तस्मात्सदिग्धशीलेय-	३७४
तद्दुःखादिव मन्दत्व	३८६	तयासौ दारितो देहे	४६४	तस्मात्सर्वप्रयत्नेन पुरुषे	३
तद्दुःखादिव सप्राता	३७२	तयेन्धनविभूत्यास्य	१८२	तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मतिमान्	३१६
तद्देशवेदिभिश्चारैः	१६६	तयोः कुमारयोर्युद्ध	२६५	तस्मात्सर्वमिदं हित्वा	८४
तद्देशे विपुलस्कन्धो	५८	तयोः कुशलवृत्तान्त-	६१	तस्मात्साधुमिमं देवं	३६१
तद्ब्रूहि तरुणीं कस्मै	१६८	तयोः स्नेहभरेणैव	३६६	तस्मादकर्तृको वेदः	२५०
तद्रोमसन्निभैः कुन्तै-	१८२	तयोक्त स ततः श्रुत्वा	१८६	तस्मादत्रैव तिष्ठामो	५३
सद्वत्ससारगेहेऽह	४६०	तयो यया दिशा तस्य	१६५	तस्मादन्योऽपि यस्तस्मै	३७४
तद्वधार्थं गतं शक्र-	१४५	तयोरज्ञातयोरेव	३६६	तस्मादपनयाम्येन	२१७
तद्वरान्वेषणे तस्य	३३५	तयोरन्योन्यसवद्ध	४७	तस्मादविदितो गत्वा	३६१
तद्व्यापादितशेषा ये	२४५	तयोरपि पुरोपात्त	१५३	तस्मादस्य स्वय युद्ध-	२८४
तनयः सागेरर्जह्नो-	८७	तयोरपि पुरो मूर्द्धा	१६०	तस्मादिदं परित्यज्य	५०
तनय केकयासूत-	४६१	तयोर्गजघटाटोप-	६२	तस्मादुत्तिष्ठ गच्छाम	१३२
तनुता बोध्यमानायाः	२४०	तयोर्घन कृत वाद्य	३६०	तस्मादुत्तिष्ठ गच्छाव	३४६
तनुभूतसमस्ताङ्गः	३४१	तयोर्दुहितर चार्वी	४५०	तस्मादुत्थितमाकर्ण्य	६२
तनुमध्या पृथुश्रोणी	३३५	तयोर्महान् सवते विवाहे	४१८	तस्मादुद्दिश्य यद्दान	३१२
तनोऽन्तेवासिनस्तेन	४६२	तयोर्विक्रमसभारो	३३७	तस्मादुपात्तकुशलो	६२
तन्नुसन्तानयोगं च	४८२	तयोर्विवाहः परया विभूत्या	४२१	तस्मात्सर्वविध मूढा	६०
तन्त्रीवशादिसन्मिश्र-	१२१	तयोर्विहरतोर्युक्त	४६१	तस्माद्यथा ते जनकः	४५६
तन्निश्चित मन्त्रिजनोऽवगत्य	४५५	तयोः श्रीकण्ठनामाभूत्	६७	तस्माद्यावदरातीना	४७४
तन्दुलेषु गृहीतेषु	२६४	तयोस्तत्राभवद्भीमः	३८८	तस्माद्यावदयं गर्भं	३६८
तन्मध्ये भरतश्चक्री	६१	तयोस्तनूजा नवपद्मरागा	४१६	तस्माद्द्विजिटी जातो	७०
तन्मध्ये मेरुवद्भाति	७८	तरङ्गभङ्गराकार-	२७	तस्माद्विष्टेन केनापि	२५६
तन्मार्गप्रस्थितानाञ्च	३१३	तरङ्गभ्रूविलासाढ्याः	२२८	तस्मान्नरेण नार्या वा	३२८
तपः करोमि ससार-	३०२	तरङ्गिणी नवे रम्ये	२३०	तस्मान्निवर्तमानोऽसौ	६८
तपः कापुरुपाचिन्त्य	३८२	तरङ्गिप्रच्छदपटाद्	३६८	तस्मान्निवेद्य गच्छ त्वं	३६८
तपः कृतान्तवक्रस्य	८	तरुणादित्यवर्णस्य	४६०	तस्मिंस्तथा श्रीमति वर्तमाने	४२१
तपः क्लेशेन भवता	६६	तरुणादित्यसकाशा-	३४	तस्मिंस्तदा राजगृहं प्रयाति	४२१
तपः शोषितसर्वाङ्गो	४५८	तर्कयन्ती रुजा छिद्र	४६६	तस्मिन् काले प्रनष्टेषु	४८

तस्मिन् गदति तद्देशे	११६	तस्यामसूत सा पुत्र	४०६	तावच्च व्रजनस्तस्य	२६५
तस्मिन् गर्भस्थिते यस्मा-	४२	तस्यामेतदवस्थाया	३५३	तावच्च भानुरैदम्त	३६१
तस्मिन्नियमरत्नानि	३२३	तस्या रूपसमुद्रेऽसौ	६८	तावत्पुत्रशत तस्य	४१५
तस्मिन् हि टीपमानस्य	३११	तस्याऽतर्गतः सेना	३५८	तावत्सागरवृद्ध्यादि	२१२
तस्मै न वचिता सत्य.	५७	तस्या वार्तानु मुग्धेन	४०४	तावदन्यकथाच्छेदे	८०
तस्मै नरेन्द्रो मुहुदाद्विष्टो	४५७	तस्य विनापराधेन	३६१	तावदुत्पत्यवेगेन	२३३
तस्मै पञ्चनमस्कारः	११४	तस्यासन्नभुव प्राप्य	४०२	तावदेव जनः सर्वः	८३
तस्मै पुणोत्तरः कन्यां	६७	तस्यासीद् गणपालाना-	६१	तावद्विमृश्य कार्याणि	२८०
तस्मै समामतोऽवोचत्	४३४	तस्यास्तत्सकल दुःख	३६५	तावन्त एव चोत्सन्ना	६३
तस्मै सा कथयत् वाचा	१५०	तस्यास्ते काम्यमानाया-	३६५	तावन्त्येव सहस्राणि	६१
तस्य क्रीत्तिममाग्याया	४४६	तस्यान्तं नयने दीर्घ	३६१	तावन्मन्दोदरी उद्ध्या	२०६
तस्य गोत्रे दिनान्यष्टौ	८६७	तस्यान्य को रणे रथात्	२८४	ता विपादवतीर्ह्यु	४१६
तस्य चानुपद् जग्मु-	१६५	तस्येपुभिर्वपुभिन्न	४१४	तासु रत्नानि वस्त्राणि	१७६
तस्य जनकनामागृ-	४८८	तस्यै चाकथयन्मूल	२४१	तिरश्वा मानुपाया च	१८०
तस्य तद्वचन श्रोत्रे-	३७३	तस्यैव च मुने. पार्श्वे	३३४	तिर्यग्जातिसमेतस्य	८६
तस्य देयन्य लोकेऽस्मिन्	४६	तस्यैव शक्रसज्ज्य	२६१	तिर्यग्जातिस्वभावेन	११५
तस्य चन्दनमालाया-	१७६	तस्याच्छिन्नगते शब्दे	२१४	तिर्यग्नरकदुःखानि	४३४
तस्य पक्षे तत. पेतु.	२४३	तस्योपरि ततो याति	४६६	तिर्यग्नारकपान्यः सन्	७५
तस्य पदमोक्षगभिन्त्यः	६७	तस्योपरि ततो योधा	१७७	तिर्यग्भिर्मानुषैर्देवैः	२६
तस्य पित्रा जिना नवै	७१	ता कन्या सोदगे नेतु-	४५०	तिर्यग्लोकस्य मध्येऽस्मिन्	३३
तस्य पुत्रगत ताव-	४१३	ता च कन्या समासात्	२७१	तिलकेन भ्रुवोर्मस्य	४५
तस्य प्रतिनिनाडेन	३८७	ताडितन्तीक्ष्णवायेन	२०२	तिग्मात्रोऽपि देशोऽसौ	३०८
तस्य प्रदक्षिणा जुर्वन	५८	ताड्यमाना च चण्डाल-	१५६	तिष्ठतापि त्वया नाथ	३५७
तस्य भार्या नगृहेष्टा	१३६	नात नास्मिन् जन. कोऽपि	१०६	तिष्ठ तिष्ठ दुराचार	११४
तस्य मये मद्रामेव	३३	तान मे लक्ष्ण शक्ते-	३५६	तिष्ठत्युदीक्षमाणश्च	३६७
तस्य योग्या गुणैः कन्या	१००	नातस्य चरणौ नत्वा	२३५	तिष्ठ त्वमिह जामातः	१६४
तस्य युदाय सम्प्राप्तौ	६१	तान स्वल्नापि नास्त्यत्र	१००	तिष्ठन्ति निश्चलाः स्वामिन्	१८७
तस्य लोऽटुभिर्न्यैश्च	६६	तानि शस्त्राणि ते नागा-	२६६	तिष्ठन्ति मुनयो यत्र	६४
तस्य मा योगिनः पार्श्वे	१४६	तापन्यजनचित्तस्य	२६	तिष्ठ मुख गृह्णाणेति	३६५
तस्या. फमलत्रामिन्यो	८४५	तामसेन तनोऽन्धेण	१७७	तिष्ठ. कोट्योऽर्धकोटी च	४४५
तस्या. मेचनस्यं तु	३६५	तापसेन सतातेन	२४६	तीक्ष्णैः शिखरसघातैः	२१५
तस्या माधुर्ययुक्ताया	१७३	तापसान् दुर्निधान् बुद्ध्या	२४३	तीरेऽस्याः सरितः शस्य	४०४
तस्या वैश्रवणो जात.	१४७	तापस्कृष्टितकोशीके-	१०	तीर्थ विमलनाथस्य	३८१
तस्यादित्यगतिजातो	६४	ताभिरित्युष्टित तेपा	१५८	तुङ्गाजुनवनाकीर्ण-	११
तस्यादित्यगणा. पुत्रो बभूव	२८५	यामदृष्ट्वातिचक्षुष्या	३४३	तुङ्गैर्वर्हिणपिच्छौध-	२२७
तस्यादित्यगणा पुत्रो भरत-	६७	ताम्वूलदायिनी काचित्	३६	तुङ्गैस्तरङ्गसवाते.	१
तस्या नाभिसमेताया-	३६	ताम्वूलगगनिर्मुक्त-	३५७	तुभ्य वेदयितास्मीति	२३६
तस्यानुगमनं चक्रे	१८७	तारानिकरमध्यस्थो	४६३	तुरङ्गैर्यटल स्वङ्गै-	४३८
तस्यानुपममैश्वर्यं	५०	तादृश्यसूत्रोऽध्ययमेवमेव	४५५	तुरङ्गैश्चञ्चलचार-	२६५

तुरीयं वा सृजेन्नोक्त	१२६	तेनोक्तास्ते कृतस्नानं	४३५	त्रिकूटशिखरेणासौ	१३६
तुल्यार्थनैकशब्देन	४८०	ते पुनः परपीडाया	२५	त्रिकूटाभिमुखो गच्छन्	४१२
तुष्टाम्युपगमात् किञ्चि-	२७८	तेऽप्यष्टौ तद्वियोगेन	४३७	त्रिकूटेनेव तेनासौ	१०२
तुष्टा सवीक्ष्य तनय	४७	तेभ्यो जगाद यज्ञस्य	२४४	त्रिदशेन्द्रसमो भोगैः	४४४
तुष्टेन तेन सा तस्मै	७२	तेभ्यो भावेन यद्वत्	३१०	त्रिपुरो मलयो हेम-	२२६
तुष्यन्त्यर्चन्ति वञ्चन्ति	४४६	ते विरूपसमस्ताङ्गा-	४३१	त्रिपुष्पोत्तरसंज्ञोऽतो	४२५
तूणौ मनोभुवः स्तम्भौ	३४४	ते शक्रनगराभिख्ये	२०४	त्रिभुवनकुशलमतिशय-	३६१
तूर्यादिडम्बर त्यक्त्वा	१७०	ते शस्त्रपाणयः क्रूरा-	४७५	त्रिलोककृतपूजाय	२२०
तृणतुल्येषु नामीषु	२६१	तेषा केनचिदित्युक्ता	५३	त्रिलोकमण्डनाभिल्या	१६६
तृणाना शालयः श्रेष्ठाः	३१७	तेषा नामानि सर्वेषा	८२	त्रिलोकश्रीपरिप्राप्ते	११७
तृणोपमं परद्रव्य	३२२	तेषा मध्ये ततो ज्येष्ठो	२४६	त्रिलोकविभुताचिह्नं	५६
तृतीये मन्ददीर्घोष्ण-	३४१	तेषा मध्ये न दग्धौ द्वौ	८५	त्रिलोकेश्वरताचिह्न-	२२
तृमा रसेन पद्माना	२७	तेषा महोत्सवस्तत्र	४०६	त्रिवर्णनेत्रशोभिन्वो	५५
ते कथं वद शास्यन्ते	२६१	तेषा वक्त्राणि ये प्राप्ता	२७५	त्रिविष्टपं यथा शक्रो	१४३
ते कदाचिदथो याताः	८४	तेषा शिष्याः प्रशिष्याश्च	६६	त्रिंशच्चतस्रभिर्युक्ता	३४
ते कुधर्म समास्थाय	८१	तेनामनुपदं लग्ना-	१३६	त्रिंशद्योजनमानाधः	७८
तेजोमयीव सन्तापा-	३५२	तेष्वस्त्रकौशलं तस्य	४६३	त्रैलोक्य शोभमायात-	४३
ते तं प्राप्य पुनर्धर्म	८१	तेषा समाधि समासाद्य	२५	त्रैलोक्यमपि संभूय	८१
ते तं भावेन ससेव्य-	११६	तोमराणि शरान्याशा	४८६	त्रैलोक्यस्य परित्यज्य	६०
ते ततो वदतामेव-	३७६	व्यक्तरागमदद्वेषा	४५३	त्रैलोक्यादथ निःशेष	२१६
तेन क्षणसमुद्भूत-	२६२	त्यक्ताया मे त्वया नाथ	३५८	त्वक्सुखं सुकुमारं तु	४८३
तेन चाभिहितः पूर्व-	२३६	त्यक्ता वशस्था धरणी त्वयेय	४५५	त्वद्मासास्थिमनःसौख्या	४८३-
तेन तन्निखिल ध्वान्त	२६३	त्यक्त्वा धर्मधिया बन्धून	२४६	त्वत्सङ्गम समासाद्य	३६२
तेन ते क्षणमात्रेण	२८४	त्यक्त्वा नौ धरणीवासो	१६४	त्वत्स्मृति प्रतिबद्धं मे	३६४
तेन त्वया सार्धमह विधाय	४१८	त्यक्त्वा परिग्रहं सर्वं	६३	त्वद्गतिप्रेक्षणेनैते	४२
तेन टोषानुबन्धेन	७०	त्यक्त्वा लिङ्गी पुनः पापो	२४७	त्वद्दक्त्रकान्तिसम्भूत-	४१
तेन धर्मप्रभावेण	६०	त्यजतोऽस्य धरित्रीयं	८७	त्वया नाथ जगत्सुतं	२०
तेन पर्यटता दृष्ट्वा	१३४	त्यागस्य नार्थिनो यस्य	१५	त्वय्यविजातगर्भाया-	३७५
तेन युक्तो जनः शक्त्या	३२३	त्याज्यमेतत्परं लोके	३२५	त्वाद्दशा माद्दशा ये च	२२२
तेन वाक्येन सिक्तोऽसा-	१७३	त्रपत्रपायतेऽन्यत्र	२८७	[द]	
तेन वारुणयः सर्वे	४१४	त्रपन्ते द्रान्ति सजन्ति	४४८	दंप्रयोः प्रेङ्खणं कुर्वन्	१४२
तेन सार्धं मया विद्या	२७३	त्रयं सुरभिकोटीना	६१	दंप्राकरालवदना-	४६४
तेनानुधावमानेन	६८	त्रयोऽग्नयो वपुष्येव	२५७	दंप्राकरालवेताल-	२७५
तेनापहृतचित्ताना	२६४	त्रस्तसारङ्गकान्ताक्षी	३६३	दंप्राङ्कुरकरालैस्ते-	११४
तेनाभिज्ञानदानेन	७०	त्रस्तसारङ्गजायाक्षी	३७७	दंप्रावसन्तसिंहस्य	३३६
तेनामी कारिता भान्ति	१६६	त्रस्ताव्यलोकनाशाः	२१७	दक्षः प्रसन्नकीर्त्याख्या	२८३
तेनैकेन विना सैन्य-	१२६	त्रासाकुलितचित्तेषु	१८३	दक्षात् समभवत्सूनुः	४४७
तेनैव तच्च सजातं	५८	त्रिःपरीत्य च भावेन	३७६	दक्षिणस्या नृपश्रेण्या	३३४
तेनोक्तं देव जानासि	४६८	त्रिकूटशिखराधस्तान्	७६	दक्षिणस्यामयं श्रेण्या-	१७१

दक्षिणा च गृहार्णेति	२४२	दर्शनेन्धनसवृद्ध-	३०२	दारकौ स्वजनानन्द	१७६
दक्षिणापथमासाय	४६६	दर्शनागोचरीभूते	३२५	दावाग्निसदृशास्तेन	१६०
दक्षिणाशामशेषा स	१८७	दर्शनात् स्पर्शनात् कोपात्	२२६	दामवर्गां विशाला श्री	३२८
दक्षिणाशामुगोदगीर्णं	३३८	दर्शिता पृष्ठमेताभ्या	१४४	दिगम्बरेण कथन	६
दक्षिणेनाङ्घ्रिणा पूर्वं	३५७	दर्शितेऽपि तथा तस्मिन्	३७०	दिग्नागवन्धनन्तम्भ-	४५१
दक्षिणे विजयार्द्धस्य	५४	दर्पणस्य स्थित मन्थे	४६५	दिनान्ते तत्पुरस्यान्त	३७१
दक्षिणोदन्वतो द्वीपे	१४६	दर्पणे विद्यमानेऽपि	१५३	दिनेषु त्रिषु यातेषु	३४०
दग्ध्वा कर्मानकक्ष क्षुभित-	४४२	दर्भसूचीविनिर्भिन्न-	४०३	दिवमाना त्रय नैतन्मम	३४२
दग्धश्च मृत्युरिव जातशरीर-	४२२	दक्षान्तमिव दर्पण	२०	दिवसेन ततो विम्ब	१६६
दत्तं किमिच्छक दान	१४२	दलेऽपि चक्षिते त्रामं	३७७	दिवाकरकरस्पर्श-	१७३
दत्त गक्षसनाथेन	१५४	दशग्रीव वृथा स्तोत्र-	१६०	दिवाकररथाश्वाना	११
दत्तयुद्धश्चिग तावत्	३५४	दशग्रीवस्तु भावस्य	१६०	दिव्यस्त्रभिः कृतामोदा	५१
दत्त्वा चाज्ञा पुनश्चक्रे	२३१	दशग्रीवाय सुग्रीवो	२१४	दिव्याशुकपरिच्छन्न-	२२
दत्त्वा प्रतिबलाग्न्याय	१११	दशग्रीवेण मार्धं ताः	१७६	दिशा ययान्द्रको यात.	१२६
दत्त्वा सतगुणोपेता	३८१	दशग्रीवाऽय पुत्राय	१७६	दिशि किङ्कुपुरस्याथ	२०१
दत्त्वा मुत्तमनाय	४६६	दशमेदेषु तेऽत्रेव	३५	दिशोऽन्धकारिताः सर्वा	२६६
ददर्श नर्मदा केनपटन्.	२२८	दशमेऽङ्घ्रि दिनादन्मा-	१६६	दिष्टया बोधिं प्रपन्नासि	३८५
ददाति परिनिवारणं-	२०२	दशमो दशमो भागः	४३२	दिष्टयावर्धनकारिभ्यः	४६०
ददावाशालिका विद्या	२७८	दशवक्त्रविमुक्तेन	२३३	दीक्षा जैनैस्वरीं प्राप	३०४
ददशुविन्मयापन्ना	१६१	दशवक्त्रस्य वस्त्रेण	२६७	दीक्षामास्थाय तेनैव	८१
ददशुस्त प्रजादेवं	५७	दशवक्त्रेण तेनाह	१७०	दीक्षामिन्द्रजिदादीना	८
दन्तदृष्टाधरो वद्ध-	१४२	दशवक्त्रोऽपि तान् वागै-	२६२	दीक्षामिमा वृषीपि चेत्	४५२
दन्तपट्कितच्छाया	४४६	दशान्यन्दननिर्मुक्तै-	४८५	दीक्षा पवनपुत्रस्य	८
दन्तास्त एव ये शान्त-	३	दशाधिक शत तेन	८४	दीर्घकाल तपस्तात्त्वा	३०४
दन्तिनी दृष्टविन्पट-	२६४	दशाननस्य प्रजनि	६	दीर्घाण्णतरनिश्वास-	३५१
दन्तियजो मरावृत्त	१४०	दशाननस्य यद्वक्त्र	२६७	दीनान्वादिजनेभ्यस्तु	३१०
दन्ती जिघ्रति त याव-	१६८	दशास्य चरित तस्मै	२०३	दीनारस्वामिना राजा	३२०
दधता परम तेन	४४६	दशात्यम्यैव कर्तव्य	२१२	दीनै. किमपरैरत्र-	१३६
दधानं शन्यमात्मान	३८१	दशान्येन ततो दूतः	२१०	दु ख हि नाशमायाति	३६४
दधानो वक्षना दार	२६६	दशान्योऽनेकपक्षोको	३३६	दु रानिःसृतया वाचा	३५१
दध्यौ चेति पुनर्भद्र	२७३	दशास्योऽपि जित शत्रु	१८५	दुःखिन्युपवनाऽवन्धु-	३२४
दध्यौ चेति मकामाग्नि	२२५	दशधरः समाकर्षन्	३४६	दुःखप्रत्यायनस्वान्त-	३७४
दमनैन्नाटनैदाह-	२३	दक्ष्यमानमिषोदार	२७५	दुःखभारसमाक्रान्ता	३२७
दयानुक्तो जिनेन्द्राणा	३२६	दक्ष्यमाने यथागारे	२४७	दुःखेन मरणावस्था	२४५
दयिताधिगृहद्वार-	८४४	दाडिमीपूगकङ्कोल-	१०३	दुःप्रवेशमरातीना	७८
दयितोऽकथयन्नावत्	४४५	दाता भोक्ता म्यितेः कर्ता	३१७	दुःस्वभावतया श्वश्र्वा	३६५
दष्टिकुलसम्भूतः	२७०	दान निन्दितमप्येति	३११	दुःयत्मना कथ तेन	१३०
दष्टिमुदरे नित्य	२०	दानेन कामजलदा	१५२	दुर्गन्धविगहा भग्न-	३२७
दर्शनेन विशुद्धेन	३०६	दानेनापि प्रपन्नन्ते	३०६	दुर्गन्धाया स्वभावेन	३३२

दुर्लभं सति जन्तुत्वे	६१	दृष्ट्वा चास्य समुत्पन्ना	८६	देवीनिवेदनाद् दृष्ट्वा	१५८
दुश्चेत्ता दुर्भंगा रूक्षा	३०१	दृष्ट्वा जनसमूहं त	४०७	देवी भूयश्चुतो जातः	१०८
दुष्करो रावणस्यापि	४०५	दृष्ट्वा तं सुन्दराकारं	२६६	देवी विचित्रमालाथ	४६५
दुष्कर्म ये न मुञ्चन्ति	३३१	दृष्ट्वा तपत्रमेतस्य	२६१	देवेनेत्यभिधायासौ	११५
दुष्कर्मसक्तमतयः परमा	६६	दृष्ट्वा तमन्तिकग्रामो	८७	देवेन राक्षसेन्द्रेण	६४
दुष्कृतस्याधुना पापाः	२५६	दृष्ट्वा तमभ्यमित्रीण-	२८४	देवैः संवर्धितत्वाच्च	२४६
दुष्टा ततः स्त्रियं त्यक्त्वा	१०८	दृष्ट्वा तस्य पुनारूपं	४३५	देहलीपिण्डिकाभाग-	१०६
दुष्टेन्द्रियमहानाग-	४६	दृष्ट्वादरेण कृत्वा च	२७३	देहवत्त्वं जगामासौ	१५४
दुहिता कैकयो नाम	४७०	दृष्ट्वा दशरथ सिंह	४८६	देहेऽपि येन कुर्वन्ति	३१८
दुहिता जनकस्यापि	४७३	दृष्ट्वा निर्धार्यमाणं तं	४५६	देशग्रामसमाकीर्ण-	५४
दूतात्तत्प्रेषिताञ् ज्ञात्वा	४७०	दृष्ट्वा परवल प्राप्तं	२३१	देशमानं वितस्त्यादि	४८२
दूतो यावद् ब्रवोत्येव	१००	दृष्ट्वा परिमल देहे	३६६	देशान्तरं प्रयातेन	२४१
दूतो युवा श्रीनगरं समेत्य	४२०	दृष्ट्वा पिता च तं बाल	१५४	देशाभोगभुवा तुल्या	६२
दूतोऽवरोत्तरे भागे	१०१	दृष्ट्वाभिभूयमानं तं	३०३	देशे देशे चरास्तेन	१३५
दूरमुड्डीयमानेन	३१	दृष्ट्वा माली शितैर्बाणैः	१३७	दैत्यत्वेन प्रसिद्धस्य	१६८
दूरादेव च तं दृष्ट्वा	१७८	दृष्ट्वा यान् मुदितः पूर्वं	१०६	द्वोदुन्दुकसुरौपम्यं	३६६
दूरादेव ततो दृष्ट्वा	२३४	दृष्ट्वा विज्ञानमेषामतिशय-	४६३	दोलासु च महाहांसु	११३
दूरादेव हि संत्यज्य	२२	दृष्ट्वाश्चर्यं स हारोऽस्य	१५४	दोपः कोऽत्र वगानीणा	४१७
दूरादेवावतीर्णश्च	३२	दृष्ट्वा सरित्तटोद्याने	२३६	दोषास्तस्या प्रतीपं य-	४८३
दूरीभूतं नृप ज्ञात्वा	४६६	दृष्ट्वाऽसौ पृथुको मातु-	३६६	दौर्भाग्यसागरस्यान्ते	३७५
दूर्वाप्रवालमुद्धृत्य	३३८	दृष्ट्वा हनूमतः सैन्यं	४१२	द्यौरिवादित्यनिर्मुक्ता	३५२
दूषणाख्यश्च सेनायाः	२२६	दृष्ट्वैव कपिलक्षमास्य	२८३	द्रविणसिपु सन्तोषो	११७
दृढवद्वपदायस्य-	१३७	दृष्ट्वोत्तरा दिश व्यासा	६६	द्रविणोपार्जनं विद्या-	४६२
दृश्यते जातिभेदस्तु	२५३	देवकी चरमा ज्ञेया	४४०	द्रव्यं यदात्मतुल्येषु	३१०
दृष्टनिःशेषताराक्षः	१६३	देवताधिष्ठितैः रत्नै-	३५३	द्रव्यपल्पमिदं गाढ-	४२८
दृष्टमात्रेणु चैतेषु	१५१	देवत्वं च प्रपद्यन्ते	३०६	द्रव्याणां शीतमुष्णं च	४८१
दृष्टियुद्धे ततो भग्न-	६२	देवदुर्गतिदुःखानि	६०	द्राधिष्ठं जीवकालं त्व	१६३
दृष्टोऽय गौरवेणोचे	२६७	देवमानवराजोदा	४४६	द्रुमस्य पुष्पमुक्तस्य	१८५
दृष्टोऽपि तावदेतेषा	३१२	देवप्रक्रम एवाय-	२७८	द्वयं वभार तद्वक्त्र-	४८
दृष्टोऽसौ सच्चिवैस्तस्य	१७१	देवा इव जनास्तेषु	६२	द्वयमेव रणे वीरैः	४१७
दृष्टौ तौ तत्र तत्रेति	४७५	देवागमननिर्मुक्ते	४३०	द्वादशी दक्षिणा यातु	२५४
दृष्ट्या सन्मानयन् कौश्लि-	२६५	देवादेवैर्भक्तिप्रहैः	३६१	द्वारदेशसुविन्यस्त-	२६५
दृष्ट्वा च छिन्नवर्माणं	२८६	देवाधिपतिताचक्र-	४३६	द्वारपालनिरोधेन	३७३
दृष्ट्वा च तं ततो भीता	२०२	देवानामेष तुष्टाना	३०६	द्वारस्तम्भनिषण्णाङ्गा	३५७
दृष्ट्वा च त परा प्रीतिं	१६८	देवानामधिपः कासौ	२६	द्वारोपरि समायुक्त-	१०६
दृष्ट्वा च तं वायुसुतं पटस्थं	४२०	देवासुरभयोत्पादे	२७६	द्वित्रैर्भवैश्च निःशेष	३१६
दृष्ट्वा च तान् पशून् ब्रह्मान्	२४६	देवि पश्याट्वीं रम्या	१३३	द्विरदंशात्कर सिंह-	४४५
दृष्ट्वा च मातरं चिह्नैः	२४६	देवि शीलवती कस्य	३६१	द्विविधो गदितो धर्मो	३१८
दृष्ट्वा च त्रंपुःभिर्बुश	२८७	देवि सर्वापराधाना	३६४	द्विहस्तसम्भितामर्त्या	४३१

द्वीपन्यास्य समस्तस्य	१६३	धिट् मामचेतन पापं	४५४	नगराधिपस्य कन्याना	१६३
द्वीपैगिरिर्निर्भामे-	२०१	धिगस्तु तान् खलानेष	३११	नद्युपस्य सुतो यस्मात्	४६७
द्विपोऽय धर्मरत्नाना-	३३१	धिगस्तुत्सदृशान्मूर्खा	३६०	नद्युपोऽप्युत्तरामाशा	४६६
द्वैर्धाभावमुपेतेन	२२४	धिग्विद्यागोचरैश्चयं	२६६	न धोपित यतस्तस्मिन्	४६६
द्वौ च तत्र कुच द्वीपे	३३	धुन्वाना पक्ष्मती वेगात्	२५६	न च जात्यन्तरस्थेन	२५३
द्वौ महापादयो जेयां	३३	धृतोऽन्येन जयभाग-	१२८	न चानेनोदित मद्य	२३५
द्वौ नुताबुदपत्न्याता	४७०	धृतमेतदपुरयैर्मे	४५६	न चास्ति कारण किञ्चित्	१००
[ध]		धैत्र्यथार्पभोपङ्ज-	४७८	न जातिर्गहिता काचिद्	२५४
धत्ते यो नृपतिरख्याति	२६२	धौताम्बूलगगाणा-	२३०	न तथा गिरिराजस्य	३३४
धनदो वा भवत्येष	१५६	धातम्फटिकतुल्याम्भ	३५८	न तस्य गौरव चक्रे	२१०
धनवन्तो गुणोदाग'	३२६	व्यात्वंति चरणाङ्गुष्ठ-	२१८	न तस्या नयने निद्रा	३७२
धनुराहर धावन्य	२८२	ध्याननिर्दग्धपापाय	२२०	नत्वा वसन्तमाला त	३६३
धम्मिलमल्लिकावन्य	२७	ध्यायन्त वस्तु याथात्म्य	३७६	नत्वा वसन्तमालोचे-	३८०
धरणेन तत. न्युष्ट	६६	ध्यायन्ति यान्ति वल्गान्ति	४४८	नदी कूलेष्वरण्येषु	१६०
धरणेन ततो विप्रा	६६	ध्यायन्तीमाकुल भूरि	३७१	ननु केन किमुक्तोऽसि	३४६
धरण्यन्तरति चान्यद्	७८	ध्येयमेकाग्रचित्तेन	२४७	ननु ते जनित. कश्चिन्	३५२
धरण्या न्यपितुस्त्राग	१६१	प्रियसे देवि देवीति	३८६	ननु स्वय विबुद्धाया	३७६
धर्मं चरन्ति मोक्षार्थं	६४	व्यस्यन् जिनविद्वेष-	२३८	ननुतुर्गाने क्रीडा	२१८
धर्मध्यानप्रनक्तारगा	८६	व्यस्यमान तत मन्य	१४४	नन्दनस्येव धातेन	५५
धर्मशन्दनमात्रेण	१६१	व्यस्यमान तत संन्य दृष्ट्वा	१६५	नन्दनादियु रम्याणि	२६४
धर्मश्रवणतो मुक्तो	२६	व्यजन्नुत्राटिरम्येषु	२१०	नन्दान्नापय जीवेति	३६
धर्मसज्जमिद सव	३१४	व्यजेयु गृहशृंगेषु	११०	नन्दोश्चरे जिनेन्द्राणा	१०७
धर्मस्य पञ्च माहात्म्य	३२८	व्यनि. कोऽपि विमिश्रोऽभूत्	१८२	नभ.पयोमुचा व्रातै-	४६१
धर्मस्य हि दवानूल	११७	धस्तशत्रुश्च सुत्रामा	१४५	न पायेयमपूपादि-	४३८
धर्मात्मनापि लोकस्य	४८	व्यस्तसध्येन च व्याप्त	१६७	नभ.सचारिणी काय-	१६१
धर्मार्थनामसायाण	१४८	[न]		नभश्चरगारौरेभि.	१६६
धर्माभ्युविन्दुरुप्राप्ति-	४६	न करोमि स्तुति स्वस्य	२७६	नभश्चरत्वसामान्यं	२८१
धर्मेण भरण प्राप्ता	३१५	नक्त दिवा च भुञ्जानो	३२६	नभश्चरशशाङ्कोऽत्र	३३७
धर्मेणानेन कुर्वन्ति	३१८	नक्षत्रस्थूलमुक्ताभि'	४५	नभसा प्रस्थित क्वापि	१५५
धर्मेणानेन नयुक्ता	६०	न कश्चिदेकदेशोऽपि	५५	नभस्तिलकनाम्नोऽय	१२४
धर्मा मूल मुग्धोत्पन्ने-	३२८	न कश्चिज्जनितो नाय	३६४	नभोमन्त्रे गते भानौ	१६४
धर्मां रत्नपुरी भानु-	४२७	न ऋस्यचिन्नाम महीय-	४१८	नभोवदमलस्वान्तः	२०८
वातकी लक्ष्मणि द्वीपे	२७०	नरेण प्राप्यते छद्	२८५	नमः कुन्धुजिनेन्द्राय	२२१
धावमानो जयोद्भूत-	२६४	नगर व्रजतः पुतो	११८	नम. सम्यग्त्वयुक्ताय	२२१
धानुद्रेण गत्येन	२३३	नगरस्य समीपेन	२६३	नमः सिद्धेभ्य इत्युक्त्वा	१८८
धानुका शत्रुयो योगात्	१११	नगराणि जनोघाश्च	२४६	नमः सुमतये पद्म-	२२१
धान्याना पर्वताकारा	५५	नगरी परमोदारा	४२४	नमत प्रणत देवै-	१२०
विकृत्वा पापा गणाङ्गायु	३७०	नगर्यामथ लङ्काया	२१०	नमतीव सदायान-	१८
विकृ शरीरमिद चेतो	२१६	न ग्रामे नगरे नोप-	१६०	नमस्कृत्य च सभ्रान्त-	२०२

नमस्कृत्य वहाभ्येतान्	११०	नागभोगोपमाभोगा-	८३	नामिश्च तस्तुत दृष्ट्वा	४७
नमस्कृत्योपविष्टैस्ते-	८५	नागवत्याः सुता तस्मिन्	१६०	नाभेयसमयस्तेन	४६५
नमस्ते त्रिजगद्गीत-	४६	नागवृक्षोऽनुराधर्क्ष	४२६	नाभेयस्य सुनन्दाभूत्	५०
नमस्ते देवदेवाय	२२०	नागीयमिव तत्क्रान्तं	३६६	नाभेयो वा पुनर्यस्मिन्	५३
नमस्ते वीतरागाय	२०	नागेन्द्रकृतरक्षेण	१५४	नाम श्रुत्वा प्रणमति जन-	२६८
नमिसुव्रतयोर्मध्ये	४४१	नाशासीत् किल तल्लोकः	२४३	नामाक्षरकरैरस्य	१२५
नमेऽभिजनतो दोषो	६७	नातिशीतं न चात्युष्णं	३५	नामाख्यातोपसर्गेषु	४७८
नमेरुपल्लवापास्त-	२७४	नात्यन्तमुन्नतिं याता	१०३	नाम्नाथ मिश्रकेशीति	३४५
नमेर्विद्याधरेन्द्रस्य	६८	नाथ ते गमनं युक्तं	३५६	नाम्ना नागवती तस्या	१६०
नमोऽस्तु पुष्पदन्ताय	२२१	नाथ त्वयेमा विकला विना-	४५६	नाम्ना प्रहसित मित्र	३४२
नयमार्गं प्रपन्नेन	२८०	नाथ न्यासोऽमास्ता मे	४८७	नाम्ना महागिरिस्तस्य	४४४
नरत्वं दुर्लभं प्राप्य	३२१	नाथ याताः समस्तास्ते	४८	नाम्ना शाखावली पुत्रः	२००
नरनाथः कुटुम्बी वा	३२१	नाथा गगनयात्राणा	२०१	नायातः स दिनान्तेऽपि	२३६
नरवृन्दारकासक्त-	१६१	नाथेन तु विना यातान्	५३	नारटः कुपितोऽवोचत्ततः	२४१
नरान्तरमुखक्लेद-	२७८	नानाकाराणि यन्त्राणि	२३१	नारदस्तमथ श्रुत्वा	२४०
नराश्चन्द्रमुखाः शूराः	५६	नानाचेष्टितसपूर्णां	२२८	नारदालिखिता सीता	७
नरेन्द्र तत्र नास्त्येव	१०१	नानाजनपदान् द्वीपा	४१२	नारदोऽथान्तरे तस्मिन्	२४६
नरेन्द्रस्य धरादेव्या	७६	नानाजनपदैरेव	२६५	नारदोऽपि ततः काश्चिन्	२५८
नरोर्वन्तर्गनिक्षित-	३६६	नानादुरोदरन्यास-	४८२	नार्था हृदयवंगायामजायन्त	३३५
नवं पटलमञ्जाना	३३८	नानाद्रुमलताकीर्णै	३५०	नाशने शयनीयेन	१६०
नवतिः पञ्चभिः सार्ध-	४३२	नानादेशसमायातै-	१७	नासावभिमतोऽस्ताक	२५१
नवतिश्च सहस्राणि	४२६	नानादेशसमुत्पन्नै-	२३८	नासिकाग्रनिविष्टाति-	४५१
नवतिस्तस्य सज्जाता	७२	नानादेशोद्भवं श्रुत्वा	३५६	नासौ शिष्यो न चाचार्यो	११५
नवनीतसुखस्पर्शौ	४६१	नानाधातुकृतच्छाया	३६२	नास्ति कश्चिन्नरो लोके	८६
नवपल्लवसच्छाय	३४४	नानाधातुसमाकीर्ण	२१५	नाहमिन्द्रो जगन्नित्य-	३५३
नवयौवनसम्पूर्णां	१६८	नानापुष्पसमाकीर्णां	२२८	निःशेषदृश्यविभ्रान्त-	१०६
न विना पीठवन्धेन	३३	नाना भवन्ति तिष्ठन्ति	४४८	निःशेषदोपनिर्मुक्तो	५७
न व्यवस्था न सम्बन्धा	४३१	नानारत्नकरासङ्ग-	३६६	निःसर्पणमरं तावट-	२७५
न शक्नोमि गजं धर्तुं	१६१	नानारत्नकरोद्योत-	४३	निःश्रेयसस्य भूताना	२२०
न शील न च सम्यक्त्वं	३२२	नानारत्नकृतच्छाय	२२७	निकारमरुणग्रामे	७
न शैलेषु न वृक्षेषु	४०४	नानारत्नकृतोद्योता	६४	निगदन्त्येवमार्दीनि	२०६
नष्टधर्मे जगत्यस्मिन्	४६	नानारत्नकृतोद्योतै-	२२७	निघ्नन्ति तानि रन्ध्रेषु	१३५
न सम्यक्करुणा तेषु	३२५	नानारत्नचिताना च	१०४	निजगाद ततः शक्रः	१४४
न सा त्रिदशनाथस्य	३०३	नानारत्नप्रभाजाल-	७८	निजगोत्रक्रमायात	१६६
न सोऽस्ति पुरुषो भूमौ	१८३	नानारत्नप्रभाव्यानि	४७२	निजप्रकृतिसंप्राप्ति-	३४६
नाकार्दसंज्ञकृत्यायं	१२६	नानालब्धिसमुत्पत्तेः	३८२	नितम्भवहनायास-	११३
नाकोपभुक्तपाकस्य	४१०	नानावर्णानि वस्त्राणि	५७	नितान्तं च हृतो दूरं	३४५
नागः कस्यचिदप्यत्र	१८५	नानावादित्रशब्देन	२६६	नितान्तं मृदुनि क्षेत्रे	३६
नागभोगसमाकार-	२६३	नानासव्यवहाराभि-	२०७	नितान्तं यद्यपि त्यागी	२२२

नितान्तं ये तु कुर्वन्ति	३०८	निर्घातवधहेतुं च	५	निष्क्रान्तस्तम्भितान् वणान्	२७६
नितान्तं सुकुमाराङ्गा	१५८	निर्घातेनानुल्लाथासौ	३६५	निष्क्रान्ताश्च सुसंनद्धा-	२८२
नितान्तविमलैश्चक्रे	२७	निर्भाषणामतिस्थूलैः	१०३	निष्क्रान्ता सा गुहावासात्	३६८
नितान्तोऽञ्जलमप्यन्ये	८१	निर्वन्धूनाननाथानां	२१	निष्क्रान्तो विभुना सार्धं	३०१
नित्यान्धकारयुक्तेषु	११८	निर्वुद्धे ! कोद्रवानुत्वा	३०१	निष्कृष्य च स्नसातन्वीं	२२०
नित्याल्लोकेऽथ नगरे	२१४	निर्मितात्मस्वरूपेव	३८	निष्ठुरत्वं शरीरस्य	१५३
नित्याल्लोकेषु ते तेषु	३३०	निर्युक्तैः सर्वदा पुम्भि-	२३०	निसर्गशास्त्रसम्पत्कृत्वै	२३
निधनं साहसगते	८	निर्लज्जो बल्लमुक्तोऽयं	११६	निसर्गोऽयं तथा येन	३८४
निधानं कर्मणामेव	१५२	निर्वासकारणं चात्या	४०६	निस्त्रिंशत्तन्वृन्दैश्च	२५६
निन्दन्ती भृशमात्मानं	३५१	निर्वाससां तु धर्मेण	११८	नित्स्त्व मण्डलाभिमित्राद्	३८१
निन्दन्ती स्वमुपालम्भं	३७७	निर्वात्यतां पुरादस्ना-	३७३	निहतश्च तव भ्राता	१३२
निन्दनं साधुवर्गस्य	२७३	निर्वास्यासौ स्थितः सार्धं	२१०	नीतः सहस्रराशिश्च	२६४
निपत्य पादयोस्ताव-	२८५	निर्वृत्तः प्रस्थितो विन्दु-	४७६	नीतः स्वनिलयं वदूध्या	२३३
निभृतीच्छ्वासनिश्वात्	३७८	निर्वृत्तं च विधानेन	१३५	नीता च जनकागारं	१७६
निमज्जदुःखवत्सूक्ष्म-	११३	निर्वर्तयाम्यतो देशात्	२१५	नीतो नवेन नीपेन	२६६
निमग्नवंशमग्राङ्ग-	१६८	नित्रासः पूर्वपुरथानां	१०	नीलनीरजनिभासा	३३५
निमित्तमात्रतान्येषा	१८६	निवासोऽनुत्तरा ज्ञेया	४४१	नीलनीरजवर्णाना-	५४
निमित्तमात्रमेतस्मिन्	३०२	निविडः केशसंघातः	४८	नीलाञ्जनगिरिच्छायः	४०७
निमेषमपि सेहाते-	३३६	निविष्टं प्रालुकोदारे	४६०	नीलाञ्जनचयैर्व्यातिं	४६१
निमिषेण मल्लक्षोणीं	२५६	निवृत्तं दयितं श्रुत्वा	३५०	नीलेनेव च वल्लेण	३४३
निम्नगानाथगम्भीरा	३१८	निवृत्त्य क्रोधदीप्तेन	१४५	नीलोत्पलेक्षणां पद्म-	१४६
नियन्तुमथ शक्नोपि	१८०	निवृत्त्य त्वरयात्यन्त-	२५८	नीवीविमोचनव्यग्र-	३६४
नियमात् कुर्ये यत्मा-	२७६	निवृत्त्य रावणायाम्-	२७५	नुदन्त्युच्छ्रान्ति कर्षन्ति	४४६
नियमादानतश्चात्र	३८१	निवेदितं ततस्तेन	१६७	नुनुदुः खेचराः खेदं	२७४
नियमानां विधातारः	३१६	निवेदितमिदं सार्धो-	३६५	नूनं कश्चिन्मास्तेऽस्मिन्	१०६
निरपेक्षमतिः कूर्म्यां	२४८	निवेदितस्ताडित्केशः	१२०	नूनं पुराकृतं कर्म	३००
निरक्षेपस्ततो भूत्वा	३६१	निवेद्य कुशर्ल तेन	४७२	नूनं भद्रसमुत्पत्तिः	२६८
निरीक्षिता पितृभ्यां ते	१३६	निवेद्य मुच्यते दुःखा-	३४३	नूनं मृत्युसमीपोऽसि	१६२
निरीक्ष्य राहज्यलीनतेजसा	४५४	निवेश्य तत्प्रियोद्दिष्टे	३६७	नूनं वैश्रवणः प्राप्तः	१६७
निरीक्ष्य सह देवी तं	४५८	निशान्त इत्ययं स्वष्टो	४२	नूनमस्याः प्रियोऽसौ ना	३४७
निरैद्वैश्रवणो योद्धुं	१८२	निशि भुक्तिरधमो वै-	३२५	नूनमासन्नमृत्युत्त्वं	३५४
निर्गतः सौरमञ्च्यास-	४४६	निश्चक्राम ततो गभात्	४३	नृपेणोचे पुनः सूदो	४६८
निर्गतस्यान्तशल्पश्च	२२३	निश्चक्राम पुरो राजा	३१	नेदीयान्संततो मार्गं	४५०
निर्गत्यासौ ततस्तस्मा-	४०२	निश्चयोऽपि पुरोगात-	१६१	नेह देशे वनं रम्यं	१२७
निर्ग्रन्थं भवतो दृष्ट्वा	४६०	निश्चिन्निपुश्च पुष्पाणि	२६४	नैनेन कथितं किञ्चित्-	५३
निर्ग्रन्थमग्रतो दृष्ट्वा	६५	निश्चिन्निपुश्च प्रायः	४३०	नैमित्तेन समादिष्टं	४७३
निर्घाट्येतामिमावस्माद्	१२७	निश्वासेनामितेनासी-	३०६	नैवं चेत्युदते पश्य	१८०
निर्घाट्य तान् त्वया शत्रून्	६२	निपृद्य च मुनेत्रं च	७२	नैविकीयातर्न युद्ध-	४३६
निर्घातं निहतं ज्ञात्वा	१३७	निष्कम्पमपि मूर्द्धस्थं	१२२	न्यग्रोधस्य यथा स्वल्पं	३२६

न्यायवर्तनसतुष्टाः	५६	पद्मावतीति जायास्य	४४५	परिवर्ज्या भुजङ्गीव	३२०
न्यायेन योद्धुमारब्धाः	२३२	पद्मेन्दीवररम्येषु	११३	परिवारेण सर्वेण	१४५
नूनः कोटिसहस्रेण	४२६	पद्मेन्दीवरसच्छन्नं	४१	परिशिष्टातपत्रादि-	४६०
[प]		पद्मव्यवहृतिर्लौख-	४८०	परिष्वज्य हनूमन्तं	४१२
पद्मवातेन तस्याभू-	२६३	पद्मच्छ मागधेशोऽथ	२४६	परिहासप्रहाराय	३६
पद्मीव निविड वद्धः	२५८	पद्मच्छ प्रियया वाचा	१५०	परिहासेन किं पीतं	४५२
पद्मस्पन्दविनिर्मुक्ते	१८	परचक्रसमाक्रान्त-	७८	परीवहगणस्यालं	३०१
पद्मना नीयते पद्म-	३१२	परपीडाकर वाक्य	६१	परैरालोकितो भीतै-	२३३
पद्मपुत्रशतान्यस्य	६३	परमा भूतिमेतस्मात्	३८५	परोपकारिण नित्यं	२०७
पद्मवर्णमहारत्न-	४१	परमाणोः परं स्वल्पं	६०	पर्यङ्कासनमास्थाय	४५३
पद्मवर्णैश्च कुर्वन्तु	२६७	परमार्थहितस्वान्तः	२१३	पर्यङ्कासनयोगेन कायो-	४६३
पद्माशन्चापहान्यातः	४३२	परमार्थावबोधेन	१७८	पर्यङ्कासनयोगेन यस्मा-	३८५
पद्माशदब्धिकोटीना	४२६	परमाश्चर्यहेतुस्ते	४८६	पर्यटश्च बहून् देशान्	१६१
पद्मोदारत्रतोत्तुङ्गे	११७	परमोत्साहसम्पन्नाः	४५३	पर्यटच्च चिर क्षोणीं	४७४
पद्मांशुकपरिच्छन्ने	४०	परस्परगुणध्यान-	३६६	पर्यटन्तौ युवामत्र	११६
पद्माशुकोपरिन्यस्त-	४५	परस्परजवाघात-	२६०	पर्यस्य दुद्धताराव-	२१७
परिडतोऽसि कुलीनोऽसि	१८०	परस्पररदाघात-	२६३	पर्याप्नोति परित्यक्तुं	१००
पतद्विक्रष्टपापाणरवा-	२१७	परस्परवधास्तत्र	३०८	पर्वतोऽपि स किष्किन्धः	१३४
पतन्त दुर्गतौ यस्मात्	३१३	परस्परसमुल्लाप	१०३	पलद्भ्रमरसगीत-	३१
पतन्तोऽपि न पृथस्य	२८६	परस्त्री मातृवद् यस्य	१४८	पलाशाग्रस्थितानेते	३६२
पतितं तन्मनुष्यत्वं	३१७	परां प्रीतिमवापासौ	२६५	पत्यभागत्रयन्यूनं	४२६
पतितान् सिक्तापृष्ठे	२३०	पराचीन ततः सैन्य	३५४	पत्योपमस्य दशमो	४३२
पनिता वसुधारा त्वं	३४५	पराननुभवन् भोगान्	४६५	पवनं च परिष्वज्य	४०८
पत्यसङ्गमदुःखेन	३६६	पराभिभवमात्रेण	२३४	पवनञ्जयवीरेण	४०७
पत्रवस्त्रसुवर्णादि-	४८१	परावृत्तास्तथाप्यन्ये	२८३	पवनञ्जयवृत्तान्ते	४०५
पदातिभिः समं युद्धं	२८७	परिकर्म पुनः स्नेह-	४८१	पवनाकम्पनाद्यस्मिन्	१०२
पद्मचेष्टितसम्बन्ध-	४	परिग्रहपरिष्वङ्गाद्	२५	पवनोऽपि समारुह्य	४०३
पद्मजन्मोत्सवस्यानु-	४६०	परिग्रहे तु दाराणा	३७४	पवित्राण्यक्षराण्येवं	२२१
मद्ममाली ततो भूत्वा	७०	परिणीय स ता भोगान्	३०२	पशुभूम्यादिकं दत्तं	३११
पद्मरागमणिः शुद्धः	४५	परितः स्थितयामल्ली	१५१	पशूना च वितानार्थं	२५०
पद्मरागविनिर्माण-	१८६	परित्यज्य दयामुक्तो	४५८	पशोर्मध्ये वधो वेद्याः	२५५
पद्मरागार्यै रुद्रैः	२०५	परित्यज्य नृपो राज्यं	११२	पश्चादेमीति तेनोक्त-	२३६
पद्मलक्ष्मणशत्रुघ्न-	७	परित्यज्य भयं धीरो	१४६	पश्यत चित्रमिदं पुरुपाणा	३०४
पद्मश्चान्यो महापद्म-	४२५	परित्यज्य महाराज्यं	४३८	पश्यता कर्मणा लीला	३८०
पद्मस्य चरितं वक्ष्ये	२	परित्यज्य सुखे तस्मा-	३००	पश्य तोषेण मे जातं	२२१
पद्मागर्भं समुद्भूतः	६६	परित्रायस्व हा नाथ ।	३८६	पश्य दृश्यत एवायं	२७५
पद्माट्टिजलजच्छन्नाः	३५	परिदेवमथो चक्रे	१०७	पश्यन्तो विस्मयापूर्णाः	२०४
पद्माटीन् मुनिसत्तमान्	६	परिभूतरविद्योत-	२२	पश्यन्त्योऽपि तदा सस्यं	४८
पद्मावतो कुशाग्रं च	४२७	परिवर्गस्ततस्तस्याः	६८	पश्यन्निन्द्रस्य सामन्ता-	२६१

पश्यत्रीलमणिच्छात्र	१०३	पापनक्षत्रमर्वादा	१४५	पुण्यकर्मादृष्टाज्जात्या	३०४
पश्यन् प्रच्छन्नागात्राणि	८८	पापशत्रुनिघातात्	४६	पुण्यवन्तो महासत्त्वा पुरुषा-	३७४
पश्य पश्य गुहामेता	३७८	पापादस्मात् मुच्येद्द-	२७२	पुण्यवन्तो महासत्त्वा मुक्ति-	२१६
पश्य पश्य पुगस्यात्	८०२	पापान्वकारमन्त्रस्था	३१३	पुण्यवानग्निं यत्पूज्यो	२६८
पश्य पश्य प्रिय ! व्रता	३८८	पापेन केनचिन्मृत्यु	२३६	पुण्यवृत्तितया जैन्या	३८
पश्य श्रेणिक पुण्याना	१६१	पाणिजातऋसन्तान-	४५	पुण्यस्य पश्यतोदार्यं	४१५
पश्य श्रेणिक सनारे	४६५	पाग्भ्यं तत् श्रुत्वा	१६२	पुण्येनानुग्रहीतास्ते	२६५
पश्य वल्लोऽस्य विन्नीर्ण	१२५	पाग्भ्यं तं तेनेव	३६६	पुत्र पूर्णव्रनस्याथ	७३
पश्यैश्वर्यविन्देन	१८४	पालयिन्या प्रिय केचित्	७१	पुत्रः समानात् च पत्न्यात्	४५७
पाकशाननमैक्षि	१०६	पालिमानुग्रहोऽन्य	४१७	पुत्रप्रीत्या तमाघ्राय	४०८
पाक्यापाक्यतयामाप-	२३	पाशेन ऋश्चिदानीम्	२८६	पुत्रलक्ष्मीं कदा तु त्व	१५६
पाचनच्छेदनोऽप्यन्य-	८८२	पाश्वंगे पुर्ये ऋश्चि-	१२३	पुत्राय सकल द्रव्यं	७४
पाटला वसुपूषश्च	४०६	पश्वंश्रन्यापरो हन्त	१२३	पुत्रा रक्षन् मा म्लेच्छै-	१५६
पाणित्रैरेकतानेन	३६०	पाश्वं निराण्योपस्य	४५४	पुत्राया गतमेतस्य	११२
पाणिनवाहनान् संख्या	३७२	पाश्या वीरजिनेन्द्रश्च	८२	पुत्रो भीमप्रमन्याद्य	६५
पारदुग्ममलमजाया	४१	पिण्डवित्वा श्वधीपान्तो	२६३	पुत्रो विजयसिंहोऽन्य	१२२
पाण्डुकन्येव श्रुवांग	२१६	पिण्डीकृतसमन्ताद्वा	६१	पुन. पुनश्चकारासौ	३६४
पाण्डुरेगोपरिन्धेन	२८६	पितर मातर मातु-	४१२	पुनराह ततो धात्री	१२५
पातालनगरेऽपि तु	३५५	पितामहस्य मे नाथ	८७	पुनरुक्त प्रियं भूरि	२४२
पातालपुण्डरीकाख्य	८१३	पिताय जननी चैषा	१८६	पुनर्जन्मेव ते प्राप्ता	१४५
पातालादथ निर्गल	१३६	पिता विचित्रभानुर्मे	३६५	पुनर्जन्मोत्सव तस्य	४८६
पातालादुत्थितैः ऋरै-	२१७	पितुर्मम च ते वाक्य	३४६	पुनर्वसुश्च विजातो	४३६
पातालावस्थिते तत्र	१३२	पितुयां वधश्च युद्धे	४३६	पुनश्च यन्निर्मुक्त-	२३०
पातालादरगम्भीर-	४३	पितुन्ने महर्षीं प्रीति-	२११	पुनश्चानेन सा पृष्टा	१६४
पार्थिवो लोष्टलेशोऽपि	११७	पितृभ्या भवनाडेप-	४६२	पुनन्तदुद्वृत्य जगाद राजन्	४५६
पादद्वय जिनेन्द्राणा	२१३	पितृन्नेहान्वित द्वारे	३७३	पुन्नागमालतीकुन्द-	४०
पादपीठेषु चरणा	१६४	पितृन्नेहान्वित द्वारे	१४८	पुर तत्र महेच्छेन	१०५
पादयोः क्योर्नाभ्या	३६४	पितृन्नेहान्वित द्वारे	४८४	पुर प्रदक्षिणीकृत्य	४३
पादयोश्च प्रणम्योचे	१६३	पितृन्नेहान्वित द्वारे	७५	पुरचूडामणौ गेहे	२०६
पादयोस्तामदाकृत्य	१८२	पितृन्नेहान्वित द्वारे	१४६	पुरन्दरपुराकारे	१०८
पादाङ्गुष्ठेन ऋश्चिन्त्र	१२३	पितृन्नेहान्वित द्वारे	२७	पुरन्दरस्य तनयमसूत	४५४
पादाङ्गुष्ठेन यो मेरु	१६	पितृन्नेहान्वित द्वारे	१५४	पुरन्त्रीणा सहस्राणि	६१
पादानेन नमायुक्ता.	११७	पितृन्नेहान्वित द्वारे	२८६	पुरमन्ति महारम्यं	४७०
पादासनस्थित ऋश्चि-	१२३	पितृन्नेहान्वित द्वारे	२५७	पुरस्कृत्य ततो वारुं	४०६
पानाशनविश्वो काचित्	४०	पीनस्तनकृतान्योन्य-	२०६	पुरस्य क्रियता शोभा	३७२
पानाहारादिकं त्यक्त्वा	६३	पीनस्तनतदास्फाल-	१५८	पुरस्य यस्य यन्नाम	१४७
पापः पर्वतको लोके	२४३	पुण्डरीकेक्षण पश्यन्	१६५	पुरस्सरेण तेनासौ	४०२
पापकर्मनियोगेन	७५	पुण्डरीकेक्षण मेरु	१६१	पुराणि तेषु रम्याणि	१०१
पापकर्मवशात्मान.	३२६	पुण्य केचिदुपादान	८१	पुरा वदखिलं सत्त्वं	४१७

पुरीयं साम्प्रत कृत्या	२६७	पूर्वमेव गुणै रक्ता	२७५	प्रतिगच्छन् स तामूढ्वा	१३४
पुद्गसवेगसम्पन्नो	३८२	पूर्वमेव च निष्क्रान्तो	१८२	प्रतिजा च चकारेमा	३५४
पुरे जननमिन्द्रस्य	५	पूर्वासदेवजनिताद्	८	प्रतिज्ञा चाकरोदेव	२४१
पुरे तथा किन्नरगीतसजके	४१६	पूर्वाभ्यासेन शक्रस्य	३०१	प्रतिज्ञा च पुरस्तस्या	१६४
पुरे पोदनसंज्ञेऽथ	७१	पूर्वांपार्जितपुण्याना	१११	प्रतिज्ञायेति पुण्येन	१६४
पुरे मेघपुरे न्यस्तः	१४६	पृच्छ्थमाना यत्नेन	३४८	प्रतिपक्षासनाकम्प	१५३
पुरे हनूरुहे यस्मा-	३६६	पृथक्त्वैकत्ववादाय	२२०	प्रतिपक्षस्य दृष्टान्या	२२६
पुरे हेमपुराभिख्ये	३४०	पृथक्-पृथक् प्रपद्यन्ते	२७२	प्रतिपद्य कदा दीक्षा	३२२
पुर्यामशनिवेगेन	१३५	पृथिवीमत्यभिरख्यास्यः	४७०	प्रतिविम्ब निजं दृष्ट्वा	३५६
पुष्पकाग्र सभारूढो	२२७	पृथुप्रेतवनं धीरा	४६३	प्रतिविम्बैरिवात्मीयैः	२०२
पुष्पदन्तोऽष्टकर्मन्तः	८२	पृथुवेपथवः केचि-	१६५	प्रतिबुद्धः शशाङ्कोऽपि	१४५
पुष्पधूलीविमिश्रेण	४५०	पृथ्व्या किं मगधाधीश-	२२७	प्रतिभानुः पुनश्चोचे	४०६
पुष्पभूतिरिय दृष्ट्वा	७६	पृष्ठतश्च ततः सेय	२०६	प्रतिभानुरुदन्त त	४०६
पुष्परागमणोर्भाभिः	१०१	पृष्ठस्कन्धशिरोजङ्घा	२४४	प्रतिभानुसमेतास्त्रे	४०७
पुष्पलक्ष्मीमिव प्राप्य	२७०	पृष्ठस्य दर्शनं येन	१३२	प्रतिमा च जिनेन्द्रस्य	३६४
पुष्पाञ्जलिं प्रकीर्ष्याथ	१३३	पोदनं द्वापुरी हस्ति	४४०	प्रतिमा च प्रवेश्यैना	३६४
पुष्पाणा पञ्चवर्णाणा	५८	पोदनं शैलनगरं	४३६	प्रतिमागुरवो दन्ता	२८८
पुष्पान्तकसमावेश	६	पौदनाख्ये पुरे तस्य	६१	प्रतिमादेवदे वाना	३८२
पुष्पान्तकाद् विनिष्क्रम्य	१६६	पौरुषेणाधिकस्ताव-	२८१	प्रतिमाश्च सुरैस्तस्य	२६१
पुष्पामोदसमृद्धेन	१३३	पौरुमास्या यथा चन्द्रः	३२६	प्रतिमास्थस्य तस्याथ	५३
पुष्पोत्तरवदत्येतद्	६६	पौरुवापयोधरो भूर्य-	४८३	प्रतिशब्दसम तस्या	३७५
पुष्पोपशोभितोद्देशे	१८	प्रकारण्डपाण्डुरागारा	४४१	प्रतिश्रीमालि चायासी-	२८५
पु सा कुलप्रसूताना	३४६	प्रकाममन्यदन्वेष्यो	६४	प्रतिश्रुतिरिति ज्ञेय-	३६
पुंस्कोकिलकलालापै-	४५०	प्रकीर्णा सुमनो वृष्टि-	५६	प्रतिसूर्यस्ततोऽवोच-	३६६
पुस्तकर्मत्रिधा प्रोक्त	४८०	प्रकृतिस्थिरचित्तोऽथ	३५३	प्रतीकाग्राहवच्चास्य	१८१
पूजा च विविधैः पुष्पैः	१०७	प्रकृत्यनुगतैर्युक्त	२१५	प्रवीन्दुरपि पुत्राय	१२१
पूजिता सर्वलोकस्य	३८	प्रक्षाल्य दशवक्त्रोऽपि	१८६	प्रतीहारगणानूचे	४५८
पूजितो राजलोकस्य	२४६	प्रगुणाकारणदेशेषु	१०३	प्रतीहारेण चाख्यात-	२३२
पूज्य नाभेयनिर्वृत्या	३३६	प्रच्युत्यभरते जातो	७७	प्रत्यक्षज्ञानसम्पन्न-	३००
पूर्णाः परमरूपेण	८६	प्रजाग इति देशोऽसौ	५१	प्रत्यक्षमक्षमुक्त च	४३८
पूर्णचन्द्रनिभादर्श	५१	प्रजापत्यादिभिश्चाय-	२५१	प्रत्यङ्गादिपु वर्णेषु	४७६
पूर्णमाणः सदा सेव्यै-	२०४	प्रणतेषु दयाशील-	२६२	प्रत्यरिं व्रजतोऽमुष्य-	४१३
पूर्णैन्दुवदने ब्रूहि	४८७	प्रणम्य च जिनं भक्त्या	६३	प्रत्यह क्षीयमाणेषु	४६८
पूर्णैन्दुसौम्यवदना	१५७	प्रणम्य शेषसघ च	६०	प्रत्यह भक्तिसयुक्तैः	२१८
पूर्वं ब्रह्मरथो यातु	१८८	प्रतस्थे च ततो युक्तः	११०	प्रत्यागच्छंस्ततोऽपश्य-	१३३
पूर्वं हि मुनिना प्रोक्तं	१६०	प्रतापेन रवेस्तुल्यः	४६६	प्रत्यागमः कृते शोके	१३१
पूर्वजन्मनि नामानि	४२५	प्रतापेनैव निर्जित्य	४६६	प्रत्युवाच ततो माली	१४२
पूर्वजन्मानुचरितं	८	प्रतिकर्तुमशक्तोऽसौ	२१०	प्रत्युवाच स तामेव	१५२
पूर्वधर्मानुभावेन	३२६	प्रतिकूलितवानाशा	२१०	प्रत्येकमेतयोर्भेदाः	४२६

प्रथम चावसर्पिण्या	१	प्रविश्य वमति स्वा च	३३३	प्रहादमपि तत्राया	३५५
प्रथमादपि सा दुःखात्	४०६	प्रविष्टः परसैन्य स	४१४	प्रहादेन सम तेन	३४६
प्रथमे दर्शने याऽभ्य	४३५	प्रविष्टश्च पुर पौरै-	४०१	प्रहादो दशवक्त्रश्च	४४२
प्रथमो भरतोऽतीत-	८३	प्रविष्टा रक्षसा सैन्य	२३२	प्रहादोऽपि तदायासीत्	३३६
प्रथिता विमलाभास्य	८४	प्रविष्टाश्च प्रतीहार-	२६७	प्राकारस्तत्र विन्यस्तो	१०६
प्रदर्श्य रटन काचित्	१७५	प्रविष्टास्ते ततो लङ्का	१३७	प्राच्यमध्यमयौधेय-	४७६
प्रदीप इव चानीत,	२२८	प्रवेष्टु सहसा भीते	३७८	प्राणतोऽनन्तरातीतो	४२६
प्रदेशेऽपि स्थिता कश्चि-	१२२	प्रविष्टो नगरीं लङ्का	७६	प्राणधारणमात्रार्थं	२१४
प्रदेशे सचरन्तीह	३७८	प्रविष्टो मुदितो लङ्का	२६६	प्राणातिपाततः स्थूला	३१६
प्रदोपमिव गजन्त	२०	प्रवीणाभ. प्रवालाभा	३६०	प्राणातिपातविरत	३०६
प्रधानं बाहुत्रलिनो	५	प्रवीण मा कृथाः शोक	४१७	प्राणिघातादिकं कृत्वा	६३
प्रधान दिवसाधीश	२७१	प्रवृत्ते ढाक्ये युद्धे	२०६	प्राणिनो ग्रन्थसङ्केन	२४७
प्रधानाशामुखैः म्बुद्धै-	२१	प्रत्रजामीति चानेन	१२१	प्राणिनो मारयिष्यन्ति	६५
प्रबुद्ध पुत्रशोक्रेन	४३३	प्रत्रज्य च पितु पार्श्वे	७७	प्राणेशसकथा एव	३८
प्रबुद्धेन सता चैय	२१३	प्रशस्ताः सततं तस्य	३२१	प्रातिष्ठन्त महोत्साहा	४३
प्रभया तस्य जातस्य	१५३	प्रशान्तेन शरीरेण	३२	प्रातिहार्याणि यस्याष्टौ	३२५
प्रभव क्रमत कीर्ति	४	प्रष्टव्या गुरवो नित्य	३०	प्रापद्देवीसहस्रस्य	१७४
प्रभामण्डलमेवासौ	७३	प्रसन्नसलिला तत्र	२७४	प्राप्तमङ्गलसकारो	१५७
प्रभाव वेदितुं वाञ्छन्	१७४	प्रसन्नादि. प्रसन्नान्त-	४७६	प्राप्तमेव ततो मन्ये	१६०
प्रभावात् कस्य मे कम्प	१६	प्रसन्ने मयि ते वत्स	१६३	प्राप्तविद्याभृद्देश्येन	७३
प्रभावात्तस्य बालस्य	१६६	प्रसाद कुरु मे दीक्षा	४६०	प्राप्तश्च तमसौ देश	३१
प्रभासमुज्ज्वल कायो	४५४	प्रसाद भगवन्तो मे	६३	प्राप्तश्च सहितो देवै-	२०
प्रभुर्विभुगविध्वसो	६७	प्रसादसम्मदौ साक्षा-	४६१	प्राप्तश्चाञ्जनसुन्दर्या-	३६२
प्रभूत गोमहिष्यादि	३२८	प्रसादस्तेन नाथेन	४५६	प्राप्तानि विलय नून	३६२
प्रमत्तचेतस पाप	४५१	प्रसादात्तव विज्ञात	४२४	प्राप्तिं च जितपद्मायाः	७
प्रमाण कार्यमिच्छायाः	३२०	प्रसाधनमति. प्राप्त-	१५	प्राप्तेन वापि कि तेन	२५७
प्रमाण योजनास्य	१०५	प्रगीढ तव भक्ताऽस्मि	३५२	प्राप्तो जीव. कुले जातो	३००
प्रमोदं परम विभ्रज्जनो	२६५	प्रसीढ भगवन्नेतत्-	३२	प्राप्तुयाद् यदि मामैता	१७३
प्रयच्छत्प्रतिपक्षस्य	२८८	प्रसीढ मुख निदोपा-	२४५	प्राप्नोति जन्ममृत्यु च	३२६
प्रयच्छन्तीत्युपालम्भ	३५२	प्रसीढ व्रज वा कोप	२०२	प्राप्नोति धर्मसवेग	२४
प्रयथावस्वतन्त्रत्व	२६३	प्रसूनप्रकरावाप्त	२८	प्राप्य जुल्लोक चारित्र	२४६
प्रयाणमूचिना तेन	३४८	प्रसेकममृतेनेव	१४८	प्राप्य तत्र स्थितः काल	१३१
प्रलम्बितमहाभोगि-	४५१	प्रसेवकमितो गृह्णा-	३२०	प्राप्य तान् कदलीस्तम्भ-	२१३
प्रलयज्वलनज्वाला-	३८६	प्रस्तावगतमेतत्ते	६६	प्राप्य वा सुरसगीत-	२०३
प्रवर्तितस्त्वया पन्था	२०	प्रस्थितश्च स तं देश	२२६	प्राप्य स्वप्नेऽपि तस्याज्ञा	८३
प्रवर्त्यांजितनायोऽपि	८४	प्रस्फुरच्चाग्नेरश्वै-	१८२	प्राप्यास्य रावणश्छिद्र-	४१५
प्रविवेश ततो दूतः	१७६	प्रस्वेदत्रिन्दुनिकर-	३६५	प्रायश्चित्त च निर्दोषे	२५४
प्रविवेश निजामीशो	२०५	प्रहारं मुञ्च भो शूर	२८८	प्रायश्चित्त विनीतिश्च	३१४
प्रविशन्ति रण केचित्	३०६	प्रहादराजपुत्रस्य	३६५	प्रायेण महता शक्ति-	३०४

प्रावर्तन्त शिवारावो	३८६	बभूव नगरे राजा	४३३	ब्रह्मो नाम तदा योगो	३६७
प्रासमुद्गरचक्रासि	१४४ ^१	बभूव पुण्डरीकिण्यां	४३६	ब्रुवन्नेव स संप्रातः	४०२
प्रासादं हीनसत्त्वाम्ते	४७५	बभूव रावणः साक	२७८	[भ]	
प्रासादादि ततः कार्यं	३१३	बभूव सुमहजन्य	१८३	भक्ता भव जिनेन्द्रणा	३८५
प्रासादास्तत्र वृक्षेषु	३५	बभूवासौ शुभाकारो	७२	भक्त्या कृतमिदं देवैः	४५
प्रासादे सोऽन्यदा जैने	६२	बभूवेति दशग्रीवे	२६४	भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च	४८१
प्राह्लादेरिव रागेण	३४३	बालनामापर मात्रा	४६१	भगवंस्त्वत्प्रसादेन	३०४
प्रियदत्ता नवास्तस्य	३६५	बलवद्भ्यो हि सर्वेभ्यो	८६	भगवन्नपि ते देहे	३७६
प्रियमुक्तातनुस्तस्या-	३६५	बलवाश्च श्रुतस्तेन	२३८	भगवन्न ममाद्यापि	३१८
प्रियागतमनस्कस्य	४०४	बलाका विद्युट्त्रिन्द्राल्म	२६५	भगवन्न मया नारी	३३२
प्रियात्परिभव प्राप्ता	३५२	बलाना हि समस्ताना	२२६	भगवन्नवसर्पिण्या	८०
प्रियाणा विप्रयोगेन	२३	बलीयसि रिपौ गुप्ति	१३१	भगवन् पद्मचरितं	३२
प्रियेण परिभूतेति	३६२	बलीयान् वज्रवेगोऽय-	१३१	भगवान् जातुमिच्छन्ति	३०७
प्रीतिक्रूटपुरेशस्य	१३७	बले च राक्षसेशस्य	२३२	भगवत्प्रवृत्तिमालोक्य	२१४
प्रीतिमत्या समुत्पन्न-	१४८	बलो मारुतवेगश्च	४४१	भगवन्मौलिशिरोगाढ-	२१८
प्रीतिर्ममाधिका कस्मात्	७६	बहिःक्रीडा विनिष्क्रान्ता	१६१	भग्नः किलानुसर्तव्य-	१३२
प्रेक्ष्य च प्रभवागारं	२७१	बहिःरत्नश्च स सङ्गं	३३७	भग्नवकाशमाकाश	१६८
प्रेक्षापूर्वप्रवृत्तेन	१३१	बहुनाच किमुक्तेन	४८४	भङ्गं करोमि नास्थाया-	२१३
प्रेरितः कोपवातेन	१८३	बहुसैन्यं दुरालोक-	२१२	भङ्गमालानवृक्षाणा	१६७
प्रेरिताः स्वामिनो भक्त्या	२८७	बहून्यस्य सहस्राणि	२०६	भङ्गासन्न ततः सैन्यं	२३२
प्रोक्ता एतेऽवसर्पिण्या	८३	बान्धवो भानुकर्णोऽपि	१८६	भज्यमान ततः सैन्य-	२८३
प्रौढेन्दीवरगर्भाभः	४६१	बालकोऽङ्गे भजन् क्रीडा	२८५	भज्यमानैस्ततो यूयै-	२५६
प्लक्षो दृढरथो राजा	४२६	बालक्रीडापि भीमाम्भू-	१५५	भयानामद्गहासेन	२८२
[फ]		बालक्रीडा बभूवास्य	१४०	भयानामभवद्युद्ध-	२८७
फल पुष्कलमेतेन	४५१	बाल ते स्मितसंयुक्तं	१३०	भटैश्च पर्यचोद्यन्त-	२५६
फलं रूपपरिच्छेदः	२५४	बालिचेष्टितमिदं शृणोति	२२३	भद्र प्रव्रजितो जातः	२४७
फलपुष्पमनोजेषु	११३	बालेः प्रव्रजन क्षोभ-	६	भद्र शालवने यानि	१०६
फलभारविनम्राग्रा-	३६२	बालोऽमन्त्रकः पापो	१२६	भद्राम्भोजा सुभद्रा च	४४१
फलस्वादपयःपान-	११	बालौ मनोजरूपौ तौ	४६१	भद्रासननिविष्टाय	४२
फेनोर्मोन्द्रधनुस्वप्न-	८६	बाहोः पुण्यस्य चोदात्त	२६७	भद्रे शृणु मनःकृत्वा	३८३
[व]		विभ्रत्यङ्गानि ते कस्मा	१३६	भयवेपितसर्वाङ्गा	१७६
बद्ध्वा च भृकुटीं भीमा	२१६	विभ्राणाल्निदशाकार	२०४	भयशेषेण चाभीला	३६०
बद्ध्वा परिकरं पापाः	२५८	बुद्धस्येवनमिथुक्त-		भयानका ततः प्राप्य	३७७
बद्ध्वा च वृतवान् गाढं	१३३	बृहत्त्वाद्भगवान् ब्रह्म-	२५३	भरणी हास्तिनस्थान-	४२७
बन्दीगृहगृहीतोऽसौ	२६	ब्रजतो दिननाथस्य	२६	भरतस्त्वकरोद् राज्यं	६२
बन्धुं कुमुदखण्डाना	४०	ब्रह्मप्रजापतिप्रायः	२५२	भरतस्य स खण्डास्त्रीन्	१६६
बभूव च तयोः प्रीति-	१५०	ब्रह्मलोकात्किलागत्य	२५८	भरतेनास्य पुत्रेण	२६१
बभूव च मतिस्तस्य	४७६	ब्रवीति देवपद्मेदं	१००	भरते पोदनस्थाने	६२
		ब्रवीति यावदेताव-	४६०	भरतैरावतक्षेत्रे	३४

भर्ता बभूव कौमार.	२६०	भस्ममाद्वावमापन्नो	८७	भूयश्च बोधिमागत्य	४४७
भर्तुं न्तिक्रमानीता	१७६	भागोरुप्यास्तमतिगत	२६७	भूयश्चोचे प्रदेशोऽयं	३७६
भवच्छासनगोपाति-	३५६	भागोऽत्र यो व्यतिक्रान्त-	१४७	भूयोऽपि मानम विभ्रत्	१८४
भवता ताड्यमानाना	२५६	भानावस्तगतं तीव्रे	३७	भूयोऽवदत्ततो घात्री	१२४
भवता सहग मित्र	४४२	भानुकर्णस्ततो जात.	१५८	भूपण भ्रमरा एव	३६
भवता मार्थवाहन	२०	भानुकर्णाऽप्यत्र मुक्त	१६०	भृगुरङ्गिशिरावह्नि.	६६
भवतां दर्शननेद	२६८	भानुविश्वसमानेन	१४५	भृत्यत्वापराधः कः	१८१
भवतो यो मत. कोऽपि	२५०	भार्यां त्रिनयवत्वस्य	४३४	भृत्यैरुपाहृत तुङ्ग	१८६
भवत्कुलनमात्रता	१५५	भावप्रवेदनस्थानं	३६४	भृत्योऽहं तव लङ्केश ।	२६२
भवत्पुण्यानुभावेन	४७३	भावमात्तागृहीतेऽस्मिन्	४८४	भेजे वृत्तीर्यथास्थान	३६०
भवत्यर्थस्य नसिद्धयै	२८०	भावयन्निति सहस्रदीधिति	२३७	भेरीशङ्खनिनादोऽपि	२८
भवद्दुःखाग्रिसतता	४०५	भाषार्द्धमागयो तस्य	८०	भोगभूमिसम शरवद्	५४
भवद्गोरुवदृष्टाया.	४४६	भान्करश्रवणः श्रेष्ठो	४१४	भोगैर्विना न गात्राणा-	१५८
भवद्विधमहागज	४३०	भास्करश्रवणो लेभे	१७८	भोज्य द्विधा यवाग्वादि	४८१
भवनेशां नुरेगाश्च	३२७	भान्करस्यन्दनस्येव	६२	भो भोः सुपुरुषाः कस्मा-	१५८
भवनेऽवर्त्ता तेषु	५४	भास्करीभयमंभूति-	१६२	भ्रमता यत्र वानेन	१०२
भवन्ति कर्मानि यदा शरीरिणा ३३३		भास्वताभामितानथान्	२	भ्रमन्ति येन तियर्त्तु	११८
भवन्ति क्षेमताभावो	३७६	भिक्षा परगृहे लब्धा	६४	भ्रमन्नमौ येन महीचरे-	४१६
भवन्त्युत्करटया युक्ता	३२८	भिक्षादानेन साधूना	७६	भ्रमरालीपरिख्यक्त-	१०८
भवन्त्येवाश्रवा लोके	३६४	भिक्षार्थमागत. सोऽत्र	४५६	भ्रमरासितसूक्ष्माति-	३१६
भवद्दृष्टा नृखाना	२१६	भिक्षा वाराकदम्बेन	२६६	भ्रमरीं भ्रमणश्रान्ता	३३८
भवानपि गतस्तत्र	३०२	भीतान्तर्वदनं साधु	३७२	भ्रमिष्यति रथोऽय से	१८८
भवानामेवमष्टाना-	३२१	भीत्या निरुत्तरीभूता	३७१	भ्रष्टप्राप्तममार्गण	४८३
भवान्त्नः निप्रद्वेन	१५२	भीमातिभीमदाक्षिण्या-	१०१	भ्रातरं निहत दृष्ट्वा	१४५
भवान्त्नर्भवभूरि	४	भीमः कर्मभयैर्ननै-	३५८	भ्रातृभ्या सहितस्तत्र	१६२
भवति पुनरस्माक	१६६	भुक्त्वा भुक्त्वा विपयजनित	१३७	भ्रान्त्वेव भुवन सर्व-	२२८
भवति प्रथमन्तेषा	१५२	भूचरान्मानुषाञ्जेतु	२३५	भ्राम्यन्ती सा ततः साध्वी	४८४
भवितासां मरान् कोऽपि	१६६	भूताद्यर्थां प्रविष्टस्य	७	भ्रूक्षेपमात्रतोऽप्येते	१६०
भवित्प्रति कदा श्लाघ्य	३५३	भूतिकर्म निधिज्ञान	४८२	भ्रूक्षेपानिव कुर्वाणा	१७४
भवित्प्रत्यतोऽनुजावन्त्य	१५३	भूतैश्च ताडनाद् भूतो	१५३	भ्रूलतोत्क्षेपमात्रेण	२१२
भवित्प्रत्यतोऽय भ्रामा-	४१३	भूपालनिवहन्त्य तं	४८४	भ्रूममुत्क्षेपमात्रेण	१२६
भवे चतुर्गतो भ्राम्यन्	३८३	भूमिज फलसपन्न	४८		
भवेऽन्या. कनकोदर्या	३८२	भूमिजीमूतसमक्ता.	२६६	[म]	
भव्यः प्रणामयेतन्य	३२५	भूमिदानमपि क्षिप्तं	३११	मकरन्दरसासक्तो	८६
भव्याना तत्वदृष्टयर्थ	४६	भूमौ गर्जन्ति तोयौघाः	४६२	मकरन्दसुरामत्त-	२१५
भव्याभच्यद्वयेनात्र	२३	भूमौ निक्षिप्तसर्वाङ्गा	३५२	मक्षिकाकीटकेशादि-	३२५
भव्याऽनं पूर्वजा याता	३३७	भूय. सस्यत्र काश्या तो	७५	मङ्गल यस्य यत्पूर्वं	११०
भन्मच्छाश्रियद्भस्मी	१५६	भूयः समीपमाकाश-	३८८	मङ्गल सेविता पूर्वं.	११०
भम्भता नयते लोह-	३१५	भूयश्च जलकान्तेन	४०१	मङ्गलध्वसमीत्या च	३६८
				मङ्गलानि प्रयुक्तानि	१२३

मञ्चस्थाः पुरुषा मञ्चा	११२	मनसापि हि साधूना	३०३	मलीमसा च मे कीर्तिः	२७६
मञ्चस्थस्तम्भमादाय	१२८	मनासि पौरनारीणा-	१६३	मल्लिः सुव्रतनाथश्च	४२४
मञ्चेषु सुप्रपञ्चेषु	४८४	मनुष्यजातिमापन्ना	३८३	मस्तकन्यस्तपुच्छ्याग्रो	३८७
मणिकुट्टिमविन्यस्त-	१०६	मनुष्यत्वं समासाद्य	३२५	महता तूर्यनादेन	१५५
मणिवृक्षा इवोद्भिद्य-	१०३	मनुष्यभावमासाद्य	२३	महता भूतिभारेण	४८६
मण्डितं शक्रचापेन	४६२	मनुष्यभोगः स्वर्गश्च	६०	महतां धर्मसंवेगा-	७७
मण्डनं मुण्डमालाया	३८	मनुष्या एव ये केचि-	३१२	महाकुलसमुत्पन्नो	६६
मण्डलस्यान्तरे कृत्वा	३८७	मनोज्ञामपि ता दृष्ट्वा	१७३	महाकुलसमुद्भूता	१७५
मण्डलेन भ्रमत्यस्य	४०७	मनोभवशरैरुग्रै-	२७१	महागह्वरदेशस्थ-	१५७
मतेर्गोचरत्वं मया ताव-	४८७	मनोरथशतानेष	१५५	महावोषेण चन्द्रिण्या-	७६
मते सुव्रतनाथस्य	३१८	मनोरथोऽयमायाता	३४०	महाजठरसध्याभ्र-	२८३
मत्तद्विपेन्द्रसंघट्ट-	२८४	मनोऽस्य केतकी सूची	१६०	महाजलदसंघात-	२८
मत्तवारणसंक्षुण्णे	२	मनोहरं समारुह्य	४०७	महातरौ यथैकस्मिन्	८६
मत्तस्तम्बेरमारुढै-	१८४	मनोहरा निसर्गेण	२६५	महातिशयसंपन्न	४६
मत्तेभसदृश चेत-	३३२	मनोहराणि दिव्यानि	४६	महादुन्दुभयो नेदुः	५६
मत्तैरपि गजैस्तस्य	२८	मनोहारिभिरुद्यानैः	७८	महादेवीपदात् साथ	४६७
मत्तैर्मध्वासवास्वादा	१०२	मन्त्रिणश्च किलाजस्र	३६७	महादेव्यभिमानेन	३८२
मत्तोऽस्ति न महान् कश्चि-	१४७	मन्त्रिणो भ्रातरश्चात्य	१६६	महादैत्यो मयोऽप्येन-	१८७
मत्पादज रजो मूर्ध्नि	२११	मन्त्रिमण्डलयुक्तस्य	३४०	महानादस्य तस्यान्ते-	१२३
मथुरानगरीनाथः	२६६	मन्दभाग्योऽधुना चेष्टा	४५३	महानिनदसंघट्टैः	२६५
मथुराया सदेशाया-	८	मन्दमारुतसंपृक्त	३६६	महानीलनिभैरेभि-	२६३
मदक्लिन्नकपोलोऽसौ	४०७	मन्दरं प्रस्थितायाम्	२७४	महानुभावः प्रमदाजनस्य	४२२
मदनोरगदृष्टस्य	३४१	मन्दरेण यथा जम्बू-	१६५	महानुभावता योगा-	३७८
मदान्धमधुपश्रेणी-	१६	मन्दानिलविधूतान्त-	२६५	महानुभाववाचैव	३६४
मदिरामत्तवनिता	१३	मन्दोदर्याः परिप्राप्ति	६	महानोकहसंरुद्ध-	३७७
मदिरारागिण वैद्यं	३४७	मन्द्रकोलाहलादेपा	३५८	महान् कलकलो जातः	६४
मददर्शनं तथाप्येतत्	२२२	मन्ये पुरन्दरस्यापि	१६७	महान्तमपि सप्रातः	१६३
मधुघातकृतश्चण्डा	३०७	मन्येऽस्मद्वृत्तयेऽनेन	३६१	महापद्मः प्रसिद्धश्च	८३
मधुदिग्धासिघारायां	८६	मम वज्रमयं नूनं	३६०	महापद्मस्तपः कृत्वा	४३७
मधुनो मद्यतो मासाद्	३२०	मयस्य मन्त्रिणोऽन्ये च	१८७	महापरिग्रहोपेता	३०८
मधुमाससुरादीना-	३२१	मयूरकण्ठसकाशो	४२८	महापापभरक्रान्तो	२४३
मधुलवन्ति ये वाचा-	६१	मयूरसारिकाकीर-	३६२	महापुरुषचारित्र-	२६
मध्यं तासा दशग्रीवो	१७५	मयेयं विदिता वार्ता	३४०	महात्रलोऽपरः कान्त-	४२५
मध्यभागं समालोक्य	२६२	मयोऽपि तनयाचिन्ता	१७४	महात्रलोऽयमेतस्य	२८७
मध्यमर्षभगान्धार-	३६०	मरुणं राजपुत्रीयं	३८६	महात्राहुवनेनान्वं	२१७
मध्येल्लामनारीणा	२३१	मरुत्वमखविध्वंसो	२६३	महाभागा च विजेया	४४१
मध्ये सागरमेतस्मिन्	१०१	मरुत्वोऽथाङ्गलिं वद्ध्वा	२६२	महाभिमानसम्पन्नो	१६६
मध्याहरविसंकाशं	५७	मरुदुद्धूतचमरै-	१२	महामहिपपृष्ठस्थ-	१०
मध्याहरविसंकाशा-	४६४	मलस्त्रेदविनिर्मुक्त	१७	महामासरसासक्त-	४६८

महामासरमान्वाद-	४६८	महोदधिकुमारेण	११५	मालिनो भालदेशोऽथ	१४४
महामेघशो नाम	४२५	महोदधिरवो नाम	११२	माल्यवत्तनय इष्टु	२८६
महागन्ध. गशाङ्कोऽपि	८४	मह्य विपद्यमानाय	२१६	माल्यानुलेपनादीनि	३६१
महारक्षसि निक्षिप्य	८४	मह्या तौ क्षितिपौ नष्टौ	४७५	मास मद्य निशाभुक्ति	३२६
महागम्भेषु संसक्ताः	६५	मातः कस्मादिद पूर्वं	१८६	मांसस्य भक्षणं तेषा	२४४
महाराराजमुतामन्या	४७१	मातरं पितर कान्त	४१६	मासमात्र दशास्योऽपि	२२३
महार्चमणिवाचाल-	३१६	मातर पितर भ्रातृन्	३०७	मासाश्च चतुरस्तत्र	५५
महालक्ष्मीरिति ख्याता	१८८	मातामहृष्टे वृद्धि	१७६	मासान् पञ्चदशा खण्ड	४४५
महालावण्ययुक्ताश्च	१४	मातुः शोकेन सतप्तौ	१६०	मासे च दशमे धीरा-	२४८
महाप्रिदेहवर्षम्	३४	मातुर्द्धे तत. कृत्वा	४६	माहिष्मतीपतिर्धन्य	२३६
महाविनयनम्पन्नाः	३२१	मातुर्द्धे स्थितोऽथासौ	१५५	माहिष्मतीपुरेशोऽथ-	२२६
महाविभवपात्रस्य	२६४	मातुरप्युदरे यस्य	१६	मितेन परिवारेण	१२२
महाप्रतानि पञ्च स्यु-	६०	मातुदानवच श्रुत्वा	१५६	मित्राया बनिता यस्मात्	४७१
महाप्रतान्युपादान	४६१	मातृमेघे वधो मातु.	२४४	मित्रा सुदर्शनश्चूतो	४२७
महाशुक्राभिधः कल्पः	४४०	मातृवसु. सुतोऽह ते	१८४	मित्रोपकरण यस्य	१४८
महाशुक्राभिधानश्च	४४१	मात्रापि न कृत किञ्चित्	३७५	मित्रौ तौ सौरिकस्यार्थ	७६
महामयरमानान्य	२२३	मादृशोऽपि सुदुर्मेधि-	४५३	मिथो विभीषणायेद	२७८
महानाधनयुक्तस्य	२२५	माधव्यास्तनयो नाम्ना	२७२	मिथ्यादर्शनसयुक्ता	२५
महासाधनसम्पन्न-	२११	मानमुद्बहत. पुसो	१८५	मिथ्यादृक् प्रभवो मृत्वा	२७२
महासाधनमम्पन्ना	२०८	मानसे मानसम्भारो	२६६	मिथ्यादृशोऽपि तृष्णार्ता	६५
महानोरभनिष्वाभ-	३६६	मानापमानयोन्तुल्य-	३१०	मिथ्यादृशोऽपि सप्राप्ता	६४
महिमान च दृष्टास्य	१५५	मानी तत्र मरीचिस्तु	५२	मिश्रे कामसे तासा	१७५
महिमान ततः कृत्वा	५२	मानुपद्विपगोवाजि-	४८२	मीने दैत्यगुस्तुङ्ग-	३६७
महिमान पर कृत्वा	४६५	मानुश्रभवमायातौ	११६	मीमासन्ते जुगुप्सन्ते	४४६
महिम्ना सर्वमाकाश	१६	मानेन तुङ्गतामस्य	१२५	मुकुटन्धस्तमुक्ताशु-	२६३
महिरीणा सहस्रैर्यत्	१२	मान्याता वीरसेनश्च	४६६	मुक्तं वायुकुमारेण	४०५
महिरी नस्य वप्राहा	१८८	माभूदाभ्या ममोद्वर्त.	७५	मुक्तपञ्चालया पञ्चा	१४६
महीगोचरनागीभि-	२६३	मानाकृत विधापीडा	४८२	मुक्ताजालपरिक्षिप्त-	१६२
महीव्रमिव तं नाथ	४५	मारीचस्तत आचक्षौ	२१४	मुक्ताजालपरीतेषु	१६४
महीमण्डलत्रिख्यातो	३२६	मारीचोऽम्बरविद्युच्च-	१८७	मुक्ताजालप्रमुक्तेन	१८६
महीमयमिवोत्पन्न	१३६	मारीचो वज्रमध्यश्च	१७१	मुक्तादामचितो हेम-	३७
महेन्द्रदत्तनामासीत्	४३७	मारुति रावणो वीक्ष्य	४१२	मुत्तचन्द्रमिम दृष्ट्वा	३६३
महेन्द्रदुहिता तस्या	३८६	मारुतिर्मास्त वेगा-	४१४	मुखादिस भवश्चापि	२५३
महेन्द्रस्य ततोऽभ्याश	३३६	मार्गागोदण्डकाकाराः	३२५	मुग्ध सर्वजनप्रीतः	४५८
महेन्द्रकुम्भोन्नतपीवर-	४१६	मार्गं तिष्ठ कृपाणस्य	१८४	मुग्धाः पूर्णेन्दुवदना	५७
महैश्वर्यमभेताय	२२०	मार्गाऽथमिति यो गच्छेत्	११६	मुखस्तु दीर्घहुङ्कार	२८२
महोत्सव. कृतस्तस्य	१६६	मार्तण्डकुण्डलो नाम्ना	१२४	मुखन्तीमिति ता वाच	३६३
महोत्सवो दशग्रीवो	२६६	मार्दवेनान्विता केचि-	३०८	मुखन्तौ हेति जाल तौ	२८६
महोत्साहमयो सैन्य	१४४	मालिनः सकथाप्राप्त	१६५	मुखन्नारात्समुद्रस्य	२७४

मुद्गारेणोत्र घोरेण	३८७	मृदु पराभवत्येप	१६१	यतः प्रभृति तत्रास्था	३३४
मुधैव जीवन मुक्तं	२८८	मृदुचित्ताः स्वभावेन	३४२	यतः शृणु ततस्तावत्	३३
मुनिक्षोभनसामर्थ्य-	११३	मृदुतापो निदाघेऽपि	५५	यतः सत्कुलजाताना	१००
मुनिर्धनरवो धीर-	४२५	मृदुमूर्धानमत्यन्त-	२०	यतोऽय प्रतिपक्षेण	२१०
मुनिविस्मभतस्तेन	४७४	मृदुशष्पपटच्छन्न-	१७४	यतो यथा पुरा भ्रान्तौ	११६
मुनिवीर्य प्रभावेण	२१८	मृष्टत्वाद् बलकारित्वा-	३११	यतोऽसौ हरितः क्षेत्रा-	४४४
मुनिवैला प्रतोक्ष्यत्वा-	३३०	मेघमालीतडित्पङ्को	२८३	यत्किञ्चित्कुर्वतस्तस्य	२४८
मुनिवैलाव्रतो दत्त्वा	३२६	मेने च मम सर्वश्री-	२०३	यत्नातावदिहास्त्र त्व	२७४
मुनिसुव्रतनाथस्य तीर्थे	११२	मेयदेशतुलाकाल-	४८२	यत्नेन महतान्विष्य	१४३
मुनिसुव्रतनाथस्य यथेह	४७२	मेरुकूटसमाकार-	५७	यत्प्रत्यरिवलं क्षित-	२६६
मुनिसुव्रतनाथस्य विन्यस्य	३६१	मेरुमस्तकसकाश	५६	यत्तत्सुरसहस्राणा	३१७
मुनिसुव्रतनाथोऽपि	४४७	मेरोः पूर्वविदेहस्य	३४	यत्रच्छन्नसमाकाराः	१०२
मुनिसुव्रतमाहात्म्य-	४४७	मैत्रीसमस्तविषया-	१८	यत्र जाते पितुः सर्वे	१७
मुनेः पिहितमोहस्य	२०८	मोचितान् नारकात् श्रुत्वा	२०२	यत्र ते रुचितं दान	१६८
मुनेरन्तिकमासाद्य	३३०	मोचितास्ते ततस्ताभिः	१७७	यत्र मातङ्गगामिन्यः	१३
मुनेरपि तथा तस्य	३८६	मोहकादम्बरी मत्ता	४३०	यत्र यत्र पटन्यास-	५७
मुहुः प्रचण्डमारोहे	१६१	मोहान्धकारसञ्छन्ने	३२२	यत्र यूयमिद चेष्टाः	३७५
मुहुर्विश्रम्यमानाल्या	३७८	मोहान्धध्वान्तसञ्छन्न	८०	यत्रैव जनकः क्रुद्धो	३७४
मुहूर्त्त परिवर्ज्यान्न	३०१	मौनव्रतं समास्थाय	६३	यत्रौपधिप्रभाजालै-	१०२
मुहूर्त्तत्रिशतं कृत्वा	३२४	मौहूर्त्तेन ततोऽवाचि-	३६६	यथाग्नेः सेवनाच्छीत-	३८३
मुहूर्त्तद्वितय यस्तु	३२४	म्रियमाणो भटः कश्चि-	२८८	यथा च जायते दुःख	३२०
मुहूर्त्तयोजन कार्य-	३२४	म्लेच्छैर्विधर्म्यमाणाया	१६०	यथा च पन्नगैः पीत	३६
मूढाः शोकमहापङ्के	१३१	[य]		यथा च विवर प्राप्य	२४७
मूढाः सनद्घुमारब्धाः	२१८	यः परित्यज्य भूमार्या	२६०	यथा चेक्षुषु निक्षिप्त	३६
मूल हि कारण कर्म	१५३	यः पुनः प्राप्तकालः स्या-	२४८	यथा तात प्रतीक्ष्यस्त्वं	२६७
मूलजाजट्टावद्ध-	१२८	यः प्रयोजयति मानसं शुभे	२३७	यथा तारयितुं शक्ता	३२३
मूर्खगोष्ठोक्तामर्याद	३४७	यः स्मरत्यपि भावेन	३२१	यथा ते बहवो याताः	८६
मूर्च्छया पतिते तस्मिन्	२८५	य यं देश स सर्वज्ञः	६१	यथा दर्पणसक्रान्त-	४२
मूर्धजा एव दर्भाणि	२५७	यत्किन्नरगन्धर्वाः	४४	यथा ब्रवीति वैदग्ध्य	३६५
मृगेशदमनाभिख्यो	४६६	यत्क्षीते पुरे यक्षाः	१४७	यथा मे प्रणताः सर्वे	३५५
मृगैः सिंहवधः सोऽय	२६	यत्क्षराक्षससग्राम	६	यथा यथा समीपत्वं	४५०
मृत. शशीवलीवदो	७५	यत्क्षराजकरासक्त-	२२	यथाऽयमत्र ससक्त-	८६
मृतामिव स ता मेने	१५०	यत्क्षौ पक्षपलाशाक्षौ	५६	यथावत्तस्य पार्श्वेऽसौ	४६२
मृत्युजन्मघटीयन्त्र-	४५२	याचमानौ विदित्वा ता-	५३	यथा विप्रकरणः प्राप्तः	३१२
मृत्युजन्मजरावर्त-	३२२	यजनार्थं च सृष्टाना	२५६	यथाशक्ति ततो भक्त्या	३१३
मृत्युर्देत्यकृतान्तो नु	३८७	यजमानो भवेदात्मा	२५७	यथा शुक्लश्च कृष्णश्च	३६
मृत्योर्दुर्लङ्घितस्यास्य	८६	यजकल्पनया नैव	२५७	यथा सर्वाम्बुधानानां	४३४
मृत्वा कल्पं स माहेन्द्रं	७०	यजार्थं पशवः सृष्टाः	२४४	यथा स्थान ततस्तेषु	५६
मृदङ्गनिस्वन काचि-	१७५	यज्ञेन क्रियते तृप्ति-	२५७	यथास्वं च स्थिताः सर्वे	२६६

यथा हि ह्यर्दितं नात्रं	२४७	यद्यपि स्यात् क्वचित् किञ्चित्	११७	यावदेवं मनस्तस्य	५०
यथा हि जीवितं कान्तं	२५६	यद्यप्यूर्ध्वं तपः शक्त्या	६०	यावदेवं समालोपो	१७०
यथार्हमुपचारं ते	४०८	यद्यप्येषां प्रपन्नेषु	३८३	यावदेवं सुतं शास्ति	१३२
यथेच्छं द्रविणं दत्तं	१४०	यद्येवं भापते व्यक्तं	२१२	यासां वर्चश्च मूर्धं च	५४
यथेदं स्पन्दते चक्षु-	१६४	यद्वा लोकत्रये नासौ	३३२	याहि याहि पुरोमार्गा-	३१
यथेष्टगत्सके न्यस्त-	१५१	यन्त्रनिर्यन्त्रसञ्छिद्र-	४८०	युक्तः परमधैर्येण	२०४
यथैकदिवसं राज्यं	१८४	यन्त्राणि च प्रयुक्तानि	१३५	युक्तः प्रियाणां दशभिः सहस्रै	४२२
यथैव ताः समुत्पन्ना	१११	यन्नाम दृश्यते लोके	३८४	युक्तं प्रहसितेदं ते	४०५
यथोचितं कृतालापाः	३५०	यन्नोपकरयैः साध्य-	१११	युक्तमेतन्न धीराणां	१३१
यथोक्तुष्टसुराणां च	२३	यन्मोहरिपुमुद्वात्य	३१७	युक्तविस्तारमुत्तुङ्गं	१७२
यदथ भ्राम्यतो वृत्त-	४७८	यमस्थानच्युतिं चार्थ-	६	युक्तां मातङ्गमालाभि-	३७७
यदर्थं नीयते तात	१६३	यमस्य किंकरा दीनाः	२०१	युक्तिश्च कर्तृमान् वेदः	२५२
यदाज्ञापयसीत्युक्ता	१४८	यमारातिं समुद्वात्य	२११	युगं तेन कृतं यत्मा-	५०
यदा तदा समुत्पन्नो	८१	यमेन स्वयमात्मानं	२००	युगान्तघनभीमानां	१४४
यदा न प्राप्नुयात् कर्म	२४४	यमो वैश्रवणः सोमो	४४	युगमुत्पद्यते तत्र	३४
यदासौ निर्जितो द्यूते	७४	यशो विभूषणं तस्य	१४६	युद्धं सुलोचनस्योग्रं	७२
यदि च स्युर्भवन्तोऽपि	१७०	यश्च कन्दर्पकौत्सुक्य-	२४६	युद्धाय प्रस्थितो दृष्ट्वा	३८५
यदि तं नानये शीघ्रं	१६४	यश्च रामोऽन्तरे यस्य	४२८	युद्धे वैश्रवणो येन	२०३
यदि तावदयं ध्वस्तो	८६	यस्त्वाक्रोशति निर्ग्रन्थं	३०३	युद्धे सहायतां कर्तुं-	४११
यदि नाम तदा तस्याः	३५६	यस्मादारभ्य मे गर्भे	१३६	युवा सौम्यो विनीतात्मा	३४५
यदि नाम तदा ध्यान-	१६१	यस्मान्मा हननं पुत्र	६५	युष्माकं पूर्वजैर्यत्मा-	११०
यदि नाम तथा साध्या	३०३	यस्मिन् विहरणप्राते	१७	यूकापनयनं पश्यन्	१०५
यदि नाम भजेयेमां	४५१	यस्य काञ्चननिर्माणा	३२५	ये कामवशतां याताः	६१
यदि नाम भवेत् सारः	२३६	यस्याद्यापि वनान्तेषु	१०६	ये कृता मन्दभाग्येन	१०७
यदि नामैष नो साम्ना	६६	यस्यैतत्पाण्डुरं कृत्रं	४८५	ये च ते प्रथमं भग्ना	६६
यदि निःस्पन्दया दृष्ट्या	६२	यस्योपरि न गच्छन्ति	१५७	ये च मत्सदृशाः सर्वे	८२
यदि प्राणिवधः स्वर्ग-	२५६	यां यां जीवा प्रपद्यन्ते	६०	ये तु श्रुताद् द्रुतिं प्राप्ता	५०
यदि प्राणिवधाद् ब्रह्म-	२५७	याति चेदिह ते चेतः	१२५	येन केनचिदुदात्तकर्मणा	२३७
यदि वा तद्देव स्याद्	२५३	यातुधाना अपि प्राप्य	१४४	येन येन प्रकारेण	३०८
यदि सर्वप्रकारोऽपि	२५०	यादृशोऽपि वदत्येव	२	येनायमनया साकं	३५३
यदि त्यादथ विज्ञाता	३४६	यानि यानि च सौख्यानि	३८५	येनावसर्पिणी काले	४३१
यद्दी निवार्यमाणोऽपि	४११	यावच्च तत्तयोर्युद्धं	१२६	येऽपि जातस्वरूपाणां	६०
यदेतत्पर्यते नोक्तं	२४२	यावच्च तुमुलं तेषां	१२६	येऽपि तीर्थकरा नाम	८६
यदैव तेन सा दृष्टा	२०८	यावत्कश्चिन्न जानाति	३६७	येऽपि शोपयितुं शक्ता	८६
यदैवमपि न ध्यान-	१६०	यावन्तयोः समालापो	३४३	ये पुनः कुत्सिते दानं	३६
यद् बुद्धिपूर्वका एते	२५५	यावत्तेन समं युद्धं	१८६	ये भरताद्यैर्दृपतिभिरुद्धाः	४७१
यद्यत्र यावच्च यतश्च येन	४७६	यावन्तः समतिक्रान्ता	६२	योजनप्रतिमं व्योम-	४२८
यद्यत्स्वजनगेहं सा	३७४	यावत्परिग्रहासक्ति-	२५	योजनानि दशावह्य	५३
यद्यद्विचेष्टितं साद्धं	१३०	यावत्प्रसादयत्येकां	२२६	योजनानां शतं तुङ्गः	२७५

योजनाना सहस्राणि	३३	रतव्यतिकरच्छिन्न-	३६८	रवं च सर्वयत्नेन	२१८
योधास्तत्र निराक्रामन्	४१३	रता महत्वयुक्तेषु	३१८	रवेः पन्थानमाश्रित्य	४०६
यो न त्वत्सदृश पापे	३७०	रतिविभ्रमधारिण्यः	४१६	रवेण महता तेपा	४०७
यो न वेत्ति स किं वक्ति	२५२	रन्तु चेद्यातकिक्किन्ध	१३५	रवेरपि कृतस्पर्शः	२८१
योनिद्रव्यमधिष्ठान	४८१	रत्नकाञ्चनविस्तीर्ण-	१०२	रशना विद्युतायुक्ता	२६७
योनिर्विशिष्टमूलादि-	४८१	रत्नचित्रोऽभवत्तस्या	६८	रशनस्पर्शनघ्राण-	३१४
यो यस्तस्या मयालिख्य	१६४	रत्नचूर्णैरतिश्लक्ष्णैः	१०८	रसनाच्छेदन पुत्र	२४१
योपितः सुकुमाराङ्गाः	५५	रत्नत्रितयसपूर्णा	३२६	रसभिद्धोः समादाय	५८
योषित्पुण्यवती सोऽय	२६४	रत्नदामसमृद्धेषु	४७३	रसस्पर्शपरिग्राहि-	३०७
योऽसौ तत्र महारक्षो	८८	रत्नदामाकुल तुङ्ग	२०४	रसातलपुरे तस्य	४११
योऽसौ नियमदत्तोऽभूत्	७०	रत्नद्वीप प्रविष्टस्य	३३१	रसातलमिवानेक-	२०४
योऽसौ भावननामासी-	७४	रत्नमालोऽस्य सभूतो	४४४	रहस्यालिङ्गय दयिता	३६७
यौ करौ वरनारीणा	२१३	रत्नपात्रेण दत्त्वार्ध	५८	राक्षसाधिपपुत्रोऽपि	२६४
यौ पुरा वरनारीभि-	४७५	रत्नबुद्धिरभूद् यस्य	१४	राक्षसेश्वरधन्योऽसि	२२१
यौवनश्रियमालोक्य	२०८	रत्नभूमिपरिक्षिप्त	८८	राक्षसो हि स लङ्केशो	३२
यौवनोऽधमसमुद्भूता	३६	रत्नश्रवः सुतेनाऽसौ	१६५	रागखाण्डवलेह्याख्य	४८१
[र]		रत्नश्रवः सुतेनास्तान्	२३३	रागद्वेपादिभिर्युक्तं	३१०
रक्तकर्दमवीभत्स-	२४	रत्नाशुकध्वजन्यस्त-	१४६	रागद्वेपानुमेयश्च	३१२
रक्तदन्तच्छृङ्खलाया	१७२	रत्नावलीप्रभाजाल-	३१६	राजन् सगर पश्य त्वं	८५
रक्ता च तस्य ता ज्ञात्वा	१६०	रथनूपुरनाथेन्द्र-	१७६	राजपुत्री भवत्वेपा	३५३
रक्तारुणितदेहं च	१४५	रथमारोप्य तावत्त्वं	४८५	राजमार्गं प्रतापस्य	१५६
रक्तोद्विष्टोऽथवा मूढो	३०७	रथमाशु समारुह्य	४१४	राजा च श्रमणो भूत्वा	८८
रक्तोष्ठो हरिचन्द्रश्च	७०	रथारूढस्ततस्तस्य	२०२	राजानं हन्त्यसौ सोम	२५४
रक्षतात्रलमात्मीय	२८३	रथिनो रथिभिः सार्धं	२३२	राजा शुभमतिर्नाम	४७८
रक्षन्ति रक्षसा द्वीप	६४	रथैस्त्वैर्गजैरुष्ट्रैः	१४३	राजा श्रेष्ठो मनुष्याणा	३१७
रक्षसस्तनयो जातो	६४	रथैरादित्यसकाशै-	२०१	राजासीद्वरतो नाम्ना	८५
रक्षसामन्वये योऽभूद्	२२५	रथैर्मत्तगजेन्द्रैश्च	१७	राजीव पौण्डरीकाद्याः	३५४
रक्षात्मान ब्रजामुष्माद्	२८८	रथोत्साहः समारुह्य	२०२	राजः पश्यत एवास्य	२५६
रक्षित यस्य यक्षाणा	६३	रथग्रहारुणीभूत	३६५	राजः सुकोशालाख्यस्य	४७०
रक्षिता बाहुदण्डेन	१६	रदनशिखरदष्टस्पष्ट-	३०	राजोस्तयोः प्राणवियोज-	४७७
रक्षिता मियिला कुम्भो	४२७	रन्ध्र वैश्रवणः प्राप्य	१८५	राज्यं निवेदयत्यस्य	३६७
रक्षितास्ते यतस्तेन	६५	रमणद्विजदष्टाना	३३८	राज्यं सुतेषु निक्षिप्य	६७
रक्षोनाथ परिप्राप्तिं	५	रमणेन वियुक्तायाः	३५६	राज्यश्रिय द्विपन्त्येते	४५८
रजःस्वेदरुजा मुक्तं	३१६	रम्भस्य भवतो यस्मा-	७७	रात्रावपि न सा लेभे	३५१
रजनिपतिवत्क्रान्तो	२३४	रम्भास्तम्भसमस्पर्श-	३१६	रामकेशवतच्छृणु-	७
रजन्या पश्चिमे यामे	४८६	रम्भास्तम्भसमानान्या	१७२	रामकेशवयोर्लक्ष्मी	४३६
रजोभिः शस्त्रनिक्षेप-	२८६	रम्य प्रक्वणमिश्रेण	६८	रामाणामभिरामाणा	११२
रणप्रबोधनव्यूह-	४८१	रम्येवपि प्रदेशेषु	१८६	रामीभिर्ध्यानतो मोघ	३४१
रणे विजित्य तान् सर्वान्	४६६	ररक्ष स्वं च जायां च	४८६	रावणः सयुगे लब्ध्वा	२८०

रावणं स्वजनं प्राप्य	३३६	लङ्का राजगृहं चान्य-	४४२	लोभेन चोदितः पापो	३१२
रावणस्य किल भ्राता	२८	लङ्केन्द्रेण ततो नीतः	१३०	लोप्टुलेशसमो धर्मो	११७
रावणस्य प्रवेशं च	८	लङ्घिताश्चविमानेभ-	१८२	लोहदन्तजतुक्षार-	४८२
रावणस्य बले नामा	३५४	लज्जिता स्वेन रूपेण	५३	लोहिताङ्गो वृषमध्ये	३६७
रावणस्यैव क्रोपेन	२६२	लताभवनमध्यस्था	३२		
रावणेन च विज्ञाय	२७५	लाप्यते भवतः पुत्रा-	१६६	[च]	
रावणेन जितो युद्धे	४७०	लाप्ये यदि न तां रामा-	४०४	वंशानुसरणच्छाया	१११
रावणोऽथ बहन् दीर्घं	४११	लब्धवर्णोपकाराय	१४८	वंशे तत्र महासत्वः	४४४
रावणोऽपि नमस्कृत्य	३०७	लब्धार्थः कृतकृत्योऽपि	७७	वंशो रक्षो नभोगानां	६७
रावणोऽपि मुखं स्नात्वा	२३०	लब्ध्वा च राज्ञीं विद्यां	७६	वकुलामोदनिःश्वासां	१४६
रावणोऽपि स्वमुः प्रीत्या	२२६	लब्ध्वा परमसम्यक्त्व-	३०१	वक्तृत्वं सर्वथाऽयुक्तं	२५१
रावणो बहुपत्नीक-	३४०	लब्ध्वापि दर्शनं सम्यक्	२५	वक्तृत्वस्य विरोधा वा	२५२
रावणो मे महाबन्धु	३००	लब्ध्वा मनुष्यतां कर्म	३८३	वक्त्रचन्द्रेऽक्षिणी तस्या	१५०
रावणो राज्ञसो नैव	३२	लब्धेऽपि मुकुले काण-	२४	वक्षारगिरियुक्तेषु	३४
रिक्तकं तस्य तं दृष्ट्वा	४०१	लभन्ते ता यथाभीष्टं	३२७	वचः सोऽयं ततः प्राह	१७१
रिपव उग्रतरा विपथा	२०६	लाभिर्वातुः स्मृतः प्रातौ	३१३	वचनं परपीडायां	३१६
नदस्तु तेषु कान्यथा	३६६	ललत्प्रालम्बतरल-	३१	वज्रं प्रहरणं त्रीणि	१४०
नक्षत्रधर्मैः सिद्धै-	३१५	ललल्लम्बूपकं काच-	३६६	वज्रकण्ठस्ततः सार्द्धं	१०७
नष्टो ततो वचोभिस्तीं	१२७	लान्नादिरसयोगेन	४७५	वज्रनोभिरिति ख्यात-	४२५
रुद्धन्दुदितहस्तादि-	३२७	लामं मनोरमायाश्च	८	वज्रनाभिश्च विज्ञेयः	४२५
रुपं पश्यन् जिनत्यासौ	४८	लालाक्लिन्ने मुखे क्षिप्तं	२५८	वज्रवाहुरथोऽवोचत्	४५१
रुमेतस्य तं दृष्ट्वा	१८६	लावण्यमङ्गलिमानां	३२४	वज्रवाहुस्तयोराद्यो	४५०
रुपिणीं च मुतां तस्मै	२८१	लावण्येन विलिम्पन्तीं	१४६	वज्रमध्यामधो वक्त्रां	१७२
रुपेण तास्तवस्तेषां	१५८	लुण्ठितं चात्र सकलं	४१६	वज्रमौक्तिकवैदूर्य-	४८२
रुपेण हि कृतं चित्रं	२६२	लुनाम्यतोऽनयोः पश्य	३४६	वज्रवेगः प्रहस्तोऽथ	२८३
रेणुकण्डकनिर्मुक्ता	५५	लेखारोपितवृत्तान्तं	२७४	वज्रसेनो महातेजा	४२५
रेमे च मुदितोऽमीभिः	१०६	लेखार्थमभिगम्यैतो	४११	वज्राभो वज्रवाहुश्च	६८
रेमिरेस्तास्तमासाद्य	२६७	लेभे च लब्धवर्णः सन्	२४६	वज्रायुधस्य पुत्रोऽयं	१२५
रेमे बहुरुसं तस्यां	२२६	लोकं सर्वमतिक्रम्य	४६	वज्रेणैव ततस्तस्य	४०२
रेमे वर्षधराग्रेषु	२१०	लोकत्रयेऽपि तत्रास्ति	३०३	वज्रोदरी समाकृष्टि-	१६२
रैशतानां सहस्रेण	३६७	लोकद्वयफलं तेन	३	वञ्चनादंशुकाक्षेपा-	२२६
रोपञ्चलनसंताप-	२८१	लोकपालानथोवाच	२६७	वञ्चित्वा स्वजनं सोऽथ	४०२
रौद्रवीभत्तशान्ताश्च	४७६	लोकपालाश्च निर्जग्मु-	१४३	वणिग्वितकरो नाम्ना	६६
		लोकपालास्तथैवावस्य	२६८	वणिग्नियमदत्तस्य	६६
[ल]		लोकान्तपर्वताकारं	१४	वणिजौ भ्रातरावास्तां	१०७
लक्षणं यस्य यल्लोके	१११	लोचनच्छाययेवास्या-	३७१	वत्सतावद्धनुर्वेद-	२३३
लक्षणाभरणश्रेष्ठौ	४५	लोचनान्तवनच्छाया	३१६	वत्स (वन) पालीकरावृष्ट-	११
लक्ष्मां चा प्रतिगच्छामः	१४१	लोचने मुकुलीकुर्वन्	३८७	वत्से कासि कुतो वासि	१७०
लक्ष्मणगर्वां च विशालकान्तिः	४२२	लोचानन्तरमुत्पाद्य	४३३	वत्से शृणु यतः प्राप्ता	३८०
लक्ष्म्यां च तदा स्वामी	११२				

वद केनाधरस्तस्मा-	२८१	वरिवस्यामवस्त्राणा-	३३३	वाणिज्यकृपिगोरक्षा	५०
वदिता योऽथवा श्रोता	४	वरुणस्येव न द्रव्य	१५	वाणिज्यव्यवहारेण	४८
वदत्येव ततो व्याधे	११६	वरुणस्याभवद्दुद्ध	४१५	वाणिज्यसदृशो धर्म-	३१२
वदन पाणिपाद च	१०४	वरुणेन कृताश्वासा-	३५४	वाण्येव मधुरा वीणा	३६
वदनेन ततो रक्त	२८६	वर्णात्रयस्य भगवन्	६२	वातातपपरिश्रान्ता	३७५
वदन्त इति ते याता	४०७	वर्तते तिथिरद्येय	३६६	वानात्मक व तत्कर्ण-	१३६
वदन्ति लिङ्गिनः सर्वे	३१०	वर्द्धमानजिनस्यान्ते	६५	वातायनगताश्चेक्षा	१६२
वदन्तीः करुण स्वैरं	४१७	वर्द्धमानजिनेन्द्रस्य	४३०	वातोद्धृता जटा तस्य	५२
वदन्त्यामेवमेतस्या	३६३	वर्द्धमानजिनेन्द्रोक्तः	४	वातोऽपि नाहरत् किञ्चित्	१५
वद भद्र कुतः प्राप्तं	४६८	वर्षाणा समये तस्मि-	२६६	वानरेण सता प्राप्त	११५
वद विश्रब्धिका भूत्वा	२७६	वलयाणा रणात्कारः	३६५	वायुना वायुनेवाशु	४०१
वद्धाशुकेन देवेन्द्रं	२६४	वलीतरङ्गसप्तकात्	४४६	वायुपुत्रसहायत्व	७
वधात् विजयसिंहस्य	५	वल्मीकविवरोद्यातै-	६२	वायुमप्यभिनन्दन्ती	३५१
वधादि कुरुते जन्म	३१६	वशीकरोम्यतस्तावद्	२३५	वायुरप्युत्तमामृद्धिं	३५८
वध्यस्य दीयते कन्ये	२८१	वशीकर्ताहृषीकाणा	६०	वायोः सुतस्यैव कथ	४१८
वन तदेव गच्छाव	३७४	वशीकृतहृषीकात्मा	४५१	वारयित्वेत्यसौ तात	२८५
वनदेव इति भ्रान्ति	१८६	वशीकृतेषु तस्यासीत्	२२५	वाराणसी विशाखा च	४२७
वनस्य पश्य मध्येऽस्य	१६६	वशीकृतैश्च सन्मान	२३८	वार्तया श्रूयते कोऽपि	२३१
वन्दनाय समाधात	६२	वसता गुरुगेहेषु	१६२	वार्तिकैरसुरच्छिद्र	१३
वन्दनायान्यदायातो	८०	वसन्तमालिके पश्य	४०६	वालिशानामनाथाना	७७
वन्दिषोषितशब्देन	४८६	वसन्तमालिके भेदो	३४५	वालेयैर्महिपैर्हसै-	१४१
वन्दित्वा तं प्रदीपेन	४०८	वमन्तमालयाख्यातं	३७३	वासगेहाच्च निःक्रान्ता	४२
वन्दित्वा तुष्टुवुः साधु	३०६	वसन्तमालया चोक्ता	४०६	वासरे प्रथमे वासो	३५८
वपुर्दशरथो लेभे	४७०	वसन्तमालया तस्या	३८६	वासस्य भरतस्यान्ते	३३४
वप्रया चान्यदा जैने	१८८	वसन्तमालया दत्ते	३६४	वासुदेवा भविष्यन्ति	८३
वयं केऽपि महापूता	६५	वसन्तमालया सार्कं	४०	वासुपूज्य सतामीशं	२
वयं प्रभुं समायाता	४६	वसुन्धरश्च विशेयः	४४१	वासुपूज्यजिनान्ताना	४२४
वरं विद्युत्प्रभेणाभा	३४६	वसुर्नामाभवत्तस्य	२३६	वासुपूज्यो महावीरो	४२८
वरं वृणीष्व तुष्टोऽस्मि	२२१	वसो वितथसामर्थ्या-	२४३	वास्यान्तरगिरीन्द्राणा	४७३
वरं समर एवास्मिन्	३००	वस्त्रानुलेपनादीनि	३५	वाष्पाकुलितनेत्राभ्या	३५७
वरं स्वामिनि काम ते	२७७	वस्वशिवप्रमुखा देवाः	२८०	विकचेन्दीवरैर्यत्र	१०२
वरविद्याधरीपाणि	१८७	वह्निवन्मुञ्चति ज्वाला	१७४	विकृत्य जिनरूपं स	५३
वरशय्योचितः काय-	४०८	वाक्य ततोऽनुमन्येदं	३६६	विक्रेता बदरादीना	३२०
वरस्त्रीजनसघातैः	३३३	वाङ्मनःकायवृत्तीना-	३१४	विगता लेपना काचित्	२२६
वराकीमद्गतप्राणा	२७८	वाचयित्वा च तं कृत्वा	२७४	विगमोऽनर्थदण्डेभ्यो	३२०
वराकैर्निहतैरेभिः	१७७	वाजिभिः स्यन्दनैर्नागैः	४८६	विग्रहेऽपि निरासङ्गो	१२१
वरासननिविष्ट ते	४७५	वाजिभिर्वायुरहोभि-	६६	विचिच्छेद स नाराचैः	४८६
वरासनोपविष्टे च	२३४	वाजिमातङ्गपादात-	२२७	विचित्तोऽसि किमित्येव	२७१
वराहवृकमार्जार-	३२६	वाञ्छत नरमात्रेण	१२०	विचिन्तत्येवमेतस्मिन्	१६३

विचिन्तयन्तौ पितरौ	४१६	विद्याधरकुमारो वा	२१४	विधाय महतीं पूजां	२३०
विचित्रकर्मसम्पूर्णा	८४	विद्याधरपुराकारा	६२	विधाय साधुलोकस्य	३०३
विचित्रनरिभक्तोनि	४७३	विद्याधरसमाजोऽयं	१२७	विधाय सिद्धत्रिम्रानां	८५
विचित्रमणिसंभूत-	१०३	विद्याधराणां संघातैः	७६	विधायान्तकसन्मानं	२०३
विचित्रवनिता वाञ्छा	२७७	विद्याधराधिपतिपूजित-	४२२	विधिना च ततो वृत्तं	१६६
विचित्रवाहनाखडा	२०१	विद्यानुयोगकुशलाः	६५	विध्यापकाय दुःखान्ने-	४६
विच्छर्द्रमिव कुर्वाणा	४६१	विद्यात्रलेन यः कुर्याद्	१२६	विनयेन परिष्वक्ता	३३०
विजयश्च त्रिपृष्ठश्च	४६१	विद्यात्रलेन यत्किञ्चित्	२६१	विनीता नगरी नाभि-	४२६
विजयत्यन्दनो वातां	४५३	विद्याभृच्चक्रवर्तित्व-	१४७	विनीता मथुरा चेति	४४०
विजयार्धगिरिस्थानां	१७२	विद्याभृतां तृतीयस्तु	६७	विनीतायां महानासी-	२३६
विजयार्धजलोकेन	२६६	विद्याभृतां पतिस्तस्मिन्	६१	विन्ध्यकूटसमाकारै-	४३८
विजयार्द्धगिरेर्भागे	६७	विद्यामन्दर-संज्ञस्य	१२२	विन्ध्यस्य स्रोतसा नागा	३२२
विजयार्द्धगिरौ तेन	१४०	विद्यायां विदितां पूर्व	१४६	विन्ध्यस्तं भावतो दानं	३१०
विजयार्द्धनगत्येव	१४१	विद्यालाभं महेन्द्रस्य	६	विपरीतं यदेतस्माद्	११८
विजयार्द्धनगे ये च	४११	विद्यालिङ्गनजामीप्यां	१७२	विपाटितौ स्वभावेन	११३
विजयार्द्धं ततश्च्युत्वा	६२	विद्यावतां प्रभोर्भद्र !	३५५	विपुलं शिखरे चैकं	३३
विजयो नाम राजेन्द्रो	४४६	विद्याविनयसम्पन्ने	२५४	विपुलाभ्रंलिहोदार-	३३४
विजयो मिथिला यत्रा	४२७	विद्यासमूहसम्पन्नं	२०७	विपुलेति महादेवी	४४८
विजिता बहवोऽनेन	२८१	विद्या हि साध्यते पुत्रः	१६०	विप्रलापं ततश्चक्रे	१३०
विज्ञातोऽसौ ततस्तेन	७४	विद्युतीव ततो दृष्टिं	३५७	विप्रलाप ततः श्रुत्वा	३६४
विज्ञापयामि नाथ त्वां	३८०	विद्युत्प्रकाशा नामास्य	११२	विप्रलापं परं कृत्वा	४७६
विज्ञापयामि नाथाहं	२३५	विद्युत्प्रभगुणस्तोत्रं	३६४	विवुधेन्द्रादिभोगानां	११८
विज्ञाय क्षणिकां लक्ष्मीं	४३५	विद्युत्प्रभो भवेदस्याः	३४५	विभक्तपर्वतान् पश्यन्	३०६
विज्ञाय मनसः क्षोभ-	२२३	विद्युत्त्वान् चारयानश्च	१४४	विभीषणेन वेगेन	२७६
विज्ञेयो बालिमुग्रीवौ	२०८	विद्युद्दण्डेन संयुक्तं	१७१	विभीषणोऽपि संप्राप्य	४७६
वितथय्याहृतासक्ताः	३०८	विद्युद्रक्तोत्पलच्छाया	३२८	विभीषणोऽप्ययं व्यर्थं	१६०
वितानं दम्भरचितं	२४३	विद्युद्वाहननाम्नासौ	१२६	निधुर्नलिनगुल्मश्च	४२५
वितीर्णस्वजनानन्दो	२०८	विद्युद्विलसिताकारां	१७	विभूतिं मम पश्य त्वं	११५
वितीर्थं बालये राज्यं	२०८	विद्युद्विलसितेनासौ	१६२	विभूत्या परया युक्तो	१६३
वितृप्तिर्हर्षपूर्णाभि-	२६६	विद्युद्विलसितो नाम	४७६	विमलान्तर्धर्माश्च	८२
वित्तानि नानुरागस्य	१६	विद्युन्मालाकृताभिराख्यै-	१८	विमलामलकान्ताद्या	७६
विदित्वा नगरं रुद्धं	१२६	विद्युन्मुखः सुवक्त्रश्च	६८	विमलाय नभस्त्रेधा	२२१
विदित्वावाधिना देवो	४४४	विद्रावयन् मयूखैश्च	१५१	विमानं सूर्यसंकाशं	४१२
विदित्वा वितथां सर्वां	४६२	विधत्तां पञ्चता योग्यां	१६१	विमानप्रभृतीन् जीवा	३१५
विदित्त्वोपशमप्राप्तान्	१३३	विधत्स्य धृतिमत्रेशे	३६२	विमानाभ्यन्तरन्यस्ता-	४१६
विदेहं नृप यातोऽह-	४७२	विधवा भर्तृसंयुक्ता	२७७	विमानैर्विधिच्छायाैः केतु-	४७२
विद्यते सर्वमेवास्य	३४६	विधाय च नमस्कारं	२२१	विमानैर्विधिच्छायाैः संघ्या	१४१
विद्यमाने प्रभो भृत्ये	१४५	विधाय प्रणतिं तत्र	४०१	विमुञ्चन्विपमच्छेदा-	३८६
विद्या चाष्टाक्षरा नीता	१५७	विधाय भूभुजः कृत्यं	२८	विमुञ्चेपुं धरित्रीं वा	२११

विमुक्तं सर्पजालेन	२६३	विश्रब्धा गुरवोऽपृच्छं	१६५	वृत्तान्तं तमहं दृष्ट्वा	२००
विमुक्ताशेषकर्माणः	३१३	विश्रान्तं मूर्च्छया शरैः	२६०	वृत्तान्तगतमेतत्ते	८८
विमुक्त्यानुग्रहीतोऽयं	४५१	विश्रान्ताभ्यां चिराद् दृष्टि-	३७८	वृत्तौ विद्याधरैर्देवै-	२६५
वियुक्त इव जीवेन	४०२	विश्वनन्दीमहातेजा-	४३६	वृन्दानि वानरीणां वा	१२७
वियुक्तानेन बालेयं	३३७	विषयवशमुपेतैर्नष्ट-	४२३	वृद्धिं व्रजति विज्ञानं	३
विरचय्य घनव्यूह-	२३२	विषया हि समभ्यस्ता	३३१	वेदागमस्य शास्त्रत्व-	२५४
विरतिं सर्वतः कर्तुं	२४०	विषये नगरे ग्रामे	२६४	वृषः खनति वल्मीकं	१६१
विरलस्तादृशां लोके	२०७	विषयेषु तथा सौख्यं	८६	वृषघातीनि नो यस्य	१५
विराधितस्यागमनं	७	विषयेष्वप्रसक्तात्मा	३३७	वृषभं दुन्दुभिस्कन्धं	४०
विरूपा धनिनः केचि-	३०६	विपादमतुलं चागा-	१८३	वृषभौ तौ समासज्य	६४
विरूपा दुर्भगाः सन्तः	४३६	विपादे च गते मान्द्य-	२३६	वृष्टिर्विना कुतो मेघैः	५६
विरोचनेऽस्तससर्गं	३२६	विष्णुश्रीः श्रवणो विष्णुः	४२६	वेगादभ्यायतस्यास्य	१६८
विरोधवदिदं कर्म	२७७	विसर्जिताश्च ते तेन	२०५	वेगेन महातागत्य	१२०
विलक्षस्तु प्रिये मृष्य-	३६३	विसर्पणमिमे सूत्र-	२६१	वेगेन स ततो गत्वा	११४
विलक्षाश्चाभवन् यत्ना	१८३	विसृष्टसर्वसङ्गानां	३१८	वैश्यायानं विमानं वा	१४१
विललाप महावत्स-	३६३	विस्फुरच्छफरीनालै-	११	वेष्टितश्च प्रविष्टस्तैः	१७८
विलापमपि कुर्वाणं	४०६	विस्मयं प्रातवान् दृष्ट्वा	२१	वेष्टितो रज्जुभिः क्षोणी	३०३
विलापमिति कुर्वन्त्या	२३६	विस्मरन्ति च नो पूर्वं	१८०	वेष्टितोऽसौ ततस्तुष्टैः	७६
विलीनत्रिपुसीसादि	११६	विस्मृत्य मामिमे देवं	१५६	वैदूर्यदण्डकासक्त-	२३०
विलुप्यमानैः पथिकै-	११	विस्मृत्य सुकृतं कृत्यं	२११	वैदूर्यविटपस्याधो	२२
विलोमानि नयँल्लोमा-	१०५	विहरन् सर्वजीवानां	२१४	वैधुर्यारण्यमध्यस्था	४०३
विवर्णसूत्रसम्बद्ध-	१०	विहस्य स ततः कोपा-	१६२	वैरिणो ब्रह्मवः सन्ति	१००
विवर्तः पञ्चमेऽङ्गस्य	३४१	विहाय तृणचद्राज्यं	४३६	वैवस्वतसुतामैरः	४६३
विविक्तधिषणोनासा-	२८१	विहायस्ति लकेशं स	७२	व्यक्ताकारादिवर्णावाग्	३
विविधरत्नसमागमसम्पदः	२०६	वीक्षमाणः सितान् दन्तान्	१०५	व्यज्ञापयत् सवाध्याक्ष-	४५२
विविधानि विमुञ्चन्त	१७६	वीक्ष्य मङ्गलनादेन	४६०	व्यतीतशोकसंज्ञश्च	४२५
विवेकरहितामेतां	३४८	वीणाभङ्गाररम्याणां	४५०	व्यभिचारमविशय	२७६
विवेकिनोऽपि तस्येदं	३४१	वीणाभिर्वेणुभिः शङ्खै-	१२३	व्यवस्थामात्रकं तस्य	२३१
विवेदेति च धिक्कष्टं	१८४	वीणावेणुविमिश्रेण	२०५	व्यसर्जयच्च पुत्रस्य	४६६
विवेश च कृतार्थादि	४०१	वीणावेणवादि-वाद्येन	४४६	व्याघ्रदृष्टमृगीवेयं	३७३
विवेश भवनं चास्य	४०२	वीतरागान् समस्तज्ञा-	३११	व्याघ्रसिंहादयः पूर्वं	४६
विशान्यर्द्धमुखः क्रुद्धो	४१४	वीतसङ्गास्तमुद्देश-	२४६	व्याघ्रीकीर्तिधरेणापि	४६५
विशद्भिः सैन्यमागत्य	१३६	वीरप्रसविनी वीरा	१५६	व्याघस्तयोरभूदेको	११६
विशश्रमुः क्षणं तस्मि-	२४६	वीरस्य समवस्थानं	४	व्याधीनामतितीव्राणां	३१५
विशालपुलिनाश्वास्य	१६०	बुष्किमं क्षिन्नमच्छिन्नं	४८०	व्याधोऽपि सुचिरं भ्रान्तवा	१२०
विशिष्टचिन्तया यातं	३	वृक्षमूलस्थसाधोश्च	७६	व्याप्तदिक्चक्रवालेन	३३६
विशिष्टाकारसंबद्ध-	२५६	वृक्षान्धकारगम्भीरं	४६२	व्योमचिन्दुरिति ख्यातः	१४७
विशुद्धविनया चावां	३७४	वृत्तं कपायसामन्तै-	११७	व्योमवन्मलसम्बन्ध-	३१८
विशेषतस्त्वया कान्तः	३६२	वृत्तपीनमहाकुम्भं	१६८	व्रणभङ्गं ततस्तस्य	२०१

त्रणभङ्गविधानेन	२३४	शरदन्मोदविलयं	४४६	शिल्पानां शतमुद्दिष्टं	५०
त्रजता रविष्णाप्यूष्यं	१३६	शरत्रिशाकराश्वेत-	१२	शंकरादितदेहत्वाद्	२७४
त्रजद्विरेव तैः केचि-	१३६	शरपुष्पसमाकार-	३८७	शीतलं शीतलध्यान-	१
त्रजन्तीति क्रमेणाल्य	४५०	शरानाकर्णमाकृष्टान्	२६२	शीतला मृदवो धाराः	२६६
त्रजन्ती ब्रज्यया युक्ते	१५०	शरोरं लन्यते धमात्	३१६	शीतांशुकिरणश्वेत-	४०
त्रजन्तु साम्प्रतं जीवा	५१	शरीरक्षेमपृच्छ्यादि-	१६४	शीतोष्णवातयुक्तेषु	४३८
त्रजति क्वेति सामन्तै-	१२१	शरीरमथ नैवात्य	२५६	शुकशोणितमांसास्थि-	२६१
त्रजेदानीं गजेन्द्रत्वं	४०४	शरीरवेपसंस्कार-	४८३	शुकशोणितसंभूत-	२५७
व्रतप्रातेन रामेण	३०	शरीरेणैव संयुक्तां	१५०	शुक्लायां मार्गशीर्षत्य	१००
व्रतमेतद् गृहस्थानां	११७	शरत्लेन सनं युक्तै-	१६५	शुद्धध्यानसमाविष्ट	३१
व्रतमेतन्मयोपात्तं	४०८	शशाङ्कधवलस्तुङ्गो	१४०	शुद्धाभिजनतानुल्या	१००
व्रतान्पणुनि पद्मैयां	३१६	शशाङ्कतदश्याकरै-	१०६	शुभलक्षणसंछन्न-	३३७
[श]		शशाङ्कसौम्यवक्राभि-	२६३	शुभो वायुगतिनाम	३३४
शङ्कयाकाङ्क्षया युक्ता	३२२	शशाक्षान्त्रान्तरे लङ्कां	१३२	शुभ्रं स्तम्भेरमं सिंहं	४८६
शङ्कादिदृष्टिदोषाणा-	४३५	शशिपूर्वस्ततश्च्युत्वा	७६	शुशुभे भ्रातृमध्ये सा	१५५
शक्तापि गगने गन्तुं	३७७	शशिपूर्वां रजोवल्यां	७५	शुश्राव चागतो वार्ता	२०६
शक्ता यस्य न संग्रामे	१२६	शशिभिः पुण्डरीकिण्यां	४३३	शुष्ककाष्ठं दधच्चञ्च्या	१४२
शक्त्या परमया युक्तं	१४०	शशिवंशे समुत्पन्नाः	६७	शुष्कचित्रं द्विधा प्रोक्तं	४८०
शक्नोति बाधितुं सर्वं	३१४	शश्यावलिस्माह्वानौ	७५	शुष्कपत्रादिसंभूतं	४८१
शक्नाद्या देववृषभाः	७७	शस्त्रपञ्जरमव्यत्यो	४१५	शुष्कसागरविस्तीर्णा	१०६
शक्रोऽप्यैरावतं रोषा-	२६३	शल्लायनाणैर्निःशेषै-	२५८	शूरोऽपि न समथोऽहं	३३२
शक्तेन तस्य पुत्राणां	५०	शल्लिभिर्वारनिलयो	१३	शूरो किं कुरुतामत्र	२०६
शतमन्योश्च पुत्रेण	१६६	शाककन्दलवाटेन	११	शूलरत्नं स तत्प्राप्य	२७३
शतवाहुरथ श्रुत्वा	२३४	शास्त्राभिः सुप्रकाशाभि-	१०३	शूलैः पार्श्वैर्मुशुण्डीभिः	२८७
शतवाहिरवस्त्रोपट्	४२६	शान्तिः कृत्युररश्चेति	४२७	शृणु तातोऽस्ति नगर-	३३७
शतानि पञ्च चापानां	४३१	शान्तिर्मांलिवधेनैव	१८०	शृणु दुःखं यथापूर्वं	३५३
शत्रूणां जनयन् क्रमं	१५५	शालिशकसमच्छायान्	१०५	शृणु श्रेणिक वक्ष्यामि	४२४
शत्रूणां नागमं श्रुत्वा	१३६	शासनाचारवृत्त्यर्थं	४४७	शृणु संप्रति ते त्वास्थ्यं	७७
शत्रून्नेवं स निर्जित्य	१४६	शास्त्रेण चोदितत्वाच्च	२५४	शृणु सुन्दर कल्याण्य-	३६०
शनैश्चरं समप्राप्त-	३६७	शिखरं तस्य शैलेन्द्र	७८	शृणोमि वेद्मि पश्यामि	२१६
शब्देन तेन विज्ञाय	२६४	शिखिकेशरिदण्डोग्र-	२८४	शृण्वतोऽग्रमरामत्य	४४४
शमिनोऽमी कथं व्याला	७६	शिथिलायितुमारब्धा	७१	शृखायुष्मन् महीपाल	३२
शयनीयविधौ क्वचित्	४०	शिरःकपालसंवातैः	४६३	शृखेया विष्टपव्यापि-	३६५
शरजलधराकारो	१३३	शिरसा मुकुटन्यस्त-	१६६	शेषं साध्वसमेते च	३६०
शरखं प्राप्य तं नाथ निष्ठिता	१२०	शिरस्तु विद्विषानेव	१८१	शेषा अपि यथास्थानं	२०६
शरखं प्राप्य तं नाथ मुनयो	८१	शिरो नमय चार्पं वा	२११	शेषामिव दशात्याजां	२३१
शरत्ययोधराकार-	२१६	शिलातलविशाला च	३६	शैलकूटगताशङ्कं	३७६
शरत्सकलचन्द्राभं	१	शिलातलेषु विश्रब्धं	१०४	शोकः प्रत्युत देहस्य	१३१
शरत्सरःसमाकारं	१८	शिलाविस्तीर्णहृदयं	२१५	शोकातपरिन्तान-	४०३

शोकादिव रवेर्निर्गमं	३८६	श्रुत्वा कलकलध्वानं	२००	पङ्क्तिशतिसहस्राणि	१४०
शोकान्धनयना किं नु	४०३	श्रुत्वा गवाक्षजालेन	३८५	पष्टिश्च पञ्चसु ज्ञेयः	४३२
शोधयत्यत्र देवानां	२५४	श्रुत्वा च तत्क्षणं युद्धं	१२८	पष्टभक्तेन संसाध्य	१७०
शोभमानां निसर्गेण	२०५	श्रुत्वा च स्वामिनं क्रुद्धं	३६२	पष्टोपवासयुक्ताय तस्मै नाथाय ७२	
शोभयास्यां हिहस्तानां	१७२	श्रुत्वा तं दीनभारवं	२१८	पष्टोपवासयुक्ताय तस्मै रा-	४४६
शांपयेद् वान्भसां नाथं	१२६	श्रुत्वा तद्वचनं सम्राड्	६४	पोडशाब्दसमानेऽपि	३३६
शौर्यरक्षितलोकोऽपि	१४	श्रुत्वा तमासन्नतरं प्रवृष्टः	४२१		
श्रद्धानास्ततो भूत्वा	२४४	श्रुत्वा तां रुदतीमाशु	४५६	[स]	
श्रद्धानो मतं जैनं	३२४	श्रुत्वा तावदियं जाता	३४२	संकथानुक्रमाद् यस्य	४३५
श्रमणश्रावकाणां च	१६६	श्रुत्वा धर्मं जिनं स्तुत्वा	२६	संकथाभिर्विचित्राभि-	२२८
श्रवणं वामतर्जन्या-	३६७	श्रुत्वा धर्मं समाविष्टो	६१	संकथाभिश्च रम्याभि-	२६२
श्रमणत्वधरःकृत्वा	२७२	श्रुत्वा परत्रलं प्राप्तं	२०१	संकल्पमात्रसंभूत-	३१७
श्रामण्यं केवलतोत्पत्ति-	५	श्रुत्वा परिजनादेतां	३४०	संकल्पादशुभाद् दुःखं	३०६
श्रामण्यव्रतमास्थाय	४३३	श्रुत्वा पुत्रशतं बद्धं	४१५	संकेतो न तियौ यस्य	३२०
श्रिता येऽपि सुदुर्गाणि	२२६	श्रुत्वा पूर्वभवानेव	८८	संकोचिना भुजे कश्चि-	१२८
श्रियमिन्द्रःसुते न्यस्य	३०४	श्रुत्वा प्राणसमस्यास्य	२७१	संकीडनैर्वपुष्मद्भि-	११
श्रियां च सम्पादिनि कर्ण-	४१६	श्रुत्वा मारीचवचन-	२१५	संक्षिप्तता विरामस्तु	४८०
श्रीकण्ठमभिधायैवं	१०१	श्रुत्वा राजमुखान्मन्त्री	४७४	संक्षेपेण करिष्यामि	१६१
श्रीकण्ठोऽपि कूले जातः	६६	श्रुत्वा वस्तुन्यदृष्टे च	२५१	संख्यातीतेन कालेन	४४८
श्रीकान्ता सुप्रभातुल्याः	३२८	श्रुत्वा वाक्यमिदं दीनं	१७७	संख्याया गोचरं योऽर्थं	४२८
श्रीमती नाम तस्यासीत्	६७	श्रुत्वा संकुचितभ्रूश्च	२३१	संगीतस्वनसंयुक्तै-	१२
श्रीमतो हरिषेणस्य	६	श्रुत्वैव तामहं हृद्यां	३४३	संग्रामगमनात्तस्य	१५२
श्रोमान् विद्याधराधीशो	३५३	श्रूयन्ते लौकिके ग्रन्थे	२८	संग्रामे शस्त्रसंपात-	२८१
श्रोमालां चाब्रवीदेवं	१३३	श्रेणिक श्रूयतामेया	६३	संग्रामे संशयो माभू-	३५६
श्रीमालायां ततस्तेषां	१२२	श्रेणिकोऽपि महाराजो	२६	संचारयन्तो कृच्छ्रेण	३५१
श्रीमाली चापि संग्राहं	२८५	श्रेणिकद्वयं विजित्यासौ	११०	संज्ञया नारदेनाथ	४७३
श्रीशैलतुल्यैरथ खेचरेशैः	४२२	श्रेणीद्वयं ततस्तेषां	१३७	सन्ततोत्कलिकायोगा-	३५२
श्रीशैलस्य समुद्रवेन सहितं	४१०	श्रेण्योरेवं रम्ययोस्तन्निता-	५६	सन्तापमपरिप्राप्तैः	१३
श्रीशैलाभिमुखं दृष्ट्वा	४१५	श्रेय आदीन् जिनान्पञ्च	४४१	सन्तोषेण च शक्रेण	३००
श्रीवत् स्वर्गात् परिभ्रष्टा	३७३	श्रेयसो देवदेवस्य	११२	सन्त्यज्य खेचरान् सर्वान्	३०२
श्रीवत्सप्रभृतिस्तुत्य	२६३	श्रेष्ठवोष्टौ च तावेव	३	सन्त्यज्य स ततो भोगान्	६२
श्रीवत्समण्डितोरस्को	१५६	श्रेष्ठिनः संगमादेव	१०७	सन्दिग्धमरणं काचिद्	४१६
श्रीवत्सलक्ष्यात्यन्त-	१५२	श्लाघ्यः स बन्धुलोकोऽपि	२६४	सन्देहविषमावर्ता	३४७
श्रीवर्द्धनस्तपःकृत्वा	७०	श्वश्रूः केतुमती क्रूरा	३७३	संध्याकाराः सुवेलाश्च	२२५
श्रीपेणसुतयोरासीद्	३३६	श्वश्रुवादिऋतदुःखानां	३७५	सन्ध्याकारो मनोहादः	१०१
श्रुतं कुशाग्रराजेन	४६२			संध्यानुरक्तमेघौघ-	३३
श्रुतान्तःपुरजाक्रन्दो	४७६	[ष]		सन्ध्यायां कनकाजाता	१७५
श्रुतेन सकलं पश्यन्	२१४	पट्पदैः कृतसंगीता	३६३	सन्ध्यासंवेशनोत्थान-	१७८
श्रुत्वा कन्यापि तां वार्तां	३३८	षड्जर्पभौ तृतीयश्च	४७८	सम्पदा परयोवाह-	८०
		पड्भोगक्षितयः प्रोक्ता	३४	संपकोऽयमनर्थोऽसौ	२४८

संपादितप्रतिज्ञा च	१९४	संसारे भ्रमतो जन्तो-	३३१	स जित्वा तनयं युद्धे	४६६
संपूज्य भक्तितः लुत्वा	४४५	संस्कारो द्विविधः प्रोक्तो	४८०	सजयन्तो बभूवात्ना-	४४७
संप्रत्येव हि सा क्रोडा	१७६	संस्तान्य वेदना क्रोधा-	१४४	सतं विमानमागृह्य	१८६
संप्रथार्य ततः सार्ध-	२३४	संहृत्य प्रतिमायोग-	३०३	सतः सोपानमार्गेषु	११३
संमेष्य प्रथमं सन्ध्यां	३६२	ए एतान् प्रथमं दृष्ट्वा	१०६	स तत्र जिनमर्षित्वा	३३६
संप्रातः सुरसन्मानं	५८	स कथं त्वजनपृच्छां	३७०	स तत्र विपुले शुद्धे	६०
संप्रातं रक्षितं द्रव्यं	२४	सकलस्यास्य देशस्य	१०६	स तान् दृष्ट्वा परं तोषं	१०८
संप्राताः परमं स्थानं	२५	सकलामलतारिश-	२२१	सतापं विजयाद्वाद्रि-	६
संप्रातासि वनं भीमं	३८८	सकाशेऽभयसेनस्य	४७०	स तोषं परमं प्रातः	४०६
संप्रातो नारदः पूजा	२४३	सकृत्वा घरणीं सर्वां	४३७	सत्कथाश्रवणाद् वच्च	४
संप्रातोऽसि कुले जन्म	२५६	सकृदल्पदृष्टत्वा-	३५१	सत्कथाश्रवणौ यौ च	३
संप्राप्य केवलज्ञानं	१७	सकृदेया कथंचिच्चेत्	१६३	सत्कर्मा बालकश्चासौ	२४६
संभवतीह भूवररिपुः पवि-	३६६	सखि कापि ममोत्सवा	४१६	सत्कर्तनमुधात्वाद्-	३
संभविष्यति पण्मासा-	४२	सखि शाल्यत आरभ्य	२७६	सत्तैका प्रथमं तत्त्वं	२२
संभावयामि देवानां	१२६	सखि ! शीलविनारो ने	४१६	सत्त्वं यूपस्तपो वह्नि-	२५७
संनापणं ततश्चक्रे	३६६	सखीं वसन्तमालाञ्च	३६२	सत्त्वं वदन्ति राजानः	२४२
संभूतः कनकावल्पां	१४६	सखीं विचित्रमालास्था	२७६	सत्त्वं शराः पञ्च मनोभवस्य	४२१
संभूतः श्रीप्रभागर्मे	१४६	सखीजनांसविन्यस्त-	३५२	सत्यमन्येऽपि विद्यन्ते	१२५
संभूतं सिंहिकादेव्यां	४६७	सखी वसन्तमाला ते	३७०	सत्यार्जवसमेतासौ	४०३
संभूतस्तपसो नृतिः	४४०	सखीषु निवृत्तेस्तुल्या	३८	सत्येन श्रावितः सत्त्वं	२४२
संभूतो हेमचूलिन्यां	४४३	सखे कस्य वदान्यस्य	३४२	सत्येन मयि देवेन्द्र	२८५
संभूय ते ततो भग्ना	५३	सखे किं बहुनोक्तेन	३४३	स त्वं कथयितुं नैत-	३६०
संभूय नम सर्वेऽपि	१५६	सखेऽत्र न समीपेऽपि	३४७	स त्वं कुरु दयामत्यां	३७३
संभ्रान्तनिश्चलात्कर्ण-	२१७	सखे ! प्रतिनरोच्छेद-	३६०	स त्वं क्रोऽपि महासत्वो	४६
संभ्रान्तवभ्रुनेत्राणा-	३८७	सखे सखेऽलमेतेन	३४६	स त्वं क्रीडसि मण्डूको	१८०
संमुखद्वारविन्यासा-	१०५	सख्यं सन्यस्तविश्रंसि	१२४	स त्वं निराकुलो भूत्वा	२८५
संयुक्तः कालवर्मेण	४३५	सख्या समं सनारोय	३७१	स त्वं भव प्रसन्नात्मा	१०६
संवत्सरशतेनापि	३३७	सख्येव कृपया नीतः	३८५	स त्वं महोत्सवो जातः	१६६
संवत्सरान् दशाष्टौ च	२७३	स गच्छन् क्रौञ्चयुक्तेन	१०६	स त्वं युक्तं कुरु त्वस्ति.	४७४
संवर्तः कुपितोऽवोच-	२५०	सगरस्य च पत्नीनां	८४	स त्वमिन्द्र विपण्णः किं	३०१
संवाहनकला द्वेषा	४८३	स गृही तत्र जातः सन्	४३४	स त्वनुत्सारिताशेष-	२७७
संवाहनकलामेता-	४८३	सङ्गं देशेन येनासौ	२६५	स त्वमेवंविधो भूत्वा	४६
संविभागोऽतिथीनां च	२४०	सङ्गमोत्कण्ठितः सोऽय-	३४१	सदत्यथ जिनेन्द्र त्व	७७
संविभागोऽस्य कर्त्तव्यो	३२०	सङ्गत्य निन्दनं कृत्वा	८८	सदृष्टिबोधचरण-	४२३
संसारपर्यटनेप-	२३	सचापं तमिवासक्त-	१८३	सद्यः प्रगलितस्वेद-	२१८
संसारप्रकृतिज्ञानां	२४६	स चापि चरितं कृत्वा	२७३	सनत्कुमारचक्रेशे	४३३
संसारसागरे भीमे	३२३	सच्चेष्टावर्णनावर्णा-	३	सनेत्कुमारराजोऽभूद्	४३६
संसारस्य निहन्तारं	२	सजलाम्भोदगम्भीर-	११६	सनत्कुमारविव्याति-	८३
संसारचारसक्तस्य	४५२	स जायां सिंहिकाभिख्यां	४६६	सनिदानं तपस्तस्माद्	३३६

सनिर्भराञ्जनक्षोणी	१८२	समस्तजन्तुसबाधं	२४	सम्बन्धो द्विविधो यौनः	२४२
सन्नूपुररणत्कार-	१३६	समस्तजिनत्रिम्बाना	२०७	सम्मोदगिरिमूर्धानं	४४७
सन्तो वदतके यूय	११४	समस्तधरणीव्यापि	२११	सम्मोदभूधरस्यान्ते	१६७
सन्त्यत्र लवणाम्भोधा-	७८	समस्तप्रतिबन्धेन	३१८	सम्यग्ज्ञानाभियुक्तात्मा	२१३
सन्ध्याकारः सुवेलश्च	६३	समस्तभुवनव्यापि-	१८७	सम्यग्दर्शनमायाताः केचि-	
सन्ध्याभ्रपर्वते रम्ये	४०८	समस्ताप्तसमेतश्च	२७५	त्केचित् स्वशक्तितः	२६
सन्ध्यारागेण चच्छन्न	१६७	समस्तोऽपि तस्यास्तदाभीष्टवर्गः	४८	सम्यग्दर्शनमायाताः केचि-	
सन्ध्यारागोपमः स्नेह-	४५२	समाकर्ण्य ततो वाक्य	३४६	त्केचिदगुत्रता	३३१
सन्ध्यालोकपरिध्वस-	३६३	समागममवाप्स्यामि	४०६	सम्यग्दर्शनयुक्तेषु	४७४
सन्ध्यास्य पृष्ठतो यान्ती	४१३	समाधाय मनो धर्मः	११६	सम्यग्दर्शनयुक्तोऽसौ	१३४
सन्नाहमण्डनोपेता	१४३	समान ख्याति येनातः	२७६	सम्यग्दर्शनलाभेन	३२१
सन्निवेश्य समीपेऽस्या	२७४	समानमहिमानाना	२८०	सम्यग्दर्शनसजान-	१२०
सन्मानितसुहृद्बन्धु-	४६४	समाप्तिमेति नो याव-	१६१	सम्यग्दर्शनसंशुद्ध	३०६
सन्मानितस्तेन च मानि-	४१८	समाश्वास्य ततः कान्त-	११२	सम्यग्दर्शनसंशुद्धान्	२३८
सपल्लवमुखे पूर्ण-	३५७	समाश्वास्य ततो नीतो	२७६	सम्यग्दर्शनसम्पन्नाः	६०
सपुत्रा यानमारोप्य	३६६	समासेन सर्वं वदाम्येष तेऽह	४८८	सम्यग्दर्शनसम्पन्नो	२२३
सपुत्राणां च पुत्राणां	८४	समाहूयाखिलान् ब्रन्धून्	४६७	सम्यग्दर्शनसम्बोध-	१७
सप्तमं च तल प्राप्तः	१७०	समितिष्वपि तत्सख्या	३१८	सम्यग्दर्शनहीनत्वा-	११७
सप्तम स्कन्धमारुह्य	३४४	समियामाङ्गिरः शिष्य	१८६	सम्यग्दृष्टिजन सर्वं	६४
सप्तवारान् कृताक्षत्रा	४३७	समीकृतततोत्तुङ्ग	२६	सम्यग्दृष्टिरलं सा हि	३०३
सप्ताष्टजन्मभिः केचि-	३२२	समीय प्रभवस्यापि	२७१	सम्यग्निमित्तं यदि वेत्ति कश्चि-	४७६
सप्तिना पात्यते वाजी	१४४	समीपे च पुरस्यास्य	१६६	स रथान्तरमारुह्य	४८६
सप्तमे तत्कथा सक्त्या	३४१	समीरणकृताकम्पः	३३६	सरसी रहितेऽमुष्मिन्	१८७
सप्रहारव्रणः साश्रु-	१६६	समीररंसश्चास्य	२५६	सरसो मानसारुख्यस्य	३४०
सभवः सभवो मुक्ते	८२	समुत्थिता प्रिया कृच्छ्रा-	३६३	सरस्या जलमेकस्या	३१०
सभृति परमा वाञ्छन्	१४६	समुत्सवस्तत्र कृतो न जाते	४५६	सरागसंयमाः केचित्	३०६
स भ्रमन् बहुदेशेषु	६१	समुदायो विरामश्च	४७६	सरासि पद्मयुक्तानि	५४
समः कुबेरकान्तस्य	३२६	समुद्रविजयश्चित्रा	४२७	सरो जलागमद्वार-	४
ममः सुहृदि शत्रौ च	४५१	समुद्रविपुलं सैन्य	२६३	सरोरुहदलस्पर्श-	३१६
सम तथा ततो यातः	१७३	समुद्रवीचिससक्तः	१८०	सररुहरजश्छत्रा	५४
सम पर्वतके नाथ	२४०	समुद्रा इव चत्वारः	४६२	सर्पेण वेष्टन कश्चि-	१५६
सम बान्धवलोकेन	१६५	समुद्रासङ्गशीतेन	४१५	सर्वं पुरुष एवेद	२४४
समक्ष गुरुलोकस्य	३६१	समुह्य शातयाम्येना	३४६	सर्वकल्याणसप्राप्ति-	४२८
समग्रत्रलसयुक्तान्	३५५	स मृतो विजय गत्वा	४३३	सर्वग्रन्थविनिर्मुक्ता	४१०
स मन्त्री लेप्यकारश्च	४७५	समेतास्तत्पितृभ्या ते	४०८	सर्वज्ञः सर्वदृक् क्वासौ	२५१
सममूर्द्धाग्निनादश्च	४४०	सम्प्रति त्वत्स्मिते नैव	४१	सर्वज्ञोक्तमिदं श्रुत्वा	३१७
समय च समीच्यादि	४८२	सम्पूर्णदोहदा जाता	१३६	सर्वदा युगपत्सर्वे	८७
समयं येऽनगाराणा	३२६	सम्पूर्णयौवन दृष्ट्वा	३३४	सर्वद्रविणसम्पन्ना	४३६
समयेनामुना युक्ता	२६७	सम्पूर्णवक्त्रचन्द्राशु-	३४४	सर्वबन्धुजनाकीर्णः	४०६

सर्वान्धवयुक्तेन	१३४	सहसा निनदं तुङ्गं	३०६	साटोपहरिभिर्युक्तं	४१
सर्वभूषणकैवल्य-	८	सहसा पुष्पकं त्स्वभ-	२१४	साङ्गहासप्रमन्त्रीम-	४६३
सर्वभूतशरण्यस्य	७	सहसा व्रजतस्तस्य	३००	सा तेन क्रीर्तिशुभ्राय	६७
सर्वमैश्वर्यमत्तस्य	२०३	सहसा वियतः प्राप्तः	१६६	सा तैर्यज्ञमही सर्वा	२४५
सर्वतुङ्कुसुमव्यात-	२६५	सहस्रकिरणं प्राप्ता	२३१	सा त्वं कर्मानुभावेन	३८५
सर्वतुङ्जनमनोहारि-	२१५	सहस्रकिरणे कर्म	२७६	सा त्वं केसरिणो वक्त्र-	३८६
सर्वतुङ्गफलपुष्पाणि	१८	सहस्रनयनेनाहं	७३	सा त्वं पुण्यैरिमां वृद्धि	३८४
सर्वतुङ्गफलपुष्पैश्च	३५	सहस्रपत्रनयनं	२६३	सादरं कुलवृद्धाभि-	३५६
सर्वलोकनरानृता	३२७	सहस्रमधिकं जातं	२२६	साधुनाथावमुद्धं ते	५१
सर्वलोकननौनेत्र-	३६६	सहस्ररश्मिना नुक्ता	२३३	साधुना दैत्यनाथेन	१७१
सर्वविद्याकलापारो	३३६	सहस्ररश्मिरुचे च	२३५	साधु साध्विति शब्देन	४६७
सर्वविद्याधरैः सार्द्धं	१२६	सहस्ररश्मिरेवैश्व-	२२६	साधूनां द्वेषकाः पापा	३०८
सर्वशास्त्रार्थकुशलः	२३६	सहस्ररश्मिवृत्तान्ता	२३३	साधूनां संगमः सद्भि-	१३
सर्वशास्त्रार्थकुशलो	३२	सहस्ररश्मिसंज्ञस्य	४७०	साधोः संगमनाल्लोके	३०४
सर्वशून्यप्रतिज्ञाय	२२०	सहस्रशः समुत्पन्ना	४४७	साध्वान्चारविनिर्मुक्ता	६१
सर्वसंसारवृत्तान्त-	३००	सहस्रशिरसो भृत्यौ	७६	सान्त्वयित्वा ततस्तस्या-	३६६
सर्वस्याग्रेसरे प्रीति-	१५	सहस्रांशुरुवाचेति	२३६	सान्त्वयित्वा ततो वाक्यैः	३७८
सर्वाङ्गुलीषु विन्यस्तं	४५	सहस्राणि च चत्वारि	५२	सापि शुद्धमतिः कूर्मां	२४८
सर्वाङ्गरान्मनुष्येण	१६१	सहस्राणि त्र्यशीतिस्तु	४३०	सापेक्षा निरपेक्षा च	४८०
सर्वाङ्गराम्परित्यागं	६०	सहस्रारं सुतं राज्ये	१३२	साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि	४२४
सर्वाङ्गराम्परित्यागे	११७	सहस्रास्ततोऽवोचत्	१४३	साम्भोनीमृतसंकाश-	२७७
सर्वाङ्गराम्भः स्थितः कुर्व-	२४७	सहायवृद्धमेकं च	२०६	सामन्तानुगतोऽथासौ	२७३
सर्वाङ्गसिद्धिसशब्दो	४२५	सहेतुसर्वदोषस्य-	७४	सामन्तैर्निर्जितैः सार्द्धं	४६६
सर्वाहा रतिसंवृद्धि-	१६२	सहोपकरणैश्चासौ	२३५	सामन्तैश्च प्रतीहार-	३१
सर्वे चाहायिता तेन	४०६	सहोपरितले कुर्वत्	३५८	सामर्थ्येनामुना युक्त-	२१६
सर्वे पौराः समागत्य	२०५	साक्रेतनगरासत्रे	६३	सानानिकाः सुराः केचि-	३१५
सर्वप्रामभयं तस्मा-	३११	साक्रेता निजयानाथो	४२६	सामायिकं प्रयत्नेन	३२०
सर्वेषामेव जन्तूनां	३७६	साक्रेतेन रन्तुं चे-	१२४	सा मे त्वं जननीतोऽपि	४५६
सर्वेषु तेषु चैत्येषु	४७३	साक्षादिव शरीरेण	६०	सामोदजनसंघातैः	११
सर्वोद्योगेन संनह्य	६८	साक्षादेव रतिं कस्मा-	२५५	सारङ्गमृगसदृगन्ध-	१२
सर्वेषुपथकरैरौषां	१६४	सागरं सिंहसंयुक्त-	४४५	सारङ्गामुखविर्चसि	३८७
सर्वेन वक्त्रमाच्छाद्य	१२३	सागरस्यापि संरोद्धु-	२२६	सारथिप्रेरणाकृष्ट-	२६०
स समाह्वयितः शिष्यैः	४६२	सागरायां यतीनां च	६०	सारथ्यमापदेशाख्यं	७७
स सम्यग्दर्शनं लेभे	४७१	सागरीणामिमं मृत्युं	८५	सारमेयालुमार्जार-	३२५
सस्मार सा पुरा प्रोक्तां	२४१	सागारं च निरागारं	४४७	सारस्त्रिभुवने धर्मः	३१७
सत्यैः स्वभावसम्पन्नै-	१०२	सागारेण जनः स्वर्गं	११८	सारसारं त्वया दृष्टं	१०१
सहृदेवीचरी व्याघ्रौ	५६४	सा चिल्ला चिपिटा व्याधि-	३०१	सारीकृतसमुद्देशः	११
सहस्रं ध्वंसनं वाचः	१२८	साङ्गलिः सा प्रणम्योचे	३७०	सार्द्धं भीमरथेनासौ	८७
सहसा जनितालोकौ	४७२	साटोपव्यसने नाति-	२०२	सालःकुण्डपुरं पावा	४२७

सा विनीतान्तिकं भर्तु-	४८६	सुचारुवसनोऽत्यन्त-	३२२	सुमित्रस्याभवद् राज्यं	२७०
साहसानि महिम्नो न	१६	सुतः प्रतिब्रलस्यापि	१११	सुमित्रानन्तरं तस्या	४८६
सिच्यमानं मृगाधीशं	४६०	सुतगात्रसमासङ्ग-	४७	सुमित्रायि ततः पुत्र-	४६०
सिच्यमानां श्रियं नागैः	४०	सुतरां स ततो लोके	१४६	सुमित्रोऽथान्यदारण्ये	२७०
सितकेतुकृतच्छायाः	१८८	सुताकाशध्वजस्यापि	२७६	सुमेरुशिखराकारं	४१
सितच्छाया घनाः क्वापि	४६३	सुता च सूर्यकमला	१३४	सुयशोदत्तनामासौ	११६
सितांशुकपरिच्छन्न-	४५३	सुता दशसमुत्पन्ना	६३	सुरक्तं पाणिचरणं	२६७
सितासितारणच्छाये	४५३	मुता मन्दोदरी नाम	१६८	सुरनाथार्पितस्कन्धां	५१
सिन्दूरारुणितोत्तुङ्ग-	२०	सुताविज्ञापनात् त्यक्त-	१००	सुरविद्याधरैः सर्वै-	३३७
सिद्धं सम्पूर्णमव्ययं	१	सुतारेति गता ख्यातिं	२२४	सुरसुन्दरतो जाता	१७५
सिद्धविद्यः प्रभावाढ्यो	४१०	सुतेषु प्रभुतां न्यस्य	६८	सुरा यदि हुतेनाग्नौ	२५८
सिद्धविद्यासमुद्भूत-	१३५	सुतोऽयं मेरुकान्तस्य	१२५	सुरारिखिजटो भीमो	६५
सिद्धार्थां शत्रुदमनी	१६२	सुनामप्रहितैर्यस्य	१७	सुरूपे प्रतिपद्यस्व	१२५
सिद्धार्थां संवरोऽयोध्या	४२६	सुनामापि समं देवै-	२५६	सुरेन्द्रं वीक्ष्य पित्रा ते	१०८
सिद्धो व्याकरणाह्लोक-	३१३	सुन्दरोत्तिष्ठ किं शेषै-	३६६	सुरेन्द्रमुकुटाशिलघ-	१
सिंहकेतुः शशाङ्कास्य	७०	सुदृढं सुकृते लग्नौ	१५३	सुरेन्द्रेण ततोऽसर्जि	२६२
सिंहचन्द्र इति ख्यातः	३८१	सुधर्मोऽर्णवसंज्ञश्च	४४१	सुलेशशौर्यः क्षितिगोचरः	४७६
सिंहव्याघ्रवृकश्येन	११८	सुधारससमासङ्ग-	१३	सुलोचनासुताभर्तु-	३३५
सिंहस्येव यतो मांस-	४६६	सुधीर्वसन्तमालायां	३६६	सुवर्णकक्ष्या युक्तं	१६
सिंहासनस्थितस्यास्य	५६	सुपुत्रेण तथा रक्षः	१६५	सुवर्णकुम्भः सत्कीर्तिः	४४२
सिंहासनानि चत्वारि	३४	सुतमेतेन जीवेन	३०८	सुवर्णखुरशृङ्गाणां	५४
सिंहिका तं तथाभूतं	४६७	सुताजगरनिश्वास-	१५७	सुवर्णपर्वतेऽसुष्मि-	३०६
सिंहव्याघ्रैः श्वभिः सर्पैः	३०८	सुतासौ भवने रम्ये	४४५	सुवर्णवस्त्रसस्यादि-	३२८
सिंहशार्दूलमातङ्ग-	२०४	सुप्रतिष्ठः पुरी काशी	४२६	सुविधाना तपोरुता	१६२
सीमन्तमणिभाजाल-	१७३	सुप्रष्टोऽभवद् राजा	२४०	सुविधिः शीतलः श्रेयान्	४२४
सीव्यन्त्यटन्ति जीर्यन्ति	४४६	सुप्रभा प्रथमा देवी	४४०	सुव्यक्तोऽमृतवेगाख्ये	६५
सुकेशसंज्ञके पुत्रे	१२०	सुबुद्धिनरयत्नोत्थसंस्था	२५५	सुव्रतं सुव्रतानां च	२
सुकेशलसुनेरुद्ध्वं	४६४	सुबुद्धिनरयत्नतथाः	२५६	सुव्रतश्च सुसिद्धार्थो	४४२
सुकेशलस्य माहात्म्य-	४६५	सुभद्रः सागरो भद्रो	६७	सुव्रतस्य जिनेन्द्रस्य	४७२
सुकृतस्मरणार्थं च	१४८	सुभूम इति चाख्यात-	४३६	सुशीलैस्तेरसो सौकं	१०४
सुखं यन्त्रिदशावासे	३१७	सुभूरिलक्षसंख्यासु	३०७	सुपुत्रे सुप्रभापुत्रं	४६१
सुखं विषययोगेन	१३२	सुमङ्गलाप्रियङ्गुश्च	४२६	सुसन्नद्वान् जित्वा तृणमिव	२६६
सुखनिद्राक्षये यद्र-	३१५	सुमर्यादेवदेयं का	३६४	सुसर्वज्ञाश्च किं कुर्यु-	२५३
सुखप्रसूतिमेतस्य	३६१	सुमहानगरं चारु	४२४	सुसोमा च तथा क्षेमा	४४१
सुखार्थं चेष्टितं सर्वं	५६	सुमाली न्यगदच्चैवं	१८८	सुसोमा वत्सनगरीच च	४२६
सुखासनविहारः सन्	२४७	सुमाली माल्यवान्		सुसोमा सीमसम्पन्ना	४२५
सुगन्धिमरुतो यस्य	१८	सूर्यरजा ऋक्ष-	१६३	सुत्वादरससम्पन्नै-	११
सुग्रीवोऽपि हरित्रीवं	६५	सुमाली माल्यवान् सूर्यरजा	१६५	सुहृद्ब्रान्धवसम्पन्नः	४६५
सुग्रीवानन्तरा कन्या	२०८	सुमित्रराजचरितं	२७३	सुहृत्सामु मद्वियुक्तासु	२१४

सूत्रकण्डा पृथिव्या ये	२४५	सौमालिनन्दनो रत्न	३५५	स्थूलप्राणिववादिभ्यो	३३२
सूत्रकण्डा. पुग तेन	६६	सौमालिरपि विभ्राण	२०४	स्थूलन्वच्छेषु रत्नेषु	१५४
सूत्रोऽथ दत्तुमारब्ध	४६८	सौरभाकृष्टमभ्रान्त-	८४६	न्नात्वा भुक्त्वा च पूर्वाह्ने	४११
सूत्रयुगप्रधानन्ते	४६०	स्तनभारद्विवोदारान्	३४४	स्तानैश्शाटक श्रीमान्	४३५
सूत्रो गजपुर कुन्धु-	४२७	स्तनापत्युद्यतिं प्रातौ	३७०	स्निग्धं नक्षप्रदेशेषु	२०
सूत्रोऽथपुर चैषा	१६४	स्तनावनप्रदेहास्ता-	४१६	स्निग्धेन्द्रनीलमकाश	१६८
सूत्रं वीररसेनैव	२०३	स्तनयो. कुम्भयोरेष	३३५	स्नेहपञ्जररुद्वाना	३१६
सूत्र. काले च तस्यैव	८१	स्तम्भितोऽसीह किं सादि	२८२	स्नेहो बभूव चात्यन्त-	३३८
सैनयोऽरभयोर्जात-	१२८	स्तम्भवत्प्रत्युनाकाण्डा-	३६३	स्पर्शतो रसतो रूपाद्	२५७
नैनाजितारिगजश्च	४२६	स्तवकन्तननभ्राभि-	३३८	सृष्टौल्लाटापट्टेन	१७२
सैनानुल्लावसादेन	२८२	स्तवन्तनरन्याभि-	१०३	सृष्ट्यागरुडवातेन	२६३
नेय निदावस्रयांशु-	३७३	स्तवोश्च विविधानुक्त्वा	१७१	सृष्टयन्ननुयाताभ्य	३५२
स्येय पुरयावशेषेण	३६४	स्तुतिं कृत्वा प्रणेषुस्ते	२२	स्फटिमान्तर्विन्यान्तै	१०२
सेयमद्य प्रसृता नु	३६५	स्तुवन्ति काश्चित्तमाले	३६	स्फुटदन्त्योऽन्यमदष्ट-	१२३
सेयमालम्बनैर्भुक्ता	३६५	स्तुत्वाकालत्रये यन्तु	३३०	स्फुटिताभ्या पदादिभ्यो	४३६
सैन्यावृत्तश्च संनह्य	२१२	स्तोत्रमयीह न चाद्भुतमति	३०५	स्फुटितावनिर्पाताम्बु	२१७
सैन्येन दशवक्रत्रय	२६८	स्त्रियं दृष्टाकुचिचास्ते	६६	स्फुरत्किरणजाल च	४६०
सोऽरो मम वान्ताया	६८	स्त्रियोऽपि स्वर्गतश्च्युत्वा	३१४	स्फुरत्स्फुटिङ्गरोद्राग्नि-	११८
सोऽन्यदा कमलच्छत्र-	८८	स्त्रीभिलत परीत त	११६	स्फुरितारसहस्रेण	१८
सोऽन्यदा स्वैरविनात	३६५	स्त्रीरत्न तदसौ लब्ध्वा	७३	स्मरणेपविमिश्र त-	२८०
सोऽपि कालानुभावेन	४८	स्थलजान् जलजान् धर्म-	३०७	स्मरमाणं तदेवेद-	१३०
सोऽपि दत्ताशिष्य ताभ्या	३८५	स्थलीदेशेषु दृश्यन्ते	४६२	स्मितलज्जितदम्भेयां	४४६
सोऽपि नस्तारकीर्त्याख्ये	६५	स्थाणु स्थाञ्छमणोऽय नु	४५०	स्मित्वा ततो जगादासो	१६५
सोऽभवं मार्गमिन्वास्मै	४६८	स्थानञ्च वच्छ मे नाय	३६०	स्मृत्वा च विद्युधै मार्द्व	१०३
सोऽयं मानुषमात्रेण	२६	स्थानोऽजनिष्यथाश्चेत्वं	३६३	स्मृत्वा नु शालिवृत्तान्त	२७८
सोऽयनामन्नदेशस्थो	२७६	स्थापयित्वा गुहाद्वारि	३६८	स्वन्दन परतो वेहि	२८२
सोऽयमिन्द्रो दशास्यत्य	२८१	स्थापयित्वा घनामोद-	२३०	स्थात्ते मतिर्न कर्णा	२५२
सोऽय ज्येनायते कार.	१८१	स्थापयित्वा ततो राज्ये	६३	स्थाद्विचित्रमालया गभा	४६१
सोऽय च्चकर्मवशात् कुलसं-	४२३	स्थापयित्वेति विश्रव्य	६६	स्तस्ताम्बरनमालम्वि-	११३
सोऽवोचदम्ब तेनैव-	४०५	स्थापितस्तेन नीत्वामौ	६८	स्वच्छन्दचागिणामेतद्	४८
सोऽवोचद् गच्छ गच्छ त्व	४०३	स्थित जानत्य साम्राज्ये	३१३	स्वतन्त्रलिङ्गमत्रत्य	४३८
सोऽह साधुप्रमादेन	११५	स्थित लयैस्त्रिमख्यानै-	४७८	स्वतन्त्रानुगताख्येन	४८१
सोऽहमायांदिवोदाग	१४६	स्थितश्चैषोऽन्तिकञ्चोम्नि-	६८	स्वनामत्तहनामानि	६३
सौत्रामणिविधानेन-	२४४	स्थितिर्वशसनुत्तति	४	स्वनान्येकोनयञ्चाशत्	३६१
सौधर्मश्च समाख्यात	४८०	स्थिते तत्रोभयो मेने	३४०	स्वनिवेशे जिनेन्द्राणा	४३४
सौधर्मादिषु कल्पेषु मानसा-	३२६	स्थितो वर्षमहत्त च	२६१	स्वपक्षानुमतिप्राने	२५७
सौधर्मादिषु कल्पेषु यान्ति	३३०	स्थित्यधिमर्गोऽय ते	६६	स्वपक्षोऽयमविशेष	२५२
सौभाग्यादिभिरत्यन्तं	३३४	स्थित्यायुत्या प्रभावेण	३०६	स्वपन्ति मिश्रतीङ्गन्ति	४४६
सौनङ्गलो बभूवसौ	४३३	स्थापिनचारिभिर्युक्त	४७८	स्वनेऽपि च न नामैव	१६३

स्वप्ने समागमो यद्वत्	८४	स्वेदीपाणिरसौ तस्याः	३६३	हारिणः कटकाधार-	३३०
स्वभावमिति कालस्य	३७	स्वेदोदबिन्दुसंबद्ध-	१०६	हारोपशोभितग्रीव	४१
स्वभावमिति सचिन्त्य	४	स्वेषु पुत्रेषु निक्षिप्य	८५	हा वत्स । विनयाधार ।	४०५
स्वभावान्मत्तनागेन्द्र	४५८	[ह]		हावभावसमेताश्च	४४
स्वभावेनैव ते क्रूरा'	१५६	हसावलीनदीतीरे	३०२	हा हता मन्दभाग्यास्मि	३७५
स्वभावेनैव मे शुद्ध-	३३२	हसीविभ्रमगामिन्यो	३२८	हाहाकार ततः कृत्वा	३६६
स्वमिन्द्रं पर्वत स्वर्ग	१४७	हतश्रीमालिकः प्राप्य	२८६	हाहाहूहूश्रुती तस्य	४४६
स्वयप्रभमिति ख्यात	१६२	हता कुदृष्टयो यस्मिन्	१२	हाहाहूहूसमानं स	३६०
स्वयप्रभा च ते दास्ये	२३५	हनूमास्तत्र सप्राप्य	४१०	हासा एव च सद्गन्धाः	३६
स्वयभुव च लोकस्य	२५५	हनूमान् को गणाधीश-	३३४	हासाद्भूषणनिक्षेपात्	२२६
स्वर्गं धिक् च्युतियोगेन	२३६	हनूमानेवमुक्तः सन्	४११	हास्तिनं नगरं रम्यं	४३६
स्वर्गास्तु पुनश्च्युत्वा	११८	हन्ति ताप सहस्राशो	३१५	हिंसाकर्मपरं शास्त्रं	२४३
स्वर्गलोकाच्च्युतो जातो	१४६	हन्यमानं ततो दृष्ट्वा	२६०	हिंसातोऽलीकृतः स्तेया	३१४
स्वर्गे मनुष्यलोके च	३१३	हन्यमाना नरैः क्रूरै-	११४	हिंसाधर्मप्रवीणश्च	२३५
स्वल्प स्वल्पमपि प्राज्ञैः	३२३	हन्यते वाजिना वाजी	२८७	हिमायजमिम घोर-	२४५
स्वसा तस्याभवच्चार्यो	६७	हरिग्रीवोऽपि निक्षिप्य	६५	हिंसाया अनृतात् स्तेयान्	२४०
स्वसारं च प्रयच्छेमा	२११	हरिदासो गतः क्वेति	७४	हिंसित्वा जन्तूसघातं	२२३
स्वसारं यच्छ मा वारुमै	२१३	हरिन्मणिसरोजश्री-	४५	हिडिम्बो हैडिडो डिम्बो	२१६
स्वसेनामुखता जग्मु-	१८३	हरिषेणः समुत्पन्नः	१८८	हितङ्करमपि प्राप्त	३७६
स्वस्ति स्थाने पुगस्पारा	३५५	हरिषेणस्य चरित	१६६	हिमवन्त ततो गत्वा	२२५
स्वस्तिमत्यथ पप्रच्छ	२३६	हर्म्यपृष्ठगतो दृष्ट्वा	१६२	हिमानिलविनिर्मुक्तो	५५
स्वस्मात्तथापि जन्तूना	३८३	हस्तिना केचिदित्यूचु-	३४६	हिरण्यरुचिरा माता	४६५
स्वस्य ये हितमुद्दिश्य	३८३	हस्तत्रितयमात्रस्था-	३८८	हुताशनशिखस्यासीत्	२२४
स्वस्त्रीया मम साध्वि त्व	३६५	हस्ताना सप्तक तुङ्ग	१६८	हुताशनशिखा पेया	३३२
स्वस्त्रीयाश्च सुरेन्द्रस्य	२८४	हस्तावलम्बदानेन	३७८	हृत्वा तद्वयिता राजा	४४४
स्वागतादिकमित्याह	१७१	हा कष्टं वञ्चितः पापो	८६	हृदयव्यथविद्याभृच्चक्रेण	३५५
स्वामिन प्रत्यभिजाय	४५६	हा किं केतुमति क्रूरे	३८६	हृदये शुक्लमालेऽथ	१८५
स्वामिनश्चानुरागेण	२६१	हा देवि ते गतः कालो	३८६	हृदयस्थेन नाथेन	१८१
स्वामिनाधिष्ठिताः सन्त-	२३२	हा नाथ प्राणसर्वस्व-	४०६	हेतुना केन भर्तास्या	३८०
स्वामिनी च जगादैव	३६१	हा पुत्र किमिदं वृत्त	३६६	हेतुना तेन चक्रेशः	४३७
स्वामिनीशासनाद्देवि	३७१	हा भर्तृदारिके पूर्व	१८८	हेमकक्षाभृतः कम्बु	२६६
स्वामिन् भवत्प्रसादेन	४५२	हा भ्रातर्मयि सत्येव	१३०	हेमस्फटिकवैडूर्य-	३१५
स्वामिन्यत्नं रुदित्वा ते	३७६	हा मातः साधुवाक्य ते	३७५	हैयङ्गवीनकाङ्क्षस्य	२६
स्वामी त्वमस्माकमुदारकीर्ते-	४१८	हारमुष्टि ततो बाल	१५४	हस्त्रायुर्विस्तमुक्तस्य	३२६



